



श्रीयुक्त राय धनपतसिंह वाहादुरका आगमसंग्रह इमा भाग ।

## ज्ञाताधर्मकाथांगसूत्र ।

६ प्रष्ठम अंग ।

गणधर सुधर्मास्वामी द्वातन्त्रलसूत्र तदुपरि श्रीमद्दाभयदेवाचार्य्य सूरीद्विताटीका ।  
श्रीमान् परमसंवेगी श्रीवृंटेरायजीतचरणरेणुदासाशुंदास

श्रीभगवान् विजयसाधु ना संसोधीतं ।

पद्मिनी जील्द ।

कलिकातानगयीं नूतन संस्कृतयंवे

१८३३ संवत्सरे श्रीगोपालचन्द्रदेवेन सुद्वितम् ।



ॐ नमः ॥ नत्वा श्रीमन्महावीरं प्रायोऽन्यग्रन्थवीक्षितः । ज्ञाताधर्मं कथाङ्गस्यानुयोगः कश्चिदुच्यते ॥१॥ तत्र च फलमङ्गलाद्विचः  
स्थानान्तरादवसेयः केवलमनुयोगद्वारविशेषस्थोपक्रमस्य प्रतिभेदरूपं प्रक्रान्तगास्त्रस्य वीरजितेन्द्रापेक्षयाऽर्थतः । आत्मागमत्वंत  
च्छिष्यं तु पञ्चमंगणधरं सुधर्मं स्वामिनमाश्रित्यानन्तरागमत्वं तच्छिष्यं च जन्तूस्वासिनसपेक्ष्य परस्परगमतां प्रतिपिपादयिषुः अथ  
वानुगमाख्यस्य तृतीयस्यानुयोगद्वारस्यभेदभूताया उपोह्वातनिर्युक्तेः प्रतिभेदभूतनिर्गमद्वारस्वभावं प्रस्तुतग्रन्थस्यार्थतो महावीरनि  
र्गतत्वमभिधित्सुः सूत्रकारः तेणंकालेणमित्यादिकमुपोह्वातग्रन्थं तावदादावाह । तत्रयोयंगं शब्दः सवाक्यालङ्कारार्थः तेदृत्यत्र

श्रीजिनागमाय नमः । श्रीगुरुभ्यो नमः । तेणंकालेणं तेणंसमएणं चंपाणमणयरी होत्यावणञ्चोती

प्रणम्य श्रीमहावीरं सूत्राचैव सरस्वतीं । वंदे संदूगुरुपादाजं स्तुतुः किञ्चिदुच्यते ।१। ज्ञाताधर्मकथांगस्य सुज्ञबोधैकहे  
तवे स्वात्मपरोपकाराय संतस्येच्छ्यानुभावतः ।२। श्रीजिनवास्यै नमः । नमः श्रीद्दृष्टदेवताय । तिणेकात्तेतेचोये आराने अंतेजाणवो  
तिणेसमयतेषडी वेलादीठोस्जिनेते चंपानगरीउड्ड तेहनोतिणेअरे तेहनोवर्णनञ्चिद्धिदं पूर्णवनवाडीसर्वकहिबो । वर्णनउवाईसत्वं

चयणकारः सप्राकृतशैलीप्रभनो यथा करेभिर्भते इत्यादिषु ततोयवाक्यार्थो जातः तस्मिन्काले तस्मिन्समये यस्मिन्नसौनगरीबभू-  
 वेति अधिकरणेचेयं सप्रमी अथकालसमवधोः कःप्रतिविशेषः उच्यते कालइतिसामान्यकालः अवसर्पिण्याचतुर्थ्यं विभागलक्षणःसप्त-  
 यस्तु तद्विशेषो यत्रसानगरी सराजासुधर्मस्वामीच बभूव अथवाहतीयेवेयं ततस्तेन कालेनअवसर्पिणीचतुर्थ्यारकलक्षणेन हेतुभतेन  
 समयेनतद्विशेषभूतेनहेतुना चम्पानामनगरी होत्यन्ति अभूदासीदित्यर्थः ननुचेदानीमपिसास्ति किंपुनरुद्धितग्रन्थकरणकाले  
 तत्कथमुक्तमासीदिति उच्यतेअवसर्पिणीत्वात्कालस्य वर्षग्रन्थवर्णितविभूतियुक्तां तदानीमासीदिदानीनासीति वसुश्रोत्रि चम्पानग-  
 र्यावर्णकग्रन्थोऽत्वावसरेवाच्यः सचायंचद्वयिभियसमिद्धा ऋद्धाभवनादिभिर्दृष्टिषुपागता स्तिमिता भयवर्जितत्वेनस्थिरा ऋद्धा धन-  
 धान्यादियुक्ताततः पदत्रयस्यकर्मधारयः पमुइयजणजाणवया प्रमुदिता प्रभोदकारणवस्तूनां सद्भावाज्जना नगरीवास्तव्यलोकाः जान-  
 पदाश्चजनपदभवास्तायाताः सन्तोयस्यांसा प्रमुदितजनजानपदा आइसुजणमणूसा मनुष्यजनेनाकीर्णां संकीर्णामनुष्यजनाकीर्ण-  
 तिवाच्ये राजदन्तादिदर्शनादाकीर्णजनमनुष्येत्युक्तं हलसयसहस्रसंकिष्टविकिष्टलट्टपत्तसेउसीमा हलानांलांगलानांशतैःसहस्रैश्च  
 शतसहस्रैर्वीलचैः संक्षष्टाविलिखिता विक्रष्टं दूरं यावद्विक्रष्टावा आसन्नालष्टामनोज्ञानर्षकाभिमतफलसाधनसमर्थत्वात् एतन्ति



द्रुता अविद्यमानराजादिद्विक्तोपद्रुवेत्यर्थः सुभिक्षासुरिचा सुष्टुमनोज्ञा प्रचुराभिक्षा भिक्षकाण्यस्यांसासुभिचा अतएवपाषण्डिनां  
 गृहस्थानां च वीसत्यसुहावासा विश्वस्थानां निर्भयानामनुत्सुकानां वासुखः सुखस्वरूपः शुभोवाचावासो यस्यांसातथा अणोगको  
 डीकोडुं विद्या दृष्टानिष्पुद्गुहा अनेकाः कोटयोद्रव्यसंख्यायां स्वरूपपरिसारेणैवा येषति अनेककोटयः तैः कोटुं विकैः कोटुं स्वभिः आकी  
 र्णासंकुलायासातथा साचासौ निर्दृताच सन्तुष्टजनयोगात्सन्तोषवतीति कर्मधारयोऽतएव साचासौ सुखाचशुभावाचेति कर्मधारयः  
 नडनदृगजस्रस्रसुद्विय वेलंबयकहकपठकलासकआरक्खगलंखमंखदणइस्रतुं बवीणियअणेगतालाचराणुचरिया नटानाटकानांना  
 टयितारो नर्त्तिकाः येदृत्यन्ति अंकोस्ताइत्येके जस्रवरत्नाखेलकाः रात्रःस्रोतपाठका इत्यन्ये मस्राःप्रतीताः मौष्टिकामस्राएव ये  
 सुष्टिभिः प्रहरन्ति विडम्बकाः विद्रुषकाः कथकाः प्रतीताः सुवकाः येउत्सवन्ते नद्यादिकंवातरंति लासकाः येरासकानुगार्थन्ति जय  
 शब्दप्रयोक्तारोवाभांडाइत्यर्थः श्रीख्यायकाः येशुभाशुभमाख्यांति लंखामहावंशाग्रखेलकाः मंखाश्चित्तफलकहस्ताः भिक्षुकाः दृष्टा  
 दृणाभिधानवाद्यविशेषवन्तः तुंबवीणिकाः वीणावादकाः अनेकेचये तालाचराखालादानेन प्रेक्षाकारिणस्रैरनुचरिता आसेविता  
 यासातथा आरामुज्जाणअगडतलायदीहिय वप्पिणगुणोववेया आरमयंतिथेषु माघवीलता गृहादिषु दम्पत्यादीनिते आरामाः

उद्यानानि पुष्पादिमहच्चसंकुलान्युत्सवादौ वड्जनभोग्यानि अगडत्तिभवटाः कृपासडागानि प्रतीतानि दीर्घिकाः सारथ्यः वप्पिणत्ति  
 वेदाराः एतेषां ये गुणाः रम्यतादयस्तरुपेतायुक्ता यासातया उपग्रपइतइत्ये तस्य शब्दत्वयस्य स्थानि शकंध्वादिदर्शनादकारलोपे उप  
 पेतेति भवतीति उब्बिद्धविपुलगंभीरखायफलिहा उविहं उडं विपुलं विस्तीर्णं गम्भीरमलब्धमध्यं खातमुपरिविस्तीर्णं अधः संकटं परिखा  
 चअधउपरिचसमखातरूपा वस्याः सातया चक्रगयमुडुं डिउरोहसयग्विजमलकवाडघणुप्यवेसा चक्राणि अरघट्टगन्तिकाचक्राणि  
 गदाः प्रहरणविशेषाः सुषुंठयोप्येवं अवरोधः प्रतोलीहारिष्ववान्तरप्रकारः संभाव्यते शतघ्नो महायद्यो महाशिलावा याः पतिताः  
 शतातिपुरुषाणां भ्रन्ति यमलानि समसंस्थितद्वयरूपाणि यानिकपाटानि घनानि च निष्किद्राणि तैर्दुःप्रवेशायासा तथा धणुकुडि  
 लवंकपागारपरिक्खत्ता धनुः कुटिलं कुटिलधनुः ततोपि वक्रेण प्रकारेण परिच्छिन्नायासातया कविस्तीसयवट्टरइयसंठियविरायमाणा  
 कं पिशीर्षकैर्दत्तरचितैर्वत्तूलकतैः संस्थितैर्विधिष्टसंस्थानवद्भिर्विराजमाना शोभमाना यासातया अट्टालयचरिचदारगोपुरतोरण  
 उख्यसुभत्तरायसग्गा अट्टालूकाः प्राकारोपरिवर्त्याअयविशेषाः घरिकाअट्टहस्तप्रमाणा नगरप्राकारान्तरालमार्गाः द्वाराणिअवन  
 देवकुलादीनां गोपुराणि प्राकारद्वाराणि तोरणानि प्रतीतानि उन्नतानि गुणवंति उन्नानिचयस्यांसातया सुविभक्ताविविक्तारा



जसार्गीयस्यां सातथा ततःपदद्वयस्य कर्म धारयः क्लेशयरियरइयददफलिहइंदकीलाक्केणनिपुणेनाचार्येण शिल्पिनारचितोद्वे  
वलवान्परिवोर्जला इन्द्रकीलश्च गोपुरावयवविशेषो यस्यांसातथाविषणिविणखेत्तसिप्यियाइस्सनिव्वयसुहा विपणीनांविणक्पया  
नांहट्टमार्गीणांच षण्णिजांच वाण्णिकानांच चेतस्थानंयासातथा शिल्पिभिः कुंभकारादिभिराकीर्णां सुनिर्दत्तैः सुखैश्चसुखिभि  
यीराजदन्तादिदर्शनात्सा तथासिंघाडगतिगउक्कवच्चरंपणियावणविविहवसुपरिमडिया षट्कूटकं तिकोणंस्थानतिकं यत्तरथ्यात्वयं  
मिलति चतुष्कं रथ्याचतुष्कमीलकः चच्चरंवड्डरथ्यापांतस्थानं पणितानिभाण्डानि तत्प्रधाना आपणाहट्टाः विविधवस्तूनि अनेक  
विधद्रव्याणि एभिःपरिमण्डिता सातथा सुरम्मा अतिरमणीया णरवइपविइस्समह्विइपहा नरपतिना राज्ञाप्रविकीर्णां गमनाग  
मनाभ्यां व्याप्तो महीपतिपथो राजमार्गो यस्यांसातथा अथवानरपतिना प्रविकीर्णांविचित्रानिरस्ता शेषमहीपतीनांप्रभायस्यांसा  
तथा अणेगवरतुरगमत्तकुंजरंरहपहकरसीय संदमार्गी आइस्सजाणजुगा अनैकैर्वरतुरगैर्मत्तकुञ्जरैः रहपहकरत्ति रथनिकरैः  
शिविकाभिः स्यन्दमानाभिराकीर्णां व्याप्तयानैर्युगैश्चया सातथातत्रशिविका कूटाकारेणच्छादिताः जंपानविशेषाः स्यन्दमानिकाः  
पुरुषप्रमाणजंपानविशेषाः यानानि शकटादीनि युग्यानिगोक्खदेशप्रसिद्धानि द्विहस्सप्रमाणाणि त्रैदिकोपशोभितानिजंपानान्ये

वेतिविमुञ्जलनवलिणिसोभिचजला विमुञ्जलाभिर्विकसितकमलाभिर्गवाभिर्नलिनीभिः पद्मिनीभिः शोभितानिजलानियस्यांसा  
 तथापंडुरवरभवरणसणिमहिद्या पांडुरैःसुधाधवलैर्वभवनैःप्रासादैःसस्यक्नितरामहितेवमहितापूजितायासातयाउत्ताणनयणपेच्छ  
 णिज्जासौभाग्यातिशयादुत्तानैर्निसिधैर्नयनेलौचनैःप्रेक्षणीयायासापासाईयाचित्तप्रसत्तिकारिणीदरिसणिज्जायांपश्यञ्जुः  
 अमंगच्छतिअभिरूवा मनोज्ञरूपापडिरूवाद्रुदारंद्रुदारंप्रतिरूपंयस्याःसातयेति तत्यणमित्यलकारेचंपायाननर्याःउत्तर  
 पुरच्छिमेतिउत्तरपौरस्थेउत्तरपूर्वायामित्यर्थःदिसामाएत्तिदिग्भागेपूर्णभद्रंनामचैत्यं व्यन्तरायतनं यच्छुत्ति चैत्यवर्णको  
 वाच्यःसचायंचिराईए पुष्पपुरिसपणत्तेचिरश्चिरकालाद्यादिर्निवेगो यस्यतच्चिरादिकं अतएवपूर्वपुरुषैरतीतनरैःप्रज्ञप्तंसमुपादेय  
 तथाप्रकासितंपूर्वपुरुषप्रज्ञप्तंपुराणेचिरादिकत्वात्पुरातनंसद्विएशब्दःप्रसिद्धिःसंसंजातो यस्यतच्छब्दितं वित्तिएत्ति वित्तंद्रव्यं

सेणंचंपाणयरीएवहियाउत्तरपुरच्छिमेदिसीभाए इत्यणंपुनभद्देणामंचेइएहोच्छावस्यत्रोतत्यणं

थीजाणिवो तिणेचंपानगरीयेवाहिरिउत्तरअनेपूर्वविचेएतले ईशानकूणे पूर्णभद्रचैत्यके व्यंतरनाघरनो ठामतेवनमध्ये यच्चगृह

तदस्त्रियस्य तद्वित्तिकं वित्तिवाञ्छितलोकानां ददाति यत्तद्वृत्तिदं नाएत्यायनिर्नायकत्वात् न्यायः ज्ञातंवाज्ञातसामर्थ्यमनुभूततत्प्रसा  
देनलोकैनेति सच्छत्तेसच्छ्रए संधटे सपडागाइपडागभंडिए सहप्रताकयावर्त्ततइतिसप्रताकं एकांपताकामनतिक्रम्य यापताका सा  
अतिपताका तत्रामंडितंयत्ततथा तच्चतञ्चे तिकर्मधारयः सलोमहत्वे लोममयप्रमार्जनकयुक्तं कयवेयहीए कृतवितर्द्धिकं रचितवेदि  
कंलाउल्लोइयमहिहए लाइयंयद्भूमेच्छगणादिनोपलेपनं उल्लोइयं कुड्यमालानां सेट्टिकादिभिः संश्टीकरणंततस्त्राभ्यां महितसिव  
महितंपूजितं यत्ततथा गोसीससरसरत्तचंदणदइरदिसंपंचगुलितले गोशीर्षेणसरसरक्तचन्दनेनच ददरेण वहलेनचपेटाप्रकारेण  
वादत्ताः पञ्चांगुलखलाहस्तकायत्व तत्तथा उवचियचंदणकलसे उपचितानिवेशिताः चंदनकलशाः मङ्गल्यघटाः यत्ततत्तथाचंदणघड  
सुकयतोरणपडिदुवारदेसभागे चंदनघटाश्च सुष्ठु कृता खोरणानिचद्वारदेशभागंप्रतियस्त्रिंसदूचंनघटसुकृततोरणप्रतिद्वारदेशभागं  
देशभागाश्चदेशाएव आसत्तोसत्तविपुलवद्ववर्घारियमस्रदाभकलादि आसत्तोभूमौसम्बद्धः उत्यक्तः उपरिसम्बन्धः विपुलोविस्तीर्णः वृत्तो  
वर्तुलः वग्वारिउत्ति प्रलंबमानः माल्यदामकलापः पुष्पमालासम्बुहो यत्ततत्तथेति पंचवक्त्रसुरभिसुक्तपुष्पपुं जीवयारकलिण पंचवक्त्र  
नसुरभिणामुक्ते नच्चिमे न पुष्यपुं जलचयेनोपचारिणपूजयाकलितं यत्ततथाकालागुरुषवरकुं इरक्तुस्रक्तूवमघमघंतगंधश्रयाभिरामे

कालागुरुप्रभृतीनां धूपानां दोसवसवायसानोर्गंधः उद्भुतउद्भूतस्तेनाभिरामं यत्तत्तथेति तत्रकुंडुरुक्कंचीडा तुरुक्कंसिल्लहकं सुगंध  
 वरंगंधिघिसदूंगंधयेवरगंधावासास्त्रिपां गन्धोत्रत्वास्ति तत्तथागंधवट्टिभूए सौरभ्यातियथाद्गन्धद्रव्यगुटिकाकल्पमित्यर्थः नडनट्टग  
 जल्लसल्लसुद्धियवेलंबगपठगक्कहक्कलासक्क आद्दक्खगलंखंखल्लणद्दल्लतुं ववीणियभयगसागहपरिगए पूर्ववन्वरं भुजगाभुजंगाभोगिन  
 इत्यर्थः भोजकावा तदर्चकाः सागधाभडाः उल्लजणजाणवयस्स विसुयकित्तिएवहोर्जनस्य पौरस्यजानपदस्य जनपदभवलोकस्यविशु  
 तकीर्त्तिकंप्रतीतख्यातिकं वल्लजणस्स आल्लस्सआल्लणज्जे अहोतुर्दातुः आहवनीयं सम्प्रदानभूतं पाळ्ळणज्जे प्रकर्षणआहवनीय  
 मितिगमनिका अच्चणज्जे चन्दनगंधादिभिः वंदणज्जे स्तुतिभिः पूयणज्जे वस्सैः सक्कारणज्जे वस्सैः सम्माणणज्जे वल्लमानवि  
 षयतया कल्ल्माणंमंगलं देवयंचे इयंविणएणं पज्जु वासणज्जे कल्याणमित्यादिधिया विनयेनपर्युपासनीयं दिव्वेदिव्यंप्रधानं सच्चै सत्यं  
 सत्यादेशत्वात् सच्चोवाएसत्यावपातं सत्यसेवसेवायाः सफलकीकरणात् सन्निहियपाडिहेरे विहितदेवताप्रातिहायं जागसहस्सभाग  
 पडिच्छए यागाः पूजाविशेषाः ब्राह्मणप्रसिद्धासत्सहस्साणा भागमंशं प्रतीच्छति आभाव्यत्वात् यत्तथा वल्लजणोअच्चै इआगम्मपुस्सभ  
 द्दं चे इच्चं सेरणंपुस्सभद्दे चे इए एकं णंमहयावणसंडेणं सब्वओसमंतासंपरिक्खत्ते सर्वं तः सर्वं दिच्चुसंताद्विदिच्चुच सेरणंवणसंडेकिरह

किण्वोभासे कृष्णावभासः कृष्णप्रभः कृष्णएवभावभाससइति कृष्णावभासः हरिहरिओषभासे प्रदेशा  
 न्तरएव तत्रनीलोमयूरगलवत् हरितस्तु शुक्रपिच्छवत् हरितालाभइतिट्टाः सीएसीओभासे शीतःसर्शापेक्षया वल्वाद्याक्रातत्वा  
 दितिट्टाः निङ्गेनिङ्गोभासे स्निग्धोनतुरुक्षः तिक्वेतिक्वोभासे तीव्रोवणीदिगुणप्रकर्षवान् किण्वेकिण्वेकिण्वेकिण्वेः कृष्ण  
 क्रायइत्यस्य विशेषणमिति नपुनरुक्ता तथाहि कृष्णःसन् कृष्णच्छायः क्रायाचादित्यावरणजन्यो वस्तुविशेषः एवंनीलेनीलच्छाए  
 हरिहरियच्छाए सीएसीओच्छाए निङ्गेनिङ्गच्छाए तिक्वेतिक्वच्छाए घणकडियकडिच्छाएअन्योन्यशाखापुत्रवेशाहहलनिरंतरच्छा  
 यः रस्मेमहामेहनिकुरंबभूए महामेघवृंदकल्पइत्यर्थः तेषंपायवान्मूलमंतो कंदमंतो कंदोमूलानामुपरिखंडमंतो स्कंधः स्युडंलया  
 मंतो सालमंतोसाला शाखापवालमंतो प्रवालः पल्लवाङ्कुरः पत्तमंतो पुष्कमंतो फलमंतो बीयमंतो अणुपुल्लजायुइलवट्टभावपरि  
 णयाभाशुपूर्येण मूलादिपरिपाय्या सुष्ठुजातारचिराः वृत्तभावंचपरिणताः येतेतथा एक्खंडा अणोगसाला अणोगसाहप्रसाह  
 विड्माअनेकशाखाप्रशाखाविटपस्तन्मध्यभागो वृक्षविस्तारो येषांतिताअणोगणरवामसुप्रसारियगेभ्रमणविपुलवट्टखंडा अनेका  
 भिर्नरवामाभिः सुप्रसारिताभिराह्यो घनोनिविडो विपुलोविस्तीर्णोवृत्तश्चस्कन्धो येषांतिता अच्छिद्रपत्तानीरंध्रवर्णा अविरलप

त्तानिरन्तरदला अवाङ्मैरणपत्ता अवाचीनपत्ता अधोद्युधपलाशा अवातीनपत्तावा अवातोपहतमर्हाँ अगर्द्धेद्रुपत्ता द्रुतिविरहित  
 च्छदानिद्रुयजरढपंडुरयपत्ता अपगतपुराणपाडुरपत्ता नवहरिद्यभिसंतपत्तभारंधकारगंभीरदरिसगिज्जानेनेनहरितेनभिसंतत्ति  
 दीयमानेनपत्तभारेण दलचयेर्नांधकारा अंधकारवन्तोतएवगन्धोराच दृश्यन्ते येतेतया उवनिग्नवनवतरुणपत्तपक्षवकीमलउज्जल  
 चलंतकिसलयसुकुमालपवालसो हियवरंकुरग्नसिहरा उपनिर्गतैर्नवतरुणपत्तपक्षवैरत्यभिनवपत्तगुच्छैः तथाकीमलोज्ज्वलैश्चलङ्घिः  
 किसलयैःपत्रविशेषैः तथासुकुमालप्रवालैः शोभितानि वराकुराण्यश्रिखराणि येषातेतया इहचाकुरप्रवालकिसलयपत्तागाअल्प  
 वज्जरतरादिकालकृतावस्थाविशेषाद्विशेषः सम्भाव्यतइति निञ्चंकुसुमिया कुसुमपूरिताः निञ्चंमाइयामयूरिताः निञ्चंलइया पक्ष  
 विताःनिञ्चंथवइया स्रवकवन्तः निञ्चंगुलइया गुल्मवन्तः निञ्चंगुच्छइयाजातगुच्छाः यद्यपिस्रवकगुच्छयोरविशेषोनामकोपेधीत  
 स्तथापीहविशेषोभावनीयः निञ्चंजमलिया यमलतया समञ्च्रेणितयाव्यवस्थिताः निञ्चंजुअलियाद्युगलतयास्थिताः निञ्चंविणमिया  
 विशेषेणफलपुष्पभारेणततः निञ्चंपणमिया तथेवनंतुमारवाः निञ्चंकुसुमियमाइयलवइयवइयगुलुइयगोच्छियजमलियविणमि  
 यपणमियसुविभत्ति पिंडिमंजरिवडिसगधरा कोचिंक्लंसुमिताद्यैकैकगुणयुक्ताः अपरेतुसमसागुणयुक्तास्तः कुसुमिताश्चते इत्येवं

कर्मधारयः नवरं सुविभक्ताः विविक्ताः सुनिष्पन्नतयापिंछोर्लुब्धः मंजर्यश्चप्रतीतास्ताएवावर्तसकाः शेखरकासान्धारवंतिथेतेतथातथा  
 सुयवरद्विगणस्यणसालद्वयकोइल कोभगभिंंगारककोडलकजीवजीवकनंदीसुहकविलपिंगलखगकारंडवचक्रवाय कालहंससारसअरण्ये  
 सउगणगमिच्छणविरद्वयसद्दुद्वयसद्धरसरनाइए शुकादीनां अनिकेषां शकुनगणानां भियुनैर्विचिंतं शब्दोन्नतिकं  
 धोन्नतशब्दकंमधुरस्वरंच नादितं लपितंयस्मिन्सतथा वनखंडइतिप्रकृतं सुरस्येसंपिंडियदरियभमरमज्जकरपहकरपरिलित्तमत्त  
 छप्पयकुसुमासवलोलमज्जरगुमगुमंतगुंजंत देसमार्गे संपिंडिता दृप्तममरमधुकरीणां वनसत्कानामेव पहकरहत्ति निकरायत्व  
 सतथा तथापरिलीयमाना अत्यतःआगत्यलयंयांतो मत्तषट्पदाः कुसुमासवलोलाः किंजल्कलंपटाः मधुरं गुमगुमायमानाः गुंजं  
 तश्चशब्द विशेषं विदधानाः देशभागेषु वस्यसतथा ततःकर्मधारयः अन्भिंतरपुष्पफला वाहिरपत्तुच्छन्ना पत्तेद्विय पुष्केद्वियउच्छिन्न  
 पलिच्छन्ना अत्यन्तमाच्छादिता इत्यर्थः एतानि पुनर्द्व्याणां विशेषणानि स्यादफलेमिष्टफलः इतोवनखण्डस्य भूयोविशेषणानिनि  
 रोयएरोगवर्जितः गायानिहं गुच्छगुम्भमंडवगसोहिण विचिन्तसुहकेउभूए विचित्वान् शुभान्केतन् ध्वजान् भूतःप्राप्तःवाविपुक्खरि  
 णिदीहिद्या सुनिवेशिस्यरम्भजालहरए वापीषुचतुरस्रासु पुष्करिणीषु वृत्तासु पुष्करवतीषवा कीर्धिकासु च ऋजुसारिणीषु सुष्टुनिवे

शितानिरस्याणि जालगृहकाणि यत्रसतथा पिंडिसनीहारिससुगंधसुरभिसणहरंचमहया गंधदुग्निचसुयंता पिंडिसनीहारि  
 मंपुजलसन्नहरूपा दूरदेशगामिनीच सुगन्धिसन्नन्धिकां सुभसुरभिस्यो गन्धान्तरेभ्यः सकाशान्ननीहरायासातथा तांचसहतासोच  
 बाप्रकारेण विभक्तित्वयावात्रंहतीवा गन्धएव प्राणहेतुत्वात् तदप्रिकारित्वात् गन्धप्राणिसासुं चन्तः इतिट् चविशेषणसेवलितोऽन्या  
 न्यपि षाणाविहगुच्छगुन्धसुं डं वकषरकसुहसे उकेउवज्जला नानाविधाः शुच्छाः गुल्मानिमण्डपकागृहाणिचयेपांसन्ति तैतथाशुभाः  
 खेतवोमार्गाः आलवालापाल्योवा केतवश्चध्वजावज्जला वहवोयेषां तैतथा ततः कर्मधारयः अणेगरहजाणजोगसि विधपविमोयणाअने  
 केषारथादीनामघोतिविलीर्णत्वात् प्रविमोचमंयेषु तैतथा सुरमापासाइयादरिसणिज्जा अभिरुवा पडिरुवातस्सगुं वणसुं डसु वज्ज  
 मज्जदेसभाएएत्यणंमह एके असोगवरपायवेपस्यत्तेकुसविकुसविसुद्धरक्खल्लेकुशादर्भाः विकुशावल्काजादयसौर्विमुद्धं विरहितं वज्जानु  
 रूपंमूलंसमीपयस्याः सातथा मूलमंतेइत्यादि विशेषणानि पूर्ववद्वाच्यानि यावत्पडिरूवे सेगुंअसोगवरपायवे अणेहिं वज्जहिंतिव  
 एहिंलउएहिं छित्तोएहिं सिसीसेहिं सत्तवस्येहिं दहिवस्येहिं बुद्धेहिंधवेहिं चंदणेहिं अज्जुणेहिंनिवेहिं कुडएहिंकलंवेहिंसव्वेहिंम  
 णसेहिं सालेहिंतमालेहिं पियएहिंपियगूहिं पुरोवएहिं रायक्खेहिंनंदिरक्खेहिंसव्वओसमंता संपरिक्खत्ते तेणंतिलयालयाउय



जावनंदिरक्खा कुसविक्रसविशुद्धरक्खलूलालंतो इत्यादिपूर्ववत् यावत्पडिरूवा तेणंतिलया जावनंदिरक्खा अथाहिंबह्वहिं पउ  
मलयाहिंनागलयाहिं असोगलयाहिं चंपगलयाहिं चयलयाहिंबणलयाहिंवासंतिलयाहिं कुंदलयाहिं सामलयाहिं सब्बओसमंता  
संपरिविखत्ता ताणंपउमलयाओ निच्चंजुसुभिया जावपडिरूवा तस्सणंअसोगवरपायवस्सहेट्टाईसिखं धसमिहीणस्सं धासन्नमित्य  
र्थःएत्यणंसहंएके पुढविसिलापट्टपसत्ते एत्यणंति शब्दोशोकवरपादपस्य यदधोनेत्येवंसब्वधनीयः विक्खं भायामसुप्पमाणे विणएहे  
अंजणकवणे कुवलयहलहरकोसेज्ज आगास्सेकसकज्जलंगी खंजणसिंगभेयरिठ्ठयजंब फलअसणकासायबंधणानीणुप्पलपत्तबिकार अय  
सिकुसुमप्पयासे नीलइत्यर्थः अंजनकोवनस्यतिःहलहरकौसेयं बलदेववस्सं कज्जलाङ्गीकज्जलगट्टहं ष्टइभेदः सदिघादिदिविघाणच्छेदः  
रिष्टकंरत्नं असनकोवीयकांभिधानोवनस्यतिः सन्वन्धणं सनपुष्पट्ठत्तं सरकतमसारकलिलनयणवियरासिवस्से मरकतंरत्नं मसारी  
मखणीकारकः याषाणवियेप्रः कडित्तंति कडित्तं क्वत्तिवियेप्रः नयनधीका नेलमध्यतारा तद्रासिवर्णः कालइत्यर्थः निद्धघणेख्लिग्घ  
घनः अट्टसिरे अट्टशिराः अष्टकोणइत्यर्थः आयंसतलोवसे सुरस्से ईहाभिगउसभतुरगनरमगरवालगकिन्नरररसरभ चमरवणालय  
पउमलयभत्तिचित्ते ईहाष्टगाःटकाः व्यालकाः स्वापदभजगाः आईणगरूवबूरणवणीय तलफासे आजिनकांचम्मं मयवस्सं रूतं

प्रतीतं ब्रूरोवनस्पतिविशेषः तूलमर्कतलंसीहासगुणसंठिएपासाईएजावपडिरूवेत्तिइहग्रन्थे वाचनाद्वयमस्मितवैकाट्टहत्तरांब्याख्यास्यासौ  
द्वितीयातुप्रायः सगमैवयञ्चततदुरवगसंतदितरव्याख्यानतोवोद्व्यमितिकोणिएणासंरावत्तिकोणिकनामाश्रेणिकराजपुलोराजाहोत्य  
त्तिअभवत्वणुत्तितद्वर्णकोवाच्युः सचमहयाहिसवंतमहंतमलयसंदरमदिंदसारेइत्यादिपसंतडिंवडसरंज्जं पसाहेमागेविहरइइत्येत  
दंतः तलमहाहिमवानिवमहांन् शेषराजापेक्षया तयामलयः पर्वतविशेषो संदरोमेरुसहेन्द्रः गन्नादिदेवराजसुद्वत्वारः प्रधानोयः  
सतथा तथाप्रशानानि डिस्वानि विघ्नाः उमराणि राजकुमारादिद्रुकृतविड्वरावस्मिं सथा प्रसाधयन् पालयन्विचरत्तिआस्तेस्येति  
समग्रं पुनरग्रे व्याख्यास्यामः येरत्तिश्रुतादिभिर्द्वत्वात् स्थविरः जातिसंपन्नइति उत्तममाट्टकपञ्चशुक्तइति प्रतिपत्तव्यमन्ययामाट  
कपञ्चसस्यन्नत्वं पुरुषमात्रस्यापिस्यादिति नास्योत्कर्षः कश्चिदुक्तोभवेदुत्कर्षाभिधानार्थं चास्यविशेषणकलापोपादानं चिकीर्षितमिति

चंपाएणयरौए कोणिएणसंरायाहोत्या वसुञ्चोतिणंकालेणं तेषंसमएणं समणस्सभगवओमहावीर

छेतेहनीलोकंपजाअर्चीकरे तेहनेवर्णनककहिबो तिहांचंपानगरीये कोणिकएहवेनामश्रेणिकनोपुत्रराजातिहां तेहनेवर्णनहिबे

एवंकुलसंपन्नोपि नवरंकुलपैटकः पञ्चः तथावलं सहननविशेषसमुत्थः प्राणः रूपमनुत्तरसुररूपादनंतगुणं शरीरसौन्दर्यं विनया  
दीनिप्रतीतानि नवरंलाघवद्रव्यतोऽल्पोपधित्वं भावतोगौरवत्वयत्यागः एभिःसम्यन्तोयःसतथा औयंसित्ति औजोमानसोऽवष्टंभस्त  
द्वानोजस्वीतेजः शरीरप्रभातद्वांखोजस्वी वचोवचनं सौभाग्याद्युपेतं यस्यास्ति सवचस्वी अथवावर्चस्तेजः प्रभावद्रव्यार्थस्तद्धान्वर्चस्वी

स्त्रंतेवासीञ्जसुहृन्मेषांसंधेरे जाइसंपन्ने कुलसंपन्ने बलरूवविणयणाणदंसणचरित्तलाघवसं  
पन्ने औयंसित्तिंसी वच्चंसौजसंसौजियकोहे जियमाणेजियसाएजियलोहे जिद्रंदिएजियनिहेजि

तिण्णकालेतिण्णसमे अमणभंगवंतस्मीमहावीरदेवना अंतेवासीशिव्य पूज्यस्त्रीसुधर्मास्वामीनामा थिवर जातिमातानोपच्चनिर्मलतेणे  
संपूर्णसहित कुलपितानोपच्चनिंकलंकतेणेसहित बलसंधयणसम्बन्धी बलजोरतेणे सहितरूपशरीरनो आकारतेणे सहितविनय  
गुणसंपन्न ज्ञानश्रुतादिकतेणेसहितदर्शनसमकित साचीमत्तिसर्दहणानेविषे तेणेसहितचारित्तेसहित लाघवद्रव्ययकी अल्पउपधि  
राखेभावयकीत्रिण्णगरवपरिहरे मननेचटतेभावच्छे तेजशरीरनी प्रभातेणेसहित सौभाग्यादिगुणसहित उत्तमयशवंत जिणे

यशस्वी ख्यातिमान् इहविशेषणचतुष्टयेष्वनुस्वारः प्राकृतत्वात् जितक्रीडत्यादि तुविशेषणसप्तकं प्रतीतंनवरंक्रोधादिजवः उदय  
 प्राप्तक्रोधादिविफलीकरणतोवसेचः तथाजीवितस्य प्राणधारणस्थाथावांछा सरणमुक्तः जीविताशा सरणभयवि  
 प्रमुक्तस्तदुभयोपेक्षकइत्यर्थः तंयत्तपसाप्रधानउत्तमः शेषमुनिजनोपेक्षया तपोवाप्रधानंयस्यस तपःप्रधानः एवंगुणप्रधानोपिनवरं  
 गुणाःसंयमगुणाः एतेनचविशेषणद्वयेनतपःसंयमौ पूर्वत्रद्व्याभिनवयोः कर्मणोर्निर्जरणानुपादानहेतुमोक्षसाधनेमुमुक्षूणासुपादेया  
 वुपदर्शितौ गुणप्राधान्ये प्रपंचार्थमेवाह एवंकरणेत्यादि यथागुणशब्दे नप्रधानशब्दोत्तरपदेन तस्यविशेषणमुक्तमेवंकरणादिभिरेकविं

यपरीसहे जीवियासामरणभयविष्णुमुक्ते तवप्प्रहाणेगुणप्प्रहाणे एवंकरणचरणप्प्रहाणे

क्रोधजीत्योक्ते जीत्योक्ते जिणेअभिमानजीतीक्ते जिणेमाया लोभदृष्टाजीतीक्ते पांचद्वंद्वियजीताक्ते जिननिद्राजीतीक्ते वावीसपरि  
 सहजीताक्ते जीवतव्यनी अदसामरणनोभय तेहथक्रीम्नकाणाक्ते तपक्तेप्रधानजेहनोअथवातपेकरीप्रधानक्ते संयमगुणेकरी प्रधानक्ते  
 करणपिंडविशुद्धादिकतेणेकरीप्रधान चरणदसविधेश्रमणधर्म निश्चे तेहनोविनयतथा अनुष्ठानविषे अवस्यकरणी आर्जवतेमाया

शयथाशब्देरेकविंशतिविशेषणानि अर्थेयानि तद्यथा कारणप्रधानस्वरणप्रधानोयावच्चरितप्रधानः तलकारणंपिंडविशुद्ध्यादियदाह  
 पिंडविसोहीसमिर्द्भभावणेत्यादि चरणमहाव्रतादिद्याहचवयसमणधम्मसंजमवेयावच्च'चेत्यादि निग्रहोनाचारप्रवृत्तेर्निषेधनंनिश्च  
 यस्तत्त्वानानिर्णयः विहितानुष्ठानेषुवावश्यंकारणाभ्युपगमः आर्जवंमायानिग्रहोमाह्वं माननिग्रहोलाघवं क्रियाशुद्धत्वंचांतिःक्रो  
 धनिग्रहः गुप्तिर्मनोगुप्त आदिका सुक्तिर्निर्लोभताविद्याः प्रज्ञप्तादिदेवताधिष्ठितावर्णानुपूर्व्यः मन्त्राःहरिण्येगमेव्यादिदेवताधिष्ठितास्ता  
 एवअथवाविद्याःससाधनाः साधनरहिताःमन्त्राः ब्रह्मचर्यंसर्वमेववा कुशलानुष्ठानंवेदः आगमोलौकिकलोकोत्तरकुप्रावचनिकभेदः

अज्जवमहवलाषवखंति गुत्तौसुत्तौविज्जामंतं बंभचेरवेयणियणियम सच्चसोयणायणदंसणचरित्तओ

निग्रहमार्दवतेमाननिग्रह क्रियारेविषे दक्षपणोतेलाषव क्षमाकोधनिग्रह मनोगुल्यादिक निर्लोभपणेशहित विद्याप्रज्ञप्तौ प्रसुखप्रधा  
 नउत्तमतेणेशहितमन्त्रहरिण्येगमेखीना प्रधानतेणेशहित ब्रह्मचर्यप्रधान बेयलोकीकलोकोत्तरशास्त्रनयसातनेप्रधान उत्तमतेणे  
 सहितनियमअभिग्रहप्रधानउत्तमतेणे सहितसत्यसाचोबोलिवो तेप्रधानसौचद्रव्यथीलोभरहित भावधीनिरवद्यसामाचारीरूडीक

नयानैगमादयः सप्तप्रत्ये कंशतविधाः निचमा विचित्राः अभिग्रहविशेषाः सत्यं वचनविशेषः शौचं द्रव्यतो निर्लेपताभावतोनवद्यसमाचाराज्ञानं सत्यादिदर्शनचक्षुर्दर्शनादिसंशयं वा चारिलं वाह्यं सदनुष्ठानं यत्रेहकारणचरणग्रहणोपि आर्ज्वं वादिग्रहणं तदाजर्जवादीनां प्राधान्यख्यापनाय<sup>६</sup> ननु जितक्रीधत्वादीनामाजर्जवादीनां च कोविशेषः उच्यते जितक्रीधादिविशेषेषु तदुदयविफलीकरणमुक्तं सादेव प्रधानादिषु ब्रह्मनिरोधः अथवा यतएवासौ जितक्रीधादिरतएव ज्ञमादिप्रधानइत्येवं हेतुहेतुमज्ञावादिशेषः तथा ज्ञानसंपन्नइत्यादौ ज्ञानादिमत्वमातसुक्तं ज्ञानप्रधानइत्यादौ तु तद्वतांमध्ये तस्यप्राधान्यमित्येव सत्यत्वाप्यपौनरुक्त्यं भावनीयं तथा उरालेत्तिभीमोभ

रालिघोरिघोरब्बएघोरतवस्त्री घोरवंभचेरंवासीउच्छूढूसरीरि संखितेविउलतेचवेसे १ चोद्दसपुष्वी

रेज्ञाननार्जाणसस्यक्तनाधरणहार चारिलवाह्यानुष्ठानउत्तमतेणेसहित उदारप्रधानघोरकरिवाभणीसमर्थं घोरपांचमहाव्रतानाधणीच्छे घोरआकरातपकरिनेतपस्त्रीच्छे घोरदारुणअनेरे अल्पसत्वेआचरतां दोहिलोएहवात्रह्यचर्वनेविषे वसवानोच्छे शीलजेहनोसुअषाकरीरहितच्छे जेहनोशरीर संखेपीच्छे विपुलसोटीअनेकथोजनलगी जालिवासमर्थशरीरमांहियकी कोटेतपऊपनीतेजोलेश्या







परिपत्कोणिकराजादिकालोका निर्गताः निःसृता सुधर्मस्वामिबन्धनाथं जासेवदिसिं पाउब्भया तासेवदिसिंपडिगयत्ति यस्यादिशः  
सकाथात्प्रादुर्भूता आविर्भूता आगतित्यर्थः तासेवदिशं प्रतिगतेतितस्मिन्कालेतस्मिन्समये आर्थसुधर्माणी अंतेवासी आर्थजंबूनामा  
नगरः काश्यपगोत्रेण सत्सु हंति सप्तहस्रोच्छ्रयो यावत्करणादिदृश्यं समचउरंसंठाणसंठिए वज्जरिसहनारायसंघयणे कण्ण

डिह्वं उगगहं उगिरहद्रं उगिरहत्ता संजमेणंतवसा अप्पाणं भावेमाणे विहरद्र तेषंचंपाएणयरी  
एपरिसानिगयाकोणिकराजा परिसाजामेवदिसिंपाउब्भूए ताडेवदिसिंपडिग  
यातेणंकालेणंतणंसमएणं अज्जसुहम्मस्स अणगारस्स जेट्ठे अंतेवासी अज्जजंबूणां अणगारेकासव

प्रतिरूपअवग्रहरच्चिचानोठामवांमीनेसंघमतपेकरी आत्मानिभावताएतलेतारताविचरेतिवारपक्कीतिणेचंपानगरीयकीकोणिकराजा  
दिकपरिखदानीसरीवांदिवा कोणिकनीपरे आव्याधर्मकहीसुधर्मास्वामीये परिखदाजिणदिशिथीप्रगटथई तेणदिशिइं वलीगई  
तिणेकालेतिणेसमे आर्थसुधर्मास्वामिनो अणगारनोवडुहसुदीक्षितशिथ्य आर्थजंबूएहवेनासे अणगारतेकाश्यपगोत्री सातहायउ

पुलगनिषसपहगोरे कनकस्य सुवर्णस्य पुलगंति चः पुलकोलवः तस्य यो निकपः कपपट्टे रेचालद्यगासथा पशहति पद्मगर्भं खड्गोरोचः  
 स तथा टड्व्याख्यातुकनकस्य लोहादेर्यः पुलकः सारोवर्णीतिशयः तत्प्रधानोचो निकपोरेखा तस्य यत्पद्मम् उल्लवं तद्द्वोगौरः सज्जनक  
 पुलकः पुलकनिकपपद्मगौरः तथा उग्रतपाः उग्रमग्रध्वन्तपोऽस्येति कृत्वा तया तत्तवेतप्तं तापितं तपो येन स तप्ततपाः एवं तेन तत्तपस्याप्तं  
 येन कर्माणि सन्ताप्यन्ते न च तं पलास्वामापि तपोरूपः सन्तापितो यतो न्यस्या सृष्टमेव जातमिति तथा मन्नातपाः प्रशस्ततपाः इह  
 तपावा तथा दीप्तं तपोयस्य सदीप्ततपाः दीप्तं तुल्यतायन इव ज्वलत्तेजः कर्मवन्ददाहकत्वात् तथा उरालेघोरे घोरगुणे घोरतवस्वी घोर  
 बंभचेरवासी उच्छ्वटसरीरे संखित्तविजलतेयलेसे इति पूर्ववत् एवं गुणविशिष्टो जंजूस्वामी भगवान् आर्यसुधर्मणः स्थविरस्य अदूरसामंते  
 त्तिदूरं विप्रकर्षः सामंतं समीपं उभयोरभावो अदूरसामंतं तस्मिन्नातिदूरे नाति समीपे उचिते देशे स्थित इत्यर्थः कथं उड्डं जाणु इत्यादि  
 शुद्धयि व्यासनवर्जनात् औपग्राहिकनिषद्याभावाच्च उल्काकासनः सन्नुपदिश्यते ऊर्ध्वं जानुनीयस्य स ऊर्ध्वं जानुः अधः शिरोः  
 अधोमुखो नोर्ध्वं तिर्यग्वाविच्छिन्नदृष्टिः किंतु नियतभूगानियतदृष्टिरिति भावना ज्जाणकोष्टो वगएति ध्यानमेव कोष्टो ध्यानकोष्ठसमुपग  
 तो ध्यानकोष्टोपगतः यथा हि कोष्ठके धान्यं प्रक्षिप्तमविप्रकीर्णं भवत्येवं स भगवान् धर्मं ध्यानकोष्ठकमनुप्रविश्येन्द्रियमनां स्यधिकृत्य संदृ

तात्माभवंतीतिभावः संयमेनसंवरणे तपसाध्यानेननात्मानं भावयन् वासयन्विहरतिष्ठति तएणंसेइत्यादि ततइत्यानंतयतस्माद्ध्यानादनन्तरं णमित्यलंकारेसइतिपूर्वप्रस्तुतपरामर्थार्थः तस्यतुसामान्योक्तस्यविशेषावधारणार्थं आर्यजंबूनामेति सचउत्तिष्ठतीतिसूत्रन्यःकिंभतः सन्नित्याह जायसड्डे इत्यादि जाताप्रवृत्ताइच्छास्येति जातश्रद्धः क्वच्यभाषणानां पदार्थानां तत्त्वपरिज्ञानेतथा

गोत्तंजावसत्तुसेहे जावअज्जसुहअस्सथेरस्स अदूरसामंते उड्डंजाणूं अहोसिरेज्जाणकोट्ठोवगए संजमेणं तवसा अप्पणंभावेसाणेविहरइं तएणसेअज्जजंबूणामे जायसड्डे जायसंसएजायकोउहले

चौवज्जत्तप्रभनाराचसंघयणी समचोरंसंस्थानी सोनासारीखोवर्णसुधर्मास्वामीथिरवनेअतिदूरवेगखानहीं अतिठू कडानहींउड्डे जं चाजाणुढीचण्छे अधोनीचीमसअच्छे जं चोतिरच्छोनहीं जेहनो कोठाहृदयमांहे ध्यानेउपगारसहितप्रवर्त्तंछे माटीनेभाजन धानघाल्योविणसेनहीं तिमसूत्रअर्थ विणसेनही संयमसतरि प्रकारेतेणेकरीतपवारप्रकारतेणेकरीने आपणोआत्माभावतोधर्मध्यान विषेप्रवर्त्तावतोविचरेप्रवर्त्तंछे तिवारपच्छी आर्यजंबूनामे जातप्रवर्त्ती अद्दातत्वजाणवानीवांछा जेहने जेज्ञाननोनिर्द्धीरनकखो



उत्पन्न अद्भुत्वाज्जातश्छः प्रकृतश्च इत्यर्थः अपरस्वाह जातश्चायस्य प्रष्टुः संजातश्चः कथंजातश्चोयस्साज्जातसंशयः षष्ठाङ्गार्थः प्रंच  
 माङ्गार्थः प्रज्ञप्तः उतान्यथेति कथं संशयो जनियस्मात्प्राक् कुत हलंकीदृशो नाम षष्ठाङ्गस्यार्थो भविष्यति कथं चतस्रहस्रवभोरस्ये इति ताव  
 दथग्रहः एवं संजातोत्पन्नसमुत्पन्नश्चादयः ईहापायधारणाभेदेन वाच्याइति उद्वाएउद्देति उल्यानं जलयाज्ज्ववर्त्तनंतया उल्ययाउत्ति  
 छतिउल्यायच जेणेत्यादिप्रकटं अज्जसुहस्मथेरे इत्यत्रषष्ठ्यर्थे सप्तमीतिक्वुत्तोत्ति लिः कृत्वातीन्वारान् आदक्षिणप्रदक्षिणेदक्षिण

प्यन्नसंसंएसंसुप्पन्नकोउहस्मे उद्वाएउद्वित्ताजेणामेव अज्जसुहस्मथेरे तेणामेवउवागच्छइरत्ताअ  
 ज्जसुहस्मथेरे तिसुंत्तोआयाहिणंप्रया हिणंकरेइर वंदंइ नसंसंइर वंदित्तानसंसित्ताअज्जसुहमस्स

वोभगवंतकेहवोकहिस्ये कायाथि शरीरेकरीउठीउभायइने जिह्वां आर्यसुधर्माथिवरवडाछे तिह्वांसमीपेआनेआवीजे आर्यसुधर्म  
 स्थिवरने दक्षिणदिशिमर्यादादेईने प्रदक्षिणाकरे वांदेशुतिकरे नमस्कारकरे वांदीनेपञ्चाङ्गनमस्कारप्रणामकरीने आर्यसुधर्म  
 नापासाथकी अतिवेगलोनही अतिदूरनही सुअप्रासेवानीपजावतो नमस्कारकरो अभिसुखसासुहोबेठो प्राञ्जलिपुटहायवेजो

पार्श्वार्दारस्यपरिभ्रमणतो दक्षिणपार्श्वं प्राप्तिरादक्षिणप्रदक्षिणतांश्च सुहृन्मथैरमित्यत्र तु पाठान्तरे आदक्षिणात्प्रदक्षिणोदक्षिणा  
 पार्श्ववर्तीच सतथा तं करोति विदधाति वंदते वाचासौति नमस्यति कायेन प्रणमति गञ्जासणे गाद्गुरे उचिते देशे इत्यर्थः सुसू  
 सभाणेति श्रोतुमिच्छन् एमससभाणेति नमस्यन् प्रणमन् अभिसुहे अभिसुखः पंजलि उडिति द्यत पाजलिः विनयेन उक्तलक्षणेन पञ्ज  
 वासभाणेति पर्युपासनां विदधन्नः एवमिति वक्ष्यमाणप्रकारं वयासिति श्रवादीत् यदवादीत्तदाह जईत्यादि प्रकटं नवरं यदि भदंतत्र

थैरस्यणञ्चासखेणाद्गुरे सुसूसभाणेणमंसभाणे अभिसुहेपंजलिउडे विणएणंपञ्जुवासभाणेएवंवया  
 सीजइणंभंतसमरणंभगवयामहांवीरेणं आद्गुरेणंतित्यगरेणंसयंसंबुद्धेणं लोगणाहेणंलोगपर्द्धेवेणं

इति विनयसहितच्छतो पर्युपासनाविणप्रकारनीसेवा करतोयको एहवोकहतोड्वो जेभगीहेभदंतहेभगवंतअमणभगवंतमहावीरेके  
 हवाक्केमहावीरआदिनाकरणहारक्के तीर्थनाकरणहारक्के पोतेईजवोधपास्याक्के लोगमांहे नाथस्वामी लोकभव्यजीवनुं दीवासमान  
 क्केसकललोकअथगणधरादिकंने उद्योतकारीक्के अभयदाननादेणहारक्के सकलजीवने सरणानादेणहार ज्ञानरूपचक्षुनादेणहारक्के

लीगपञ्जीयगरेणं अभयदएणं सरणदएणं चकवु, दएणंमखादएणं धम्मदएणं धम्मदेसएणं धम्मवरचा  
 उरंतचक्कवडीणं अप्पडिहयवरणाणदंसणधरेणं जिणेणंजावएणं बुद्धेणं बोहएणंसुत्तेणं मोयगिणंति  
 णेणंतारएणं सिवमयलमरुअमणंतमक्खयमब्बावाह मप्पुणरावत्तयं सासयंठाणसुप्रगएणं पंचम  
 सअंगसअथमदुपएत्ते छइस्सणंअंगसभंतिणायाधम्मकहाणंकि अट्टेपसत्ते जंबूइअज्जजंबुणाभंअण

धर्ममार्गनादेखाडणहारछे धर्मउपदेशक धर्मनादेखाडणहार धर्मनावरप्रधानचारगतिना अंतनाकरणहारहणाइंनहीं एहवो  
 चारज्ञानदर्शनहणाइंनहीं पटकटादिके जेएहवो वरप्रधानज्ञानदर्शनतेहनो धरणहारपोते पोतेप्रतिबुद्धयथाइं द्रीजीताछे अने  
 रानेजीपावेछे पोतेप्रतिबुद्धयसा अनेराने बूझवे पोतेसंसारथकीसुकाणा अनेरानेसंसारथकीसुकावे पोतेसंसारतस्याछे अनेराने  
 तारेछे शिवनिरुपद्रव अचलतिहारोगनहीं अनंतसुखजिहां ज्ञयनहीं जिहां बाधापीडा नहींपुण वलीअवतारनहीं जेहने एहवु  
 शाखतोठामपांस्याछे हिवेतेअ्रीमहावीरिपांचमाअंगनेविषे विवाहपन्नत्तीतेभगवतीनेविषेअर्थ प्ररूष्योछे हिवेछडाअंगनेविषे तेहभग

मणेन पञ्चमाङ्गस्यायमर्थो अनन्तरोदितत्वेनप्रत्यक्षः प्रज्ञप्तस्ततः षष्ठांगस्यकोर्थः प्रज्ञप्तइतिप्रश्नवाक्यार्थः अथोत्तरदानार्थं जंबूनामेत्ति हेजंबूइति एवं प्रकारेणामन्तरणवचसामन्थ आर्यसुधर्मस्थविरः आर्यजंबूनामानमनगरमेवमवादीत् णायारिणित्तिज्ञातान्युदाहर णानीति प्रथमःश्रुतस्त्वन्वः धम्मकहाउत्ति धर्मप्रधानाःकथा धर्मकथाइतिद्वितीयः उक्खित्तइत्यादि लोकोक्तयंसाद्धं तत्वमेघकुमारजी

गारंएवंवयासी एवंखलुजंबू समणेणंभगवयामहावीरेणं जावसंपत्तेणं छट्टुस्सअंगस्वदोसुयखंधाप  
स्सत्तांतजहाणायारिणिय धम्मकहाओय जइणंभंतसमणेणं भगवयामहावीरेणं जावसंपत्तेणंछट्टुस्स

वंतज्ञाताधर्मकथाङ्गे केहवोअर्थप्ररूप्योकच्छो जंबूइं कच्छो हिवेआर्यसुधर्माथिवरसुनि आर्यजंबूअणगारप्रते इमकहे इमनिअे हे जंबूअमणभगवंतश्रीमहावीरदेवे तिहांजिहांसाअतपूरोआलावोकहीये छट्टाअंगनावेश्रुतस्त्वंधप्ररूप्याच्छे तेकहेक्के ज्ञातानिधर्मकथा उदाहरणरूपच्छे प्रथमश्रुतस्त्वंध उदाहरणतेहेतेकथा देखाडिच्छेर स्त्वंधनायाज्ञाता निउदाहरणानिउदाहरणकहितां इथान्तसहि तएप्रथमश्रुतस्त्वंधधर्मकथाएवीजोश्रुतस्त्वंध जोहिभदंतअभणभगवंत श्रीमहावीरदेवे यावत्सोच्चप्राप्तियये जेछट्टाअंगनावेश्रुतस्त्वंध



येन हस्तिभवे प्रयत्नमानेनयः पादः उच्चिप्रस्तेनोत्चिप्रं नोपलक्षितं मेघकुमारचरितमुत्चिप्रमेवोच्यते उत्चिप्रमेव ज्ञातमुदाहरणं  
 विविचितार्थसाधनमुत्चिप्रज्ञातं ज्ञातताच्चास्यैवंभावनीया दद्यादिगुणवन्तः सहतएव देवदाहकष्टमुत्चिप्रं कपादोमेघकुमारजीव  
 हसीचेति एतदर्थीभिर्धायकं सूत्रमधीयमानत्वादध्ययनमुक्तमेवंसर्वत्र । १ । तयां संघाटकः अष्टिचौरयोरेकबन्धनबद्धत्वमिदमप्यभीष्टा  
 र्थज्ञापकत्वात् ज्ञातमेव एवमौचित्येन सर्वत्र ज्ञातशब्दो. योज्यः यथायथं च ज्ञातत्वं प्रत्यध्ययनं तदर्थावगमादवसेयमिति । २ । नवरं अंडकं

अंगसदो सुयखंधाप० तं० णायाणियधम्मकहाओय पढमस्सणं भंते सुयखंधस्स समणेणं जावसंपत्ते णंणा  
 याणं कत्ति यज्जं यणं प० एवं खलु जंबू समणेणं जावसंपत्ते णंणा याणं एगूणवीसअज्जं यणं प० तं० उकिवत्त

कक्षा तेकहेछे पहिले ज्ञातकं० दृष्टान्तकक्षा बीजे श्रुतस्संधेधर्मकथा प्रथमहे भगवंत श्रुतस्संधे अमणभगवंत संग्राप्त ज्ञाता प्रथमश्रुत  
 स्संधेकेतला अध्ययनप्ररूप्याछे इमनिच्च हेजंबू अमणभगवंत महावीरे ज्ञाताना उगणीस १६ अध्ययनप्ररूप्याछे तेकहेछे उच्चिप्रकही  
 येमेघकुमारनोचरितते किमपच्छले भवहाथीइं उंचोपगकरीरह्यो तेभणी उकिवत्तकही १ अष्टचोरएकबन्धनते संघाडरमोरनाइं डा

मयूरांड ॥३॥ कूर्मचक्रच्छपः ॥४॥ शैलकोराजर्षिः ॥५॥ तुंबंच अलावु ॥६॥ रोहिणी अष्टिवधूः ॥७॥ मल्लीएकोनविंशतितमजिनस्था  
 नोत्पन्नातीर्थकारी ॥८॥ माकंदीनाज्वणिक् तत्पुत्री माकंदीशब्देनेहगृहीती ॥९॥ चन्द्रमाइतिच ॥१०॥ दावद्वेत्ति ससुद्रतटे दृक्षवि  
 शेषाः ॥११॥ उदकंनगरपरिखार्जलं तदेवज्ञातसुदाहरणसुदकज्ञातं ॥१२॥ मंडूकः नंदमणिहारश्चेष्टिजीवः ॥१३॥ तेयलियत्ति तेत

णाए१संबाडि२ अंडे३ कुम्भेय४ सेलगे५ तुंबेय६ रोहिणी७ मल्लीट माइ८ चंदमाइय९० दावद्वे  
 ११ उदगणाए१२ मंडूके१३ तेयली१४ विथणुंदिजले१५ अमरकंका१६ आइये१७ सुसमाइय१८

नोहथात३ काच्छिवानोहथान्त४ सेलकराजऋषिनोहथान्त५ तुंबडानोहथान्त६ रोहिणीसेठनीवळूनोहथान्त७ मल्लिनाथनोहथांत८  
 माकंदीवणिकपुवनोहथांत९ चंद्रमानीअध्ययन१० दावद्ववससुद्रतटे दृक्षनोहथान्त११ नगरनीखाईनोजलतेहनो१२ मंडूकनंदीम  
 णियारसेठ१३ तेतलियुवनो अध्ययन१४ नंदीदृक्षनाफलनेउदाहरण१५ अमरकंकाछणगयातेउदाहरणद्रेताप्रदीनो१६ आकीर्ण  
 जातिससुद्रतारनावधोड़ानो हथांत१७ सुसुमाअेष्टिपुलीनोहथांत१८ अपरअनेरोपुंडरीकनोहथांत१९ ज्ञातानाएउगणीसउदाहरण

लिख्यताभिधानोऽमात्यः इति च । १४ । नंदिफलत्ति नंदिद्विज्याभिधानतरफलानि । १५ । अमरकंका धातकीखंडभरतबेतराजधानी । १६ ।  
 आद्रुणेत्ति आकीर्णाजात्काः ससुद्रमध्यवर्त्तिनोऽध्वाः । १७ । सुं सुमाद्दयत्ति सुं सुमाभिधाना अष्टिदुहितता । १८ । अपरंच पुं डरीक  
 ज्ञातमेकोनविंशतितममिति । १९ । यदिप्रथमश्रुतस्त्वन्यस्यै तान्यध्ययनानि भगवतोक्ता निततः प्रथमाध्ययनस्य कोथो भगवता प्रज्ञप्त इति  
 शास्त्रार्थप्रस्त्रावना अथैवं पृष्टवंतं जंबूस्वामिनं प्रति सुधर्मस्वामी यथाश्रुतमर्थं वक्तुं सुपक्रमते स्मेति एवमित्यादि सुगमं नवरं एवमिति  
 वक्ष्यमाणप्रकारोर्थः प्रज्ञप्त इति प्रक्रमः खलुर्वाक्यालंकारे जंबूरिति शिष्यामन्त्रणे इहैवेति देशतः प्रत्यक्षासन्ने न पुनरसंख्येयत्वात् जंबू

अवरेयपुं डरीय १६ गायत्र्याणुषवीसयसे जइरुंभंते समणेणं जावसंपत्तेणं गायत्र्याणुषवीसात्र  
 उक्तयणाप० तं० उक्किन्नणाएजावपुं डरीए यपठमससणंभंते अज्जकयणसके अइ पसुत्ते एवं खलुजंबू तेणंका

दृष्टांतजांश्रिवा यदि भगवंते श्रीमहावीरे जिहांसंपूर्णतिहां ज्ञातानाणुषीस उदाहरणजांश्रिवा अध्ययनकक्षा तेकहेच्छे उच्चिस्रग्ब्दे  
 भेषकुमारनो यावत्पुं डरीकनो जगणीसमो पहिलां अध्ययननेविषे हेपूज्यस्युं अर्थप्ररूप्योच्छे इरणे प्रकारे निश्चे अहोजंबू तिणकाले

द्वीपानामन्यत्वेतिमावः भारतेवर्षे चेत्ये दाहिण्डुभरहेति दक्षिणार्द्धभरतेनोत्तरार्द्धभरते देवीति राजभार्या वणउत्तिवर्णकोव, च्यः  
सचत्रच्यमाणधारिण्याद्भवदृश्यः अतएति आत्मजः अंगजइत्यर्थः अहीणजावसुरुवेत्ति इहवावत्करणादिदं द्रष्टव्यं अहीणपंचिंदियस  
रीरेअहीनान्यनू नानि लक्षणावः स्वरूपतोवा पंचापीन्द्रियाणि यस्मिं सत्तथाविधंशरीरं यस्यसतथा लक्षणावंगणगुणोववेए लक्ष

लेणतेणंसमएणं इहेवजंबूद्वीविभारहेवासे दाहिण्डुभरहेरायगिहे णामंणयरेहोत्या वसुओगुणसे  
लएचेईएवसुओ तत्थणंरायगिहेणयरे सेणिएणामंरायाहोत्या महयाहिमवंतवसुओतस्सणंसिण  
यस्सरणेणंदाणामंदेवीहोत्या सुकमालप्राणिपायावसुओ तस्सणंसिणियस्सपुत्ते णंदाएदेवीए अत्तए

तिणसमे एहीजजंबू द्वीपे भरतक्षेत्रे तेमध्यदक्षिणभरतक्षेत्रे राजगृहनगरज्जओ नगरवर्णनयोग्य तिहागुणशिलनामेयचनोठामच्छे  
वर्णनयोग्य तिहांतेणेराजगृहनगरे अणिकनासेराजाज्जवा सोटाहिमवंत मेरुसमानवखाणवासरीखोच्छे तेअणिकराजानीनंदाना  
सेभार्याज्जई सूं हालाहाथपगच्छेजेहना तेअणिकराजानोपुत्तनंदादेवीनो आत्मजअंगजअभवनासे कुमारज्जवा हीणनथीपाचेइ

गानि स्वस्तिकचक्रादीनि व्यञ्जनानि सषीतिलकादीनि तेषांयोगुणः प्रथमता तेनोपपेतोयुक्तोयः सतथा उपपद्यतइतिशब्दत्वयस्य  
स्यानेयकंन्धादिदर्शनात् उपपेतइतिस्यात् माणान्माणपडिपुससुजायसंबंगसुदरंगे तत्रमानं जलद्रोणप्रमाणा कथंजलस्या  
अतिभूतेकुं डे पुरुषेनिवेधिते यज्जलं निस्सरति तद्यदिद्रोणमानंभवति तदासपुरुषो मानप्रमाणप्राप्तउच्यते तथा उन्मानंअर्द्धभार  
प्रमाणा कथंतुलारोपितः पुरुषोयद्यर्द्धभारंतुलति तदासउन्मानप्राप्तइत्युच्यते प्रमाणंस्वागुलेनाष्टोत्तरशतोच्छ्रयताततश्च मानोन्मा  
नप्रमाणैः प्रतिपूर्णांन्यनू नानि सुजातानि सुनिष्यन्तानि सर्वाण्यङ्गानि शिरःप्रभृतीनि यस्मिंस्तथाविधं सुन्दरमंगंशरीरंयस्य  
सतथाससिसोमाकारंकांतंपियदंसणे शशिवत्सौम्याकारंकांतंचकमनीयंअतएवप्रियंद्रष्टृणांदर्शनंरूपंयस्यसतथाअतएवसुखुवेत्ति सुरूप

अभएणासंकुमारिहोत्त्रा अहीणजावसरूवे सामदंडभेयउवप्पयाणणीति सुप्पयउत्तणयविहसू ई

द्रीयेकरीअपलक्षणथी सरूपच्छेलक्षणव्यंजनसहितच्छे सामपरस्परगुणबोलीखजनने स्नेहउपजावेदंडतेबंधशत्रुनेबंधेचोरनेदंडेधन  
लेभेद्वैरीनापरिवारने स्वाम्यादिउपरस्नेहनोटाखिवीते भेदउपप्रदानधनलेइपच्छेआपेइमराजानीनीति सुप्रयुक्तव्यापारतेहने

इति तथा सामदं उभे उपप्रदानलक्षणातीत्यः तासां सुष्ठु प्रवृत्तं प्रयोगो व्यापारं च स्य स तथा नवानानेगसादीना उक्तलक्षणतीतीना  
वायाविधाः विधयः प्रकारास्ताजानातियः स तथा पचात्पदद्वयस्य कर्मधारयः तत्र परस्परप्रकारप्रदर्शनगुणकीर्तनादिनाशत्रोरालवशी  
करणसामतयाविधपरिक्लेशधनं चरणादिकोदण्डः विजिगीषितशत्रुपरिवर्णस्य स्वास्यादिस्त्रेहापनयनादिकोभेदः गृहीतधनप्रतिदाना  
दिकसुप्रदानं नयविधयस्तु सप्तनेगसादयो नयाः प्रत्येकं शतभेदाः नीतिभेदास्तु सामनीतिः पञ्चदण्डस्य तयः भेदस्य उपप्रदानस्य च पञ्च  
कामंदकादिप्रसिद्धा इति तथा ईहाचस्याणुरयं पुरुषो वेत्येवं सदर्यालोचनाभिमुखामतिचेष्टा व्यहृत्स्थानुरेवायमित्यादिरूपो निश्च

हापोहमगणवेसण अत्यसत्यमईविसारए उप्पत्तियाए वेणईयाएकम्मइयाएपारिणाभियाए चउ

विषेविधनोजाण इहाविचारनो निश्चयधर्ममार्गनो अन्याधीनेश्चन्याधीकरे एमेकिहां इदीठीऊं तीवीसरेनहीतेहभणीः ऋद्धिकरी अर्थ  
उपावानीमतितेणेविसारदडाहाअतएव सर्वशास्त्रनी उत्पातकीअणदीठीअणसांभलीवुद्धि तत्कालउपजे १ विनययकीगुरुशास्त्रभणा  
वेतेविनयकीवुद्धि २ कर्मनीष्टद्धिकरसणवणिजादिअभ्यासकरनांउपजे ३ परिणामथी वयपाकेउपजेतेपरिणामकीवुद्धि ४ एव्यारप्रकार

यः सागणं च द्रवत्व्युत्सर्पणादयः स्थाणुधर्मा एव प्रायोर्घटं ते इत्याद्यन्वयधर्मा लोचनरूपं गवेषणं चेहशरीरकंडयनादयः पुरुषधर्माः प्रायो  
 नघटन्तद्गत्यतिरेकधर्मा लोचनरूपं गवेषणं चेह ईहाव्यहमार्गणगवेषणानितैरर्थशास्त्रार्थोपायव्युत्पादनग्रन्थे कौटिल्यराजनीत्यादौ  
 यामतिर्वीधस्त्रयाविशारदः पण्डितोयः स ईहाव्यहमार्गणगवेषणार्थशास्त्रमतिविशारदः तयोत्पत्तिष्व्यादिकयावुद्धाउपप्रेतोयुक्तः तलो  
 त्यक्तिकाग्रहटाश्रुता अननुभूतार्थविषयाकस्त्रिकी वै नयिकी गुरुविनयलभ्यशास्त्रार्थसंस्कारजन्या कर्मजाकृषवाणिज्याद्रिकर्मभ्यासप्र  
 भवापरिणामिकी प्रायोवयोविपाकजन्या तथा अणिकस्यराज्ञोवृद्धेषु कार्येषु च भक्तसेवकराज्यादिदानलक्षणकृत्येषु विषयभूतेषु तथा  
 कुटुम्बेषु च स्वकीयपरकीयेषु विषयभूतेषु येमन्त्रादयो निश्चयांतासुषु आष्टच्छनीयः तत्रमन्त्रामन्त्राणि पर्यालोचनानि तेषु च गुह्या  
 नीवगुह्यानि लज्जनीयव्यवहारगोपनानि तेषु च रहस्यान्वेकान्तयोग्यानि तेषु च निश्चयेषु च इत्यमेवेदं विधेयमित्येवंरूपनिर्णयेषु अथवा

विहाण्बुद्धिण्डववेणं सेणियस्सरस्यो बहुसुकर्जे सुयकुडु वेसुयमंतेसुय शुचकेसुय र हसेसुयणिच्छए

नीबुद्धिं करीनेउपपेतकहतांसहितछे चभयनासिकुमार अणिकराजानाघणाकार्यनेविषे पोतानाकुटं बनाकाम संलग्णनेकामेगु

स्वतन्त्रेषु कार्योद्दिषु षट् स्वविषयेषु चकाराः समुच्चयार्थाः स्पष्टच्छनीयः सद्वाप्रतिष्ठच्छनीयोद्दिः द्वात्सः किमिति यतोसौ सेदिति खल  
 कामध्वत्तिनीस्य शायस्या नियमितगोपंक्तिः धान्वं गार्हयति तद्वद्व्यालंब्यसकलमन्तिभरडलं मन्त्रगीयार्थान् धान्यमिव विवेचयति  
 समेढीतथाप्रमाणं प्रत्यक्षादितद्वद्व्यालंब्यनामव्यभिचारित्वेन तथैव प्रवृत्तिनिवृत्तिगोचरत्वात्सप्रमाणं तथा आधारः आधेयस्यैव  
 सर्वकार्येषु लोकानामुपकारिस्वात्तथा आलंबनं रज्ज्वादितद्वदापदगतीदिनिश्चारत्वात्तदलंबनं तथा च चलोचनं तद्वद्व्योक्तस्य विविधका  
 र्येषु प्रवृत्तिनिवृत्तिविषयप्रदर्शकत्वाच्चक्षुरिति एतदेव प्रपंचयति सेद्विभूत इत्यादि भूतशब्द उपमानार्थः सर्वकार्येषु सन्निविग्रहादिषु सर्व  
 भूमिकासु मन्यमात्यादिस्यानकेषु लब्धः प्रत्ययः प्रतीतिरविसम्बादिवचनं यस्य स तथा विद्मन्निवृत्तिवितीर्णो राजानुज्ञातो विचारो

सुयत्रापुच्छिच्छिञ्जे पडिपुच्छिच्छिञ्जे सेढीप्रमाणं आहारि आलंबणभूए प्रमाणभूए आहारभूए च

च्छाब्दानां कामकार्यनेरहस्यएकांतपरनेकाजे निश्चवनीवात्तनि एकावारपूच्छवायोग्यवेवारपूच्छिवायोग्य गाहठाने विषेखलामध्यखीलानीप  
 रेविशेषपूच्छिवायोग्यसर्वनेचाधारआलंबनखाडसां हिपडतांडोरसमानप्रत्यक्षादिप्रमाणसारिखोआधारभूतसर्वलोकने लोचनीओप



अथवाविष्णुवियारेति विज्ञयितोराज्ञालोकप्रयोज  
 नानांनिवेदयिता किंवल्लनाराज्यधुराचिन्तकश्चापि राज्यनिर्व्विहकश्चाप्यभूत् एतदेवाहश्रेणिकस्य राज्ञोर्राज्यं च राष्ट्रानिदिशसुदाया  
 लकंराष्ट्रं चजनपदं च कोशं चभांडागारं च कोष्ठागारं च धान्यगृहं बलं च हस्त्यादि सैन्यं वाहनं च वेसरादिकांपुरं च नगरमन्तःपुरं चावरो  
 धनं स्वयमेवालनैवससुत्प्रोक्षमाणो निरूपयन् समुत्प्रोक्षमाणो वा व्यापारयन् इह च द्विर्वचनमाभीक्ष्ये वस्येयं विहरति आस्ते खषारणी  
 नाम देवी होत्या जावसेणियस्वरसोद्गहा जावविहरइ इत्यतद्विर्वावच्छब्दकारणादेवं द्रष्टव्यं सुकुमालपाणिपाया अहीणपंचेदियसरी

वल्लुभूएसव्वकज्जेसुंयु सव्वभूमियासु लइप्रच्चएविइणवियारे रज्जधुरचिंततयाविहोत्थां सेणियस्स  
 रथोरज्जं चरइं चक्रोसंचकोट्टागारं च बलं चवाहणं चपुरं च अंतैउरं च समयमेवससुपेकवमाणेइ विह

मातेसमानेसवलाइकार्वानेविषेसवलीभूमिकानेविषे अमात्यस्थानकनीलाधीप्रतिष्ठाछे लाधीछेप्रतीतविस्तीर्णविचारसर्वकार्यनेविषे  
 जाणेवणसुं कहीयेराज्यधुरंधरंराज्यनीचिंतानेविषेनिर्वहितान्ज्याश्रेणिकराजानोराज्यदेशभंडारवलीधाननाकोठारहाथीअश्वदि

रालक्खणंजणगुणोववेया माणुस्माणपमाणुजायसब्बं गच्छं दरंगी सखिसोमाकारं कंतंपियदंसणासुरूवा कारतलपरिमियतिव  
 लियवलयमज्जाकारतलपरिमितोमुट्टियाह्वस्त्रिवलीकोरेखात्तयोपेतोवलितोत्तलवान् मध्योमध्वभागोयस्याः सातथाकोमुद्दयरयणिकर  
 विमलपडिपुष्पसोमवयथाकौमुदीरजनीकरवल्कार्तिकीचद्रुद्वविमलंप्रतिपूर्णसौम्यं चवदनंयस्याः सातथाकुंडलुस्त्रिहियगंडलेहाकुंड  
 लाभ्यामुस्त्रिखिताष्टगंडलेखाक्रंपोलविरचितमृगमदादिरेखायस्याः सातथा सिंगारागारचारुवेसा षट्गारस्यरसविशेषस्यागार  
 मिवागारं अथवाष्टंगारोसंडनभूषणाटोपसूत्रप्रधान आकारआकृतियस्याः सातथातथा चारुवेपोनेपथ्यं यस्याः सातथाततः कर्मधा  
 रयः तथासंगयगवहसियभणिय विहियविलासुसललियसंलावनि उगुजत्तोवयारकुसला संगताउचितागतहसितभणितविहितवि  
 लासायस्याः सातथा तत्वविहितंचेष्टितं विलासोनेतचेष्टातथा सहललितेन प्रसन्नतथा येसंलापाः परस्यरंसंभापणलक्षणासोषनिपु

रद्रतस्सणंसेणियस्सरसो धारणीणमं देवी होत्था जावसेणियस्सरसोद्रुद्राजावविहरद्रु तएणंसाधार

कवाहननगरअंतेउर एतलेष्ठाभेस्वयमेवव्यापारकरतोविचरे तिहंअणिकराजानेधारणीनामादेवीराणीद्ध्रु यावत्अणिकराजाने

ग्यायासातथा तथायुक्ताः संगतायेडपचारालोकव्यवहारार्थेषु कुशलायासातथा ततःपदत्वयस्यकर्मधारयः पासाइयाचितप्रसादज  
 निकादरिसिणिज्जा यांपश्यच्चक्षुर्नविआस्यति अभिरुवामनोन्नरूपा पडिरुवाद्रष्टारंर प्रतिरूपयस्याः सातथासेणियस्वरसोइष्टावक्ष  
 भाकाताकास्यत्वात् प्रियासदा प्रेमविषयत्वात् मणुसासुंदरत्वात् णामधेज्जा णामधेयवतीप्रशखनामधेयवतीत्यर्थः नामवाधायैहृदि  
 धारणीयंयस्याः सातथा विससनीया विश्वसनीयत्वात् सम्प्रयातत्घतकार्यस्य सम्मतत्वात् बद्धमयाबद्धशोबद्धशोवान्येभ्यः सकाशा  
 न्मताबद्धमता बद्धमानयालंवा अणुमयाविप्रियकरणस्यापि पञ्चान्मता अबुमताभंडकरंडगसमाणा आभरणकरंडकसमानोपादेय  
 त्वात् तेष्वकैलासद्वव सुसंगोविया तैलकैलासोराप्रप्रसिद्धोद्वयः तैलस्यभाजनविशेषः सचभंगभयासोष्टुभयाच्चसुष्टु संगीयते एवं  
 सापितथोच्यते एवंसापितथोच्यते, चेलपेडाइवसुसंपरिणिहिया वस्त्रमंजषेवेत्यर्थः रयणकरंडगोवियसुसारविद्या सुसंरचितेत्यर्थः कुत  
 इत्याहमाणंसीयं माणंउहंमाणंदसा माणंससथा माणंवालामाणंचोरा माणंवाइयपित्तियसिंभियसंनिवाइयविविहरोगायंकाफुसं  
 तित्तिकट्टु सेणिएणंरणासद्धिं विउलाइंभोगभोगाइं भुंजमाणीविहरइ साशब्दानिषेधार्थाः गुंकारावाक्यालंकारार्थाः अथवामा  
 गुंतिमैनामिति प्राकृतत्वात् व्यालाः स्वापद्भुजगाः रोगाः कालसहाः आतंकासद्योधातिनः इतिकट्टुइतिहत्वा इतिहेतोःभोगभो

गान् अतिशयवद्भोगानिति तर्णति ततो नंतरं तंसितारि सगंसिति यदेषं वच्यमाणगुणं तस्मिंस्तादृशकेयादृशसुपचितपुण्यस्त्वं धाना  
 मंगिना सुपचितं वरघरएत्तिसम्बन्धः वासभवने इत्यर्थः कथं भते षट्काष्ठकं गृहस्य वाद्यालिकं षट्कारकमिति यदागमप्रसिद्धं द्वार  
 मित्यन्येस्तस्मै विशेषणमिदमित्यन्ये तथा लष्टामनोज्ञाद्यष्टासंस्थानवन्तः संखिता विधिष्टसंस्थानवन्तः येस्तस्मात्स्थाना उद्गता ऊर्द्धगताः तस्मैपु

श्रीदेवीअस्त्रयाद् तंसितारिसंसि छक्कडलडुमडुसंठिय खंभूगयपवरसालभंजिय उज्जलमणिकण  
 गरयणथूभियविडं कजालडु चंदणियूयकंतरकणयाणि चंदसालिया विभक्तिकलिएसरसच्छधा उधव

वालहीते हसंघाते भोगभोगवता विचरे तिवारेते धारणी एकदा प्रस्तावे किवारि एकवार भवनसूते तेष्वपुण्यवंतने रहिवा योग्यवरच्छेके  
 हवोच्छे छकाठमयगृहद्वारच्छे मनोज्ञमठास्योसंहा लोकीयोच्छे रूडेसंस्थानच्छे यंभसंस्थानवंततथा भोगोद्गततमद्रयापी एतलेयांभिसूंदरी  
 पूतली जिहां प्रधानसालभंजिकापूतलीच्छे तिहां उजली मणिनी चंद्रकांतादिकना सुवर्णनारत्नकर्कतनादिकना थूंभियासिखरच्छे वरं  
 डीओच्छे जिहां जालेगवाली अर्द्धचंद्राकारजालीयाच्छे पावडीयाच्छे गृहअंतरवारणानिपासेकनकालि विस्तारविशेष चंद्रशाली गृह उ

वाउजताध्यवस्थिताः सम्मोहताः प्रवराणां वराः अतिप्रधानायाः शालभंजिकाः पुत्तलिकासथाउक्त्वलानां मणीनां चन्द्रकान्तादीनां  
 कनकस्य रत्नानां च कर्कशतनादीनां चयासूपिकाशिखरं यथाविटं कः कपोतपाली वरुडिकाधोवर्ती सूरविशेषः जालंसच्छिद्रो गवाक्ष  
 विशेषः अर्द्धचन्द्रः अर्द्धचन्द्राकारं सोपानं निर्यूहकं द्वारप्रार्श्वविनिर्गतदंशं अन्तरं सूरविशेष एव पानीयांन्तरमिति सूत्रधारैर्ध्वपदि  
 श्यते निर्यूहकद्वयस्य यान्यंतराणि तानिवा निर्यूहकांतराणि कणकाली सूरविशेष एव चन्द्रशालिकाच गृहोपरिशाला एतेषां गृहां  
 शानां याविभक्तिर्विभजनं विविक्तातया कलितं युक्तं यत्तत्तथा तस्मिन् सरसच्छेधा उबलवंतर इ एत्ति स्याथ्यं कैश्चित् पुनरेवं सम्भावित  
 म्भिदं सरसच्छेधा उबलवसर इ एत्तितत्र सरसेनाच्छेदना धातुपलेन पाषाणधातुना गैरिकविशेषेणेत्यर्थः वर्णैरचितो यत्तत्तथा तत्र वाहि

लंबसुर इ एवाहिरश्चोद्भूतमिथवदुमदु अभिभंतरश्चोपसत्य सुविलिहिय चित्तकर्मणाणां विहपंचवसुमणि

परगृहते विहियते स्थानकते युक्तिविचेभीति सरसश्चाच्छापाखाणे धवलकही इं पांडुरी करी वर्णवशावाची तरो अक्षे सरसश्चाच्छाधातु  
 नावां वाहिरघरधउलोकीयोच्छेघटास्योमठास्योच्छे मध्यभागे प्रयुक्तपोतानी धर्मनी व्यावर्त्तिकही ये आपां पणी कलापचित्तपणे चित्तकी

रञ्जोद्गमिवदृष्टमिदं त्विदं धवलितं घृष्टं वा वाशादिनाकोभलंघतं अतएव घृष्टं सृष्टं यत्तत्तथा तस्मिन्तथा अभ्यन्तरतः प्रयत्नं स्वकी  
यकर्मव्याप्तं शुचिपवित्रं लिखितं चितकर्म यत्तत्तथा तस्मिन्तथा नानाविधानां जातिभेदेन पंचवर्णांगाम्णिरत्नानां कुट्टिमतलं  
सम्प्लिभूमिकायस्त्रिंस्तथा तत्र तथा पद्मैः पद्माकरैरेवंलताभिरशोकलतादिभिः पद्मलताभिर्वान्दृश्यालिकाभिः पुष्पवल्लीभिः पुष्पप्रधा  
नाभिः पत्रवल्लीभिः तथा वरुभिः पुष्पजातिभिर्मांलती अश्रुतिभिश्चित्तमुद्योक्तलं उपरितनभागे वस्त्रिन् तयातलद्द्रव्यं प्राकृतत्वेन  
लक्ष्मोयचित्तिचतले इत्येवं विपर्ययनिर्द्देशोद्द्रष्टव्यमिति अथवापद्मादिभिश्च लोकास्य चित्तितंतलं अधोभागो यच्चिन्निति तथा च चन्द्र्यंतद्द्रुतिचंद्र  
नाः मङ्गल्याः धेवरकनकस्य कलशाः सुष्ठु निश्चियन्ति न्यस्ताः प्रतिपूजिताश्चंद्रनादिचर्चिताः सरसपद्माः सरसमुखस्थगनकमलाः शोभ

रथणकुट्टिमतले प्रउमलया कुल्लुबस्त्रिवरपुष्पफलाइ उल्लोयार्थिचस्त्रियवले चंद्रणवरकरणकलससुणिमि

धाच्छे नानाप्रकारनापांच वर्णसम्प्लिरत्ननीवांधीभूमितलच्छे आंगणोरचितच्छे पद्मवामललतावेलरत्नपद्म पुष्पवेलिनागरवेलिपुष्पां व  
लिनीवेलवरप्रधानअनेरी भलीफूलनीजातिकारी उल्लोचंद्रुयानोभलूं मूल चित्तामणसहितच्छे चंद्रनभांगलिकवरप्रधानरूडासोनाना



मनःस्वास्थ्यकरं ततथा तस्मिन् तथा कर्पूरचलवङ्गानि च फलविशेषाः मलयचन्दनं च पर्वतविशेषप्रभवं श्रीखंडं कालागुरुचक्राणागुरु  
प्रवरजुन्दुरुक्कं च चीडाभिधानो गन्धद्रव्यविशेषः तुर्यकं च सिल्लहकं क्षुपच्यगन्धद्रव्यसंयोगज इति वृन्दः एतेषां वासस्वन्धीयोधूपः तस्य दृष्ट्यामा  
नस्य सुरभिर्गोसधसघायसानोः ति शयवान् गन्धउद्धूतः उद्धूभूतः तेनाभिरासमभिरसणीयं तत्तथा तस्मिन् तथा सुदुगन्धवराणां प्रधान  
चूर्णानां गन्धोयस्मिन्नस्ति तस्यु गन्धिवरगन्धिकं तस्मिन् तथा गन्धवर्तिगन्धद्रव्यगुटिका कस्त्रिकावा तद्गुटिका गन्धवर्तिः तद्भूते सौर

कतुरक्कधूवडभक्तसुरभिसधसघंतं गंधद्वयाभिरासे सुगंधवरगंधिणं गंधवद्वौभूणं मणिकिरणपणा  
सियंधयारे किं वड्डणजइगुणेहिं सुरवंशविमाणविलंबवरधरणं तंसितारिसगंसिसयणिल्लं सिसा

याचलचंदनकृष्णगुरुप्रधानचीडगंधविशेषसेलुहारसधपयोगएहवो संयोगीधूपणाने गंधकरीसुरभिसुगंधमधमघायमानघणीगंधिकरी  
अभिराससनीहरच्छे तेघरुंगधप्रधानगंधिअविगंधवर्तिगंधवानीगुटिकास्त्रावर्ति मणिनेकिरणेकरीगमायेच्छे अंधकारजिह्वं घणुं  
किसूद्युतिकांतिगुणेकरीने सुरनोविमानने विडवेच्छे तेवरप्रधानधारणीनोघरच्छे तेपुन्यवंतपुरुषस्त्रीने सूईवायोग्यच्छे शरीरप्रमाण



भ्यातिशयात्तत्कल्पे तथा मणि किरणप्रणासितांधकाश्चै किं वज्रनावर्णकेन वर्णकसर्वस्वमिदं द्युत्यागुणैश्च सुरवरविमानं विडंबयति जयति यद्दरगटहकंतत्तथातैव वथातस्मिं स्नाहृशकेशयनीये सहालिङ्गनवर्त्या शरीरप्रमाणोपधानेन यत्तत्सालिङ्गनवर्त्तिकं तलउभयो विब्वीयेत्ति उभयतः उभौशिरोन्तपादान्तावाश्रित्य विब्वीयेत्ति उपधानेयत्र तथातस्मिन् दुहृउत्तिउभयतः उन्नतेमध्ये नतंचतन्नि स्रत्वाङ्गक्षीरंच महत्त्वान्तगम्भीरं तत्र अथवामध्ये नंचमध्यभागेनतु गम्भीरेवनेते गङ्गापुलिनवालुकायाः अवदालोवदलनं पादादि

लिंगणवट्टिए उभञ्चोविब्वीयेणे दुहृओवण्णएमउभ्भेणयगंभीरे गंगापुलिणवालुयउद्दालसालिसएउ यच्चियखोमदुगुलप्रदृपडिच्छवणा अथरयमलयणवतयकुसुत्थलिंबसौहकेसरपव्वत्थिए सुविरदूर

शिव्याविड्डं पासेसिराणेउसीसम्भूक्याच्छे विड्डं पासेउंचीच्छे मध्यगंभीरनमतीच्छे गंगानदीनीवेलूसमानपगम्भूक्ये उं डोजादूतेस मानसुंहालीशज्या एहवीतुलाद्द नीपजाव्योचोमयुगलजिहां कपासमेदुबूलरत्नकंबलवस्त्रतेणेढाक्याच्छे एकसाटककपडोआक्काद्योच्छे कामलफूलनीअनेराफूलनीवासनालिवकः उरश्चनाबालसिंहकेसरआभरणविशेषतेणेकरी उपराउपरआक्काद्याच्छे शुचिपचिलरच्यो

न्यासेधोगमनमित्यर्थः तेनसालिसएत्ति सहशकमतिनमत्वाद्यत्तत्तयातत्र इत्यनेचहंसद्वल्पाप्यत्रं न्यायइतितयाउच्यचिचिन्ति परिव  
 र्त्तिं तंयत्चौमं दुशूलंकार्पासिकमतसीमयं वावस्त्रं तस्ययुगलापेक्षयायः पट्टःएकः श्राटकःसप्रतिच्छेदनमाच्छादनं वस्य तत्तथातत्र  
 तथाआस्त्ररकोमलकोनवतः कुञ्जक्तकोलिवः सिंहकेसरश्चैते आस्त्ररणविशेषास्तैः प्रत्यवस्तृतमाच्छादितंयत्तत्तथा तत्रइहचास्त्ररको  
 लोकाप्रतीतएव मलककुशक्तकौतुरुद्धिगस्यौ नवतस्तु ऊर्णाविशेषमयोजीर्णमिति लोकेयदुच्यते लिङ्गोवालोरन्त्रस्थोर्णा युक्ताद्वतिःसिंह  
 केसरोजटिलकखलः तथासुष्टुविरचितं शुचिवारचितं रजस्त्राणं आच्छादनविशेषोपरभोगवस्यायां यस्मिंस्तत्तथा तत्ररक्ताशुक्रसं  
 वृत्तेमशकटहाभिधानवस्त्रादृते सुरस्येतथा अजिनकंचर्मसयोवस्त्रविशेषः सचस्वभावादतिकोमलोभवति तथारूतंकर्पांसपद्मवूरो

यत्तारेरत्तंसुयसंबुएसुरम् आर्इणगरुयवूरणवणैयतुल्लफासे पुब्बरत्तावरत्तकालसमर्थसि सुत्तजा

छेरजस्त्राणआच्छादनविशेष रातेवस्त्रेवीटीशिव्यामसकटहएहवेनामे वस्त्रविशेषतिशेकरी आटतसुरस्य सुंहालीकेहवीशज्यारस्य  
 कस्यगचर्मकपासव र्वनस्यतीविशेष पूर्वरात्रिअनेपनूरात्रितेमध्वरातिकालसमयनेविषे घणुडंघतीनहीषणुंजागतीनही वाररलो

वनस्पतिः विशेषः नवनीतं मन्त्रं एभिस्तुल्यः स्वर्गो यस्य त्वलंकारं त्वलं तत्र पक्षे एतेषामिव स्वर्गो यस्य तत्तथा तत्र पूर्वरात्रश्चासावपर  
 रात्रश्च पूर्वरात्रापररात्रः स एव काललक्षणः समयः न तु स माचारदिलक्षणः पूर्वं रात्रापररात्रकालसमयसत्त्वं मध्यरात्रे इत्यर्थः इह  
 चार्पत्वादेकरेफलोपेन सुखरत्तावत्तेत्युक्तं अपररात्रशब्दोषायमितिसुप्तजागरानातिष्ठानातिजाग्रतीभ्यतएवाहश्चोहोरमाणीशोही  
 रमाणीत्तिवारंवारमीषन्निद्रांगच्छन्तीत्यर्थः एकं महान्तं सप्तोत्थे धमित्यादिविशेषणं सुखमतिगतं गजं इका प्रतिबुद्धे तियोगः तत्र स  
 प्रोत्थे धं सप्तसुकुन्मादिषु स्थानेषु न्तं सप्तहस्तोच्छ्रितं वारययंति रूप्यं नयहयलंसिन्ति न भस्वान् सुखमतिगतमितियोगः वाचनान्तरे  
 त्वेवं दृश्यते जावसीहंसुविशेषोपासित्ताणं पडिबुद्धा तत्र यावत्कारणादिदं द्रष्टव्यं एकं चणं महंतं पंडुरंधवलं सेयं एकार्थं शब्दत्वयोपादानं  
 वात्यन्तशुक्लताख्यापनार्थं एतद्देवोपमानेनाह संखडलविमलदहिघण्णोखीरफेणरयश्चिकरप्यगासं शंखकुलस्येव विमलदमद्भवधन

गराश्रीहौरमाणीश् एगं महंसत्सुसेहं रयथकूडससिहंणहयलंसि सोमंसोमागारं लीलायंतं जंभायं

वनडधाडिहूं मीचाइइमएकमोटोसातहाथं चोरूपानाडुंगरसरीखोनभन्नाकासयीजतरीने सोस्यसौम्यच्छे आकारलीलाकरतोवगा

गोक्षीरस्ये वफेनस्ये वरजनीकरस्येवचप्रकाशः प्रभात्रस्यसतथातंअथवाहाररजतखीरसागरदगरयमहासेलयंडुरतरो रमणिज्जदरिस  
 णिज्जंहारादिभ्यःपांडुरतरोयः सतथाइहच महाशैलो महाउर्ध्विस्तीर्णःरमणीयोरस्योतएव दर्शनीयइति पदचतु  
 ष्यस्य कर्मधारयोतसं तथाधिरलडुपडुपीवरसुसिलिठ्विसिठ्वितिकखदाढा विडंविद्यमुहं स्थिरावप्रकम्पौलठ्ठीमनोज्ञौप्रकोष्ठौ कूर्परा  
 ग्रेतनभागौ यस्यसतथा तथापैवेरास्य लूसुत्तिष्ठा अतिसर्वराविधिष्टामनोहरास्तीक्ष्णा यादंद्रास्ताभिःकृत्वा विडंविद्यंतिविद्यतंमुखं  
 यस्यसतथा ततःकर्मधारयोतसं तथापरिक्रमियजम्बुकमलकोमलमाईच सोहंतलडुउठुं परिकर्मितंकृतपरिकर्ममाइयत्ति मातावान्  
 परिमितइत्यर्थः शेषंप्रतीतं तथारत्तुप्यलपत्तमउयसुकुमालतालुनिष्वालियगजीहं रक्तोत्पलपत्रमिवसुदुकेभ्यः सुकुमारमतिकोमलं  
 तालुचनिष्क्रीलितग्राप्रसारिताग्राजिह्वाचयस्य सतथातंसं तथामज्जगुलियभिसंतपिगलच्छं मधुगुटिकेवक्षौद्रवर्त्तिरिवभिसंतत्तिदीय  
 मानिपिंगलेकपिलेअचिणीचस्य सतथातंतथामूसूसागयपंवरकाणयताविद्यआवत्तायंतवहतड्डियविमलसरिसणयणं मूषागतंमृन्मयभा  
 जनविशेषस्यंयत्प्रवरंकनकंतापितमग्निधमानात् आवत्तायति आवर्त्तं कुर्वन्तथा वृत्तेचतर्हि तेचविद्यतेचविमलेच सदृशेचसमानेनय  
 नेयस्यसतथातं अत्रचवदृहड्डइत्ये तावदेवपुल्लकेदृष्टं संभावनयातुष्टत्तर्हि तद्वति व्याख्यातमिति पाठांतरेणतु वदृपडियुसुपसत्यनि

ह्रस्वगलियपिंगलच्छं स्फुटचायंपाठः तथा विसालपीवरभमरोरुपडिपुष्विमलखंधं विद्यालोविस्तीर्णः पीवरोमांसलः भ्रमरोरुः भ्रम  
 रोमावर्त्ताउरवोविस्तीर्णा यत्रसतथा परिपूर्योविमलच्च स्नांधोयस्यसतथातं अथवा पडिपुषुसुजायखंधंतथा मिउविसदसुडुमलक्व  
 णपसत्यविच्छिन्नकैसरसठं मृद्योविशदाअविमूढाः सूक्ष्माः लक्षणप्रयत्नाः प्रशसलक्षणाः विस्तीर्णाः कैसरसटाः स्नान्धकेशजटायस्य  
 सतपातंअथवा निम्नलवरकैसरधरं तथाउसियसुनिम्नियसुजाय अफ्फोडियलंगलं उच्छित्तमृद्ध्यनीतंसुनिर्भितं सुष्ठु अंशुरतयान्यस्तं  
 सुजातंतद्गुणोपेततथा आस्फोटितंलागूलंपुच्छं येनसतथात सौम्यसुपथातं सौम्याकारंशंताकृतिं लीलायंतंतिवीलाकुर्वं तंजंभाय  
 माणंतिविजृम्भमाणं शरीरचेष्टाविशेषं विदधानंगगणतलाओ उवयमाणंसीहंअभिमुहंसुहेपविसमाणंप्रासित्तापडिबुद्धिं अयमे  
 यारूवंतिद्भ्रमं महास्वप्नमितिसंबंधः एतदेववर्णितंस्वरूपंरूपं यस्यस्वप्नस्य नकविहृतस्वनमधिकंवासतथातं उरालंतितदारंप्रधानं काल्या

तंसुहृत्संतिगदं प्रासित्ताणंपडिबुद्ध्या तएणंसाधारणी अयमेयाख्वंउरालंकक्षाणंसिवं धसं मंगलंस

ईकरतो सुखमेप्रवेशकरतोहाथीदेखीनेकेचितसिंहपाठइतिजागीतिनारेतिकाधारणीराणिएहवोएकरूपउदारप्रधानकाल्याणमयउप

शं कल्याणानां शुभसम्बद्धिविशेषाणां कारणात्वात् कल्पं वानीरोगत्वमण्यतिगमयति कल्याणंतद्वेतुत्वात् शिवसुपद्रवोपशमहेतुत्वात् धन्यं धनावहत्वात् संगल्यंसंगलेदुरितोपशमेसाधुत्वात्सत्रीकंसशोभमिति समागीति सती हृष्टतुष्टाअत्यर्थं तुष्टा अथवाहृष्टाविस्मिता तुष्टातोषवती चित्तभाणंदिन्नन्ति चित्तेनानंदिता आनंदितंवाचित्तं यस्याः साचित्तानंदितासकारः प्राकृतत्वात् प्रीतिर्मनसि यस्याः

सिरियं महाशुभ्रिणंप्रासृत्ताणंपडिवुद्धा समाणी हृष्टतुष्टा चित्तमाणंदियापीयसणा परमसोमारा  
सौद्या हरिसवस विसृष्यमाणां हि यथा धाराहवकदंबपुष्पगंपिवससूससिचरोसकूवे तंसुभ्रिणं उगि

द्रवरहितधननो देणहार दुरितगमावेसत्रीकशोभाकारीयोस्वप्नभ्रोटास्वप्नप्रते देवीनेजागीयकी संतोपहर्षवंततुष्टवंतचित्ते आणंद पांभीप्रीतमनसा ऊई उल्हटताढोसनययो सुमनभलोसननो भावजपनोक्ते जेहनेएहवी हर्षनेवसे करीविखारपांभतोक्ते विकस्वर हृष्टोक्ते हृदयकमलजेहनो एहवी ऊई मेघनीधाराइ हृष्टोताड्योएहवुंकदंबनामाष्टजनो फूलविकसे विकासपांभेतेहनीपरि ससुसि यउच्छ्रितउल्हस्याछे उंचायवाछे रोमदूपरोमनाच्छिद्रूजेहना एहवी ऊई यकी तेस्वप्नप्रतेग्रहेग्रहीने शयनशय्यायकी अतिशयसुं उं

साप्रीतिमनाः परमसोमणसिथा परसंसौमनस्यं संजातंयस्याःसा परमसौमनस्यिताहर्षवशेनविसर्पद्विस्वारयाधिहृदयंयस्याःसातथा  
 सर्वाणिप्रायएकार्थिकान्ये तानिपदानि प्रमोदप्रकर्षप्रतिपादनार्थत्वात् स्तुतिरूपत्वाच्चननुष्ठानि आहचवक्ताहर्षभयादिभिराच्चिप्रम  
 नास्तथा स्तुवन्निं दन्त्यत्प्रदमसकहृन्नूयात्तत्पुनरुक्तं नदोषायेति? पञ्चोरुहृत्ति प्रत्यवरोहति अत्वरितंमानसौरुक्त्वाभावेन अचपलं  
 कायतःअसंन्नांतया अखलंत्याअवलंतवितया अविच्छिन्नयाराजहंससरिसीएत्ति राजहंसगमनसदृश्यागत्या ताहंतयाविशिष्टगुणो

गृहइरसयणिज्जाओउड्डेइपायपीठाओपञ्चोरुहइरत्ताअतुरियमचवलमसंभंताएअविलंबित्याएराय  
 हंससरिसीगईए जेणुमेवतेसेणियेराया तेणमेवउवागच्छइरत्ता सेणियंरायंताहिं - इड्काहिंकंताहिं

जठीने पादपीठिकासिंहासयथकीनीचोपगम्भं किवानोपीढो ओटलीतेहयकीजतररेजतरने मनेकरीउलावलपणानेअभावे अचपल  
 कायाथकौचपलपणोनहीं असंन्नांतपणेकरी किहांखलनापामतीनथी विलंबरहितपणेकरी अविच्छिन्नपणे राजहंसनासरिखीगति  
 करीजिहांअेणिकराजाके तिहांजरांणी आवेअतिशयसुं पधारेपधारीने अेणिकराजाप्रतेविशिष्टगुणेकरीसहिततेणेतेराजानेइष्टवा

पताखाभिगीर्भिरितिसंबंधः इष्टाभिः तस्यवल्लभाभिः कांताभिरभिलषिताभिः सदैवतेन प्रियाभिरद्वेष्याभिः सर्वेषामपिमनो ज्ञाभिः मनोर  
माभिः कथयापिमनामाभिः मनः प्रियाभिश्चिन्तयापि उदाराभिरुदारवर्णोच्चारादियुक्ताभिः कल्याणाभिः समृद्धिकारिकाभिः शिवाभि  
र्गौर्दोषानुपद्रुताभिर्धान्याभिर्धनलंबिकाभिः संगल्याभिर्मंगलसाध्वीभिः सश्रीकाभिरलंकारादिशोभावतीभिः हृदयगमनीयाभिः हृदये  
यागच्छंति कोमलत्वात् सुबोधत्वञ्च तास्तथाताभिः हृदयप्रह्लादनीयाभिराह्लादिकाभिः मितनधुररिभितगंभीरसश्रीकाभिः सितावर्णपद

पिाहिंयमणस्याहिं माणामाहिं उलाराहिं कल्याणाहिं सिवाहिं धस्याहिं मंगलाहिं सस्मिरयाहिं  
हिययगमणिज्जाहिं हिययपल्लुहायणिज्जाहिं मियगज्जरिभितगंभीरसस्मिरीयाहिं गिराहिंसं

लुहीवांणीकंतकामनीवांछाकारीये सदैवएहवी प्रीतकारणीसगलाने अद्वेषकारणी मनोज्ञएहवीवांणी मनमांहेगमे एहवीवांणीप्र  
धाननादअक्षरोच्चारादिकेकारीसहितवांणी कल्याणसमृद्धनीकरणहारी वांणीये शिवनिरुपद्रवकारिणीवांणीये धननीषायणहारी  
मंगलीककारणीवाणीइं सश्रीकअलंकारिकरी शोभावतीएवाणीये हियामांहेगमती रुचतीएहवीहीयामांहे आह्लादनीकरणहारी



वाक्यापेचचापरिमिताः अधुराःस्वरतःरिभिताः स्वरघोलनाप्रकारवत्या गंभीराःअर्थतःशब्दतश्च सहश्रियोक्तगुणलक्ष्मायासासायात  
तःपदपंचक्रस्यकर्मधारयस्तस्ताभिर्वाग्भिः संलपन्तीर पुनःपुनर्जल्पन्तीत्यर्थः नानामणिकनकरत्नानांभक्तिभिर्विच्छित्तिभिश्चित्वं वि

लंबमाणिप्रडौबोहई पडिबोहित्तसेणिएणंरखा अभभणुसायासमाणी णाणामणिकणगरयणभन्ति  
चित्तंसिभद्दासणंसिणिसौयइरत्ता आसंस्थावौसत्था सुहासणवरसुहासणवरगथा करयलपरिग

एहवी मितप्रमाणोपेतअक्षरपदवचनीअपेक्षायै प्रमाणोपेतमधुरमीठी स्वरयकीरिभितस्वरनावोलनाप्रकारवती गंभीरछे अर्थ  
यकीशब्दयकीशोभावतीएहवीकाणीयेकारी वारंवारबोलतीयकी प्रतिबोधे जगडेअणिकराजाप्रते जगडोने अणिकराजाइं आजा  
दीधीयकी नानाप्रकारनामणिचंद्रकांतादिवाकनक सुवर्णरत्नकर्कतनादिकतेहरत्नानीभाति तेणेकारीचित्वविचित्राच्यकार्यकारीचि  
तामसहिः छेजेतेहनेविषेएहवाभद्रासनसिंहासनविषेवेसेवेसीने आश्वस्त्यईमार्गेआवतांजपनाअसखेदनाटालिवायकी विखलखयई  
विशेषेआवतायईसंखोभनाऽभावयकी सुखेसमाधिइंसुभभले आसनसिंहासनवरप्रधानतेहने विषेगतावे ठोरहीछे जेतेराणीकर

चित्तं च तत्र तथा तत्र भद्रासने चिन्तासने आश्रयसागतिजनितश्चापगमात् विष्टसासंचोभाभावात् अमुत्सुक्तावा सुहासणवरणवन्ति सुखेन शुभेन वा आसनं वरगता स्थितायासातया कारतलाभ्यां परिगृहीतः आलः कारतल परिगृहीतलं शिरःखावत्तं आवर्तनं परिभ्रमणं यस्य शिरःखावत्तं इत्येके के शिरसाद्य प्राप्त इत्यन्ये तसंजलिं सखके दत्त्वा एवमवादीत् केमन्ने इत्यादि कोमन्ये ज्ञान्याणः फलवन्ति विशेषे

हियं शिरसावत्तं इत्येकं अंजलिं कुरु, सेणियं रायं एवं वयासी एवं खलु अहं देवाणु प्रिया अज्जतं स्तितारि  
सगं सिसयणिज्जं सि साखिं गणवट्टिए जावणियगवयणसइवयं तंगयं सुमिणे पासित्ताणं प्रडिबुद्धांतं ए

तत्र हाथवे परिसमंताद्वावेकरी ग्रह्योच्छे कीधोच्छेकमलं नाडोडानीपरि शिरसखकने विषे आवर्तनं गृह्ये परे करी ससाडवोच्छे जेहनो एहवाप्रते सखकने विषे चडती अंजलिहाथवे जोडी करीने अणिकराजाप्रते एहं वुं काहती ऊई धारणी देवी एणे प्रकारे खलु निचं अजाज्जं हे देवाणु प्रिय हे अणिकखाभिन् आजते हवी पुण्यवंतं न योग्य एहवी शय्याने विषे विज्जं पासे शरीरप्रसाण ओसी सेसहित पूर्ववर्णवीच्छे तेह वी केहवी जिहं लगी स्वप्न देखी राणी जागी तिहं लगी सर्वपाठकहिं वो निचगपोताना सुखमांहे प्रवेश करतो पैसतो एहवो गजहाथी

पोभविष्यति इहमन्येइतिवितर्कार्थोनिपातः सोऽच्चित्तिश्रुत्वाश्रवणतः निश्चयश्रवणार्थं हृष्टुष्टोथावद्विसर्पहृद्दयः तथावाचनान्तरेपुन

यस्त्रणं देवाणुप्पिथा उरालस्य किमस्त्रेकक्ष्माणे फलवित्तिविसेसेभविस्त्र तएणंसेसेणिएराया धारणीदे  
वीअंतिएयमडुंसोच्चा णिसम्महदुहुजावहियए धाराहयणीवसुरभि कुसुमचंचुमालइयतणूऊस  
वियरोमकूवेतेसुमिणं उगिणहदूहं अणुपविसदू अप्पणोसामविणं मइपुव्वएणंबुद्विविस्साणेणं

तेस्वप्नतेदेखीनेजागी तेकारणथकी एहनोहेदेवानुप्रिय उदारप्रधानकारीस्वप्नो कुण्डंमानुंकल्याणकारी फलनोदृत्तिविशेष  
फलपदार्थनोविशेषज्ञस्ये तित्त्वारपच्छीते अणिकराजा धारणीनामादेवीनासमीपथकी एहअर्थतेवात्ताप्रते सांभलीने हृदयमांहि  
अवधारीने हृष्टहर्षविस्त्रयतुष्टसंतोषवंत यावत्शब्दथकी अनैराहर्षवाची बोलकहीये हर्षघणोजयास्यो मेघनीधाराइं आहतआह  
श्योनीपकदंजनामादृच्छनो सुरभिक्षुसुमसुरभिफलविकासपांमे विकस्वरथाइं तेहनीपरिचंचुमालइयपुलकितरोमांचितहर्षवंतययोक्के  
तनुशरीरजेहनोएतलेस्युं कच्छीछे ऊसवियलं चाथयाछे शरीरनारोमनाच्छिद्रोमनाम्बलजेहने एहसोहर्षवंतययो तेस्वप्नतेग्रहेसं

रिहरात्रीवर्णकेचेदसुपलभ्यते धाराहयनीवसुरहिकुसुमचंचुमालइयतगू जसविधरो मकूवेत्तितलनीपः कदंबःधाराहतनीपसुर  
भिकुसुममिवचंचुमालइयत्ति पुलकितातनुयंस्यसतथा किमुक्तं भवति जससिचत्तिउत्सुहतारोमकूपारोमरंभ्राणियस्य सतथातंस्वप्नम

तस्सुमिणसत्योगंहंकरेइ२ धारिणीदेवीयंताहिं जावहिययपएहायणिज्जाहिं मिउमडरगंभीर  
सस्सिरीयाहिंबग्गुंहिं अणुबूहमाणेएवंवयासी औरालाणंबुमेदेवाणुप्पिएसुमिणादिइहा कल्लाणाणं

ग्रहसंभारेसंभारीने छताअर्थनापर्यालोचनलक्षणविचारणामंहिपेसे पोतानाआत्माने आत्मासंबधीइंसहजमतिपूर्वकआभिनिबोध  
ज्ञानयकीजपनीएहवीमतिपूर्वं करीवृद्धिविज्ञानिकरीमतिविशेषयकी उपनीजेउत्पातकी बुद्धिनोविज्ञानतेणेकरी तेस्वप्नोअर्थाव  
ग्रहफलनोनिश्चयकरे एतलेतेस्वप्ननाफलनोनिश्चयद्वारंकरीने धारणीनामारांणीप्रते विशिष्टगुणसहिततेणे जावशब्दयकी वीजाइ  
वाणीनाशब्दकाहिवाहीयामांहेगमतीसमभतीरूचती हीयामांहेप्रह्लादआनंदकारिणीविशेषहर्षनीकरणहारी एहवी मिताअचर  
पदवचनादिकेकरीप्रमाणोपेतमधुरमीठीस्वरयकी गंभीरउंडीअर्थयकी गंभीरतेणेकरीसोभावती एहवीवांणीयेकरीअणिकराजा

वट्कृति अर्थावग्रहतः ईहामनुप्रविशति सदर्थपर्यालोचनलक्षणां ततःअप्रणोत्तिआत्मसंबंधिना स्वाभाविकेन सहजेनमतिपूर्वेण  
आभिनिबोधकप्रभवेनबुद्धिविज्ञानेनमतिविशेषभूतौत्पत्तिकर्वादि बुद्धिरूपपरिच्छेदेन अर्थावग्रहं स्वप्नफलनिश्चयं करोति ततोऽवादीत्

तुमेदेणुप्पिएसुमिणादिइहा धस्ये भंगल्लेमंस्खिरीएणंतुमेदेवाणुप्पिएसुमिणादिइहा आरोग्गबुद्धिदोहा  
उकल्ल्हाणंभंगल कार्गणंतुमेदेवी सुमिणादिइहा अत्थलाभोदेवाणुप्पिए पुत्तलाभोदेवाणुप्पिएरज्ज

राणीप्रतेएहवोकहतोज्जओ उदारप्रधानकारीयो तेहेदेवानुप्रिये हेसरलखभावैखप्पोदीठो कल्याणनीरोगकारीयो तेहेदेवानुप्रिये  
हेधारणीसुपनोदीठो धननो आपणहारोमंगलीकनो कारणहार सत्रीकसोभानोकारी एहवोतेहेदेवानुप्रिये सुपनदीठो आरोग्य  
नीरगनोकरणहारो तुष्टिसंतोषनो कारणहारो दीर्घघणाकालनाआउखानो कारणहारो कल्याणकारीमंगलीकनो कारणहारोएह  
वोउत्तमतेहेदेवानुप्रिये हेसरलखभावैहेदेविसुपनदीठो हिवेसुपननादेखवाथकी अर्थद्रव्यहिरयादिकधननोलाभते तवताहरेहो  
स्येहेदेवानुप्रिये ताहरेपुत्तनोलाभहोस्ये हेदेवानुप्रियो ताहरेराज्यनोलाभहोस्ये भोगपंचेंद्रियसुखनाभोगनो लाभहोस्ये हेदेवा

उरालेणसित्यादि अर्थलाभो इत्यादिषु भविष्यतीतिशेषोदृश्यः एवंउपपद्यन् हयन्नसुभोदयन् एवं खलुन्ति एवं रूपाहुक्तफलसाधनसम्यग्धीत् खप्ताहारकंप्रजनियसीति संबंधः वज्रपडिपुष्याणंति अतिपूर्णपुष्याः सप्तस्यर्थात् अर्द्धमष्टसं येषु तान्यर्द्धाष्टमानि तेषुरानि दिवेष्वहोरात्रेषु अतिपूर्णानि तेषु कुलकेत्वादीन्येकादशपदानि तत्रकेतुचिह्नं भ्रजइत्यर्थः केतुरिवकेतुरहूतभूतत्वात् कुलस्य केतुःकुल

लाभोभोगलाभो सुंक्खलाभोदेवाणुपिपए एवंखलुतुमंदेवाणुपिपए एवएहंमासाणंवज्रपडिपुष्याणंअ  
र्द्धमष्टाणंराहं दियाणंविहूकं ताणं अहंकुलकेतुकुलदीवं कुलपव्वयंकुलवडिसयं कुलतिलयंकुलकि

सुप्रियेहेधारिणीइसअसुभोदतो यकोइरणेप्रकारे कच्छाफलनाकारणना समर्थयकीस्वप्ननादेखवायकी खलुनिचयतुं हेदेवासुप्रियेनव मासवज्रघणुं प्रतिपूर्णसंपूर्णउपर अर्द्ध आधोआठमोक्खे जेदिवसनेविषे तेअर्द्धाष्टमकहीये तेरातिदिवसव्यतिक्रमे थकेएतलेनवमास संपूर्णपूराअनेउपरसाठेसातअहोरातिव्यतिक्रमेथके आपणाकुलनेविषेकेतुअजासरिखोपुवज्रस्ये आमणाकुलनेविषेदीवासरिखो होस्ये प्रकासनोकरणहार आपणाकुलने विषेपर्वतसारिखोहोस्ये पर्वतनीपरि पराभवीनसकीये कुलनेमांहे अवतंसशेखरसुकटरू

केतुः पाठान्तरेण कुलहेतुं कुलकारणं एवंदीपद्वदीपः प्रकाशकत्वात् पर्वतो न भिभवनीय स्थिराश्रयसाधर्म्यात् अतस्तंसः शेखरः उत्तमत्वात् तिलको विशेषकः भूषकत्वात्कीर्तिकरः ख्यातिकरः क्वचिदूत्तिकरमित्यपि दृश्यते दृत्तिश्च निर्वाहः नन्दिनरो दृष्टिकरः यशः सर्वदिगामिप्रसिद्धिविशेषस्तस्यकरः पादपोद्वजः आश्रयणीयच्छायत्वात् विवर्द्धनं विविधैः प्रकारैर्दृष्टिरेव तत्कारणं विषयाय परिणयमेतत्ते

त्तिकरं कुलवित्तिकरं कुलशक्तिं कुलजसकरं कुलाधारं कुलपायवं कुलविवर्द्धणकरं सुकुमालपा  
श्रियपायं जावदारयंपयाहिंसिसेवियणंदारण सुसुक्कबालभावे विषयाय परिणयमिति जोष्वणगमणुप्र

पक्षेस्ये कुलमाहेतिलकसमानं होस्ये आपणकुलनेकीर्त्तिख्यातिनोकरणहारहोस्ये आपणकुलमाहे दृत्तिनिर्वाहनोकरणहार कुलनेनं दिदृष्टनोकरणहारहोस्ये कुलनेजससर्वदिशिख्यापीजशप्रसिद्धितेहनोकारक कुलमाहे आधारभूतश्रोठंभारूपहोस्ये कुलमाहे पादपद्वजसमानसर्वने आश्रयवायोग्यच्छांहप्रणायकी कुलनेविविधवर्णप्रकारेकरी बृद्धिजेवधारवोतेहनोकारकहोस्ये सुकमालसूहाला पाणिहाथपायपगच्छे जेहनाएहवो जावशब्दयकी अनैराइशब्दकहिदेदारकपुत्रप्रते जणेसिप्रसवेसितेपुत्रश्चपिनिश्चयच पुनःवलीयंन

न्तिविघ्नकपरिणतमात्रच कलादिष्वितिगम्यते तथासूरोदानतोऽभ्युपेतनिर्वाहणतोवा धीरःसंग्रामतः विक्रांतोभूमखडलाक्रमणतःविस्तीर्णविपुले अतिविस्तीर्णविपुलेवाहने सैन्यगवादिकेयस्यसतया राज्यपतीराजाखतन्त्रइत्यर्थः तमितियस्मादेवंतस्मादुदारदिविशेष

त्तेसूरेवीरेविक्रंते विच्छिन्सविपुलवाहणे रज्जवईरायाभविस्वइ तंभरालाणंतुमेदेवीएमुमिणेदिद्वे जावआरोगतुडिदीहंछ कक्षाणकारणं तुमेदेवीसुमिणेदिद्वेत्तिकट्टु, भुज्जोइ अणुबूहेइ तएणंसाधा

घननाअलंकारभण्णोदारकपुत्रः उत्प्राबल्यपणेकरीण्वंक्वोछे बालभावस्वभावजणेएहवोयको विज्ञानमात्रपरिणमययकोएतावता समस्तकलानेविषे ज्ञाणप्रवीणयथोयको यौवनवयपांश्वेयको सूरदातारहोस्येदेवदानयकी सूरवीरहोस्ये विक्रांतपराक्रमवंतहोस्ये षणीष्ठयवीनाआक्रमवायकी विस्तीर्णयकीविपुलअति धणुं विस्तीर्णवलसैन्यकटकवाहनवेसरगाइ प्रमुखछे जेहनेएहवोयको रज्जवई राजानोपतिस्वामीधणी एहवोराजाहोस्ये तंतेहकारणयकी उदारस्कारप्रधानकारीयो तंहेदेवी स्वपनदीठोजावयब्धयकीअने राबोलकहीये आरोग्यनीरोगकारी तुष्टिसंतोपनोकरणहार चिरकालनादीर्घ आउखानोकारक कल्याणकारीयापदार्थनोकरण



पनायचैवंनिर्देशः द्रुतिकदृत्तिद्रुतिभणित्वात्तमेत्ति स्वरूपतः पद्माणेत्तिफलतः एतदेवाह मंगल्लेत्ति मंगल्लेत्ति स्वप्नद्रुतिस्त्रुमिण  
जागरियंति स्वप्नसंरक्षणार्थं जागरिकातांप्रतिजाग्रतीविदधती पञ्च सेत्यादिप्रत्युषकाललक्षणोयः समयोवसरः सतथातलकौटुं विकपु

त्तमेपहाणेसंगलेसुमिणे अस्से हिं प्रावसुमणेहिं पडिहिमिहित्तिकदृ, देवयगुरुजणसंबंधाहिंपसत्या  
हिंधम्मियाहिं कहाहिंसुमणजागरियंपडिजागरमाणोऽविहरद्र तएणसेसेणिएराया पञ्चसकालस  
मयंसिंकोडु'बियपुरिसे सहाविद्वत्ता एवंवयासीखिप्पामेवभोदेवाणुप्पिया बाहिरियंउवडाणसालं

फलथकीप्रधानकारीयो मंगलक्षणार्थनोप्रतिघातहणवानेविषेएहवोसुपनदीठोक्के अनेरेबीजेपापसुपनेकरी अमांगलीककारी एसुप  
ननेदेखवेकरीप्रतिहणाय्से वस्त्रीनिद्राआवस्येतोतेमाटे एउत्तमस्वपनमाहरोमाजाओ देवगुरुजनसंबंधीप्रशस्तभली धर्मसंबंधिनीएह  
कथावार्त्ताइं करीतेउत्तमराखवाने अर्थस्वप्नजागरिकाप्रतेप्रतिजागरणजागतीछती विचरेक्के धारणीराणी तिवारपछीतेअणिक  
राजाप्रभातकालनोसमयविहाणुययेक्कते कौटुंविक्कआदेसकारीयापुरुषप्रतेतेडावेतेडावीने एहवुंकहतोऊवो छिप्रजतावलाअहो

रुषानादेशकारिणः सदावेद्वत्ति शब्दं करोति यद्दयति उपस्थानशाखां आस्थानमंडपं गंधोदकेत्यादिगन्धोदके नसिताशुचिकापवित्रासं  
 सार्जिताकचवरापनयनेन उपलिप्ताच्छगणादिनायासातथातां द्रुदं च विशेषणं गन्धोदकसिक्तसंमार्जितोपलिप्तशुचिकामित्येवदृश्यं सिक्ता  
 द्यनन्तरभावित्वाच्छूचिकत्वस्य तथा पंचवर्णैः सरसः सुरभिश्चमुक्तः चिप्तः पुष्पपुंजलक्षणे य उपचारः पूजातेन कलितायासातथातां काले

अञ्जसविसेसंपरमं रं रं गंधादगसितं सुद्वयसम्भजिउवलित्तं पंचवर्णसरससुरभिमुक्कपुष्पपुंजोवया  
 रकलियं कालागुरुप्रवरकुं डुरुक्कतुरुक्क धूवडवभंतमधमधंत गंधद्वयाभिरामं सुगंधवरगंधियं गंधवद्वि

देवानुप्रियतुम्हे वाहिरलीउपस्थानशालामर्दनकरवानीशालाप्रते आजतुम्हे दिहाड़ीयकी विशेषसहितकरोपरमउत्कृष्टरमणीक  
 मनोहरगंधोदकेडुगंधपाणीये सीचोच्छांटो शुचिकापवित्र समार्जितकं समारोपुंजोपुंजावोकचरानेटालवेकरी तथाउवलित्तच्छगण  
 गोवरादिकेकरी लींपोलींपावो पंचवर्णनासरसतत्कालनालीधाविटं वी सुरभिगंधएहवाठांमरुं कथा विलेख्याजे फूलनापुंजसमूह  
 तेरूपपूजाइं करीसहितकरो बलीतेउपस्थानशालाकेहवी करोच्छणागुरुधगरप्रवरप्रधानकंडुरुक्काचीडगंधद्रव्यविशेषतुरुक्कसेलुहारस

त्यादिपूर्ववत् आणत्तियंतिपञ्चपिणहत्ति आञ्चत्तिमादेशं प्रत्यर्षं यत्कृतं सतीनिवेदयतः कक्षमित्यादि कक्षमित्स्वः प्राडुः प्राक्षाख्य

भयंकरेहकारवेहय एवमाणत्तियं पञ्चपिणह तएणंतेकोडु' वियपुरिसासेणिएणं रखाएवंवुत्तास  
आणाहड्डुडुजाव पञ्चपिणहतएणंसेणिएराया कल्लंपाउप्यभाएरयणीए फुल्लुप्लकमलकोमलमि

लोवांननीजातिविशेषपदशांगादिगंधद्रव्यनासंयोगयकी जपनोतेधूपणो कहीयेतेदाभताबलतासंबंधी मधमघायमान अतिशयवंतजे  
गंधके उद्भूतअर्चकारीत्विकेकरी अभिराममनोहरएहवी भलाउत्तमगंधवरप्रधानवासनागंधके जेहनेविषे सुगंधद्रव्यनीगोलीअ  
थवाकसूरीनीगोलीतेगंधनीवांतीनो भूतजपनोजेसुगंधपणानो अतिशयतेहथकीसगलीशालागंधद्रव्यनीगोलीसरखीसुगंधएहवीशा  
लाप्रतेपोतेतुम्हेकरो अनैराधसेकरावो एमाहरीआञ्जा प्रतेजतावली करीनेपाळीसुभनेस्वंपोसमर्पो तिवारपछीते कौटं बिकञ्चा  
ञ्जाकारीयापुरुषअणिकराजाइं एहवंकह्याच्छता हर्षसंतोषमाभ्याच्छताजावविनयसहितआञ्जाअंगीकारकरीने तेपूर्वोत्तकार्यकरीनेरा  
जानीआञ्जापाळीसूये तिवारपछीते अणिकराजा कालिविहाणेएतले आजनादिवसयकीजीजे दिवसपाउ. प्रकासयथा अनंतररज

ततः प्रकाशितायां रजन्यां फुल्लोत्पलकमलकोमलोन्मीलिते फुल्लविकसितं तच्च तदुत्पलञ्चपद्मं फुल्लोत्पलंतच्च काललचहरिविशेषः फुल्लोत्पलकमलौतयोः कोमलकठोरसुन्मीलितंदलानां नयनयोश्चोन्मीलनं यस्मिंस्तत्तथा तस्मिन्नथ रजनीविभातानन्तरं पांडुरे शुक्लो प्रभाते उषसि रत्तासोगेत्यादिरत्ताशौकस्य प्रकाशः प्रभासैव किंशुकं च पलाशपुष्पांशुकसुखं च गुंजा फलविशेषो रत्ताकृष्णसदृशं च बंधुजीवकं च

स्त्रियं सिद्धं हंपंडुरेऽप्यभाए रत्तासोगपगास किंशुकसुयसुहशुं जड्बंधुजीवे वगपारान्वयचलणयण्यं

नीरातिविहाणीप्रगटदिवसनो सुखययेपक्के एतलेपाक्की एकघडी रात्रियाकतेच्छते केहनो प्रभातो दयथयेच्छते फुसुप्पलविकास्याविका सपास्यां उत्पलकमलतथाकमलकं हिरण्कालीयारविशेष तेवेज्जनाकोमलसुकमालकमलनीपांखडी उन्मिलितकं विक्रसेविकास याइं तथाकमलहरिणतेहनानेनेल उन्निद्रतानिद्रारहितथाइं नेलविकासथाइं नेलउघाडेजेसूर्योदयथावेच्छते त्रयश्चिह्वे रात्रिव्यतिक्रम प्रभातययोतिवारपक्कीपंडुरधोलोउजलीप्रभाथयेच्छते रातोअशोधानामाष्टत्तेहनासरिखोप्रकाशक्के जेसूर्यनो किंशुकपलासदृशना फूलसारिखोरातो रंगरागक्के शुकसुखसूडानो सुखचांचतेहनो जेरागुं जाचिणोठीतेहनो अर्द्धआधोभागजेहवोरातो ऊइंबंधु

बंधूकंपारापतः पक्षिविशेषः तच्चलननयनेचपरमृतः कोकिलः तस्यसुरक्तं लोचनं च जासुमणइति जपावनस्यतिविशेषः तस्याःकुसुमं चञ्चलितञ्चलनञ्च तपनीयकलयञ्च हिंगुलकोवर्णकविशेषः तन्निकरञ्चराशिरतिद्वंद्वः ततएतेषां यद्द्रुपंततोतिरेकेणाधिक्येनरेहंत त्तियोभमानास्वास्वकीया श्रीर्वर्णलक्ष्मीर्थस्यसतथा तस्मिन् दिवाकरेद्यादित्ये अथानन्तरंक्रमेण रजनीञ्चयप्राङुरप्रभातकरणलक्षणे नउदितेउद्गते तस्मदिणकरपरंपरोयारपरद्धंमि अंधकारेत्ति तस्यदिवाकरस्यदिनेदिवसे अधिकरणभूते दिनायवायः कारपरंपरायाःकिरणप्रवाहस्यावतारोवतरणं प्रारब्धमारब्धमभिवितुमितिगम्यते अपराद्धं वा विनाशितंदिनकरपरंपरावतारप्रारब्धंतस्मिन्

रज्जयसुरत्तलोयण जासूणकुसुमजलिय जलियजलणतवणियकलस हिंशुलुयनिगररूवाइरेगरिहं

जीवनामाफुलविशेषवाचं धुजीवकजीवविशेषजेहवो रातोऊइं पारापतपारिवानाचरणपगत्रनेनयन नेलजेहवाराताछे तेणेकरीसा रिखोपरमृतकोकिलतेहनासुरक्तअतिशयेकरी रातालोचन नेततेहनारंगतेणेकरीसारिखो जाइनाफूलनोसमूहतेहनोजेरागतेणेक रिसारिखोच्चलितजाञ्चवल्गमानजलणअग्निपनीयसोनानोकलसहिंगलसूक्ष्मवांच्योतेहिंगलूनोसमूहएहप्रूर्वोक्तसव

सति इह च तस्येति सापेक्षत्वेऽपि समाससंवादादर्थनादन्वकारितमसि तथात्रालातपएवकुंकुमं तेन खचिते इवरञ्जिते इव जीवलोके सति तथा लोचनविषयस्य दृष्टिगोचरस्यो अणुयासोत्ति अनुकाशोविकाशः प्रसरइत्यर्थः तेन विकसंश्चासौ वर्द्धमानो विशदश्च स्पष्टः स चासौ दर्शितश्चेति लोचनविषयविकाशविकसद्विषयदर्शितस्त्रिन् कस्त्रिन्वित्याह लोके अयमभिप्रायोन्वकारस्य क्रमेण हानौ लोचनविषयविका

तसि सिरीएदिवागुरे अहकमेणं उहिए तस्सदिणकरपरपरोयारपारइं मिअंधयारिवालातवकुंकुमे  
एखचियंमिजीवलोए लोचणविसयाणुवासविसंगंतविसदंसियंमिलोए कमलागरसंडवोहएउड्डियं

लाइयकीअतिरेकअधिकपणे करीसोभावमानएहवीपोतानीअीलक्ष्मीछे जेहनेएहवोतेदिवाकरसूर्यः अयएतलायकी अनंरक्रमअ  
नुक्रमनेरातिनेचये करीधोलोप्रभातकरिवालचणउदितंजये ऊतेछते तेसूर्यनेदिनदिवसमणी जेकरकिरणनाप्रवाहनो अवरवो  
तेणेकरीप्रारंभ्योछे विनाशकरवाभणीअंधकारअंधारो एतलेसूर्यनादेखिवायकी अधारोविनाशयामेछे वालतरणोआतपसूर्यतेरूप  
कुंकुमकेसरतेणेकरी रंग्योपिंजरसरिखो नीलोपीलोतेहनीपरे जीवलोकमनुष्यलोकऊवेछते एतलेनवालोजगतोसूर्यकुंडुमसरि

यः क्रमेणैव भवति स च विकसन्तं लोकं दर्शयत्येव चन्धकारसद्भावेद्दृष्टेरप्रसरणे लोकस्य संकीर्णस्थेव प्रतिभासनादिति तथा कमलाहारा  
 क्रदादयस्तेषु खंडानि निलिनीखंडानि तेषां बोधकोयः तस्मिन् उच्यते उदयानन्तरावस्थां प्राप्ते सुरेन्द्रादित्ये किंभूते सहस्ररश्मौ तथा  
 दिनकरे दिनकरणशीले तेजसाज्ज्वलति सतीति अदृशसालत्ति अदृशसालाव्यायामशालेत्यर्थः अनेकां नित्यानि व्यायाया व्यायायामनि  
 भित्तयोग्यादीनि तानि तथा तत्र योग्या च गुणनिकावलानं चोत्सलनं व्यामर्दनं च परस्परैणवाहाद्यङ्गमोटनं मङ्गशुद्धं च प्रतीतं करणा

मिसुरे सहस्ररश्मिदिशयरे तेयसाजलं ते सयणिज्जाओ उडु इरत्ता जेणेव अदृशसालातिणेव उवागच्छ

खोरातो दीपेतिणे करी मनुष्यलेके रूपपांजरो नीलोपीलोथयेच्छते लोचननो विषयदृष्टिगोचरनो अणुवासक० विकासप्रसरवोतिणे करि  
 विकसतो वाधतोच्छतो विशदप्रगटं दर्शनदेखवायकी लोकने विषे कमलना आगरउपजवाना ठामद्द्रादिकते हने विषे खंडकमलजावन  
 तेह नो बोधकविकाशनो कारणहारच्छे एहवो उदयथी अनंतरअवस्थाप्रतेपास्योसूर्यज्जतेच्छते तेकेहवोच्छे एकसहस्ररश्मिकरणच्छे जेहने  
 दिनकरदिवसनो कारणहार तेजने समूहे करी जलंतजाज्वल्यमान दीपतोच्छे एहवोसूर्यज्जतेच्छते ते अणिकरालाशय्याथकी उठेजटीने

निचांगभङ्गविशेषाः मङ्गशास्त्रपसिद्धान्तैः आन्तःसामान्येन परिआन्तो अङ्गप्रत्यङ्गापेक्षयासर्व्वतः शतद्वल्लोयत्पक्षं शतेनवाकापी  
पशानांयत्पक्षं तच्छतपञ्चमेवमितरदपि सुगन्धिवरतैलादिभिरर्थगैरिति योगः आदिगन्धात्दृढतर्कपूर्वपानीयादिग्रहः किंभूतैः प्रीयानी

इन्द्राणसालंअणुप्रवीसइरत्ता अणुग वायामजोगवग्याण वासदृणुद्वकारणेहिं संतेपरिस्संतेसय  
पागसहस्सपणेहिं सुगंधवरतैलमाइएहिं पीणणिज्जेहिं दप्पणिज्जेहिं मह्णिज्जेहिं विहणिज्जेहिं स

जिहंअदृणशालाअमकरिवानीशालाआअमच्छे तिहंअविआवीने अदृणअमकरिवानीशालाप्रते अनुपच्छेप्रवेशकरे अनेकवणेप्रकारे  
व्यायामअमकरिवानिमित्तजोगक० गुणिलपाडिभारिसंगिलपाडे १ वग्याणवलगवो उंचोऊच्छलिबोर वामदृणव्यामर्दनमाहोमाहि  
हायवाड्धादिकअंगनोमोडिवोइ मस्ययुद्ध४ करणक० अंगभंगअंगनामोडिवाविशेष मस्यनाशास्त्रमांहे प्रसिद्धय तेणेशमेकरीराजा  
सामान्यप्रकारेआंतथाकोपरिआंतअंगप्रत्यंगनी अपेक्षायेसर्वथाथाकोछे तेकारणथाकीशतपाक० सोवारकरिने उपराडपरिओषधी  
नारससंघाते अग्निमांहे पाडतथासोटकेसेरेवेचाइं तथासहस्रपाकतेलसहस्रओषधीनारससंघाते नीपजेतथासहस्रटके सेर१वे



येः रसकृधिरादिधातुसमताकारिभिर्दीपनीयैरग्निजननैः दर्पण्यैर्बलतरैः मदनीयैर्भन्मथवद्धं नष्टं हृणीयैर्माँ सोपचयकारिभिः सर्व्वे  
 न्द्रियगतप्रह्लादनीयैः अभ्यंगैः स्नेहनैः अभ्यंगः क्रियते स्म यस्य सोम्यं गितः सन् ततस्तैलचर्मणि तैलाभ्यक्तस्य संवाधनाकारणाय यच्चर्म  
 ततैलचर्मतस्त्रिन् संवातिते समाणोत्तियोगः कैरित्याह पुरुषैः कथं भूतैः प्रतिपूर्यानां पाणिपादानां सुकुमालकोमलानि अतिकोमला

त्रिविध्यगायपलहायणिज्जिह्वं अभिं गिए समाणे तैलचर्मं सि पडिपुष्पाणि पायसु कुमालमोमलत

चाइं एहवो सुगंधसुरहागंधवंतजे तैलमहागुणकारी तैलादिकने अभ्यंगे करी आदिशब्दयकीषी कपूरपांणीयादिके करी केहवे अभ्यंगे  
 प्रीणनपुष्टकरे रसकृधिरादिकधातुने समतापणोराखे वलीकेहवे दर्पणबलनेवधारितथा दीपावेजाठराग्निने वलीकेहवे मदनमन्मथ  
 कंदर्पनाष्टद्विकरणहारा वलीकेहवामांसनी दृष्टिनाकरणहारावली केहवाछे अभ्यंगसर्वसगलाइं द्वियपांचअनेगालशरीरप्रतेप्रह्ला  
 दहर्षनाउपजावणहारातेणे करी अभ्यंगनचोपडनकीषेछते तिवारपच्छीतैले करी भख्योविसामणकारिवाभणीजे चर्मते तैलचर्मकहीये  
 पासेते केहवापुरुषछे पडिपुष्पपूराकिसी ईखोडनहीं एहवाछे पाणिहाय पायपगते वलीसुकमाल सुं हालावणुं कोमलकृलाछे तलो

नितलान्यधोभागायेषां तेतयातैः छेकैरवसरञ्चैद्विसप्ततिकलापंडितैरिति चष्टद्धाः दक्षैः कार्योणामवलंबितकारिभिः प्रष्टे वीरिमिभि  
रिति वृद्धव्याख्या अथवा प्रष्टै रग्रगामिभिः कुशलैः साधुभिः संवाधनाकर्मणि मेधाविभिरपूर्वविज्ञानग्रहणशक्तिनिष्ठैः निपुणैः क्रीडा  
कुशलैः निपुणशिल्पोपगतैः निपुणानिसूक्ष्माणियानि शिल्पानि अङ्गमर्दनादीनि तान्युपगतान्यधिगतानिवैस्तेतयातैः जितपरिअ  
मैः व्याख्यान्तरैतु छेकैः प्रयोगञ्चैः दक्षैः शीघ्रकारिभिः पट्टेहिंतिप्राप्तार्थैरधिष्ठानकर्मणि निष्ठांगतैः कुशलैरालोचितकारिभिः मेधाविभिः  
सद्वच्छ्रुतदृष्टकर्मज्ञैः निपुणैरुपाचारंभिभिर्निपुणशिल्पोपगतैः सूक्ष्मशिल्पसमन्वितैरिति अभ्यंगनपरिमर्दनोद्धलनानांकरणेयेगुणा

लेहिंपुरिसेहिंछेएहिं दक्षलेहिंपट्टेहिंकुशलैहिंमेहावीहिं निष्ठणसिनिष्ठणसिप्रोवगएहिंजियपरि

अधोभागहेठलोभाग जेहनापगनातिणे एहवापुरुषमर्दना कारणहारतेणेमर्दनकरीये छेकअवसरनाजांण दक्षकार्यकारवानेविषे  
विलंबनही पुष्टपंडितछे अथाग्रगामीछे वीसामणानाकार्यनेविषेकुशलछेनु द्विवंतछे निपुणउपायक्रीडानेविषे निपुणडाहाछे निपुण  
सूक्ष्मजेशिल्पविज्ञानसरीरनामर्दनादिक वलीतेपुरुषकेहवाछे जीत्याछे परिअमअतिशयस्युं अमखेहजेणे एहवेपुरुषमर्दनकरीने

सोपुनिर्मातैः अस्य सुखहेतुत्वादास्थिसुखातया संवाहनयेतिविश्रामणया अपगतपरिश्रमः समंतजालाभिरामेति समंतात्सर्वतोजा  
लकौर्धिच्छित्तिच्छिद्रवद्गृहवायवविशेषैरभिरामोरस्योचः स्नानमण्डपःसतथा पाठान्तरे समंतजालाभिरासे तत्समस्तैर्जालकैरभि  
रामोचः सतथापाठान्तरेण समुत्तजालाभिरामे सहसुत्ताजालैर्योवर्त्ततेभिरामश्चसतथा तत्तशुभोदकैःप्रवितस्थानाहृतैः गन्धोदकैः

स्वमेहिंश्रभंगणपरिमद्गुणु च्छलणकरणगुणनिष्पाएहिं अट्टिसुहाएतयासुहाएचउच्चिह्राएसंवाहिण  
समाणेअवगयपरिस्वस्मेनरिंदे अट्टणसालाओपडिनिकखमईइत्ता जेणेवमज्जणघरेतेणेवउवागच्छइ

वलीतेपुरुषकेहवाक्के अर्थगन? परिमईनर उद्वलनइ करण४ तेहनाजेगुणक० विशेषतेहनेविषे निर्मातक० सदाजेहनेअथासच्छे  
अस्थिहाडाने सुखनाकारणपण्याथकी हृदयनेसुखकारी मांसनेसुखकारी चामडीनेसुखनीकरणकारी चारप्रकारनी संवाधना  
विश्रामणावीसामणातेणीइं अपगतक० गयोक्के खेददीनदयामणाप्रणो अमथकी जपनेजे शरीरनीस्वास्थ्यपणुंपरिश्रमथाकतीअसा  
तातेटल्याक्केगयोक्के खेद? परिअमर जेहथकी अट्टणशालाअमकरिवाना आवासघरथकी नीकलेनीकलीने जिहंमज्जनघरस्नानअंधो

श्रीखंडादिभिर्त्रैः पुष्पोदकैः पुष्परसमिर्त्रैः शुद्धोदकैश्चस्वाभाविकैः कथंमज्जितइत्याह तत्स्नानावसरे यानिकौतुकयतानिरजादीनि

इत्तामज्जणघरं अणुप्रविसइत्ता समुत्तजालाभिरासे विचित्तमणिरयण कोट्टिमतलेरमणिल्ले  
एहाणमंडवंसिणाणासुणिरयणभत्तिचित्तंसि एहाणपीठंसिसुहंसिसस्ये सुहोदगेहिंपुपफोदएहिं

लकरिवानाघरमांहिइं चोकींछे तिहंआवे आनीने मज्जनघरस्नानकरिवाना घरमांहे प्रवेशकरे करीनेस्नानकरिवानामंडपमांहि वाजोटनेविषेवैसेते मंडपकेहोछे सुक्ताफलमोतीए करीसहितछे जेजालीयांगोखआलीया वारणा प्रसुखतेणे करीअभिरामवलीके हवोछे विचित्तनानाप्रकारनामणिचंद्रकांतादिकतेणे करीकुट्टिमतलक० वांधीछेभूमिकाजडीकेकाहीजेहनेविषेएहवे रमणीकमनो हरएहवोस्नानअंधोलकरिवानो मंडपचोक्छे तेहनेविषे हिवतिहंवाजवटकेहवोछे तेकहेछे नानाघणाप्रकारनामणि चंद्रकांतादि कअनेरत्नकर्कतनादिकतेहनी जेभक्तिभातितेणेकरीचित्तविचित्तछे एहवोस्नानकरवानोपीठमंडपचोक्काजोटने आकरछेतेजपर सुखेवेंठोछतो मनोहरछे एहवेपांणीइं करीस्नानकरेतेकेहवा शुभपवित्तस्यानकथकी आख्याजेपांणीतीर्थनातेणेकरी वावनाचंदना

तैः पशुलेत्यादिपद्मलापद्मवती अतएवसुकुमालांगप्रधाना काषायिकाकषायरक्तशाटिका तथा लूषितमंगं यस्यसतथा अहतमल

गंधोदण्डिंसुद्वोदण्डिं पुणोपुणोकक्षाणप्रवरमज्जणविहीएमज्जिए तत्थकोऊसएहिंबड्डविह्विंहिं  
कक्षाणप्रवरमज्जणवसाणे परहलसुकुमालांगंधकासाइलूहियंगे अहयसुमहगधदुसरथणसुसंबु

दिकनेरसनेमिअे करीगंधोदकसुकुगंधपाणीतेणेकरी फूलनेरसमिअितउदकपाणीतेणेकरी स्वभावनो सहजनोताढोपांणीतेणेकरीवा  
रंवारकल्याणनाकरणहारारकल्याणकारीया प्रवरप्रधानजेमज्जनस्नानअंधोलकरिवानो विधिविधानतेणे करीनेमज्जिएस्नानकीधो  
तत्यतिहांअंधोलनाअवसरनेविषे कौतुकरचापोटलीने शतसईकड़ागमेकरी बड्डविधघणाप्रकारेकरी हिवेअेणिकराजाकल्याणका  
रीअोजेप्रवरप्रधानमज्जनस्नाननाअवसानेछेहड़ानेविषे एतलेकल्याणकारी योप्रधानस्नानकीधायकीअनंतर केहवोराजाछे पद्मव  
तीजेहनापद्मपुंता वाहिरछे एहवीसुकुमालसुं हालीगंधवती सुगंधेसहितकषाये करीरहितराती सूकड़केसरेंभरीरहेछे एहवी  
जेसाडीतेणेकरीलूह्योछेअंगशरीरजेहवो वलीकेहवोराजाछे अहतमलमूषकादिकउपद्रवरहितअलांछित सुमहगधबड्डमूल्य एहवो

श्रुषिकादिभिरनुपद्रुतं प्रत्यग्रमित्यर्थः सुमहार्घं दूथ्यरत्नप्रधानवस्त्रं तेनसुसंहृतः परिस्रतस्रदासुष्ठु संहृतंपरिह्रितंथेनसतथा तथा शुचिनीपवित्तेमालाच पुष्यमालावर्णकविलेपनंचमंडनकारिकुंकुमादिविलेपनं यस्यसतथा आविह्वानिपरिह्रितानिमणिमुवर्णानि

एसससुरभिगोसीसन्नंदणानुलित्तगत्तेसुद्रमालावर्णगविलेवर्णेआविह्वमणिमुवर्णकेकप्पियहारद्वहा  
रतिसरयपालंबपलंबमाणकडिसुत्तयकयसोहेपिणद्भगेविज्जेअंगुलिज्जगल्लियाकयाभरणे णाणाम

जेदूथ्यरत्नप्रधानवस्त्रसुसंहृतक० सुष्टुभलुंसंहृतपहिस्योच्छे जेणेएहवो वलीकेहवोच्छेराजा सरस्रतत्कालनावस्था सुरभिमुगंधगोशीर्षवाव नाचंदनतेशेकरीलिप्तच्छे गालशरीरजेहनोएहवो वलीराजाकेहवोच्छे शुचिपवित्तमालाफलनीसोतीनावर्णकनाना प्रकारनाविलेप नकुंकुमादिकनातेकीधाच्छे एहवावलीकेहवोच्छे आविह्वपहिस्याच्छे मणिअनेसोनानाआभरणजेणेएहवो वलीकेहवोराजाच्छेकप्पियक०कल्पोच्छे पहिस्योच्छे हार अठारसरोचद्द्वहारन वसरोविणसरनोहारच्छे जेहनेतथाप्रालंबकुंबणो तेषलंबमाणलांबो नाभिल गीअडतोच्छे जेहनेकडिसुत्तकडिनो आभरणविशेषकंदोरोतेशेकरी सुकयभलीसोभाकीधीच्छे जेहनेएहवो वलीकेहवोच्छे पहिस्याच्छे

यस्यसतथा कल्पितो विन्यसो हारो दशसरिको द्विहारी नवसरिकः त्रिसरकंचप्रतीतमेवयस्यसतथा प्रालंबोक्तुं वनकंप्रलंबमानोयस्य  
सतथा कटिसूत्रेणकञ्याभरणविशेषेण सुष्ठकृताशोभायस्यसतथा ततःपदत्रयस्यकर्मधारयःअथवाकल्पितहारादिभिः सुकृताशोभा  
यस्यसतथा तथापिनङ्गानिपरिहितानिग्रेवयकांगुलीयकानियेनसतथातथा ललितांगके अन्यान्यपिललिता निकृता निन्यस्तानिआम

शिकणगतुडियर्थभियमुए अहियख्वसंखीरीए कुंडलुज्जोद्रयाणणे मडडित्तिसिए हएच्छय

श्रीवाकोटिनेविषेआभरणजेखे तथाआंगुलीयानेविषे वेढवीटीप्रमुखआभरणपहिस्याच्छे तथा ललितमनोरमशरीरनेविषे अनेरावी  
जाइपुणललितशोभावंतमनोरमंकीधाच्छे आभरणजेहनेनानाघणाप्रकारनामणिना कडगहा धनाआभरणअनेतुडिय  
भाऊनाआभरणवहिरखतेणेकरीघणापगाथकीघणाभारथकी थांभासरिखाभारेथया छे भुजहाथजेहनाएहवो वलीकेहवोछे अधि  
जेरूपशरीरनोआकारतेणेकरीसश्रीकसोभायमानदीसेछे जेतेवलीकेहवोछे कुंडलकाननाआभरणतिणेकरी उद्योतवंतकीधोछे सु  
खजेहनो तथासुकुटोपिकरीदेदीप्यमानच्छे शिरमसकजेहनो वलीहाएच्छयहारे करीअवसृतढांक्वो आळाद्योतेणेसुकृतभलोकीधो

रणानियस्यसतथाततःपदद्वयस्यकर्मधारयः तथानानामणीनांकटकवृटिकैर्हस्तवाह्याभरणविशेषैर्वहुत्वात्संशिताविवस्त्रंभितौभुजौच  
स्यसतथा अधिकंरूपेणसञ्चीकः अशोभोयःसतथा कुं डलोद्योतिताननः सुकटदीप्तधिरस्त्रः हारेणावलृत्तमाच्छादितं तेनैवसुष्ठु द्युत  
रतिकंचवचः उरोयस्यासौहारावृत्तसुदृढतरतिववद्याः सुद्रिकापिङ्गलांगुलीकः सुद्रिजाःत्रंगुल्याभरणानि ताभिःपिङ्गलाःकपिला  
अंगुलयोयस्यसतथा प्रलंबेन क्षीर्षेण प्रलंबमानेन सुष्ठु द्युतं पटेनोत्तरीयसुत्तरासंगोयेनसतथा नानामणिकगकरत्नैर्विमलानिभ्रमहा

सुकयरइयवत्ये प्रालंबप्रलंबमाणसुकयप्रडल्लत्तरिज्जे सुद्रियापिंगलवृत्तिए णाणामणिकणगरयण  
विमलमहरिहनिउणे वियमिसिमिसंतसु सिलिडुविसिडुलडुसंठिय प्रसत्यआविडवीरवलएकिंब

छेरचितरचनासहितवच्चहीयो जेहनो बलीप्रालंबदीर्घमोटो प्रलंबलंबायमानसुदृढतभलोकीबोछे पट्टकपडैकरीलूणडेकरी उत्तरीय  
उत्तरासंगजेणे सुद्रिकात्रांगुलीनात्राशरणवेढवीटीप्रसुखतेणेकरीपिंगुलपीलीऊईछे आंगुलीयाजेहनी एहवे नानाप्रकारनामणि  
चंद्रकांतादिककनकसुवर्णैरयणरत्नकर्मकतनादिकतेणेकरीविमलनिर्मलमहरिहमहाभ्र्यं बहुमूल्यमोटाने पहिरवायोग्य तेनिपुणडाहे



कीणिमहाधीणि निपुणेनशिल्पिना उवचित्रित्तिपरिकर्मितानि भिसिमिसंतत्ति दीप्यमानानियानिविरचितानि निर्मितानितानि सुस्तिष्ठानिसुसंधीनिविशिष्टानि विशेषवंत्यन्येभ्यो लष्टानिमनोहराणिसंस्थानि प्रशस्तानिच आविद्वानिपरिहितानि वीरवलयानि येनसतथा सुभटोद्दिश्यदिकाश्चिदन्योप्यस्तिवीरव्रतधारीतदासौ सांविजित्यमोचयत्वेतानिवलयानीतिस्पर्द्धयन् वानिपरिदधातितानि

ऊणाकप्यस्वलकएचेव अलंक्रियविभूसिए एरिं देसकोरिं टमल्लदामेणं छत्सेणंधरिं ल्ज्जमाणेणं चउच्चा

कारीगरउवचियक० परिकर्मितनीपजाव्याघद्यामिसिमिसंतक० देदीप्यमानजेविरद्वयक० नीपजाव्याविरच्यासुसिलठक० रूडीपरि संधिसंधिजोडीके विशिष्टप्रधान अनेरायकी विशेषवंतलष्टमनोहर एहवाआविद्धक० पहिस्याछे वीरवलयप्रधानकंकणजेणेएहवो सुरवीरजोकोइ अनेरोछे वीरवलयव्रतधारी तोएसुभटमुष्मप्रते जीपीने सुकावो एवीरवलयप्रते एहवीस्यद्धी इमच्छराईयेकरीनेते वीरवलयकहीये किंवऊणाघणुं स्युंकहीयेवर्णवीये कल्पदक्षसखिछे कल्पदक्षजेहवो अलंकखोऊइं पानडादिके करीवलीकल्प दक्षविभूषितच्छिवंतफलज्जलादिकेकारीशेभेतेहवोदीसवालागो कल्पदक्षरूपराजासुष्टुभलो अलंकखोसुकटादिके करीवलीराजाव

वीरवलयानीत्युच्यन्ते किञ्चल्लवर्णितेनेतिशेषः कल्पद्वयकद्रवसुष्ठुअलंकृतो विभूषितश्च फलपुष्पादिभिः कल्पद्वयोराजातुसुकुटादिभि रलंकृतोविभूषितस्तु वस्त्रादिभिरितिसहकोरंटप्रधानैर्माल्यदामभिर्यच्छत्व'तेनप्रियमाणेन कोरंटकः पुष्पजातिःतत्पुष्पाणिमालांतेषु शोभार्थं दीयतेमालायैचितानि माल्यानिपुष्पाणिदामानिमालाइति चतुर्णां चामराणां प्रकीर्णकानांवालेर्वीजितसंग्यस्येतिवाक्यं

सरवालवीद्वयंगेसंगलजयसहकयालोएअणेगगणनायकदंडनायक राईसरतलवरमाडंबियकोडु'विय

स्त्रादिकेकरीसोभे' नरमसुव्यनोइंद्रके वलीराजाकेहवोक्ते सकोरंटकफूलजाति तेहनाफूलनागुच्छतेहनी माल्यदामक० फूलनी मालाक्तेजेहने विषेकोरंटकफूलद्वजाति तेहनाफूलमालानाअंतक्ते हडानेविषे सोभानेअर्थ'दीजीयेक्ते तेणेकरीसहितएहवेक्त्वे मेवाडंबरनामासोनारूपानो छलतेधराव्योक्ते माथानेविषे जेणेएहवेक्त्वधरवेकरी च्यारचामरानावालेतेणेकरीवीज्याक्ते अंगशरीर जेहनोएतले च्यारचामरदालेक्ते एहवो वलीकेहवोक्ते संगलभूतसंगलीकजवजयशब्दकीधोक्ते आलीकेराजानोदर्शनदीठे कृतेमसुव्ये जेहनेवलीकेहवोक्त्तो मज्जनघरथीनीसर केहवोक्त्तो अनेकषणजिगणनायकप्रजामाहे' मोटा १ दंडनायकतेकटकनास्वामीर रा

मंगलभूतोजयशब्दः कृतत्रालोकेन दृश्येनेनलोकियस्यसतया तथाचनेकेयेगणनाथकाः प्रकृतिमहत्तराः दण्डनायकास्तत्पलाराजा  
 नोमांडलिकाः ईश्वरायुवराजानोमतान्तरिणाऽणिसाद्यैश्वर्यशुक्ताः तलवराःपरिवृष्टनरपतिप्रदत्तपट्टबंधविभूषिताः राजस्थानीयाः  
 मांडविकाः छिन्नमंडपाधिपाः कौटुंबिकाः कतिपयकुटुंबिप्रभवोवलग्नकाः मन्त्रिणः प्रतीताः महामंत्रिणोमंडलप्रधानाः हस्तिसा

संतिमहामंतिगणगदेवारियश्चमच्चचेडपीडमहृणगरिणगमसेद्विसिंसेणावईसत्थवाहदूयसंधिपालसद्धि

जामंडलीकः ईश्वरायुवराजाऽ तठे राजाहृदीघाच्छे पट्टबंधमउडतेणेकरीभूषित अलंकृत्या राज्यस्थानीयामोडबद्धराजानऽ छिन्न  
 मंडवनाअधिपतिषोडशागाममाधंणीई कौटुंबिककेतलाहृककुलनास्वामी अोलगनाकरणहारा अथवागामनामहत्तरसेठीयाऽमन्त्रि  
 प्रधानऽ मोटामंतीश्वरमंतीसंरजामंडलमाहे प्रधानऽ गणकज्योतिषीवा भंडारीऽ० दैवारिकप्रतीहारराजद्वारियापोलियाऽ  
 अमच्चराज्यना अधिष्ठातादेतना धणीऽ२ चेडपगतला नाओलगखवासऽ३ पीठमहृसभानेविषे दुकड़ामाहे दुकड़ासेवकएतावता  
 मितअथवावेश्याचार्यऽ४ नगरनिवासीप्रजालोकऽ५ निगमकारणिकअथवाव्यापारीलोकऽ ईनगरसेठऽ६ सेनापतिराजानाथाप्याचतु

धनोपरिकाङ्क्षितृह्णाः गणकाः गणितज्ञाः भांडागारिकाङ्क्षितृह्णाः दौवारिकाः प्रतीहाराः राजद्वारिकावा अमाल्याराज्याधिष्ठाय  
यकाः चेटाः पादच्छ्लिकाः पीठमर्द्दी आस्थाने आसनासीन् सेवकाः वयस्याद्भृत्यर्थः नगरं नगरवासि प्रकृतयोनिगमाः कारणिकाः अष्टि  
नः श्रीदेवताध्यासिताः सौवर्णपट्टमिभूषितोत्तमांगाः सेनापतयः वृषतिनिरूपिताश्चतुरंगसैन्यनायकाः सार्थवाहाः सार्थनायकाः दूताश्च  
न्येषांगत्वाराराज्यनिवेदकाः संधिपालाराज्यसंधिरक्षकाः एषां द्वंद्वः ततस्तौ रिह तृतीयावज्जवचनलोपोद्रष्टव्यः सार्द्धं सह न केवलंतस्य

संपरिवृडेधवलमहामेहनगणविवगहगणदिप्यंतश्चिक्खत्तारागणसमज्जेससिक्खपियदं सणेणरवद्द

रंगसेनानाधरणी १८ सार्थवाहकतांडासोवतिनाचलावक १९ दूतअनेराने जईनेराजाना आदेशकहणहारार० संधिपालराज्यनी  
संधिनारखवालाकटककरनीसंधिमिले सीमासेद्धितेहनारखवाला १ इत्यादिपरिवारसंघाते सम्यक्प्रकारे करीपरीवस्योच्छतोरा  
जामज्जनघरयकीनीसरे केहनीपरे धवलज्जखोमहामेषतेमांहियकी निर्गतइवक० नीसस्योचंद्रमासरिखो अथवातेहनीपरेग्रह८८  
नागणससूहमांहि दियं तदेदीप्यमानदीपतो रिक्खनच्चल ३८ तारानागणससूह तारानीकोडाकोडितेहमांहिवत्ततोप्रवत्त तोएहवो

हित्वसेवापितुतैः सममितिसमन्तात्परिवृतः परिकरितइति नरपतिर्मज्जनगृहात्प्रतिनिःक्रामतीतिसंबंधः किंभूतः प्रियदर्शनः कइव धवलमहाभेषनिर्गतइव शशीतया ससिक्वत्तिवत्करणस्थान्यलसंबंधस्तोग्रहगणदीप्यमान ऋक्षतारकागणानामध्ये इववर्त्तमानइति

मज्जणवरत्रोपडिणक्खमइत्ताजेणववाहिरियाउवट्ठाणसालातेणवउवागच्छइत्तासीहासणवर  
गएपुरत्थाभिसुहेसस्सिसस्से तएणंसेणिएराया अप्पणोअट्टूरसामंते उत्तरपुरच्छिमेदिंसिभाएअट्टुभ

शशीचंद्रमासेषना आभासांहिथकी वाहिरनीसरे तिमतेहनीपरे राजामज्जनघरथकीनीसरे नरमनुष्यनो पतिस्वामीरखवालोए हवीराजास्नानअंधोलकरवानपूरथकी वाहिरनीसरे जिह्वावाहिर लज्जडीउपस्थानवे शिवानीशालासभाच्छे तिह्वां आवेआवीनेसिं हासनवरप्रधानगतपाथ्यो कृतोरह्योक्तो पूर्वाभिसुखपूर्वदिशिने सामुहोनिषखवैठो तिवारपच्छीतेअणिकराजा पोताथकीउत्तर दिशिअनेपूर्वदिशिनेविचेईशानकूणनेविषे आठमद्रासनसिंहासनरचावे मंडावे तेभद्रासनकेहवाच्छे धवलवख्खे करीआळाद्याच्छे दां क्याच्छे वलीभद्रासनकेहवाच्छे तेभद्रासनऊपरिसिद्धार्थप्रधान सरसवनोजेमंगलीकनिमित्तउपचारपूजातिशेकरीकीधोच्छे शांतिकर्म

सिद्धार्थकप्रधानोयोसंगलोपचारस्तेन द्वातंशतिकात्मकर्मयेषु तानितथागाणामणीत्यादि यमनिकामांछयतीति संबंधः अथि  
कंप्रक्षणीयंरूपयस्यांरूपाणिवायस्यांसातथातां महाधीचासौवरपचने वरवस्त्रोत्पत्तिस्थाने उद्गताचव्यूतातां सञ्चानिवह्नुभक्तिाय

हासणाद् सेववत्थंप्रवृत्त्युयाति सिद्धत्यसंगलो वयारकथसंति कस्माद्द्रवावेद्द्रसा अप्रणोअद्दूर  
साभंतेणाणामणिरंथणसंखियं अहियपेच्छणिज्जरूवंमहग्घ वरपट्टणुंगयं सरुहवह्नुभत्तिसयचिन्त

विम्वनाउपयमिवानोकार्यजेहनेविषे एहवाआठभद्रासनप्रतेरचावीने अणिकराजा पोतायकीसा० समीपवर्ती वेह्नुनोअभावअति  
वेगलूनहीअतिठकडुं नही एहवीपरीयविप्रते वंधावेतेकेहवीछे अनेकघणाप्रकारनामणि चंद्रकांतादिकरत्नकर्कतनादिकतेणेकरी  
जडौछे एहवी वलीकेहवीअधिकघणुं प्रक्षणीकाजोवासरिखी जोवायोग्ये जेतेएहवी वलीकेहवीछे महग्घउत्तमवरप्रधानजेपत्तन  
पाटणनगरउत्तमवस्त्रना ऊपजवानाथानक तेहनेविषे उद्गताक०वणीछे अथवावरप्रधानवह्नुमूल्यपट्टनक० वीटांगणो तेहमांहिय  
कोउद्गतक०छेडीकाठीछे जेतेएहवीवलीकेहवीछे सञ्चणसूचुंमवह्नुघणाभांतिनासईकडगमे जेचित्तामतेहानोठानथानकछे जेते

तानिवा निचित्राणि तेषां स्थानं तदेवाह ईहास्यगाः षकाः ऋषभाः वृषभाः तुरगनरमकरविहगाः प्रतीताः व्यालाः स्वापदभुजगाः किन्न  
 राव्यन्तरविशेषाः रुद्रवोढगविशेषाः सरभाश्चाटव्यामहाकायपशवः परासरेतिपयीयाः चमराश्चाटव्यागावः कुंजरान्तिनः वनलता  
 अशोकादिलताः पद्मलताः पशिन्यः एतासां यकाः भक्तयो विच्छिन्नयस्याभिच्छिन्नायासातथातां सुष्ठु खचितामंडितावरकनकेप्रवराः प्र

डाणुं ईहासिय उरुसभतुरगणरमगरविहगवालगकिंनर रुद्रसरभचमर कुंजरवणलयप्रभुमलयभ  
 त्तिचित्तं शुखचियकण्णगधवरपरंतदेसभागं अभिभंतरियंजवणियं च्छविद्रस्ता अत्यरएमसूरुगच्छ

एहवीते चित्रासनांथानककहेच्छे वरगडाजीववृषभवलद तुरगषोडानरममुथ्यमगरमच्छविहगपंखीयावालगव्यालसर्प किन्नरव्यंतर  
 विशेषदेवता रुद्रहगनाभेदविशेषजीव अष्टापदजीवमोटीकायानाचमरी गद्द कुंजरहाथी वनलता अशोकलताविलिनाभेदपद्मल  
 ताकमलिणीनीलता एहानी जेभांति तेणीए करीचित्रचित्तीछे जेतेपरीयच एहवीछे सुष्ठुभलारच्याछे वानकसौनि करीप्रवरप्रधान  
 परंतक० छे हडानादसी चाडिनादेशभाग अवयवजेहनाएतलेछे हडानेविषे शोनानातारवख्याछे बैसीवानीसभाथकी अभ्यंतरभाग

धंतानामं च लक्षणवृत्तिलक्षणानां दिशभागा अवयवायस्याः सा तथाता अभ्यंतरिकीं आस्थानशालाया अथ्यन्तरभागवर्तिनी च मन्त्रिकां  
कांडपटं अंघ्रावेद्वृत्ति आयतां कारयति आस्त्ररक्षणप्रतीतेन मृदुकसस्रकेशच प्रतीतेनावस्तृतं यत्तत्तथा धवलवस्त्रेण प्रत्यवस्तृतमा  
च्छादितं विशिष्टं शोभनं अंगस्थसुखः स्पर्शोचस्यतत्तथा अष्टांगमष्टभेदं दिव्योत्पातान्तरिक्षादिभेदं यन्महानिमित्तं शास्त्रविशेषः तस्य सू

द्रयं धवलवत्यं प्रवृत्त्यर्थं विसिद्धं अंगसुहृन्नासयं सुमलयं धारिणी एदेवी एमहासंशयं रथावेद्वृत्ता कोडुं वि  
यपुरिसिसहावेद्वृत्ता एवं वयासीखिष्यासेवमो देवाणुष्पियथा अट्टुंगमहानिमित्तसुत्तत्थप्राटएविविहस

वर्तिनी मां हिलाभागवर्ति एहवीपरीयचिप्रते आकर्षणां वीकारवे एतलेवं धावे वंधावीने परीयचिवांध्यायकी अनंतरं अशिकराजा  
धारणीराणीने निमित्ते एकभद्रासनरचावेतेकेहवो अल्ययतेभद्रासनने ऊपरआस्तारकपाथरणो तेष्वेवली मृदुसुकमालमभ्रक०  
चाकलोतेणेकरी आच्छाद्योदाक्योजितेवली धवलवस्त्रे ढांक्योविशिष्टभलो अंगशरीरने सुखकारी वोस्पर्शच्छे जेहनीसुमृदुकंकोमल  
सुकमालकच्छे संहालोच्छे एहवंधारिणीदेवीने निमित्त एकभद्रासनसिंहासन प्रतेरचावे रचावीने तिवारपच्छीकोटुं विकपुरुषआदेश



तार्थपाठकायेतेतथातान् विणएणंवरणंपडिसुणेइत्ति प्रतिध्खन्ति अथ्युपगच्छन्ति वचनंविनयेनकिंभूतेनेत्याहएवमिति यथैवययू

त्यकुसलेषुमिणपाठएसहवेइत्तएवमाणत्तियंखिप्रामेवपच्चपिणहतएणंसेपुरिसासेणिएणंरखाएवं  
वुत्तासमाणाहइतुजावहिययाकरयलपरिगहियंदसणहंसिरसावत्तंमत्थएअंजलिकट्टु, एवंदेवोतह

कारोयासेवकपुरुषप्रते तेडावे तेडावीने एहवुंकहतोद्धवो च्चिप्रमेवउतावलोज हेदेवानुप्रियेत्तुमे सुपनपाठकांप्रते तेडीआवोतेकेह  
वाक्केआठक्केअवथवप्रकारभेदूतेकेहादिव्य? उत्पात २ आकाशवार्त्ता३ भौम४ अंगस्यर्था५ स्वरईलक्षण७ व्यंजन८ एआठभेदक्केवली  
तेकेहवाक्केविविधघणाप्रकारन्याव्याकरणादिकजेशखतेहनेविषे कुशलडाहाक्के एहवास्वप्नशास्त्रनापाठकभरणहारक्के तेप्रतेतेडी  
आवोतेडीआवीने एमाहरी आज्ञाप्रतेच्चिप्रमेवउतावलीपाक्कीसुभानेसुंधो तिवारपच्छीतेकोटं बिकपुरुषअग्णिकराजाइ' एहवुंकच्छा  
छताहर्षसंतोषपांम्याजावजिहां लगीहृतहृदयाः षणुसंतोषपास्याकृता वेहायजोडीदसनखएकठाकरी माथानेविषेअंजलिप्रतेकरीने  
एणेप्रकारे जिमतुमेकहोक्को तेतिमहेदेवहेराजन् अन्यथानही तुमारीआज्ञायेकरी अमेकरखां एहवुंकह्रीने विनयकरीतेवचन

द्वयैवंसंचालेति संचालयंतिसंचारयंति पर्यालोचयतीत्यर्थः लक्ष्यार्थाः स्वतः प्रष्टव्यार्थाः परस्परतः गृहीतार्थाः पराभिप्रायग्रहणतः त

कक्ष्माणेफलवित्तिविसेसेभविस्वदूतएणंतेसु मिणपाटगासेणियस्वरसोअंतिएयमडुं सोच्चाणिसम्म  
हडुतुइजाव हिययात्तंसुमिणंसम्मओगिण्हडैरत्ताइहंअणुप्रविसइरत्ता असम्मण सणसद्धिं संचालेतिर  
त्तातस्ससुमिणस्सलद्धडा गहियइयापुच्छियइया विणच्छियइयाअभिगयइया सेणियस्सरसोपुरओसुमि

पाठकोएहनो उदारप्रधानकारी जिहांलगीसत्रीकशोभासहिदकृतो महामोटासुपननो केहवो कुणमातुऊं कल्याणकारी फलव  
त्तिफलनीप्राप्तिनोविशेषऊस्ये एतावताफलकेहवोयास्ये एहवुंराजाइकह्यायकी अनंतरतिवारपच्छीते सुपनपाठकअणिकराजाना  
समीपयकी एहवोपूर्वोक्तअर्थप्रयोजन सांभलीनेहीयानानेविषे अवधारीने हृष्टआचर्यहर्षसंतोषपांस्याछता वणुंजहर्षाछता जाव  
शब्दधीहर्षवाचीशब्दकहिवा तेएकसुपनप्रतेसस्यक्भलीपररे ग्रहेधारेग्रहीने ईहाविचारणाप्रतेकरेविचारेविचारीने अन्योन्यमाहोमां  
हेसंघातेसुपनपाठकसंचालेविचारेविचारीने तेसुपनपाठककेहवाके सुपननोलह्याके पास्याके अर्थजेणेपोताथकीज अर्थअर्थनासां

लानितुसिद्धार्यं कदथ्यन्तदूर्वां कुरादीनि हरितालिकादूर्वासिद्धार्यकाश्च कृतामूर्द्धनियैस्ते तथा क्वचित्सिद्धत्ययहरियालियाकयमंग

लिकस्माजावप्रायच्छित्ता अप्पमहग्वाभरणा लं कियसरोराहरियालियसिद्धत्ययकयमुद्धारणासएहिं  
गेहेहिंतोपडिणिक्वमइर् रायगिहसमंजभं जेणेवसेणियस्सभवणवडिंसगदुवारैतेणेवउवाग  
च्छंति २ एगओमिलयंति२ सेणियस्सरसोभवणवडिंसगदुवारेणं अणुपविसंति जेणेववाहिरिया

लेपोतानाघरनादेवतानो पूजिवोकीधो जेणेएहवा तथाकीधो मसिनातिलकमंगलीकदहीद्रोवादिकप्रायच्छित्तमूं डासुपननाविघन  
टालिवाभणीजेकरीवाछे तेसर्व्वकीधो जेणेतथा स्नाननेकरिवे करीपवितकीधोछे देहजेणेभलावस्त्वपहिस्याछे अल्पथोड़ीभार  
महर्ध्यं वज्रमूल्य एहवाजेअभरणकुं डलहारकडिदोरामुं दडी प्रमुखअभरणेकरी शोभायसानकीधोछे शरीरजेहनाएहवा तथाह  
रतालद्रोवसरसवकीधोछे मंगलीकनिमित्तमाथानेविषे जेणेएहवाछतासुपनपाठक पोतानाआपणार घट्यकीनीसरेनीसरीनेराज  
गटहनगरमांदिथइने जिह्वांश्रेणिकराजानोघरधनवंतनाघरमांदि अवतंसकमुकटसरिखो जे घरतेहनो जे प्रतिहारमूलवारणानो

लसुद्धाणाएवंपाठः स्वकेस्यः आत्मीयेभ्य इत्यर्थः जएणंविजएणंवद्वविति जयेनविजयेनचवर्द्धस्वत्वमित्या चक्षत इत्यर्थः तलजयः परैरन भिभयमानताप्रतापवृद्धिश्च विजयस्तुपरिपाम्नाभिभवति अर्चिताच्चर्चिताच्चंदनादिना वंदिताः सद्गुणोत्कीर्तनेन पूजिताः पुष्यैः भानि

उवद्वाणसात्ताजेणोवसेणिएरायातेणेवउवागच्छंतिरेत्तासेणियंरायंजएणंविजएणंवद्वविविद्वसेणिएणंर  
 खाअच्चियवंदियपूइयसाणियसक्कारियसस्साणिय सभाणापत्तयेंरपुष्पवत्ये शुभहासणासुनिसीयंति

समीपवर्त्तीवारणोतिहां आवेअवीने एकठाभिले एकाठायईने अणिकराजानाभवनघरधनवंतनाघरमाहेअवतंरासुअटसरिखोजे घरतेहनोजेप्रतिद्वारभ्रलगावारणानोसमीपवर्त्ती वारणोतेणेकर्त्तरीप्रवेशकरे करीने जिहांवाहिरत्तीत्रैसवानोसभाछे जिहांअंशिक राजाछे तिहांआवेअवीने अणिकराजाप्रते जयपोतानादेश्यनेविषे जयप्रवर्त्ती घत्तुवैरीइं पराभवीनसके हेराजन् जयविजयप्रवर्त्ते तेणेकर्त्तरीवधावे तिवारपछीते सुपनपाठकअणिकराजाइ अर्च्यांचंदनेकर्त्तरी वांछाआयेकर्त्तरी छतागुणने कीर्त्तने पूज्याफले करीसत्त्वा स्वावस्त्रफलादिकने दानेकर्त्तरीसन्नात्त्या उभाथावानीप्रतिपत्तिसेवाइंकरी एहवाअर्च्यांवांछापूज्याप्रत्येकर ज, दाजु, दा सत्त्वास्थास

ताः दृष्टिप्रणामतः सत्कारिताः फलवस्त्रादिदानतः सन्मानितास्तथाविधया प्रतिपत्त्या समायेति संतः अस्मभ्यं सुसद्भिर्ति अन्योन्येन सह

तएणंसेणिएराया जवणंतरियंधारणिं देविं ठवेइरत्ता पुपफफलपडिपुसहत्थे परिणंविणएणंते सुमिण  
पाठएएवंवयासौ एवंखलु देवाणुप्पियाधारिणी देवी अज्जतंसितारिसगंसिसयणिज्जं सिजावमहासु  
सिणंपांसित्ताणंपडिवुद्धा तंएयस्सणं देवाणुप्पिया लुरालस्सजावसस्सिरीयस्स महासुमिणस्सकेमस्स

न्मान्याकृता सुपनपाठकपूर्वथाया मांड्याच्छे जेअठभद्रासनते हने विषे नैसारेबेसे तिवारपच्छीते अणिकाराजायवनिक्कापरियचिनाआं  
तराप्रतेधारणी देवीप्रतेथापेवैसारे अणिकाराजा फूलफलादिके करीप्रतिपूर्णभयो चाथकृतोएतावता फूलफलेते स्वप्नपाठकानेआ  
गलम्बूकीने उत्कृष्टविनयेकरीते सुपनलक्षणापाठकांप्रते इमकहतोद्धओ एणेप्रकारे खलुनिश्चे अहो देवानुमिप्रियोधारणी देवी आज  
ते पुण्यवंतनेवर्णविवायोष्यते हवाघरनेविषे अनेशयनीकशय्यानेविषे सूतीकृती जावशब्दनाग्रहणथकीघरनोवर्णकशज्जानोवर्णकस्वपन  
नोवर्णक इहं संपूर्णकथ्यो कांडूजागतीकांडूनिद्रा करती एकमोटास्वपनप्रते देखीनेजागी तंतेकारणथकी अहो देवानुमिप्रियो सुपन

इत्येवंसंचालित्ति संचालयंतिसंचारयंति पर्यालोचयतीत्यर्थः लब्धार्थाः स्वतः प्रसृतः परस्परतः गृहीतार्थाः पराभिप्रायग्रहणतः त

कक्ष्माणेफलवित्तिव्रिसेसेभविस्सद्गतएणंतेसु मिणपाटगासेणियस्सरखोअंतिएएयमडुंसोच्चाणिसम्म  
हड्डुडुजाव हिययातंसुमिणंसम्मओगिण्हर्देरत्ताइहंअणुप्रविसइरत्ता अणमखे णसद्धिंसंचालेतिर  
त्तातस्ससुमिणस्सलद्धडा गहियद्वापुच्छियद्वडा विणच्छियद्वडाअभिगयद्वडा सेणियस्सरखोपुरओसुमि

पाठकोएहनो उदारप्रधानकारी जिहांलगीसञ्चीकशोभासहितकृतो महामोटासुपननो केहवो कुणमाडुडुं कल्याणकारी फलद  
त्तिफलनीप्राप्तिनोविशेषऊस्ये एतावताफलकेहवोवास्ये एहवुराजाइकक्ष्मायकी अनंतरतिवारपच्छीते सुपनपाठकञ्जेणिकराजाना  
समीपयकी एहवोपूर्वोक्तार्थप्रयोजन सांभलीनेहीयानानेविशे अवधारीने हृष्टआश्चर्यहर्षसंतोषपांस्याच्छता घणुंजहर्षाच्छता जाव  
शब्दथीहर्षवाचीशब्दकाहिवा तेएकसुपनप्रतसस्यक्भलीपरि ग्रहेधारेग्रहीने ईहाविचारणाप्रतेकरेविचारेविचारीने अन्योन्यमाहोमां  
हेसंघातेसुपनपाठकसंचालेविचारेविचारीने तेसुपनपाठककेहवाछे सुपननोलक्ष्याछे पास्याछे अर्थजेणोपोतायकीज अर्थअर्थनासां

णसत्याद् उच्चरिमाणे २ एवंवयासौ एवंखलुअह्नंसामी सुमिणसत्यंसि बायालीसं सुमिणतीसं  
महासुमिणा बावत्तरिसव्वसुमिणादिद्वा तत्थणंसामीअरहं तमाथरोवाचक्कवट्टिमाथरो वाअरहं  
तंसिवाचक्कवट्टिसिवा गर्भं वक्कममाणंसिए सिंतीसाएसहासुमिणाणं इमेचउट्टसमहासुमिणापा

भलिवाथकी ग्रह्याछे अर्थजेणेआगलानाअभिप्रायनाग्रहिवाथकी वलीपूछ्योछे अर्थजेणेसंदेहजपजेछे माहांमाहे पूछ्याछे विशेषेक  
रीनिश्चयार्थकीधाछे जेणेएकारणथकीज अभिगतअवधास्याछे अर्थजेणेअर्थनाज्ञानथकी इणेप्रकारे माहोमाहिवीचारवाथकीते  
सुपनपाठकाराजाने आगलिस्वप्नशास्त्रना उच्चारताकहिताछता इमकहिताऊवा, इणेप्रकारेखलुनिश्चयहेस्वामिन् अमारासुपनशा  
स्त्रनेविषेबैतालीससुपनछे सूक्ष्मन्यफलनादातादेणहारा तथावीसमहामोटा सुपनामोटाफलनादेणहारा बडत्तरस्वप्नसर्वमिली  
सगलाई सुपनथइदीठाछेजास्याछे अमेसुपनशास्त्रनेविषे तिहां७२ स्वप्नमाहे हेस्वामिन् अरिहंतदेवनीमाताचक्रवर्तिनीमाताअरि  
हंतदेवअथवाचक्रवर्तीगर्भप्रतेप्रवेशथयेछते गर्भनेविषेजपनेछतेएवीसमोटासुपनमाहेएआगलिकहिस्थे तेचउट्टमोटासुपनप्रतेदेवी

तएवंविनिश्चितार्थाः अतएवअभिगतार्थाः अवधारितार्था इत्यर्थः गर्भवक्रममाणं सिति गर्भव्युत्क्रामति उत्पद्यमानेअभिषेकइतिअत्रिधाः  
संबंधीविमानं योदेवलोकादवतरति तन्मातापश्यति यस्तुनरकाडुहृत्योत्पद्यतेतन्माताभवनमिति चतुर्दशैवैतिस्वप्नाः विमानभवनयोरे

सित्ताणंपडिवुञ्जंतिंतजहागयवसहसोहअभिसेयदामससिदिणयरंज्जयंकुंभंपडुमसरसागरविमा  
णभवणरयणुञ्जयसिंहिच वासुदेवमायोवा वासुदेवंसिगभंवक्रममाणंसि एणंसिंचउदसरुहंसहा  
सुमिणाणं अस्तयरेसत्तमहासुमिणेपासित्ताणं पडिवुञ्जंति बलदेवमायोवा बलदेवंसिगभं वक्र

नेजागेतैकहेच्छे हाथी१ बलदर केशरीसिंह३ लक्ष्मीदेवता४ फुलनीमाला५ चंद्रमा६ सूर्य७ ध्वजा८ कलस९ पद्मसरोवर१० सागर  
समुद्र११ वैमानिकदेवतानो विसान१२ भवनपतीदेवतानोवर१२ रत्ननीराशि१३ निर्द्धमाग्नि१४ वासुदेवनीमाता वासुदेवति  
खंडभोक्तागर्भमाहेजपनेच्छते एपूर्वोक्तचउदमोटा सुपनमांहिला सातमहामोटा सुपनांप्रते देखीनेजागेबलदेवनीमाता बलदेवगर्भ  
माहेअवतस्त्रेच्छते एचउदपूर्वोक्तगजशृषभादिकमोटासुपन तेमांहिला अन्यतर च्यारमोठास्वप्नप्रते देखीनेजागे मंडलीकनीमाता



जसाणंसिएसिंचउदसएहंमहासुमिणाणं अस्सयरेचत्तारिमहासुमिणेप्रासित्ताणं पडिबुज्झंतिअंउ  
 लियमायरोवासंडलियंगभंक्कमसाणंसि अस्सयरेएगंमहासुमिणेप्रासित्ताणं पडिबुज्झंतिइमेयसा  
 मोधारिणीएदेवीए एगेमहासुमिणेदिट्ठेतंतरालिणंसामीधारिणीएदेवीए सुमिणेदिट्ठे जावअरोग  
 तुड्ढिदौहाउमंगलकारणं कल्लाणकारणं सामीधारिणीएदेवीएसुमिणेदिट्ठे अत्थलाभोसामीभो

मंडलीकराजागभंसांदिउपनेच्छते अनरोगसेते एकमोटासुपनप्रतेदेखीने जागे तेकारणथकी एचउदसुपनमांहिलोएकमोठो सुपन  
 दीठोधारणीराणीइ हेस्वामिंनु हेअ शिक तेकारणथकी उदारप्रधानकारी योहेस्वामिन्धारणीराणीयेसुपनोदीठो जावशब्दना  
 ग्रहणथकी मंगलीकवाची शब्दकहिवा आरोग्यनीरोगनोकरणहारो दीर्घघणाचिरकालना आउखानो करणहारोकल्याणकारी  
 यामंगलीकनोकरणहारोएहवोउत्तम हेस्वामिन्धारणीराणीइ सुपनदीठो हिचेसुपननादेखवाथकी अर्थद्रव्यदिख्यादिकधन  
 नोलाभउस्ये हेराजन् भोगशब्दादिकपांच तेहनोलाभहोस्ये तुमनेहेस्वामिन् वलीपुलनो लाभउस्ये संपूर्णसप्तांगपरिपूर्णराज्यनो

गलाभोसामीपुत्तलाभोरज्जलाभोएवंखलुसामी धारिणीदेवीएसुमिणेदिङ्गे णवएहंमासाणंबहुप्रडि  
 पुखाणंजावदारगपयाहिंसिसेविद्यणंदारएउसुकुबालभाविविखायापरिणयमित्ते जोव्वणगमणुपत्तेसर  
 वीरेविक्रंते विच्छिस्सुविपुलबलबाहणे रज्जवईरायाभविस्सइ अणगारेवाभावियप्पां तंडरालिणंसां

लाभङ्गस्ये इमआगलिकहिंस्ये तिमखलुनिच्चयहेस्वामिन् धारणीराणीने नवमासवहुप्रतिपूणंसंपूर्णपूरानवमाससम्पतिक्रमेच्छते तुमा  
 राकुलनेविषेकेतुव्वजासरिखो होस्ये इत्यादिपाठजावयब्दनाग्रहणथकी जाणिवोघारणीराणी एहवापुत्तप्रते मसवस्येजणस्ये बली  
 तेपुत्तकेहवोहोस्ये तेकहेच्छे तेदारकपुत्तवालक उन्मुक्तउत्प्रावत्यपणे अतिशयपणेकरी म्बंकोच्छे बालभाववालकनोखभावजेणेआठ  
 यरसनोथयोच्छे विज्जातपरिणतमाल फलादिविषयच्छे जेहनेएतले पोतानी बुद्धिइंकारीपुरुषनी१२ कलास्त्रीनी कलाइइ४ जांणस्ये  
 द्यथवीना वलीतेवालकयौवन वयमतेपास्योच्छतो एतलेआठवरसवोल्याथकीअनंतरदानदेवाथकी सूरहोस्ये संग्रामनेविषेवीरहोस्ये  
 आक्रामिवाथकी अधिक्रीधरतीचांपीलेवाथकी विक्रांतपरक्रामवंतहोस्ये विस्तीर्णपणायकी विपुलघणो विस्तीर्णबलधारप्रकारनो

मीधारिणीएदेवीएसुमिणेदिङ्गे जावआरोगतुड्डिजावदिङ्गित्तिकट्टु, भुज्जोइअणुबूहेइ तएणंसेणिएरा  
 यातेसिंसुमिणपाठगाणं अंतिएएयमडुं सोच्चा निसम्महडु जावहिथएकरयलजाव एवंवयासीएवसे  
 थंदेवाणुप्पिया जावजणं तुम्भेवयहत्तिकट्टु, तंशुमिणंसम्मं संपडिच्छइ तेसुमिणपाठए विउलेणंअस  
 णपाणखाइमसाइमेणं वत्थगंधमस्त्रालंकारेणय सक्कारेइसम्भाणेइ विउलंजीविद्यारिहंपौइदाणंदे

कटववाहनगाइबलदेवेसरादिककळे जेहने एहवो राज्यनोखामीराजा होस्ये वाअथवा अणुगारसाधुहोस्ये तेप्रधानस्वामीधारि  
 णीदेवीइस्वप्नदीठो जालगेरोयरहितपणुसंतोषकल्याणकारीसुपनदीठोइमकरीनेवारवारअनुमोदे तिवारपक्की अणिकराजाते  
 स्वप्नपाठकाने समीपे एअर्थसंभलीने अवधारीने हर्षसंतोषपांस्थो यावत्हायजोडीने पूर्वोक्तबोलएणीपरि जांणवाइमवोल्याइमहि  
 जदेवाशुप्रियो यावत् तुम्हे कहोछो तेतहत्तिइमकरीने तेस्वप्नसम्यक्प्रकारे प्रीक्केअंगीकारकरे तेस्वप्नपाठकाने विपुलघणोअन्नपांणी  
 अखोडविदामसाकरादि तंबोलआदेकरी पट्टमूलनख्खे करी गंधवासअवीरादि अलंकारसुकटाशिवंधादितेणेकरीसत्कारेप्रधानवस्त्रा

कातरदर्शनादिति विष्णायपरिणयमेते विज्ञातंविज्ञानंपरिणतमात्रंयस्यसतथा क्वचिद्विषयत्तिपाठः सचव्याख्यातएवजीवियारिहंति

लयइ२ पडिविसज्जेइतएणंसेसेणिएराया सीहासणाओअभुइइ२ जेणेवधारिणीदेवीतेणेवउवाग  
च्छइ२ धारिणीदेवीं. एवंवयासीएवंखलुदेवाणुप्पिए सुमिणसत्थंसिवायालीसंसुमिणा तीसंसहांसु

दिकनेदेवेकरी सन्धानेतथाविध जठीजभोधई आसनदानवचनादिकनीलालिपालिकरी पूजे विपुलघणो आजन्मलगीआजीवका  
योग्यएतलेजिहां लगीजीवेतिहा लगीपडुचे खातांखरचतां एहवो प्रीतिनो संतोषनो दानदीये आपेआपीने सुपनप्राठकांप्रतेप्रीते  
विसर्ज्जे आजाआपेपधरोधरे तिवारे तेसुपनपाठकपिणसौवर्णरत्नमणिमाणिक्यरूपादिकघणुधनपास्यापीताने धरेगयापडुताछ  
तापोतानीस्त्रीइं ओलख्यानही तेसुपनपाठकमोकल्यायकी अनंतरतिवारपछीतिअं णिकराजा सिंहासनयकी जठे जठीनेजिहांधा  
रणीराणीछे तिहांआवेआवीने धारणीराणी प्रतेएह्वंकहतोऊओ एणेप्रकारे खुलुनिअयहेदेवानुप्रिये हेहारणीदेवी सुपनशा  
खनेविषे वेतालीससुपनसामान्यफलनादेणहारा लीसमोटा सुपनामोटा फलनादेणहारासर्वमिली०२ सुपनछे तेवीसमांहेच

आजन्मनिर्वीहयोग्यं डोहलेपाउम्भवित्ति दोहदोसनोरथः प्रादुर्भूतवान्तथाहि धनंलब्धारोधन्यासाया अकालमेघदोहदंविनयं

मिणाजावमुज्जोर अणुबूहद्र तएणंधारिणीदेवीसेणियसरखो अंतिएएयमडुं सोच्चा णिसम्महडुजाव  
हियथातंसुमिणंसम्मंपडिच्छइर जेणेववासघरेतेणेव उवागच्छइर एहायाकयबलिकम्माजावविपुला  
इंविहरइर तएणंतीसेधारिणीएदेवीए दोसुमासेसुविइक्कं तेसुतइयमासेवडुमाणे तस्सगम्भस्सदोहल

उदमोटासुपनजिहां लगीएकमंडलीकराजानीमातासुपनदेखे मंडलीकराजगर्भमांहेऊपनेछते वारंवारअनुमोदेवखाणे तिहांल  
गीराजाइकह्यो राणीप्रते तिवारपच्छीधारणीदेवीअणिक राजासमीपयकी एपूर्वोक्तअर्थप्रते सांभलीने हीयामांहिअवधारीनेहर्ष  
संतोषजावघणुजहर्षपांसीछती तोएकसुपनना अर्थप्रतेभली रूडीपरि अवधारे अंगीकारकरीने जिहांपोतानोवासघरछे तिहांआवे  
आवीने न्हाईअंधोलकरीकीधो बलिकर्मघरनादेवतानी पूजाकीधो यावत्विपुलघणाभोगसंयोगभोगवती भोजनवसंबुंछइ वुंकीडा  
करतीछतीविचरे तिवारपच्छी गर्भमध्ये ऊपनापच्छीते धारणीनामादेवीने वेमासव्यतिक्रमेयके तीजोमासवत्तं तेप्रवत्तं तेयकेतेगर्भ

तीतियोगः अस्मयाञ्जित्ति अंवाः पुत्रसातरः स्त्रियहृत्यर्थः संपूर्णाः परिपूर्णाः आदेयवस्तुभिः कृतार्थाः कृतप्रयोजनाः कृतपुण्याः जन्मांतरो  
पात्तसुकृताः कृतलक्षणाः कृतफलवच्छरीरलक्षणाः कृतविभवाः कृतसफलसंपदाः सुलब्धं तासां मानुष्यकं मनुष्यसंबंधिजन्मानिभवेजी

कालसमयंसि अयमेयारूवे अकालमेहेसु दोहलेपाउम्भविथाधखाउणंताओ अस्मयाओसंपुष्पा  
ओणंताओ अस्मयाओ कयत्याओणंताओ कयपुष्पाओणंताओ कयलकवणाओ कयविहवाओ  
सुलहेतासिमाणुस्सए जस्मजीवियफलेताओणंमेहेसु अग्भुगएसु अग्भूज्जएसु अग्भुएसु अग्भु

नेदोहलाकालनासमय अवसरनेविषे एहवोआगलकंहस्ये तेहवोमनोरथजपनो अकालेअप्रसावनेविषे मेहवरसातवरसेथकेदोह  
लोपूर्णथाई एहवोदोहदमनोरथप्रगटथातोद्धवो धन्यतेस्त्री अस्मापुत्रनीमाता संपूर्णपरिपूर्ण तेस्त्रीतेपुत्रनीमाता ग्रहिवायोग्यवस्तु  
इंकारीवांछती वस्तुपांसे कृतार्थकीधाच्छे प्रयोजनजणीइं तेषुत्रनीमाता कृतपुण्यकृतकीधाच्छे जन्मांतरने सुकृतपुण्यजणीइं तेषुत्र  
नीमाता धन्यकृतकीधाच्छे फलवंतरूडं सररीरनालक्षणजणी इतेधन्य कृतकीधाच्छे विभवद्रव्यसंपदानो फलरूडोजणीइं भलोरूडुंला

वितफलंजीवितव्यप्रयोजनं जन्मजीवितफलंसापेक्षत्वेपिच समासच्छांदसत्वात् यामेषेषु अथ्युक्ततेषु अंशुरवदुत्पन्ने प्रसत्सु एवं सर्वत्र स  
 प्रमीयोज्याअभ्युद्यतेषुवर्द्धितं प्रवृत्तेषु अथ्यु न्नतेषुगगनमंडलव्यापनेनोन्नतिमत्सु अभ्युत्थितेषुप्रवर्षणायकृतोद्योगेषु सगज्जिं तेषुसुक्तम  
 हाध्वनिषु सविद्युत्केषुप्रतीतंसफुसिएसुत्ति प्रवृत्तप्रवर्षणविंदुषुसस्तनितेषु कृतमंदमंदध्वनिषु ध्मातेनाग्नियोगेनयोवैतःशोधितोरौ

ट्टिएसु सगज्जिएसु सविज्जुएसु सफुसिएसु सथणिएसु धंतधौतरूपप्रदृअंकसंख चंद्रकुंदसालिपि

धोतेहस्त्रीयानोमनुष्यपणोमनुष्यसंवंधी जन्मभवनेविषे जीविवानो फलप्रयोजनतेस्त्रीयासुरूडुं जेहस्त्रीमेहवरसते अंशुराज्याएहवी  
 पृथवीइं एहवेमेहजगतेयके मेहदृष्टिपामिवाभणी प्रवृत्ते आकासनेविषे व्यापीकरीनेजनयेयके वरसवाभणीउद्यमकीधेयके सग  
 जितगर्जारवसहितऊवे वीजलींसहितथयेयके ककसीथोडीर बूंदपडतेयके फुसारासहित थोडारथनितगर्जारवसहितएहवोमेघ  
 धंतधम्यो अग्निने योगेकरीजे धोतसोथ्योएहवो जेरूपानोपट्टपाटो अंकनामारत्नविशेषशंखचंद्रमा कुंदनामादृक्षनो फुलविशेषसा  
 लिपिट्टचोखानो आटोतेहनीराशिसम्बहएहना वर्णसमसरिखीप्रभाकांतिच्छे जेहनीएतले एहनावर्णसरिखी अजलोधतलोमेहउग

अपट्टोरजतपत्रकंसतथा अंकोरत्नविशेषः शंखचंद्रौप्रतीतौ कुंदःपुष्पविशेषः शालिपिष्टराशिः व्रीहिविशेषचूर्णपुंजः एतत्समाप्रभाये  
 षांतेतथातेषु शुक्लेष्वित्यर्थः तथाचिकुरोरागद्रव्यविशेषः एवंहरितालोवर्णकद्रव्यभेदस्त्राङ्गं डिकाखंडं चंपकसनकोरंटकसर्षपग्रहणा  
 चात्पुष्पाणिगृह्यंते पञ्जरजःप्रतीतंतत्समप्रभेषु वाचनान्तरे सनस्थानिकांचनंसर्षपस्थाने सरिसत्तिपद्यते तत्तचिकुरादिभिःसुदृश्याच्चते

इरासिसमप्यभेसु चिंउरहरियालभेय चंपगसणकोरंटसरिसपउमरय समप्यभेसु लकवारससर  
 सरत्तकिंसुयजासु मणरत्तवंधुजीवगजाइ हिंगुलियसरस कुं कुमउरभस सरुहिरइ दंगोवगस

तेथके चिकुररागद्रव्यविशेषपीलो हरितालवर्णकद्रव्यभेदतेहनोखंडपीलो चंपकचंपानाशुलसणनामा दृक्षनाशुलकोरंटदृक्षनाफूलस  
 रिसवनापउमरयपञ्चकमलनारजकमलनीकणिकातातूआएहना पीलावर्णसारिखी प्रभाकांतियईके जेहनीएहयोपीलोमेहवर्णो  
 आकासथयेच्छते हिवेरातोवर्णज्ञहीयेछे लाखनो नवोरससरसरसे सहितरत्तरातोतथाकिंशुककेसूशूलजासूना सुमणफूलतेणेकरी  
 करीतथावंधुजीववनस्यतीदृक्षविशेष ममोलीयो जातिहिंगुलकजातिवंतहिंगलूं जेहवो ऊइंतेणेकरी हिंगलूकारसोपिणऊवे तेहे



पद्मरजःसमप्रभाश्चेतिविग्रहस्तेषु पीतेष्वित्यर्थः तथालाचारसेनसरस्रक्तकिंशुकैकजपासुमनोभिःरक्तबंधुजीवकेन बंधुजीवकांश्चिपंच वंशंभवतीतिरक्तत्वेनविशेष्यते जातिहिंसुलकेनवर्णकद्रव्येण सद्बलमोपिभवतीति जात्याविशेषितः सरसकुंकुमेननीरसंघिविवक्षितवर्णोपेतंनभवतीतिसरससुक्तं तथाउरभ्रऊरणः शशःशशकखयोश्चविरेशरक्तेन इंद्रगोपकोवर्षासुकीटकविशेषस्तेनच समाप्रभायेषां तेतथातेषुरक्तेष्वित्यर्थः तथाबर्हिणोमयूराःनीलंरत्नविशेषः गुलिमावर्णकद्रव्यं शुकचाषयोःपक्षिविशेषयोः पिच्छंपलं भृंगःकीटविशेषे

सम्पभेसु वरहिणणीलगुलियासुगचास पिच्छभिंगपत्तसासगणीलप्यल शियरणवसिरीसकुसु

तुथकीजातिनो ग्रहणकीधोक्छेसरसनवातत्कालना कुंकुमतेषेसरिखी उरभ्रऊरणोगडरो सशशलो एवेऊनारुधिररातातेषेसरिखीइंदगोपममोलाजीवविशेषतेषे सरिखी प्रभाकांनिक्छेजेहनेएहवैवर्णे करीरातोमेहरूप आकाशरातेथयेथके हिवेनीलोवर्णकहेक्खेवरहिणमोरनीपीछनीलनामारत्नविशेष नीलोगुलिकानीलोवर्णकद्रव्यविशेष सुगचासपिच्छसूडा अनेचासंपंखीयाविशेषजीवनापिच्छपांखभंगमरानो पलपांखसासगनामाहचविशेष नीलोत्पलकमलनोनिकरपरागनासम्बूह नवशिरिषनामाहचनानाकुसुमप्र

षस्तस्यपत्रे पक्षः सासकोवीयकनामाष्टत्रिविधः अथवासामत्तिपाठः ततश्चासामप्रियंगुः नीलोत्पलनिकरः प्रतीतः नवशिरीषकुसुमा  
निचनवशाह्वलप्रत्यग्रहरितं एतत्समप्रभेषु नीलवर्णेष्वित्यर्थः तथाजात्यां प्रधानं यदंजनं सीवीरकं मृद्गभेदः मृद्गाभिधानकीट  
कविशेषः विदलितंगारोवा अरिष्टकरत्नविशेषः अमरावलीप्रतीतागवलगुलिका महिषमृद्गुलिका कज्जलमपी तत्समप्रभेषु कृष्णे

मणवसादुलसमप्रभेषु जच्चिंजणिसंगभेयरिडुगभमरावलि गवलगुलियकज्जलसमप्रभेषु कुरंत  
विज्जुतसगज्जिएसु वायवसविपुलगगणचवल परिसक्किरेसु शिखलवरवारिधारापयलियपयंडमा

लनवायाडुवल्लहणातत्कालनाजग्या नीलाटणाऊई एहनासरिखीनीलीप्रभाकांतिथईच्छे जेहनीएहको नीलावर्णमेहरूपमाकाशय  
येथकेहिधेकालोवर्णकहेछे जच्चजात्यप्रधानसुरमोमृंगभेयमृंगभेदनामाकालीक्रीडाविशेषप्रथवाथीतलताढोमसल्योअंगारकोइलोअ  
रिष्टकरत्नविशेषभरानी आवलीअणिगवगुलियक० कवलगुटिकासमाख्या महिषभेसानासौंगडासरिखी गोलीकाजलमपीतेहना  
वर्णसमसरिखीप्रभाकांतिच्छे जेहनेविषेएहवोमेहवर्णोकालो आभोथयेथके पुरकतीभक्तती एहवीजुतवतीवी जलीऊवेगर्जारवस

ष्वित्यर्थः स्फुरद्विद्युत्काञ्चसगळ्णित्ताञ्चयेतेषु तथावातवशेनविपुलेनगगने चपलंयथाभवत्येवं परिसक्किरेऽत्तिपरिष्विक्तुं शीलंयेषां  
तेतथातेषु तथानिर्मलवरवारिधाराभिः प्रगलितः चरितः प्रचंडमारुतसमाहताः सन् समोत्थरंतत्तिसमवस्तु, गुंश्चमहीपीठमाक्रामन्  
उपर्युपरिचसातत्येनत्वरितश्च शीघ्रोवर्षोजलसहः सतथातं प्रविष्टेषुवर्षितुमारब्धेषु मेषे ष्वितिप्रक्रमः धाराणांपहकरोत्तिनिकरस्तस्य

स्तसमायसमोच्छरंतउ वरिउवरितुंरिय वासंपवासिएसु धारांपहकरणिवायणिष्ववा वियमेइ

हितगाजताएहवा मेषुञ्जवेयके तथावायवसवायरानेवसेकरी विपुलविस्तीर्णेषणोगगनञ्चाकाशनेविषे चपलवादलाजिमञ्जइं तिमप  
रिसक्किरेऽसुव्यापवा विस्तारवरुभणी शीलस्वभावच्छे जेहनतेऽतैथके तथावलीनिर्मलीवरप्रधानवारिधारापांणीनीधारा तेणीइं क  
रीपयलियप्रकर्षकरीगल्योत्तरेपांणीप्रचंड आकरोएहवोमारुतवायुतेणे समाहृतसस्यक्प्रकारे आहृष्योताड्योथको वादलसमोच्छरं  
तविस्तारोच्चाच्छाद्यो दृथवीपीठप्रते आक्रम्योथकोऊपरान्तरपणे तुरियऊतावलोजेवा संजलनोसम्बहते प्रतेपवासिएसुप्र  
कर्षेवरसवाभणी आरंभेयके एहवोमेषवरसतेयके मेषनीधारापहकरसम्बहतेहनी निपातपडिवो तेणेकरीनिव्वायनिवातशीत

निपातः पतनं तेन निर्वीपितं शीतलीकृतं यत्तत्तथा तस्मिन्निर्वापितशब्दाच्च सप्तस्यैकवचनलोपोदृश्यः कच्चिन्नित्याह मेदिनी तलेतया ह  
रितकानांङ्कस्वल्गणानांयोगणः सएवकंचुकोयवाच्छादकत्वात्तत्तथातलपञ्चवियत्तिइहसप्तमीवज्जवचनलोपोदृश्यः ततःपञ्चवितेषुपाद  
पगणेषुषष्ठीवितानेषु प्रसारितेषु जातप्रसररेष्वित्यर्थः तथाउन्नतेषुभूप्रदेशेष्वितिगम्यते सौभाग्यमुपगतेषु अनवस्थितजलत्वेनाकर्दम  
त्वात्पाठान्तरे नगेषुपर्वतेषु नृदेषुवाङ्गदेषु तथावैभाराभिधानस्थगिरेः येषुपाततटारुगुतटाःकगश्च पर्वतैकदेशास्तेभ्योयेविसुक्ताः  
प्रवृत्तास्तेतथा तेषुकेषु उच्चररेसु त्तिनिर्भरेषु लरितप्रघाषितेनचः पलोदृत्तिप्रवृत्तःउत्पन्नःफ्रनस्ते नआकुलंब्याप्तं सकलुसंति सकालुष्यं

शितलेहरियगणकंचुए पञ्चवियपायवगणेषु उच्चररेसुतुरियपहा वियपलोदृफेणाउलं सकलुसंजल

लीभतकीधोच्छे जेतेएहवामेदिनीतलष्टयवीतलनेविषे एतलेष्टयवीशीतलययेयके हरीयानीलानांङ्गादृणा तेहनाजेगणसम्हरतेरु  
पीयोपहिस्त्रोच्छेकंचूञ्चोजणीइं तथापालव्यापञ्चवंतकूपलीवंतयाच्छे पादपटत्ततेस्रं क्याप्रवर्त्थी एतलेपांणीनाप्रवाहवहेच्छे एहवापव  
नानीभरणीभरतेयके तथातुरियजतावलो प्रघाषितदोडतोआवतो जेपांणीतेणेरुकीजेपञ्चोदप्रवर्त्थी जपनोजेफेनफीणतेणे आकुल

जलं वहती पुगिरि नदीषु सज्जार्जुननीपकुटजानां वृक्षविशेषाणां यानिकंदलानि प्ररोहाः शिलिंभाश्चक्रकान्णितैः कलितानि यानि  
 तानि तथातेषूपवनेषु तथाभेधरसितेन हृष्टतुष्टाभति हृष्टाश्चेष्टिताश्च कृताचेष्टायते तथातेषु इदं च सप्तमीलोपात् हर्षवशात्प्रसुप्तो सुक्लौ

वहती सुगिरीण्डसु सज्जञ्जुणनीवकुडयकंदलसिंधिकलिसु उववणे सुमेहरसियहृष्टतुडुचिद्वियह  
 रिसवसयसुक्क कंठकेकारवंसुयंतेसु वरंहिणेषु उडुव समयजणिय तरणसहरियपरिणच्चिणसु रावसु

व्याप्यो एह्वुंकलुषसहितमद्दलसहित डोहलो जलपांणीप्रतेव हेच्छे एहवापांणीनीकरणापास्यापर्वतनीनदीनि विशेषहेच्छे एहवोमेहवूठ  
 थके सर्जनामाहृक्षविशेष अर्जुननामाहृक्षनीपकंदवनामाहृक्षकुटजनामाहृक्षविशेषतेहनाजिकंदलप्ररोहअंकरासोठाछडीसरूपवली  
 सिंधिघच्छवनेआकारिवलहीविशेष तेषेसहितउपवननगरसमीपवनखंहतेहनेविषे एहनेययैयुक्ते तथाभेधनेरसेकरीहृष्टतुष्टहृष्टहर्ष  
 विस्मयतुष्टसंतोषअतिघणुं हर्षवंतययाथकाचिद्वियचेष्टाकीधीच्छे जेतेहनेविषेहर्षनावसथकी प्रकर्षकरीसुक्कसुक्थोच्छेकीधीच्छे कंठगलो  
 जेहनेविषे एहवामोकलाकेकारवशब्दप्रतेम्कताच्छेस्वरकरताच्छे एहवाप्रयूरमोरज्जुइं जेमेघआथ्येथके तिमोरकेहवाच्छे उडुवसंतक

कृतः कंठीगलोयस्मिन्सतथा सचासौकेकारवचतंसु चत्सु बर्हिणेषुमयूरेषु तथाऋतुवशेनकालविशेषत्रलैनयोमदखे न जनितंतरुण  
सहचरीभिर्युवतिमयूरीभिः सहप्रवृत्तं प्रयत्नं नैवेपतेतथा तेषुत्रहिणेषुष्वित्यन्वयः नवः सुरभिश्चयः शिल्पिक्रुटजकदंबलक्षणानांपुष्पाणां  
गन्धस्तेनयाध्राणिस्तृप्तिस्तांसुचत्सु गन्धोत्कर्षात्तां विदधानेषुष्वित्यर्थः उपवनेषुभवनासन्नवनेषु तथापरभृतानांकोकिलानांयद्गतंरवोरि  
भितंस्वरधोलनावत्तेनसंकुलानिद्याल्युपवनानि तानितयातेषु उदाहृतं तत्तिथोभसानाः रक्ता इन्द्रगोपकाः कौटविशेषाः स्लोककानांचात

रभिसिखिलिंधिडाडयकंदलकलंबगंधद्विशिसुप्रं तसु उपववशेषुपरः ऋशययिरिभितसंकुलेषु उदाहृतं तरत्तद्

तुनेवसेकालनेविशेषवलेकरीजेमदतेणेकरीजाणियजपनोतदृणीयुवानसहचरीसंधातेचाले एहवीमयूरीमोरडीतेहसंधातेप्रवर्तच्छेनाच  
वोकलानोकरवोजेमोरानेएहवाहर्षवतनृत्य करतामोरुडं तेयकेतयानवासुरभिगंधजेशिल्पिच्छतानारच्छतडाकुटजटलकंदलटलकदं  
वनामावृत्तेहनाफूलनाजेगंधतेणेकरी जेद्वशिंध्राणित्प्रते म् कताच्छेउल्क दृगंधप्रतेकरताच्छे जेफलजेहनेविषे एहवेअत्यंतगं  
धध्राणिसूंकतेच्छते उपवनरुडंतेच्छते धरनेदूकडीवनखंडरुडंतेथक्ते तथापररुडतपरभृतकोकिला तेहनारुतजेरवशब्दरिभितस्वरनीषो

कानांकारुख्यं प्रधानं विलपितं येषु तानितथातेषु पवनेष्वित्यन्वयः अथाश्रवणभट्टैर्मंडितानितथातेषु दृष्टं राणांप्रद्वष्टं जल्पितं येषु तानितथातेषु संपिंडिताः मिलिताः दृष्टादृष्टिताः अमराणांचमधुकराणांच प्रहयरत्तिनिकराजेषु तानितथा परिखिलितं परिखिलीयमानाऽसंमिथं तोमत्ताः षट् प्रसाः कुसुमासवलोल्लाः सकरंदलंपटाः सधुरं कालंगुंजतः शब्दायमानादेशभागेषु येषां तानितथा ततः कर्म

दृगोवयथोवतकारुख्यविलविएसुं श्रोणयतणमंडिएसु ददु, रपयपिएसु संपिथदरिखसमरमहुकरिए

लनातेणेकरीसंकुलआकुलच्छे उपवनघरनेसमीपवर्तीवनखंडच्छते तथाउद्दाहृतसोभायमान एहवारत्तराताह् दृगोपकममोलाजीव विशेषवर्षीकालनेविषे ऊपजेतथाथोवयासोकाचातकचासपंखीया तेहनाकारुख्यप्रधानविलपितनोलवोच्छेजेहेनेविषे एहवेउपवनऊं तेच्छते श्रोणयश्रवनतनस्थानीचानमताच्छे एहवाजेहणातेणेमंडित अलंघतच्छे जेउपवनवनखंड तथादुर्दु रडेडका तेहनाप्रद्वष्टप्रधानपणेवोलवोच्छे जेहनेविषेएहवे उपवनऊं तेच्छते तथासंपिंडितमित्याच्छे एकांठार्दपंतअहंकारे भख्याएहवाभमराअनेवलीसधुका रीभमरीतेहनापहकरसमूहच्छे जेहनेविषेपरिलियपरिसामस्थपणे लीयमानएकांठामित्याच्छे एकठाआशीरह्याच्छे एहवामरत्ताता

धारयः ततस्तेषु उपवनेषु तथापरिस्थामिताः कृष्णीकृताः सांद्रमेघाच्छादनात् पाठांतरेणपरिस्थामिताः कृतप्रभास्रंशाः चन्द्रसूरग्रह  
 णायस्त्रिन्प्रनष्टाच नक्षत्रतारकप्रभायस्त्रिंस्तथा तस्त्रिन्वरतयेइतियोगः इन्द्रायुधलक्षणोवृद्धइववृद्धिक्लपट्टोध्वजपट्टो यस्त्रिंस्तथा  
 यातत्वांवरतलेगने उड्डीनवलाकारपंक्तिशोभमानमेघवृंदं अंवरतलेइतियोगः तथाकारण्डकादीनां पक्षिणांमानससरोरगमनादिप्र

हकारपरिलिख्यसत्संख्यकुसुमा सवलोलमधुरगुंजंतदेसभाएसु. उववणेषुपरिभ्रामियचंदसूरग्रह  
 गणपण्डुणक्षत्तारगपहेइं दाउहवद्विचिंधपट्टिसिअंवरतले उड्डीणवलागपंत्तिसोभंतमेहचंदकारंड

यथापटदभसराते कुसुमफूलनाआसव सकरंदपरागतेहनेविषे लोलपटलावचीयका मधुरमीठागुंजंतगुंजता शब्दायमानक  
 रताच्छेदेशभागनेविषेछे जेहनेएहवे उपवनवरनाससीपनेविषे वनखंडुंतेछते तथाघणोमेघनाआच्छादनयकी परिभ्रामियकीधो  
 छेप्रभानोअंशजेणे मेघेएहवातेजरहितकीधाच्छे चंद्रमासूर्यअनेअनेग्रहना समूहजेहनेविषे तथावलीपण्डुनाठीछेनक्षत्रतारानीप्र  
 भाकातिजेहनेविषे मेहवरसतेछते इन्द्रायुधलक्षण इन्द्रधनुषरूपवांध्यानीपरि बांधीछेचिंधपट्टजेहनेविषे जेअंवरतलआका



त्वौत्सुव्यकरे संप्राप्ते उक्तलक्षणयोगेन समागतेप्रावृषिकाले किंभूता अम्भयाओइत्यादि किंतेइतिकमपरमित्य  
र्थःधरोपाद्प्राप्तनूपुरौ मणिमेखलारत्नकांचीहारश्चयासांतातथा रचितानिन्यस्तानिउचितानियोग्यानि कटकानिचप्रतीतानिखड्ड  
कानिचांगुलीयकानियासांतास्तथा विचित्रैर्वरवल्लयैःस्त्रिभूताविव स्त्रिभूतौभुजौयासांतास्तथा ततःप्रदत्वयस्यकर्मधारयः तथाकुण्डलो  
द्योतिताननाः वरपायपत्तणे उरमणिमेखलाहाररइत्युचिचयकडगखड्डय एगावलिकंठसुरयति सरयवरवल्लयहेमसुत्तकुण्डलुज्जोवि

गचक्कवायकलहंस उस्सूयकरेसंपत्ते पाउसस्मिसमयंसिकलिण्हायाओकयवलिकम्माओ कय०पा

नेविषे तथाआकाशनेविषे उड्डीनजडतीछेउडेछे वलाकावगलानीपंक्तिश्रेणि तेणेकरीसोभायमानसोभतोछे मेघनोडंदतेऊतेछे  
तेतथाकारंडकपंखीयाविशेषे चक्रवाककलहंसराजहंस एहवापंखीयानिमानसरोवरभणी जावाप्रतंडत्सु क्यजतावलनोकरणहारएह  
वेपामेथकेचावेथके प्रावृषिपर्षाकालनासमयप्रस्ताव अवसरउडंतेछतेअम्माकेहवीछे स्नाताअंधोलीतिवारपच्छी कीधीछेघरनादेवनी  
पजाजेशीइंएहवीथकी कीधाकौतुकमषीतिलकादिकमंगलीकदहीद्रोवसर सवपायच्छितस्वप्ननाविघ्नभणी जेकीधाछे किंप्रश्नेअपरव

चाण्डालात्तु पाठांतरं तत्तुवरपादप्राप्तनूपुरमणिमेखलाहारास्तथा रचितान्युचिताकटकानिचखड्डकानिचखड्डकानिचएकावलीचविचित्रम

यच्छित्ताओ कित्तेवरपायपत्तणेउरमणिमेहलहाररइयउचियकडगखड्डुयिविचित्तवरवलययंभियभू  
याओकुं डलउज्जोवियाणणाओरयणभूसियंगीओणासाणीसासवांयवोभंतचक्खुहरवस्सफुरिससंजु

लीधारणीदेवी चिंतवेच्छे धन्यतेपुत्रनीमातावरप्रधान एहवविपायपगंनिविषे पत्तपास्याच्छे नेउरनूपुरमणिमेखलार  
तनीकटिमेखलाहारच्छे जेहस्त्रीयानितथारइयरच्याथाप्राच्छे उचियउचितयोग्यएहवा कडगहायनाकडाखड्डय आंगुलीनाआभ  
रणसुदुडीवेढप्रसुखच्छे जेहानितथाविचित्तअनेक प्रकारनाजेवलयंवाड्डवंधवहिरखा तेणेकरीयंस्याच्छे यांभारूपययाच्छे भजहायजे  
पुवांनीमातानो तथाकुं डलकांननाआभरण तेणेकरीउद्योतउज्जु यालारूपकीधाच्छे आननसुखजेहस्त्रीनाच्छे तथारतनाआभरणते  
णेकरीभूषित अलंकृतसोभायमानअंगच्छे जेहनाहिवेवस्त्रनोवर्णवकहेच्छे तेवस्त्रकैहवोच्छे तेवस्त्रानीपहिरणहारीस्त्रीतेहना नासि  
कानानिःखासनावायरा तेणेकरीउडेहालेअतिवशुं हलू आपणायकी जोतेवस्त्रजेवस्त्रनेजोतां नेतनेहरेअथवाढांकाशरीरनादे

णिककृता एकसरिका कंठसुरजञ्चाभरणविशेषः तिसरकंचवरवलयानिच हेमसूत्रकंचसंकलंयासांतास्तथा कुंडलोद्योतिताननास्त  
 तोवरपादप्राप्तनपुरादीनां कर्मधारयः रत्नभूषितांग्यः नासानिश्वासवातेनोद्यते यत्कषुत्वात्तथा चक्षुर्हरकं दृष्ट्या च्छेपकत्वात् अथवा प्रच्छा  
 दनीयांगदर्शनाच्चक्षुर्हरति धरति वा निवर्त्तयेति यद्भवत्वात्तथा वर्णस्यार्थसंयुक्तं वर्णस्यार्थतिशायीत्यर्थः हयलालायाः अश्वलालायाः  
 सकाशात् पेलवत्वेन रूढुत्वलघुत्वलक्षणे नातिरेकोतिरिक्तत्वं यस्य तत्तथा धवलंचतत्कनकेन खचितं मण्डितमन्तयोरञ्चलयोः कर्मवान  
 लक्षणं यस्य तत्तथा तच्चैति वाक्यं आकाशस्फटिकस्य सदृशी प्रभायस्य धवलत्वात्तथा अंशुकं वस्त्रविशेषं प्रवरमिहानुस्वारलोपोदृश्यः

त्तं हयलालापेलवाद्दरेयं धवलकरणखचित्तकर्म अगासफलिहसरिसप्यभं असुयंपवरंपरिहिया

खवाथकी नेत्रनेहरेजोवे तेवस्त्रवलीके हवोच्छे वर्णसुंदरस्यार्थं अति सुकमालतेणे सहितच्छे तेवस्त्रनो सुकमालपणो कहेच्छे हयवोडानी  
 लालालकीपेलवसुकमालपणे करी अधिकोच्छे सुं हालापणो जेवस्त्रनो धउलोसपेद एहवो कनकसुवर्णसो नो तेणे करी खचित्तमंडित  
 शोभायमानच्छे अंतच्छे हडाबेड्डने विषे एहवो कर्मवणोच्छे जेवस्त्रने एतलेच्छे हडाबेड्डने विशेषी नारी कनारीच्छे एहवो नीपनो जेवस्त्रते हनी

परिहितानिवसिता दुग्धखंवलं अथवा दुग्धखंवलं च विशेषः तद्वत्काज्जातं दुग्धखंवलं विशेष एव तत् दुग्धखंवलं सुत्तरीयसुपरिकायाच्छादनया  
सांतासुयासर्वत्तु सुपरिभुक्तुसुलैः प्रवरैर्मात्स्यैश्चप्रथितदुग्धैः शिरोधोभितं शिरोयासांतासुया पाठांतरैस्वर्वत्तु कासुरभिभुक्तुसुमैः सुपरिचिता

ओ दुग्धखंवलं सुत्तरीयसुपरिभुक्तुसुल प्रवरमसुसोभियसिराओ कालाणुसुधुव  
धुव्वीयाओसिरीसमांशुवेसाओ सैद्यथयगंधहत्थिरयणं दुग्धटाओसिमाणीओ सकोरंटमसुदाभेणंछ

आकाशस्फुटिकनेसरखी प्रभावाति तेजवंतच्छे तेहनोधउलापणायकी एहवाअंशुनवस्त्रविशेषप्रवरप्रधानपहिस्याच्छे जेपुलनीमाता  
इं दुग्धखलवस्त्रअथवा दुग्धखलनामाष्टच विशेष तेहनीच्छात्रियकीनीयनो तेदुग्धखलवस्त्रविशेषसुकमालउत्तरिज्ज जपरओदणच्छे जेहाने सध  
कीच्छतुनानीपना एहवासुरभिभुक्तुसुलं अणं गूंथ्या तेणेकरीतथाप्रवरप्रधानमसुमावा गूंथ्या फालनीतेणेकरीसोभितसो  
भायमानशिरमस्तकच्छे जेहनादण्णागरअगरनाधपणां तेणेकरीधूप्याच्छे मसुकनाकेशजेहना श्रीलक्ष्मीनासरखापहिरवेसच्छे जेहना  
एहवीधणीस्त्रीपुलनीमाताच्छे तेधन्यएहवीस्त्री सैचनकनामागंधहस्त्रीहाथीमांहेरतसमान एहवासैचनकहाथीजपरचढतीयकी

प्रलंबमानाकांताविकसंतीचित्रामालायासां तास्तथा एवमन्यान्यपिपदानिवृत्तवचनांतानि संस्कारणीयानि इहवर्णकेष्टहत्तरोवाच  
नाभेदःतथाचन्द्रप्रभवैरवैड्यविमलदंडाः संखकुंददकरजोहृतमथितफेनपुंजसन्निकाशाश्वये चत्वारश्चमराश्चामराणितद्वालेवीजित  
मंगंयासांतांखया अथसेवार्थोवाचनांतरेइत्यमधीतः सेधवरचामराहिं उडुब्बमाणीहिंर सव्वड्ढीएत्ति छत्वादिराजचिक्करूपयाइह

त्तेणंधरिज्जभाणेणं चंदप्यभवइरवेरुलियविमल दंडसंखकुंददगरयअमयमहिहयफेणपुंजससिक्का  
सचउचामरवालवीजितंगीओसेणिएणंरखा सद्धिं हत्थिवक्खं धवरगएणंपिइओर समणुगच्छमाणी

कोरंटनामाटच्चनालात्थगूंथ्याफूलतेहनी दासमालातेणेकरी सहितजेच्छतमेघाडंबरसुवर्णरूपाना छत्ततेधराव्योमखनेविषेजेणेतथा  
चंद्रप्रभवज्वैड्यएहवेरलोकरिने जद्धाच्छेएहवाविमलनिर्मलादंडेके शंखमचकुंददगरजपांणीनाकणीयाश्चहृतमथ्यानोफेणतेहनापुं  
जसम्हसरिखाजजलाएहवाजेच्यारचामरते हनेवालेकरीनेवीजीयेछेअंगशरीरजेहनाअेणिकनासेराजा संघातेहायीनासुंधवरप्रधा  
नतेजपरचढेथकेपूठिकेडावेडिपाछलिमलीपरैआवतीथकीसोभायमानदीसतीएहवीचडरंगिणीच्यारप्रकारनीसेनाकटकतेणीपरिव

यावत्कारणादेवंद्रष्टव्यं सव्वज्जु ईएसर्वद्युत्याआभरणादिसंबंधिन्या सर्वद्युक्त्यावा उचितेष्टवस्तुघटनालक्षणया सर्वत्रलेनसव्वसैत्येनस  
 र्वं समुदायेनपौरादिमीलेनेन सव्वर्वादिरेणसव्वर्वाचिततत्कृत्यकरणरूपेण सव्वं विभूत्यासव्वं संपदा सव्वं विभूयवासमस्तशोभया सव्वं सं

ओचाउरंगिणींसेणए महयाहयाणीएणं गयाणीएणंरहाणीएणंपायत्ताणीए रंसव्वढीएसव्वज्जु  
 ईएजावणिग्घोसणांइयरेवेणं रायगिहंणयरं संघाडगतियचउक्कचच्चरचउम्मुहमहापहेसु आसिप्ता

खोमोटीहयानीकघोडानीसेनामोटागजानीकहाथिनीसेनामोटास्थानीकरथानीसेनापादानीकपालीयारनीसेनाएहवीच्यारप्रका  
 रनीसेनाइं परिवस्योसगलीच्छिक्खत्वादिकनीतेणेसगलीद्वुतिआभरणादितेणीइं करीजावशब्दथकोचनेराइजोलकहिवातिहांलगीवा  
 जित्तनासमोहनानिर्वोपनानादपडच्छंदातेहनेरवेशब्देकरीराजगृह्नगरप्रते सिंघाडापाणीथीऊपनातेहनावीजफलविशेषतेहने आ  
 कारेमार्गं सहितजेथानकतेसिंघाटकविणमार्गं सहितजेथानकतेतिकच उक्कच्यारमार्गं सहितजेथानकचउवटोते चतुष्कचच्चरविणमार्गं  
 नेभेजेमार्गंतिवटोतेचच्चरचउम्मुहदेवकुलादिजेथानकमहापथयराजमार्गंएहवाथानकनेविषेआसित्तगंधोदके करीयोडोछांद्योसित्तघ

असेणप्रमोदकतौत्सुक्ये नसर्व्वं पुष्पगन्धमात्यालंकारेण सर्व्वं तदर्थशब्दसंनिनादेन तदर्थशब्दानांमौलनेन यःसंगतो नितरांनादोमहान्  
घोपस्तेनेत्यर्थः अल्पेष्वपिऋध्यादिषु सर्व्वं शब्दप्रवृत्तिर्ह्यष्टाअतएवाह महयाबलेणमहयावतु रियजमग  
समगप्यवाइएण्यमकसमकं युगपदतएवविशेषेणाह संखपणवपडहभेरिक्कस्त्रिखरसुहृड्डुकुसुरबसुइंगडुं दुहिनिग्षोसनाइयरवेणं  
ततशंआदीनानितरांघोषोनिर्घोषोमहाप्रयत्नोत्यादितःशब्दोनादितं ध्वनिमातसेतद्वयलज्जणोयोरवःसतथातेन सिंघाडेत्यादिसिंघा  
टकादीनामयंविशेषःसिंघाटकंजलजवीजंफलविशेषःतदाकृतिपययुक्तं स्थानंसिंघाटकंविपययुक्तं स्थानंत्विकंचतुष्पययुक्तंस्थानंचतुष्कं लि  
पयभेदिचत्वरं चतुसुखं देवकुलादिमहापयोरजमार्गःपथःपथमातंतथाआसित्तं गंधोदकेनेषत्वित्तं सद्यद्वासित्तं सित्तं त्वन्यथाशुचिकं

सित्तसुचियसंसञ्जितोवलित्तंजावसुगंधवरगंधिवट्टिभूय अवलोएमार्णौओणागरणेणंअभिणंदिज्ज

णैरोच्छांथ्योशुचिपविलसंसञ्जिततकचरोपरहोनांखोडवलित्तगोवरादिकेकारीलीप्योच्छेतेनगरजावशब्दथकीबीजाइबोलकहिवासुगंधव  
रप्रधानएहवीगंधनीवातीवाटिप्रसुखतेपुण्ठामिरउखेवाइच्छेएहवानगरप्रते अवलोकतीदेखतीयकीनगरसंबंधीएलोकेअतिनंदनीसु

पवित्रं सम्भारिजितसपहृतकचवरं उपलिप्तं गोमयादिना यत्तत्तथायावत्कारणादुपस्थानशालावर्णकः पूर्वोक्तएववाच्यः एवंभूतनगरस्रव  
 लोककथंल्यः गुच्छाष्टंताकीप्रभृतीलतासहकारादिलताः वृक्षाः सहकारादयः गुल्ममावंशीप्रभृतयः वल्लः पुष्पादिकाः एतासांयेद्युच्छ्राः  
 पक्षवसुस्रहृष्टास्तैर्द्यत् उच्छ्रतिर्द्यत्तियवच्छ्रादितं वैभारगिरिरेयैकटकाः देशास्ते जांयेपादाद्यधोभागाः तेषाञ्चबू लंशमीपंतत्तथातत्स्रव  
 तः स्रसंतात् आहिंडेज्जन्ति आहिंडेतेअनेनचैव सुक्ते नव्यतिकरभाजां सामान्नेनस्त्रीणां ग्रथंसाद्वारेणाम् विषयोक्तालमेवदोहदोधारि  
 यथाः प्रादुरभूदित्युक्तं वाचनांतरैतु उलोएमाणीओ २ आहिंडेमाणीओरडोहलंविखिति विनयंत्यपनयंतीत्यर्थः तंजङ्गणंअहमविसे

माणीओगुच्छलयाएक्खगुम्भवस्सिगुच्छोच्छ्राइयंसुरम्भेभारगिरिकडगप्रायमूलं स्रवओसभंताओ

तिस्त्रवनाकरतीयकी नगरसांहियकी नीकलीनि गुच्छवयगणादिकनीलताएक्खसहकारादिलता आंवाहत्तनीलता कांवगुल्लनवमा  
 लिकावंशीप्रमुखवस्सिवेलीफूलादिकनी एहनाजे गुच्छापक्षवनासम्भूहेणेकरीआच्छाद्योएहवो सुरस्यमनोहररमणीकमलोवैभारना  
 मागिरिपर्वतना जेकटकदेशविभागतेहनाजे पाद अधोभागतेहनाजे मूलसमीपके तिहां स्रवलाईचउफेरहिंडतीविचरतीयकी दोह



हेसुअभागएसुजावडोहलंविणोज्जामि विनयेयमित्यर्थः संगतञ्चायंपाठइति उक्तदोहदाप्राप्तौयत्तस्याःसंपन्नं तदाह तएणमित्यादि  
अविणज्जमाणंसिद्धिदोहदेअविनीयमाने अपनीयमानेसति असंप्रप्तदोहदामेघादीनामजातत्वात् असंपूर्णदोहदातेषामज्ञातत्वे  
नैवासंपूर्णत्वात् अतएथअसन्नानितदोहदातेषामनुभवनादितिततःशुष्कामनस्तापेनशोणितशेषात् भुक्खत्तिबुभुच्चाक्रांतेवअतएवनि

हिंडमाणीओरडोहलंविणीयंति तंजइणंअहमविमेहेसु अम्भुगएसु जावडोहलंविणोज्जामि तएणं  
साधारिणीदेवी तंसिडोहलंसि अविणज्जमाणंसि असंपुसुडोहलाअसम्भाणियडो

लाप्रतेटालेखे पूरोकरेखे एणैपदेसामान्यप्रकारे स्त्रीयांनीप्रशंसाद्वारे करीपोतानेविषेधारणीने अकालमेहनोडोहलोप्रगटथयोएह  
वोकच्चुं तंतेकारणथकी जोड्डं पिणमेहवरसतेथके जग्याअंकराहद्धि पामेथके जावडुब्दथी पाळिलाशब्दकहिवाएहवेमेहवरसतेथके  
एणीयुक्ते एदोहलोपूरोकत्तो ऊंधन्य एहवोचिंतवेखे तिवारपच्छीते धारणीदेवी तेपूर्वोक्तदोहलोअणपूरातेथके असंप्राप्तअणपांस्या  
दोहलातेमेघादिकाने अणऊपनाथकी विनादोहलो तेहमेघादिके अणयावापणैकरीअसंपूर्णपणाथकी तयातेहने अणजांणिवेकरी

र्त्मांश्चाञ्जलुगन्तिञ्चवश्गनाजीर्णैर्वकथमित्याह उलगन्तिञ्चवश्गन्मिवजीर्णैर्मिवशरीरं दस्याःसातथा अथवाअवश्गन्चितसा अवरश्न शरीरातथैवप्रमलिनदुर्वलास्नानभोजनत्यागात् क्वाताग्जानीभूताओमंधिवन्ति अधोमुखीकृतंवदनंचनयनकमलेच यथासातथापांडु

हलासुक्ष्माभुक्त्वा निम्संसाञ्जोलुगन्सरीरा प्रलग्नसुदुब्बलाकिलंता उम्सथियवयणकमलाणयणप्रंडु  
इयसुखी कारयलभलियच्चंचंपगमालाणित्तेया दीणविवस्ववयणा जहोचियपुपुफ्रगंधमह्मालंकारहा

तेसेषादिकानेञ्चणभोगविवायकी तेघारणीदेवीमननेतापेकरीषविरशोषवायकीसूकीभूखे'व्यापीएहवीयईएहकारणयकीसांसर  
द्वितयईअवश्गन्जीर्णनीपरे शरीरययोक्ते जेहनोतेघारणीतेणेकरीसालिनदूवलीयईस्नानभोजननात्यागयकीगिलाणसखिखीयईउम  
थियअधोमुखीहेठोकीघोछे वदनसुखनयणकमलनेत्रकालजेखीइ' एतलेभूमिसाहमीदृष्टिकरीरहीक्के पंडुकितसुखीपांडुरोययोक्तेसु  
खजेहनो करतलहायतलानेविषे मलितमिलीसखलांणी कुमलाणीएहवीचांपानीकलीनीजे मालाते हनीपरकुमलाणीयकीवेठीक्के  
गलोइत्योदेईने दीनदयाभणानासखिरिखुं विवर्णेरोवासखिरिखुंवदनसुखययोक्तेजेहनोएहवीयकीययोचितंयथायोग्यफलसुगंधनीमालाअलं

कितसुखीदीनखेवविवर्णवदनंयस्याः सातथा क्रीडाजलक्रीडादिकारमणमक्षादिभिः तत्किंवांचपरिहापयंतदीनादुःखादुःख्यंसनो  
पस्याःसातथा यतोनिरानंदाउपहृतोमनसः संकल्पोयुक्तायुक्तविवेचनंयस्याःसातथायावत्करणात्कारयलपल्लयसुखी अदृज्जाणोवगया

रंअणभिलसमाखी क्रीडारमणकिरिंयंच परिहविसाखीदीणादुस्यणा शिराखंडाभूमिगयदिडो  
याओहयमणसंकप्पा जावळिकायाइ तएण्तीसेधारिणीदेवीए अंगप्रडियारियाओ अथिभंतरीया

कारआभरणहार अणवांकृतीयकी तथाक्रीडाजलक्रीडारमणसारिपाखे करीरमवानीजे क्रीडाविनोदतेहनीजे क्रियातेप्रते हापयंती  
कांडतीयकी दीनदुखीदुर्मनदुःख्यमनदुःखीओमनक्रे जे हनोएहवी आनंदप्रसोदरहितएहवीथकी भूमिनेविषेथापीछे दृष्टिजेखीदुं  
एतलेभूमिसासुहोनीचोजोतीछे उपहतहणाखीछे मननोसंकल्पविकल्पयुक्तअयुक्तविवेचनजे हनेएहवीथकी जावशब्दथकी अनेराइ  
शब्दलेवात्रात्तंध्यानप्रतेध्यावेछे तिवारपच्छीतेधारणीदेवीनी अंगनीप्रतिचारकाखेवानीकरणहवी अथ्यंतरमांहिलीअथ्यंतर  
वर्त्तिनी दाखीरूपचेटिकादासीति धारणीदेवीप्रते दूबलीएहवीप्रते जावशब्दधीपाच्छिलाबोलकहिवाजिहांलगी आर्त्तंध्यानेकरीध्याइ

क्रियाइत्तिआर्त्तध्यानंध्यायतीति नोआढाइत्तिनाद्रियतेनादरं करोतिनोपरिजानातिनप्रत्यभिजानाति विचित्रत्वात् संभंताडत्ति

ओदासचेडियाओधारिणीदेवीं ओलयंजावज्जिकयायमाणिंप्रासइत्ताएवंवयासी कियं तुमंदेवाण  
 प्पिया ओलयसरीराजावज्जिकयायसितएणंसाधारिणीदेवीताहिय अंगपडिचारिय हिअभिभंतरि  
 याओताओदासचेडिओ णोआढाइरणोपरियाणेइ अणढाढायमाणुसिणीयासंचिइइ तएणंताओ

केतिहांगी एहवीध्यावती प्रतेदेखेदेखीने एहबुंकहतीडइ धारणीप्रते किमतुं हेदेवानुप्रिये हेराजप्रियेदूबला सरिखुं दूबलो  
 शरीरयवोछे जेहनोएहवीछती जिहांगी आर्त्त ध्यानधाइछे तेस्यामाटे एहवोपूछे थके तिवारपछीतेधारणीदेवीतेणीइ शरीर  
 नीप्रतिचारकाये अयंतरसेवानीकरणहारी तेदासचेटिकाप्रते आदरनकरे जाणेनहींआवीप्रते अनादरकरती अणबोलतीअण  
 जाणतीएहवी पोतानुं दुःखअणजणावती अणकहती अणबोलीछती धारणीरांणीवे सीरहे तिवारपछीते शरीरनीप्रतिचारका  
 दासरूपचेटिका धारणीदेवीप्रते दासचे टिकातेणीइ वेवारतिणवारएहबुं कहीछती बोलावीछती आदरनकरे परिसामस्यपणेक

व्याकुलीभूताः शीघ्रमित्यादीनि चत्वार्येकानि अतिसंभ्रमोपदर्शनार्थं जेणेवेत्यादियत्रधारिणीदेवी ततोपगच्छति स्मागत्य चावसुजा  
द्विशेषेपणाधारिणीदेवीपश्यति वाचनांतरैतु जेणेवधारिणीदेवी तेणेवेत्यतः पहारेखगमणाएइत्येतद्दृश्यते तत्रपहारेखसंप्रधारि

अंगप्रडियारियाओ दासचेडीओधारिणीदेवी दासचेडीयाहिंदोच्चंपि तच्चंपि एवंवृत्तासमाणीणो  
ओढाइणोपरियाणाइअणाढायमाणा तुसिणीयासंचिद्धंति तएणंताओअंगप्रडियारियाओअभिभं  
तरियाओदासचेडियाओ धारिणीदेवीए अणाढाइज्जमाणीओ अपरियाणमाणीओ तहेवसंभंता  
ओसमाणीएधारणीदेवीए अंतियाओप्रडिणिक्वमइरता जेणेवसेणिएरायातिणेवउवागच्छइरता

रीजाणेनही पाछोउत्तरआयेनही अणआदरकरती अणजाणतीछती अणबोलतीछांनीजबेसीरही तिवारपछीते अंगनीप्रतिचार  
कामांहिलीअंतःपुरनी छभ्यंतरवर्तिनी एहवीदासचेटिका धारणीदेवीइं अणआदरकरतीछती अणजाणती अणकहतीछतीते  
दासचेटिकातिमजसंभ्रांत जतावली आकुलीव्याकुलीथईछती धारणीदेवीना समीपथकी नीकलेनीसरीने जिहां अणिकराजाछे

करयत्परिगृह्यं जावकट्टु, जएणं विजएणं वद्दयेइत्ताएवं वयासीएवं खलु सामि किंपिअज्जधारिणी दे  
 वीओ लग्गाओ लग्गसरीरा जावअट्टुज्जाणो वगयाज्जिफयायइतएणं सेणिएरायातासिअंगपडियारिया  
 णं अंतिएयमइंसोच्चानिसस्मतह्विसंभंतेसमाणेसिगंधतुरियं चवलं वेइयं जेणेवधारिणी देवीतिणेवउ

तिहांअतिशयसुंआवेआवीने करतलहाथने परिग्रहीतएकठाकरीदसनखेमसककढावी आवत्तकरी मसकनेविषे अंजलिवेहाय  
 जोडीकरीने सामान्यपणे विघ्नटलो विशेषथीमोटाबैरी जीपवारूपतणेकरीने वधावेतंडुलादिकेवधावीने एहवूंकहतीऊईअेणिक  
 प्रतेणेप्रकारेखलुनिचयहेस्वामिन् किंपिकाइन्जाणे आजधारणीदेवी जीणेशरीरययोछे घणुं दूबलीआमणदूमणी दुर्बलशरीर  
 पणेएहवीछती जावशब्दयकी अनैराइशब्दकाहवा दुःखआर्तध्यानेसहितछतीछती ध्याइछे चिंताकरेछे दुःखधरे तिवारपूछीतिअे  
 णिकराजा तेअंगप्रतिचारकाना समीपयकीएअर्थसमाचारप्रते सांभलीने हीयानेविषे अवधारीने तिमजसस्त्रांतपणे आकुलव्या  
 कुलथकोउतावंलो मननोचपलपणोकायानोउतावलपणो घणुंजऊतावलो एतलेवणुं संसन्नमपणे करीजिहां धारणीदेवीछेतिहां

तथान्विकल्पितवानित्यर्थः गमनायगमनार्थं तथातएणंसेणिएराथा जेणेवधारिणीदेवीतेणेवउवागच्छइरत्तापासिइत्तिपय्यतिसामा

वागच्छइरत्ता धारिणीदेवीउलुगसरौराजावअहउक्ताणेवगयज्जिकयाथसाणिंपासइपांसित्ताएवं  
 वयासौकिखंतुमंदेवाणुप्पिए ओलगसरौरा जावअहउक्ताणेवगयाज्जिकयायसि तएणंसेधारिणीदे  
 वीसेणिएणंरखा एवंबुत्ताममाणीणेआठाइ रोपरिजाणइतुसिणीयासंचिइइ तएणंसेसेणिएराथा  
 धारणीदेवीदोच्चंपितच्चंपिएवंवयासौकिखंतुमंदेवाणुप्पिएओलगजावज्जिकयायसितएणंसाधारणी

आवेआवीने धारणीदेवीप्रते स्नानशरीरथयोछे जेहनो एहवीप्रतेघणुंदुःखकरती आर्त्तरीद्रुध्यानेसहितछती जावशब्दथी अनैराइ  
 शब्दकहिवाएहवीचिंताकरतीप्रते देखेदेखीने एहवोकहतोऊओराणीप्रते किमलुंहेदेवानुप्रिये हेसरलंखभावे घणुद्रुबलोशरीर  
 थयोछेजेहनोएहवी यावतुदुःखकरती आर्त्तरीद्रुध्यानेकरी सहितभुरती चिंताकरतीछती प्रवत्ते छे तेस्योछे तिवारपछीतेधारणी  
 राणीअेणिकराजाइ इमबोला वीकहीछती आदरनकरे जाणेनहींविचित्रपणायकी अणबोलीछती वैसीरहे तिवारपछीतेअे

न्ये नततोवरुणादिविशेषणाप्रथ्यतीति दोच्चं पित्तं द्वितीयासपिवारामितिगच्छते सवहसाविर्यति शपथान्देवगुरुद्रोहिकाभविष्यसि  
त्वं चद्विकल्पं नाख्यासीत्यादिकान् वाक्यविशेषान् आविताओवे णोपलंभिता शपथैर्वाआविताशपथआविता शपथशापितावातांक्र

देवौसेणिएणंरसादोच्चंपित्तञ्चं पिएवंवृत्तासभाणी णोआठाइणोपरियाणइ तुसिणीयासंचिइइतरए  
णंसेणिएएराया धारंणीदेवो सवहसावियकरेइइत्ता एवंवयासीकिसं तुमं देवाणुप्पिए अहमेयस्सअ

शिकराजा धारणीदेवीप्रतेवेवारतिणवार इत्सपूर्वोक्तरीते बोलावीकहतोऊओकिमतुं हेदेवानुप्रियेहेदेविदूवलीआमणदूमणीयकी  
आर्त्तध्यानेकरीसहितस्यूं चिंतवेछे तोहीपिणधारणीदेवी ओ शिकराजाइं वेवारतीनवार इत्सपूर्वोक्तरीते बोलावीयकी आदरनक  
देवोलेनही जाणेपिणनही पोतानोडुःखअणजणावतीयकी अणवोलीछांनीमौनकरीवेसीरहे तिजारपछीतेओ शिकराजाविवारतीन  
वारबोलावीयकीअणवोबती धारणीराणीप्रते सपथसुं सप्रतेदेइनेकहे जोताहरामननो संकल्पविकल्पसाचोजोनही कहेतोदेव  
गुरुनीद्रोहणीथायसिइत्यादि वचनविशेषसंभलावीओलंभादेइनेकच्यो किमतुं हेदेवानुप्रिये एनकहेछे तेस्योकारणछे ऊं पदएअर्थ



रोतिकिरहकिसिमितिवापाठो देवानुप्रिये एतस्थानर्हः अवनतायां मणोमाणसिच्यति मनसिजातंमानसिकं मनस्येवयवृत्तं तेमानसि

द्वसन्नगरिहेसावयणयाए ताणंतुमंसमंत्रयमेयाह्वं मणोमाणसियदुक्खं रहस्सिकरेदु तएणंसाधा  
रिणोदेवीसेणिएणंरणा सवहसावियाणी सेणियंरायंएवंवयासो एवंखलुसामी समतस्सउरालस्स  
जावमहासुमिणस्सतिरहं मासाणंबडुप्रडियुखाणं अयमेयाह्वे अकालमेहेसुडोहलं पाउभूपूधखा

नेअनर्हअयोयच्छूंस्युं सांभलवानेविषे जेसंभलावतीथकी तेकारणथकी तुं सुभअगागलिएहवोएताहशरूप मननेविषे उपनोमननेविषे  
जेवत्तं तोएहवोमानसिकजेदुखंतेप्रते वचनेकरीअप्रकाशितपणाथकी ते मनसंबंधीदुःखप्रते रहस्ये छांतुं स्युं करेच्छेस्युं गोपवेच्छे सुभ  
आगलितिवारपच्छीते धारुणीदेवी अणिकराजाइं समदेईनेसंभलावीथकी अणिकराजाप्रते इमकहतीऊई हेराजन् खलुनिअय  
एणीपरेस्वामिनुसुअनेते उदारप्रधानकारी उत्तमएहवोजावशब्दथी इहांसंपूर्णशब्दकहिवा एकमोटो खप्रते हनेतिणमासदाडावडु  
थोडाएकदिवसेउणाओछाप्रतिपूर्णउते थके एहवोएताहशरूप अकालप्रसावे मेहवरसते थके एहवोमनोरथप्रगटथयोके परंधन्या

कंदुःखं च नेनाप्रकाशितत्वात्त मनोमानसिकं रहस्यीकरोषि गोपयसीत्यर्थः ति एहमित्यादिविषमामेषु वरुपडिपुष्याणंति ईषटूने

ओणंताओअस्मयाओ कयत्याओणं ताओअस्मयाओ जाववेभारगिरिप्रायमूलं आंहिंडमाणी  
 ओदोहलंविणिइ. तंजइणंअहमविदोहलं विणिज्जामि तेणाहंसामी अयमेयाखुवंसि अक्खालंसि  
 अविस्सिज्जमाणंसि ओलगाजाव अट्टुब्भाणेवगएब्भियाइ तएणंसेसेणिएराया धारिणीए देवीए

ते पुत्वानीमाता कीधाळे मनोरथरूपसगलाकार्यजाणीयेएहवी ते पुत्वांनीमाता जावशब्दथी अनेराइअहिवा वावत्वैभारगिरिप  
 वतनापाइअधोभागना खलसमीपप्रते जोतीकृतीते पुत्वानीमाता दोहलाप्रते पूर्णकरेळे विनोददोहला करतीदोहलाप्रते पूरो  
 करेळे तिमजळं पिणदोहलाप्रते पूर्णकणं माहरामनोरथपूराकणं तिणेकारणे ऊं हेस्वामिन् एहवोएतादृशरूप अकालमेहनादोह  
 लाअणपूरातेयके दूवलीआमणदूमणीयावत् आत्त ध्यानसहित चिंताकरतीध्याउं'ळुं, तेकारणथी दूवलीयाउं'ळुं, तिधारपच्छीतेअ  
 णिकराजाधारणीदेवीना कंभीपयकी एअर्थसाभलीने हीयासांहे अवधारीने धारणीदेवीप्रते इमकहितोऊओ हे देवावुप्रियेतुमे

षुजतीहामित्थित्ये कचिक्करिथ्यामीतिपाठः अथमेयारुवसत्ति अखेवरूपथ मणोरहसंपत्तीति मनोरथाप्रधानाप्राप्तिथयाचिं

अंति एयमदुंसोच्चाणिसम्भ धारिणीएदेवीं एवंवयासी माणंतुमंदेवाणुष्पि ए उलुगगाजावडिभया  
हिअहणं तथाकरिस्वामि जहाणंतुअयमेयारुवस अकालदोहलस मणोरहसंपत्तीभविस्वइत्ति  
कडु धारणीदेवीं इडाहिंकंताहिंपियाहिं मणामाहिं वगूहिंसमासासेइर जेणेववाहिरौयाउवडाण  
सालतिणामेवउवागच्छइर सौहासणवरगए पुरत्याभिमुहेसस्सिसखे धारिणीएदेवीए एयंअका

मतदूवलाथाओ यावत्अर्चध्यानसहितमतवत्ता ऊंतिमकरिसुं जिमठं एहवोएतादृशरूपनो अकालमेहनादोहलानोमनोरथप्र  
धाननीसंप्राप्तिजिमचिंतवेत्ते तेहवामनोरथनी प्राप्तिहोस्ये इमकहीने धारणीदेवीप्रते इष्टवालहीवांणीकंतकामनवांछताकरिने  
एहवीवांणी प्रीतिकारिणी मनमाहिगमे एमलोएहवीवांणीयेकरी संसयक् प्रकारेभली आसाखनादीये देईनेजिहांवाहिरलीवे  
सवानीसभाके तिहांआवेद्यावीने सिंहासनवरप्रधानने विषेगयोथको पूर्वदिशिने सनसुखवैठोथको धारिणीदेवीनो एअकाल

तितेत्यर्थः आत्रैर्लाभैरीप्सितार्थहेत्वनाशुपाचैरप्रतिहतलाभकारणैः आर्थवाउवायंवाठिङ्वा स्थितिवाक्रमंवास्थिरतांचेप्सितार्थस्य

लदोहशुंजुहंआएहिय उवाएहियउप्रतियाहिय वेश्चियाहिय कम्पियाहियप्रारिणासिया  
हियचउबिहाहिंबुद्धीहिंअणुचिंतेमाणेत् तस्यदोहलस्य आर्थंवाउवायंवा ठिङ्वाउप्रतिंवाआत्रि  
दमाणेओहयमणसंक्रम्ये जावत्किमयायद् तथाणंतर्चणंअभयजुभारे एहाएकयबलिकश्चे जावसव्वा

सैहनोदोहलोतेप्रते षणेप्रकारेकरी आयलाभवांछ्या अर्थनाहेतुने उपायेकरीहृणाणोनथी लाभनोउपायतेणेकरी उत्प्रातिकीवु  
द्विङ्करी वैनधिकीवु द्विङ्करी कार्मिकीवु द्विङ्करी पारिणामकीवु द्विङ्करी एहवीच्यारप्रकारनीवु द्विङ्करी राजाचिंतवतो  
यकोविचारकरतो तेदोहलानो आयलाभप्रते उपायप्रते धितिप्रते बांष्वाअर्थनीउत्पत्तिप्रते अलभमाणुअणुपासतो हृणाणोछेमन  
नोसंकल्पशुभचशुभविवेचनरूपएहवो अनैराद्दशब्दकहिवा यावत्चिंतारूपध्यानकरेछे तिवारेवली अभयनामाकुमार  
स्नानकीधाअनंतरकीधोवलिकर्मघरनादेवनीपूजाकीधी जावशब्दथी अनैराद्दशब्दकहिवा तिहांलगी यावत् सर्वस्वअलंकारआभर

पाठांतरे उत्पत्तिं वा तस्यै वेत्यर्थः अविदमार्णेति अलभमानः अयमेया रूवेति अयमेतद्रूपः आध्यात्मिकः आत्माश्रयः चिन्तितः स्वरणरूपः प्रार्थितो लब्धुमाशंसितः मनोगतः अत्र हिः प्रकाशितः संकल्पो विकल्पः संपेहे इत्तिसंप्रेक्ष्यते पर्यालोचयति ता उचि हेता तेत्यासंल

लंकारविभूसि ए पायवंदा ए प्रहारेत्यगमण ए त एणंसे अभयकुमारे जेणेवसे णि ए रायातेणे वलुवा गच्छे इत्ता से णियं रायं ओ हयमण संकल्प जाव जिआयाय मांणं पास इत्ता अयमेया रूवे अज्ज भत्थि ए चिंति ए प्रत्थि ए मणो ग ए संकल्पे ससु प्रज्जित्ता अस्स ओ ममंसे णि ए राया एज्ज मांणं पास इत्ता आटा इ परिजाणा

णादिके करी अलंकखोयको अणिकरा जानापगवां हवाभणी पहारित्थसंकल्पविकल्पवंत जावाभणी प्रवर्त्तो तिवारपच्छौते अभयनामा कुमारजिहं अणिकरा जाच्छे तिहा आवे आवीने ते अभयकुमार अणिकरा जाप्रते हणाणेच्छे चिंता रूपययोच्छे मननो संकल्प विकल्प एहवो यावत् आर्त्तध्यानध्यावतोयको देखे देखीने एहवो एता इशरूप आत्माने विषेडओ आत्माने आश्रयो चिंता रूपस्वरणसाल प्रार्थो लंघिवाभणी एहवो मनसां हिरह्यो वा हिरप्रकास्यो नयी एहवो संकल्पविकल्प चिंता रूपअध्यवसायजपजेकुमरने अन्यदादिहाडे सुभ

तिसक्कारेइ सस्माणेइअलवइ संलवइअद्वासणेणं उवणिमंतेइसत्ययंसि अग्घाइइयाणिममसेणिय  
 रायाणेअठाइणेपरियाणइ णोसक्कारेइणोसस्माणेइ णोइडाहिंपियाहिं मणुखाहिंउरालाहिंव  
 णुहिंअलवइलवइ णोअद्वासणेणंउवणिमंतेइ णोसत्ययंसिअग्घाइ किंपिओहयमणसंकप्पोडिक्क

प्रतेअणिकराजा आवतोयकोइडिमाडिदेखेदेखीने आदरकरतोबोलावतो जाणतोमननोभावकाहितो सत्कारदेतोबस्वादिकेकरी  
 सन्मानहेतोवेसिणादिकेकरी बोलतोबोलसांभलतो पाछोसांसुहोजत अर्द्धासननेदेवेकरी निमंलणाकरतो जेइहांवैसोइत्यादिकरी  
 तेसायानेविषे सुंघतोचुंवतोहाथफेरवतो हिवडांआज सुक्कनेअणिकराजा आदरकरतोनथीवो लावतोनथी आयोपणिजाणतोनथी  
 सत्कारदेतोनथी सन्मानदेतोनथीबोलावतोनथी बोलहीवांणीए प्रियवक्कभअत्यंतवाल्हीवांणी मननेगमती मनोइ  
 रवाणीएउदारप्रधानकारणीएहवी वांणीकरीबोलतोबोलावतोनथी पाछोउत्तरदेतोनथी अर्धासनदेवेकरीनिमंलणाकरतोनथीमा  
 यानेविषेसूवतोनथी हाथफेरवतोनथी कांइएक चिंतारूपमननो संकल्पस्वरणमालआत्तैधानंप्रते ध्यावेछेचिंतवेछे तंतेहकारणथकी

यायद्रतंभविष्वं एत्यकारिणं तसेयंखलमेसेणियंरायं एयमङ्गं शुच्छित्तए एवंसंप्रेह्दइत्ताजेणामेव  
 सेणिएरायतिणामेवउवागच्छइत्ताकरयलपरिगहियंसिरसावत्तं मत्यएअंजलिंकट्ट, जएणंविजए  
 णंवद्वावेइत्ता एवंवयासीतुभेणंताओ अखयामसंएज्जमाणंप्रासिता अटाहपरिजाणहजावमत्य  
 यंसिअग्घायहआसणेणं उवणंसंतिहइयाणित्ताओतुभेमसंणोअटाह जावणोआसणेणं उवनिमंते

भवितव्यतानेचोगे एत्यइह्वांछेकारणे करीकांइएकभेदछे तेहभणीअयभलोखलु निचयमेसुक्कनेअणिकराजाप्रते अर्थएहवार्त्तापूछिवा  
 भणीकल्पे एहवोविचारिचिंतवैचिंतवीने जिहांअणिकराजाछे तिहांआवेआवीने करतलवेहायजोडी एकठाकरीमाथाने आवत्त  
 करी माथानेविषेहायचढावी अंजलीप्रतेकरीने जयरप्रवर्त्तोपोताने विजयप्रवर्त्तथके शतुनेजीपवेकरी एहवोकहीनेवधावेवधावीने  
 एहवोकहतोड्डओ अभयकुमारतुह्हेहेतात अन्यदाअनेरासमयनेविषे सुक्कप्रतेआवतोदेखीने आदरकरता परिजाणतामननोभाव  
 कहिता जावअनेराइशब्दकहिवा तांजामाथानेविषे छंघताचुंवता वेसणानेदेवेकरीनिमंलणविशिणादुकडूदेता हिवडाहिताततु

णं एयंकारंति अप्रधानहेतुं दोहदपूर्तिं लक्षणमितिभावः कारणमितिक्वचिन्नाधीयतएव अगूहसाणत्तिअगोपयंतआकारसंवरण

हिं किंपिअोहयसणसंकप्पाज्जिभायायहतंभविद्यव्वंताओएत्थकारणेणं तओतुज्जेसमताओएयंकारणे  
णंअगूहेसाणाअसंक्रमाणा अणिएहवमाणा अपच्छाएसाणा जहाभूतमवितहमसंदिद्धं एयमडंमा  
इकवहतएणंअहंतस्यकारणस्य अंतगसणंगमिस्सामि तएणंसेणियेयाया अमएणंकुमारेणंएवंबुत्तेस

हे सुभ्रप्रते न आदर कीधो जावत् आसनवेसणो ढु कडोनदीधो तेकांईएक तुसे चिंतारूप अर्त्तिरूपमननासंकल्पविकल्प यका  
ध्यावोछो तेभवितव्यता हेतात एत्थइहंक्केकारणेकरी तेकारणयकी तुसेसुभ्रनेहेतात एहूरूपचिंतारूपध्याननो हेतुभणीदोहलाना  
पूरणगोपविस्थोमासंक्रामकरिस्थोअणवोल्यामरहिज्योओलवज्योमांढाक्योछानामराखस्यो यथाभतजिमहतातऊओ तिमअवितथसा  
चोसंदेहरहित एहप्रयोजनदोहलाना पूरवालक्षणतेकहो सुभ्रने तिवारपक्कीऊं तेहचिंतारूपकारणनो पारपामस्यो तेकरस्यं  
तिवारपक्कीतेअणिकराजा अभयकुमारएहवंकहेयके अभयकुमारप्रते एहवोक्कहितोऊओ अणिकराजा इणप्रकारेखलुनिचं हेदुल



अशंकमानाधिवक्षितप्राप्तौ संदेहमविदधतः अनिङ्गवाना अनपलपंतः किमुक्तं भवत्यप्रच्छादयंतः यथाभूतं यथादृत्तं अविताथं नत्वयथा  
 साणे अभयशुमारं एवं वयासौ एवं खलु पुतातव चुल्लुमा उयाए धारणी देवीए तस्स गभस्स दो सुमासे सु  
 विद्वक्तं सुतइयसासे वट्टुजाणे दोहलकालं समर्थं स अयसे याखु वे दोहले पाउ भवित्था धम्माओ रंता  
 ओ अम्मयाओ त हे वणि रवसे संभाणि यब्बं जाव विंणं तितरणं अहं पुत्ता धारणी देवीए तस्स अकाल दोहल  
 स्स वड्डुहिं आएहि व उवाए हि य जाव उप्पत्तिं अविंदस्स णेओ हय मण संकप्पे जाव डिक्कयाहि तु संओ

ताचरी लघु माता अ परमाताइं धारणी देवीने तिणगर्भना दोयमासवत्तं तेथके लीजे मासवत्तं तेथके दोहलाना कालसमयने  
 विषे एहवो एताइ शरूप दोहलो प्रगट प्रगट ययोक्खे तेधन्यक्खे तेपुवनी माताएह अधिकार पाछलिकच्छो तिमजसगलोपाठ इहां भणिवोजा  
 णिवो जाव शब्दथी अने राई शब्द जिहां लगी दोहलो पुरोकरे तिहालगी तिवार पक्कीऊं हेपुवधारिणी देवीने तेअकालसेहनादोह  
 लाने धणे प्रकारे लाभेकारी उपयेकारी उत्पातिकी आदिवुद्धिइं करी जाव जिहां लगी उत्पत्तिवांछ्या अर्थनी उत्पत्तिप्रते अणपामतो



स्य अकालदोहलसमणोरहसंपत्ती भविस्सइत्तिजइ, सेणियंरायं ताहिंइइहाहिंकंताहिं जावसमासा  
 सेइ तएणंसेणिएरायाअभएणंकुमारिणं एवंवुत्तेसमाणेहइतुइजावअभयंकुमारंसक्कारेइसम्माणेइइप  
 डिविसज्जेइ तएणंसेअभयकुमारे सक्कारेइसम्माणिए प्रडिविसज्जिए समाणेसेणियस्सरस्यो अंति  
 याओपडिणिक्वमइइत्ता जेणामेवसएभवणे तेणामेवउवागच्छइइर सिंहासणेणिसस्ये तएणंतस्सअ

वाणीइंकांतवांछती जावशब्दथी संपूर्णपाठकहिंवो एहवी पूर्वोक्तवांणीइं आसनादीये तिवारपच्छीअेणिकराजा अभयकुमारनेएह  
 वोपूर्वोक्तरीतेकहतेथके हर्षवंतंतुष्टसंतोषवंतजावशब्दथी संपूर्णपाठकहिंवोतिवारपच्छी अेणिकराजा अभयकुमारप्रतेसत्कारवस्त्रादि  
 केकरीसन्धाने वड्डमानदीये सत्कारीने प्रतिविसर्जमोकले तिवारपच्छीते अभयकुनार सत्काखोसन्धान्यो प्रतिविसर्ज्योमोकलयोथको  
 अेणिकराजाना समीपथकी नीसरेनीसरीने जिहांसुक्कीयपोतानोषरच्छे तिहांजम्मावेआवीने सिंहासननेविषे बैठोथको तिवारप  
 छीतेअभयकुमारने एहवोद्यागलिकहिंस्ये तेहवोद्यामानेविषेइअो स्मरणमात्रजावजिहांलगी प्रार्थोवांछो एहवोसनमांहिंसंकल्प

याएत्तिलघुमातुः पुञ्जसंगद्वयत्ति पूर्व्वं कालेसंगतिर्भित्तत्वं येनसहसपूर्व्वसंगतिकः सच्चिद्भिर्कोविमानपरिवारादिसंपदुपेतत्वात्या  
 वल्करणादिदं दृश्यं महाद्युतिकः शरीराभरणादिदीप्तियोगात् महाबुभागौवैक्रियादिकरणशक्तियुक्तत्वात् महायशाःसत्कीर्त्तिर्योगात्

अथकुमारस्व अयमेयाखूवेअञ्जकथिए जावससुष्यज्जित्तां शोखलुसक्तामाशुस्वाएणंउवाएणं समन्तु  
 ल्लमाउयाए धारिणोदेवीए अकालमणोरहसंप्रतिं करित्तए शसुत्थदिद्वेणंउवाएणं अत्थिणंसमसो  
 स्सकप्पवासीपुञ्जसंगद्वए देवेमहद्दिणुए जावमहासुकवे तंसेयंखलुसमंपोसहसात्ताए पोसहितस्सवंभ

विकल्पजपजे नोनिषेधार्थे खलुनिश्चितं नकरी सकेसबुध्यने उपावेकरी साहरीलघुमाता अपरमाता धारणीराणीनि अकालमेहना  
 दोहलानामनोरथनीसंप्राप्तिप्रते करिवाभणीएतले कदीअकालमेहनादोहलाना पूरवानाभनोरथनी प्राप्तिमबुध्यने उपायेकरीस  
 कीचिनही नअन्यत्वनहीछे वीजोदेवताना उपायविनावीजोप्रकारनथी अस्तिछेमाहरे सुधर्मानामा कल्पदेवलोकनोवासीपूर्वपाद्य  
 लाभवनेविषेसंगतिमित्वाइ पणोजेसंघाते ऊद्योते पूर्व्वसंगतिकदेवता ते महाच्छिवंतविमानवासी परिवारसहित यावत् तेजवंतमहा

महाबलः पर्वताद्युत्पाटनसामर्थ्योपेतत्वात् महासौख्यो विशिष्टसुखयोगादिति पोषधंपर्व्वं दिनानुष्ठानमुपवासादि  
 तस्यशालागृहविशेषः पोषधशालातस्यां पोषधिकस्य दृढतोपवासादेः व्यपगतमालावर्णकविलेपनस्य वर्णकं चंद्रं तथा निक्षिप्तं विमुक्तं  
 शस्त्रं चरिकादिसुसलंच येन सतथा तस्य एकस्यांतरव्यक्तरागादिसहायवियोगात् अद्वितीयस्य तथाविधपदात्यादिसहायविरहात् अत्र

यारिखत्तस्युक्त्वासाणि सुवस्यस्य ववगयमालावस्यगविलेवणस्य निखित्तसत्यसुसलस्य एगस्य अवीयस्य  
 दृशभसंधारोवगयस्य अट्टमभत्तंपरिगिरिहत्ता पुव्वसंगतियं देवं मणसीकरेमाणस्य विहरित्तएतएणं

सौख्यंतमोटो सुखनोभोक्ताहं तेहकारणथकी अयभलुंखलुनिश्चयमुक्त्तने पोषधपर्वदिनेविषे क्रियाअनुष्ठानतेउपवांसादि पोसहंस  
 हितकीधोछे उपवासजेणेएहवानेवह्मचर्यवंतएहवो अर्थनेविषेउत्प्रावत्यपणेकरीसूं क्योछे मणिरत्तसुवर्णजिणे एतलेआभरणरहितथ  
 ईनेवलीव्यपगतछाड्योछे मालाफूलनीवनगवर्णकचंद्रनोविलेपन जिणेएहवोअलंकाररहितथईनेतथावलीअलगोसूं क्योछे शस्त्रकुरी  
 आदिकहथीचार अनेसूत्रजिणे तेपोषधशालानेविषे एकलोअद्वितीयवीजोकोइनेही एहवोएकाकीथईने ङाभनोसंधारोसंधस्योतेह

पुत्रसंगति ए देवे समचुल्लमा उया ए धारणी ए देवी ए अत्र यमेया रूवे अकाल मे हे सुडो हलं विणे हं ति एवं सं पे हे  
इत्ता जेणे व पोसह साला तेणे व उवा गच्छ इत् पोसह सालं प्रसज्ज इत् उच्चार पासवण भूमिं पडिले हे इत् दम्भ  
संथारयं पडिले हे इत्ता दम्भ संथार गंतु रू ह इत्ता अद्भुतं पंगि ए ह इत्ता पोसह साला ए पोसह बंभ

नेज पर उपगत वैसीने अष्टमभक्त उपवास तिण प्रते करीने पाछिला भवनो संगति मित देवता प्रते मनमां हि धरीने ध्यान करतो यको एतले  
ते मित देवतानो जस्मरण करतो यको एहवो तिवार पछी ते माहरो पूर्व संगति देवता ते माहरी लघुमाताने धारणी नामा देवीने एहवो  
पूर्वी कते हवो अकालने विषे मे हवर सावेयके डोहला प्रते टालस्ये पूर्ण करस्ये एहवो अभय कुमार विचारे विचारीने जिहां पोसह करि  
वानी शाला वरुं तिहां जन्मावे आवीने पोसह शाला प्रते प्रमार्जं पूं जे पूं जीने उच्चार वडीनी तपासवण लघुनी ति परठववानी भूमि धरती  
प्रते पडिले हे पडिले हीने डाभना संथारा प्रते पडिले हे पडिले हीने डाभना संथारा प्रते चढे उपर वेसे वेसीने त्रिण उपवास प्रते ग्रहे ग्रही  
करीने पोसह करि वानी शालाने विषे ब्रह्मवत धारी एहवो यको जां व शब्दथी पाछिलो पाठक हि वो पूर्व संगति पाछिला भवनो मित देवता

दृमभक्तं तिसमयभाषयोपवासतयसुच्यते अदृमभक्तेपरिणममाणेति पूर्वमाणेपरिपूर्णप्रायइत्यर्थः वेडब्बियससुग्घाएणमित्यादिवैक्कि

यारी जावपुब्बसंगतियदेवं मणसीकरेमाणेचिदुइ तएणंतस्सअभयकुमारस्स अदृमभक्तेपरिणममा  
णेपुब्बसंगइयस्सदेवस्स आसणंचलइ तएणंपुब्बसंगइए सोहस्सकप्पवासीदेवे आसणंचलियंपासत्ति  
ओहियंपउज्जितितएणंतस्सपुब्बसंगइयस्सदेवस्स अयमेयाखूवेअज्जकत्थिए जावससुप्रज्जित्ताएवंखलु  
मसंपुब्बसंगइएजंबुह्वीवेइ भारहेवासेदाहिणइभर हेवासेरायगिहेणयरे पोसहसात्ताए पोसहिएअ

प्रतेमनमाहिध्यानकरतोयकोरहेबैसे तिवारपच्छीणंवचनाअलंकारभणी अभयकुमारने अष्टमभक्ततिणउपवासपरिपूर्णप्रायसंपूर्णेप्रा  
येथके पाच्छिलाभवनोमितपूर्वपरिचयदेवतानो आसनसिंहासनप्रते चालेहाले तिवारपच्छीते पूर्वसंगति सुधर्मादेवलोकनोवासीदेव  
तापोतानोसिंहासनचाल्योहाल्योतेप्रते देखेअवधिज्ञानप्रतेप्रयुंजे तिवारपच्छीते पूर्वसंगतिपूर्वपरिचयदेवताने एहवोएताइयरूपआ  
त्मानेविषेइओ चिंतितस्सरणमात्रार्थोमनमांहिंसंकल्पविकल्पउपजे एहंपुंखलुनिश्चयमाहरो पूर्वलोमितअभयकुकारजंबुद्वीपनेविषे

यस्युद्धातोवै क्रियकारणार्थो जीवव्यापारविशेषः तेनसमुपहन्यते समुपहतो भवति समुपहंतिवाञ्छिपति प्रदेशानितिगम्यते व्यापारवि

भयणात्मं कुमारं अद्रुमभक्तं गिशिहत्ताणं मसंमणसीकरेभ्याणं चिदृद्रतं सेयं खलुमममभय कुमारस्वअं  
ति एपाउभभवित्तणं एवंसंपेहेइत्ताउत्तरपुरत्थिमं दिसीभागं अवक्रमइत्वेउल्लियसमुग्घाएणं समोह  
खाइत्संखिज्जाइजोयणाइदंडं निसरइत्ता तंजहारयणाणं वयराणं वेरुलियाणं लोहिहयकवा

भरतनामावर्षचेतनेविषे दक्षिणाहं भरतचेतनेविषे राजगृहनामानगरनेविषे पोसहकरिवानीसालानेविषे पोसहसहितउपवास  
संयुक्तअभयकुमार विणउपवासप्रते ग्रहीनेकरीने सुम्भनेमाहरोस्मरणकरतोयकोवेठोयको एकचित्तयको तेकारणयकीअेयभलोखुलु  
निचयसुम्भने अमयकुमारपूर्वमित्तनासमीप प्रगटथावो कल्लेतिहाजाइवो एहवूदेवताविचारेविचारीने उत्तरअनेपूर्वदिशिनामध्य  
भागप्रते एतलेईशानकृणप्रतेआवेआवीने तिहावैक्रियसमुदघातनोवैक्रियरूपकरवाने अर्थेजीवनोव्यापारविशेषतेणेकरी समोहणेजे  
पेप्रदेशप्रते व्यापारविशेषपरिणमे एतलेतथारूपकरे संख्याताजोयणलगी दंडनीपरे दंडसरिखोजं चोनीचोतिरिच्छोलां वोशरीरने



शेषपरिणतोभवतीतिभावः; तत्स्वरूपमेवाह संखेज्जाइ इत्यादि दंडइवदंडऊर्द्धाधआयतः शरीरवाहल्योजीवप्रदेशकर्मपुद्गलसमूहः  
 तत्रच विविधपुद्गलानादत्ते इतिदर्शयन्नाह तद्यथारत्नानां कर्कतनादीनां संबंधिनः १ तथावैराणां ३ वैडूर्याणां ३ लोहिताक्षाणां ४ म  
 सारगङ्गानां ५ हंसगभीयां ६ पुलकानां ७ सौगंधिकानां ८ ज्योतिरसानां ९ अंकानां १० अंजनानां ११ रजतानां १२ जातरूपाणां १३

गं ४ मसारगङ्गाणां ५ हंसगभीयाणां ६ पुलगाणां ७ सौगंधियाणां ८ जोइरसाणां ९ अंकाणां १० अंजनाणां ११  
 रथयाणां १२ जातरूपाणां १३ अंजणपुलगाणां १४ फलिहाणां १५ रिद्धाणां १६ अहावायरेषो गंगलिपरि

वाङ्मल्यपणिकरी जीवनाप्रदेशकर्मपुद्गलनासमूह जेप्रदेशतेप्रतेलेइने कर्मपुद्गलमयवे क्रियरूपकरीने अनेकप्रकारपुद्गलप्रतेग्रहे तेक  
 हेक्केकर्कतरत्ननापुद्गल १ वज्ररत्ननापुद्गल २ वैडूर्यरत्ननापुद्गल ३ लोहिताक्षरत्ननापुद्गल ४ मसारगङ्गरत्ननापुद्गल ५ हंसगभीरत्नना  
 पुद्गल ६ पुलकरत्ननापुद्गल ७ सौगंधिकरत्ननापुद्गल ८ ज्योतिसरत्ननापुद्गल ९ अंजनरत्ननापुद्गल १० अंजनरत्ननापुद्गल ११ रथणनापुद्ग  
 ल १२ जातरूपरत्ननापुद्गल १३ अंजनपुलकरत्ननापुद्गल १४ फटिकरत्ननापुद्गल १५ रिष्टरत्ननापुद्गल १६ यथाजिमवाहरअसारपुद्गल

अंजनपुलकानां १४ स्फटिकानां १५ रिष्टानां १६ किमिति अहायथा बादरानसारान् यथासूक्ष्मान्सारान् ततोवैक्रियं करोतीति अम  
यकुमारसणुकंपद्मार्णोत्ति अनुकंपयन् हातस्याटसोपवासरूपं कष्टं वर्त्त तद् निविकल्पयञ्जित्यर्थः पूर्वभवेपूर्वजन्निजनिताजाताया  
स्त्रे हात्प्रीतिः प्रियत्वं नकार्यवशादित्यर्थः बद्धमानच्च गुणादुरागसाभ्यांसकाशाज्जातः शोकः चित्तखेदो विरहसद्भावेन यस्य स पूर्वभवज

साडेहूअहासु हूसे. प्रौणलेप्रिगिरहद् अमयकुमारसणुकंपद्मार्णोदेवो पुव्वभवजणियथणेहपीयबहु  
साणजायसोयित्तोविमाणवरपुंडरीयाओ रयणुत्तभाओधरणीयलगम णटुरियसंजणियमणप

प्रतेपरिहरेएतलेसोलप्रकारनाअसाररपुङ्गलप्रतेपरिहरेयथाजिमसूक्ष्मसाररप्रधानरपुङ्गलप्रतेग्रहेलीयेतिवारपच्छीवैक्रियरूपकरितेदे  
वअमयकुमारप्रतेअनुकंपादयाकारतोजोतिहमिलनेत्रिणुपवासप्रतेरूपकष्टकेएहवोचोतवतोयकोतेदेवपाच्छिलाभवनेविषेजनिताजपनी  
जेस्त्रेहथकीप्रीतिवस्त्रसप्रणोपरकार्यनावसथकीजातजपनोजेशोकचित्तनोखेदविरहिनसद्भावेकरीक्रेजेहनाततःतेपोतानाविमानवरपु  
डरीकघउलाविमानथकीपुंडरीकविमानरत्नथकी धरणीतलप्रथिवीतलनेविषेजाड्वाभणीतुद्रितजतावलोसंजनिताजपनोगमनजावा

नितस्त्रे ह्यग्नीतिवज्जमानजातशोकः वाचनांतरे पूर्वभवजनितस्त्रे ह्यग्नीतिवज्जमानजनितशोभस्यत्वयोभायुलकादिह्रुपाशुस्मात्स्वकीयात्  
 विमानवरपुंडरीकात्पुंडरीकताचविमानानामध्ये उच्यते चमत्वात्प्रथयुक्तमाउत्तिरत्नोत्तमान् रचनोत्तमाद्वाधरणीतलगमनायभूतलप्राप्त  
 येत्वरितः शीघ्रः संजनित उत्साहितो गमनप्रचारी गतिक्रियाग्रहृत्तिर्येन सतथा वाचनांतरे धरणीतलगमनसंजनितमनः प्रचारइतिप्र  
 तीतमेवव्याघृशितानि डोलायमानानि यानि विमलानि कनकस्थप्रतरकाणि च प्रतरहृत्त रूपपाणि आभरणानि अतस्तं सकेचकर्णपूरैस्तु  
 कुटंचमौलितेषामुत्कटोद्यः आटोपः स्फारता तेन दर्शनीयः आदेयदर्शनीयः सतथा तथा अनेकेषां मणि कनकरत्नानां पहकरत्तिनि कार

यारोवाघुश्चियविभ्रंलकरणप्रथरग वडिसगमसुडुक्कडाडोवटंसणिल्लो अणेगमणिकरणप्रथरहका

नोप्रचारगमनक्रियानीग्रहृत्तिकीधीछे जेणे एहवो देवता व्याघृशितडोलायमानहालतां जे विमलनिर्मल एहवाकनकसो नानाप्रतरपा  
 नडीना वाटलारूप आंभरणते अतंसककर्णपूरैकानाने विषे वलीसुगटोपते हनाउत्कटउत्कट्टाजे आटोपदेदीप्यमानतेणीहं करी  
 दर्शनीयदेखवायोग्यछे जेते देवता तथा अनेकवशा प्रकारनामणिकनकसो वर्णरत्नते हनापहकरसम्बह तेणे करी परिभंडित अलंकारशो

स्तेनपरिमंडितोभक्तिभिच्चित्तो विनियुक्तकः कश्चानिवेशितोमणुक्ति मकारस्यप्राकृतशैलीप्रभवत्वात् योत्रु रूपो गुणः कटिस्त्रुत्वं तेनजनि  
तोहर्षोयस्यसतथा प्रेखोलमानाभ्यां डोलायमानाभ्यां वरललितकुंडलाभ्यांवदुज्ज्वलितसुज्ज्वलीकृतं वदनंसुखंतस्ययोगुणः कांतिलक्ष  
णः तेनजनितंसौम्यं रूपं यस्यसतथा वाचनांतरे पुनरेवंविशेषणत्वयंहस्यते वाधुस्थियविसलक्षणप्रथरगवडंसगकंपमाणाचलोलललि

रपरिमंडियमत्ति न्नित्तविणित्तमसणुगुणजणियहरिसे पे खोलमाणवरललियकुंडलुज्जलियवय  
णगुणजणिसोमरूवो उडितोविवकोसुई शिसापसणिच्छरगाउज्जलियमज्जमागत्यो णयणा

भायमानजभक्तिभांति तिणेकरीचित्तआचर्यकारी चीतस्यो चित्तामनीभांतिसहित विणित्तमकडिनेविषयायोच्छे पच्चिस्थोच्छे जेच्च  
सुरूपअनोपमएहवो गुणक० कंदोरोतेणेकरीजपनोच्छेहर्षजेहने तथावलीप्रेखोलमानडोलायमानहालताहीडता जेवरप्रधानललि  
तमनोहरचालतां जेकाननाकुंडलकुंडलनायुगलतेणेकरी उज्ज्वलितउजुआलारूपउद्योतकीधोच्छे वदनसुखजेवतीनो तेहनोजेगुण  
कांतिलक्षणे जनितजपनोच्छे ययोच्छे सौम्यमनोहररूपजेदेवनो च्चिदेएहवुंउपमानदीजेच्छे कुंडलानो उदितइवउदयपामतोज

यपरिलंबमाणनरमगरतुरगसुहसयविण्णिगलणिसपवरमोत्तिशविरायमाणमउडकडाडोवदरिसण्णिज्जोतत्वव्याघूणितानि चंचलानि  
 विमलकनकप्रतरकाणिच अवंतंसकेच प्रकंपमानेचलोलान्यतिचपलानि ललितानिशोभावंति परिलंबमानानि नरमकरतुरगसुख  
 शतेभ्योसुकुटाग्रविनिर्मितैतन्नुखाद्वृत्तिशतेभ्यो विनिर्गतानिनिःसृतानि उद्गीर्णानीववांतानीवोद्गीर्णानि यानिप्रवरमौक्तिकानिवरसु  
 क्ताफलानितैर्विराजमानंशोभमानं यन्मुकुटंतच्चैति इन्द्रसोषां उल्कटआटोपस्ते नदर्शनीयोयः सतथा अरणेगमणिक्कणगरयणपरिमं  
 डिद्यभागभत्तिचत्तविणि उत्तगमणगुणजणिय पेखोलमाणवरललियकुंडलुज्जालिय अहिगअभरणजणियसोभे अनेकमणिक्कणकनक  
 रत्ननिकरपरिमंडितभागे भक्तिचित्ते विच्छित्तिविचित्ते विनियुक्ते कर्णयोर्निवेशिते गमनगुणेनगतिसामर्थ्येन जनितेकृते प्रेखोल  
 मानेचंचले येवरललितकुंडलेताभ्यामुज्ज्वलितेनउद्दीपनेनाधिकाभ्यामभरणाभ्यांउज्वलितधिकैर्वाअभरणैश्चकुंडलव्यतिरिक्तौर्जनि  
 ताशोभायस्यसतथा गयजलमलंविमलदंसयविरायमाणरूवो गतजलमलंविगतमालिन्यं विमलदर्शनमाकारोयस्यसतथा अतएववि  
 राजमानंरूपयस्यसतथा ततःक्रमंधारयः अयमेवोपमीयते उदितइवकौमुदीनिशायां क्वात्तिकीपूर्णमास्यां शनैश्चरांगारकयोःप्रतीत  
 योःउज्ज्वलितदीपमानःसन् योमध्यभागेतिष्ठतिसतथा नयनानंदोलोचनाह्लादकः शरच्चन्द्रइति शनैश्चरांगारकवत् कुंडलवच्चतस्य

रूपमिति तथायंमेखणोपमीयते दिव्यौषधीनां प्रज्वलनेनेषसुकुटादितैजसा उज्ज्वलितंयद्दर्शनंरूपंतेनाभिरामोरस्योयःसतथाऋतुल  
 द्यैवसर्वंत्तुककुसुमसंपदा समस्ताःसर्वाःसमस्तस्यवाजाता शोभायस्यसतथा प्रकृष्टेनगंधेनोद्भूतेन उद्भूतेनाभिरामोयः सतथासेखरि  
 वनगवरःविकुर्वितविचित्रविषुःसन्नसौवर्त्तत्तद्भूतिदीवससुद्धानांअसंखपारिमाणामधिज्जाणंतिअसंख्यंपरिस्मरणंनामधे

णं दोसरयचंदो दिव्योसहिप्रज्जलुज्जलिय दंसणाभिरामो उउलच्छिसमत्त जायसोहो मद्भृगंध  
 द्युयायाभिरामो मेखविवरणगवरोविडब्बिय विचित्रवेसो दीवससुद्धानां असंखपरिमाणामधिज्जा

गततेहसरिखोजेहवो कौसुदीनिश्यांकार्त्तिकपूर्णानिशा रातिनेविषेशैश्चर अनेअंगारकमंगलएवेउं तारानोउज्जलितदेदीय  
 मानतेजवंतयकोजे कुं डलमध्यभागनेविषेके एह्यारक्तवर्णमध्यभागके तथातेदेवनो रूपकहेके लोचनेने अनंदनो कारणहारशर  
 त्कालनाचंद्रमासरिखोरूपके तेदेवनो द्विवेमेरुनी उपमायेकरी तेदेवनेवर्णवेकेदिव्यप्रधानदेवतासंबंधिनीजे औषधितेहनाप्रज्ज्वल  
 नेकरीसुगटादिकेकरी उद्योतकीधोके जेदर्शनरूपतिणे अभिराममनोहरमणीकके जे देवता तथाऋतुनीलक्ष्मीयेकरीसगलीऋतु

यानि च येषां ते तथा तेषां मध्यभागेन वीरुवयमाणेति व्यतिव्रजन् गच्छन् उद्योतयन् प्रभया विमलया जीवलोके उभयद्दत्ति अथ पतति अवतरति अंतरे च प्रतिपन्नः आकाशस्थः दशाह्वं वर्णानि पंचवर्णानि सर्वाङ्गीकानि क्षुद्रघण्टिकोपेतानि एकस्त्रावदेपगमः पाठोच्योपि द्वि

गं मञ्जुकारिणी वीरुवयमाणो उज्जोयंतो प्रभा ए विमला ए जीवलोयं रायगिहपुरवरंच अमयस्यतस्य पा  
सञ्चोवयिति उदिव्वरुवधारी तएणंसेदेवे अंतलिकवपडिवस्ये दसइवस्यार्द्रं सखिंखणीया इप्रवरवत्या

नाकुसुमनीसंपदाइं करी समसूतसगलानि जातजपनीच्छे शोभा तथा प्रकृष्टगंधिकरी उद्धृतजपनीप्रगठययो जेगंधतेणे अभिरामच्छेमेरु  
पर्वतनीपरेनगपर्वतमांहे वरप्रधानएतले विकुर्याच्छे विचित्रचनेकप्रकारनो वेसप्रद्विरेसष्टं गारएहवोथको देवता द्वीपससुद्रनाअ  
संखअसंख्यातापरिमाणानामर्धयच्छे जेहनाएतले असंख्याता द्वीपससुद्रना मध्यभागविचालियईने व्रजतो जावतोथको उद्योतकरतोथको  
प्रभाइं करी कांतिकरी विमलनिर्मली एहवीकांतिइं करी जीवलोकमनुथलोकप्रते उद्योतकरतोथको राजमृहनामापुरनगरवरप्रधान  
प्रते उद्योतकरतो अभयनामाकुमारतेहने पाससमीपेजतरेश्रावे दिव्यप्रधानरूपधारी एहवोदेवताच्छे तिवारपच्छीते देवता अंतरिकव

तीयोगसो याचनाविशेषः पुस्तकांतरेषु दृश्यते एतया उक्तं दृष्ट्या गत्यात्वरितया आकुलया न स्वाभाविकया आंतराकृततोर्ये षाभवत्यत  
आह च पलया कायतोपि चंडारौ द्रुया गत्युत्कर्षयोगेन सिंहया तद्द्वार्यस्यैव उद्धतया दर्पातिशयेन जयिन्या विपन्नजे त्वेन कथानि

इपरिहि ए एको ताव ए सो गसो अस्मो विगसो ता ए उक्लिङ्गा ए तु रिया ए च वला ए चंडा ए सी हा ए उद्धु या ए ज  
यणा ए जे या ए दिब्बा ए देव ग ई ए जेणा मे व जं बुद्धी वैरं भार हे वा से जेणा मे व द्वा हि ण डु भर हे रा य गि हे ण

आकाशने विशेषे र ह्योयको जं चोर ह्योयको दसद्वपंचवर्णे नीचुद्रुधं टिकालघुघरी तेणे सहित प्रवर प्रधान वस्त्रपहिस्था होइ एहवोयको  
ते देवता एकप्रथमपहिलो एगसो पाठजाणवो तथा अन्ववीजोगसो पाठवाचना विशेषवचनांतरकहे तेणी इउरकटी गतिइं करी लरि  
तऊतावलीये आकुलीये गतिइं करी स्वभावनी नही चपल गतिइं करी चंडरौद्र गतिइं करी सीं हा गतिइं करी सीं हनी परे फालनाख  
तो एहवी गतिइं उद्धत गतिइं करी अहंकारने अतिशये करी जयणाये करी क्वेकानि पुण गतिइं करी देवता संबंधिनी रूडी गति एह  
वी देवतानी गतिइं करी एवीजोगसो जाणवो जिहांके जंबूदीपनामाहीपने विषे भरतचेतने विषे जिहांके दक्षिणाद्धं भरतचेतने विषे राज



यरेपोसहसाले अभयकुमारैतेणामेवउवागच्छद्दं अंतलिखलपडिवस्ये दसद्ववसाद् सखिंखिणीयाद्  
 प्रवरंवत्थाद् परिहिये अभयंकुमारं एवंवयासी अहस्यं देवाणुपि एपुव्वभवसंगति ए सो हस्यकप्यवा सौदे  
 वेसहड्डी एजस्यं तुमंपोसहसाला ए अइमभत्तंसिगिरिहत्ताणं मसंमणसी करेभाणे चिट्टुइतएसणं देवाणु  
 प्पिएअहं स्यं इहं हव्वमागएसंदि स हणं देवाणुं प्पिया किंकरे मि किं दलया मि किं प्रत्थया मि किं वा ति हियद्

गृहनामानगरनेविषे पोसहशालानेविषे अभयकुमारजिहंछे तिहांजअवेअवीने आकाशनेविषे ऊं चोरह्योथको पांचवर्णनीघुष  
 रीसहितप्रवरप्रधानवज्जसूत्यवखलपडिख्योथको अभयकुमारप्रते एहवोकहतोऊओ हे देवानुप्रिय पूर्वसंगतिप्राखिला  
 भवनोमित्त सौधर्मदेवलीकनू वासीदेवता मोठीअद्विनोधणी जेकारणथकी तुं पोसहशालाने विषे तिणउपवासग्रहीने करीने मा  
 हरोमनसांहे ध्यानकरतोथको सुभप्रतेमनसांहिस्सरतोथकोरहे तेकारणथकी एपएहे देवानुप्रियहेकुमारऊं इहांउतावलोआव्यो  
 वुंसंदेशकहो आदेशयोहे देवानुप्रियहेमित्तऊं स्युं करतुमारोवांछ्योकार्यतेकहो हेमित्ततुभमणीस्युं देवुं चापुंवाअथवाहेमित्ततुभ

पुण्यादिव्यया देवगत्या अयं च द्वितीयो गमो जीवाभिगम इत्यथ सुसारेण लिखितः किं करोमि त्ति किमहं करोमि भवद्भिः प्रतं कायं किं वा  
दलया मिति तुभ्यं ददामि किं वा प्रयच्छामि भवत्वस्मतायान्यस्मै किं वा ते हृदये स्थितं मनो वांछितं वर्त्तत इति प्रश्नः सुनिव्वु यवी सत्ये त्ति सुष्ठु,

च्छियं तं एणंसे अभयं सुमारे तं पुव्वसंग इयं देवं अंतलिक्खप्रडिवस्सं पासइइ हइतुइपोसहं पारेइइ करय  
ल अंजलिं कइ, एवं वं यासी एवं खलु देवाणुप्पिया मम चुल्लमाउया ए धारणी ए देवी ए अयमेया खुवेअका  
ख दोहले पाउभूण धस्सा अणंताओ अस्सयाओ त हेव पुव्व गमणेणं जाव विणिज्जामि तस्सं तु मं देवाणु

संघाते मिलतो अने रोकोइते भणी पिण देउं वा अथ वा ते तव ताहरा हृदय हीयाने विषे हीयामां हि इच्छो मनो वांछित ते कइ हो तिवार पच्छी ते  
अभय कुमार ते पूर्वसंगती मित देवता प्रते आकाशने विषे उं चार ह्या प्रते देखे देखीने हृदया अर्थ पाम्यो संतो षपाम्यो थको पोस ह प्रते  
पारे पारीने करतल वेहाथ जोड़ी अंजली प्रते करीने एहवो कहतोइओ अभय कुमार ते देवता प्रते एणे प्रकारे खलु निश्चय हे देवा तु प्रिय  
हे पूर्वमित्त माहरी लहु माता अपर माताने धारणी राणीने एहवो एता हृदय रूप अकाल मेह नो दोहलो प्रगट थयो धन्या ते स्त्री पुत्र नी माता

पियाममचुल्लमाडयाए धारिणीएदेवीए अयमेयाख्वं अकालडोहलंविणेहि तएणंसेदेवेअभएणं  
 कुमारेणंएवंवुत्तेसमाणे हड्डुतुडुअभयंकुमारं एवंवयासी तुमंहेदेवाणुप्पिया सुणिबुयवीसत्तेअत्था  
 हिअहतहचुल्लमाडयाए धारिणीएदेवीए अयमेयाख्वंडोहलं विणेमीतिकडु, अभयस्सकुमारस्स  
 अंतियाओप्पिणिक्वमइत्ता उत्तरपुरच्छिमेणंबभारपव्वएवे उव्वियससुग्घाएणं समोहणइत्तंसं

तिमजपाळलिंगमपाठकह्योच्छे तेजिहंगली दोहलाप्रते पूर्णकरोजिहंगली पाळलोसर्वपाठकही संभलाव्यो तेकारणथकीतुं हेदेवा  
 बुप्रिवहेमिल्ल माहरीलघुमाताने धारणीनामाराणीने एपूर्वकहीसंभलाव्योतेहवोअकालमेहनोजेदोहलोतेप्रतेटाले संपूर्णकरोति  
 वारपळ्ळीतेदेवता अभयनामाकुमारि एहवुंकह्येथके हर्षसंतोषपास्योथको अभयकुमारप्रते एहवुंकहतोड्डओ तुं हेदेवाबुप्रिवहेकु  
 मारसुष्टु ह्णीडीपरेनिष्टत्तकरि स्वस्थआखावंतविश्वासवंतथकोरहिळुं ताहरीलघुमाताने धारिणीनामाराणीने एपूर्वकहीसंभलाव्यो  
 तेहवो अकालसेहनदोहलाप्रते टालीइमकहीने अभयकुमारनासमीपथकी तेदेवतानीसरेनीसरीने उत्तरअनेपूर्वदिशिनेमध्य

खेज्जाद्रजोयणाद्रदंडंशिसरद्र जात्रदोच्चंपिवेडव्वियससुग्याएणं समो हण्णद्रर खिग्घामेवगज्जद्रसवि  
 ज्जुयंसफुसितं पंचवख्खजेहणियाओवसोहिदं दिव्वंपाउससिरिंविडव्वद्ररत्ता जेणेवअभयकुमारि  
 तेणेवउवागच्छद्ररं अभयकुमारं एवंवयासी एवंखलुदेवाणुअिया अएतवपियइयाए सगज्जियसफु

भागेएतलेईशानकूणनेविषे वैभारपर्वतनेपाखेजई वैक्रियससुदघातकरे तेवरसातना पुज्जलवैक्रियत्तेपे प्रदेशप्रते नाहिरकाढीनेतथा  
 संख्याताजोयणलणी दंडनीपरि दंडसरिखो नीचोडंचो तिरिच्छीलानो शरीरने वाडल्य पणेजीवनाप्रदेशवैक्रियवरसातनापुज्जल  
 नासम्बहतेप्रते लेइनेवैक्रियवरसातनापुज्जलरूपग्रहे जांववलीवीजीवार वैक्रियससुदघातकरे वैक्रियपुज्जलप्रतेकरेकरीने चिप्रउताव  
 लोगाजसद्धित वीजलीसद्धित नाह्यारकणीयाना सुवारआवेएहवासद्धित पंचवर्णमेहनीषटा पंचवर्णआभापंचवणी वादलातेणे  
 करीशोभतोछे आकाशअयसेषयोभतोछे एहवोदिव्यप्रधानरूडीपाउसवर्षा ऋतुनीश्रीलक्ष्मीतेप्रते विकुर्वेविकुर्वीने जिहांअभयकुमा  
 रछेतिहांजआवे आवीने अभयकुमारप्रते इमकहतीऊचोतेदेवता इमखलुनिश्चे हे देवानुप्रिय हेकुमार मेताहरीप्रीतनेअर्थ

सियसविज्जुया दिव्वापाउससिरीविउव्विया तंविणेउणं देवाणुप्पिया तवचुल्लमाउयाधारणीदेवी  
 अयमेयारुवंअकालदोहलं तएणंसेअभयकुमारि तस्सदेवस्संपुब्बसंगइयस्स सोहम्मकप्पवासिस्सअंति  
 एएयमइं सोच्चाणिसम्म हट्टतुइंसयाओमवणाओपडिणिवस्समइं जेणामेवसेणिएराया तेणामेवउ  
 वागच्छइं करयलअंजलिंकइ, एवंवयासी एवंखलुताओममपुब्बसंगइं एणं सोहम्मकप्पयासिणादेवे

स्त्रे हनेन्वथे गाजशहितवरसातनाकणीयार बूंदर फुवारार वरसवासहितवीजलीसहित एहवीदिव्यप्रधान वर्षाकालनाच्छतुनीवर  
 सातनीलक्ष्मीविक्रुवींके तेमेहंविक्रुवींनि आव्योच्छूं तेकारणयकीपूर्वइच्छापूरीकरोहेदेवानुप्रय हेकुमार ताहरीलघु माताधारणी  
 राणीएहवोपूर्वोक्तरूप अकालमेहनाडोहलाप्रते टालो तिवारपंछीतेअभयकुमार तेदेवतापाच्छिलाभवनोमितपूर्वसंगति सौधर्मदेव  
 लोकनोवासीतेहना समीपयकीएपूर्वेत्तद्यर्थसंभलीनि हीयामांहिअवधारीनेहर्षवंत आश्चर्यवंत तुष्टवंतयको पोतानाभवनघरयकी  
 नीसरनीसरीने चिहांअणिकराजाके तिहांजअविद्यावीने करतलहायजोड़ी अंजलिप्रतेकरीने इमकहतोह्छो अमयकुमार इम

निर्दतः स्वस्थत्वाविश्वसोविश्वासवान् निरत्सुकोवायः सतथाताउत्तिहेतात् परिक्रम्ये हत्तिसन्नाहवतंक्रुत अंतोअंतेउरंसित्तिअंत

गंखिप्रामेवसगज्जिय सविज्जयपंचवसुमेहणिणा उवसोभिया दिव्वापाउससिरीविउल्विय्यांतंवि  
 शेऊणं समचुल्लमाउयाधारिणीदेवी अकालदोहलं तएणंसेसिणएराया अभयकुमारस्स अंतिएए  
 यमइं सोच्चारिणस्सहइउइ कोडुं विथयुरिसेसहावेइत्ता एवंवयासीखिप्पामेव भोदेवाणुप्पियाराय

पूर्वोक्तप्रकारे खलुनिश्चयहेतात् साहरापपाच्छिलाभवनो भित्ततेणे सौधर्मनासाप्रथमदेवलोकनो वासीएहवे देवताइं विप्रउतावली  
 गाजसहित वीजलीसहित यंचवर्णसेहनीघटा आकाशनेविषे जठी तेणेकरीशोभतीएहवी दिव्यप्रधानरूड़ी वर्षाकालनीलक्ष्मीविकु  
 वीछे तेकारणयकी तेपूरोकरोमाहरीलक्षुमाता धारणीदेवी अकालमेहनाडोहलाप्रते पूरोकरो तिवारपच्छीते अणिकराजाअभव  
 कुमारनासमीपथीदोहलानापूरणथावा लक्षणप्रयोजनप्रते सांभलीने हीयामांहिअवधारीने हर्मसंतोषपांस्योथको अणिकराजा  
 कौटं विक्रमादेयकारीसेवकपुरुषप्रते तेडोवितेडोवीने एहवोकहतोऊओ विप्रउतावलोहेदेवानुप्रिय अहोपुरुषोरजगटहनगरप्रते

गिर्हणयत्तं सिंघाडगतियच्चलक्कच्चच्चर आसित्तसित्तजावसुगंधवरंगंधियं गंधवट्टिभूवं करेहकार  
 वेहएयभाणत्तियंपच्चप्पिणह तएणंकोडुं विचयुरिसा जावपच्चप्पिणंति तएणंसेणिएराथादोच्चं पि  
 कोडुं विचयुरिसे सहावेइत्ता एवंवयासौ खिप्पासेवभोदेवाणुप्पिया हयगयरहजोहपवरकलियं

सिंघाडाफलने आकारेसार्गं त्रिणपंथनोसार्गं त्रिवटो चलक्कचीवटो चारपंथनोसार्गं चच्चरचाचरोषणामार्गं एकठामिले जिहांलोक  
 उत्तरतांम्बुकेछे एहवाथानके असित्तयोडूरं छंटोसित्तघणे रोसीचोछंटोसुगंधपांणीइं करी जावशब्दथी अनेराइशब्दकहिवा सुगं  
 धवरप्रधानगंधेसहितएहवीगंधनीवाती वाटिप्रसुखगंधते पुणठामरं जखेवो एहवानगरप्रते तुम्हे करोवीजापासेकरावो एमाहरीक  
 हणकार्यकरीने सुम्हने पाछींसूपो तिवारेतेकौटंबिक पुरुषआदेशकारीया पुरुषतिमजराजानी आजाकारीने पाछींसूपे तिवारपछी  
 अणिकराजा बीजीवारकौटंबिक पुरुषआदेशकारीया पुरुषप्रते तेडावेतेडावीने एहवोकहतो डच्चो चिप्रउतांवल्लोएवनिचयसहित  
 अहोदेवानुप्रियो हयघोडा? गजहाथीर रथसोटासंग्रामिकरं योधयुभटठ वरप्रधान सखद्धबद्धमृंगारौपरिकलितमनोहर च्यारप्र

चाउरंगिणीसखं सखाहेह सेयणयं चगंधहत्थिप्रिकप्पेहतेवितहेवजावपच्चप्पिणंति तएणंसेसेणिए  
 रायाजेणेवधारिणीदेवी तेणामेवउवागच्छं तिर्धारणीदेवी एवंवयासौ एवंखलुदेवाणुप्पिएसग  
 ज्जियाजावपाउससिरीपाउभमूया तखं देवाणुप्पिए एयंअकालदोहलंविणेहिं तएणंसाधारिणीदे  
 वीसेणिएणंरखाएवंवुत्तासमांणी हइवुडा जेणामेवमज्जणधरं तेणामेवउवागच्छइइ मज्जणधरंअणु

कारनीचिद्धं अंगेकरीपूरीसेना कटकप्रते सन्नाहसन्नइइकरो सेचनकनामागंधहाथीप्रते परिकल्पो सन्नाहवंतकरोसिणगारोति  
 वारपच्छीते आदेशकारीयापुरुषतिमजसर्वराजानी आन्नाकारीपाच्छी संपीजेतुमारी आन्नाकीधीच्छे तिवारपच्छीतेअंणिकराजा  
 जिहांधारिणीदेवीच्छे तिहांजआवेन्धावीने धारणीदेवी प्रते इमकहतोद्धओ इमपूर्वीक्तप्रकारे खलुनिच्चयहेदेवानुप्पियगाजसहित  
 बीजलीसहितएहवी जावशब्दथीबीजाइजोलकहिवा वर्षीकालनीअतुनीलक्ष्मीपुगटथईच्छे ते कारणयकी तुम्ह हेदेवानुप्पियेएअकाल  
 मेघनादोहला प्रतेपूरोकिइच्छापूरीकरि तिवारपच्छीते धारणीदेवी अंणिकराजाइं इमकहीयकी हर्षवंतयईसंतोषपामीथकी





रंतःपुरस्य महयाभडचडगरवंदपरिक्खत्ति महाभटानांयञ्चटकरप्रधानंविच्छेदिप्रधानं वृंदंतेनसंपरिचित्ता वैभारगिरेःकटकात्

बलिकम्मे जावसरीरेहत्थिगंधवरगए सकोरंटमल्लदामेणं छत्तेणंधरिज्जमाणेणं चउचामराहिं वी  
इज्जमाणेधारिणीदेवीपिट्ठओअणुगच्छइतएणंसाधारिणीदेवीसेणिएणंरखां हत्थिखंधवरगएणं पिट्ठ  
ओरसमणुगम्ममाणमगाहयगयरहजोहकलियाएचाउरंगिणीएसेणाएसद्धिं संपरिवुडामहयाभड

ढालतीथक्की चालीराणी तिवारपच्छीतेअणिकराजा ग्हायोस्नानकोधो कीधच्छेवलिकर्मघरना देवनोपूजवोजावशब्दथीतिलकसिण  
गाथोएहवोराजा सेचनकहाथी नाखांधाउपरिवर प्रधानभलीपरिचढोवैठोयको कोरंटदच्चनामाल्यफूलतेहनादाममावातेणेसद्धि  
तएहवेच्छत्रमसुक ऊपरिधयेथके च्यारचामरनेवालेकरी वीजतेयके चामरढालते थकेअणिकराजा धारणीदेवीने पूठोयकीचाले  
एतलेराणीने पाक्खलिवैठोयको चालेराजा तिवारपच्छीतेधारणीदेवी अणिकराजाइं सेचनकहाथी नाखांधाउपरिभलीपरि वैठो  
एहवोराजाइं पाक्खलिश्यको समनुगस्यमानमार्गनेविषे अनुगस्यमानपाक्खलिथकी केडाकेडीइं राजाचालतोक्खे एहवीधारणी

चडगरवंदपरिखित्ता सव्वड्डीएसब्बजुइए जावडुं दुभीणिवोसणाइरवेणं राथगिह्वेणयरेसिंघाड  
गतिगचउक्कचच्चर जावमहापहेसु णागरजणेणं अभिणंदिज्जमाणेज्जेणामेववेग्भारगिरिपव्वएतेणा  
मेवउवागच्छइइ२ वेभभारगिरिकडगतडंपायमूले आरामेसुयउज्जाणेसुय काणणेसुयवणेसुय वण

देवीछें हयघोडागजहाथीरथमोटा संग्रामिकयोधसुभटतेणेकलितसहित च्यारप्रकारनीचिज्जं अंगेपूरीसेनाकटकदल संघातेसस्यक्  
भलीपरेपरिवरीयकीराणी म्पोटाभटतेहनाजे चटकरप्रधानरंजननाकरणहारतेहना वृंदसम्बहतेणेपरिवरीयकी सगलीऋद्धिइ  
करीसगलीद्यु तिदीप्तिइकरीजावशब्दथी बीजाइवोलकहिवा भेरीवाजित आदिदेईडुं दुभिनानिर्घोषनानादनारवशब्दतेणेकरीसहि  
तराजटहनगरनेविषे संवाटकत्विखूणाथानक विकजेत्तिणरथ मिलेचोकजिहंरथनापंथच्यारघणारथनापंथमिले तेचच्चर यावत्त  
हापथराजमार्गनेविषे नगरसंबंधीयालोकतेणे अभिसम्बद्धिमंडीजयजीवनंददृष्टिपामे तुएहवीअसीसेकरीवधावतीयकी जिहंछेवै  
भारनामागिरिपर्वततिहांजआवेअवीने वैभारगिरिपर्वतनाकटकतेहनाएकदेशनातकडखापादकहतां तेतटरे दूकडानान्हापर्व

टानितदेकदेशतटानि पादाच्चतदासन्नलघुपर्वतास्त्रेषां यन्मूलंतलतथा आरामेषुच आरभंति येषुमाधवीलतागृहादिषु दम्पत्यानि ते आरामास्त्रेषु युष्मादिमहच्चसंकुलानि उत्सवादौ बल्लजनभोग्यानि उद्यानानि तेषुचतथासामान्यदृष्टन्द्युक्तानि नगरारान्नानि काननानि तेषुचनगरविप्रदंष्टानिच वनानितेषुच तथावनखण्डेषुचैकजातीयदृष्टसम्बन्धेषुचैकेषु गुच्छेषुचदन्ताकीप्रभृतिषु शुल्केषुच वंशजालीप्रभृतिषु जलाशुचसहकारलतादिषु वक्षीषुचनागवत्यादिषु कन्दराशुचगुहाशुदरीषुच नृगालादिउल्कीर्णभूमिषु

संडेसुयस्वसेसुय गुच्छेसुयगुम्भेसुय लयासुयवलीसुय कंदरासुयदरीसुय चुंटीसुयदहेसुयक

ततेहनामूलयूडानिविषे आमर्यादाकरीरमेच्छे जेमाधवीलतानाघरादिकनेविषे पुरषस्त्रीनाजोडलाक्रीडाकरे तेआरामकहीये फूलादिकच्छद्विंतदृक्करी संकीर्णमाकुलव्याकुलउल्लवमहोत्सवउत्तयेके सामान्यदृक्करीसहितनगरने ठूकाडाजवनतेकाननकहीयेतेहनेविषे नगरथकीवेगलाजिवनतेहनेविषे एकजातिनादृक्कनासम्बन्धतेवनखंडकहीये तेहनेविषे आंवादिकआदिदेईदृक्क गुच्छारींगणी नादृक्कगुल्मानमालादिक वंशजातिप्रमुखद्रुहडंढापांणीनाठामलतासहकारचंपादिकदृक्कनी वक्षीपेठादिकनीवेलि कंदरासीवाल

येषुपुत्रुंहीसुयन्ति अखाताल्योदकविदरिकासु यूथेषुच वानरादिसम्बन्धिषु पाठांतरेण ऋदेषुचकचेषुच गहनेषुचसरित्सु सङ्गमेषुच नदीमीलकेषु विदरेषुच जलस्थानविशेषेषु अच्छमाणीयन्ति तिष्ठन्तीप्रेचमाणीचपश्यन्ती दृश्यवस्तूनिमज्जन्तीस्नान्ती पक्षवाणियन्ति पक्षवान्किसलयानि माणेमाणीयन्ति स्नानयन्तीस्वर्गनुदारेण विणेमाणीयन्ति दोहलंविनयन्ती तंसिञ्चकालदोहलंसिविणीयंसिन्ति

त्येसुयणई सुयसंगमेसुय विद्यारसुय अत्यमाणीपेच्छमाणी पज्जमाणीय पत्ताणियपुपफाणिय फलाणियपक्षवाणिय गेरहमाणीसाणेमाणी अग्धाएमाणी परिभुं जेमाणीपरिभाएमाणीय वेभ्भा

सीहनाकीधाठाम दरीशुफारूपपाणीनाद्रह अणखय्यापाणीरहिवानाखाला द्रहमोटोटाद्रहनवाजनापांणीरहिवानाठाम काछो थोडापाणीरहिवानाठाम ब्रदीवहतीऊवेते संगमदोनदीएकठीमिले मां होमांहिसंगमऊवे विद्यारअनेरापाणीरहिवानाथानकवि विशेषतेहनेविषे तिहांवैसेजभीरहे तथादेखवायोग्यवस्तु जोतीयकीविचरे मज्जनस्नानअंशोलकरती पत्रपांनगरवेलिनापुष्य सुगंधादिका फलजातिसहकारादिकना पक्षवकिसलयनवाकूपलइत्यादिकप्रते धारणीराणीग्रहतीयकी फरिसकरतीयकी आत्राय

रगिरिप्रायमूले दोहलंविणेमाणी सव्वञ्चोसमंता आहिंडइ तएणंसाधारणीदेवी विणीयदोहला  
 संपुण्णदोहला संपत्तदोहला जायायाविहोत्था तएणंसाधारणीदेवी सियणगंधहत्थिदुह्णुटासमाणी  
 सेणिएणंहत्थिखंधवरगणणंपिड्डुओइ समणुगम्ममाणमग्गाहयगयजावरहेणंजेणेरायगिहेणयरेते

माननासिकाई गंधलेतीयकी तेफलादिकवसूभोगवतीयकी वलीतेनागरवेलफुल फलादिवस्तुअनेरानेविहचचीआपतीयकीवैभारणि  
 रिपर्वतनाएकप्रदेशनानाक्का पर्वतनामूलनेविवेचावी आकासमेहनाडोहलापूतेटालतीयकी तेपर्वतनेचउफेरसगलेभमेपरिभ्रमण  
 करे इमकरतीयकी सेवनादोहलाप्रते पूरणकरे तिवारपच्छीते धारणीदेवीविनीतपूरणपरिपूरणदोहदअकालमेहनेमनोरथ पूरणकीधौ  
 छती संपूरणपरिपूरणसपलादोहलानामनोरथएहवीछती संपूरणपास्याछे सगलादोहलामनोरथ एतलेसगलापरिपूरणअकालमेघना  
 मनोरथपरिपूरणकीघाएहवी तिवारपच्छीते धारिणीदेवी सेचनकनामागंधहाथी ऊपरचढीयकी तिमज अशिकराजाइहाथीना  
 खांधाऊपरवरप्रधानगतप्राप्तरेहेचढे एहवेराजाइंपूठिइ संसम्यक्भलीपरअनुगम्यमानमार्गपाछलि आवेत्ते राजाराणीआगलि

शेवउवागच्छद्द२ रायगिहंणथरंमउभंमउभेणं जेणामेवसएभवणे तेणामेवउवागच्छद्द विउलाइ  
 भोगभोगाहिंजाविहरइतएणंसेअभयकुमारजेणेवपोसहसालाए तेणामेवउवागच्छद्दत्ता पुब्बभव  
 संगइयंदेवंसकारेइ सस्मारेइ२ पडिविसज्जेइ२ तएणंसेदेवेसगज्जियंपंचवस्समेहोवसोहियंदिब्बंपाउस

थकीचालेतिवारपच्छीराजा घोडाहाथीयोधसुभटपालीयारारथ संग्रामिकएसेनासहितपाच्छीयलीजिहाराजगृहनगरछे तिहांआवे  
 आवीने राजगृहनगरप्रते मांहिथईने जिहांस्वकीयपोतानो भवनछे तिहांजआवेआवीने विपुलविस्तीर्णमनुष्यसंबंधीयापंचेद्रिय  
 नाभोगभोगवतीश्रेणिकराजइ संघातेविचरेछे तिवारपच्छीते अभयकुमारपोतानीमातानामनोरथपूराकरी जिहांपोसहकरिवानी  
 शालाछे तिहांआवेआवीने पूर्वसंगतिदेवत्वाप्रते सत्कारे जिमकोईवस्त्रादिकआपे सन्मानतेवज्जमानदेवेजे तुमेपरममित्त्वोइम  
 संतोषीने माहरोसर्वकार्यकीधुं प्रतिविसर्जेदेवलोकजाइवाभणी आजादीये तिवारपच्छीते देवतागाजवीजसहित पंचवर्णनीमेषनी  
 शोभाइंसहितदिव्यप्रधानदेवतानी विकुर्वीवरसातनी लक्ष्मीप्रते प्रतिसाहरे परिहरेपरिहरीने जेदिसथी प्रगटथयो ऊं तोआव्यो

अकालमेघदोहलेविनीतिसति सम्मानितदोहदा पूर्णदोहदेल्यर्थः जवचिद्वृत्ति यतंजया यथागर्भवाधानभवति तथातिष्ठति जह्वं

सिरीषडिसाहरइ जामेवदिसंपाउभूए तामेवदिसिंप्रडिगए तएणंसाधारिणीदेवी तंसिअकाल  
दोहलंसिविणियंसिसम्भाणियदोहला तस्सगभस्सअणुकांपणइए जयंचिद्वइ जयंआरुइ जयंसुवइआ  
हारंपियणं आहारिसाणीणाइतित्तं णाइकडुयं णाइकसायंणाइ अबिलंणाइमज्जरंजंतस्सगभभस्स

ऊं तोतिणीजद्विइंगयोपाछेवलीतेदेवता तिवारपक्कीते धारिणीदेवी तेअकालमेघनोदोहलोविनीतटाल्येथके सम्मानितपरि  
पूर्णमनोरथपूराकीधा एहवीयकीराणी तेगर्भनी अनुकंपाने अर्थराखवानेअर्थे जतनाइ जिमगर्भने अवाधाअसुखनहोइतिमज्जमी  
रहेजतनेवैसे जतनाइनोदकरे आहारप्रते आहारीआहारकरतीथकी अतिघणोतीखोनखाइ नौंवादिक अतिघणुं कडूआआहा  
रनखाइं घणुकसायलाआहारनजीमेतिफलादिक अतिघणुं आं विलखाटोनखाइतेधारिणीरांणीजे तेगर्भनेहितकारीआउखाबुद्धि  
नोद्विकारिमितप्रमाणोपेत अधिकोनहौंओछोनहौं निरोगीगर्भनोपुष्टिनोकरणहारजिणेदेसेजे आहारसुखकारीइमकालेपिण



स्थानेन आसद्गति आसोच्चाश्रयतिवा आसनं स्वपितिचेति हितंमेधाधुराद्विद्विकारणत्वात् मितमिन्द्रियाधुशूलत्वात् पथ्यमरोग  
कारणत्वात् नाद्द्विचिंतंति अतीवचिन्तायस्त्रिं सदतीवचिन्तं नानिचिन्तंयथाभवतीत्ये वंगभं परिवहतीतिसम्बन्धः नातिशोकं नातिदैन्यं  
नातिमोहं नातिकामासक्ति नातिभयं एतदेवसंग्रहवचनेनाच्च व्यपगतेत्यादितत्त्वभयंभीतिमात्रं प्ररिक्तासोऽकस्मात् ऋतुषयथायथंभ

द्वियंमियंपत्थं तंदेसेयकालेय आहारं आहारेमाणी णाद्द्विचिंतं णाद्दसोयंणाद्दलोहं णाद्दभयंणाद्द  
परिक्तासंवगयचिंतासोय सोहभयपरिक्तासा उदुभयमाणसुहेहिं भोयणच्छायणगंधमञ्जुखंकार

आहारप्रते आहारकरतीर्थकी विचरे अतिषण्चिंतानकरे अतिषणुसोकनकरे वाबहानावियोगते शोक अतिषणोसोहनकरे  
सूच्छीतिमोहकहीये अतिषणुभयनकरे सातप्रकारनाभयतेनकरे अतिषणुअकस्मात् प्ररिक्तासनपंमे व्यपगतगयाच्छे चिंताशोकमोह  
सूच्छीभयमात्रपरिक्तास अकस्मात् तासनोपाविवोएसर्व गयाच्छेजेराणीथकी सगलीऋतुनेविषे भयमाणसेव्याथकीं जेजेआहारजेजे  
ऋतुनेविषे कस्त्रायका सुखभणी गुणभणी होद्दतेलीये एहवासुखकारीया आहारतेणेकरी वलीविशेषेगर्भनेविषे हितकारी जिम

हारिहं तंगभं सुहं सुहेणंपरिवहद्र तएणंसाधारिणीदेवीणवरहं मासांखंबुजपडिपुसाणं अहुइमा  
 खराइं दियणंविइकं ताणंअइरत्तकालसमयंसि सुकुमालपाणिप्रायंजावसब्बंगसुं दरंगंदारयंपया  
 योतएणंताओ अंगंपडियारियाओ धारिणीदेवीणवरहं मासांखंबुजदारंगंपयायापासंतिंसिग्घं

भोजनतिमवस्तुपिणुजअंगंधसुगंधचूयादिक माल्यफूलनीमालाअलंकार आभरणहारअठारसरदिकतेसर्वजजयजेजे ऋतुनेविषे  
 जेजोग्यइइंते अंगीकारकरे तथातेगर्भप्रते तथाआपने जिमअत्राघापीडानइवे तेहवीपरि धारणीराणी गर्भप्रतेघारे तिवारपच्छी  
 तेधारिणीदेवी नवमास वडुप्रतिपूण्यं रा नवमास ऊपरिसाढासातअहोरात्रि एतलेनवमास उपरिसाढासातदिवस व्यतिक्रमे  
 थके आधीरात्रिनासमयनेविषे सुकमाल सुंहालाछे. सुकोमलपाणिहाथपगजेहना एहवोजावथब्दधी अनैराइकहिवा लक्षण  
 व्यंजनयुक्तसंवांगसुं दरमनोरस अंगशरीरछे जेहनोएहवो दारकपुत्रजण्यो धारिणीराणीइं तिवारपच्छीते शरीरनीप्रतिचारकाए  
 दासीएधारणीराणीप्रते धारणीदेवीने नवमासजावथब्दधी बीजाइशब्दकहिवा दारकपुत्रजया प्रतेदेखेदेखीने तेदासीयां श्रीप्र

वरियंचवलंचेद्रयं जैशेवसेणिएराया तेणेवउवागच्छइइ२ सेणियंजएणंविजएणं बद्धावेइइ२ करयलप  
 रिगंहियंसिरसावत्तं मत्थएअंजलिकट्टु, एवंवयासी एवंखलुदेवाणुप्पिया धारिणीदेवीणवरुहं  
 मासाणंजावदारंगंपयाया तंतुह्हेदेवाणुप्पियाणंपियंणिवेदेपियंतेभवओ तएणंसिसेणिएरायातासिं

हर्षवंतेकरीउतावली त्वरितमने करीषणुउतावली कायाथकीषणुचपलीएहवी जिहंअणिकराजाहे तिहांजअविआवीने अणिक  
 प्रते जयविजयएहवाशब्दप्रयुंजी आसीसदेइं वधावे वधावीने करतलहायजोडीमायानेविषे आवर्तकरीएहवाहायजोडीमायाने  
 विषेअंजलीप्रते करीने एहवोकहतीऊई एणेप्रकारेखलुनिश्चयेदेवानुप्रिय हेराजन् धारिणीदेवी नवमासऊपरिसाडेसातदिवस  
 व्यतिक्रमेथके जावशब्दथीबीजाइ शब्दकहिवा पुतजनस्योहे तेकारणथकी अन्ह देवानुप्रियने देवतानेविषेअनुप्रियवस्त्रभक्केरूपजेहनो  
 एहवानेप्रियवस्त्रभपुतलक्षणप्रते कऊंकुं हेराजन्तुमनेप्रियवस्त्रभभवतुऊवोथाओ तिवारपच्छी तेअणिकराजा तेअंगशरीरनीप्रति  
 चारिकाअर्थंतरवर्तिनी दासीयानासमीपथकी एहपूर्वोक्तअर्थवात्ती प्रते सांभलीनेहीयानेविषे अवधारीने हर्षवंतआअर्थवंततुष्ट

ज्यमानाः सुखायते ऋतुभज्यमानसुखास्तैः मत्स्यधोवाहृत्ति धीतमस्तकाःकरोति अपनीतदासत्वात्इत्यर्थः पौवाद्युपुलिकां पुत्रपौ  
 त्वादियोग्यामित्यर्थः वृत्तिंजीविकांकल्पयतीति रायगिहंणयरंआसियइहयावत्कारणादेवंइत्स्यं आसियसंमज्जिओवलित्तं आसित्तमुद

अं गडियारियाणंअंति ए एयमइं सोच्चारिणिसम्महइतुइ ताओअं गपडियारियाओ मज्जरेहिंवयणेहिं  
 विपुलेयपुपफ्रगंधमह्लांकारेणं सक्कारेइमस्माणेइइ मत्स्यधोयाओकारेइ पुत्ताणुपुत्तियंवित्तिकप्प  
 इपडिविमज्जेइ तएणंसेणिएराया कोडुं वियपुरिसेसहावेइ एवंवयासी खिप्पामेयभो देवाणुप्पिया

संतोषपांस्योतेशरीरनी प्रतिचारकामाहिला महोलमांहिली दासीयांप्रते मधुरमीठे वचनेकरी विपुलविस्तीर्णघणांनानाफूल  
 गंधमाल्यमाला गुं थ्यांमोकलाफूलअलंकारतेणेकरी सत्कारे सन्मानवज्जमाननो देवोजेतुमेभले पधास्याइत्यादिवज्जमानदेइअं  
 णिकराजातेदासीयांप्रते मस्तकधौतकरे पुत्रनापुत्रलगीघणी पेढीलगी पज्जचे पुत्रपौवादिद्योग्यएहवी वृत्तिआजीविकाप्रतेकल्पे  
 एतावता दासीनाकर्मप्रतेटालीनिविसर्जे तिवारपच्छीते अणिकराजा कौटं विकारुषअादेशकारी सेवकपुरुषप्रते तेडावेतेडावीनेएह

कच्छटेन संमार्ज्जितं कचवरयोधनेन उपलिप्तं गोमयादिनाकेषु सिंघाडगतिगचउक्त्र चच्चरचउम्भुहमहापहेसु तथासित्तसुद्वय  
संमट्टरत्तरावणवीहियं सिक्तानिजलेनातएव शुचीनिपवित्राणि संसृष्टानि कचवरापनयनेन रथान्तराणि आपणवीथयश्चहृष्टमा  
र्गायस्मिन् ततथा मंचाद्रमंचकलियं मंचामालकाः प्रेक्षणकद्रष्टृजनोपवेशनमिमित्तं अतिमंचास्त्रेषामप्युपरियेतैः कलितंणाणावि  
हरागभूसियक्कयपडागमंडियं नानाविधरागैः कुसुम्भादिभिर्भूषिताः येध्वजाःसिंहगरुडादिरूपकोपलक्षितवृहत्पटरूपाः पताकाश्च  
तदितरास्त्राभिर्मण्डितं लाउक्त्रोद्वयमहियं लाउक्त्रयंछगणादिना भूमौलेपनं उक्त्रोद्वयंसेटिकादिना कुद्यादिषु धवलनंताभ्यां महितंपूजि

राथगिहंणयरं आसित्तजावपरिगीयंकरेहर् चारगसोहणंकरेहर् माणुम्माणवड्डुणंकरेहर् एयमा

वोकहतोऊओ द्विप्रजतावलो एवनिश्चयेन हेदेवानुप्रियतुम्हे राजगृहनगरप्रते आसित्तभुंद्दुंढावोसुगंधपाणीये करीकचराकढा  
वोपूजावो लीपावो कुंकमनाहाथांठांमि २ दिवरावोगीतगानधजा करावोकरावीने पुत्रनोजन्ममहोच्छ्वकरो चारकशोधनबंधी  
जनमुंकावो बंधच्छोडावो बंधच्छोडावीने मानउन्मानप्रतेवधारोमानते सेरसेइच्चादि उन्मानते तोलावधारंते करोकरीने एमाहरी

तंते एवामहितं पूजनं यत्नतत्तथा गोसीसरसरत्तचंदणदहरदिष् पंचगुलितलं गोशीर्षस्यचंदनविशेषस्य सरसस्यच रक्तचन्दनस्य  
 चन्दनविशेषस्यैव दहरेणचपेटारूपेण दत्तान्यस्ताः पञ्चाङ्गलयसलाहसका यस्मिन् कुड्यादिषु तत्तथा उवचिचयचंदणकलसं उपचि  
 ताउपनिहिताः गृहान्तः कृतचतुष्केषु चन्दनकलसामङ्गल्यघटायत्न तत्तथा चंदणघटसुकयतीरणपडिदुवारदेसभागं चन्दनघटाः  
 सुष्ठुकतासोरणानिच प्रतिद्वारं द्वारस्यदेशभागेषु यत्नतत्तथा आसत्तोसत्तविपुलवट्टवघारियमल्लदामकलावं आसक्तोभूमिलग्नःउ  
 त्सक्तञ्चउपरिलग्नोविपुलोत्तौ वघारिउत्ति प्रलंबोमाल्यदान्नां पुष्पमालानांकलापः समूहोयत्नतत्तथा पंचवससरससुरभिसुकुपुप्फ  
 पुंजीवधारकलित्रं पंचवर्णाः सरसाः सुरभयोथेसुक्ता कारप्रेरिताः पुष्पपुञ्जासौधेउपचारः पूजाभूमेस्तेनकलितं कालागुरुपवरकुंडु  
 कतुरकधूवड्कं तमघसंतगंधद्दुयाभिआमं कुंडुर्कं चीडा तुरकं सिलहकं सुगंधवरगंधिचं गंधवट्टिभूयं नडनदृगजल्लमल्लसुठियवेलं  
 वगकहकहगपवगलासगञ्जाइक्खगलंखमंखल्लणइल्लतुं वन्नीणिय अणेगतालाथरपरिगीयं तलनटाः नाटकानांनाटाटयितारः नत्तकायेव  
 त्यन्तिअंकेल्लइत्ये के जल्लावरत्ताः खेलकाः राज्ञः सौलपाठकाइत्यन्ये मल्लः प्रतीताः सौष्टिकामल्लाएवथेसुष्टिभिः प्रहरन्तिविडम्बकाः  
 विद्रूपकाः कथाकथकाः प्रतीताः सवकाः येउत्सवन्ते नद्यादिकंवातरंति लासकाथेरासकान् गाथंतिजयशब्दप्रथोक्तारोवाभांडाइत्यर्थः

आख्याकाः येशुभाशुभमाख्याति लंखावंशखेलकाः संखाश्चित्तफलकहस्ताभिच्चाटाः तूणइह्साः तूणइह्साः तूणइह्साः तूणइह्साः तूणइह्साः  
 वीणिगाः वीणावादकाः अनेकेयेतालाचराः तालादानिनन प्रेक्षाकारिणः तेषांपरिसमन्ताङ्गीतं ध्वनितंयत्तत्तथा कुरुतस्वयं  
 कारयतान्येः तथाकारागारशोधनं कुरुतद्यत्वाच मानोन्मानवद्दंनंकुरुत तत्वमानंधान्यमानं सेतिकादि उन्मानंतुलामानंकर्षादिकं  
 श्रेण्यःकुम्भकारादिजातयःप्रश्रेण्यः तत्प्रभेदरूपाः उस्तु कमित्यादि उच्छूल्कामुन्मुक्तशुल्कास्थितिपतितां कुरुतेतिसम्बन्धःशुल्कंतुवि

एत्तियंपच्चप्यिणह जावपच्चप्यिणंति तएणंसेणिएराथा अडारससेणिएप्पसेणिएओसहावेइए एवंवया  
 सौगच्छहणंतुभेदेवाणुप्यिया रायगिहेणयरे अभिंतरवाहिए उस्तुक्कंउक्करं अभडप्पवेसं अडं

आज्ञाकारीने उतावलीपाष्ठीसुंपो तेपूर्वोक्तराजानी आज्ञातेसेवकेकारीने पाष्ठी सूपी तिवारपष्ठीतेअणिकराजा अडारअणिकुंभका  
 रादिजातिप्रश्रेणितेप्रतेबोलावे बोलावीनेइमकहतो ऊओजाओ तुम्हे हे देवातुप्रिया राजगृह्ननगरनेविषे अशंतरनगरमांहिअने  
 नगरनेवाहिए दसेदिवसनाममांडीवीइंदाणनलीजंते करोवलीमूक्वोक्ते करगाइप्रमुखनोवरसरप्रते राजदेयद्रव्यतेकोईलीजेनही

क्रेतव्यभांडं प्रतिराजदेयद्रव्यं उल्करांउन्मुक्तकरां करस्तुगवादीन् प्रतिप्रतिवर्षं राजदेयद्रव्यं अविद्यमानो भगनां राजपुरुषाणां प्राज्ञादायिनां प्रवेशः कुटुंबिसंदिरेषु यस्यांसातथा तामभटप्रवेशां दण्डेननिर्दत्तं दण्डिसं कुदंडेन निर्दत्तं कुदंडिसं राजद्रव्यं तन्नास्ति यस्यांसातथा तामदण्डिमकुदंडिसां तत्रदंडोपराधावुसारेण राजग्राह्यद्रव्यं कुदण्डस्तुकारणिकानां प्रज्ञाद्यपराधान्महत्त्ययपराधिनोपराधित्वं राजग्राह्यद्रव्यं अविद्यमानं धरिसंतिच्छणद्रव्यं यस्यांसातथातां अविद्यमानोधारणीयोधमर्णोयस्यां सातथातां अणुदु

डिसंकुडंडिसं अधरिभंअधारणिज्जं अणुदु, यमुदं ग अवायमस्तदासंगणियावरणाडिद्वज्जकालियंअणे

तिमकरो सुभटप्रवेशराजानामभटसुभटसेवककोई कुटुंबीनाघरतेविषे ज्ञहसंतापेनहीं तिमकरो अपराधनेअनुसारेकरीजेराजाद्रव्यलेइ तेदंडकारणे प्रजादिकनावणा अपराधयकी परमघणो अपराधनऊं तेछतेतेराजायोडोद्रव्यलेइषणे अपराधियोडोदंडतेकुदंडिमएवेऊं नहीं तेअदंडिमकुदंडिममतकोइकरो अधरिसमाहो साहेच्छणनोद्रव्यलेको नथीजेनगरीनेविषे तेकरो नथीविद्यमान साहोसाहिच्छणनिमित्तकोईधरणनोदेईवे सारेएतलेच्छणनसंगेएहवीनगरीप्रतेकरोअनुदुत आपोपणाशरीरसारुवजाडिवाभणी





दशद्विकसहिमानमित्यर्थः कुरुतकारयतचसएहिंति शतपरिमाणैः द्वाएहिंतिदानैः वाचनांतरे शतिकाश्चेत्यादियोगात् देवपूजाः  
दायान्दानानिभागान् लब्धद्रव्यविभागानिति प्रथमेदिवसेजातकर्मप्रसवकर्मनालच्छेदननिखननादिकं द्वितीयेदिनेजागरिकांरालि

णत्तियंपञ्चप्पिणहं तेविकरेइ तहेवपञ्चप्पिणइ तएणसेसेणिएराया वाहिरियाउवडाणसालाएसौ  
हासणवरगए पुरत्थांभिसुहेसस्त्रिसस्ये सइएहियसाहस्सिएहियसयसाहस्सिएहियजाएहिंदाएहिंभा  
एहिंदलयमाणेइ पडिच्छमाणेइ एवंचणंविहरइतएणंतस्सअस्मापिवरोपटमेदिवसेजातकम्मंकरेइवि

पोतेआदेशकारीपुरुषतिमजकरेकरीने तिमजपाळीराजानी आञ्जासंपे तिवारपळी तेअणिकराजा वाहिरलीउपस्थानशालावैसवा  
नीशालानेविषे सींहासननेविषे वरप्रधानरत्थीयको पूर्वदिशिनिसनसुख भलीपरैवैठोयंको एकशतप्रमाणप्रथमबीजीसहस्रप्रमाणली  
जीलाखप्रमाणया गन्हतादेवपूजानिमित्तये आपेदाएहिंदानहीये वलीएतलेईजद्रव्यभागक० जपनाद्रव्यनो विभागवांठोजेद्रव्यज  
पजस्ये तेहंनोशतमोभागसहस्रमोभागलाखमोभागखरचस्ये एहवोमान्याद्रव्यनोविभागआपणेदेतोदेवरातो अथवाथालभरीरसघ

जागरणं तृतीयेदिवसे चन्द्रसूर्यदर्शनमुखविविशेषाएवद्विति पाठान्तरेतु प्रथमदिवसे स्थितिपतितां तृतीयेचन्द्रसूर्यदर्शनिकां षष्ठे जागरिकांनिव्वत्ते असुइजायकस्मकरणेति निव्वत्ते असुचीनां जातकर्मणांकरणे निव्वत्ते सुइजायकस्मकरणेति पाठान्तरेतव

ईयदिवसेजागरियंकरेइतइयदिवसेचंद्रसूर्यदर्शनसंख्येकरेइएवामेवनिव्वत्ते असुइजातकस्मकरणेसंपत्ते  
बारसाहदिवसेविपुलंअसंख्येकरेइमिच्छणाइणियगसंख्येकरेसंबंधिपरिजण

वस्त्रीअनेकद्रव्यलेइ आवेच्छेतेद्रव्यप्रते आपणपेपाच्छेदेतोच्छे तयावली सोसहस्रलाखप्रमाणलाभधनप्राप्ततेप्रतेलेतो एणेप्रकारेकर तोयकोविचरे तिवारपच्छीते कुंमरनापुलनीमातापिता प्रथमपहिला जन्मना दिवसने विषेजातकर्मप्रसवनाकर्मनालच्छेदी धरती माहेखिणीनिषाले जन्मपास्याथकी बीजादिवसनेविषे राविजागरणतेकरे तीचादिवसने विषे चंद्रमासूर्यनोदर्शन देखवानिमित्त उत्पवविशेषकरे हिवडांपिणमातापुलने आरीसोदेखाडेच्छे एणेप्रकारे अनुकमे निव्वत्ति अतिकम्ये थकेइग्यारमादिवसनेविषे अशु चिअपवित्त वस्तुजातकर्मनालच्छेदादिककरेथके एतलेअपवित्तवस्तुदूरकरे संप्राप्तआव्ये थके बारमादिवसनेविषे विपुलधणो अशन?

निर्दत्ते कृते शुचीनांजातकर्मणां कारणेवारसाहदिवसेत्ति द्वादशाख्ये दिवसेद्वत्यर्थः अथवाद्वादशानामङ्गां समाहारोद्वादशाहंतस्य दिवसोथेन द्वादशाहः पर्यते तततथामित्राणि सुहृदःज्ञातयोमातापितृभ्रात्रादायः निजकाःस्वकीयाःपुत्रादयः स्वजनाःपितृव्यादयः सम्बन्धिनः श्वशुरपुत्रश्वशुरादयः परिजनो दासीदासादिः वलंचसैन्यंच गणनायकादयस्तु प्रागभिमहतिमहालएत्ति अतिमहतिञ्चा

बलंचवहवैगणायंगजावआमंतेत्तित ओपच्छाण्हायाकथवलिकम्माकथकोलयजावसव्वालंकारवि  
भूसिया महइमहालयंसि भोयणमंडवंसिविपुलं असणंपाणंखाइमंसंसाइमंसंमित्तणाइगणायगजाव

पांनर खादिम३ खादिम४ नीपजावेनीपजावीने मिलञ्जातमातपिता भाईसगानिजकथागणपुत्रादिक स्वजनपीतरीयाकाकादिक संबंधिपोताना पुत्रनासुसरादिपरिजनदासदासीप्रमुखवलसैन्यनायकचपुनः इमवज्जघणागणनायकस्वामी जावशब्दथी वीजाईवो लकहिवाते आमंतेनिज्जंतरे तिवारपच्छे कुमरनामातापितास्सनकरे पच्छेवलिकर्मघरनादेवनी पूजाकरे पच्छेकरेकौतुकमघीतिलक चौथानीटीकीदीवे प्रायच्छित्ते करी विघ्ननिवारवाभणी मंगलीकसरसवदहीप्रमुखकरिविभूषित सभायोग्यमंगलीकखंशरीरेपहि

स्वादयन्तावास्वादनीयं परिभाजयन्तावन्येभ्यो यच्छन्तौ मातापितरावितिप्रक्रमः जिमियन्ति जिमितोभुक्तवन्तौ भक्तुत्तरन्ति भुक्तोत्तरं

सद्धिं आसाएमाणा विसाएमाणा परिभाएमाणापरिभुं जेमाणाएवंचणंविहरद् जिमियभुत्तुतरा  
 गयवियणंसमाणा आयंताचोक्त्वापरमंसुद्भुया तंमित्तणाद्दण्डियगसयण संबंधिगणायगविपुले

रेवलीअल्पथोडाबहुसूत्यहलवा एहवाआभरणपहारे सर्वशरीरअलंकरे एहवाशोभायमानयका अतिघणोभोजनजीमवानामांड  
 वानेविषे भोजनवेलाये जीमवाभणी सुखासने वैसेविपुलघणो अशन१ पांनर खादिम३ स्वादिम४ मिलज्ञाति गणनायकजेपूर्वव  
 खाण्यतेमितादिकसघाते आंदिषत्थोडोखाद्दुंघणोनाखवोखेलडीप्रमुख विशेषेकरी स्वादवंतघणुखावो थोडोनांखिवोखारकखजूर  
 नीपरे जाणवापरिसामस्यपणेकरी सर्वखाडूवोकाडनायवोनहीं तेमोदकादिकतेराजाणींतवोलादिकमांहोमाहिअपेसगासंबंधी  
 गुरसाहमीभणीमितादिकनी भगतकरी जेजीमीजेतेभोजन एणप्रकारे विचरेक्के जीस्यंभक्तौतरीराजाराणी भोजनकीघापक्केआ  
 गलोप्रासवसींहासने आवीनेवैठाएहवारजाणीवैठाथका निर्मलपाणीनेयोगे करीचलूकीघाडूमकरीपरमअत्यंतघणुशुचिभूत

भुक्तोत्तरकावं आगयति आगतौ उपविशनस्थाने इति गम्यते संभाषेति सन्तौ किंभूतौ भूत्वेत्याह आचान्तौ सुद्धोदकयोगेन चोत्तौ

शंघुपुफ्रवत्थगंधमल्लालंकारिणं सक्कारे इ सस्मारिण इ २ एवं वयासो जरुहाणं अरुहं इ मस्सदारगस्स गभ्भत्थस्स चैव  
समाणस्स अकालमेहे सुडो हलेपाउभमू एतं डोउणं अरुहं दार एमे हेणामेणंतस्स दारगस्स अस्सापियरो अय  
मेयाह्वंगोस्सं गुण्णिणप्पस्सं णामधेज्जंकरे इ तएणं सेमे हकुमारे पंचधाई परिग्गहि ए तंजहाखीरधाइ

पवितयवारजाराणी पछे तेमित्तज्ञातिज्जातिनिजकस्स जनसंबंधी गणनायकते अते विपुलघणाफूलवस्त्रपट्टकुलादिक चोअअबीरादि  
कमाल्यमाला अलंकारआभरणादिकनवग्रहं तेषे करीपहि रावणी करे करीने सन्मानवज्जमाननो देवो इ मसन्मानीने एहवोकहिता  
इअथो जिण्णकारणयत्ती एहवालकपुतगर्भमाहेचेवनिच्च रक्षीयको एहवाने अकालमेहनो अकालवरसातनो दोहलो प्रगटथयो ऊतो  
तेकारणभणीहो ज्योअमारि दारकवालकते मेघकुमार एहवो नामहोज्यो तेवालकनामाता पिता एहवोजेहनो स्वरूपकहीयेते हवो  
गुण्णकरीने आब्यो गुण्णकरीनीपनो एहवो नामधेयनामकरे मेघकुमार तिवारपच्छी ते मेघकुमार पंचधाये परिग्गच्छीथको वधेव छिपामे

लेपसिक्तापनयेन अतएवपरमशुचिभूताविति अयमेयाखूवन्ति इदमेतद्रूपं गौणंकोथौगुणनिष्यन्त्वं नामधेयं प्रशस्तं नामसेषइतिचौ  
 रधात्यास्तन्यदायिन्या मंडनधात्यामंडिकया मज्जनधात्यास्त्रापिकया क्रीडाकारिण्या अंकधात्या उत्सङ्गस्यापिकया  
 कुञ्जिकाभिर्वक्रजंघाभिः चिलातीभिरनार्धदेशेत्पन्नाभिर्वागनाभिः क्रस्वशरीराभिर्वटभाभिर्मट्टहकोष्ठाभिर्बर्बरीभिः बर्बरदेशसंभवाभि


एमंडणधार्ई एमज्जणधार्ई एकौलावणधार्ई अंकधार्ई एअस्त्राहियवज्जहिं खुज्जाहिंचिलाइयाहिंवाम  
 णिवडभिवव्वरिबकुसिजोणियाहिपल्लुवियईसिणियघाण्णिलासियउसियउसियदमिलिसींहलिअर

तेपांचिधायनानामकहेच्छे खीरस्तन्यपानद्रूधधवरावेते धाचि१ मंडनअलंकारमृंगारकरावेतेधाचिरमज्जनस्नानकरावेतेधाचि३क्रीडा  
 रामतिखेलनीकरावणहारीतेधाचि४ अंकउत्वं गखोलैवसारैहिंडोले तेधाचि५ तथाअनेरी वीजीबज्जघणीइककामकरीइक्के कूवडो  
 शरीरजेहनोक्के चिलातिदेशनीऊपनीचेटीदासीतेणेकरी वामणोदेहक्के तथाउंचोनीचो हृदयकोठोक्के तेणेसहितवडभीवडभवांकी  
 केनीचलीकायापगजेहना वव्वरीवव्वरनामअनार्थदेशनी ऊपनीबकुसनामदेशनीऊपनीजोणियदेशनीतेणेसहितवस्रवियनामअना

वृक्षसिकाभिः योनिकाभिः पशुविकाभिः ईसनकाभिः शार्ङ्गकानिकाभिः लासिकाभिः लकुसिकाभिः द्रविडीभिः सिंहलीभिः आरवीभिः पुलिंदीभिः पक्षणीभिः वहलीभिः सुबुं डाभिः शवरीभिः पारशीभिर्नानादेशीभिर्बहुविधाअनार्यप्रायदेशोत्पन्नाभिरत्यर्थः विदेशः स्वकीयदेशापेक्षया राजगृह्ननगरदेशस्तस्य परिमंडिकाभिः द्रुंगितेननयनादिचेष्टाविशेषेणचिंतितं च परेणहृदि स्थापितंप्राथितं

वौशुलिंदीपक्षणि कहलिसुर् डिस्वरि प्रारिसीहिंणणादेसीहिं विदेशपरिमंडियाहिं द्रुगिंयचिंति  
यप्रत्ययवियाणियाहिं सदेशेवत्यगहियवेसाहिं णिउणकुसलाहिं विणीयाहिंचेडियाचक्कवाल

यदेशनीइसिनिकनामअनार्यरेविषेऊईषारूगिणियनामअनार्यदेशतेहनीऊपनीलासियनामअनार्यदेशनीऊपनीलउसियअनार्यदेशनीऊपनीइमिलतथाइविडनामाअनार्यदेशनीआरबअनार्यदेशपक्षणनामाअनार्यदेशकवहिलनामाअनार्यदेशसिंवरनामाअनार्यदेशनीत्रेणसहितनानाविधअनेकप्रकारअनार्यदेशतेहनीऊपनीतेणसहिततथाविदेशनेमृंगारेसिणगारीनेलादिचेष्टाजाणेहीयानोभावजाणे वांछितजाणे विशेषेजाणहारो आपणार देसनाने पथ्यवेषरचनादिपदिखाके वेसजेणेनिपुणकुशलघणुं जडाही अतिविनी





चाभिलषितं जानन्ति आसथाताभिः स्वदेशेयन्ने पथ्यं परिधानादिरचनातद्दृष्टहीतो वेषोयकाभिस्तासुथा ताभिः निपुणानामध्ये कुशलं आसथाताभिः अतएव विनीताभिर्युक्तइतिगम्यते तथा चेटिकाचक्रवालेन अर्थात्स्वदेशसंभवेन वर्षधराणां वृद्धितकचि अपनप्रयोगेण नपुंसकीकृतानामन्तःपुरमहस्रकानां कंचुइज्जन्ति कंचुकिनामन्तःपुरप्रयोजननिवेदकानां प्रतीहाराणांवा महत्तर काणां चान्तःपुरकार्यचिन्तकानां वृन्देन परिचितो यः स तथा हस्ताइस्त्र हस्तान्तरं सङ्क्रियमाणः अङ्कादङ्कं उत्पङ्गान्तरं परि

वरिसधरकंचुइज्जमहत्तरगवंदपरिक्वत्तेहत्थाओहत्थंसाहिज्जमाणेअङ्काओअङ्कंपरिभुज्जमाणेउ  
वलालिज्जमाणेरम्मंसिमाणिकोडिमतलंसिपरिगिज्जमाणेरुणिव्वायणिव्वाघायंसिगिरिकंदरमल्लीणे

तएहवीदासीयानाचक्रवालसम्बृहतेसहित कृतिमनपुंसक अंतःपुरनाप्रयोजनकथक महत्तरते अंतःपुरनी चिंतानाकारकतेहने सम्बृहेकरीवीद्यो एकनाहाथथीजीजाने हायेकालीजतो एतलेहेठोनमेले एकनीगोदथी बीजानीगोदे रमतोथको लाबीजतोऊल रावतांसगणीकमणिरत्नेकरीबाथोछे आंगणोजिहां एहवोभूमिइं अनेकप्रकारेऊलरावता व्याघातविनारोगरहितपणे निरुपद्रवप

भोज्यमानः परिगीयमानः तथाविधत्रालोचितविशेषैः उपलब्धमानः क्रीडादिलालनया पाठान्तरे उवनञ्जिज्जमाणेर उवगाद्  
 ज्जमाणेर उवलालिज्जमाणेर उवगूह्जिज्जमाणेर अलिङ्ग्यमानइत्यर्थः ४ अवपासिज्जमाणेर कथंचिदालिङ्ग्यमानएव परिवंदिज्जमा  
 णेर स्तूयमानइत्यर्थः परिवुंविज्जमाणेर इतिप्ररंग्यमानः चंक्रयमाणः निर्वीतकिव्याधाते गिरिकंदरेत्ति गिरिनिकुंजे आलीनइव  
 चंपकपादपः सुखंसुखेनवद्धं तैस्मेति प्रचंक्रमणकं भ्रमणंचूडोपनयनंसुखनंसहयाद्दुडीसकारससुदएणंतिमहत्याऋद्ध्याएवंसत्कारेण

वचंपगप्रायवे सुहंसुहिंगंवद्दुइ तएणंतस्समेहस्सकुमारस्स अस्मापियरो अणुपुव्वेणंणामकरणंचपज्जे  
 मणंचपवचंकराणंच चोलोपणयंच महयाद् इड्डीसकारससुदएणंकरिंसुतएणंतमेहकुमारं अस्मापि

वतनीगुफाद् लीननीपरि लीणंचंपकवधेतिम सुखेसुखे आवाधारहितमेघकुमारवधे तिवारपच्छी मेघनामाकुमारनामातापिता  
 आबुपूर्वीं अनुक्रमे नामथापनाकरे कुलरावतायका पंचकमाणपरिभ्रमणभमतो अरहोपरहो चूटाचोटीनीनो सुंडनकरे इम  
 मोटीरऋद्धिने खरचवेकरी इमसत्कारपूजाइंससुदाये करे लोकनासमूहनीपूजाकरताक्के एतले पुवननाउत्सवकरेक्के तिवारपच्छीते

पूजासमुदयेमचजनानामित्यर्थः अर्थतद्भूतिव्याख्यानतः करणतः प्रयोगतः सेहाविण्त्तिसेधयति निष्पादयति शिञ्जयत्यभ्यासंकार

यरोसादरेडुवासजातगंचेव गम्भडुमेवासे सोहणंसि तिहिकरणसुहृत्तंसि कलायारियस्स उवणेइं  
तएणसेकलायारिए मेहकुमारंलेहाइयाओगणितप्पहाणाओ सउणरुतपज्जवसाणाओ बावत्तरिं  
कलाओसुत्तओ अत्यश्रियकरणओय सेहावेइसिकखावेइ तंजहा लेहं? गणियं? खुवं? इणइं? ४ गौ

मेघकुमारप्रते मातापिता सातिरेककेतलाइकदिवसअधिकआठवरसनाथया प्रते जाणेचेवनिश्चय गर्भमांहिलोआठमोवरससोभन  
भलीमनोहरतिथ? ५ मांहिलीतथा जत्तमकरणबालवादिकतथा भलासुहृत्तनेविषे कलाचार्यकलानो सीखावणहारपंडिततेहने  
सुपेभणावभणी तिवारपछीतेकलाचार्यकलानोभणावणहारपंडित तेमेघकुमारप्रते लिखवो अठारेलिपिआदिदेई गणितगणिवो  
प्रधानएतले अंककलाएंकादहंसंयसहस्रं इत्यादिक शकुनपंखीनारुतशब्दतेहपर्यवसान छेहडेपदछेजिहाएहवी बडुत्तरसंख्यागणती  
इं गिणताकलाभ्यासविशेषथकी सुलपाठे सुखेभणी अर्थग्रहणतेहूनोअर्थसीखे करणकायाइं अमकरीतेहअभ्यासे तेहथकी सेहावे

यंभू वाहयं६ सरगयं७ पोकवरगयं८ समतालं९ जूयं१० जखवायं११ प्राढयं१२ अडावयं१३ प्रोर  
कत्तं१४ गदमडियं१५ अखविही१६ पाखिविहिं१७ वत्यविहिं१८ विलिवणविहिं१९ सयणविहिं२०

तित्रिणप्रकारसहिततेहने नैपजावेछे सीखावेअथासकरावे तेथयाकमेकहेछे लिखनो१ गणितअंकनीकलार रूपपरवर्तनीकलार  
नाटकनीकला४ गीतगानकरिवो५ वाजितवजाडिवानीकला६ खरकंठसंबंधीनोओलखनो७ वाजितगतनीकलानो जाणिवोतुंग  
लतेरकनामसंजाणे८ समानतालसंघातेहस्तालकसालनीकला९ जूवटारमिवानीकला १० जनलोकडुंवादेविवादकरिवानीकला  
जनलोकडुंवादेआलापसंलापकरिवानीविधतेहनीकला ११ पासाढालवानीकला १२ अष्टापदसारपासेरमिवानीकला १३ पुरनगर  
नाकर्तयनागराद्यादिकनीकला १४ दगपांशीअनेमाटीएकठाकीधि असुकनोसंयोगडुवे १५ अन्ननीपजाविवोसोधिवोरांधिवोतेहनी  
कला १६ पांशीनोजालविवोसंस्कारकरवानीकला १७ वस्त्रसीविवाधोडुवारंगिवापहिरवानीकला १८ विलिपनशरीरेनेविषेकरिवोते  
हनीकला १९ शिष्यानेविषेसूद्वानीविधिकलार २० आर्यासंस्कृतनोबंधतथाप्राकृतआर्यानाभेद २१ प्रहेलिकावांधिवानीकलार २२ मगध

अज्ज २१ पद्देलियं २२ मागहियं २३ इत्थियलक्खणं २४ गाहा २५ गीइय २६ सिलोयं २७ हिरयजुत्तिं  
 २८ सुवयजुत्तिं २९ चुसुजुत्तिं ३० आभरणविहिं ३१ तरणीपडिकमं ३२ पुरिसलक्खणं ३३ हयल  
 क्खणं ३४ गयलक्खणं ३५ गोणलक्खणं ३६ कुकुडलक्खणं ३७ छललक्खणं ३८ दंडलक्खणं ३९ असिल

देशसंबंधीगाथावांधिवानीकला २३ स्त्रीजातिनालक्षणसासुद्रिकसंबंधी तेहनीकला २४ गाथाप्राकृतवांधवानीकला २५ गीतनीवांध  
 यीरीविधि २६ लोकावचीसञ्चरजोडिवोतेहनीकला २७ हिरय्यरूपोतेहनीपजाइवानीकला २८ स्वर्णनीपजाइवानीकला २९ चूर्णगु  
 लालअवीरनीपजावानीकला ३० आभरणषडवाजडवापहिरवानीविधिकला ३१ तरणीस्त्रीजातिनोप्रतिकर्मकला ३२ पुरुषनालक्ष  
 ण ३२ सासुद्रिकसांहिकह्याप्रसिद्ध ३३ षोडानालक्षणशास्त्रप्रसिद्धतेहनीकला ३४ हाथीनालक्षणतेहनीकला ३५ गोवृषभवलदनाल  
 क्षणशास्त्रोक्तप्रकारेतेहनीकला ३६ बूकडानालक्षणशास्त्रोक्तप्रकारेतेहनीकला ३७ छतमेघाडंबरदितेहनालक्षणनीकला ३८ दंडवि  
 जयदंडलाकडीविशेषतेहनालक्षणएगपव्वायजालडी ३९ असिखल्लतरवारतेहनालक्षणशास्त्रोक्तप्रकारेतेहनीसीखवो ४० मणिवंद्रकां

क्वणं० मणिलक्षणां०१ कागणिलक्षणां०२ बत्यु, विज्जं०३ संधारमाणं०४ रागरमाणं०५ वूहं०६  
 पडिवूहं०७ चारं०८ पडिचारं०९ चक्रबूहं०१० गरुलवूहं०११ सगडवूहं०१२ जुद्धं०१३ णिजुद्धं०१४ जुद्धा  
 इजुद्धं०१५ अट्टिजुद्धं०१६ सुट्टिजुद्धं०१७ बाहजुद्धं०१८ लयाजुद्धं०१९ ईसत्यं०२० छरुष्यवाय०२१ धणुब्बयं

तचिंतामणिप्रमुखतेहनालक्षणासूखवो ४१ कागणीरलचक्रवर्तिसंबंधीतेहनीलक्षणासूक्तप्रकारेसीखवो०२ वास्तुविद्याधर  
 षाटप्रमुखमांडिवानीकला०३ स्कंधावारकटकजतरिवानोमानप्रमाणतेहनीकला०४ नगरवसाविवानोमानप्रमाणतेहनीकलासीखे  
 ०५ कटकनीशुद्धनेकाजरचनानीकला०६ प्रतिव्यूहसामुं कटकराखिवानीकला०७ चारकटकमानकला०८ प्रतिचारकटकबंधावार  
 जतरिवानीकला०९ चक्राकारव्यूहकटकमानकला०१० गरुडाकारिव्यूहकटकजतरिवानीपद्धतिमानकला०११ शकटगाडानेआकारे  
 व्यूहकटकजतरिवामानकला०१२ शुद्धसामान्यप्रकारे०१३ नियुद्धअतिसवसुं शुद्ध०१४ शुद्धनेअतिक्रमीनेअभियुद्धनेकारिवोतेहनीकला०१५  
 षाडनाशुद्धकारिवानोमान०१६ सुट्टिरशुद्धनोकारिवोतेहनीकला०१७ बाहुइंशुद्धकारिवोमाहोमाहेतेहनीकला०१८ लताटल्लनीकां३तेणेक

६२ हिरण्यपागं६३ सुवस्त्रपागं६४ सुत्तखेडं६५ वट्टखेडं६६ णालियाखेडं६७ पत्तच्छेज्जं६८ कडग  
 छेज्जं६९ सज्जीवं७० निज्जीवं७१ सउणरुय७२ तएणंसिकलायरिए मेहकुमारं लेहाइयाओग  
 णियप्पहाणाओ सउणरुयपज्जवसाणाओ वावत्तरिकलाओ सुत्तओ अत्थओयकरणओय सेहावइ

रीडुइकारिवो५९ ईपततेघोडानेघणुंघोडानुंघोडोदेखाडे ६० त्थखड्ढनीसूठीनोवादेभेदअथवाच्चरप्रमाणनोवादेविपार६१ धनुर्वेद  
 धनुषवांणानांखिवानीकला६२ हिरण्यपाकहिरण्यरूपोतेहनोपाकनीपजाविवोगालिवो६३ सूर्णसोनानोपाकनीपजाविवोगालिवो६४  
 सूतनोखेडोवेओमांडिनेसूत्वच्छेदे६५ बंधनोखेडवेभूमूमांडिनेभूमूकनोनरिवो६६ नालिकाकमलनीडांडलीतेहनीखेडोवेओमांडोवीधवो  
 ६७ पलपांनडानोच्छेदिवोवेओमांडीने६८ सोनादिकचूडीकुंडलनोच्छेदिवो६९ सूअमनुष्यतियेचनेमंतकलाकरीजीवतोकरे७० जीव  
 तानेसूच्छीवि७१ शकुनदेखिकागखरखानचिबहतेहनारुतशब्दनाशकुननोविचारजाणवोतेपिणकाला७२ तिवारपच्छीतिकलाचार्यकला  
 नोभणवाणहारपंडित मेघनामाकुमारप्रते लिखवाआदिदेइअठारलिपि गणितप्रधानचंक्रप्रधान शकुनपंखीयानारुतशब्दतेहना

सिक्खावेइसेहावित्ता। सिक्खावित्ताअस्मापियूणंउवणेइतएणंमेहस्सअस्मापियरोतंकलायारियंमज्जरे  
 हिंवयणेहिंविपुलेणं गंधमसालंकारेणं सक्कारेइसस्माणेइत्ता विउलंजीवियारिहं पीइदाणंदलयइरे  
 त्ता षड्विसज्जेइ तएणंसेमेहकुमारे बावत्तरिकलापंडिएणवंगसुत्तपडिवोहिएअट्टारसविहिप्पगा

पर्यवसानछेहलोपदछेजिहांएहवी बावत्तरि ७२ संख्याइंगणतांकलाअभ्यासविशेषयकी सूत्रपाठयकी अर्थनाग्रहिवाकी कारणकाया  
 येअसखेदकरीतेहनाअभ्यासकारिवाथी त्रिणप्रकारसहिततेकुमरनेनीपजावे सीखावेअभ्यासकरावे त्रिणप्रकारसहितनीपजावीने  
 सूत्रयकी? अर्थयकी२ कारणयकी३ सीखावीनेअभ्याशकरावीने तेकलाचार्यकुमरनामातापितानेसूंपे संपूर्णभणावीने तिवारपच्छी  
 सेषकुमारना माताअनेपिता तेकलाचार्यप्रते मधुरमीठेवचनेकरीसंतोषीने विपुलविस्तीर्णघणोएहवे गंधचोअजावादिकसूरीमाल्य  
 गंध्या मोकलाफूलानीमालाअलंकारनवग्रहणातेणेकरी सत्कारपरिहरावणीकरेसन्मानवड्डमाननोदेवोजेतुमेमहापंडितछोविपुलवि  
 स्तीर्णघणुइंजजीविताईजाजीवेतां लगीसुखेभोगवे एतलेप्रीतिहर्षनो दानप्रतेआपे आपीने प्रतिविसर्जैघरभणीजावानीआज्ञादीये



यति नवंगसुत्तपडिवोहिण्ति नवाङ्गानि द्वे द्वे अतिनयनेनासिकेजिह्वे का त्वगेका मनश्चै कं सुप्तानीवसुप्तानि बाल्यादव्यक्तचेनतानि  
 प्रतिबोधितानि यौवनेनव्यक्तचेतनावन्ति कृतानियस्य सतथा आहचव्यवहारभाष्ये सोत्तार्दनवसुत्ताइत्यादि अष्टादशविधिप्रकाराः  
 प्रवृत्तिप्रकाराः अष्टादशभिर्वाविधिभिर्भेदैः प्रचारः प्रवृत्तिर्यस्याः सातथातस्यां देशीभाषायां सभेदेन वर्णावलीरूपायां विशारदः प्र  
 डितोयः सतथा गीतिरतिगंधर्वगीतेनाद्ये चकुशलः ह्येनयुध्यतइति ह्ययोधी एवंरथयोधी वाङ्मयोधी वाङ्मथां प्रवृद्दातीति बाङ्

## रंदेशीभासाविसारएगीइरइगंधव्वण्टु कुसलेहयजोहीगयजोहीवाङ्मजोहीवाङ्मप्रमहो

बोलावे तिवारपछी तेमेघनामाकुमार बळत्तरकालातिणे करीपंडितळ्ळओ तेकालानोतत्वार्थनो जाणह्ळओनवांगवेकानेनेतवेनासि  
 काएवंईजीभ० त्वचाट मनधएनवअंगसूतासरिखाप्रगटचेतना सहितळ्ळआ तथाअठारविधिनोप्रकारअथवाअठारविधिभेदेकरीप्रचा  
 रप्रवृत्तिछे जेहनीएहवीदेशनीभाषा अठारवैसने भेदेकरी भाषाघचननो बोलिवोतेहजेविषे विशारदपंडितजाण्ळे मेघकुमारतथा  
 गीतकरवानी सांभलवानीरतिथई एकारणथकी गंधर्वगीतगानकलानटकतेहनेविषे कुसलचतुरडाहो ह्यघोडासंघातेयुद्धकरी

प्रसर्दीसाहसिकत्वादिकालेचरतीति विकालचारी पासायवडं सएत्ति अवंतसकाइवाऽवंतंसकाः शेखराः प्रासादाच्चतेऽवंतंसकाच्चप्रासादावंतंसकाः प्रधानप्रासादा इत्यर्थः अद्भुग्नयस्त्रसिद्यत्ति अथ्युत्तानुच्छितान् अत्युच्चानित्यर्थः अत्रचद्वितीयावच्छवचनलोपोदृश्यः

अलंभोगशमत्येसाहसीए विद्यालचाली जातेयाविहोत्या तएणंतस्सोहकुमारस्स अस्मापियरोसे  
हं दुसारां बाधत्तारिं कलामंडियं जावविद्यो लचारि जायंप्रासइत्ता अट्टपासायवडिसएकरेइइ अद्भुग्न

जाणेरयसंप्रामिकतेहसंघाते युद्धकरीजाणे वाड्डं इयुद्धकरी जाणेअनेराडुंवाड्डं करी अनेरानिअतिशयडुमहं अलंअतिषणोभोग  
नेविषेससय्यशक्तिवंतययो साहसीकधैर्यवंतयणुं साहसीकप्रणायकी विचारअवेलासवेलारातिनेविषे अकालेपिणचालेएहवोधा  
तोड्डवो सेधकुलार तिवारपच्छीतेसेधकुमारना साताअनेपितासेधकुमारप्रते वडुत्तर ७२ कलानेविषेपंडित जावशब्दयीअनेराइ  
बोलकहिवासाहसीकययोरानिनेविषे अकालेचाले एहवाप्रतेदेखीनेअणिकराजा आठप्रासादावंतंसकशेखरसेहरारूपआठप्रासाद  
प्रधानघरप्रतेकारवे तेआठप्रासादकेहवाछे अतिषणुडच्छितउं चाछे प्रहसितघडलीप्रभानापटलते प्रबलपणेहसताजछे ऊजलात

पदसि एचेवन्ति प्रहसितानिव श्वे तप्रभापटलप्रबलतया हसतद्भवेत्यर्थः तयामणिकनकरत्नानां भक्तिभिर्विच्छित्तिभिश्चिवायेततथा वातीतूतायाविजयसूचिकावैजयंत्यभिधानाःपताकाः छत्तातिच्छलाश्रितैः कलितायेतेतथा लतःकर्मधारयसुतस्नान् तुङ्गान्कथमिव गगनतलमभिलंघयच्छिखरान् जालंतरयणपंजरंमिस्त्रियवन्ति जालांतैषु मत्तालंबपर्यंतैषु जालांतरैषुवा जालकमध्येषु रत्नानिये

यमसियप्रहसि एविव मणिकणगरयणभत्तिचित्ते वाउड्डयविजयवेजयंतीघडागच्छत्ताइछत्तकलितुं  
गेगणतलमभिलंघमाणसिहरेजालंतरयणपंजरंमिलियव्वमणिकणगथुभियाएवियसियसयप्रत्त

यामणिवंद्रकांतादिकनकसुवर्णरत्नककैतनादि तेहनीजेभक्तिभांति विच्छतिरचनातेणीइं चित्रआश्चर्यकारीछेजेते तथावली वायरे उड्डयउरहीपरहीहलावी जेविजयनीकरणहारीएहवीविजयअने वैजयंतीनायाजेपताकाध्वजातेणेकरी कलितसहितछे तुं गमोटा उं चावणेकष्टेकरी गगनतलआकाशनातला प्रतेअभिलंघताछे अडकताछे शिखरछेप्रासादनाएहवाआठप्रधानघरप्रते तथावलीजालं तरजालीयानामध्यभागनेविषे अथवाजालंतरगोखनाछेहडानेविषे रत्नछेजेहानेपंजरंजूआ कीधक्केपांजराएतलेतथावलीमणिवंद्र

षांतिथाततोद्वितीयावङ्गवचनलोपोदृश्यः पंजरोन्मीलितानिच पृथक्कृतपञ्जराणिच प्रत्यग्रच्छायांनित्यर्थः अथवाजालान्तररत्नपञ्च  
 रैस्त्वसुदायविशेषैरन्मीलितानि चोन्मिषितलोचनानिचेत्यर्थः मणिजनकसूपिकानिति प्रतीतं विकसितानि शतपत्राणिपुंडरीका  
 णिचप्रतिरूपपेक्षयासाक्षाद्वा येषुतेतथातान् तिलकैः पुंड्रैःरत्नैः कर्कतनादिभिःअर्द्धचंद्रैः सोपानविशेषैः भिन्तिषुवाचन्दनमथैरा  
 लेख्यैः अर्चितायेतेतथातान् पाठान्तरेण तिलकरत्नार्द्धचन्द्रचितान् नानामणिमयदामालङ्कृतान् अन्तर्बहिश्चल्लक्षणान् महृणान्

पुंडरीणतिलथरथणार्द्धचंद्रच्चिण्णामणिमयदामालंकिएंअंतोबहिंसगृहेतवणिल्लरुइलवालुयाप

कांतादिकनकसुवर्णनीयूंभिकाच्छेएहवा आठप्रासादप्रतेतथाविकास्याविकासपास्याएहवाशतपत्रकमलपुंडरीकनामाधोलाकमलप्रति  
 रूपप्रतिबिंबलिख्याच्छेतथातिलकटीलातेणेकरीरत्नकर्कतनादिकेकरीअर्द्धचंद्रसोपानपावडीयातेणेकरीतथानानाप्रकारनीअनेकप्रका  
 रनीमणिचंद्रकांतादिकमयनीदामसालातिणेकरीअलंकस्याच्छेजेप्रासादावतंसकतेप्रतेतथाअंतमध्यभागे बहिर्बाहिरलेभागेसगृहेसूंहा  
 लामनोरमच्छे प्रासादप्रते तपनीयदेदीयमान शोभायमानतेहनीजेरुइलरुचिराकांतिच्छे एहवीवालुकावेलपाथरीच्छे आंगणानेविषे

तपनीयस्यथारुचिरावालुकातस्याः प्रस्तरः प्रतरः प्रांगणेषु येषां तितथातान् सुखस्यर्शान् सश्रीकाणि सशोभानिरूपाणि रूपकाणि  
 येषु तितथातान् प्रासादीवान् चित्ताह्लादकान् दर्शनीयान् यान् पश्यञ्चक्षुर्न आस्यति अभिरूपालमनोन्नरूपान् द्रष्टाप्रतिरूपं येषां तित  
 तथातान् एकं महद्भवनमिति अथ भवनप्रासादयोः को विशेष उच्यते भवनमाया मापेक्षया किंचित् नूनोच्छ्रायमानं भवति प्रासादस्तु आया

त्यरे सुहृत्फासे सस्विरीयरूपे प्रासादो ए जावपडिरूपे एकं चणं महं भवणं करे इ अरणे गखं भसयसस्मि वि

जे प्रासादप्रते तथा सुखकारीया फरसच्छे जेहनाते प्रते सश्रीकशोभासहित रूपच्छे जे प्रासादावंत सकने ते प्रते प्राकादनी कजे प्रासाददे  
 खताजचित्तप्रसन्नथाइं जेहने देखनानित अमकिलामनानपामे अभिरूपमनोरसच्छे प्रतिरूपजे देखणहारनाजुअरप्रतिविं वप्रतिरू  
 पदीसे जेहनाएहवाआठ प्रधानप्रासादकराव्या तथावलीते प्रासादने मध्यभागे एकमोटोघरकरावे हिवे भुवनघरप्रासादवे ऊं माहे  
 कुणविशेषते कहेच्छे भवनघरते आया मलां वपणानी अपेक्षायिकां इ एक अश्रीच्छो थोडो उं चोऊवे अने प्रासादते भवनथकी लांबपणे विवणो  
 उं चोऊं वे एतावता भवनते नान्होघर अने प्रासादते मोटा आवास विशेष जाणवा ते भवनके हवोच्छे अने कघणां खं भयां भानासतसे कडाने

महिगुणोच्छ्रायइति अनेकेषुस्तं भगतेषु संनिविष्टं यत्तत्तथा लीलयास्थिताः शालभंजिकाः पुत्तलिकाः चस्मिंस्तत्तथा अभ्युद्गतासुकृताः  
वज्रस्यवेदिकाहारसुडिकोपरिवेदिकातोरणं चयत्तत्तथा वराभिः रचिताभिः रतिदाभिर्वायालभंजिकाभिः सुस्त्रिष्टाः विशिष्टालष्टाः  
संस्थिताः प्रशस्ताः वैडूर्यस्यसंभायत्तत्तथाततः पदत्वयस्यकर्मधारयः बद्धसमत्तिअतिसमः सुविभक्तो निचितो निविडोरमणीयञ्चभभा

इं लीलट्टियसालभंजियागं अभुगयसुकयवयरवेइया तोरणेवररइयसालभंजियासुसिलिट्टिविसिट्ट  
लट्टिसंठियपसत्यवेरुलियखंभणामणिकणगरयणखचियलज्जलं बद्धसमसुविभत्तविचित्तरमणि

विषेसन्निविहरह्योच्छेजेभवन वलीकेहवोच्छे लीलायेक्रीडाइकरी स्थितारहीच्छेशालभंजिकापूतलीजेहनेविषे वलीकेहवोच्छे अभुगय  
षणुडंचो सुकयभलीपरेकीधीच्छे वज्ररत्ननीवेदिकावारणाजपरवेदिकाचूं तडीच्छे वलीतोरणकीधाच्छे जेहनेविषे वरप्रधानरचीये  
कोरणीइं करीरवीच्छे कीधीच्छे एहवी सालभंजिका पूतलीतेणीइं करी सुसिलिट्टरूडीपर संधिइं संधिमेलीच्छे विशेषयकीलट्टसनो  
हर एहवासंठियरह्याच्छे पसत्यप्रशसभलीरूडीवैडूर्यनामारत्ननाथां भाजेभवने नानाअनेकघणाप्रकारना मणिचंद्रकांतादिककनक

गोयत्वतत्तथा ईहाष्टगदृषभतुरगनरमकरविहगव्यालकिन्नररुसरभवमरकुंजरवनलतापद्मलताभक्तिचित्रमितियावत्करणा देवंदृश्यं तथासंभोजनतथासन्धोपरिवर्त्तिन्यावज्जस्यवेदिकयापरिगृहीतं परिवेष्टितमभिरासंचयत्तत्तथाविज्जाहरजमलजुलजंतजुत्तंपिवत्तिवि

ज्जभूमिभागं ईहाभियजावभत्तिचित्तं खंभुगयवयरवेद्रयापरिगयाभिरासं विज्जाहरजमलजुयल  
जंतजुत्तंपिव अञ्चीसहस्रमालणीयं खूवगसहस्रकलियंभिसमाणं भिज्जिसमाणं चकवु लोयण

सुवर्णरत्नतेणेकरीखचित जोडोछे तेहकारणथकी ज्जलंडद्योतकारीछे जेभवनवलीतेभवनकेहवाछे वडसमअतिघणु समोसरिखो बरावरसुविभत्तभलोरच्यो कीवोछेरचनासहितनिचितनिवडरमणीकमनोहर एहवोभूमिनोभागछे जेभवने तथावलीइहाईहासृग वरगडाजावशब्दनाग्रहणथकी दृषभमनुष्यमगरमच्छपंखीसर्पकिन्नरना चित्रामतयावली तेकेहवोछे भवनखंभुगयथांभानेजपरर हीवज्जनीवेदिकातेणेकारिपरिग्रही उपरसामस्यसंपूर्णपणेकरीजेभवन तथावलीतेभवनकेहवोछे विद्याधरनोजेमलसमअंशिवद्व पंक्तियुक्तजुगलजोडलोतेहनो यंत्रकरीचालतांसरीखादीसे विद्याधरपुरुषप्रतिमा रूप तथावलीअर्चिक पूजतेतेहनजिसहस्रतेणे

द्याधरयोर्थत्यसलं समञ्जशीकं युगलद्वयंतेनैव यन्त्रेण सञ्चरिष्णु पुत्रप्रतिमाद्वयरूपेण युक्तं यत्तत्तथा आर्षत्वाच्चैवंविधः समासद्विति  
 तथाअर्चिषां किरणानांसहस्रैर्भौलनीयं परिवारणीयं भिसमाणांतिदीप्यमानं निम्बिसमीणांति अतिशयेनदीप्यमानं चक्षुःकर्तृलो  
 कनेअवलोकनेदर्शनेसतिअतीवदर्शनीयत्वातिशयात्स्त्रिष्यतीवयत्तत्तथा नानाविधाभिःपंचवर्णाभिर्विष्णुप्रधानपताकाभिः परिसमिड  
 तमग्रशिखरं यस्यतत्तथा धवलमरीचिलक्षणांश्वचक्रंकाकटं तत्सम्बृहमित्यर्थः विनिर्मुचत् विक्षिपत्सदृशीनां शरीरप्रमाणतोमेघकुमा

लेसंसुहृदासं सस्त्रियरूपं कंचणमशिखरयथूभियागं शाखाविहंपंचवर्णधंडापडागपरिमंडिय

करीसोभायमानच्छे किरणानारूपञ्जालेख्याच्छे तथावलीपूर्वोक्तरूपानासहस्र तेषेकरीकलितसहितच्छे जेभवनदेदीप्यमानदीपतोच्छे  
 अतिशयेकरीघणुं देदीप्यमानच्छे चक्षुनेलेकरीलोकनअवलोकजोतेच्छेते अतिशययकी सुखकारीयोफरसच्छेजेहनो सञ्जीकसोभासदि  
 तरूपच्छे जेहनो कंचनसुवर्णमणिचन्द्रकांतादिकारत्नकर्कतनादिक तेहनीभूमिकाच्छे नानाविध अनेकप्रकारनी पंचवर्णनी एहवी  
 धंडाप्रधानपताका ध्वजातेणीद्वं करीपरिमंडियसहितच्छे अलंकयोच्छे आगिलोशिखरजेहने धवलधोला तेजरूपभिरचकिरणलक्षण



रापेक्षया परस्परतोवा सहग्वयसांसमानकालकृतावस्थाविशेषाणां सहस्रच्छवीनां सहस्रैर्लीवण्यरूपयौवनगुरुरपपेतानां तत्रलावण्यं मनोज्ञता रूपमाकृति यौवनं युवतागुणाः प्रियभाषित्वाद्यः तथाप्रसाधनानि च मण्डनानि अष्टासुचांगेषु अविधववधूभिर्जीवत्यतिकनारीभिर्यद्वपदनं प्रोखकंतच्चमद्गलानि च अक्षतादीनि गानविशेषावास्तुजल्पितानि च आशीर्वचनानीति इन्द्रखैः कर

गसिहरं धवलप्ररीचिकवयविविणिसुयंतं लाउद्धोद्दयमहिंयं जावगंधव्वहीभूयं प्रासाद्व्यंदरिसणि  
ज्जं अभिखुवं प्रडिखुवं तएणंतस्समेहकुमारस्स अस्माप्रियरोसेहकुमारं सोहणंसि तिहिक्करणकलत्त

जेकवचसन्नाहसरिखोक्के एतलै धोलातेजप्रते संकतोक्के वलीलाउच्छाणेकरी लीयोसाखेकरी ऊजलोकीधोक्के चंद्रयाइत्यादिकेपूज्यो जावशब्दथी वीजाइवोलक्रहिवा गंधनीवातीठासि २ घरमध्येउखेवेक्के एहवोभवन जेघरनेदेखतां लोकनाचित्तप्रसन्नयाइं जेहनेदेख तां लोकनानेवखेदनपांसे देखणहारा नाजूआरप्रतिबिंबदीसे प्रतिरूपमनीहरक्के तिनारपछीएहवा आठप्रासादअनेएकभुवनकरा व्यापछी तेमेवकुमारनामातापिता मेघकुमारप्रते शोभनभली तिथि १ पूसांहिलीकरणवालवादिकनचल २ ७मांहिलो भला सुद्धत्तने

सुद्धत्तंसि सिरिसयाणं सरिसब्बयाणं सरिसतैयाणं सरिसलावसुहवजोब्बणगुणोववेयाणं सरि  
सएहिंतो रायकुलेहिंतो अणिसुत्तियाणंपसाहण्डुंग अविहववज्जुवयण मंगलसुजंपितेहिं अट्ट  
हिंरायवरकण्णहिंसद्धिं एगदिवसेणंपाणिंणिएहविसुं तएणंतसमेहस्स अन्नापियरोइमं एयाह

विषे सरखीशरीरनाप्रमाण्यंकी मेघकुमारनी अपेद्धा सरिखी वयच्छे जेहनीएहवी सरिखीलचाचामडीच्छे जेहनी एहवी तथा  
वलीसरिखालावण्यमनोद्धतामनोद्धपणो रूपशरीरना आकार सरिखी दौवनावस्था गुणप्रियवक्खभमीठावचनादिकनी बोलवोएह  
वेसरिखेगुणेकरी उपेतसहित्ते सरीखावंशयकी सरिखाराजाना कुलथकी आणीने अणावीने एहवी आठकन्याने तथाप्रसाधन  
मंडननीकरणहारी आठअंगनेविषे अविहवज्जुअविधवाजिहानाभतरि जीवताच्छे एहवी स्त्रीयेकरी उवयणंपुंखवोमंगलीकनिमित्त  
दहीआखेप्रमुखअथवागानविशेषसुजल्पित आशीषवचन तेणेकरीएतले मंडननी कारणहारी अविधवा स्त्रीतेहनेपासे मंगलीकना  
घोलागीतगानगवरावे आठराजामांहिवरप्रधान एहवाराजानी आठकन्यातेसंधातेएकदिवसे पाणिग्रहणप्रतेकराव्यो तिवारपच्छी

गाभूतैरिति इदं चास्मै प्रीतिदत्तः स्मृतद्वया अष्टौ हिरण्यकोटीः हिरण्यं चरुष्यं एवं सुवर्णकोटीः शेषं च प्रतीदानं गायानुसारेण भणितव्यं यावत्प्रपणकारिकाः गायान्नेह नोपलभ्यन्ते केवलं ग्रन्थान्तरानुसारेण लिखन्ते अष्टहिरण्यसुवर्णकोटीश्रीमत्तडकुं डलाहारश्च इष्टहार एकावली उमुत्तावली अष्टः कणगावलिरयणावलि कङ्गुजुगातुडियजोयखोमजुगा वडजुगपट्टजुगा इं डुकुसुजुगलाइ अष्टद्वरसिरिहिरिद्धिकितीश्री बुद्धीलच्छीयड्डंति अष्टद्वनंदाभदायतलाभयवयनाडाइ अस्त्रे यइ हत्थीजाणानुगा सीहातहसंदमाणिगुलीश्री विस्लीयवियडजाणारहगामदाससीश्री ४ किंकरकंचुइमयहर वरिसहरैति विहदीवथालेय पाईथासगपसु गकतिवियअवए डयअत्रक्कापु पावीठाभिसियक्कुरोडियाउपसुं कएपयडिसेज्जा हंसार्देहि विसिद्धा आसणभेयाउअष्टद्व ई हंसैकोचेगरुडे उणपणएयदी

वंपीइदाणंदलयंति अष्टहिरण्यकोडीश्री अष्टसुवर्णकोडीश्री गाहाणुसारेण भाणियव्वं जावपेसणका

तेमेवकुमारभणीते आठकन्यानामातापिता एआगलकहिस्ये एहवो प्रीतिहर्षनो दानदाइ जोदीधो आठहिरण्यरूपानीकोडिनो दाइजोदीधो आठसोनानीकोडिनो दाइजोदीधो गायान्नेराग्रंथने अनुसारेकरीजाणवो आठर वस्तुसर्वअपे जावशब्दथीवीजाइ

हभद्देयपक्खे मयरेपत्तमे होइइदिसासोत्थिएकारे ७ तेष्वे कोट्टससुग्गा पत्तेभोएयनगरएलाय हरियालेहिं गुलए मणोसिलासासवस सुग्गे ८ खुज्जाचिलाइवामणिवडभीओ वव्वरीवत्तसियाओ जोणियपल्लवियाओ इस्सिणीयाषारइणियाय ९ लासियलत्तसियदमिणी सिंहलितहयारवीपुलिंदीय पक्कणिवहलिसुरंडीसवरीओपारसीओय १० छत्तवराचेडीओ चामरवरतालियंतयधरीओ सकरोडि यायरीओ खीराईपंचधार्इओ ११ अट्टंगमद्दियाओ उम्माद्दिगण्हविगमंडियाओय वस्सय चस्सयपीसियकीलाकारीयदवगारी १२ उत्थावियात्तहनाडइल्लुकोडुं विणामहाणसिणी भंडारिअज्झधारिण पुप्फधरीपाणियधरीय १३ बलिकारियसेज्जाकारियाओअ विभंतरीओवाहिरिया पडिहारीमालारीपेसणकारीओअट्टत्ति १४ अत्तचायंपाठक्रमः स्वरूपंच अट्टमत्तडेमत्तडपवरे अट्टकुंडलेकुंडलु ज्जोययवरे एवमौचित्येनाथ्येयं हाराइ हारावष्टादशनवसरिकौ एकावली विचित्तमणिका सुक्तावली सुक्ताफलमयी कनकावलीक नकमणिमयी कटकानिकलाचिकाभरणानि योगोयुगलं तुटिकावाड्डरच्चिका ज्जोमंकार्थीसिक्कवत्तकंसरीमयं पट्टं पट्टसूत्तमयं दुक्क लंडुकुलाभिधानट्ठवल्कनिधन्नं श्रीप्रभृतयः षट् देवताप्रतिमाः संभाव्यं तेनंदादीनां लोकतोर्योवसेयः अन्यत्वाज्जः नन्दं वृत्तं लोहासनं भद्रं शरासनं सूदकइतियत्प्रसिद्धं तलत्तिअस्यैवंपाठः अट्टतलेत्तलयवरे सव्वरयणामए नियगवरभवरणकेज्जेत्तलत्तलत्तचाः संभाव्यं ते

ध्वजाः केतवो वावयन्ति गोकुलानि दशसाहस्रिकेण गोत्रजेनेत्येवं दृश्यं नाडयन्ति बत्तीसद्बद्धेणं नाडगेणमिति दृश्यं द्वाविंशद्वद्धं द्वाविंश  
 त्यातवद्धमिति व्याख्यातारः आसन्ति असे आसप्यवरे सव्वरयणामए सिरिधरपडिरूवे श्रीगृहं भांडागारं एवं हस्तिनोपि यानानि श  
 कटादीनि युग्यानि गोकुलविषये प्रसिद्धानि जंपानानि द्विहस्तप्रभाणानि चतुरस्राणि वेदिकोपशोभितानि शिविकाः कूटाकारेणा  
 च्छादिताः स्थन्दमानिकाः पुरुषप्रभाणायामा जंपानविशेषाः गिह्वयः हस्तिनलपरिकोष्ठरूपामाबुषंगिलंतीवेति लाटानां यानि  
 अडपल्लानानि तान्यन्यविषयेषु धिक्खीओ अभिधीयन्ते रहन्ति सांग्रामिकाः पारयानिकाश्चाष्टाष्ट तत्संश्रामरथानां कटीप्रमाणाफलक  
 वेदिका भवति वाचनान्तरे ध्यानंतरमखाहस्तिनश्चाधीयन्ते तत्र ते वाहनभूताः ज्ञेयाः गामन्ति दशकुलसाहस्रिकोश्रामः तिविहदीवत्ति  
 तिविधादीपाः अबलस्वनदीपाः ऋह्ललावद्वाद्दुत्यर्थः उत्कम्पनदीपाः ऊह्लदण्डवन्तः पञ्जरदीपाः अम्रपटलादिपञ्जरयुक्ताः लवोष्ये  
 तेतिविधाः सुवर्णरूपाः तर्दुभयमयत्वादिति एवंस्थालादीनि सोवर्णादिभेदात्तिधावाच्यानि काद्रविकाकलाचिका अत्रपडयत्तितापि  
 काहस्रकः अवक्कत्ति अत्रपक्वातापिकेति सम्भाव्यते भिसियाडत्ति आसनविशेषाः करोटिकाधारिकाः स्थगिकाद्रवकारिकाः परिहा  
 रिहासकारिकाः शेषं रुद्धितोऽवसेयं अन्नं चेत्यादि विपुलं प्रभूतं धनं गणिमघरिसमेयपरिच्छेद्यभेदेन चतुर्थकंकनकंच सुवर्णरत्नानि

शकके तनादीनि स्वस्वजातिप्रधानवस्तूनिवाभण्यच्चन्द्रकान्ताद्याः मौक्तिकानिचशङ्खाच्चप्रतीताएवशिलाप्रवालानिचविद्रुमाणिअथवा  
शिलाच्चराजपट्टाःगन्धेपेषणशिलाचप्रवालानिचविद्रुमाणिरक्तरत्नानिच पद्मरागादीनिएताव्येवसंतित्तिसत्विद्यमानंयत्सारं प्रधानंस्वा  
पतेयं द्रव्यंतदत्तवन्तावितिप्रक्रमः किंभूतंअलाहिन्तिअलंपर्याप्तं परिपूर्णंभवतिजावत्तियावत्यरिमाणं आसप्तमात्कुललक्षणेशेभवः

रियाओअथं चविपुलधणकण्ठगरयणमणिमोत्तियसिलप्यवालरत्तरयणसंतसारसावतेज्जं अलाहिजा  
वआसत्तमाओशुलवंसाओप्रक्रामंदाउं प्रक्रामंपरिभाएउतएणंसेमेहेकुमारिएणमेगाएभारि

शब्दकाहिवापेषणकारी आठरपीसणहारी स्त्रीआपेतिहांलगी तथा अनेरोवली विपुलधणो धनगणिम १ धरिमर मेय्य ३ पारिच्छे  
दा ४ एहवेचारभेदेकारी जेधनकनकसुवर्णरयणरत्नकर्केतनादिक अथवापोतानीर जातिमांहेप्रधानउत्तमवस्तुतेरलकहीये मणिचंद्र  
कांतादिमोतीसंखसिलाराजपट्टादिकप्रवालारत्तरयणरातारत्न पद्मरागादिक एसगलासंतच्छतोविद्यमानजसारप्रधानएहवो स्वापते  
यद्रव्यदेताछे राजाराणी तेद्रव्यकेहवोछेआलाहिपरिपूर्णसंपूर्णजावजेतलो परिमाणआसत्तमाओआमर्यादाकरीसातमायकी कुल

कुलबंधः तस्मात्सप्तमं पुरुषं पयावदित्यर्थः प्रकाममत्यर्थं दातुं दीनादिभ्योदाने एवं भोक्तुं स्वयं भोगे परिभाजयितुं दायादीनां परिभाजनेत्यर्थ  
रिमाणं दत्तवन्ताविति प्रकृतं उष्णिं तित्तुपरिफुट्टमाणेहिं सुहं गमत्यएहिंति स्फुटझिरिवाऽतिरभसास्फालनात्खदं गभस्तकैर्मदं लशुखपुटैः

आएगमेगंहिरण्यकोडिंदलयइएगमेगं सुवण्यकोडिंदलयइजावएगमेगं पिसण्यकारिंदलयइअण्यं चविउ  
लंधण्यकण्यगजावपरिआएउं दलयइ तएणसेमेहेकुमारैउष्णिंपासायवरगए फुट्टुमाणेहिंसुं इं गमत्यएहिं

लक्षणां सनेविषे ह्यो एतलेसातपीढीताई पञ्चवे तेहबुं प्रकामअतिघणुं दीनदया मणादिकने दानदेवाभणी प्रवर्त्तेछे इमप्रकामघ  
णुं पते भोगविवाभणी प्रवर्त्ते छे तथाप्रकामघणुं जपरिभाजनविहची देवाभणी प्रवर्त्ते छे गोलीयाने एतावता इमभोगवेदानदीयेअना  
थभणी गोलीने विहची आपेतथापिसातपीढीताई धनघटे नहीं एहबुंधनदीधो कन्यानानामातापिताइं तिवारपच्छी तेसेघकुमार एकेकी  
भार्याभणी इकेकी हिरण्यरूपानीकोडिप्रते आपे जावशब्दथी वीजाइ बोलकहिवा एकेकीभणी प्रेषण्यकारिका आपेतथाअनेरोवन्नी  
विपुलघणो धनकनकरत्नमणिमोती शंखराता रत्नछतो विद्यमान जेसार प्रधानद्रव्यतेपरिपूर्णसातपीढीताई खातादेतागोलीनेविह

वरतरुणीसंप्रउत्तहिं बत्तीसद्बद्दएहिंनाडएहिं उवगिज्जभाणेऽउवलालिज्जभाणेऽ सहफरिसरस  
 ख्वगंधविउलेमाणुस्स एवामभोए पच्चणुभन्नभाणे विहरइतेणंवालेणं तेणंसमएणं समणेभगवंम  
 हावीरे पुव्वाणुपुव्विंचएसाणे गामाणुगामंडुइज्जभाणे सुहंसुहेणंविहरभाणे जेणामेवरायगिहेण

चीआपवाभणी पड्ढचे एतलोधनादिक आपेमेघकुमार तिवारपच्छी मेघकुमार ऊपरप्रासादमांहे वरप्रधानरक्षोथको एतलेसात  
 भसीयाप्रासादऊपररक्षोथको फूटताळे अतिघणु रभसपणेकरी आस्तालवाथकी तेणेकरीसृदंगमसकेमा  
 दलनेमसकेएतलेमादलनेध्वनेकरी वरप्रधान युवानस्त्रीनासंयोगसहित वतीसबहुवतीशपाले करीवहुवांध्यो जेनाटकनाचवोट्यक  
 लातेणेकरीगाईतोथको पंचेंद्रियनाभोगने योग्यएहवा गीतगान तेणेकरीउपलाल्यमानक्रीडानी लीलाइं करी क्रीडाकरतोथकोशब्द  
 फरसरसरूपगंधएहवा विपुलघणा सनुध्यसंबंधीयाकामभोगप्रते भोगवतोथको मेघकुमार विचरेछे तेकालनेविषे तेसमयनेविषेअ  
 मणतपस्वीभगवंतज्ञानवंत श्रीमहावीरदेव पूर्वानुपूर्वी केडाकेडे अनुक्रमे चालताथका ग्रामानुग्रामे एकग्रामकेडेतेग्रामआवेतेउल्लं





रावगिहेणयरेसिंघाडनइत्यनेनालापकांशेनेदं द्रष्टव्यं सिंघाडगतिगचउक्कचञ्चरचउल्ला, हसहापहपहेहुमहयाजणसहइवा इहयाव  
 त्कारणादिदं दृश्यं जणसम्बहेइवा जणवोलेइवा जणकलकलेइवा जणुम्मीइवाजणुम्भलियाइवा जणसन्निवाएइवानुज्जणोअसमणस्स  
 एवमाइत्तखइ एवंपणवेइवाएवंपरूवेइ एवंभाखेइ एवंखलुदेवाणुप्पियासजणेइतिलयरेजावसंपाविउकामेपुव्वाणुपुब्बिंचरभाणेगामाणु,  
 गामंदूइज्जभाणे इहसंपत्ते इहसमोसइडे इहेवरायगिहेणयरेगुणसिलएचेइएअहापडिखुवं उग्गहं उगिण्हितासंजमेणंत  
 वसाअपाणंभावेमाणेविहरइ तंमहाफलंखलुभोदेवाणुप्पियातहाखुवाणं अरुत्ताणंभगवंताणं नामगोयस्सविसवणंयाए विमंगणु


यरेगुणसिलएचेइए जावविहरइ तएणंसैरायगिहेणयरे सिंघाडगमहया जणसहइवा जाववहवे

धेनहीं एतावतातिहांइजरहे सुखेइविचरता एतलेजतावलानहीं आलानेसंयमने बाधानुवे तिमविहारकरताजिहांराजगृही  
 नगरीनेविषे गुणशिलनामा चैत्यस्थानकच्छे तिहांसमोसखा यावत्त्रिचरेच्छे तिवारपच्छीते राजगृहनगरनेविषे सींधोडाफलनेआ  
 कारेनिखूणामार्गच्छेतिहां सहवामोटा जनलोकनो शब्द आलापसंलापरूप यावत्शब्दथकी घणाउग्रकुलना भोगकुलनाराजन्यकुल

गत्रभिगमगावंदणनमंसणपडिपुच्छणपज्जु वासणयाए एगस्सवि आयरियस्सधम्मियस्स सुवयणस्स सबणयाए किमंगणुणविउलस्स अठ  
 स्सगहणयाए तंगच्छामोणं देवाणुप्पियासमणं भगवंसहावीरं वंदासो नमंसामो सक्कारिसोसस्माणेसो कस्साणं मंगलं देवयं वेइयं पज्जु वा  
 सामो एंणोपुब्बभवेहियाए सुहाएखाए निस्से यत्ताए आणुगामियत्ताए भविस्सइत्तिकट्टुत्ति वहवेउग्गा इहयावत्करणादिदं द्रष्टव्यं  
 उग्गाउग्गपुत्ता भोगाभोगपुत्ता एवं राइणाखत्तिवा माहणाभडाजोहा मस्सइलेच्छइ अणो यत्रहवेराईसरतलवरमाडं वियकोडुं वियइ  
 दभसेट्टिसेणावइसत्थवाहप्पभिईओ अप्पे गइयावंदणवत्तियं एवं सक्कारवत्तियं सस्माणवत्तियं कोउहलवत्तियं  
 असुयाइ सुणस्सामो सुयाइं निस्सं किवाइं करिस्सामो अप्पे सुं उभेत्ताअगाराओअणगारियं पव्वइस्सामो पंचाणुब्बइयं सत्तिसिक्खावइ  
 वंदुवालसविहंगिधम्मं पडिवज्जिस्सामो अप्पे गइ याजिणभत्तिराणेणं अप्पे गइयाजीयमेयंति कट्टु एहायाकयवलिकम्माकयको  
 उयसंगलपायच्छित्ता सिरसाकंठेमाल कडाआविद्धमणि सुवग्गा कप्पियहारइहहारतिसरयपालं वपलं वभाणकडिसुत्तय सुकयसोभा  
 भरणावत्थपवरपहिरिया चंदणोवलित्त गायसरीरा अप्पे गइयाहयगया एवं गयरहसित्तिवियासंदमाग्णिया अप्पे गइयापायविहार  
 चारिणोपुरिसवग्गुरापपरिक्खित्ता महयाउक्किट्ठीसीहनायवोलकलररेवेणं समुहरवभयं पियकरेमाणा रायगिहस्सणथरस्समज्जं मज्जे



गति अस्यायमर्थः ष्टङ्गाटकादिषु यत्र महाजनशब्दादयस्त्ववज्जनो अन्योन्यस्यैवमाख्यातीतिवाक्यार्थः महायाजणसद्दे इवत्तिमहा  
 न्जनशब्दः परस्परालापारिरूपः इकारोअलंकारार्थः, वाशब्दः प्रधानरापेक्षयासमुच्चयार्थः अथवासद्दे इवत्ति इहसंधिप्रयोगादिति  
 प्रयोगोद्गृह्यः सचोपप्रदर्शने यत्रअहान् जनशब्दइतिवा यत्रजनव्यूहइतिवातत्समुदायइत्यर्थः जनबोलोव्यक्तवर्णोर्ध्वनिः कलकलः स  
 एवोपलंभमानवचनविभागः जन्मिःसंबन्धः एवंउल्कालिकालह्युतरः समुदायएव सन्निपातोपरापरस्थानेभ्योजनानामेकत्वमीलनंतल  
 वज्जनोन्योन्यस्य आख्यातिसामान्यतः प्रज्ञापयतिविशेषतो बोधयतिवा भाषतेव्यक्तपर्यायवचनतः प्ररूपयति उपपत्तितः इहआगए  
 त्तिराजगृहेइहसंपत्तेत्ति गुणशिलके इहसमोसडुडेत्ति साधूचितावग्रहे एतदेवाह इहेवरायगिहेत्यादि अहापडिखुवंति यथाप्रति  
 रूपमुचितमित्यर्थः तमितिस्मात् महाफलंति महत्फलं अर्थोभवतीतिगस्यं तद्द्वारुवाणंति तत्प्रकारस्वभावानां महाफलजननस्व  
 भावानामित्यर्थः नामगोयस्वत्ति नाम्नोयादृच्छिकस्याभिधानस्यगोत्रस्यगुणनिबन्धस्य सवणयाएत्तिअवणेतिकिमंगपुणत्तिकिमंगपुन  
 रिति पूर्वोक्तार्थस्यविशेषद्योतनार्थः अंगेत्यामंतणे अथवापरिपूर्णएवायंशब्दोविशेषणार्थइतिअभिगमनंअभिसुखगमनंवंदनंस्तुतिः नम  
 स्युनंप्रणमनं प्रतिपुच्छनं शरीरादिवात्तीप्रश्नः पर्थुपासनंसेवा एतद्भावस्तत्तातेया तथाएकस्याप्यार्थस्य आर्थप्रणेतकत्वात् धार्मि कस्य



धर्मप्रतिबद्धत्वात् वंदासोत्तिस्तुमः नमस्यासः प्रणामासः सत्कारयामः आदरं कुम्भः वस्त्राद्यर्चनं वा सन्मानयामः उचितप्रतिपत्तिभिः  
 कल्याणं कल्याणहेतुं मङ्गलं दुरितोपशमहेतुं देवतदेवं चैत्यमिव चेत्य' पदुपासयामः सेवास्रहे एतत्प्रणोचस्वाकं प्रेत्यभवेजन्मान्तर  
 द्वितीयपथान्नवत् सुखायशर्मणे क्षमायसंगतत्वाय निःश्रेयसायसोच्चाय अनुगामिकात्वाय भवपरंपरासुखाबुवं वस्तुखायभविष्यतीति  
 क्त्वाद्भृतिहेतोर्वहवेऽग्राआदिदेवावस्थापिता रत्नबंधजाः उग्रपुलाहाएव कुमाराराज्यावस्थाः एवंभोगाः आदिदेवेनैवावस्थापित  
 गुरुबंधजाताः राजन्याभगवद्भवस्य बंधजाः क्षत्रियाः सामान्यराजकुलीनाः भटाः शौर्यवंतो योधास्ते श्योविद्यिष्टतराः मत्स्यकिनीले  
 च्छकिनश्च राजविशेषाः यथाश्रयन्ते चटकराजस्याष्टादशगणराजानो नवमस्तकिनो नवचलेच्छकिन इति लेच्छइति क्षत्रिजोव्या  
 ख्याताः लिश्वइति संस्कारेणेति राजेश्वरादयः प्राग्वत् अश्रे गह्वरिचि अथ्ये केकेचन वंदनप्रत्ययं वंदनहेतोः शिर  
 साकंठे चकृताहतामालायस्ते शिरसाकंठेभालाकृताः कल्पितानि हारार्द्ध हारतिसरकाणि प्रालंबश्च प्रखम्बमानं काटिसूतकंचयेषांते  
 तेतया तथाऽन्यान्यपि सुकृतशोभान्याभन्यानि येषांते तथा ततः कर्मधारयः चन्दनावलिप्राणिनालाणि चलतत्तथाविधं शरीरं येषांते  
 तथापुरिसवगुरन्ति पुरुपांशांवागुरेववागुरापिरिकरः महयामहताउत्कृष्टश्च ध्यानं दमद्दाम्भनिः सिंहनादचत्रोत्सवर्णव्यक्तिवर्जि

ताध्वनिरेवकलकलञ्च व्यक्तवचनः सएवएतस्रच्चणो योरवखेन समुद्ररवभूतमिव जलाधिपब्दप्राप्तमिवतन्मयमितिवेत्यर्थो नगरमिति गस्यतेकुर्वाणाः एगदिसिन्ति एकयादिद्या पूर्वोत्तरलक्षणाया एकाभिसुखाः निर्गच्छन्ति इमं चयंति इतच्चरायमग्नं उलोएमाणेएवंचणं

उग्रेभोगी जावरायगिहस्वरायस्वस्रस्रं एगदिसिंएगाभिसुहायिगच्छंति इमं चयंसेसेहेकुमारिउ  
धिंपासायवरगरफुडुमाणेहिंसुइं गसत्यएहिंजावमागुस्वएकामभोएभुं जमाणे वासगं च उलोएमाणे  
इएवं चयंविहरइतएणंभेहकुमारितीहवेउगर्भे भोगेजावएगदिसाभिसुहेयिगच्छमाणेपासइस्ता कंचु

नाजपनामनुष्य जावशब्दधीबीजाइशब्दकहिवा राजण्टहनगरनेविवे मध्ये मध्ये एकेदिशेएकमुखालोकनासन्इहजाइहेनीसरेहे  
एहवेप्रस्तावे एहप्रत्यक्षंमेषनामाकुमार सातलूमीया प्रासादजपरप्रधानधरजपरबैठोयको फुटताहे धगुरभसपणेकरी आस्नालवा  
शकी वजाडवायकी तेणेकरीरुदंगमादलने शब्देकरी जावशब्दधीसर्वपाछिला बोलकहिवा भोगीपुरुषनेवोग्यमनुष्यसंबंधीयाभोगप्रते  
भोगवतोअनुभवतोयको राजमार्गप्रते आलोकतो देखतोयको एणेप्रकारे भेषकुमारविचरेहे तिवारपछी भेषकुमार तेघणाउग्रकुल

विहरद् तएणंसेसेहेकुमारि तेवहवेउगगे जावएगदिसाभिसुहे शिगच्छमारणे पासइपासिताइत्यादिसु टंइन्द्रमहोत्सवः एवमन्यान्यपि पदानि नवरंस्नान्दः कार्त्तिकेयः रुद्रः प्रतीतः शिवोमहादेवः वैश्रमणोयक्षराट् नागोभवनपतिविशेषः यक्षोभूतश्च व्यन्तरविशेषः चैत्यं

इज्जपुरिसंसद्हावेद् एवंवयासौकिष्णं भोदेवाणुप्पिया अज्जरायगिहेणयरे इं दमहेइवा खंदमहेइ  
वाएवंरुद्दसिवेविसमणणागजजखभणुयतितलायणक्खचेइयपव्वयउज्जाणगिरिजताइवाजउयंउग्गा

नाभोगकुलनाराजन्य कुलनाक्षतिशकुलना मनुष्यनासन्नूह जावशब्दश्री बीजाइवोलकहिवाराजगृहनगरनेमाहिथइनेएकदिसेएक जादिशिने साधुहानीसरेछे जाइछे देखेदेखीनेकुंचुकीपुरुषनगरीवार्त्तानाकहणहारारपुरुषप्रतेतेडावे तेडावीने एह्वोकहतोऊओ स्युंहे हेदेवानुप्रिय अजराजगृहनगरनेविषे इं द्रमहोत्सवछे वाअथवास्कां दस्वामी कार्त्तिकेहनो उत्सवछे एणप्रकारे रुद्रदेव विशेषनो महोत्सवशिवमहादेव वैश्रमणशूवेरदेवता नागभुवनपतिविशेष यक्षभूतयं तरविशेषतेहनामहोत्सवछेस्युंतथानदीतलावण कखट्त्तचेत्यसामान्यप्रकारेप्रतिमापर्वतेतेहनामहोत्सवछे उद्यानयाताउद्यानउजाणीनिमित्तवनखंडे जाइबोगिरियातागिरिनिमित्ते

सामान्येन प्रतिमा पर्वतः प्रतीतः उद्यानयात्रा उद्यानगमनं गिरिवातागिरिगमनं गह्वियागमनपवित्रीएत्ति गृहीतागमनप्रवृत्तिको

भोगाजावएगदिसिं एगाभिमुहृणिगच्छंति तएणसेकंचुइज्जयुरिसे समणस्सभगवओमहावीरस्स  
गह्वियागअणपवित्तिएमेहकुमारं एवंवथासीणोखलुदेवाणुप्पियाअज्जरार्यागिहेणयरे इं दमहेइवा  
जावगिरिजत्ताइवा जस्स एएउग्गाजावएगदिसिं एगाभिमुहृणिगच्छंति एवंखलुदेवाणुप्पियासम

जाइवोतेस्युक्के जेकारणथकी उग्रकुलनाभोगकुलनारराजन्त्यकुलनां ऊपनामनुष्यना समूहएकदिसेपूर्वउत्तरलक्षणेकरी एकाभिमुखा  
एकभगवंतप्रते अभिमुखसन्नु खजेहाने एहवाथकां जायक्के तिवारपक्कीते कंचुकेपुरुषतिहां जइने अमणतपस्वीभगवंतज्ञानवंतसंपूर्णे  
ठकाराई सहितश्रीमहावीरदेवनो सहियापरिपूर्णसंपूर्णपणे करीग्रह्णोक्के आगमनआविवानोप्रवृत्तिकवात्ती रूपसमाचारजेणेएताव  
ताभगवंतश्रीमहावीरदेवनी आव्यानीवात्ती जाणीपक्केपाओवली मेघकुमारप्रते इमकहितोऊओ नोनिषेधेखलुनिश्चयहेदेवाबुप्रिय  
हेमेघकुमार आजराजगृहनामानगरनेविषे इंद्रनोमहोत्सवनथी जावयब्दथी बीजाखंदमहेन्द्रवाइत्यादि शब्दगिरिजत्ताइवागिरि

गृहीतवार्त्तइत्यर्थः चाउध्वंठं आसर हंतिचतस्रोषण्डाअश्वप्रधानोरयोऽश्वरथः युक्तमेवअश्वानिदिभिश्चित्तिदुष

शेऽ आद्रगरेतित्ययरे इहभागएइहसंपत्ते इहससोसेड्डे इहचेवरायगिहेगुणिसिलएचेइए अहा  
पडिजावविहरद्र तएणसेमेहकुमारे कंचुइज्जपुरिसस अंतिएएयमइ सोच्चाणिसस हइतुडेकोडुंवि

पर्वतजाइवी जेकारणयकी एंडअकलनाओगकुलनाराजल्य च्चित्तियकुलनाऊपना लोकनाससूहएकदिसे एकभगवंतप्रते अभिमुखस  
न्नु खसासुहानीसरेके जाइकेते एवंणेप्रकारे खलनिच्चयहेदेवानुप्रिय हेमेषकुमार अमणभगवंतश्रीमहावीरदेवस्युतधर्मनीसूतथी  
आदिनाकरणहारके तीर्थचतुर्विधसंधनाकरणहार इहाराजगृहनगरने विषेआव्या इहाराजगृहनगरनेविषे समी  
सख्या इहांचेवनिच्चय राजगृहनगरनेविषे वाहिरगुणशिलचैत्यने विषेसाधुने योग्यअवग्रहआज्ञाथानकनीग्रहीने मांगीनेसंयमसत  
रेभेदे तेणेकरी पोतानोआत्माभावताइणभावनाइ प्रवर्त्तताविचरेके तिवारपछीतेमेषनामा कुमार कंचुकी पुरुषनगरवार्त्तानाकह  
णहारपुरुषतेहनाअंतिक समीपनेविषे एहपूर्वोक्तअर्थसांभलीने हीयानेविषे अवधारीने हर्षगुष्टसंतोषपास्योथको कौटंभिकपुरुषसे



अपुरिसिसद्दावेद्द२ एवंवयासी खिप्पाभिवचाउधंटं आसरहंजुत्तमेवउवद्वेहतहत्तिउवणेद्द तएणंसे  
 मेहेणहाए जावसव्वालंकारविभूसिए चाउधंटं आसरहंदुण्ढेसमाणे सकोरंटमसुद्धामेणंछत्ते णंध  
 रिज्जमाणेणं महयाभडचडगरविंदपरियालसंपरिवुडे रायगिहससणयस्सउभंमउभंकेणंणिएगच्छ

वकपुरुषआदेशकारी पुरुषप्रते तेडावेतेडावीनि इमकहितोद्धञ्चोमिधकुमार च्चिप्रउतावलोएवनिञ्चेचाउधंटं च्यारछे घंटाघाउलंबा  
 यमानलांवी जेरथनेविषे विज्जपासेवेघंटाएकआगलिघंटाएकपाच्छलिघंटा इमच्यारघंटासहित एहवो अश्रुधोडे करी प्रधानजेरथते  
 अश्ररथजुत्तमे वधोडे करीसहित जेएतलेधोडवहिलजोतरिउवद्वेहयापोआणोइहं तैवचनतहत्ति अंगिकारकरीतेपूर्वोत्तकुमारनी  
 आजाकारीपाच्छीसूपे तिवारपच्छीतेमेषकुमारस्नानकीधो जावशब्दधीवीजाइबोलकहिवा घरनादेवतानीपूजाकीधीसर्वअलंकारसुक  
 टादिके अलंकास्योथको च्यारघंटासहित एहवो अश्ररथधोडिवहिलप्रतेचढेवेठो थकोकोरंटनामा हच्चनाफूलनीगंध्याफूलनीदाम  
 मालातेणेकारीसहित छत्वमेघाडंवरनामाकत्व तेणेधरीजतेछत्ते महत्तमोटुंजेभटसुभटतेहानो चडगरहंदविस्सारवंतसम्बहतेलच

तेति आरूढीमहयाङ्ग्यादि महत्तयङ्गानांचटकारद्वंद्विसारवत्वस्महस्रक्ष्णोयः परिवारस्तेनसंपरिष्टतोयःसतथा जृंभकदेवास्ति  
र्षकुलीकचारिणः उवयमाशेत्ति अत्रपततो व्योभागणाद्वतरतः उप्पचतेत्ति भतलाहुत्पततो इद्वा सचिन्तेत्यादिसचित्तानांद्रव्याणां

इहृत्तानेणामिन्वगुरुसिलएच्चइएतेणामिन्वउवागच्छइहृत्तासमणस्सभगवओमहावीरस्सच्छत्ताइच्छत्तंप्रडा  
गइहृप्रडागंविज्जाहुरचारणेजंभएयदेवेउवयमाणेउप्पयमाणेप्रासइहृत्ताचाउघंटाओ आसरहाओप

णजेपरिवार तेणेकरीसंसयक्खलीपरिपरिवस्योच्छेजेसेषकुमारएहवोयको राजगटहनगरनेमाहिथईने नीसरेनीसरीने जिहंछेगुण  
शिलनामायत्तनोचैत्थदेहरोच्छेतिहाजआविआवीने अय्यएपतस्वीयगवंतञ्चानवं तसहवीरदेवनाचोवीसच्चतिशवच्छनातिच्छलच्छलउपर  
छलतेप्रतेदेखे ध्वजाउपरध्वजातेप्रतेदेखे विद्याधरसायुअनेचारणनायासायु तेप्रते उं चाउत्पततादेखे तथाजृंभकदेवतातिरच्छाचा  
रीने आकाशयकीउतरता आवतादीठावांदवाभणी तथाभूमियकी उं चाउत्पततावांदवाजातातेप्रते देखेदेखीने च्यारघंटासहित  
अश्वरथघोडिवहिलतेहयकी सेषकुमारहेठोजतरैजतरैने असणभगवंतश्रीमहावीर प्रतेपंचविधपंचप्रकारनोअभिगमनसासुहा

पुत्र्यतां वलादीनां विउसरण्याएत्ति व्यवसरणेन व्युत्सर्जनेन अचित्तानां द्रव्यानामलङ्कारवस्त्रादीनामव्यसरणेनाव्युत्सर्गणकचिद्विद्योसरण्यायेत्तिपाठः तत्र अचेतनद्रव्याणां छत्वादीनां व्युत्सर्जनेन परिहारेण उक्तं च अवयवेषूपचकञ्जुहाणि रायवरवसभचिंधभयूणि छत्तं खगोवाणहमउडंतहचामराउत्ति एकाशाटिकायस्त्रिं सत्तथा तच्चतदुत्तरासंगकरणं च उत्तरीयस्य न्यासविशेषस्ते न चक्षुःस्पर्शदर्शने अञ्जलिप्रग्रहेण हस्तजोटेनेन मनसा एमत्वकरणेन एकाग्रत्वविधानेनेति भावः कचिदेवंति भावेण तिपाठः अभिगच्छतीति

चौरुहइरत्तासमणं इपंचविहेण अभिगमेण अभिगच्छं तितंजहासचित्ताणंदव्वाणं विउसरण्याएअच्चित्ताणंदव्वाणं अविउसरण्याए एगसाडियउत्तरासंगकरणेण चक्खुफासे अजलिंपगहेणं मणसे ए

जाइवानोविधतेणेकरी सामुहाजाइं तेकहेक्के सचित्तद्रव्यफलंतवोलादिकसचेतनतेहनो विसर्जनकरे अलगाम्भूके अचित्तद्रव्यवल्लआभवरणादिकअचेतनतेहनो विसर्जननकरे अलगानम्भूके तथा एकसाटिकाजेहविपाटएकठाकरी खीलीसीवीनथी एहवीएजासाडीनोउत्तरासंगकरे तथा भगवंतने हट्टिइं दीठेयके अजलिप्रते ग्रहेवेहाथजोडे तथा मननो एकत्वभावपणोकरे एकभगवनसामुहो

प्रक्रमः महद्महालीयाएत्ति महातिमहत्याः धर्मश्रुतचारिनात्मकं आख्यातियथाचजीवावध्यं तेकर्मभिर्मिथ्यात्वादिहेतुभिर्यथासुच्यन्ते तैरेवज्ञानाद्यासेवनतः यथासंक्लिश्यन्ते अशुभपरिणामाभवन्ति तथाआख्यातीति इहावसरधर्मकथा औपपातिकोक्ताभणितव्याअत्र

गतत्करणेणजेणामेवसमणेभगवंतेणामेवउवागच्छइत्ताससखंइतिवबुत्तोआयाहिहणंपयाहिहणंकरे  
इत्वंदइणंसंइत्ससखणञ्जासखेणाइदूरेसुसुसमाणेसमाणेअंजलिउडेअभिसुहेविविणएणंपज्जु  
वासतितएणंससखंइमेहकुमारखतीसेयमहइमहालियाएपरिसाएसज्जगएविविचित्तंधम्ममाइकव

चित्तराखे जिहांअसणतपस्वीभगवंतमहावीरदेवह्णे तिहांजअवेआवीने असणभगवंतमहावीरदेवप्रते त्रिणवार जीमणापासाथ कीआरंभीने प्रदक्षिणाप्रतेकरे करीने वादेस्तुतिकरे नमस्कारकरेकरीनेअसणभगवंतअमीमहावीरदेवने घणुठुकडोनही अतिदूरवेग लोनहीं शुअूषासेवाकरतोयको नमस्कारकरतोयकोवेहायजोडीसन्धुखंबेठो विनयेकरीपर्युपासनासेवाकरेतिवारिअसणभगवंतमहा वीरदेवमेघकुमारने तेहघणुमोठी वातकेजेपरिखदासहित्ठे एहवीकयासभाने मांहिबैठोयको विचित्रअनेकप्रकारेएतलेपरिखदा



तिभावः रोचयामि करणचि विषयी करोमि चिकीर्षामीत्यर्थः कियुक्तं भवति अथ्युत्तिष्ठा मि अथ्युपगच्छामीत्यर्थः तथा एव भेदतत्त्वज्ञवद्भिः

मि णं भंते णि णं यं प्रावय णं एव भेयं भंते त ह भेयं अ वित ह भेयं इ च्छि य भेयं भंते इ च्छि य भेयं भंते इ च्छि य प डि च्छि य भेयं भंते से ज हे व तं तु भे व य ह जं ण व रं दे वा णु ण्मि य आ भि त त्रो प च्छा भुं डे भ वि ता णं

प्रते सदृङ्कु पडिवजुंक्कुं भंते हे भगवन् निग्रंथरूपप्रवचनजनशासनजिननी आज्ञा इमप्रतीतकण्छुं इशेवचने सुभने करवानीर चियई विषयी भूतकण्छुं करवावाळुंक्कुं अंगीकारकण्छुं अंगवचनार्थकारिसर्वत्र हे भगवन् निग्रंथरूपप्रवचनजनशासन एवं एणे प्रकारे जेतुसे कस्योतेति मज अ वित य सा चूं सदृङ्कुं ए जैन शासन ईच्छो वाळ्यो ए जैन शासन प्रतीळ्यो वारं वारं वाळ्यो वा अथवा भाव यकी पडिवज्यो अंगीकारकीधो हे भगवन् इच्छो प्रतीळ्यो विशेषयी वाळ्यानो वाळ्यो ए जैन शासन भंते हे भगवन् अति सामस्य पणे रोचि ल्यो खादुगारी वा भाव प्रते पास्योते जिम पूर्व तुहे कस्योच्छोतेति मज परं न वरं एतलो विशेषजे हे देवानुप्रिय हे भगवन् सातापितानि पूं एतले पूच्छीने तिवारपछी सुं डयईने प्रवज्जलिं सुं तिवारपछी भगवंतकहे जिम सुखळ्ळे तिम करोहे देवानुप्रिय हे कुभरमा निषेधे

प्रतिपादितं तत्रैवेत्यर्थः तथैतत्तयथा विमुक्तं भवति अवितायं सत्यमित्यर्थः अतश्चिच्छ्रएत्यादिप्राग्वत् इच्छ्रएत्तिइष्टः पडिच्छ्रएत्ति

पव्विदस्वामिअहासुहं देवाणुप्पिया सापडिबंधंकरेहतएणंसेमेहेकुमारि समणंइवंदइणंसंइरेजेणा  
 मेवचाउधंटेआसरहे तेणामेवउवागच्छइ चाउधंटे आसरहं दुहुहइम हयाभउचडकरप्रहकरेणं  
 रायगिहस्रणगरस्समउमंमज्जेणं जेणामेवसएभवणे तेणामेवउवागच्छइरे चाउधंटाओआसरहा  
 ओपच्चोरुहइजेणामेवअस्मापियरो तेणामेवउवागच्छइरेत्ता अस्मापिउणंपायवडणंकरेइरेणंवया

किसु, प्रतिबंधविलंबकरज्योमां तिवारपच्छीते मेवकुमारअमणभगवंत श्रीमहावीरदेवप्रते वांदेशुतिकारेनमस्कारकरेकरीने जिहां  
 चातुधंटे अश्वरथधोडिवहिलच्छे तिहांजआवे चातुधंटेअश्वरथधोडावहिलप्रते आरूढयाइचढेवसे मोटोजेसुभटानो समूहतेबल  
 णजेपरिवारतेणे करीपरिवस्यो राजगृहनगरने मध्यमध्यथईने जिहांपीतानो भवनघरछे तिहांआवेआवी नेचारधंटाछे जेहने  
 विषेएहवा अश्वरथधोडि बहिलतेहथकी हेठोउतर जतरिने जिहांमातापिताछे तिहांआवे आवीने मातापिताने पगेपडणोकरे

सी एवं खलु अस्मयाओ मएसमणस्स भगवओ महावीरस्स अति एधम्मं गिंसंते सेवियत्ते धम्मं इच्छि ए  
 प्रडिच्छि ए अभिरुइ एत एणं तस्स मेह कुमारस्स अस्मापियरो एवं वयासीधसोसिणं तुमंजायासं पुसोकाय  
 त्यो कयलक्खणोसिणं तुमंजायाजिणं तुमेसमणस्स इअंति एधम्मं गिंसंते सेवियते धम्मं इच्छि ए प्रडिच्छि ए अ  
 भिरुइ एत एणं सेमेहं कुमारे अस्मापियरो दोअं पितच्चं पिएवं वयासी एवं खलु अस्मयाओ मएसमणस्स इअं

करीने एतावतापगेलागीने इमकहितौल्लओ इमपूर्वोक्तप्रकारे खलु निश्चय अहोमातापिताओ भेअयणअणवंत श्रीमहावीरदेवना  
 समीपयकी धर्मश्रुतधर्मचारिल धर्मसांभल्यो तेअपि निश्चय वलीसेधर्मं इच्छोवांछो धर्मं प्रतीच्छो विशेषधीवांछो अभिसामस्यपणेक  
 रीरोचिथ्यो धर्मं तिवारपच्छीते मेधकुमारने जाताअनेपिताएहवो कहताऊआ कुमरप्रते धत्थेत्तुं हेपुल संपूर्णपरिपूर्ण्युन्यवंतच्छे  
 वांछो धर्मपास्ये क्षतार्थेक्षे क्षतकीधोक्षे फलवंतल्लो लक्षणजेणे एहवो तुययोहेपुल जेकारणयकीते अमणभगवंत श्रीमहावीरनासमी  
 पयकी धर्मअतिशय करीसांभल्यो तेअपि निश्चयतेधर्मते इच्छोवांछो प्रतीच्छो विशेषधीवांछो अभिसामस्यपणे करी वांछो तिवारप



पुनः पुनरिदः भावतो वा प्रतिपन्नः अभिश्चितः स्वादुभावस्त्रिवोपगतः अगाराओत्तिगटहात्किः क्रय्यानगारितां साधुतां प्रब्रजितुं मेमणो  
 जायसिएणंति सनसिभवंदञ्चानसिनं तन्वानोमानसिकं तेन अनहिर्वृत्तिनेत्यर्थः तथास्वे दागता आगतस्वे दाः रोमकूपपयेषुतानि

ति एधन्तो णिसंतिसे विवधमो इच्छि एप्रडिच्छि एअभि एतं इच्छां निरां असाया ओबुभेहिं अरुअणसा ए  
 सभाणे सभाणस्व३ अंति एसुं डेभविताणं अगाराओ अणगारि थंपव्व इ ए तएणं साधारिणी देवी तम  
 णिइं अवंतं अणियं अमणुणं अमणां अं अमुययुव्वं फरुसं गिरं सोच्चारिसस्स इमेणं एयाख्वेणं मणोमा

कीसेवनामा कुभारमातापिताप्रते वेवारतिणवारइभकहितोद्धओ सेवकुभार इस्मनिचे अहोमातापिताओ मेअमणभगवं तओमहा  
 वीरदेवनासमीपथनी सांभल्यो तेअपिनिचयवली धर्मइच्छो प्रतीच्छो विशेषथीवाच्छो विशेषथकीरोचव्यो धर्म तेकारणथकी इच्छुं कंवाच्छुं  
 कं अहोमातापिताओ तुहारीआन्नाइवारी आदेशदीघे थके अमणभगवंत ओमहावीरनासमीपनेविषे सुं डयईने अगारघरथकी  
 नीकलीने अजगारतापणोसाधुपणाप्रते पडिवजवाभणीदीचालेवाभणी सुभनेकल्पे तिवारपच्छी तेधारणीनामा देवी तेअनिष्ट

खेदागतरोमशूपाणिततएव प्रगलंति चरंति विलीनानि च क्लिन्नानि गात्राणि यस्याः सा तथा शोकाभरेण प्रवेशितांगी कंपितगालाया  
सातत्रानि शेजाः दीनस्ये विविमनस इव च वदनं वचनं वायस्याः सा तथा तत्क्षणेनैव प्रव्रजामीति वचनत्रयणक्षणाएव अवरुग्न् न्तानं

णसि एणं महायुत्तदुर्गस्यं अभिभूयासभाणी सेया गयरोमशूवप्रगलंत विलीण गायामोयभरेशप्रवि  
सिथंगीणि त्तयादोणविभण वयणाकारयलसखियव्व कमलमालातक्खण लुलुग्गदुव्वलसरीरालाव

पाडुओ अकातअकलनीय अप्रियअवल्लभअमनोशरूडोनहैं मननेरचेनहैं एवहो पूर्वकदीनथीसांभल्यो एहवो कठिनकठोरगिरा  
वाणीप्रतेसामलीनेहीयाने विषेअवधारीने एहवोएतदरूपवचनेकरीएहवुं मननेविषे जपने जेमानसिकमनसंवंधी वाहिरनीकल्यो  
नथीतेणेकरीओटो पुतनोडुःखतेणेकरी अभिसामस्यपणेघणुपीडीपरभवीयकी खेदपरसेवा आयाहेजेरोमशूपरोमनामूलनेविषे  
तेकारणयकी जेप्रगलंगलताहे चरताहे क्लिन्नगात्रशरीरयथोहे जेहनोएतलेरोमर परिसेवानापांणीनीसस्यातेपरसेवानेवावेक  
करीभीनाशरीरसमलकाकरासरिखायथा हेजेहने तथाशोकेभराणी तेणेकरीकंपितकंपायमानअंगशरीरहे जेदुसणीदुबलीयईहे

र्वलंचयरीरंयस्याःसातथा लावण्ये नमून्या निष्क्यायागतश्रीकाचयासातयेति पदत्वयस्यकर्मधारयः दुर्बलत्वात्प्रथितिलानिभूषणानि  
यस्याःसातथा दृशीभूतवाङ्मत्वात् पतन्तिविगलंति खुम्भियत्तिभूमिपतनात्प्रदेशान्तरेषुनमितानि चूर्णितानिच भूपातादेवभग्नानि  
षवलवलयानियस्याः सातथा प्रश्नष्टसुत्तरीयं यस्याःसातथा ततःपदत्वयस्य कर्मधारयः सुकुमारोविकीर्णः केशहस्तःकेशपाशोयस्याः

यसुखणिच्छायगयसिरौया पसिदिलभूस्रणपडंतवुम्भियसं चुम्भियधवलव तयप्रभमदृत्तरिज्जासु

तेजरहितयद् तयादीनदयामणीनीपरि विमणश्चासणदूमणययोक्ते वदनमुखजेहनो तथाकरतलह्वाथांभांहिसाहएथकां जिमकम  
लनीमालामिलजाइसंकोचाइ तिमकमलनीमालानीपरि दीक्षालेवानीवातसांभलीरांणीसंकोचाइ तेक्षणजतकालजङ्गदीक्षाले  
उक्तं एहवावचनसांभलिवाना क्षणक्षणमेषोन्ने षलक्षणाप्रसावनेविषे एहवाक्षणाएकमांहेउलुगस्नानकर्मणोभांषीदूवल्लोशरीर  
ययोक्तेजेहनो लावण्यचतुराइगुण तेण्णकरीसूनीचेतनारहित यद्देक्ते निष्क्यायशोभारहितयद्दे गतगद्दे श्रीशोभारूपतेजरूपलक्ष्मी  
जेतेदूवलापणायकीपसिदिलप्रकर्ष करीश्रियलाढीलांययाक्ते भूषणश्चाभरणजेहनातथारांणी नावांहदूवल्लोपणायकीपंडितविलगेक्ते

सावथास्त्रच्छीवशान्दष्टे चेतसिसति शुर्वीअलघुशरीरायासातथा परशुनिष्ठत्तेव चम्पकलताकुट्टिमतेलेपितितिसखन्वः निष्टत्तमहेवे  
न्द्रयष्टिरिन्द्रकेतुः विमुक्तसन्धिवन्धनास्यथीद्वतसंधानाधसस्यतीत्यनुकरणे ससस्यमे व्याकुलचित्ततया उवत्तियाएत्ति अपवर्त्तितयाच्चिस

कुमालविकिण्णकंसहत्यासुच्छ्रावसतचेयशुद्धैपरसुणियत्तवचंप्रगलयाणिव्वत्तमहेव्वइंद्रं दलङ्गीविमु  
क्कसंधिवंधणाकोट्टिमत्तलंसिसव्वंगेहिं धसत्तिप्रडियातएणंसाधारिणीदेवीससंभसोवत्तियाएतुरियंक्कं

खुम्मियरांणीने भूमिइंद्रं पडवायकी प्रदेष्टांतरनेविषेनक्याक्के चुरण्यथाक्के भूमिनापडवायकी जभागाक्केषडलावलयावांकणचूडीजेहनी  
पवभट्टअलगोथयोक्के उत्तरासंगजपरओढवानोवस्त्रजेहनो सुकमालसुंहालोएहवोविकीरणंअरहोपरहोविखराणोक्के केशपासचोटीजे  
हनीतयाम्बूर्छानावस्यकी नाठीचेतनाड्डईथकीगुर्वीभारीशरीरथयो तथाफरसीइंद्रकाद्योचांपानीलताभूमिकानेविषेपडेतेहनीपर  
रांणीभूमिपडी तथानिष्टत्तोपरिपूरण्ययोमेह उत्सवविशेषतेहवीइन्द्रयष्टिइन्द्रयभनी लाकडीयांभाएपतेविमुक्तसुंकाणीसन्धिवानंध  
नथीसुंकाणीवंधनथीछूटीएहवीभूमिकानेविषे सर्वाङ्गे करीधसकीहेठेपडे तिमइन्द्रलाकडीनीपररे राणीसर्वाङ्गे धसकाएहवीशब्द

यात्वरितं श्रीघ्नं कांचनभृङ्गारमुखविनिर्गताया श्रीतलजलविमलधारातयाप्ररिषिच्यमानानिर्वापिताश्रीतलीकृतागालयष्टियस्याः साप  
रिषिच्यमाननिर्वापितनालयष्टिः उत्क्षेपकोवंशलादिसयो सुष्टिग्राह्यदंडमध्यभागः तालवृन्तंतालाभिधानवृक्षपत्रतपत्रच्छोटइत्यर्थः

चणभिंंगारश्चुहविणिग्गयसीयलजलविमलधाराएपरिसिंचभाणिव्वावियगायलङ्कौ उक्खेवयता  
खपींटवीथणंजणियवाएणं सकुसिएणंअतेउरपरियणेणं आसासियासमाणी सुत्तावलिससिगास

कारतीभूमिद्रूपडौ तिवारपच्छीतेधारणीदेवी ससम्भ्रममञ्जाकुलव्याकुलचित्तपणेकरी उवेत्तियाए हेठीपडवापणेकरी जतावलोकंचन  
सोनानाभृङ्गारलोटाभारी तेहनासुखयकी विणिग्गयविशेषेकरी निर्गतानीसरी एहवीजेशीतलतादीपाणीनी विमलनिर्मलजघा  
रातेणेकरी परसिंचमानसैंचीयकीछांटीयकी निव्वावियशीतलकीघ्राछे शरीररूपिणीलाकडीजेहनी उक्खेवणवासनादलमयमूठी  
इंग्रहिवायोग्यदंडनोमध्यभागछे जेहनोएहवो तालवृन्ततालनामावृक्षनोपलनोवीजणो अथवाचामडानो वींजणोबंशादिसयग्रहिवा  
योग्यदंडछे एणेकरीजपनोजेवायरो तेणेकरीवींजणानोवायरोकेहवोछेसकुसिएणपांणीना फुहाराविंदूआतेणेसहिततेवींजणापांणी

तदाकारंवाचस्मं मद्यं वीजनकंतु वंशादिमयमेवान्तर्ग्राह्यदण्डं एतैर्जनितोयोवातस्ते न सफुसिएणं सोदकविन्दुना अन्तःपुरजनेन समास्त्रासितासती सुक्तावलीसन्धिकाशाः याः प्रपतन्त्योऽध्वारास्त्राभिः सिंचन्ती ययोधरौकरणाचविमनाच्च दीनाचयासातथा रुदतीसाशुप्रातं शब्दंविदधानाक्रन्दन्तीध्वनिविशेषेणतपमानास्त्रेदलालादिद्वरन्ती शोचमाना हृदयेनविलपन्ती आर्त्तस्वरेणजा

पवडंतं सुधारं हिंसिंचमाणीपयोहरेकलुणविमणदीणेरोयसोणीकंदमाणीतिप्यमाणीसोयमाणी विलवमाणीसेहं कुमारं एवं वयासी लुहंसिंजाया अरुहं गेपुत्ते इडुकंतिप्रिए मणुखे मणामेधेज्जेवेसा

इंभीजव्याछेअन्तःपुरने लोके आस्त्रासीयकी वैठीकीधीयकीराणी सोतीनातूटाहारनी आवलीअेणितेहनासन्निगाससरीबीजे पडतीआसूनीधारातेणेकरी सींचतीछेपयोधरवेड्डं खन प्रतेएतलेमोतीसरिखाआसूपडे छे तथावलीकरणाअणीविमनाआमणडूअ णीदीनदयामणीयकी जेतेराणीरोतीयकी आंसूसहितशब्दप्रतेकरती यकी आक्रंदशब्दविशेषेरोतीयकी तीजस्वरकरतीतपतीयकी प्रसेवोसुखमांहियकीलालादिकचरतीयकी सोचतीयकी हीयेकरी आर्त्तरोडूस्वरेकरी विलवतीयकी रोवजुमारप्रतेडूमकहतीडूडूतु

यत्ति हेपुत्रदृष्टः इच्छाविषयत्वात् कान्तःकमनीयत्वात् प्रियः प्रेमनिबन्धनत्वात् मनसाज्ञायसे उपादेयतयेति मनोज्ञः मनसाअस्यसे  
 गम्यसे इति मनोमः स्थैर्यगुणयोगात् स्थैर्यो वैश्वसिको विश्वासस्थानं समतः कार्यकरणे बहुष्वपि कार्येषु बहुर्वाऽनल्पतयाऽस्त्रोक्ततया  
 मतो बहुमतः कार्यविषातस्य पश्चादपिमतोऽसुमतः भांडकरं डकसेमानः आण्डमाभरणं रत्नमिव रत्नं मनुष्यजाता बुत्कष्टत्वात् रजनोवा  
 रञ्जकइत्यर्थः रत्नभूतचिन्तामणी रत्नादिकल्पोजीवितमस्त्राकमुच्छासयसि वद्वयसीति जीवितोच्छासः स एव जीवितोच्छासिकः वाचना

सिएसम् एबहुमएअणुमएभंडकरं डगसमाणे रथणे रथं ण भू ए जी विय उस्सासिएहियथा णं ड ज णे उं व

हेजातहेपुत्रअमारि एकपुत्रच्छे तेकेहवो दृष्टवालोच्छे इच्छानापणाथकी प्रेमनानिबन्धनथकी वल्लभमनेकरीमनोज्ञच्छे मनेकरीजांणीथे  
 तेमनोरमएहबुंछे स्थैर्यगुणनायोग्यकी स्थैर्यवैश्वसिकवीश्वसिनोठामच्छे कार्यकारिवानेविषे संमतमानवायोग्यच्छे घणकार्यकरवानेविषे  
 घणुमानवायोग्यच्छे कार्यनासम्बन्धनेपाछे पिणत्वं हि जच्छे अनुमत तथाभंडआभरणतेहनाकरं डौयाडावडासरिखोच्छे तुं पुत्रमाहरेतथा  
 रत्नसारिखोरलच्छे तुमनुष्यनी जातिनेविषे उल्कृष्टापणाथकी हेपुत्रतुं अमारो जीवत आउखोतेतुं वधारच्छे जीववानोजेस्वासतेसरि

न्तरेषुजीविष्यद्भूति जीवितस्योत्थावद्भवजीवितोत्सावः स एवजीवितोत्साविकः हृदयानन्दजननः उदुस्वरपुष्पं ह्यलभ्यं भवति अत  
 स्तेनोपमानं जावतावअम्हे जीवामोत्ति इहभुंक्ष्यतावद्भोगान् यावद्वयंजीवासः इत्येतावतैव विवक्षितसिद्धौ यत्पु नस्तावच्छब्दस्योच्चा

रपुष्पं बटुल्लं हेसवंगयाए किमंगपुणपासयाएणोखलुजयाअम्हेइच्छामोखणमविविष्पओगंसहित्त  
 एभुं जाहितावजायाविपुलेमाणुस्सए कामभोगेजावताववयंजीवामो तओपच्छाअम्हेहिंकांलगए

खोतेजीवनो खासिक वलीहेपुवतुं केहवोक्के माहराहीयाने हर्षनोउपजावणहारके वलीहेपुवजं वरहचनानामूलनीपरदुर्लभदोहि  
 लोकेएतलेजं वरहचनोफुलघणुसुद्धमज्जवे परंवाहिरकोइदेखेनह्यं तिमताहरीवातसाभलवेकरीदोहिलीनोनिषेधखलुनिचयहेजात  
 हेपुवअम्हे इकुं कुं वांक्कुं नहींक्षणाएकपिणवियोगविरहसहीनसकीये एतावताताहरोविरहक्षणाएकसहिवा अम्हे वांछतानथीति  
 कारणथकीइहांतुं भोगवितिहां लगीहेजातहेपुवविपुलघणामशुष्यसम्बन्धीया कामभोगप्रते जिहांलगी अमेजीवुंक्कु तिहांलगीइहां  
 गृहस्थावासमध्ये रहे। तिवारपच्छी अम्हे कालकीघापक्के हेपुवतुं पिण नवयीवनपंभीपक्के परिपक्ववयययोथको वृद्धिप्रतेपमाब्धे थके



रणंतद्भाषामात्रमेवेति परिणतवयाः वड्ढियकुलवंसंतुक्ज्जंमि वद्धिंतेहृद्विसुपगते पुत्रपौत्रादिभिः कुलवंशएव संतानएवतंतुःदी  
र्धत्वसाधर्म्यात्कुलवंशतंतुः सएवकार्यैक्यतस्मिन् ततोनिरावयक्खेत्ति निरपेक्षः सकलप्रयोजनानां अध्ववेत्तिनध्रुवः स्वर्योदयवत्

हिंपरिणयवएवद्विय कुलवंसंतुक्ज्जंमि निरवयक्खे समणस्सइ अंतिएसुं डेमवित्ताअगराओअण  
गारियंपव्वइस्ससितएणंसेमेहेकुमारि अस्मापिउहिं एवंवुत्ते समाणे अस्मापियरोएवंवयासीतहेवणं  
तंअस्मोजहेवणंतुम्हेममंएवंवयह तुमंसिणंजायाअम्हेएपुगेत्ते तंचेवजावनिरवयक्खे समणस्सइजाव

पुत्रपौत्रादिकेकरी कुलवंशसंतानरूपतंतुतां तुयातेजिहकार्यक्खे थके एतलेपुत्रपौत्रऊयेथके संसारनोहेतुतेपुत्रच्छे तिवारपच्छीसं  
सारनासर्वकार्येनिरपेक्षवांछारहितथको अमणभगवंतश्रीमहावीरदेशनासमीपनेविषे सुं डथईनेगृहस्थावासथकीनीसरीनेअनगर  
तांसाधुपणाप्रतेदीचालेजेहेपुत्र तिवारपच्छीतेमेवकुकारमातापिताइं एणेप्रकारिकच्चोथको वलतोमिषकुमारमातापिताप्रते एहवो  
उत्तरदेतोद्धओ तथातिमतेकारणथकी हेमातयथातुमे सुभ्रप्रतेजिम एपूर्वीक्तप्रकारिकहोछी जेतुं हेजातहेपुत्रअमारि एकजपुत्रच्छे

मप्रतिनियतकालेवस्सं भावी अनियतः ईश्वरादेरपिदरिद्रादिभावात् क्षणनश्वरत्वात् व्यसनानिद्युतचौरीदीनि तच्छतेर

पव्वइस्सइ एवं खलुअस्सयाओ माणुस्सएभवेअधुवे अणियएअसासएवसणस्स उह्वाभिभूएविज्जुलया  
चंचले अणियेजेजलुब्बुयसमाणेकुसगजलविंदुसन्निभे संभारागसरिसेसुविणदंसणोवसेसडणपडण

तेसंसारनासर्वभोगभोगवीपुत्र पौत्रनीवृद्धिकथे धके जिहांलगीसर्वकार्येनेनिरपेक्षवांछारहितयको अमणभगवंतमहावीरनासमीप  
नेविषेसुं उधईने साधुपणाप्रतेहीषालेज्यो इमकहोछोतेणे प्रकारे खलुनिश्चयहेमातामनुष्यभवकेहवोछे तेसांभलोभेवकुमारकहेछे  
अध्रुव ध्रुवनिश्चलनथी सूर्यनाउदयनीपरेनिरंतरनिश्चयकालेनेविषे एवस्यनिश्चयहोस्ये जएहवोनथी अनियतनिरंतरनथीलक्ष्मीवंत  
नेदरिद्रादिकथावायकी असाखतोछे क्षणएकयकी चरणायकी व्यसनकट द्यू तचोरीयादिकतेहना सतसईकड़ा उपद्रवपोतायकी  
अनेरायकी ऊपनाएहवायगतगमेसदासर्वदाउपद्रवतेणेकरी अभिभूतव्याप्योछे एंसंसारमनुष्यनोभवतथावकीवीजलीनोभवकानीपरे  
चंचलकेएंसंसार अनित्यके एमनुष्यनासुख पांणीनावुदबुद पंपोटासरिखोछे एंसंसारसुख कुसडाभना अस्सीनेविषेरह्यां पांणीना

पद्रवैश्चस्वपरसंभवैः सशोपद्रवैर्वाभिभूतोव्याप्तः शटनंकुष्ठादिना अंगुल्यादिः पतनंवाह्यादेः खल्लच्छेदादिविष्वं सनं द्रव्यएवधर्मीयस्य  
सतथापद्याद्विवक्षितकाकात्यरतः पुरंवत्तिपूतश्च यामलंछतौ अवस्वविप्रसृष्टिज्जे अवश्यत्याज्यः सेकेणंजाणइत्ति अथकोजानातिन  
कोपीत्यर्थः अंततातकपूर्वपितोः पुतस्यवान्योन्यतः गमनायपरलोकेष्वसृष्टते कः पद्यान्नमनायतत्तै वोत्स हतइत्तिकः पूर्वकोवापद्यान्नि

विद्वंसणधम्मो पच्छापु रंचणंअवस्वविप्रसृष्टिज्जे सेकेणंजाणइत्तस्मयाओकेपुव्विगमणाएकेपच्छागम

विंदूभासरिखोषपलच्छे एंसंसारअथिर संध्यानारागसरिखोच्छे अथिएहवासंसारनासुख स्वप्नसुहृणानादेखवानीउपमाथिकरी  
सरिखाच्छेएंसंसारनासुख रंक्तकोटरक्तपित्तादिकेकरी आंगुलीयादिकनो सडवोतथापडणपडवोवाहप्रमुखनेविषे खल्लनेच्छेदादिके  
पडवोविद्वंसनचयएहीजधर्मच्छे जेशरीरनोएतलेसडे पडे विध्वंसंथाई तेहवोजओदारिकशरीरनोधर्मजाणिवी वाह्याकालयकीपाच्छे  
आगलियकीपुरंक० पाच्छखीयकी एतावताआगलियकी अनेपाच्छलियकी पिणअवस्यएदेहधनसर्वत्यजिवायोग्यच्छे सेअथएतलाथकी  
अनन्तरकेकुणजांणेकोइनजाणे हेअं वहेमातः केकुणपूर्वपहिहलामातापितानिवाअथवा, पुतनेपहिहलाअनेरोकोई गमणाथपरलोकेने

यत इत्यर्थः वाचनान्तरे भेषकुमार भार्यीवर्णकएवमुपलभ्यते इमाञ्चोतेजायाविपुल कुलनालियाञ्चोक्तमाकुसलसम्बन्धलासा लियसुहोद  
याञ्चोमहवशुण्डुसनिष्ठविण्णोवयारपंडियविक्रवणाञ्चो पंडितानामध्ये विचक्षणाः पंडितविचक्षणाः अतिपंडिता इत्यर्थः मंजुल  
मियमहुरभयिचविहसियंविष्णु क्वियगह्विलासे श्रेष्ठियविसारयाञ्चो मंजुलंकोमलंशब्दतः मितंपरिमितं मधुरमकठोरमर्थतोयद्गुणि

याएतंइच्छामिगंअस्मयाञ्चोतुभंहिं, अस्मगुष्माएसमाणेसमणस्सइ जावप्रव्वइत्तएतएणंसेमेहंकुमारं  
अस्मापियरोएवंवयासी इमाञ्चोतेजायाससिरिसियाञ्चो सरिसत्तयाञ्चोसरिव्वयाञ्चो सरिसलावस्स

विषेजावाभणीषत्वकउद्यमवंतथाइ तथाकुणपक्खे परलोकनेविषेजाइ' एतलेकुणप्रथमसरे कुणपाक्खेसरेतंतेकारणथकी इच्छामिइ  
वांछुहु हेअस्वहेमातः तुमारीअज्ञायिकरी अज्ञाअदेशदीधोयको अमणभगवंतञ्चोमहावीरदेवने पासेयावत्सुभने दीचालेवा  
भणीकल्ये तिवारपक्खी तेमेवकुमारप्रते माताअनेपिताइमवकी कहता उअएअप्रत्यक्षतेताहरीहेजातहेपुल सरिखीशरीरनाप्र  
माणथकीभेषकुमारनी अपेक्षाइ सरिषावयक्खे जेहानाएहवी सरिखीत्वचाघामडीक्खेकोमलजेहानीएहवीतथावलीसरिखालावण्य



शरीराख्यभिप्रेतानि अशुचयोद्युचिकारणत्वात् वातं वसनंतदाश्रवन्तीतिवाताश्रवाः एवं अन्यान्यपि नवरंपित्तंप्रतीतं खेलोनिष्ठीवनं शुक्रं सप्तमोधातुः शोणितं रक्तं दुरूपाणि विरूपाणियानि खलपुरीषप्रयाणितैर्बद्धप्रतिपूर्णाः उच्चारः पुरीषं प्रखवणं खलं खेलः प्रतीतः

मारिअस्मापियरं एवंक्यासीतहेवणं अस्मयाओजस्स तु भस्मभं एवंवयहइमाओतिजायासरिसियाओ जावसमणस्सइप्रअइस्ससि एवंखेलुअस्मयाओ माणुसणाकामभोगाअशुइअसासया वंतासवापित्तास वाखेलासवासुक्कासवा सोणियासवां दुस्सासनोसासवादुरयसुत्तपुरीसपूयवड्डपडिपुष्णाओउच्चार

नेयावत्तुं दीचालेजे तिवारपच्छीतेमेवकुमारमाताअनेपिताप्रतेवलीएहवुं कहतोऊओतथातिमतेणेप्रकारेमाताअनेपिताप्रतेजेकारण यकीतुमेसुभ्रप्रतेइमपूर्वीत्तप्रकारिकहोको जेआप्रत्यक्षतेताहरीहेपुत्त सरिखीघरीरनाप्रमाणयकी इत्यादिआठस्त्रीसंघाते परं एणेप्र कारेखलुनिश्चयहेअस्वहेमातः मनुष्यसंबंधीयाकामभोग एतावतास्त्रीपुरुषनाअंगकेहवाके अशुचिअपवित्ते असास्वताके वांतव मनतेप्रतेआअवेके पित्तादिकअवेके खेलखलखादिकथुं कथाअवेकेखिरेके शुक्रवीर्यसातमोधातुतेखिरेके शोणितरुधिरतेप्रतेअवेके

सिंहाणोनाशिकाजलः वांतादिकानिप्रतीतान्येतेभ्यः संभव उत्पत्तिर्वेषां तेतथाह्यमेयतेइत्यादि धृदंचतेआर्चकः पितामहः प्रार्थकः

पासवणखेलजलसिंघाणगंतपित्तसुक्ष्मसोणियसंभवा अधुवाअणिययाअसासया सडणपडणविषं  
सणधभापच्छापुर्चणं अवस्सविषजहणिल्लासेकेणं अस्सयाओजाणहूकेपुब्बिंमसणाएकेपच्छाग

दोहिलाउखासनीसालएतले दोहिलासासोखासते आमयीदाकरीअवेछे डुरूपविरूपजेबहुनीतिस्त्रबडीनीतिपुरीषपयपरूतेणेक  
रीमकुषयाप्रतिपूर्णमस्याछे जेकामभोगएतलेएहवाअपवित्छे उच्चारवडीनीति प्रअवणस्त्रबहुनीतिखेलसुखनो बलखोसिंहानना  
सिकानोमलक्षेयावांतवसनपित्तनोवसनशुकवीर्यशोणितरुधिरलोहीतेहयकी संभवाउत्पत्तिजपजिवोछे जेकामभोगानेअधु वनिअ  
यनयीजेकामभोगअनियतनिरंतरनयी जेकामभोगसडवारूपपडवारूपविध्वंसनरूपधर्मछेजेमनुष्यनाकामभोगाने वांछ्याकालयकी  
पुरपाछलियकी एतावता आगलियकी पाछिलयकी पिणअवश्यनिअयत्यजिवायोन्येछे सो अथद्विवेकेणहेअंबहेमातः जाणेएतले  
कुणनाणेकेकुण प्रथमपहिलां परलोकेजाइं कुणपछेपरलोकेजाइं एतलेकुणप्रथममरे कुणपछेमरे तेकुणजाणे तेकारणयकीहेमातर

पितुःपितामहः पितृप्रार्थकःपितुःप्रपितामहः तेभ्यःसकाशात् आगतंयत्तथा अथवाअर्थकप्रार्थकपितृणांयः पर्वयःपतीयः परिपाटि

मरणे तंरच्छास्त्रिणंअस्त्राजावपव्वहृत्तए तएणंतमेहंकुमारं अस्मापियरोएवंवयासौ इमेएजायाअ  
ज्जयपज्जयपज्जयागए सुवज्जहिरण्येयसुवस्सेय कंसेयमणिमोत्तिएसंखसिलप्पवालरत्तरयणसंतसा  
रसावतेज्जेय अलाहिजावअसत्तमाओकुलवंसाओ पगामंदाळं पगामंभोत्तुं पगामंपरिभाएळं

इच्छामिनांछुं कुं जावय्यद्धयी पाच्छिलाय्यद्धसर्वकहिवा तुमारी आत्तायेसुअने दीक्षातेबीकल्ये तिवारपच्छीतेमेघनामा कुमारप्रतेव  
लीमातापिताइमकहितारुआ इमेएधनतेताररे हेजातहेपुत्र अज्जयअजाओ पितानोपितावडाअओपजयपितानोपिता तेहनो  
पितापिउज्जयपितानोपिता तेहनोपितावलीतेहनोपिता तेहयकी आव्योछे जेतेअथवापरिपाटीये आव्योछे जेतेघनइअतिवणु  
रूपानासद्धअतिवणुसोनानासद्धह कंसादिधातुविशेषमणि चन्द्रनंतादिमोतीशंख दक्षिणावर्त्त सिलाराजपट्टादिकप्रवालमूंगीया  
रत्तरयणरातारत्तपद्मरागादि एसवलांछतां विद्यमानजे सारप्रधान एहवाजेखापतेयइव्यछे तेइव्यअलाहिपरिपूर्णं संपूर्णभोगविधोते



तंअणुहोहिइतावजायाविपुलंमाणुस्सगं इडिसक्कारससुदयंतओपच्छा अणुभयकक्षाणेसमणस्सभ  
 गवओमहावीरस्स अंतिएपव्वइस्ससितएणंसेमेहकुमारि अन्मापियरंएवंवयासौ तहेवणंअस्माजणं  
 वयहइमेयतेजायाअज्जगपज्जय जावतओपच्छाअणुभयकक्षाणापव्वइस्ससि एवंखलुअस्मयाओहिहिर

धावत्जेतलोपरिमाणद्रव्य सामर्थादाकरी सातमाथकी कुललक्षणवंशनेविषे ऊओ एतले सातपीढीताइं द्रव्यपड्डचे भोगवताप्रका  
 मअतिघणोदीनदयामणादिकभणीदानदेवाभणीतुप्रवर्त्त तथाप्रकामअतिघणुद्रव्यभोगविवाभणीप्रवर्त्त अतिघणुगोतीयादिकभणी  
 विहची देवाभणीप्रवर्त्तएहवाअनेकद्रव्यप्रतेतुंजाणे तेतलोजेतलोजाव शब्दधीवीजाइबोलकहिवा हेजातहेपुततुं विपुलवणोमसुष्य  
 सखन्धीभोगच्छिसक्कारनो समुदयसमूहतेभोगवी तिवारपच्छीभुक्तभोगीयई अतुभयभोगयोछे कल्याणमंगलीकजेणेएहवोयकोअम  
 णातपस्वीभगवंतज्ञानवतअ्रीमहावीरदेवना समीपने विषे तुं दीचालेजे तिवारपच्छीतेमेघकूमारमातापिताप्रते इम कहतोडओतिम  
 पूर्वोक्तप्रकारिहेमातापिताओतुमेजेकारणथकी कहोछोसुम्भप्रते इमेएताहरेपुल पितानोपितापज्जयपितानोपितातेहनोपितायावत्

रित्यनर्थान्तरं तेनागतं यत्तथा अग्निसाहि इत्यादि अग्नेः स्वामिनश्च साधारणं दाइयत्ति दायादाः पुत्रादयः एतदेव द्रव्यस्यातिपारवश्यप्रतिपादनार्थं पर्यायांतरेणाह अग्नि सामस्ये इत्यादि शटनं वस्त्रादेरिति स्थगित्यस्य पतनं वर्णादिविनाशः विध्वंसनं च प्रकृतेर

स्वेयसुवस्ये यजावसावतेज्जे अग्नि साहि ए चो र साहि ए राय साहि ए दाइ य साहि ए मञ्च साहि ए अग्नि सा  
मस्ये जावसञ्चु सामस्ये सडणपडणविद्वंसणधस्ये पच्छापु रं चणं अ व स वि प्र ज ह शि ज्जे से क्खे णं जाणइ अ म्भया

पितानोपितातेहनोपितानोपितातेहनासमीपथी आव्योधन यावत्तिवारपच्छीभुक्तभोगीयईअनुभूत मनुष्यसंबंधीभोगभोगव्योक्तेकल्याणकारीजिणेएहवोयकोपच्छे तुं भगवंतयासेदीक्षालेजे एहवोकहोच्छो तुमेपरं एणे प्रकारे खलुनिश्चे हेभातरूपोसोनोजावशब्दधीवीजाइत्रोलकहिवासगला द्रव्यसगलीवस्तुअग्निने साधारणच्छे अग्निइचोरचोरीलेईजाय राजालूटीलीये मृत्युपामेविणसीजाइं पुत्रादिसर्वपरिवारविहचीलीये अग्निसाधारणवलीजाइं जावशब्दधी मृत्युनेसाधारणच्छेएतलेविणसीजाइं एहवोधननोपरिवसपरणोच्छे सडणसडवोच्छे वस्त्रादिकेकारीषणुढांकोच्छे तेहनेतथापतनंपडवोच्छे वर्णादिकनो विध्वंसप्रकृति स्वभावनो विच्छेदएधर्मस्वभावच्छेद्रव्य

च्छेदोषमेीयस्यतत्तथा जाहेनोसंचाएतित्ति यदानशक्तुतः बह्वहिविसएत्यादि बह्वीभिःविषयाणां शब्दादीनांअनुलोमास्त्रोषप्रष्टत्तिज  
नकत्वेनअनुश्लाः विषयानुलोमास्ताभिः आख्यापनाभिश्चसामान्यतः प्रतिपादनैःप्रज्ञापनाभिश्च विशेषतःकथनैः संज्ञापनाभिश्चसंबो  
धनाभिःविज्ञापनाभिश्च विज्ञप्तिकाभिःसप्रणयप्रार्थनैः चकाराःसमुच्चयार्थाः आख्यातुं वा प्रज्ञापयितुं वा संज्ञापयितुं वाविज्ञापयितुं

ओकिजावगमणाएतंद्रच्छामिणं जावप्रब्रूतएतएणंतस्समेहस्सकुमारस्स अस्मापित्तरोजाहेणोसंचाएत्ति  
मेहकुमारं बह्वहिविसयाणुलोमाहिं आववणाहियप्रखवणाहिय सखवणाहियविसवणाहियआववि

नो पछेचनेपहिलाअवश्यनिश्चयविणासपामेद्रव्य हिवेतेकुणजाणे हेमातकुणपहिलां तथापाछलि जास्येधरलोके तेकारणथकी  
ऊं वांछ्छुजावशब्दथी पाच्छिलाशब्दकहिवादीच्चा लेवीकल्पे तिवारपच्छीते मेघकुमारना मातापिता जिवारेनसमर्थकरीनसकेलोभा  
वी तथावलीमेघकुमारप्रते घणीविषयशब्दरसंगंध फरिसरूप एपांचेइं द्रीने अनुलोमअनुश्लसुखकारी एहवी वाणीकरी सामान्य  
धीकहिवाभणी विशेषथीवांणीने कहिवेकरी संसथ्यक्छता विद्यमानधनने जणाववे दिखाडवेकरीचसमुच्चय विशेषकरीवीनीकरी



थाः साधवस्तेषां सिद्धे नैर्ग्रंथं प्रवचनमेव प्रावचनं सदृश्योहितसत्यं सदृभूतं वानास्त्रादुत्तरं प्रधानतरं विद्यते इत्यनुत्तरं अन्यदप्यनुत्तरं भ  
विद्यतीत्याह केवलिकं केवलमद्वितीयं केवलप्रणीतत्वाद्वा केवलिकं प्रतिपूर्णमपवर्गं प्रापके गुणैर्भूतं नयनशीलं नैयायिकं सोऽद्यगमक  
मित्यर्थः न्यायेवाभवं नैयायिकं संशुद्धं सामस्ये न शुद्धमेकान्ताकलंकमित्यर्थः शल्यानिमायादीनां कृन्ततीति शल्यकर्त्तनसेधनंसिद्धिः हि

सद्गुगतत्वे सिद्धिमगगे मुत्तिमगगे निज्जास्रमगगे णिवाणमगगे सब्वदुक्खपहीणमगगे अहीवएगंतदिड्डीएबु

नवीजोमार्गकोडूनहौं केवलसंपूर्णकेवलप्रणीतअनंताअनंतार्थविषेच्छे मोक्षपसाडिवाने गुणेकरीप्रतिपूर्णं भस्योच्छे न्यायानुगतएतले  
प्रत्यक्षानुमानआगममाहिं प्रमाणेकरी बांध्योच्छे नथीअथवान्यायने विषेच्छओतेनैयायिककहीये संपूर्णपणेकरीशुद्धकषायरहितसुव  
र्णनीपरे निर्दोषएकातकलंकरहितमायादिकविणशल्यप्रते कापणहारुच्छे सीभवतेसिद्धिहितार्थप्राप्तितेहनोमार्गः अहितार्थकर्मने  
सू' किवानाजेउपायतेहनोमार्गच्छे यांतिजाइजीवते याननिरूपमउपमारहितयानसिद्धि चेततेहनोमार्गएतलेनिज्जाणनिश्चेजाइवा  
नोमार्गच्छे परंआविवानोमार्गतिहं यक्कीनथी समस्रकर्मनाक्षयक्कीउपनोअत्यंतसुखनो मार्गसंसारथक्की नीकलवानो सर्वदुःख

तार्थप्राप्तिस्वन्मार्गः सिद्धिमार्गः सुक्तिमार्गः अहितकर्मविविच्यु तेरुपायः यांति तदितितियानं निरुपमं यानं निर्यां सुसिद्धिचेतं तन्मार्गीनि र्थी  
णमार्गः एवं निर्व्वीणमार्गीणि नवरं निर्व्वीणं सकलकर्मविरहजं सुखमिति सर्वदुःखप्रक्षीणमार्गः सकलाशर्मक्षयोपायः अहिरिवएकां  
तो निश्चयोपस्थाः सा एकान्तासादृष्टिर्दृक्कृत्यस्य स एकांतदृष्टिकः क्षुरद्रवएकाधारा द्वितीयधारा कल्पाया अपवादक्रियाया अभावात्पाठां

रोद्रवणंतधाराएं लोहमयाद्र वजवाचवियव्वा वालुयाकवलोद्र वनिरस्साए गंगाद्रवमहानद्रै

जन्मगरणादिदुःख तेहनोप्रक्षीणक्षयकरिवानोए मार्गएतलेमोक्षनोमार्ग अहिसर्पनीपरै एकांतनिश्चयसहितच्छे जेहनीतेदृष्टिनु  
द्विच्छेजेनिग्रंथ प्रवचननेचारितपालवाप्रते एकांतदृष्टिकक्षीये अहियक्षेसर्पमांसग्रहिवाने विषे एकाग्रताजिमसर्पए काग्रदृष्टिचालेउ  
रहीपरहीदृष्टिनकरे तिमएकाग्रदृष्टिमो क्षुजपरकरीने चारितपालिवो दोहिलोजांणिवोहेमेधकुमार तथाक्षुरपलानी एकधारा  
सरिखुं चारितच्छे बीजीधारासरिषीअपवादनी क्रियानाभावयकी जिमयवधान विद्धं पासेतीखाहोद्रं वलीतेयवलोहमयलोह  
चावतादोहिलादांतने पाडे तोपुणचावेनहीं तिमचारितपालवु धणुं दोहिलोहेपुल वेलूनाकउलीया जिमनीरसखादरहितहोद्र

तरेण एकाता एकविभागा अथायस्य तत्तथालोहमया द्वयववाः चर्चयितव्याः प्रवचनमिति प्रक्रमः लोहमययवचर्चणमिव दुष्करं चरणमिति भावः बालकावकलङ्कनिरास्वादं वैषयिकसुखास्वादेनापेक्षया प्रवचनं गंगेव महानदीप्रतिश्रोतसागमनं प्रतिश्रोतो गमनं तद्भावस्तत्तातया प्रतिश्रोतगमनेन गंगेव दुस्तरं प्रवचनमिति भावः एवं समुद्रोपमावचनमपि तीक्ष्णं खड्गकुन्तादिकं क्रामितव्यमाक्रमणीयं यदेव तत्प्रवचनं

पडोसोयगमणया ए महासमुद्रोद्भवभूयाहिंदुत्तरे तिवक्त्रकमियव्वंगुसुथं लंबेयव्वं असिधारिवसंच

तिमसंयमपिणनीरसजांणिवो हेपुल हिमवंतपर्यतयकी पडतो गंगानदीनोमोटो प्रतिश्रोतप्रवाहपांणीनो पूरसाहमो आवतो तेणे कारीतरीजावादोहिलो होइतेहनीपरेचारित्तमार्गदोहिलोच्छे तथामहामोटोसमुद्र विज्जं बाहेकरीदुस्तरतरिवोतेपुणदोहिलोजांणि तिमसमुद्रनीपरेपारपामिनो ज्ञानादिगुणसमुद्रदुस्तरच्छेतीखोखल्लभालादिक आक्रमिवोदोहिलोतिमचारित्तदुकर तथाभोटीशिला दिकप्रतेअवलंबवुल्लंघवो दोहिलोतिमचारित्तदो० तथावली असितरवारनीधाराइं चालिवोएहवुं वयव्रतनियमच्छे चरिवुं आच रिवुं जेतेचारित्तपालवोदुःकर कुणकारणयकी एचारित्तनो दुःकरपणोच्छे तेकहीयेच्छे खलुनिश्चयसहितकल्पे नक्षीं हेजातहेपुल

तदिति यथा खड्गादिकाभितुमशक्यमेव न यक्यं प्रवचनमनुपालयितुमिति भावः गुरुकंसहाशिलादिकं लंबयितव्यमव लंबनीयं प्रवचनं गुरुकालं  
 वनस्मिन्नुष्करं तदिति भावः अस्मिन्धारया संचरणीयमित्ये वं रूपं यद्द्रव्यं तदस्मिन्धारयः तदस्मिन्धारयः तदस्मिन्धारयः तदस्मिन्धारयः  
 तद्वदेतद्द्रुष्करमित्यर्थः कस्मादेतस्य दुष्कारत्वमत उच्यते शोयकष्यद्द्रुत्थादि रद्ध्य एवति औद्दे शिकभेदस्तच्चसोदकचूर्णीदिपुनर्मोदकचू  
 र्णीदिपुनर्मोदकतयारचितं भक्तमिति गम्यते दुर्भिक्षभक्तं यद्द्विज्कार्थं दुर्भिक्षे संस्क्रियते एवमन्यान्यपि नवरं कातारसरथं वर्दलिका

रियत्वं शोयखलुकम्पति जायासमशाणं निगमं धाणं आहाकस्मि एवाउहं सिएथा कौयगडेवाठविएवा  
 रद्दुएवा दुर्भिक्षकवभत्तेवावह्लिया भत्तेवाकंता रभत्ते वागिलाणभत्ते वा भूलभोयणेवाकं दभोयणेवा

अमणतपस्वी एहवानिग्रंथसाधुचारित्रीयानि आधाकर्मी आहारनलेवोकल्पे साधुसाववीनिमित्तउद्दे सीनिघरेआस्थो तथावलीकृत  
 कर्मसाधुनिमित्तमोदकाचूर्णीदिवलीमोदकपणे रच्योकीधुं तेनकल्पे तथायतीनिमित्तधापी सूं क्योराख्योनकल्पे एहवीरचनादो  
 हिलीक्रे तथावलीजेभिच्चाचरने अर्थदुःकालनेविषे अन्नादिरांधीयेक्रे तेनकल्पे तथावह्लिकादानघणीवृष्टिः तेक्रेते अनाथजीवनेदान





नःश्रुलादयः उच्चावचान्नानाविधान् ग्रामकंटकानिन्द्रियवर्गप्रतिक्लान् एवंखलुअस्मयाओइत्यादि यथालोहचर्त्राणाद्युपमयादुरनु

हेरोयातंकेउच्चावएगामकंटए वावौसंपरीसहो वसगोउदिखे समं अहियासित्तएभुं जाहितावजा  
यामाणुस्वएकामभोगे तओपच्छामुत्तभोइ समणस्वशजावपव्वइस्ससि तएणंसेमेहेकुमारेश्रस्मापिउ

नहीछे उनालानोतपग्मिवाभणीसमर्थनहीछे तथापिवासातरसखमिवाभणीसमर्थनहीछेतथावात  
पित्तशरीरमाहेछे अनेकघणाप्रकारछतां सन्निपातजपजेछे तथावली नवाताढा आहारादिमिले तिवारेएहवारोगज्जवे विविध  
घणाप्रकारनारोगतेकोहादिआतंकतकालवातनाविनासनाकरणहारशूलादिरोग जं चनीचनावचनखमिवाघणा प्रकारनाएहवा  
ग्रामकंटकेइन्द्रियनावर्गने उपराठाडुखदाई तथावावीसपरीसहना उपसर्ग उदयआवेयके उपसर्गजपने यकितेप्रते सख्यकभलीपर  
सनवचनकाथाये करीअहीयांसे तेकारणयकी भोगवित्तिहां लगीहेजातहेपुलएमनुष्यनाकामभोगप्रते तिवारपच्छी भुक्तभोगीययां  
पच्छीअसणभगवंत श्रीमहावीरदेवनासमीपनेविषे यावत्हेपुलतुं दीक्षालेजे तेचारिलनाभवदेखाद्यापच्छीतेभेघनामा कुमारमाता

चरंदुःखाद्यैर्नैर्ग्रथं प्रवचनं भवद्विरक्तमेव दुरनुचरमेवकेप्रांलीवानां मंदसंहननानां कातराणां चित्तावष्टंभवर्जितानामतएवकापु

हिं एवंवृत्तेसमाणे अस्मापियरं एवंवयासौ तद्देवग्रंथं त्रस्ययात्रोजणं तुभेमसमं एवंवयह एसंणं जाया

निगं धेपावयणेसच्चे अणुत्तरेपुणरवितंचेव जावतओपच्छाभुत्तभोई समणस्सइजावपब्बइस्सिसि एवं

खलु अस्मयाओनिगं धेपावयणे कौवाणं कायराणं कापुरिसाणं इहलोगपडिबद्धानं परलोयणिप्रवा

पिताइ एपूर्वोक्तकह्येच्छते मातापिताप्रते वलतोमेवकुमारइमकहतोऊओ तथातिमज्जहोमातापिताओ जेकारणथकी तुह्हे सुभ

प्रतेएहवोकहोछो एहहेपुवंनिग्रंथसाधुप्रवचनसाधुमार्गं सत्यसाचो सगलांधर्ममांहे अणुत्तरप्रधानतेदोहिलोछे पुनरपिवलीते

निच्चेजातांसनुष्यसंबंधीयाक्कामभोगभोगवी तिवारपच्छी भुक्तभोगी थयांपच्छी अमणभगवंतश्रीमहावीरदेवनासमीपने विषेयावत्दी

च्चालिजे एपुलभुक्तभोगीथईने एहवोतुमेकहोछो परं एमइमपूर्वोक्तप्रकारे खलुनिच्चयजिमलोहनायवचावादिओपमाये करीदुःखेपा

लिवोआचरवोछे निग्रंथप्रचनसाधुमार्गं अहोमातापिता ओतुमेएहवोदुःकारदेखाडो छोपरंदोहिलोआचरिवो पालिवोतैहनेतेकहे

रूपाणाकुलितनराणां विशेषणहयंतुकांथं पूर्वीक्तमेवार्थमाह डुरनुचरंडुःखासेव्यं नैग्रं धंप्रवचनस्मिति प्रकृतंकस्येत्याहप्राशतजनस्य

साणं डुरणुचरेप्रायजणस्सणेचेवणंधीरस्स एत्थकिंदुक्करंकारणयाएतंडुच्छामिणं अस्स याओतुभे

केक्रीवनेपालिवो दोहिलोच्छे हलासंघयणनाधणीक्रीवकहीये कातरपुरुषनेचिचानाअवष्टं भरहितपुरुषनेदोहिलोच्छे एकारणथकी कापुरुषकुत्वितनीचापुरुषनेदोहिलो तथाइहलोकना प्रतिबद्धवांछानाकरणहारातेहनेचारित्पालिवोदोहिलोच्छे एवनिश्चय तथा परलोकनीनिप्पिवा सालषा वांछानथी जेहने एतलेपरलोकजावाने निषेधनाकरणहाराएचारित् अहोमातापिताओ तथाडुःखि इंआचरिवोआसेविवो निग्रंथवचनते केहनेतेकहेच्छे प्राप्तपामरदोहिला दूबलानलोकने पालिवोदोहिलोपरलोकच्छे तेमानेनही तेहनेचारित्पालिवोदोहिलो परंनथी दोहिलोधीरसाहसीकपुरुषने तेकेहवेच्छे निश्चितनिश्चयनीपरिव्यवसायकर्मव्यापारच्छे जेह नोएतलेनिश्चयजाणकर्मवादीपुरुषने इहानिग्रंथप्रवचनने विषे स्योडुःकरदोहिलो पालिवो अपितुदोहिलोकाइंनहीं संयमनाव्या पारपणाने विषेएतावताचारित्नायोगमांहे तंतेकारणथकी ऊं इच्छुवांछुऊं अहोमातापिताओ तुमारी आज्ञादीधेच्छतेअभरणभग

एतदेवव्यतिरेकेणाह नोचेवर्णनैववीरस्यसाहसिकस्य दुरनुचरमितिप्रकृतमेतदेववाक्यान्तरेणाह निश्चितंनिश्चयवद्यवसितं व्यवसायःकर्मयस्यसतथातस्य एत्यत्तिअत्रनैर्ग्रथेप्रवचने किंदुष्करनकिंचिद्दुरनुचरमित्यर्थः कस्यामित्याह करणतायांकरणानांसंयमव्यापा

हिंअभभणुष्याएसमाणे समणस्सभगवओ जावप्पव्वहूत्तएणंतमेहं कुमारंअस्मा पियरोजाहिणोसं  
चाएइबहूहिंसियसयाणुलोमाहिय विसयपडिक्खुडाहिय आधवणाहिय सस्सवणाहि

वंतश्रीमहावीरदेवनासमीपनेविषे दीक्षालेवाभणीकाल्येसुभनेतिवारपच्छीतेमेघनामाकुमारप्रतंमाताअनेपिताजिवारंकाह्निवाभणीसमर्थनऊइंकहिणमान्योनहीं धणीविषयशब्दरसगंधफरिसरूपएहपांच इंद्रियेनअनुकूलसुखकारी वांशीयिकरीतथाविषयनेप्रतिकूल दुःखदाईविषयकीउपराठीएहवी पुणवांशीदेखाडी तथासामान्यकीकहिंवैकरीचसमुच्चयार्थे विशेषयकीवांशीने कहिंवैकरीतथा संसम्यक्छताविद्यमानधनेने जणावेवंदेखाडवैकरीचसमुच्चयार्थे तथाविशेषैकरीवीनतीकरी स्नेहप्रमसहितएहवी वांशीयिकरीसा सामान्यप्रकारयकी सर्वबोलकहिवाभणी विशेषयकीसर्वबोलकहिवाभणी कृताविद्यमानसर्वधननादेखाडिवाभणी स्नेहरागसहितप्रार्थ

यविष्णवणाहियत्रात्रवित्तएवा प्रख्वित्तएवासख्वित्तएवाविष्णवित्तएवा ताहेअक्रामकाइं चवेमेहं कु  
 मारं एवंवयासी इच्छामोतावजाया एगदिवसमविरायसिदिंप्रासित्तए तएणंसेमेहेकुमारैअस्मापि  
 यरसणुवमाणे तुसिणीएसंचिइइ तएणंसेसेणिए रायाकोडुं विययुरिसेसहावेइ एवंवयासौखिप्पा  
 मेवभोदेवाणुप्पिया मेहस्सकुमारस्स महत्थं महग्गं विउलंरायाभिसेयं उवइवेहतए

नाइं करीवीनतीकरिवाभणीकरीजोइं तिवारैअक्रामीकुमरअणवांअताकामभोगजांणी एहवाचेवनिअय मेघकुमारप्रतेएहवोकह  
 ताऊअत्रा अमेइकुं कुं वां कुं कुं तावप्रयसहेजात हेपुवएकदिवसनी राज्यलंक्खीप्रते पालिनाभणीप्रवत्ते जोवारूअमारामनोरथपूर्णक  
 रोहेपुव तिवारपक्खीमेवनामाकुमार सातापितानोएहवो मनजांणी अणुवोल्खीरत्थी वीज्योवाचोबकाईनथी तिवारपक्खीतेअणिक  
 नामेराजा कोटंविक्कअदेशकरी पुरुषतेप्रतेतेडावे तेडावीने एहवोकहतोइअओ चिप्रजतावलो एवनिअयसहितहे देवाद्युप्रिय मेघ  
 नामाकुमरने महाप्रयोजनमहावऊहल्य महापूज्यअथवामोटानेयोग्य एहवोवणोरज्याभिषेकराज्यनाअभिषेकनी सामग्रीप्रतेया

राणांभावः करणतातस्यांसंघमयोगेषु मध्ये इत्यर्थः तत्तस्मादिच्छास्यं वतात महत्यंति महाप्रयोजनं महावर्षं महासूत्र्यं अहाहं महापूजं म  
हतांवायोग्यं राज्याभिवेकं राज्याभिषेकसामग्रीं उपस्थापयतसंपादयत सौवर्णादीनां कलसानामष्टौशतानि चतुःषष्ट्यधिकानि भोमे  
ज्जागृतिभौमानां पार्थिवानामित्यर्थः सर्व्वोदकैः सर्व्व तीर्थसंभवैः एवं सृष्टिजाभिरिति जयजयत्वं जयं लभस्व नंदति नंदय

गुंति कोडुं विचयपुरिसाजावते वितहे वल्लवट्टवे इ२ तएणंसेसे सिणएराथा बहू हिं गणुणाय गदं डणाय गेहि  
यजावसंपरिबुडेसे हं कुमारं अइसएणंसे विसियाणं कलसाणं एवं एप्पसयथाणं कलसाणं मणिमयाणं कल

पोनीपजावो तिवारपच्छीते कौटं विकआदेशकारी पुरुषकार्यं अंगीकारकरे जावशब्दथी पाच्छिलासर्वशब्दकहिवा ते आदेशकारी पुरुष  
ते कार्यकारीथापेसुं पे तिवारपच्छीते अणिकराजा घणाप्रजामांहे महत्तरमोटादंडनायककटनास्वामी तेणे करीजावशब्दथी बीजा  
इती लकहिवासं सम्यक्प्रकारे परिवस्योथको भेधनामाकुमारप्रते आठसय एकसो अने आठसो नाना कलस आंख्या एवं एणे प्रकारे एकसो  
अने आठरूपाना कलस आंख्या एकसो अने आठ मणिना कलस आंख्या तथा एकसो अने आठ सुवर्णसो नाना रूपाना कलस एकसो आठ





तीतिवानंदःसहस्रिः सहस्रिप्रापकोवातदामंत्रणं हेनंदएवंभद्रकल्याणकारिन् हेजगन्तं दभद्रं तेभवत्वितिशेषः इहगमेयावत्कारणादिदं दृश्यं इंदोइवदेवाणंचमरोइवअसुराणं धरणोइवनागाणं चंदोइवताराणंति गामागरइहदंडकेयावत्कारणादिदं दृश्यं नगरखेड

यलजावकट्टु, एवंवयासीजयजयणं दाजयर्भद्राभद्रं तेअजियंजिणा हिजियंपालयाहिंजियमउभवेव साहिअजियंजिणेहि सतुपक्खं जियंचपालेहिं मित्तपक्खंजावभरहोइ वमणुयाणं रायगिहस्रण


जाश्रेणिक हेमेघराजन्तुं जयवंतहो विजयवंतोऊओ नंदसहस्रिपांसो हेभद्रकल्याणकारि तुं जयवंतऊवो कल्याणऊओ भद्रकल्याणऊओतेतुभने अजितनथी जीतातेजीपज्यो वैरीवर्गादिककर्मशतूजीतआपणो खजनमितवर्गपालज्यो अजितनथी जीतातेजीपज्यो जीतआचारपालताखजनवर्गमांहेवसज्यो शतूपक्षवैरीनापक्षप्रते जीतातेपालिज्योमितनपक्षने एतावताजीताछेतेमितनीपरपालज्यो एहवोकेहेराजाश्रेणिक जावशब्दथीबीजाइ शब्दकहिवाइं द्रजिमदेव तामांहेमोटोइत्यादिपाठकहिंवो भरतचक्रवर्त्तिजिममनुष्यसमस्तमांहिमोटोतिम मेघराजासमस्तमनुष्यमध्ये मोटोराजगृहनगरनो अधिपतिपणोस्वामीपणो अनेबलीअनेराइबड्डघणा

कव्वडदोणसुहमडं वपट्टणसंवाहसस्खिवेसाणं आहिवच्चं पोरेवच्चं सामित्तं भडित्तं महत्तरगतं अणार्इसरसेणावच्चंकारेसाणेपालेमा  
 शेमहयाहयनदृगीयवा इयतंतीतलतालतुडियघणसुइंगपडुप्पवाइयरवेणं विउलाइं भोगभोगाइं भुंजमाणेविहराहित्ति तलकरादि  
 गस्योग्रामः आकरोलवणुद्युत्पत्तिभूमि अविद्यमानकरंनगरं धलीप्राकारंखेटं कुनगरं कर्बटं यतजलस्थलमार्गीभ्यांभांडान्यागच्छ  
 न्ति तद्द्रोणसुखं यतयोजनाभ्यन्तरे सर्वतोग्रामादिनास्ति तन्मडवंपत्तनं द्वे धा जलपत्तनं स्थलपत्तनं च तलजलपत्तनं यतजलेनभांडां

गरस्सअस्से सिंचवज्जुणंगामागरणगरजावसस्खिवेसाणं आहिवच्चं जावविहराहित्तिकट्टु, जयइसइं पउ

ग्रामवाडिवींघ्यो आगरलूणप्रसुखना उत्पत्तिस्थानकनगरजिहां करनहीं जावशब्दथी पाठसंपूर्णकहिबो यावत् जिहां गोकलीघोसी  
 भरूआडिरहेछेतिहांलगी एतलानोअधिपत्यअधिपतिस्वामीपणो जावशब्दथीबीजाइपाठकहिवायावत् विपुलघणापां चइं द्वियनाभो  
 गभोगवतोयको विचरएहवो करीने तुं जयवंतो प्रवर्त्ति एहवो जयइशब्दवारंवारप्रयुंजे तिवारपच्छीते मेघनामारजा यावत् तेमोटीचु  
 स्सुहिसमवंतपर्वतमेरुपर्वतपर्वतमांहे राजेतिममोटीए राजाविराजे जावशब्दथीअणिकादिकसर्वअज्ञामाने तिवारपच्छीतेमेघराजाने

न्यागच्छन्ति यत्र तु स्थलेन तत्स्थलपत्तनं यत्र पर्वतादिदुर्गलोकान्यानि संवहन्ति संवाहः सार्थादिस्थानं सन्निवेशः आधिपत्यं अधिप-  
 तिकर्मरक्षेत्यर्थः पोरिवच्च पुरोवर्त्तित्वमग्रेसरत्वमित्यर्थः साम्प्रित्तं नायकत्वं भट्टत्वं पोषकत्वं महत्तरकालभुक्तमत्वं आञ्छेत्स्वरत्वञ्चाज्ञा-  
 प्रधानस्य सतः सेनापतेर्भावः आञ्छेत्स्वरसेनापत्यं कारयन् अन्ये नियुक्तकैः पालयन् स्वयमेव महताप्रधानेन अहयन्ति आख्या न कप्रतिव-  
 द्धं नित्यानुबंधं वा यन्नाद्यं च नृत्तं गीतं च गानं तथा वादितानि यानि तं त्वीचवीणा तं लौचहस्तौ तालश्चकंसिका तुटितानि च वादित्वा-  
 णितथा धनसमानध्वनिर्योस्य दहः पटुपुरुषेण प्रवादितः सचेति द्वंद्वः ततस्त्रेष्वांशोरवस्त्रेनेति इति कट्टक इति कृत्वा एवमभिधाय जयज-  
 यशब्दं प्रयुक्ते अश्लिकराज इति प्रकृतं ततो सौराजाजातः सहयाद्रुहयावत्करणात् एवं वर्णकोवाच्यः सहयाद्रिहमवंतसंहतमलयसंदरभ-  
 ह्निदसारे अञ्चं तविशुद्धदीहरायकुलवंसप्रसूए निरंतररायलक्षणविराडयंगुवंगे वरुजणबद्धमाणपूइए सब्वगुणसमिद्धे खत्ति एसु-  
 दि एसुद्धाभिसित्ते पितादिभिर्भुद्धे न्यभिषिक्तत्वात् मायपिउसुजाएदयप्पत्ते दयावान् इत्यर्थः सीमंकरे मर्यादाकारित्वात् सीमंधरे क-  
 तमर्यादापालकत्वात् एवं खेमंकरे खेमंधरे च्छेममनुपद्रवतामणुस्त्रिं देजणव्यपियाहितत्वात् जणवयपुरोहि एशां तिकारित्वात् सेउकरे मा-  
 गेदर्थकः केउकरे अद्भुतकार्यकारित्वात् केतुश्चिक्कं नरपवरै नराः प्रवराः यस्येति कृत्वा पुरिसवरे पुरुषाणां मध्ये वरत्वात् पुरिससीहे



शूरत्वात्पुरिसन्धासीविषे सापमर्थत्वात्पुरिसंपुंडरीणसेव्यत्वात्पुरिसवरंगंधहृषी प्रतिराजगजभंजकत्वात्पुरिससीहे अड्डेआढाः  
 दित्तेदर्पवान्वित्ते प्रतीतः विच्छिखविउलभवणसयणासृणाणवाहणाइस्से विस्तीर्णविपुलानि अतिविस्तीर्णानिभवनशयनासना  
 नियस्यसतथा यानवाहनान्याकीर्णानि गुणवंतियस्यसतथा ततःकर्मधारयः बद्धधणवद्धजायरुवरयए वद्धधनंगणिमादिकंवद्धनी  
 चजातकपरजतेवस्यसतथा आयोगप्रयोगसंपडत्ते आयोगस्थार्थलाभस्यप्रयोगाउपायाःसंप्रयुक्ताव्या पारितायेनसतथाविच्छड् डियपउ  
 रभत्तपाणेविच्छदि तेत्यत्ते वद्धजनभोजनदानेनावशिष्टोच्छिष्टसंभवात्संजातविच्छर्देवानानाविधभक्तिकेभक्तपानेयस्यसतथावद्धदासी  
 दासगोमहिषगवेलगणभूए वद्धदासीदासस्यासौगोमहिगीगवेलकप्रभतश्चे तिसमासः गवेलकाःउरन्नाःपडिपुणजंतक्तोसकोडागारा  
 उहागारेयंलाणिपाण्येपवंवादीनि कोशोभाडागारं कोष्ठागारंधान्यगृहं आद्युधागारं प्रहरणशालानलवंदुव्वलपच्छामित्ते प्रत्य  
 मिताःप्रातिवेशिकाः उहयकंटयं निहयकंटयंमलियकंटयंउद्धियकंटयंअकंटयंकांटाकाःप्रतिस्यद्धि नोगोलजाःउपहताविदाशनेननिहताः  
 सहद्वपहारेणमलिताःमानभगेन उडृतादेशनिर्वासनेनअतएवाकंटाकमितिएवंउवहयसत्तुमित्यादिनवरंश्लवोगोलजाइतिववगयडु  
 षिभक्खुमारिभयविप्यसुक्कं खेमंसिवंसुभिकखं पसंतडिं वडमरंअन्वयथ्यतिरेकाभिधानस्य सिष्टसंमतत्वात्नपुनरुक्तातादोषोत्तरज्जं पसा

हेमाणेविहरइत्ति जायाइत्तिहेजातपुत्रकिंदलयामोत्ति भवतो न भिमतं किंविघटयासो विनाशयामइत्यर्थः अथवाभवतो भिमतेभ्यः  
 किंदद्यः तथाभवते एव किंप्रयच्छामः किंवातेहियइच्छिएसामत्येत्ति कोवातवहृदयवांछितो मंत्रइत्ति कुत्तियावणाडत्ति देवाधिष्ठितत्वे

जंतितएणंसेमेहेरायाजाएसहयाजाविवहरति तएणंतस्समेहस्सरसोअस्मापियरोएवंवयासोभणजा  
 याकिंदलयामोकिंप्रयच्छामो किंवातेहियइच्छिए सामत्ये तएणंसेमेहेरायाअस्मापियरोएवंवया  
 सीइच्छामिणंअस्मयाओकुत्तियावणाओरयहरणंपडिग्गहंचअणियंकासवयंचसहावित्तएतएणंसे

मातापिताइसकहिताड्ढआ. अणकहो हेजातहेपुत्र तुक्कनेस्युं नथीमान्यो कुणमानतो नथीते प्रते अमेविनासुं माणं अथवा तुमारामा  
 नीतापुरुषकेहाछे तेभणीअन्ह देउं आपुं तथा तुमभणीस्युं आपीयेते कहोवाअथवा कुणतिहां हीयानो बांछ्यो आलोचिंछेकेहीवस्तु  
 हीयामां हिवांछेतेकहो अमेकणं तिवारपछी एहवोकह्याथकी अनंतरते मेघराजा मातापिता प्रते एहवो कहतो ड्ढओ इच्छामिवां  
 छुं तुं अहोमातापिताओ कुत्तियावणाओ देवता अधिष्ठितपणे करी स्वर्गमन्थं मनुष्यलोकर पाताललक्षणं एतिभुवनतीनमां हिली

नखर्गमर्त्य पाताललक्षणभूतितयसंभविस्तुसंपादक आपणो हृद्ःकुलिकापणःतस्मात् आनीतंकाश्यपकंच नापितंशब्दितमाकारित

सेणिएरायाकोडुं वियपुरिसेसह्रवेइएवंवयासीगच्छ हं गंतुमेदेवाणुप्पियासिरिघराओतिस्त्रियसय  
हस्साइं गहायदोहिंसयसहस्सेहिं कुत्तियावणाओरयहरणंप डिगहंचउवणेहसयसहस्सेगंकासव  
यंसह्रवेहतएणंकोडुं वियपुरिसा सेणिएणंरखाएवंबुत्ता समाणाहृदुडासिरिघराओतिस्त्रियसयस

वस्तुनोपमाडणहारएहवो जेआपणहाटतेकुलिकापणकहीयेतेकुत्तिया वणहाटथकी रजोहरणओघोपडघोपावोतेप्रतेआंण्योवांछुं  
कुं काश्यपकनावीप्रतेजलदी तेडावोएहवो मेघराजाइं कस्यो तिवारपच्छीतेअणिकनामेराजा कौटं बिकआदेशकारी पुरुषप्रतेतेडा  
वेतेडावीने एहवोकहतोडओ अणिकराजा गच्छोजाओ तुरहे अहोदेवानुप्रिया श्रीघरथकी एतावताभंडारथकी त्रिणलाखद्रव्यप्र  
तेग्रहीनेलेइनेजावो तुरहे दोयलाखद्रव्ये कुत्तियावणनामाहाटथकी रजोहरणओघोवली पडघोपावोएकलाखद्रव्ये ओघोएकलाख  
द्रव्यंपडघोतेलावो एकलाखद्रव्ये काश्यपनावीतेडावोतेप्रते तिवारपच्छीआदेशकारीपुरुषअणिकराजाइं एहवूं कहायकां हर्षपांस्या



मिच्छामीतिवर्तते श्रीगृह्यात्भाङ्गारात्निकेत्ति सर्व्याविगतमलात्पोत्तियाएत्तिवस्त्रेण महरिहेत्यादिमहरिहेरुंति महतायो

रणालंक्रियसरोरेजेणेवसेणिएरायातिणेवउवागच्छइत्तसेणियंरायंकरयलमंजलिकट्टुएवंवयासीसंदि  
सहणंदेवाणुप्पियजंमएकरणिज्जंतएणंसेसेणिएरायाकासवयंएवंवयासीगच्छाहिणंतुमंदेवाणुप्पियासु

रभिणागंधोदणं निकेहत्थपाएप्रक्खालेहिंसेयाए चउण्णलाएपोत्तीएसुहंभ्वंथित्ता मेहकुमारस्सचउरं  
लूगडाप्रवरप्रधानएहवापहिस्स्याच्छे जेणेतेनाइकेहवोच्छे अत्यथोडोभारमहर्घ्यं वड्डमूल्य एहवाजेआभरणकुंडलहारकंदोरामुदडी  
प्रमुखआभरणतेणेकरी अलंछतच्छे शरीरजेहनो जिहांअणिकराजाच्छे तिहांअवेआवीने अणिकराजाप्रते वेहायजोडिअंजलिप्रते  
करीनेएहवोक्कहतोह्मओ संदेशोआदेश्यो हेदेवानुप्रिय हेअणिकजेमेकार्यकरिवोद्धवे तेकहोतिवारपच्छीअणिकराजा काश्यपनावी  
प्रतेएहवोक्कहतोह्मओ गच्छाहिजावएकामकरतुं हेदेवानुप्रिय हेकाश्यपसुरभिगंधोदक सुगंधपाणीयेकरी सर्वमलरहितकरेहाय



गुलवज्जणिक्वमणपाउगनेअग्गकेसेकप्पेहिं तएणंसेकासवएसेणिएणंरखाएवंवुत्ते समाणेहइतुइजाव  
 हियएपडिसुणेइइसुरभिणगंधोदएणंहत्थपाएप्रक्खालेइइसुइवत्थेणंसुहंबंधइइत्तापरेणंजएणंमेहस्स  
 कुमारस्सचउरंगुलवज्जेणिक्वमणपाउगणेअग्गकेसेकप्पेइइतएणंतस्समेहकुमारस्समायामहरिहेणंहं

अनेपगपखालेपखालीने पच्छेत्थे तधोलोचउपडो च्यारपडनोपोतीइ वस्सतेणेकरी सुखप्रतेवांधीने मेघकुमारना च्यारआंगुलवज्जी  
 निःकमणदीच्चालेवानेप्रयोगे आगलाकेशत्र तैतुं कापि तिवारपच्छीतेकाश्चपनावी अणिकराजाइ इमकह्योथको हर्षसंतोषपांस्यो  
 थकोयावत् अंगीकारकरेकरीने सुरभिसुगंधपांणीइं सर्वमलरहितकरे हाथपगपखालेपखालीने शुद्धनिर्मलचोखोवस्खेकरी पोता  
 नासुखप्रतेवांधीने परउत्कृष्टघणेजतनेकरी मेघकुमारनाच्यारअंगुलनाकेशवज्जी दीच्चालेवानेप्रयोगे लोचकरिवानिमित्तच्यार  
 अंगुलनाकिसराखी आगलाकिसप्रतेकापे तिवारपच्छीतेमेघकुमारनी मातामहरिहेणंमोटाने पूजवायोग्यएहवो हंसनासरिखोलच्च  
 णासरूपधवलीज्जलच्छे जेहनेअथवाहंसचिह्नशटकवस्समात्त तेहीजपहिलोतेपटकहीये एहवोजेपटशटकपडलोवस्सतेणेकरी आ



लंकारे अभ्यदयेषु राज्यलाभादिषु उत्सवेषु प्रियसमागमादिमहेषु प्रसवेषु पुत्रजन्मसु तिथिषु मदनत्वयोद्देशी प्रकृतिषु क्षणेषु इंद्रमहादिषु यज्ञेषु नागादिपूजासु पर्वणीषु चकार्त्ति कथादिषु अपश्चिमं अकारस्यासंगपरिहारार्थत्वात्पश्चिमं दर्शनं भविष्यति ए तत्केशदर्शनमपनीयतकेशावस्थस्य मेघकुमारस्य यद्दर्शनं सर्वदर्शनपाश्चात्यं तद्भविष्यतीति भावः अथवानपश्चिममपश्चिमं पौनःपुण्ये न मेघकुमारस्य दर्श

सीएसणं अरुहं मेहकुमारस्य अभुद ए सुयउस्सवे सुयप्रसवे सुयति ही सुयछणे सुयजस्य सुयपव्वणी सुयअ  
पच्छिमे दरिसणे भवइइत्तिकहु, उस्सी सामलेठवे इतएणं तस्स मेहस्सकुमारस्य अस्मापियरो उत्तरावक्कमा

रकरती एहवो कहती ऊई एहअमने मेघनामा कुमरनो दरसणदो हिलो एतलेठामे केहेर ठामे अभ्युदयराजादिक लाभनाथानकविषे उत्सवप्रीतस्वजनादिकनासभागमउत्सवनेविषे प्रसवपुत्रनाउत्सवनेविषे तिथिषु मदनतरसप्रसुखतिथिनामहोत्सव क्षणइं द्राणी उत्सवनेविषे यज्ञनागादिकनीपूजानाउत्सवनेविषे पर्वणी कार्त्तिकपूनिमविषे एतलेठामे ते मेघकुमारनो दर्शन सर्वदेखिं वो ते अपश्चिमइहां मंगलीकनापरिहारपणायकी पश्चिमछे हलो होस्ये अथवानहीं जेछे हलो ते अपश्चिमकहोये ते केशअसीसाने मूले धरे एतले भलेठामे



प्रलंबतुडियाइं तिवाडूरचकाः केयूरगदयोर्वद्यपि नामकोशेवाह्वारणतयाविशेषः तथापीहकारभेदेनभेदोदृश्यः दशसुद्रिकानंत  
कंहसांगुलिसंबंधिसुद्रिकादशकं सुमणदामंतिपुष्यमालांपिनध्यतः परिधत्तःदंरश्चीवरावनद्धकुंडिकादिभाजनमुखं तेनगालितास्त

वहंसलक्ष्णप्रडगसाडगंणियंसेइहारंपिण्डंतिइअइहारंपिण्डंतिइएवंएगावलिंइसुत्तावलिकणगा  
वलिंइयणवलिंइप्रालंबंइप्रायप्रलंबंकडगाइंइतुडियाइंकेकराइंइअंगयाइंइदससुर्द्वियाणंतयंइक

वायरेकरीजडे एहवाभीणावखजावशब्दथीवी जोइवर्णककहिवोतेबखधोलाहंसनेलक्षणसहित एहवापटशाटकवखप्रतेपहिरपक्केअ  
ढारसराहारप्रतेपहिरावे तिवारपच्छीअइहारनवसराहारप्रतेपहिरावे एणप्रकारेएकावलीहारप्रते पहिरावेपहिरावीने सुक्तावली  
हारप्रतेपहिरावे कनकावलिसेनानाटंकारनोहार अथवासोनीसांकलीपहिरावे रत्नावलीरत्ननाहारप्रतेपहिरावे भूं बणाप्र  
तेपहिरावे पगतांईजेप्रलंबंवायमानअलंकारविशेषकहीये तेपादप्रलंबप्रते पहिरपहिरावे कडांकडलीपहिरपहिरावे तुटिकवाडु  
बहिरखापहिरे केयूरपिणवाडुनाआभरणविशेष अंगदपिणवाडुना आभरणविशेषतेपहिरे हाथनी अंगुलिसंबंधिसुद्रिकादसक

लपक्तावायेमलयन्ति मलयोद्भवञ्च्रीखंडतल्पं बंधिनः सुगंधयोगंधास्तान्पिनद्धतः हारादिस्वरूपंप्राग्बत् ग्रंथिमंयद्ग्रथ्यते सूत्रादिनावे  
 ष्टिमंयद्ग्रथितंसद्वेष्टते यथापुष्पलंबत्रसूकः गंडुकइत्यर्थःपरिभं येनवंशशलाकामयंपंजरकादि कूर्वादिवापूर्यते सायोगिकंयत्परस्परतो

डिसुत्तयंकुं डलाइं चूडामणिरयणुकुंडंमडुडंपिण्डंति दिवंसुमणदासंपिण्डंति दृदु, रमलयसुगं  
 धिएगंधेपिण्डंति तएणंतमेहंकुमारं गंठिमवेडिमपूरिमसंजोइमेण चडव्विहेशंमक्षेयं कप्परुक्खं  
 पिडअलंकिय विभूसियंकरंति तएणंसेणिएराया कोडु'बिययुरिसे सहावेइइ एवंवयासो खिप्पामे

एतावतादसअंगुलिदेइपहारे काटसूतकंदोराप्रतेपहारे काननेविषेकुं डलपहारे चूडामणिससुकयोग्यरतनो कुंडलरत्नजडितएह  
 वोमाथानेयोग्य सुकटपहिरावेपहिरावीने दिव्यप्रमाणफूलनीमालाप्रते पहिरावेपहिरावीने तिवारपच्छीतेमेषकुमारप्रतेगंठमजे  
 गंधियेसूत्रादिकेकरी वेडिमगंध्योयकोफूलनोदडो तेवेडिमपरिमजेशेकरी वासनीशलीभवपाजराखे एहच्यारप्रकारनीमालाफूल  
 नीतेणेकरीसहितकल्पदृचसरिखोदीसेके अलंकृतकीधो अलंकारथकोविभूमिषितसोभायमानकरे तिवारपच्छीअंशिकराजकौटं विक

वभेदेवाणुप्रिया अणेगखंभसथसखिविडुं लीलडियसालभंजियागं इहामिचउ सभतुरगणरजगर  
 विहगवालगकिंखररुसरभचमर कुंजरवणलयप्रउमलयभत्तिचित्तं घंटावल्लिमडुरमणहरसरं  
 सुभकंतदरसणिज्जंणिउणोचियमिसिसिंतमणिरयण घंटियाजालपरिखित्तं खंभुगयवडूरवेइ

आदेशकारीयापुरुषप्रते तेडावेतेडावीने एहवोकहतोह्मओ द्विप्रउतावलाएवनिश्चय हेदेवानुप्रिय अनेकघणायामानासईकडाने  
 विषेसंनिविट्टरहीछे एहवीप्रते तथावलीकेहवीलीलाइं क्रीडाइं करीरहीछे सालभंजिकापतलीजेहनेविषे वरगडानीजातिवृषभनी  
 जातिघोडानीजातिनरनीजाति मगरमच्छनीजाति व्यालसर्पनीजाति देवतानीजातिविशेष कालीयारुहगअष्टापदजीवविशेषगा  
 यनीजातिहाथीनीजाति वृनलताअशोकवृक्षनी लताकांसोटा रूप पद्मनीकमलनीजाति तेहनीभीतरूपविज्ञानविखारते घंटाना  
 न्हीघूघरीनी अणिमधुरमीठा मनोहरस्वरनादके जेहनीएहवीप्रते एहवीकारणकीशुभकांतभली कांतकमनीयदेखिवानेशोग्यजेह  
 नेदेखतंनित्रकिलामणानपांसे एहवीप्रते तथावलीकेहवीनिपुणडाहे चतुरविज्ञानीइंकीधीनीपजावी मिसमिसंतदेदीप्यमानम

यापरिगयाभिरासंविज्जाहरजमलजंतजुत्तं पिव अच्चीसहस्समालणीयंरुवगसहस्सकलियं भिसमा  
 गंचक्खु लोयणलेसंसुहफ्फासं सस्सिरीयखुवं सिग्घंत्तुरियं चवलंच्चेतियं पुरिससहस्सबाहिणीसीयं

रिचंद्रकांतादिरयणरत्नकंकतनादिकतेहनी घंठिकाहुधरीतेहना जालीयातेणेकरी परिखित्तव्यापीछेएहवीछे तथावलीकेहवीयां  
 भानेऊपररही एहवीवज्जनीवेदिकातेणेकरीपरिगटहीत परिसासख्यपणे संपूर्णपणेकरीवींठी परिवरीछतीअभिरासमनोहरदीसे  
 एहवीप्रते तथावलीतेकेहवी विद्याधरनोजेमलजोडिलो अंणिपंक्तिरहिततेहने यंलेकरीचालतांहींडतां सरिखाजदीखेवेवेविद्या  
 धरपुरुषनीप्रतिमारूपयंततेणेकरी जुत्तसहितछे एतलेविद्धं पासेविद्याधरपुरुषनी वेवेप्रतिमाआलेखीछे एहवीप्रतिमाआलेखीछे  
 एहवीप्रते तथावलीकेहवी अर्च्चिं सूर्यनाकिरणतेहना जेसहस्रतेणेकरी सोभायमानंछे एतलेकिरणारूपआलिख्यांछे तथाएहवा  
 पूर्वीत्तरूपजेसहस्रतेणेकरी सहितछे एहवीप्रते देदीयमानदीपतांछे अतिशयेकरीषणुं देदीयमानदीपतीछे चक्षुनेलेकारीलोक  
 जोतेछतेलेसंअतिशययकी षणोजेदेखिवाथकी अटप्राच्छेनेलजेहनेविषे एहवीप्रते सुखकारीयोफरसछे जेहनी सञ्जीकसोभासहितरू



उपद्रुवेहतएणंतेकोडुं विद्ययुरिसाहदुतुडाजावउवद्वेदं तएणंसेसेहकुमारि सीयंदुखहइरता सीहास  
 शवरगए पुरत्याभिमुहे सखिसखे तएणंतससेहसकुमारसमाथा गहायाकथनलिकञ्जावअप्रम  
 हग्वाभरणालंकियसरीरा सीयंदुखहइर सेहसकुमारस दहिणप्रासिभद्दासणंसि णिसीयंतितए

पछेजिहांएहवी शीघ्रकतावली त्वरितघणुं उतावली कायाथकीचपलपणेकरीउतावली एहवीसहस्रपुरुषवाहिनी हजारपुरुषवहीये  
 चलावीयेउपाडीये एहवीशिविकापालखीप्रते आणोथापोसूंको एहवाकह्याथकी अनंतरतिवारपछीते कौटं विकञ्जादेशकारीया  
 पुरपहर्षसंतोषपाठ्याथका जेहवीपूर्वकही तेहवीजपालखी आणीनेथापेतिवारपछी राजानीआञ्जापाछी सूंयेतेसेवकपुरुषतिवारप  
 छीतेसेषकुमारनी माताधारणीदेवीअंब्रोलीस्नानकीधो कीधोवलिकर्मघरनादेहरासरनीप्रतिमापूजे आवत्तमषीतिलकादिककौतुक  
 सर्वकीधाच्युभनिवारिवाभणी अल्पयोडोभारमहर्ष्यं वडुअल्यएहवी स्त्रीयानेपहिरवायोग्य जेआभरणतेणेकरी अलंकखोसोभाय  
 मानकीधोछेशरीरजेरांणीनो एहवीधारणीरांणी शिविकापालखीप्रते चढेचढीने मेघकुमारने जीमणेपासे भद्रासनसींहासनने

नालंसंघातनेनसंवात्यते अलंकृतं कृतानलंकारं विभूषितं जातविभूषं एगावरतरुणीत्यादि ह्यंगारस्यागारमिव ह्यंगारागारं अथवाह्यं  
गारप्रधानआकारो वस्याच्चारुचवेधोयस्याः सातथासंगतेषुगतादिषु निपुणायुक्तेषु उपचारिषु कुशलाचयासातथा तत्रविलासोनेन

शंतस्ममेहस्सकुञ्जारस्स अंबधार्इरयहरणं पडिगहंचगहायसीयंरूहइरे मेहस्सकुसारस्स वामेपासे  
भद्दासणंसिणिसीयंतितएणं तस्समेहस्सकुञ्जारस्सपिड्डओ एगावरतरुणी सिंगारागारच्चारुवेसासं  
गयगयहसियभणियचेट्टिय विसालसंलावुल्लावणिउणजुत्तो वयारकुसला आमेलगजमलजुयलव

विषेवैठैवैठीने तिवारपच्छीतेसेधकुमारनी अंबदूधधाधितेरजोहरणओधो अनेवलीपडघोपातोतेप्रतेग्रहीनेभालीने थिचिकापाल  
खीप्रतेचटे चढीने मेधकुमारनेवामडावेपासे भद्रासनसिंहासननेविषेवैठी तिवारपच्छीतेहमेधकुसरने पठेपाच्छलीथकीएक्करप्रधा  
नतरुणीयुवानस्त्रीएहवी तेकेहवीछेच्छंगारनामारसनेसरिखो आगारघरुके एतावता अंगारनामारसनोघरुके अथवाअंगारक०  
प्रधानरूडोआकारुके जेहस्त्रीनी अनेवलीचारुमनोहरवेसपरुहरवेसके जेहस्त्रीनीएहवी संगयकहतासंगममिलती गतगमनीचाव

विकारोयदाह ह्रावोसुखविकारः स्याद्भावश्चित्तसमुद्भवः विलासोनेत्रजोत्रेयो विश्वसोच्चसमुद्भवः १ संलापोमियोभाषाउल्लापः का  
 कुवर्णनंआहच अनुलापोमुक्तर्भाषा प्रलापोनर्थकंवचः काक्वावर्णनमुल्लापः संलापोभाषणंमिथः १ इतिआसेलगत्तिआपीडःशेखरः  
 सचखनप्रखावात् चूचकसत्प्रधानौ आमेलकौवापरस्यरमीषत्वंवंद्धौ यमलौसमश्रेणिस्थितौ युगलौयुगलरूपौ द्वावित्यर्थः वर्त्तितौ

द्वियत्रभमुख्यप्रीणरइयसंठियप्रओहराहिमरययकुं दें दुप्रगासंसकोरंटमस्रदासंधवलंआयवत्तंछत्तं

तीछेहसतीहसवो भणिवोत्रोलिवोशाखनोभणिवो अनेकचेष्टानोकरिवो विलासनेत्रनीचेष्टानोकरिवो संलापमांहोमांहिबोलती  
 उल्लापकाक्वावर्णनोत्रोलिवो तेहनैविषेनिपुणगाढीडाहीछे जेयुक्तयोग्यएहवाजे उपचारलोकव्यवहारनेविषे कुसलडाहाछे बलते  
 केहवीछेआमेलगक. सेहरोशेखरकहीये परंइहांखननाअधिकारथकीआमेलक. खननोचचुक. विंतेप्रधानवाअथवाआमेलक०  
 मांहोमांहेलिंगारिकसंधमिल्याछे जमलअंणिवद्धरह्याछे युगलरूपविवाटलारूपअतिउंचा पिणजाडारतियरतिदसुखनादेण  
 हारासंठियविशिष्टसंस्थानवंतभलाआकारवंत एहवापयोहरा पयोधरखनछे जेहनाएहवीतेखीछे हिमरजतरूपोकुं दनामाहखनो



अर्धनानामगिक्कनकरत्नानामहार्दिस्य महार्थस्यत पनीयस्यचसत्कावुक्त्वली विचित्रौदंडौयस्यतत्तथाअत्रकनकतपनीययोःकोविशेषः  
उच्यतेकनकंपीतं तपनीयंरक्तं इति विस्लीयाउत्ति दीप्यमानेलीने इत्येकेसूक्ष्मवरदीर्घवाले शंखकुंददकरजसां अस्यतस्यमथितस्यस

वणिज्जलविचित्रदंडाओ सुह्रमवरदीहवालाओसंखकुंददगरययमयमहिय पुंजसखिगासाओ  
चामराओगहायसलीलंओहारेमाणीओ चिदृईतएणंतस्समेहस्यकुमारस्सएगावरतरुणीसिंगारा  
गारजावकुसलासीयंजावदुह्रह्रमेहस्यकुमारस्सपुरओ पुव्वच्छिमेणुंचंदप्पभवद्दरचेरुलिहविमलदं

डदांडाविच्छेजेहना एहवातेकेहवाछे सूक्ष्मीणावरप्रधानदीर्घलांवावालछे जेहनावलीतेकेहवाछे शंखकुंदमचकुंददगरयपांणीना  
काणीयाउज्जलाहोइंअमयमहियअस्यतमथ्यासंबंधीयोजेफेनपुंज फेणनोससूहजजलो तेहनेसन्निकाससरीखाजजलाछे जेतेएहवो  
चामरप्रतेग्रहीने लीलासहितडोलतीछती एहवीस्त्रीवैठी तिवारप्रच्छीतेमेघकुमरनेसमीपे एकवरप्रधानतरुणीस्त्रीष्टंगारमंडनभू  
णादिप्रधानध्वाकारसंस्थानविशेषचारसनोहरवेधवल्लनोपहिरवो कुसलडाहीएहवी स्त्रीपालखीप्रतेचडे तेस्त्रीकेहवीछेमेघकुमार

तोयः फेनपुंजस्य च सन्निक्ताशे सदृशे ये ते तथा चाकारे चंद्रप्रभवज्ववैडूर्यविसलदंडं इह चन्द्रप्रभवचन्द्रकान्तोमणिः तालवृन्तं व्यजनविशेष  
 पः सत्तगजमहासुखस्य आद्यत्थाकारेण समानः सदृशोयः सतथातंरुंगारं एगेत्यादि एकएकादशः आभरणलक्षणो गृहीतो निर्धोगः प्र

डंतालियं टंगहायार्थचिद्रु तएणंतस्स भेहस्स कुमारस्स एगावरतरणी जावसूवासौयंदुरुहर मेहस्स कु  
 मारस्स पुब्बदक्खिणं सेयं रययसयं विसलसलिलसुखं मत्तगयम हासुहाकित्ति समायं भिंगारंग  
 हायार्थचिद्रु तएणंतस्स भेहस्स कुमारस्स पिया कोडुं वियुपुरिसेसहाविइए एवं वयासी खिप्पामेवभो देवा

नेत्रागलिपूर्वदिशिनेसाहमी चंद्रप्रभवकहतांचंद्रकांतनामा मणिवद्भवज्ववैडूर्यनामारत्नतेणेकरीजड्योक्ते एहवोविसलनिर्म  
 लदंडे जेवीजणानो एहवोगहीने लेद्धेनेवैसे तिवारपक्खीवली तेसेवकुमारनेपासे एकावरप्रधानतरणी यौवनवती एहवी यावतसुरूप  
 रूडीरूपवती स्त्रीपालखीप्रतेचडे चढीने सेवकुमारने पूर्वदिशिअनेदक्षिणविचे खेतथेलोरजतभयरूपामय एहवोतथावली विसल  
 निर्मल एहवोसलिलपांणी तेणेकरीपूर्णभस्योक्ते एहवोतथावली केहवो सत्तंगयमाता हाथीनामोटा सुखनेआकारेकरीसमानसरि

रिक्तरोयेसोतथा तेषां कौटुंबिकवरतरुणानां सहस्रमिति तएणंते कौटुंबिकवरतरुणपुरिसा सदा विचन्तिशब्दिताः समाणत्तिरंतः अठ

गुप्पियासरिसयाणं सरित्तयाणं सरिवयाणं एगाभरणगहियणिज्जोहाणं कौटुंबिकवरतरुणाणं  
सहस्रं सदा विहजावसदावेति तएणंते कौटुंबिकवरतरुणपुरिसासेणियस्स रणोकोटुंबिकपुरिसेहिं  
सदा वित्तासमाणा हट्टुट्टाणहाया जावएगासरणगहियणिज्जोया जेणामेवसेणिएरायातिणासेवउ

खोच्छेजेते एहवोमं गारक्करोते प्रतेग्रहीनेवैसे वलीतिवारपच्छीते मेघनामाकुमरनो पिता अणिकाराजा कोटं विकआदेशकारीयासेव  
कांप्रतेतेडावेडावीने एहवोकहवोच्छ्रो छिप्रउतावलोएवनिश्चे हे देवानुप्रिय सरिखाज्जइं सरिखीत्वचाज्जवे सरिखीवयज्जवे वली  
तेकेहवाएकसरिखो आभरणलक्षणग्रहीतपहिस्योक्के निर्योग्यपरिकरजेणे एहवाकोटं विकआदेशकारीया पुरुषवरप्रधानतरुणयो  
वनवंतएहवा सहस्रपुरुषप्रतेतेडानो यावतराजारीआज्जाइंतेडावे तिवारपच्छीते कौटुंबिक पुरुषवरप्रधानयौवनवंतपुरुषपते अणिक  
राजाना कौटुंबिकपुरुषे तेजाकृता ऋषसंतोषपास्यास्नानअंधोलकीधा यावत् एकजातीयसरिखाआभरण पहिस्याक्के निर्योग्यक०प

दुर्मलयत्ति अष्टावष्टावित्तिव्यायां द्विर्वचनंमंगलकानि मंगल्यवस्तूनि अन्येत्वाहुः अष्टसंख्यानि अष्टमंगलकसंज्ञानिवस्तूनीतितप्य

वागच्छद्भ्रसेणियंरायं एवंत्रयासीसंदिशहणं देवाणुप्यियाजस्युं अग्नेहिंकरणिज्जंतएणंसेसेणिएतंको  
हुं ब्रियवरतरुणसंहसंएवंवयासी गच्छहणं देवाणुप्यियासेहस्यकुमारस्सपुरिससहस्रवाहिणीसीधंप  
रिवहहतएणंतीकोनुं ब्रियवरतरुणसहसंसेणिएणंरसाएवंबुत्तंसंतहडुं मेहस्यकुमारस्सपुरिससह

रकरजेणेएहवापुरुषपोतानाघरथकी निकली जिहांअणिकराजाछे तिहांजआवे आवीने अणिकराजाप्रतेइमकहताहुआ संदिशो  
आदेशदो हे देवानुप्रिय हेअणिकजेकार्यअमनेकरवायोग्यहुइं तेकहो तिवारपछीतेअणिकराजा तेकौटं विकआदेशकारीयावरप्रधा  
नतरुणयोवनवंतपुरुषनोसहस्रतेप्रते इमकहतोहुआ जाओ हे देवानुप्रियमेधनुमारनी सहस्रपुरुषवाहिनीसहस्र पुरुषेखांधिलेइउ  
पाडीयेएहवीपालखीप्रते परिवहोउपाडोतुमे तिवारपछीतेकौटं विकआदेशकारी वरप्रधानरूडायौवनवंत पुरुषनोसहस्र अणिक  
राजाइं इमकह्येथके धणं हर्षवंतसन्तोषपांन्या मेधकुमारनीसहस्रपुरुषवाहिनी एहवीशिनिकापालखीप्रते परिवहेउपाडे तिवार



मयाएत्ति तेषां विवक्षितानां मध्ये प्रथमता तथा बहुमाण्यंति शरावं पुरुषारूढः पुरुष इत्यन्ये स्वस्विकपंचकमित्यन्ये प्रासादविशेष इत्य

स्वाहृणिंसीयंपरिवहद्र तएणंतस्समेहकुमारस्वपुरिससहस्सवाहृणीसीयंदुरुटस्ससमाणस्सइसेअइइ  
 मंगलयातप्पटमयाए पुरओअहाणुपुव्वीएसंपट्टिए तंजहासोच्छियंसि रिवच्छणंदावत्तवद्दुमाणाग  
 भद्दासणकलसमच्छट्ठप्पण जाववहवेअत्थत्थियाजावतहिं इट्टाहिंजावअणवरयं अभिणंदतायअभि

पछीतेसेघकुमारनी पुरुषसहस्रवाहनीशिविका पालखीप्रते आरूढयथाच्छतानेमेघकुमारने इमेएआगलिकहिंस्येते आठर मंगली  
 कचाले तेषां व्याअट्टमंगलीकवस्तुमाहेप्रथम आगलियकी आद्यपूर्वीइं केडाकेडिअद्युक्रमेचालेतेअनुक्रमेकहेच्छे साथीयोश्रीवत्सुनंदा  
 वर्त्तवद्दमानक० सरावसंपुटंएकजपरत्रीजोजपराजपर भद्रासनसिंहासन पूर्णकलसमतसद्युग्मदर्पणआरीसोएट मंगलीक इहांजाव  
 यद्दधीनीजाईपदार्थकहिवाघणा आगलयी केडाकेडेचाले तेउवाईमध्ये कृणिकनीपरेजाणोयावत्तुइष्टमनोज्ञवांणीयेकरीइष्टवचन  
 बोलतापुरुष यावत्तुनवरतनिरंतरकेहने आंतरंनहीं एहवीअभिनंदतासमस्तपणेकरी सन्द्विच्छिवंतप्रतेकहतां वलीअभिसमस्ता



न्येदप्रणत्ति आदर्श इहयावत्कारणादिदृश्यं तयाणंतरंचरणंपुष्कलसः भिंगारं२ दिव्वायकृतपडाया३ सचामरादंसणरइय आलीय  
 दरिसणिज्जा वाउडुयविजयवेजयंतीय ऊसियागगणतलमणुलिहंती पुरोअहाणुपुब्बीएसंपडिया तयाणंतरंचरणं वेरुलियभिसंतविम  
 लदंडं पलंवकोरेंटमक्खदामोवसोच्चियं चंदमंडलनिभं विमलंआयवत्तं पवरंसीहासणं चमणिरयणपायपीठं सपाडयाजुयसमाउत्तं  
 ऊकिंकरकम्मकरपुरिसपायत्तपरिक्खत्तं पुरओअहाणुपुब्बीएसंपडियंतयाणंतरंचरणं बह्वेलडिगगहाकुंतगगहाचावगगहाचामरगगहाकु  
 मरगगहापोत्ययग्गाहाफलकगगहापीठयगगहावीणगगहाकूवगगहाकप्पडगगहाहडप्पगगहापुरओअहाणुपुब्बीएसंपडियातयाणंत  
 रंचरणंबह्वेदंडिणोसुं डिणोक्किहिंडिणोहासकराडमरकराचाडुकराकीडंतायवायंतयागयंतयायनच्चंतयायहासंतायसोहंतायसाविताय  
 रक्खं तायआलीयंचकरेमाणजयसहं चपडं जमाणपुरओअहाणुपुब्बीएसंपडियातयाणंतरंचरणं ऊब्बाणंतारमक्खिहायणांय्यासगअ  
 हिलानुचामरगंडपरिमंडियकडाणंअट्टसयंवरतुरगाणंपुरओअहाणुपुब्बीएसंपडियं तयाणंतरंचरणंईसीदंताणंईसीमत्ताणंईसीउच्छं  
 गविसालधवलदंताणंकंचणकोसीसपविट्टदंताणंअट्टसयंगयाणंपुरओअहाणुपुब्बीएसंपडियं तयाणंतरंचरणंसक्खत्ताणंसक्कयाणंसंधंटा  
 णंसपडागाणंसुतोरणवरसुनंदिघोसाणंसखिखणीजालपरिक्खत्ताणं हेमवयच्चित्तिणिसक्कणनिज्जत्तदाश्याणंकालायससुकयने

मिजंतकभागंसुसिद्धिचिन्तमंडलधुराणंश्चाद्भुतगसंप्रपत्ताणं कुसलनराद्धेयसारहिंसुसंपरिगगहियाणं वत्तीसतोरणपरिमंडि  
 यागंसक्रांडवंसकागंसचावसरपहरणावरणतिरियजुद्धसज्जाणं अट्टसयंरहाणंपुरात्राहाणुपुब्बीएसंपट्टियंतवाणंतं चणं असिसत्ति  
 कुंततोसरसललउडभिंदिमालधणुपाणिसज्जंपायत्ताणीयं पुरात्राहाणुपुब्बीएसंपट्टियंतएणंसेमेहेकुमारिहारोखसुकवरइयवत्थेकुंड  
 लज्जोद्वायागो मउडदित्तसिरए अन्भहियरायंतै यलच्छीएदिप्पमाणे सकोरिंटमस्रदाभेणंछत्तेणं धरिज्जमाणेणंसेयवरचाभराहिं  
 उहुव्वसाणीहिं हयगयपवरजोहकलियाए चाउरंगिणीएसेणाए समणुगममाणेणंवेणुणसिलए वेइएतेणेवप हारिथगमणा  
 याएतएणंतत्समेहस्सकुमारस्सपुरात्रोमंहंआसा आसधराउभआओपासे नागानागधरा पिट्टओरहारहसंगेस्सुती तएणं सेमेहकुमारिअ  
 भुग्गयभिंंगारेपगहियतालियंटे ऊसत्रियसेयवरच्छत्तेय वीजवियवीलवीयणीएसव्विड्ढीए सव्वज्जू ईएसव्ववलेणं सव्वसमुदएणंसव्वाद्द  
 रेणंसव्वविभूईए सव्वविभूसाएसव्वसंभमेणं सव्वगंधमस्सुपुप्फमस्सालंकारेणं सव्वतुरियसद्दसणिनाएणं महयाइड्ढीएमहयाजुईएम  
 हयावलेणंसहयासमुदएणं महयावरतुडियजमगसमगपवाद्दएणं संखपणवपडहभेरिअस्सरिखरसुहिज्जुक्कसुयसुद्दंगडुं दुभिनिग्घो  
 सनाइयरवेणंरायगिहस्सनगरस्समज्जकं मज्जकं मज्जकं मज्जकं मज्जकं मज्जकं मज्जकं मज्जकं मज्जकं मज्जकं मज्जकं

रास्व न हवे अत्यत्याकामत्याया भोगत्यालाभत्याया किञ्चिस्वियाकारोडियाकारवाहिया संखियाचक्रियालंगलिया सुहसंगलिया  
 पुष्पमाणवावद्भमाणगा ताहिंद्द्रुडाहिंकंताहिंपियाहिं मणुसाहिंमणामाहिं मणोभिरामाहिं हिचयगमणिज्जाहिं वगहिं तिअयम  
 स्यार्थः तदनंतरं च छलस्योपरिपताकाच्छलपताका सचामराचामरोपशोभिता तथादर्शनरतिदा दृष्टिसुखदाआलोकेदृष्टिविषयेच्छेत्  
 स्थितात्यु ज्ञतयाह्यतेयासा आलोकनदर्शनीया ततःकर्मधारयः अथवादर्शनेदृष्टिमयेभेधकुमारस्य रचिताहतायाआलोकदर्शनीया  
 चयासातथा वातोद्भू ताविजंयस्त्रुचिवाचयवै जयंतीपताकाविशेषः सतथासाचउसिया उल्यिताज्झीछतापुरतोशतः यथानुपूर्वीक्र  
 मेणसंप्रस्थिताप्रचलिताभिसंततिदीप्यमानः मणिरत्नानांसंबंधिपादपीठं यस्यसिंहासनस्य तत्तथा स्वेनस्वकीयेनभेधकुमारसंभंधिना  
 पादुकायुगेनसमायुक्तं यत्तत्तथावद्धभिःकिंकरैः किंकुर्वाणैःकर्मकारपुरुषैःपादातेनच पदानिसम्बहेनशस्त्रपाणिनापरिचित्रं यत्तत्तथा  
 कुञ्चितिकुटुपःहृड्योत्ति आभरणकरंडकंसुं डिणोसुं डिताः छिहं डिणोशिखावंतः डमरकराः परस्परैणकलहविधायकाः चाटु का  
 राःप्रियंवदाःसोहंतायत्तियोभंकुर्वंतः सावंतायत्तिआवयंतः आशीर्वचनानिरक्षन्तोन्वायंआलोकयंचकुर्वाणाःभेधकुमारं तत्सच्छिं  
 चपश्यन्तःजात्यानंकांनोजादिदेशोद्भवानान्तरो मस्तिनोवला धायिनोवागाधायिनोवाहायनाः संवत्सरायेषांतेतथातेषां अन्येऽप्युभाय

लत्तिमन्यं ते तत्रभायलाजात्यविशेषाएवेति गमनिकैर्वासकार्दपणाकाराः अहिलाणानिचक्रविकानियेषांसन्ति तेतथामतुलोपात्  
चामरगंडाः चामरदण्डासौःपरिमण्डिताकटीयेषां तेतथातेषांईषदृन्तानां मनाग्रहितशिक्षाणामीशन्मत्तानां नातिमत्तानांतेहि  
जनसुपद्रवयन्तीति ईषन्मनाकुत्संगइवोत्संगः षष्टिदेशस्त्रवविशालाविस्तीर्णाधवलदन्ताश्च येतेतथातेषां कोशीप्रतिमानंदिवोपसू  
र्धनादः अथवासुनन्दीसन्मन्दिक्विकोषोयेषां तेतथातेषांसक्किणिसचुद्रुघण्टिकंयज्जालं द्युक्ताफलादिमद्यंतेनपरिचिक्षायेतेतथातेषां  
तथाहैमवतानिहिमवत्पर्वतोद्भवानि चित्राणिनिस्स्यटक्षविशेषस्य संबंधीनि कानकनियुक्तानिहेमखचितानि दारुणिणकाष्ठानि  
येषांतेतथातेषां कालायसेनलोहविशेषेण सुदृढतंनेमेर्गण्डमालायाः यंत्राणांचरथोपकरणविशेषाणां कर्मयेषांतेतथातेषांसुस्त्रिष्टे  
वित्तित्तिवेतदण्डवत्मण्डलेत्तेधुरी येषांतेतथातेषां आकीर्णविगादिगुणयुक्तायेवरतुरगसो संप्रयुक्तायोजितायेषुतेतथा तेषांकुशल  
नराणांमध्येच्छेकादक्षाः सारथयसौःसुसंप्रगृहीतायेतेतथातेषां जुत्तोणत्तिशरभस्त्राः सहकंकटैःकवचैर्वेशैश्चवर्त्तयेतेतथातेषांसचा  
पाधनुर्द्युक्तायेशराः प्रहस्त्राणानिचखन्नादीनि आवरणानिचशीर्षकादीनि तैर्वैभ्यतायुद्धसज्जाश्च युद्धप्रगुणायेतेतथातेषां लज्जित्तलकुटाः  
अस्यादिकानिपाणौहस्त्रे यस्यसतथा तच्चतत्सज्जं च प्रगुणं युद्धस्येतिगम्यते पादातानीकंपादातिकटकं हारावसू, तंसुदृढतरतिकंवि

हितसुखंचोयस्यसतया सुकुटदीप्तशिरस्कः पहारित्यंगमणयाएत्ति गमनायप्रधारितवान् संप्रधारितवान् महत्तिमहांतःअश्याःअ  
 श्वधराःयेअश्वान्धारयन्ति नागाःहस्तिनःनागधराः येहस्तिनोधारयन्ति क्वचिद्वराह्मतिपाठः तदाश्वानागाच्चकिंविधाः अश्ववराःअ  
 श्वप्रधानाःएवंनागवराः तंशरथारथसंवेक्षणरथमालाक्वचित्रहसंगेक्षीतिपाठः तत्ररथसंगेक्षीरथसमूहः तएणसेमेहकुमारैअब्भग्ग  
 चभिंंगरेइत्यादिवर्णकोपसंहारवचनमिति नपुनरुक्तं सव्विड्ढीएइत्यादोहदावसरेव्याख्यातं शंखःप्रतीतः पणवोभांडानांपटहःपटह  
 सुप्रतीतएव भेरीदक्काकाराभ्रसूरी वलयकाराखरसुह्नी काहलाऊडुक्काप्रतीता महाप्रमाणोमर्दलोसुब्जः सएवलसुब्दं दंगोडुं डुभि  
 भर्थाकारासंकटमुखी एतेषानिर्घोषोमहाध्वनोनादितंच घंटायाभिववादनोत्तरकालभावीसतत् ध्वनिसस्रक्षणोचोरवखे नअर्थार्थि  
 नोद्रव्यार्थिनःकामार्थिनः शब्दरूपार्थिनःभोगार्थिनोऽंगधरसस्यर्थार्थिनः लोभार्थिनःसामान्येनलाभेभुवः क्विख्लिषिकाःपातकफलवंतो  
 निःस्वाधपंग्वादयःकारोटिकाः कापालिकाःऋरोराजदेवंद्रव्यं तद्वहंतियेतेकारवाहिकाःकारेणवावाधिताः पीडिताःयेतेकारवा  
 धिताःशंखवादनंशिल्पसेषाम्भितिशंखिकाः शंखोवाविद्यतेयेषा संगल्यचंदनाधारभूतः तेशंखिकाःचक्रग्रहरणसेषाम्भितिचाक्रिकाः  
 योद्धारःचक्रंवास्त्रियेषांतेचक्रिकाः कुंभकारतैलिकादयः चक्रंचोपदस्यं वाचंतेचाक्रिकाः चक्रधराइत्यर्थः लांगलिकाःहालिकाःलांगलं



याप्रहरणंयेपागलेवालंनमानंसुवर्णादिसयं तद्ये षांतेलांगलिकाः कार्पटिकांविशेषाः सुखसंगलानिचाटुवचनानि येकुर्वन्तितेसुखसंग  
लिक्ताःपुष्पमाणवाःनग्नाचार्याः वर्द्धमानकाःस्कांधारोपितपुरुषाः इडाहीत्यादिपूर्ववत् जियविग्धोवियवसाहिति इहैवसंबंधःअपि  
चजितविघ्नस्वं हे देवअथवादेवानांसिद्धे चमध्ये वसअस्य निहणाहितिविनाशयरागहे षौमसौ केनकरणभूतेनेत्याह तपसाअनश



द्युणंतायएवंवयासी जयजयणंदाजय२ महाजयणंदाभदंते अजियंजिणाहिं इंद्रियाहिंजियंचपाले  
हिंसमरणधम्मंजियविग्धो वियवसहिंतेदेवसिद्धिमज्जेणिहणाहि रागदोसमल्ले तवेणवि धणियवद्ध

पणेकरीसोटाप्रधानादि खजनतेपिण एहवोकहताज्जआ हेमेषकुमारतुं जयकारीहो तुं नंदससृद्धिवंतहो वलीतुं जयपांसभद्रकल्या  
णकारीयाओ तुं जयपामेनंदससृद्धिवंततथा कल्याणकारीया याओ ते तुंभने अजितदोहिलाजीपीये एहवाअजेयजयकरीवशीभू  
करोइंद्रीकानप्रसुवपांचइंद्रियप्रते वशीभूतकरोवलीजितआत्माक० संघाते वर्त्तते सामातेआत्मापणेजीवद्रव्यपणेकरी अगोचरे  
हवोअमरणधर्मजमादिदसविधयतिधर्मप्रते तुं पालजे जीत्योछे विघ्नजेणे एहवोछतो वशादिक० वसिरहितुहेवहे मेघसिद्धिमध्ये क०

नादिनाकिंभूतः सन् हत्याचित्तस्वास्थे नवधर्षिण्यंति अत्यर्थपाठांतरेण वलिकाद्वावद्वाक्याय नसतथा सख्तिप्रतिमसुधादिनाकरणेन वस्त्रादिदृढवद्भवत्सन्निहन्तीति एवमुक्तमिति तथा मर्यादया अष्टौ कर्मांशून् ध्यानेनोत्तमेन शुक्लेनाप्रमत्तः सन् तथा पावयति प्राप्नुहि विविति मिरं अपगतां ज्ञानतिमिरपटलं नास्मादुत्तरमस्तीति अनुत्तरं केवलज्ञानं गच्छ चमोक्षं परंपदं शश्वतमचलचेत्येवं चकार

कामवे महाहिद्य अष्टकस्मसत्तूजकार्णोत्तमेण सुक्केणं अप्रमत्ते पावयविति मिरमणुत्तरं केवलणाणं

अमणधर्मयतीनाधर्मयतीनाधर्मने वशवर्ती ते मां हि यकीहणुजे निग्रहकरजे जीपजेतुं एकारणरागद्वेषरूपीयामसुतपे करीनेतपवारभेदवाह्यअभ्यंतरच्छभेदतेणे मरीजीपजेकेहवोच्छतो तु हेमेव धतिसंतोषनेविषे अथधैर्यनेविषे धर्षियवणुजवद्भवद्ध्येके कच्चकाछो जेणे एहवोच्छतो वलीकेहवोतुं मईजे आठकर्मरूपशतुवैरीप्रते मईजे स्थे करीनेध्याने करीने आर्तरीद्रध्याननिषेधवाभणी उत्तमप्रधानशुक्लाध्याने करी मईजे कर्मशतुप्रते अप्रमत्तप्रमादरहितच्छतो तिमिररहितच्छोतरूप एहवो अनुत्तरसर्वोत्कृष्टप्रधान एहवोकेवलज्ञानतेप्रते तुंपासेस गच्छक० जाजे मोक्षपरमउत्कृष्टपदप्रते एतावता मोक्षपदच्छजे ते केहवोके सासतोके वलीकेहवोअचलनिच





सम्भवाः किं कृत्वा च त्वापरीषहचम्पं परीषहसैन्यं गमित्यलंकारे अथवा कथं भूतस्त्वं हन्ता विनाशकः परीषहचम्पनां एगपुत्ते इति धारि

गच्छयमोक्त्वं परमंप्रयं सासयंच अचलं हंतापरीसहचमूणं अभौ औपरीसहोवसगाणं धम्मेते अविगधं  
भवओतिकट्ट पुणेऽमंगलजयऽसहंपडं जंतितएणं सेमेहेकुमारि रायगिहस्सएणयरस्समडभंमज्जेणंणि  
गच्छइजेणवगुणसेलएचेईए तेणेवडवागच्छइरत्ता पुरिसहस्सवाहिणी औसीया औपञ्चोरुहइतएणं

लच्छे हंताहणीने परीसहरूपिणीचम्पेना कटकप्रते अवीहतोपरीसहअनेउपसर्गथकी तेतवताहराधर्मआदस्या संयमनेविषेअवि  
धं० विघ्ननोअभावविघ्नरहितथावोएहवोकहीने जचरीने पुनःपुनःवारंवार मंगलिक जयरथब्दप्रतेप्रयुंजते खजनतथाशंखशंख  
वादकादिकलोक तिवारपच्छीमेघकुमार राजगटहनगरने मांहिथईने नीकले जिहां गुणशिलनामाचैत्यचक्षुनो स्थानकच्छे तिहांज  
आवेआवीने सहस्रपुरुषवाहिनी एहवीशिविकापालखीथकी हेठोजररे तिवारपच्छी तेमेघकुमारना मातापितामेघकुमारप्रतेआ  
गलित्ररीने जिहांएवनिचयअमणतपस्वी भगवंतओसहावीरकर्मशतु नाजीपवाथकी तिहांआवेआवीने अमणभगवंतओसहावीर

तस्मै हस्त्रकुमारस्त्रभ्रा पियरोमेहं कुमारं पुरञ्चो कट्टु जेणामेवसमणे भगवं महा रौरै तेषामेव लु  
 वागच्छद्द्रुत्तासमणं भगवं महावीरं तिक्वुत्तो आयाहिणं प्रयाहिणं करेद्दरे करेद्द्रुत्तावं द्रुणं संसद्  
 ताएवं वयासौ एसणं देवानुषियामि हे कुमारे अरुहं एगीयुत्ते इड्डे कंतेपि एसणुत्ते मणाले जावजी वियज  
 सासएहि ययणं दिजणए लं बरपुण्णं पिवदुल्लं हे सवणयाए किमंग पुण्णदरिसणयाए येजहाणा मएउ

प्रतिविणवारजीमणापासाथी प्रतेकरे प्रदक्षिणा करीने वां देनमस्कार करे करीने एहवोकहताऊआ एहे देवानुप्रिय हे भगवन् मेघना  
 साकुमारअमारि एकपुल्लते धारणी राणीनीअयेत्ताइं अणिकराजाने घणापुल्लपणायकी इष्टवस्त्रभच्छे कांतकमनीय प्रियवस्त्रभच्छे मनो  
 रसविष्वाखनोठामच्छे एहवोजीवतव्यआउखानीकाजे जिमसासोसासऊइतिमएकुमरच्छे जीवतव्यसरखोच्छेतयावलीकेहवोहृदयहीया  
 नेनंदिस्सहृद्वनीआनंदनोउपजावणहारएहवो हेस्वामिन्जं वरनामा वृत्तनाफूलनीपरि दुर्लभदोहिलोच्छे सांभलवेकरी एतावताजं  
 वरवृत्तनोफूलअष्टशृङ्गइं किंइतिप्रभे अंगइतिकोमलामंलणेपुनः वलीएकुमरने दरसणदोहिलोच्छेहीसेच्छे तेकुमरकेहवोयथोतेकहेच्छे

रूपपेक्षयात्रेणिकस्यत्रलुपुत्वत्वात् जीवितोच्छ्वासकोहृदयनन्दिजनकः उत्पलभित्तिवा नीलोत्पलंपद्मभित्तिवा कुसुदभित्तिवा

अलेइवाप्रलभेइवात्राकुसुदेइवापंकेजाएजलेसुसंवट्टिएणोवलिप्रइपंकरएणं एवाभेवभेहेकुभारिकाभेसु  
जाएभोगेसुसंवट्टिए णोवलिप्रइकामरणं णोवलिप्रइभोगरणं एसणंदेवाणुण्णियासंसारभल्लंवि  
ग्गेभीएजस्मण्णजराभरणंइच्छइदेवाणुण्णियाणंअतिएसुंडेभविता आगाराओअण्णारिथंपव्वइ

उत्पलक० नीलेवर्णे कमलनीलोत्पल पद्मकमलसूर्यविकासी कुसुदकमलचंद्रविकासी एहवाकमलएसगलापंककादवकीचमांहेजातजप  
जेजलपांगीनेविषे वृद्धिपात्रेवाधे तोहीनलीपाइं कमलपंककादवकचरानीरजे एकमलनीपर मेघकुमारकाम रूपीयाकादवकचरा  
नेविषेजातजपनोद्धे जन्मपात्र्योद्धे भोगरूपजलनेविषे वृद्धिपात्र्योद्धे तोहीलीपातोनीयी कमलरूपरजेकरीतथालीपातोनीयी भोगरूप  
रजेनारी एमेघकुमारहे देवानुप्रियहेभगवन् संसारनाभयथकीउचाटययो बौहतोजन्मअनेजराभरणथकी तेहभणी हिवेवांछेहेहे  
देवानुप्रियहेभगवन् तुहारा अंतसमीपनेविषे सुं डथई मस्तकलोचकरीने आगारधरथकी नीसरीअनगरसाधुपणाप्रते एकारण

त एत्रम्हेदेवाणुपिपयाणंसिस्सभिव्वं दलयासोपडिच्छं तुणंहेदेवाणुपिपयासिस्सभिव्वं तएणंसमणेभग  
 वंसहावीरेमेहस्सकुभारस्सअस्सापिडिंहिं एवंतुत्तेसमाणेएयमहुं सम्मंपडिसुणेइतएणंसेमेहेकुमारसमाण  
 स्सभगवओअहावीरस्सअंतियाओउत्तरपुरच्छिंमंदिसीभागंअवक्कसेइत्ता सयमेवआभरणमहालं  
 कारंसुयइत्ता तएणंसेमेहस्सकुमारस्समायाहंसलक्खणेणंपडसाडएणंआभरणमहालंकारंपडिच्छं

यकीअन्ह देवानुप्रियतुह्भगवंतभणी शिष्यरूपिणीभिच्चाशिष्यमयभिच्चाप्रतेदीजे तेप्रतीच्छो अंगीकारकरोल्यो हे देवानुप्रियशिष्य  
 रूपभिच्चाप्रते तिवारपच्छी अमणभगवंतओमहावीरदेव मेघनामाकुमारना मातापिता एहवोकहेच्छतेऊते एपूर्वीक्तअर्थप्रतेसम्यक्  
 प्रकारिसांभलि तिवारपच्छीतेमेघनामाकुमार अमणभगवंतओमहावीरदेवना समीपथकी उत्तरदिशिअनेपूर्वदिशिविचे एतलेईशान  
 क्खणिनाविभागप्रते जाइं जाइने स्वयमेवपोतेज आभरणमाल्याअलंकारखंके खंकीनेउतारीने तिवारपच्छीमेघकुमारनीमाता  
 धारिणीहंसलक्षणधोलोवस्सवणुं उत्तमएहवेपटसाटकेकरीरेसमीवस्से करी आभरणमाला अलंकारप्रते पडिच्छेग्रहेग्रहीने पच्छेजि

चन्द्रबोधं जड्बभित्यादि प्राप्ते पुसंयमयोगेपुयलः कार्योहेजातपुत्र घटितव्यमप्राप्तप्राप्तयेघटनाकार्यो पराक्रमितव्यं पराक्रमःकार्यः

इरेत्ताहारवारसिंदुवारच्छिख सुत्तावलिपगसाद् अंसूणिविणिसुयमाणो२ रोयमाणो२कंद  
माणोविलवमाणो२एवंवयासीजइयव्वंजायाघडियव्वंजायापरिक्रमियव्वंजायाअस्सिचणंअट्टेणोपमा  
एअव्वंअभहंपिणंएवमेवमग्गे भवओत्तिकह, मेहस्सकुमारस्सअस्मापियरोसमणंभगवंसहावीरंवंदइ

महारत्तोच्छतो पडे पांणीनीधारा तथासिंदुवारनिर्गुडीना फूलगलतां छेदीसुक्ताफलसोतीनी अंणिइत्यादिकनाप्रकाशसरिखांआं  
सूप्रतेमू कतीच्छती रोतीच्छती आक्रंदकरतीच्छती विलापकरतीच्छती एह्वंकहतीह्दइ पास्यासंयमयोगनेविषे जइयव्वं क० यलकरिवा  
हेजातहेपुल अणपामीवस्तुभणीपामिवानी घटनाकरिवीहेपुल तथासंयमने विषेपराक्रमकरिवो पुरषपणानो अभिमानतेसिद्ध  
फलकरिवुंसाचोकरिवो एसंयमनाअर्थसंयमपालिवाना अर्थनेविषे प्रमादकरिवोनहीं अमनेपिणएहमार्गयथायोग्यहोज्याएहवूंकही  
नेमेघकुमारना मातापिता अमणभगवंतश्चीमहावीरदेवप्रते वांदेनमस्कारकरेकरीने जेदिशियकीप्रगट यथाआव्यातेणीजदिशि

पुरघत्वाभिमानः सिद्धफलः कर्त्तव्यमिति भावः किमुक्तं भवति एतस्मिन्नर्थे प्रव्रज्यापालनलक्षणेन प्रसादयितव्यमिति आदीप्तईप्रहीप्तः

णमंसईरत्ता जामेवदिसंपाउभभूया तामेवदिसंपडिगया तएणंसेमेहेकुमारि सयमेवंपंचसुद्वियंलोकं  
रेइजेणामेवसमणेभगवंमहावीरे तेणामेवउवागच्छईरत्ता समणंभगवंमहावीरंतिक्खुत्तोआया  
हिणंपयाहिणंकरेइरत्ता वंदइणमंसइरत्ता एवंवयासीआलित्तेणंभंतलोए पलित्तेणंभंतलोएआलि  
त्तपलित्तेणंभंतलोए जराएसरणेणयसेजहाणामएकेइगाहावईआगारं सिज्जियायमाणंसिजेतत्थ

प्रतेपाखावलीगया तिवारपच्छीते मेघनामाकुमार पोतानीमेले पांचमूढी लोचप्रतेकरेकरीने जिहांअमणभगवंतश्चीमहावीरदेवच्छे  
तिहांआवेआवीने अमणभगवंतमहावीरदेवप्रते तिणवारजीमणापासाथी प्रारंभीप्रदखिणाप्रते करेकरीनेवांदिनमस्कारकरेकरीने  
एह्वोकहतोऊओ भंतेहेभगन् आलित्तकं थोडोरलोकएसंसारबलीरह्याच्छे भंतेहेभगवन्प्रकर्षकरीघणुं संसाररोगसोनेघणुव्याप्यो  
छेवणुवलीरह्योच्छे भंतेहेभगवन् थोडोरघणुरएसंसारबलीरह्योच्छे पलेवणाभतथईरह्योच्छे जन्मजरामरणेकरी तेजिमयथानामकी

प्रदीप्तः प्रकर्षेण आदीप्तप्रदीप्तोऽत्यंत प्रदीप्तइतिभावः गाहावइतिगृहपतिः भिषायमाणं सिति ध्यायमाने भाण्डं पथ्यं हिरण्यादि  
अल्पभारं पाठान्तरे अल्पंचतत्वारंचेत्यल्पसारं मूल्यगुरुकं आयाएत्ति आत्मनापच्छापुरायत्ति पञ्चादागामिनिकाले पुराचपूर्वमिदा  
नीमेवलोके जीवलोके त्रयवापद्यास्र्लोके आगामिजन्मनि पुरालोके इहैवजन्मनि पाठान्तरे पच्छाउरस्सत्ति पञ्चादग्निभयोत्तरकालं

भंडेभवई अप्ससारे मोक्षगुरुएतंगहायत्रायाएएगंतत्रवक्कमई एसमेणिच्छारिएसमाणेपच्छापुराएलो  
एहियाएसुहाए खमाएणिस्सेसाए आणुगामित्ताएभविस्सई एवासेवमसविएगेआयारभंडेइइकेंतेपि

ई एकगृहस्यव्यापारधरमांहिवैठाएहवोव्रतते ऊंतेच्छते तेजिहंधरमध्ये भांडकयाणोसोनारूपारत्नादिऊवे तेकहिंबुअल्पथोडोतेसार  
प्रधानअनेमूल्यमोटोषणुएहवा तेप्रधानद्रव्यप्रते ग्रहीनेलेईनेपोते एकांतनेविषेराखे एमचींतवे एसोनारूपपादिवस्तुबाहिरच्छतोसुअने  
काढोआवतेकालेहिवडालोकनेविषेहितभणी सुखभणीत्विमाभणीलाभभणी आवतेकालेअर्थे आवस्ये एहंबुजाणीने तेसोनारत्नादि  
वस्तुएकांतराखे तिमएणीपरहेभगवन् साहरोएकअद्वितीयअनोपमआत्माभांडकयाणारत्नसरिखोच्छतेकेहोके इष्टच्छे कांतकप्रनीवच्छे

आतुरस्यनुभक्षादिभिः प्रीडितस्येति एगेभं डेत्ति एकमद्वितीयभांडमिव भांडस्यमेवेत्यादिस्वयमेव प्रव्राजितं वेषदानेन आत्मानमिति गच्छ  
तेभावेवाक्तप्रत्ययः प्रव्राजनमित्यर्थः सुखितं शिरोलोचने सेधितं निष्पादितं प्रत्युपेक्षणादिग्राहणतः शिञ्चितं सूत्रार्थग्राहणतः आचारो  
ज्ञानादिविषयमनुष्ठानं कालाध्ययनादि गोचरोभिच्चाटनं विनयः प्रतीतौ वै नयिकंतत्फलं कर्मक्षयादिचरणं व्रतादिकरणं पिण्डविद्यु

एसगुस्त्रे मणसे एसेमेनिच्छारिएसभाणे संसारवोच्छेयकारे भविष्यद्दुर्तं दुच्छाभिर्गुणैर्वाणुप्रियाहिंस  
यमेव प्रव्वावियं सयमेव सुं डावियं सयमेव सेहावियं सयमेव सिक्वावियं सयमेव सम आचारगोचरविणय

प्रियवभक्तभक्ते मननोमान्योक्ते एहवो एमाहरो आत्मावाहिरकाटे गच्छतो अनेतारिवाने काजे संसारना विच्छेदकरिवाभशो  
होस्ये तेकारणकीवाक्कुक्षु हे देवाशुप्रियतुह्ये पोते प्रवर्जवो एतावता भगवंत हीक्षा देवो पोते सुं डाविवो लोचने कारवेकरी पोते भगवंते  
नीपजावित्रोपडिले हणादिकनाग्रहणकाराविवायकी पोते जसीखा विबुं सूत्रार्थनाग्रहणपोते जभगवंत सीखाविवायकी आचारज्ञाना  
दिविषयमनुष्ठानकाले सिद्धांतनोभणिवो गोचरगोचरीने फ़िरवो विनयप्रसिद्धे वै नयिकंते विनयनो फ़लकर्मक्षयादिचरणकहतौ



आदियात्वासंयमयात्वा तदर्थमेवाहारमात्वा ततोद्वन्द्वः ततएषामाचारादीनां वृत्तिवर्त्तनंयस्मिन्नसौ आचारगोचरविनयवैनयिकचरणकरणयात्वामात्रावृत्तिकसं धर्ममाख्यातमभिरहितं ततः अमणोभगवान् स्वयमेवप्रब्राजयति यावद्धर्ममाख्यातिकथमित्याह एवं गन्तव्यं दुग्मात्प्रभूत्यखण्डितैनेत्यर्थः एवंचिद्विषयं शुद्धभूमौजर्हस्थानस्थातव्यं एवंनिषेत्तव्यं उपवेष्टव्यं संदेशकभूमिप्रमार्ज्जनादि

वेणईयचरणकरणजायाभाया उत्तियंधम्ममाइक्खिय तएणंसमणभगवंमहावीरे मेहंकुमारंसयमे वपव्वविइसयमेवसुं डावेइ समसेवआथारजावधम्ममाइक्खइएवंदेवाणुप्पियागंतव्वंचिद्विषयव्वंणिणीसीय

व्रतचारितादिकरणकहतांपिंडआहारनीविशुद्धादियात्वासंयमनीयात्वात्मात्माक० तेहनेजआहारनीमात्वाप्रमाणोपेतए आचारादिकनाउत्तिकहतां वर्त्ततोच्छे जेहनेविषेए आचारगोचरादिकधर्मप्रते कत्थोमेधम्मकुमारने तिवारपच्छी अमणभगवंतश्रीमहावीरदेवमेधम्मकारप्रतेपोतेदीचादेवे पोतेलोचकरेपोतेज आचारज्ञानगोचरीविनयवैनयिक व्रतपिंडविशुद्धादिकनो वर्त्तवोतेधर्मप्रतेकहे एणेप्रकारेहेदेवानुप्रियहेमेधम्मनेईर्यानि सोधवेकरीधुसरराप्रसाणशुशवीनेविषे वृष्टिराखीनेजाइवो निर्दोषभूमिनेविषे जभोरहिं

न्यायेनेत्यर्थः एवंत्ववर्त्ति तव्यं शयनीयं सामायिकाद्युच्चारणपूर्वकं शरीरप्रसार्जनां विधाय संस्कारकोत्तरपट्टयोर्वाह्यपधानेन वामपार्श्वतः इत्यादिनान्यायेनेत्यर्थः भोक्तव्यं वेदनादिकारणतो गारादिदोषरहितमित्यर्थः भावितव्यं हितमितिसधुरादिविशेषणतः एव सुखाद्योल्याय प्रमादनिद्राव्यपोहेन विबुध्यविबुध्यप्राणादिषु विषयेयः संयमो रक्षातेन संयतितव्यमितितवप्राणाद्वित्चतुः प्रोक्ताभूतास्तु तरवः स्मृताः जीवाः पञ्चेन्द्रियज्ञेयाः शेषाः सत्त्वाऽदीरिताः किंबहुना अस्मिन्प्राणादिसंयमेन प्रमादयितव्यमुद्यमएवकार्य इत्यर्थः प्रत्यप

व्यंतुयद्वियव्वंभुं जियव्वं भासियव्वं एवं उट्टाएउट्टाय प्राणेहिंभुएहिंजीवेहिं सत्तेहिंसंजमेणंसंजमियव्वं

वैसिवोभूमिपुंजीने सईवुं राविसंधारानीपोरसीना सामायकादिकनाउच्चवायकी पहिलूं शरीरनीप्रसार्जना पूजवाप्रतेकरीनेसंथा रोउत्तरपट्टवेऊने ऊपरवाऊरूपउसीसेकरीडावापसवाडा यकीसूइत्यादिन्यायेकरी जीमवोवेदनादिकारणयकी अंगादिदोष रहितवोलिवोहिततकारी मधुरादिविशेषणयकी एणप्रकारे उठीनेप्रमादनिद्राने टालिवेकरी जागीनेप्राणवेद्रीतेरिंद्रीचोरिंद्रीभूत वनस्पतिसर्वजीवपंचेद्रीमातसर्व पृथवी, पाणी, अग्नि, वायु, एसत्वएप्राणादिकनेविषे संयमरक्षारारखिवोतेप्रतेयत्नकारिवुं षणुं

रात्रिकालसमवधिकालः अहारादृशियाएत्ति यथारत्नाधिकतयायथा ज्येष्ठमित्यर्थः सव्याशवनंतदर्थसंसारकाः संसारकभूमयः

अस्मिंचरणंअद्वेणोपमाएयञ्चंतएणंसेमेहेकुमारसमणस्व भगवओमहावीरस्सअंतिएइमंएयाह्ववंधम्मियंउ  
वएसंणिसम्मसम्मंपडिवज्जाइ तभाणाएतहागच्छईतहचिइइजावउडाएउडायाणोहिंभूएहिंजीवेहिंसत्ते  
हिंसंजमइजंदिवसंचरणंमेहेकुमारिसुंडेभविताआगाराओ अणगारियंपव्वइ एतस्सणंदिवसस्सयुव्वावर

स्युंकहवे एप्राणादिकाराखिवानेअर्थेप्रमादकरिवोनहीं उद्यमकरिवोसदासर्वदा तिवारपछीतेमेघकुमारःइषि अमणभगवंतओमहा  
वीरदेवनासमीपनेविषे एप्रत्यक्षएहवो धार्मिकधर्मसंबंधी उपदेशप्रते सांभलीनेसख्यकुभली परेतिकरणमुद्धे पडिवज्जे अंगीकारक  
रेतेपूर्वीत्तआज्ञायिकरी तिमईर्यायेचाले तिमजभोरहे वावत्जठीप्रमादनिद्राटालवेकरी जागीनेप्राणविकलेंद्रियादिकजीवभत  
वनस्सतिमात्रजीवंपंचेद्रीमात्र पृथवीपाणी अग्निवायुएप्राणादिकाराखिवानेविषे जतनकरिजेदिवसप्रते मेघकुमारसुं डयईनेघरय  
कीनीसरीने अनगारसाधुपणाप्रतेथयो दीचालीधी तेहिजदिवसनेनाप्रत्यपराङ्गकालसमय क्वहतांविकालरातिनो कालतेहनेविषे

अथवाशब्धावावसतौ संस्कारकाः शब्दासंस्कारकाः वाचनायैवाचनार्थं धर्माद्यैवमुयोगस्य व्याख्यानस्य चिन्ता धर्माद्युयोगस्य वाधमेव व्याख्यानस्य चिन्ताधर्माद्युयोगचिन्तातस्यै अतिगच्छन्तः प्रविशन्तः निर्गच्छन्तश्चालयादिति गच्छते ओलंडेति त्ति उल्लङ्घयन्ति ओलंडेति प्रक

रहकालसमर्थसिसमर्णाणि ध्याणं अहाराइशियाएसेज्जासंधारएसु विभज्जसाणेसुअहस्सकुमा  
रस्सदारभूलिसिज्जो संथारएजाएयाविहेत्थातएणंसमर्णाणि गंथापुव्वरत्तावरत्त कालसमर्थसिसवाय  
णाएपुच्छणाएपरियट्ठणाए धम्मार्णुयोगचिन्ताएय उच्चारस्सयपासवणस्सय अइगच्छमाणायाणिग

अमणनिग्रंथसाधुने यथारत्ताधिकजेजिमवडाडवे तिसअनुक्रमेशय्याकहतासूईव तेहनेअर्थसंधारानीभूमिकातेविहचीनेक्रमेअप  
तामेवकुमारअधिनवदीक्षितनाक्काधिष्यसाटे वारणानेपासे मेघकुमारनासंधारानी भूमिआवतीऊईतिहसंधारोकीधोसतोतिवा  
रपक्खीअमणनिग्रंथ पहिलीअनेपाछलीरातिना समयनेविषे एतावतारातिनाचारप्रहरमाहि एकेकासाधुवांचवामणी वाचवानेअ  
र्थेएकेकपछिवानेअर्थे एकेकसाधुपाछिलोभण्यो पाठदेवानेअर्थे एकेकसाधुचारिलीवाधर्माद्युयोगधर्मनेअर्थे अनुयोगक० व्याख्यानसू

प्रेण द्विस्त्रिर्षोष्ठ्यन्तीत्यर्थः पादरजो लक्षणैरेणुना पादरथाद्वा तद्द्वेगद्रेणुना गुण्डितोयः सतथातं कुर्वन्ति महालियं चणंरयणिति  
 प्रतिमहन्ती चरजनौयावदिति शेषः मेघकुमारो नोसंचाएतित्ति नशक्नोति क्षणमथच्चिनिमीलयितुं निद्राकरणायेति आध्यात्मिकं

च्छभाणायायअप्ये गइयाभेहं कुमारं हत्ये हि संघट्टंति एवं प्राएसिंसीसेणंपोडुकायंसि अप्पेगइयाओलंडेइ  
 अय्येगइयापोलंडेइअप्ये गइयापायरेणुं गुडियंकरेति एवं महालियं चणंरयणी मेहेकुमारैणोसंचाएइख  
 णमविअच्छिणिमीलित्तएतएणं तस्समेहस्सकुमारस्सअयमेसाखुवे अउभात्थिएजावससुपज्जित्थाएवंखल

तनोतेहनीचिंतानेअर्थे अथवाउच्चारवडीनीतितेहनेअर्थे वलीपरिअवणलघुनीतितेहनेअर्थे वसतिउपाअयमांहिसाधुप्रवेशकरता  
 तयावसतिमांहिथी वाहिरनीसरता एकेकेतला एकसाधुमेघकुमारच्छधिप्रते हायेकरीसंघट्टियठेलि इमकेतलाएकपगसंघातेकरी  
 मायेसंघट्टि पोटिलागेकायाइलाडे केतलाएकसाधुउलाडे ऊपरथईजाइं एकवार केतलाएकसाधुप्रकर्षे करीवेवारतिणवारउलाडे  
 केतलाएकसुनिपगनीरजरैणइं करी गुंडितकरेके खरडेके जेतेमेघकुमरप्रते इमकरेसाधुचारिणीया एणेप्रकारेवणीरातितांएई

आलविषयश्चिन्तितः स्वरूपः प्रार्थितः अभिलाषालोकः मनोगतः मनस्येव वर्तते योनवह्निः सतयासंकलयोविकल्पः समुत्पन्नः अगारंगेहसध्यावसाभि अतितिष्ठाभिपाठांतरतोगरमध्ये आवसाभि आढंति आद्रियंते परिजानन्ति यदुतायमेवंविधइति सकारयंति

अहंसेणियस्वरस्योपुत्ते धारिणी एदेवी एअत्त एमेहेनावसवणयाए तंजरहाणं अहंअगारमजभावसा  
मितयाणंमभसमृणाणिगंथाआढायंति परिजाणंति सक्कारेति समाणंति अहाइं हेजतिपसिणाइं

तावतारात्रिनाच्छेडालणी मेघकुमारश्चपि समर्थनऊइ चणसात्वपिणआंखिनोमेलवोनिद्राकारिवाभणीएतलेनिद्रानावोतिवारपच्छी  
तेमेघकुमारश्चपिने एहवोतेणे प्रस्तावि आत्मानेविषे ऊओविषय चींतव्योमरणरूपप्रार्थी एहवोअभिलाषमननेविषे वत्थोच्छेजेवा  
द्विरप्रकाश्योनहींछे एहवासंकल्पविकल्पजपनोतेकेहवोतेकहेछे एणेप्रकारेखलुनिश्चयहं अणिकराजानोपुत्र धारणीरांणीनोआ  
लजपुत्रमेघनाम्नाकुमरतेयावत् जंवरफूलनीपरेदेखिवोसांभलिबोदोहिलुच्छेतेजिवारेऊं गृहस्थावासमांहिवसतोरहतोतिवारपच्छीए  
अमणनिग्रंथसाधुआदरकरताजाणताजे एभोटानोपुत्रेछे सत्कारकरताजिमवस्त्रादिकेकरीपजे तेहनीपरेसन्मानतायोग्यप्रतिकरवं

पद्यादिभिरभ्यर्चयन्तीवेत्यर्थः सन्मानयति उचितप्रतिपत्तिकरणेन अर्थान् जीवादीन्हेतून् हेतुसमुद्भूतान्अन्वयव्यतिरेकलक्षणान्  
प्रदान्पद्वनुयोगकरणान्युपपत्तिमाताणि व्याकरणानि परेशप्रश्ने कृते उत्तराणीत्यर्थः आख्याति आलापयति ईषत्संलपन्तिसुद्ध

कारणाद्वाकरणाद् आद्रक्खं तिद्दुडाहिकताहिं वण्णुहिंआलवे तिसंलवंतिजप्पभिं चणं अहंसुं डेभ  
वित्ताअगाराओअणगारियंपव्वद्दएतप्पभिंचणंसंसमणाणिणंगंधाणोआटाइ तित्तावणोसंलवंतिअ  
दुत्तरंचणं ममसमणाणिणंगंधाराओपुव्वरत्तावरत्तकालसमथंसिवायणाएपुच्छणाएजावमहालियं

करी अर्थजीवद्रव्यादि हेतुतेहनारहस्यप्रश्नपूर्वकपट्याप्रश्ननायोग्यथकीकारणउपपत्तिमात्रप्रश्नपरआगलेपूच्छेतेउत्तरदेताएहवाअर्थ  
हेतुप्रतेकहताद्दृष्टवाणीये कांतमनोरमएहवीवाणीयेकरी थोडोरकहता वारंवारबोलावता जेदिवसथकी ऊसुं डथईनेधरवासथकी  
नीसरीनेसाधुपणाप्रतेआदखो दीचालीधीतेदिवसथकीप्रारंभीनेसुभ्रप्रते अमणसाधुआदरकरतानयीबोलावतानयीयावत्वारंवार  
बोलावतानयीओलखतानयी हिवडांसुभ्रप्रते अमणनिग्रंथ साधुसंधाराथकी ऊपरथईउलंघीआवेहेपूर्वरातिअनेअपररातिलक्षण

मूढः अदुत्तरं चर्णति अथवापरं एवंरूपेहेइति संप्रेक्षते पर्यालोचयति अदृदृहदृवसृदृमाणसमएत्ति आर्त्तनध्यानविशेषेण दुखान्तं

चरणं वृत्तिंशोसंचाएमि अकवीणिमिह्लावत्तएतंसियंखलुमस कल्लंपाउप्यभाएरयणीए जावतियसाज  
 लंतिसस्रणंभगवंमहावीरंआपुच्छित्ता पुणरविआंगारसभ्मेवसित्तए त्तिकदृ, एवंसंपेहेइरत्ताअदृ  
 दुहदृवसृदृमाणसन्नए शिरयपडिह्विवियंचरणं तंरयणिंखवेइत्ता कल्लंपाउप्यभायएसुविमलाएरयणीए

कालसमयनेविपे एकेकसाधुवाचनलेवाभणीपूछवाभणी यावत्सोटीषणीरातितांइ एतावतारातिनाप्रहरमांहेकरीसक्योनहींऊं  
 आखिनयनमेलवाभणी एतलेनिद्राआविवादीधीनहीं तेकारणयकीअथभलोखलुनिअयसुअनेकालिविहांणेएतावतातेदिवसयकीबी  
 जेदिवसपाउक० प्रकाशयथा अनंतररजनीरातिप्रभातिविहाणी प्रगटदिवसनोमुखययेछतेएतलेपाछली एकघडीरातिथाकतेछतेइण  
 अवसरवलीप्रभातययेछते यावत्तेजेकरीजाजुल्यमानतेजवंतदेहीयमानएहवो सूर्यजग्ये छतेअमणभगवंतश्रीमहावीरदेवप्रतेपूछीने  
 वलीगृहस्थावासमाहिवसवाभणीरहिवाभणीजाएसिएहवुंकरीनेएणेप्रकारेविचारेविचारीनेआर्त्तध्यानेकरीदुहदृदुःखेपीडोवसदृक०



दुःखपीडितं वशार्त्तविकल्पवशसुपगतं यन्मानसंतद्गतः प्राप्तोयः सतथा निरयप्रतिरूपेकांच नरकसदृशीं दुःखसाधस्यीत् रजनौक्षप

जावतेशसाजलं तेजेणामेवसमणेभगवंत्माहावीरेतेणामेवउवागच्छइत्तातिक्वुत्तोआयाहिणंपया  
हिणंकरेइत्तावंदइणमंसइत्ता जावपज्जुवासइतएणंमेहाइसमणेभगवंमहावीरे मेहंकुमारंएवंव  
यासी सैण्णं तुमंभेहा पुव्वरत्तावरत्तकालसमसयंसि समणेहिं णिणंयेहिं वायणाएपुच्छेणए

विकल्पवशसंक्ल्पविकल्पययुक्ते एहवुंजेमाणसच्चित्ततेगतक० पास्योक्तेनरकसरिखीएतावतानरकनादुःखसरखीअसातातेरातिप्रते  
खपावे उल्लंघेखपावीने कालिविहाणेप्रकाशययाअनंतरप्रभातययेच्छते सुष्टुभलोनिर्मलउद्योतप्रभातसूर्यउदयपांस्येच्छते जिहांलगेतेजे  
करीदेदीप्यभानसूर्यउतेच्छते जिहांअमणभगवंतश्रीमहावीरदेवतिहांजअवेअत्रीनेतिणवारजीमणापासाथकी मांडीने प्रदक्षिणाप्र  
तेकरेकरीने वादेनमस्वार करेकरीने यावत्पर्युपासनासेवाप्रतेकरेतिवारपच्छीमेघकुमार आदिदेई सऊसाधुअमणभगवंतश्रीमहा  
वीरदेव मेघकुमारप्रतेएहवंकहताऊआ तेनूननिश्चयहेमेघ पूर्वरातिअनेअपररातिकालनेविषेमध्वरातिने अमणतपस्वीसाधुइंवांच

जावमहालयं चण्डाद्रुणोसंचाएमिमज्जत्तमविअक्खिणिमिल्लिवित्तएतएणं तुमं सेहाइमेएयाखूवेअज्ज  
 थिएससुप्पज्जित्थाजयाणंअहंअगारमउक्खेवसामि तथाणंसमसमणाणिगंधा आढायंतिजप्पभिइं च  
 णंसुं डेभित्ताआगाराओ अणगारियं पव्वयामितप्पभिचणंसमसमणाणोआढायंतिजावणोपरिया  
 णंतिअट्टत्तरंचणंसमणानिगंधाराओअप्पेगइयावाययाणएजावपाययरेणुगुडियंकरें तितंसेयंखलुम

वाभणी पूछवाभणी यावत्वणीरावितांईराविनाप्रहरचारमांहिकरीसन्धोनहींसमर्थनऊओऊं सुहृत्तमात्वव वडीमात्रपिण आं  
 खिनेमिलवाभणी निद्राकरिवाभणी तिवारपच्छीतुं हेमेषएहतदरूपएहवोआत्मानेविषेडओ संकल्पविकल्पजपनोते केहवोजिवा  
 रेऊं गृहस्थावासमाहेवसतो तिवारेसुभने अमणनिग्रंथसाधुआदरकरताबोलता जेदिवसयकी सुं डयईने गृहस्थावासयकीनीस  
 रीने अनगारसाधुपणाप्रतेप्रवज्ज्यो दीखोऊं तेदिवसयकीप्रारंभीने सुभप्रतेअमणसाधुआदरकरता बोलावतानथी ओलखतानथी  
 यावत्जाणतानथी जेएमोटानोपुलळेएहवुंहिवडांएअमणनिग्रंथसाधुराविमाहे एकेककेतलाएकसाधुवां चवासणी प्रअपूछवाभणी

यतिगमयति मेहाइतिमेघइति एवमभिलयमहावीरस्वामवादीत् सेनूणमित्यादिअथनूननिश्चितं मेघअस्ति एषोर्थः हंतइतिकोमला

सकल्पंपाउष्यभाएसमणंभगवंआपुच्छित्तापुणरविआगारमउभेआवसित्तएत्तिकहु, एवंसंपेहेइरअट्टड

हट्टवसट्टुमाणसेजावरयणींखवेइजेणामेवअहंतेशेवहव्वमागएसेणूंमेहाएसअट्टेसमट्टे हंताअट्टेसम

आवत्पायरयकं पगनावेगयकी पगनाउतावला मांडवाथकीरजरेशु इकरीअडाडेछे खरडेछे एहवामेघअट्टेप्रते तेकरे तेकार  
णयकी अयमलुंखलुनिच्चयसुअने कालविहाणे प्रकाशयया अनंतरप्रभातकाले सूर्योदयथयेछते अमणभगवंतमहावीर प्रतेपूछीने  
गटहस्थावासमांहि वसवाभणी रहिवाभणीजाएसि एहवंकरीने एणेप्रकारेविचारे विचारीने आर्त्तध्यानेकरी इहट्टडुःखपीछी संक  
ल्पविकल्पययुंछे एहवुं जेचित्तमनतेप्रतेपास्योछे जेतनरकनाडुःखसरखी असातातेरातिप्रतेखपावे खपावीने जिहांडुं कुं तिहां  
हव्वउतावलोतुं आब्योहेमेघइमकहीने श्रीमहावीरदेवतेमेघ अट्टिप्रतेवोलावतोडुअसेतुअने नूननिच्चयसहितहेमेघ एअर्थसमथ  
साचो एहवुंछींतव्योहंताइतिकोमलासंत्वणे वलतोमेघएउत्तरदीधो एअर्थसाचो हेभगवन् हिवेभगवंतकहेछे मेघकुमारप्रतेइमनिच्च

मन्त्रगे अस्ये षोडशः इतिनेषे नोत्तरस्रदायि वनचरकैः शबरादिभिः संखेत्यादिविशेषां प्रागिव सत्त्वं हे सप्तहसोच्छ्रितः नवायतो नवहस्रायतः एवं दशहस्रपरिणाहोसध्यभागे सप्तस्रानि मादशकारप्रपुच्छईलिंग० लक्षणाणि प्रतिष्ठितानि भूजौयस्य सतथाससोवि

द्वे एवं खलुमेहातुं इंद्रुतच्च अदूयभवग्नाहणे वेद्यदृगिरिप्रायमूलैवण्यथरेहिं शिबन्तियथाभधेज्जेसंख  
दलउज्जलविमर्शाणिभ्रलर्दाहघणा गोरखीरक्षेत्ररथरयथशियरअयासे सत्तुसेहेणवाथएदसप्र

हेमेघकुमारतुं आभवयत्नी लीजोभवव्यतिक्रमेगयेकृते एतलेआभवयकी पाच्छिलातीजाभवेहेमेघजेदुखभोगव्याछे तेतुं सांभलवैताढ्य  
पर्वतनाएकप्रदेशनानान्हापर्वतनास्रलयडानेविषे वनचरेभीलेकरीनीणेकरी निवर्त्तनामधारकशतसंख्याछे एतलेभीलनास्रसूहर  
हेछे वैतादप्रपर्वतनेविषे तिहां शंखनादलचूर्णस्रिखो जजलोविमलमतरहितनिर्मलदहीनोघणनिविडखीरगाहूना दूधससुद्रना  
पाणीनाकणीया फुसारारूपानानि करसस्रहतेहनाप्रकाशस्रिखो जजलोछे तेकेहवोसातहायनोउं चोएहवो नवहायनो आयत  
लावोवलीदसहायनोपरिणाहसध्यभागपेटनेविषेलां वोसप्तगंगचारपगसुंठीप्रपूछईद्वंद्वी० एसातअंगभूमिनेविषे प्रतिष्ठितथाय्याछेभूमि

प्रमगलः सुसंस्थितोविशिष्टसंस्थानः पाठांतरेण सौम्यसंमितः तत्रसौम्योरौद्राकारोनीरोगो वासंसमितः प्रमाणोपेताङ्गः पुरतोप्रतः  
उदग्रःउच्चः समुच्छितशिराः शुभानिसुखानिवासनानिस्त्रांघादीनियस्य सतथा दृष्टतःपञ्चाङ्गागेत्रराहद्वव शूकरद्ववराहोवनतत्वात्  
अजिकायाइवोन्नतत्वात् कुक्षीयस्यसतथा अच्छिद्रकुक्षिमांसलत्वात् अलंबकुक्षिरपलक्षणवियोगात् अलंबलंबोचराहरकरेत्तिअलंबं

रिणाहेसत्तंगप्रदृष्टिए सोमंसंमिएसुखवेपुरओउदग्ने समुसियसिरेसुहासणेपिदृओवराहेअद्वकुक्वी  
याअच्छिद्रहकुक्वी अलंबकुक्वीपलंबलंबोदराहरकरे धणुपिदृगिद्रविसिद्रुपदृहे अक्षीणप्रमाणजुत्ते

नेविषेलागच्छे सौम्यअरौद्राकार सुखपफूटरो पुरतःआगलियकीउं चोतेहथकीउं चोच्छेसाथोजेहनोसुखकारीछे आसनखांधादिवै  
सवानेच्छे पाच्छिलाभागनेविषे वराहसूयरसरिखेनेनीचपणायकी एतलेआगिलोभागजं चोअनेपाच्छिलो भागनीचोएहवो अजिक्का  
छालीनापेटनीपरेउं चपणायकीकूखिउं चीच्छेजेहनी तथामांसरुलपणायकीच्छिद्ररहितकेकूखिच्छेजेहनी अपलक्षणनावियोगयकिलंबा  
यमानकूखिच्छेजेहनी तथाप्रलंबलावालंबोदरगणेशनीपरे अधरअनेसूडिच्छेजेहनीएहवोप्रत्यं चागणचढाव्याधबुपनाआकारसरिखो

चलंनौचक्रमेणोदरं च जठरमधरकरो चौष्टहस्तौयस्यसतथा पाठांतरे प्रलंनौलंनोदरस्ये व गणपतेरिवाधरकरो यस्यसतथा धनुःष्टष्ठा  
 कतिआरोपितज्यधुराकारं विशिष्टं प्रधानं षष्ठं यस्यसतथा आलीनानि सुस्तिष्ठानि प्रमाणयुक्तानि वर्त्तितानि पीवराण्यु पचितानि  
 गात्राणि अङ्गानि अपराणि वर्णितगतेश्योन्यानि अपरभागगतानि वायस्य सतथा अथवा आलीनादि विशेषणं गालसुरः अपरञ्चपञ्चा  
 ज्ञागोयस्यसतथा वाचनातरे विशेषणहयमिदं अथ्यज्ञताउन्नतामुकुलमस्त्रिकेव कोरकावस्य विचिकिलकुसुमवत् धवलाञ्चदन्तायस्यसो  
 भ्युन्नतमुकुलमस्त्रिकाधवलदन्तः अनामितयञ्चापं धनुस्तस्येव ललितं विलसोत्रस्याः सातथा साचसंवेक्षिताच वेक्षितासंकोचितावा

वद्वियपीवरगतावरे अस्त्रीणपमाण जुत्तुच्छेपडिपुसुचाणकुम्भचलणे पंडुरसुविसुद्विण्डिणिरुवह

विशिष्टप्रधानष्टवासीच्छेजेहनो आलीनसुस्तिष्टभलामां हो मांहिमित्याप्रमाणयुक्तप्रमाणोपेतच्छेजे एहवो हत्तवाटलापीवरपुष्टुपचय  
 सहितगात्रशरीरप्रधानच्छेजेहनाएतले पाच्छिलावर्णव्याजेशरीरनाथानकतेहयकी अनैरात्रीजाशरीररूडाच्छे आलीनमित्यो  
 प्रमाणोपेतपुच्छेजेहनो एहवोप्रतिपूर्णभलाचाणमनोहरकर्मकाच्छवानासरिखाचरणपच्छेजेहनाएहवो पडुरधोलासुविसुद्विनिर्म

अग्रशुण्डाशुण्डाग्रं यस्यसः अनामितचापलखितसेवेक्षिताग्रशुण्डाः आलीनप्रमाणं युक्तपुच्छः प्रतिपूर्णाः सुचारवः कर्मवच्चरणा  
यस्यसतथा पांडुराःशुक्लाः सुविशुद्धाः निर्मलाः स्निग्धाः कान्तानिरुपहताः स्फोटादिदोषरहिताः विंशतिर्नखाः यस्यसतथा तलत्वं  
हेमेघत्रुभिर्हस्त्यादिभिः सार्द्धं सस्यरिहतः आधिपत्यं कुर्वन् विहरसीति सम्बन्धः तलहस्तिनः परिपूर्णप्रमाणाः लोटकाः कुभारावस्थ

यविंसतिणहेछहृत्त्वं सुमेरुप्रभेणामं हत्थिरायाहोत्था तत्थणंतु मंभेहावहृत्त्वं हत्थीर्हिय हत्थिणि  
याहिय लोट्टएहियलोड्वियाहिय कलभे हियकलभियाहिय सड्विसंपरिबुडेहत्थीसहस्सणायएदेसए  
पागट्टीएड्डीबए जूहवहृत्त्वं विंदपरीयट्टए अस्सेसिंचव बहृत्त्वं हत्थीकलभाणं आहिवच्चं जावविहरसितए

लनिड्वस्त्रिगध तेजवंतनिरुपहतउपद्रवरहित फाटालरड्यादिदोषरहितएहवावीसनखच्छे जेहनाएहवो छदातदंतसलच्छे जेहनेएहवो  
सुमेरुप्रभनामाहाथीयानोराजाऊं तो तिहांतु हेमेघघणेहाथीइं करी घणीहथिणीएकरी हाथीकेहवाक्के परिपूर्णप्रमाणसहितकु  
मारअवस्थाक्के जेहानेएहवा हाथिणीकेहवीक्के लोट्टकाकुमाराअवस्थाकुमारिकाक्के एहवीबालकहाथीकलभिकात्रालिकाहाथिणी

काःकलभाःबालकावस्थाः हस्तिसहस्रस्य नायकःप्रधानः न्यायदोवा देशकोहितमार्गादेः प्राकर्षीप्राकर्षको अग्रगामीप्रस्थापकोविविधकार्येषुप्रवर्त्तकोयूयपतिः तत्स्वामी वृन्दपरिवर्द्धकस्तद्विचारकः सहंपललिपत्ति सदाप्रललितः प्रकीर्णितः कन्दर्परतिः कलिप्रियः मोहनशीलानिधुवनप्रियः अतिवृष्णोमोहने एवास्तुपरवाङ्कः तथासामान्यनकामभोगेवृष्णितः गिरिषुचपर्वतेषुदरीषुच कन्दरविशेषेषु कुहरेषुच पर्वतांतरालेषु कन्दरासुचगुहासु उज्जारेषुच उदकस्थ प्रयातेषु निर्भारेषुच स्यन्दनेषुचन्द्रकनद्याकारेषु नदीषुलि

गंतुंमैहाणिञ्चं प्यसत्ते सतिंपललिपत्तिसि एवङ्कहिं हत्थी

तेहसंवातेपरिवख्योच्छतो विचरेच्छे सहस्रहजारहायिणीनोनायकस्वामीच्छे देशिकहितमार्गनादेखाडवायकीप्रकर्षअग्रगामीअग्रसरीच्छेवृष्णकार्यनेविषे प्रवर्त्तच्छे यूयपतिहयिणीनायकनोधणी वृन्दपरिवर्त्तकतेहायिणीनायकनोवृद्धिनो करणहारच्छे अनेरानेवृष्णानालकहायीवालिकाहायिणीतेहाने अधिपतिपणो स्वामीपणो करतोच्छतो यावत्विचरेच्छे तिहारपच्छीतुं हेमेघनित्यनिरंतरप्रमादपणे प्रमादसञ्चित सदाप्रललितप्रकर्षकरीरासतिकरेच्छे कन्दर्पभोगनीरतीकलिक्रीडाकरेच्छे मोहनभोगनोशीलस्वभावच्छे एतावताभोगमां



नस्यन्दजलगत्तं रूपोवा गत्तासुच प्रतीतासु पल्ललेषुच प्रह्लादनशीलेषु चिक्खिलेषुच कटकेषुचपर्वततटे षु कटकपल्ल  
लेषुपर्वततटव्यवस्थितजलाशयविशेषेषु तटीषुचनद्यादीनातटे षु वितटीषुच ताखेवविरूपासु अथवावियडिशब्दे नलोकैः टवीउच्यते

हियजावसुद्विसंपरिवुडे वेयडुगिरिपाथसूलेगिरीसुय दरीसुय कुहरेसुयकंदरासुय उज्जरेसुयगि  
उज्जरेसुयवियरेसुयगत्तासुय विस्सलेसुय कडगेसुय कडगपल्ललेसुयतडोसुय बियडीसुयटं केसुय

हेलयपाम्योक्ते एहवोअटप्तोऊं तोछतो भोगनेविषे वांछाउपसमीनथीतथा सामान्याकारे कामभोगनेविषे तरस्योभूख्योछतोषणाहा  
शीघणीहथिणी यावत्तेहसंघाते परिवस्योछतो बैताढगिरिपर्वतना एकप्रदेशनान्हा पर्वतनासूल थडनेविषे पर्वतनेविषे कंदरासो  
टीगुफानेविषे पर्वतनाअंतराविचालानेविषे दरीगुफाविशेषनेविषे उदकपाणीनो उं चाथीहेठो पडवोक्तेतेहनेविषे पाणीनानी  
भारणनेविषे नान्हीनदीने आकारेवाहलानदीनातटनानी भारणाना प्राणीजाइछे गत्ताखाडनेविषे अणखण्यासरोवरविषेवाहष  
कारीथानकनेविषे कादवमिअपर्वतनेविषे पर्वतनातटनेविषे पर्वतनातटनातटने विषे पाणीनाठामविशेषतेहनेविषे नदीआदि

टंकेषु च एकदेशच्छिन्नेषु पर्वतेषु कूटेषु च अधोविस्तीर्णेषूपरिसंकीर्णेषु हस्तपर्वतेषु हस्त्यादिवत्त्वनेषु वा शिखरेषु च पर्वतोपरिवर्ति कूटेषु प्राग्भारेषु चेषदवनतपर्वतभागेषु संचेषु च संभ्रमस्तफलकमयेषु नद्यादिलङ्घनार्थेषु मालेषु च स्वापदादिरक्षार्थेषु तद्विशेषेष्वेव मञ्जमालकाकारेषु पर्वतदेशेष्वित्यन्ये काननेषु च स्त्रीपक्षस्य पुरुषपक्षस्य चैकतरस्य भोग्येषु वनविशेषेषु अथवा यत्परतः पर्वतोऽपीभ वतितानि काननानि शीर्णहृत्क्षारिण वातेषु वनेषु च एकजातीयहृत्क्षेषु वनखण्डेषु चानेकजातीयहृत्क्षेषु वनराजीषु च एकानेकजातीय

### कूटेषु सुयसिहरे सुयप्रभारे सुयभं च सुयसाले सुयकारेण सुयवणे सुयवणसंडे सुयवणराइ सुयणई सुयण

कानातटनेविषे अटवीनेविषे एकद्वीषिढां क्वापर्वतनेविषे हेठलिविस्तीर्णजपरसंकीर्णवादलारूपपर्वतनेविषे पर्वतनेजपरवर्त्ती शिखरकूटनेविषे योडाललगारेकनीचानस्यापर्वनाभागनेविषे थाभानेविषे थाप्यापाटीया नाडीयादिलंघवाने अर्थेते हनेविषे स्वापदादी जीवनीरक्षाने अर्थे सालाते हनेविषे स्त्रीपक्षनेत्रलीपुरुषनापक्षनेविषे एकभागनेविषे रहिवा नाठामते वनविशेषनेविषे अथवा जे हनेचोफेरपर्वतना अथवा अटवी ऊइ ते काननकहीये वनषडघणीजातिनाहृत्त्वनेविषे वनराजी एकअनेकजातीयहृत्क्षानी अरिणने

दृक्षाणांपङ्क्तिषु नदीषुचप्रतीतासु नदीकक्षेषुच तद्गहनेषुचयेषुच वानरादियथाश्रयेषु संगमेषुच जदीमीलकेषु वापीषुचचतसासु पुष्करिणीषुच वर्तुलासु पुष्करवतीषुवा दीर्घिकासुच ऋजुसारिणीषु गुञ्जालिकासुच वक्रसारिणीषुसरस्व, च जलाशयविशेषेषु सरः पङ्क्तिकासुच सरसांपद्धतिषु सरःसरःपङ्क्तिषुचयासु सरःपङ्क्तिषुएकस्मात्परसोन्यस्मान्नन्यस्मादन्यत्वेवंसञ्चारकपाटकेनोदकंसञ्चरति



ईकच्छेसुय जूहेसुयसंगमेसुयवापीसुयपुक्वरिणीसुयदीहियासुय शुंजालियासुयसरेसुयसरपति  
यासुय सरसरपंतियासुयवणथरेहिंदिसुवियारि बज्जहिंहत्थीहिथजावसद्धिं संपरिबुडेबज्जविहतर

विषे नदीनेविषे नदीनाकांठातेहनागहनदृक्काछातेहनेविषे वानरादिकयूथरहिवानाठामनेविषे दोनदीनोएकठोसंगमिलेतेहने विषे च्यारखूणानीवाविनेविषे वाटलाकारेवावि अथवापुष्करकमलवतीवावितेहनेविषे दीर्घिकासरलसम्प्रीनीकपांणीजावानोठाम तेहनेविषे गुंजालिकावांकीपांणीनी प्रनालिच्छेतेहनेविषे सरपांणीरहिवानोआश्रमविशेषजेसरपांणीरहिवानोआश्रयविशेषजेसरो वरनीश्रेणिनेविषे एकतलावथकीअनेरासरोवरनेविषेसंचाराने कपाटनेनलेकरीपांणीसंचरेजाइतेसरःसरः पंतियाकहीयेएहवार

तामुवह्वविधासुतपल्लवाः प्रचुराणिपानीयदणानिच यस्यभोग्यतया सुतथा निर्भयःसूरत्वात् निरुद्विग्नः सदैवअनुकूलविषयप्राप्तैः  
सुखंसुखेनाह्वरेण पाउसेइत्यादि प्राट् आषाढ्आवणौ वर्षारौभाद्रपदाश्वयुजौ शरत्कार्तिकमार्गशीर्षा हेमन्तःपौषमाघौ

पल्लवप्रउरपाणिशतणेणिःभएणिणस्विग्गे सुहंसुहेणंविहरइतएणंतुंमेहाअस्थयाकथाइं पाउसवरि  
सारत्तसरयहेअंतवंसंतैसु कसेणर्पंचसुउजसमइक्कंतैसु गिरुहकालसम्यसिजेदामूलमासेपायवधंस

पूर्वाक्तयानकनेविषे वनचरेभीलेदीधोछेविचारप्रवर्त्तवोविचरहो घणीहाथिणीसंघातेपरिबखो छतोवह्वविधअनेकप्रकारनातरहव  
नापल्लवहंपलप्रचुरषणा पाणीदणच्छेजेहनेभोगविवापणेतयानिर्भयछे सूरपणायकीउहेगचिंत्तारहित उच्चाटकिस्योइनहींसदैवसुख  
कारोविषयनापामिवाशकीएहवोशकोशुखेसमाधिइंसंपूर्णसुखने भोगवतोविचरेछेतिवारपच्छीतुं हेमेघकुमारअनेरेप्रस्तावेप्राट्का  
लआषाढ्? आवणरवर्षारातभाद्रवो? आसोजरशरत्कालकाती? श्वगशिरर हेमंतच्छतुपौस? माघरवसंतच्छतुफागुण? चैत्रएकमअनुक  
सेपाचच्छतुअतिकसेउह्छेते ग्रीष्मकालजङ्गलोश्राव्ये छतेजेथानचत्तच्छेमासनेमूले एतलेजेथमासनीपूनिमनेविषेजेथानचत्तथावे



वसन्तः फाल्गुनचैतवी एतेषु पञ्चसु चतुषु समतिक्रान्तेषु जेष्ठाश्लमासेति ज्येष्ठमासेपादपषर्षणसमुत्थितेन शुष्कतण्डुलचणकाच  
वरंमारुतञ्चतयोः संयोगेनदीप्तौ यः सतथातेन महाभयंकरेणातिभयकारिणा कृतवहेनाग्निना योजनितद्गतिहृदयस्थं वनदवोवनाग्नि  
तस्यज्वालाभिः संप्रदीप्तायेतेतथातेषु चवनातेषु सत्सु अथवापायवषससुष्टिष्णमित्यादिषुणंकाराणां वाक्यालंकारार्थत्वात्सप्तस्यैकवच

समुद्दिष्टं सुकृतं पत्तकयवरमारुतसंयोगद्विविष्टं महाभयंकरेणं हयवहेणं वणदवजालासंप्रलित्तिसु  
वणंते सुधूमालासुदिसासुमहावायवगेणं संघट्टिष्टसुच्छिम्बजालिसुआवयमाणे सुयपोस्त्ररुक्वसुअंतो २

तेहनेनासेजेमासतेज्येष्ठमासनेविषेपादपट्वनेमांहोमाहिषसावेकरीज्योजे अग्नितेणेकरीकेहवीअग्निहूं सूकाटणानडारूपजेक  
चवरकचरोअनेमारुतक० वायरोते वेऊंनेसंयोगमिलवेकरी दीप्योच्छेजेतेतिणे मोटाघणाभयकारीभयनोकरणएहवे ऊतवहअग्निहूं  
करीवनदवननोअग्नितेहनीभालातेणेक्षरीषणुंदीप्याच्छेलागच्छेजेते वनखंडनाअंतएहवेऊतेच्छतेधूमधूंआडेआकुलव्याकुलदिदिशियई  
ऊंतेच्छतेमहावायुनेवेगेकरीसंघट्टे फरस्ये ऊंतेच्छते लूटीच्छेदानीज्वालानासमूहसगलेचारेदिशि विदिशिपडताछेएहवोवनांतच्छते

नांततायाख्येया तथाधूमाकुलासुदित्तु तथासहावायुवेगेनसंघटितेषु छिन्नज्वालैषुत्वुटितज्वालासम्बहेषु आपतत्सु सर्वतःसंपतत्सु तथा  
 पोल्लक्ष्णेषु सुप्ति शुधिरवृक्षेषु अंतरं अंतर्मध्येध्मायमानेषु तथासत्तैर्दृग्गादिभिः कुथिताः क्रोयसुपनीताः विनष्टाः विगतस्वभावाः किमिण  
 कदमत्तिष्ठाभिवल्कदर्दमाः नदीनाविदरकाणाचक्षीणपानीयाः अंताः पर्वताः येषु क्वचिक्लिमिर्वत्तिपाठः तत्रसत्तैः कुथिताः विनष्टकृमि  
 काः कर्दमाः नदीविवरकलक्षणाः क्षीणाजलक्षयात्पानीयांता जलाशयायेषु ते तथातेषु वनविभागेषु सत्सु तथा भृंगारकाणां पक्षिविशेषा  
 णां दीनः क्रंदितरवो येषु ते तथा तेषु वनातेषु विवर्त्तते तथा खरपक्षमिति कर्कशमनिष्टं रिष्टानां काकानां व्याहृतं शब्दितं येषु ते तथा विद्रु  
 माणीवप्रवालानीवलोलोहितानि अग्नियोगात् पक्षवयोगाद्वा अग्राणियेषां ते विद्रुमाग्रास्तः पदद्वयस्य कर्मधारयः ततस्तेषु द्रुमाग्रेषु

जिक्रयायमाणेषु मयकुहियविण्डुकिमियकदमण्डूविरयगभमाणप्रणीयंते सुवस्सु तेषु भिं गारकदीण

छत्तेपोलः दक्षनाविवरच्छिद्रनेविषे तेपोलादक्षभांहिदाक्षतात्रलताच्छे एहवोवनांतऊतेच्छते तथासुभ्राम्भगलादिकेकरी कुह्याविण्णठावि  
 गतस्वभावययाकमिनीपरिऋदं मकाद्वनदीनातथावली नदीनाविवरवाहलाखालीया तेहनीक्षीणययाच्छे पांणीनां अंतपर्वतसूका

द्विचोत्तमेपुसत्सुवाचनातरे खरपरुषरिष्टव्याहृतानि विविधानिद्रुमाणिथेषुतेखरपरुषरिष्टव्याहृत विद्रुमाग्रास्तेषुवनांतेष्वितितथा  
 तृणावशेनसुकपक्षाःस्त्रयोद्वितपक्षाः प्रकटितजिह्वातालुकाः असंप्रुटिततुण्डाश्च असंहतमुखाःयेपक्षिसंघातास्तेतथातेषु ससंतेसुत्तिश्च  
 कंदीयरेवेसुखरपरुसअणिद्रुविरिद्रुवाहितविद्, सगीसुदुमेसु,तरहावससुकुपक्षपथडियजिभतालुयत्र  
 संप्रुडियतुं डप्रक्लिषसंधेसुससंते सुगिरुहमहलुखुबायखरपरुसचंडमारुयसुकुतरणपत्तकयवरवातुलिभजं  
 एहवोवनातज्ज तेच्छते ऋंगारपंखीयानाविशेषतेहनादीनदयामणा एहवाकंदितआक्रंदरवशब्दत्ते जेहनेविषे एहवावनविभाग  
 तथाखरआकाराफरुसअतिघणुर्कशकठोरअनिष्टपाडूआरिष्टकागलानाव्याहृतबोलवोच्छेजेहनेविषेतथाविद्रुमप्रवालासरिखा  
 राताअग्निनायोगयक्ती अग्रच्छेजेएहवावनांतज्जतेच्छते तथालषानेवशे करीमूकीच्छे पांखशयिलकौधीच्छे पांखप्रगटीच्छे जीभतालूया  
 यकीवाहिरकाठीच्छे असंप्रुडिततुं डाक०सुखविकास्याच्छे एहवापंखीयानासमूहवनानि विभागज्ज तेच्छतेउतावलासासमूकताज्ज ता  
 तथाग्रीष्मनोडषमाउखवायसूर्यनाकिरणनो संतापखरतीखी आकरोफरुसअतिघणुप्रबलएहवोप्राणत वायरो सूकाटणापांनडाक

ज्ञा०टी०

३१८

खल

भाषा

सत्सुश्लासंभुचत्सुसत्सु तथापीष्यस्यजज्ञाउष्णता उष्णपातश्चरविकारसंपातः खरपंशुषवंडमारुतश्च अतिकर्कशपत्रलवातःमुक्कटण  
 पत्रकचवरप्रधानावातोलीचिति दं हःताभिर्ध्वं संतो नवस्थितादृष्टाः संभ्रान्तायेस्वापदाः सिंहादयःतैराकुलायेतेतथा मृगलक्षणासरी  
 चिकातस्त्रचणोमृद्वः चिक्कपट्टीयेषु तेतथाततःपदद्वयस्य कर्मधारयोतस्त्रेषु सत्सुगिरिवरेषु पर्वतराजेषुतथाशं वक्तृकितेषु संजातसंब

तदित्तसंभतसावयाओलसिगतएहावधचिणहप्रद्वे सुगिरिअरेसुसंबहुह्रुतत्यमिथपसवसिरीसिवेसुअ  
 वदास्त्रियवथणविवरणिह्नास्त्रियगणीहेसंहंत तुमह्रययुसुंक्ष्णसुं संकुचियधोरपीवरकारे जसियलंगूले

चवरापधानरूपी वाउलितेणीवाउलीएवारोअनंतभसताच्छे उरहापरहादीप्तवंतमातासंभं तसंभ्रमपांस्याभमताआलासाभाभमता  
 आवताजाताएहवाजेस्वापदसिंहादिकजीवतेणेकरीआकुलाथ्याकुलाछेजेतेसिंहादिकतथासृगलक्षणासरीचिकापाणीनाभांशुआरुघ  
 वद्वंध्योछे चिक्कपट्टीजेहनेविषे एहवोवनविभागऊतेछते तथाओटापर्वतने विषेसंवर्तकषमणीरूपटोलावायरोवातेहते तासपांस्या  
 वीहताजेसृगलापसुअटवीसंभधीयाचोपदजीवविशेषसरीसृपगोहप्रसुखजीवएहवावनांतऊतेछते तेकारणथकीएसुमेरुप्रभहायीअव



त्तैकेषुत्वस्ताभीतायेष्टगाप्रसवाश्चाटव्यचतुष्पदविशेषाः सरौष्टपाश्चगोधादयस्तेषु ततश्चासौहस्तीश्रवदारितवदनविवरोनिर्लीलिताग्र  
जिह्वश्चयद्गतकर्मधारयः महंतनुंवद्भ्यपुष्कणत्ति मह्यंतौतुंबकितौभयादरघट्ट तुंबाकारौद्वतौस्तब्धावित्यर्थः पुन्नौव्याकुलतयाश्र  
ब्दग्रहणाप्रवणौकणौयस्यसतथा संकुचितःघोरत्तिस्थूलः पीवरोसहान्करोयस्यसतथा उच्छ्रितलांगूलः पीणोद्भ्यत्तिपिणायामड्डा  
तयानिर्दत्तपैनायकं तद्विधंयद्विरसंरितिं तं तस्यचणैशब्देनस्फोटयन्निवांवरतलं पाददहरेणपादपातेन कंपयन्निवमेदिनीतलमित्या

पीणोद्भ्यविरसरड्वियसद्दृशांफोडयंतैव अंवरतलंपायदहरेणं कंपयंतैवभेद्भ्यितलं विणिमुयमाणे

दारितविकस्योविरलकीधौच्छे सुखरूपविवरच्छिद्रच्छेणे एकारण्यकीनिलनीलितकाढीच्छे अग्रजिह्वा जेणेएतलेसुखथी बाहिरकाढीजी  
भतेसुखेरुप्रभहाथी केहवोच्छे महंतसोटातुंबद्वयतुंबकितभयने आदरेषणे भयेकरीपाटलातुंबाकारकीधौच्छे पुन्नौव्याकुलपणेशब्द  
सांभलवाने ग्रहणनेविषेप्रधानवैज्जकान्छेजेहना संकोच्योच्छे घोरजाडोपीवरमोटो एहवोकारसुंडादंडजेहनो उच्छ्रितलं चोकीधौच्छे  
लांगूलपंछजेणेएहवो तेहवोजेविरसनिरसरटितश्चारराटिक्कपेशब्देकरी फोडतोजच्छे अंवरतलआकाशतलप्रते पादनेदहरेपगनेमूं क

दिकंथं दिसोदिसिंति दिबुचापदिबुचविपलायितवान् आतुरोव्याकुलः भंक्तिवभुञ्जितः दुर्बलः क्लान्तो ग्लानः नष्टश्रुतिक्लेश्चदिकः

यसौयसौयसंस्वस्रसंतावह्विविथाणाद्दृच्छिंदमाणेखक्सहस्राद् तत्थसुबहुशिणिह्लाथंते विणि  
दुरड्वेवणयरविं देवायाभट्टे व्वपो एमंडलवायव्वपरिममंते अभिक्वणं२ लें डणियरंपसुं चमाणेवहुहिं  
हृथीहियजावसद्धिंदिसोदिसिंविप्यलाद्दृत्था तत्थणंतुसंमेहाजुण्ये जराजळरियदेहे आउरैउभंक्तिए

वेकरी कंपावतोच्छेसेदिनीतलष्टयवीतलपातालप्रते सूं कतोच्छतो सीलकारसारसीप्रते सधलीदिशिदिशि ससंतासधलीवेलिनाविता  
नसस्रहप्रतेच्छेदतो लोडतोच्छतोहाथी वृद्धनासहस्रप्रतेभाजतो लासताअतिवणादोहिलायाताडुःखपामता विणठादेशमाहियकी  
नाठाएहवावनचरभीलनाष्टं दसस्रहनीपरे वायरेअष्टयथापोतप्रवहणनीपरे तिममंडलीकवायरानीपरिससंताभावे भमतातुं वारं  
वारलींडानोनिकरसस्रहप्रते सूं कतोच्छतो घणाहाथीषणीहाथिणीः संघाते दिशोदिशिच्यारदिशिच्यारविदिशिनेविषे नांसतोहृत्त्रो  
तिहातुहेमेघ जनोजीर्णं जराद् जाजरो ययोच्छे देहशरीरजेहनो एहवो आतुरआकुलव्याकुलोभूख्यो तरस्योदूवलोगिलाणययो

परम्भाहएत्ति पराम्याहतोवाधितोभीतोजातभवः तस्त्रोजातत्वोभः तस्त्रिष्टुक्कानदरसशोषात् उद्विग्नः कथमितो नथीन्मोच्ये  
हमित्यध्यवसायवान् किसुक्तं भवतिसंजातभवः सर्वात्मनोत्पन्नभवः आधावमानः इषत्परिधावमानः संमतात् पाणियपाएत्तिपानंपा

पिवासिएदुब्बलेकिलेणठसुद्रए मूढदिसाएसयाओजूहाओविष्णु णेदवणबजालापरद्धे उएहेणय -  
तरूहाएयछु हाएय परम्भाहएसमाणेभीएतत्येतसिए उव्विग्नो संजाद्यभएसव्वओसंमता आधावमाणे  
परिधावमाणेएगंचणंसहंसरं अप्पोययंपंकबडुलेअतित्येणंपाणियपाए उत्तिस्सु तत्यखंतुमंमेहातीर

नाठीछेगयोछे श्रुतिसाभलिवो एतलेबहिरारूपसूढदिसामूढययो पोतानायथूटोलाथकीविप्रसुक्तअलगोययोवनदववननाअग्निनीप  
रेज्जालाआलतेणे अपराथोपराभव्योउणआलेकरीटषाडूकरी भूखेकरी अतिषणोउत्कष्टोहतहणाणोपीडोछतोभीतभवजपनोत्ता  
त्वोभजपनो सकोअनंदरूपरसनाशोषावाथकी उहेगपाम्योकिमएअनर्थयकी सूकास्युहं एहवाअध्यवसायवंत विशेषपणेभयउपनो  
चोफेरसंमतात्धावतो जातोछतो उल्कूटोधावतोजावतोछतो एकमेटुसरोवरप्रते अल्पयोडोउदकपांणीपंककादोवडुधणो अतीर्थ

नयःपानीयस्यपाचःपानीयपाचस्त्रिन् जलपानानयेत्यर्थः सेवंसिचिसखेत्ति पंकेनिसग्नःकायंप्रत्यङ्घ्रिष्यामीति कृत्वाजायसुद्धर्तुंकार

सद्गणप्राणियंअसंपत्ते अंतराचैवसेयंसिचिसिंसे तत्प्रणंतुसंमेहाप्राणियंपाद्दएस्वामित्तिकद्, हृत्थं  
पसारेद्दसेविद्यएहृत्थे उदगंणपावद्दतएणंतुसंमेहापुणरविकायं पञ्चुद्घ्रिसामौत्तिकद्, वलियतरायं  
पंकसिक्खुत्तोतएणंतुसंमेहाअस्यथाकथाद् एगेच्चिरणिज्जुट्टएंगयवरजुवाणे सयाओजूहाओकरचर

उनमार्गे अणअरिक्करीपाणीनेपीवानेविषे गयोपद्दठो तिहातलावमाहे तुं हेमेघतीरतटप्रते घणुगयोपद्दठो पाणीप्रतेअणयासतो  
यको अंतराविचाले मध्ये पंककादवमाहौंखूतोबूडो तिहांतुहेमेघपाणीपीस्यु एह्वं करीचैतवीने हाथसूडपसारेअधीषालेपिणते  
ताहरोहाथसूडादंडउदकपाणीप्रतेनपासे तिवारपच्छीतुं हेमेघवली कायाशरीरप्रते उद्धरस्यु इमकरीनेशरीरप्रते उद्धरिवाभणी  
आधुंवालियाभणी आरंथ्यो तिवारेगाढतरं अतित्रणुबलवंत भारिकादवनेविषे खूतोऊंतो तिवारपच्छीतुं हेमेघ अन्यदाप्रस्त्रावैक  
घणाकालनोवाहिरकाडो एह्वोहाथीवरप्रधानयुवान तेपोतानाचूथटोलाथकी वाहिरकाडोतेहेमेघ तेयुवानहाथीसूडिपगनेदंद्

हेमेवैकोजवरयुवा करचरणदन्तसुसलप्रहारेविप्रार  
 इहैवमच्चरघटनात्वया हेमैवैकोजवरयुवा करचरणदन्तसुसलप्रहारेविप्रार  
 गदतरंतणमित्यादि इहैवमच्चरघटनात्वया हेमैवैकोजवरयुवा करचरणदन्तसुसलप्रहारेविप्रार  
 चित्तित्तेशेषः बलियतरायति गाढतरंतणमित्यादि इहैवमच्चरघटनात्वया हेमैवैकोजवरयुवा करचरणदन्तसुसलप्रहारेविप्रार  
 विपराद्धोवाहतः सन् अन्यदाकदाचित्स्वकात्प्रयात्निरंनिज्जुहेतित्तिनिर्द्धाटितोयः सपानीयपानायतमेव  
 कुपितः प्रवृद्धकोपोदयः चांडिकितः संजातचांडिक्यः प्रक  
 नानादेशजविनेया  
 कुपितः प्रवृद्धकोपोदयः चांडिकितः संजातचांडिक्यः प्रक  
 नानादेशजविनेया  
 कुपितः प्रवृद्धकोपोदयः चांडिकितः संजातचांडिक्यः प्रक  
 नानादेशजविनेया

त्तिस्मितीति आसुरत्तेति स्फुरितकोपलिङ्गः रुष्टः उदितक्रोधः कोपप्रकर्षप्रतिवादनार्थं नानादेशजविनेया  
 त्तिस्मितीति आसुरत्तेति स्फुरितकोपलिङ्गः रुष्टः उदितक्रोधः कोपप्रकर्षप्रतिवादनार्थं नानादेशजविनेया  
 त्तिस्मितीति आसुरत्तेति स्फुरितकोपलिङ्गः रुष्टः उदितक्रोधः कोपप्रकर्षप्रतिवादनार्थं नानादेशजविनेया  
 त्तिस्मितीति आसुरत्तेति स्फुरितकोपलिङ्गः रुष्टः उदितक्रोधः कोपप्रकर्षप्रतिवादनार्थं नानादेशजविनेया

सुप्रदायैवा उच्छुभइत्ति अवष्टभानिविध्यतीत्यर्थः निज्जाएइत्तिनिर्वातयतिसमापयति वेदनाकिंविधाः उज्ज्वलाविपक्षलेद्येनापिच कलङ्किताविपुलाशरीरव्यापकात् क्वचित्तिउल्लेत्तिपाठस्वातवीनपि मनोवाक्कायलक्षणार्थं सुलयति जयति तु लारूढानिवाकरोती

तुसंतिक्खे हिंदंतसुसलेहिं तिकख, तोपिइउच्छुभइइत्ता पुव्ववेरंणिज्जाएइइत्ता हइतुइं प्राणियंपिय  
इइत्तायाभेवदिसिंप्राउभूए ताभेवदिसिंपिडिगएतएणंतवमेहासरीर गंसिवेयणाप्राउभूवित्थाउज्ज

अवेआवीने तुभ्रप्रतेतीखे दंतसलरूपसलेकरी तिणवारस्रद्वियकी घोचेमारिवीघे घोचीनिवींधीने पूर्वपाच्छिलावैरप्रतेवालवालीने हव्यींसतोपपाभ्योछतो पाणीप्रतेपीयेपीइने जेदिशियकी प्रगटययोऊतो आब्योऊतो हाथीतेहिजद्विधिनेविषे पाछेवलिगयो तिवा रपच्छीहेमेघ तेतवताहराशरीरनेविषे वेदना प्रगटयइ वेदनाजपनीतेकेहवी जजलीषणुआकरी वलीतेकेहवीतीन अनवचनका यालजणार्थद्रव्यवस्तुप्रतेतोले अथवातुलातराजुडीये चढाव्यां अनवचनकायारूपद्रव्यप्रते तोलेतिसकरे एहवीवेदनाजपनी विपुल षणीशरीरसांहे व्याप्यापणायकी कर्ककथकठिनपाखाणादिकनीपरे यावत्प्रणी चंडारौइकारिणी दुःखरूपएहवी वेदनादुःखेअही

तिलितुलाकर्कशाकर्कशद्रव्यमिवानिष्टेत्यर्थः प्रगाढांप्रकर्षवती चण्डारौद्रादुःखादुःखरूपा नसुखेत्यर्थः किमुक्तं भवति दुरधिसत्त्वादा  
हवर्षाति एत्ति दाहोव्युत्क्रांत उत्पन्नोयस्यसतथा सएवदाहव्युत्क्रांतिकः अट्टवसट्टुहट्टेत्ति आत्तोवशमार्त्तध्यानवश्यताप्यतो दुःखार्त्तच

लातिउष्णाविउलाकक्खुडाजाव दुरहियासापित्तज्जरपरिगयसरीरादांहवक्कंतीएयाविविहरित्था  
तएणंनुमंसेहातंउज्जलंजावदुरहियासंसत्तराद्दिथंवेयणंवेणिसिसवीसंवाससयंपरसाउयंपालइत्ता  
अट्टवसट्टुहट्टु कालमासेकालंकिञ्चा इहेवजंबुद्धीवेभारहेवासे दाहिणडुभरहे गंगाएअहाणइएदा

यासीसकीये पित्तज्वरेकरी व्याधीशरीर मांहिएहवीदाहदाघव्युक्तांतजपनोक्के जेहनेएहवोक्कतो विचरेक्के तिवारप्रक्कीत्तुं हेमेवते  
ऊजलीएहवीपूर्वोक्तवेदनाप्रतेदुःखे अहीयासे सातराविदिनताई एतलेसातअहोरालिताई वेदनप्रते वेदेखमे वीससहित शतवर्ष  
एतले २० वरसनोपरमउत्कृष्टो आउखुपालीने आर्त्तवस आर्त्तध्याननावसथकी दुःखेपीओक्कतो जेतेहाथी कालप्रसाविकालकरी  
नेएहिजजंबुद्धीपनामादीपमाहे भरतचेवमाहेदक्षिणाई भरतनेविषे गंगानामामहानदीना जीमणाकुलनेविषे विंध्याचलपर्वतना

यः सतथा करेणुएत्ति करेणुकायाः रत्तप्यलेत्यादि रत्तोत्पलवद्रक्तः सुकुमारकचयः सतथा जपासुममसचञ्चरत्तपारिजातकचदृञ्चविशेष  
पोलाचारसचसरसकुंक्रमंचसंध्याभ्ररागञ्चेतिद्वंद्वः एतेषामिववर्णौयस्यसतथा गणियारत्तिगणिकाकाराः सकामायाः करेणवसासां

हिणेषु श्लेषे विंशतिगिरिप्रायमूले एगिणंसत्तवरगंधहृत्थिणा एगाएवरकरेणू कुच्छिंसिगयकलमएज  
णिएतएणंसागयकलभिया खवरहंसासाणं वसंतमासंमितुमंपयाया तएणंतुमंमेहागभवासाओवि  
प्यमुक्केसमाणेगयकलभयाविहोत्थारतुप्यलरत्तसूकमाले जासमणरत्तपालिजत्तए लक्खारससरस

एकदेशान्हापर्वतनाजे मूलश्रदानेविषे एकमातोमदोन्मात्तवरप्रधानएहवेगंधहाथीइ' एकवरप्रधानएहवीकरेणुहाथिणी भोगवीतेह  
नीकूखिनेविषे गजकलमहाथीवालकपणे जपनो तिवारपच्छीतेगजकलभिकाहाथिणी नवमासपरिपूर्णैरेद्धते वसंतमासनेविषे  
तुं पानस्योप्रसव्योहेमेतुं बीजे भवहाथीययो तिवारपच्छीतुहेमेघगर्भावासनादुःखयकीम्हंकाणोच्छतो तेहाथीगजकलमद्धतोहृओते  
केहवोक्के राताकमलसरिखो रातोसुकमालेजेतेहाथी तथाजाइनाफूलसरिखो आमर्यादाकरीरत्तरातोक्के जेतेपारिजातदृञ्चविशेष



कोत्थ'तिउदरदेशखलहस्योयस्य कामक्रीडापरायणत्वान्तथा इहचेत्समासान्तोद्रष्टव्यः कालधन्वाणन्ति कालोमरणं स एव धर्मो जीव  
पर्यायः कालधर्मः निवृत्तिप्रयत्नासंघेज्जा इहयावत्करणेनयद्यपिसमग्रः पूर्वोक्तो हस्तिवर्णकः सूचितस्तथापि स्वतभावर्णकवर्जो द्रष्टव्यः

कुतुम्बसंचक्रभ्ररागवर्णो इडेणियगस्सजूहवइरणो गणियायाराकरेणुकोत्थहत्थ अणेगहत्थिसयसं  
प्रिवुडेवस्सेसुगिरिकाणेशु सुहंसुहेणंविहरइतएणंतुमंसेहा उसुक्कवालभावैजोव्वणगसणुप्रत्तंजू

लाखनोरससरसकुं कुमसंध्यासांश्रुना आभानारागएहांनीवर्षासरिखोछे जेहाथीनो इष्टवस्त्रभवाक्लोछेकहनने निजपोतानीहाथिना  
वयनोटोलानोपतिधणीतेहनेवस्त्रभक्के गणिकाकारागणिकासरिखीवणाविषयसहितएहवीकरेणुहाथिणीतेहाकोत्थ कहतांउदरपेट  
नोप्रदेवातेहनेविषे हस्तशुं डादंडछे जेहनोकासभोगनीक्रीडारामतिनेविषे परमतत्परपणायकी एहवोतेहाथी अनेकधणीहाथि  
णीतेहनासईकडा तेषेपरिवस्थोछे रस्यभनोहरएहवागिरि पर्वतकाननवनखंडतेहनेविषेसुखे समाधिइंतेहाथीविचरेछे तिवार  
पक्कीतुं हेमेघउत्प्रावत्यपणे करीसूं क्योछे बाल्यभावबालकनी अत्रस्थाम् कीछेएहवो योवनवयपाय्यो एतलेनालकनो स्वभावसूं की

हवद्गुणाकालधक्षुणासंजुत्तेणंतजूहंसयधेवपडौवज्जासितएणंतुमंभेहावणयरेहिंशिव्वत्तियणाअधेज्जे  
 जावचउहृतीसेरुपभेहत्थिरयणेहोच्छातत्थणंतुमंभेहासत्तंगपइट्टिएतहेवजावपडिख्वेतत्थणंतुमंभे  
 हासत्तसयस्सजूहस्सआहेवच्चजावअभिरमेत्थातएणंतुमंअस्सयाकयाइं गिरहकालसमयंसिजिइाअूले

चोवनपास्योतेतले यूथटोलानेधणीइं कालसरणतेहिजधर्मजीवपर्यावतेणेसंयुक्ताएतले यूथाधिपे सरणपांस्येयके तेहाधिणीनाययू  
 प्रतेपोतेजपडिव्वज्जे अंगीकारकरे तिवारपच्छी तुं हेमेसववअटवीमांहिचाले फिरितेवनचरभीलकह्दीये तेशेभीलोनिवत्तं नामधारक  
 शतसंख्यात्तेएतलेभीलनासस्सरहेछे विंध्याचलपर्वतनेविषे तेषेनिवत्तकवखाणवायोव्यएह्दीनामदीधोतेहाथीनोयावतशब्दनेग्रहणय  
 कीचुमेरुप्रभहाथीनावर्णनसरिखोवर्णनजाणवो परंसुमेरुप्रभहाथीनो वर्णज्जलोछे तेकाहिवोनहीवीजोसर्ववर्णनइह्दांजाहिवोच्यार  
 दंदसल सेरुप्रभनामाहस्सीरलऊतोह्दओ तिहातुं हेमेसस्रांगच्यारपगच्छं डिधुंछ्दंइं ड्रींएसातअंगभूमिलागाछे जेहनातिसजसु  
 सेअप्रभहाथीनींपरेइह्दा सर्ववर्णनजाणवोप्रतिरूपतिहातुं हेमेस सातसचहाथिणीनो यूथनेअधिपतिपणेकरतोपालतो जावशब्दने

द्वहरक्तस्य वर्णितत्वादत एवाग्रे सत्तुस्त्रेहे इत्यादिकमिति देशं वक्ष्यति यत्पुनरिह दृश्यते सत्तंगेत्यादि तद्वाचनान्तरवर्णकापेक्ष्यन्तुलि

वणदवजालापलित्तुवर्णते सुधूमा उलासुद्रिसासुजावमंडलवाएव्वपरिभमंतेभीएतत्थेजावसंजायभए  
वड्डहिं हत्थीहियजावकलभियाहियसद्धिसंपरिवुडेसव्वओसमंतादिसोदिसंविषपलाइत्थातएणंतवमे  
हातंवणदवंपासित्तअयमेयाखूवेअज्जकत्थिएजावससुप्पज्जित्थाकहंणं मणे मएअयमेयाखूवेअग्गिसं

ग्रहणेपूर्वलीपरे अभिराममनोरमत्वं प्रवर्त्तं छे तिवारपच्छीतुं हेमेव अन्यदाएकदाप्रस्तावे श्रीशुकन्हाले आव्ये छते ज्येष्ठमासनेमूले  
वननोअग्नितेहनौभालतेणे करीषणुदीयाछेलागाछे वलताछेजेते वनखंडनाचंतविभागएहवाङ्गंतेछते धूमधूआइ आकुलव्याकुल  
अईएहवीदिशिङ्गंतेछते जावशब्दनाग्रहणथकीयावत् मंडलीकवंटोलीयो वाथरोमांडलानीपरेपरिभमे वाइं तासपास्ये जावशब्द  
यकीउपनोभयएहवोछतो घणाहाथीघणीकलभिकाहथिणीसंघाते परिवस्योथको सर्वतः चोफेरनांठोतुं तिवारपच्छीतुंफनेहेमेघतेव  
नदववननादावाणलदवप्रतेदेखीने आगलिकहिस्ये एहवोआपणाआत्मानेविषेरस्योएहवोमननोभानविचारउपनो किममानोमेएता

खितमितिलेसाहीत्यादि तेजोलेश्याद्यन्यतरलेख्यांप्राप्तस्येत्यर्थः अथ्वत्सालंमानसीपरिणतिः परिणामोजीवपरिणतिः जातिस्वरणा  
वरणीयानिचकमीणिमतिज्ञानावरणभेदाः क्षयोपशमउदितानां क्षयोवुदितानांविष्कंभितोदयत्व' ईहासदर्थीभिमुखोवितर्क इत्या

भवेत्त्रणुभूयपुल्वेतएणंतवमेहालेसाहिंवि सुज्जमाणीहिं अज्जकवसाणेणंसो हणेणं सुभेणंपरिणामेणंत  
यावरणिज्जाणं कम्माणं खउवसमेणंद्रहापूहमगणगेविसणं करेमाणस्स ससिपुल्वेजाईसरणेससुणपज्जि

दृश्यरूपसरिखोएहवो अग्निनोसंभव समूह अनुभवोक्ते पूर्वदीठोक्तेइमचिंतवतां तिवारपक्षी तु भूनेहेमेव लेख्याविशुद्धमान पुभ  
लेस्याधरेकरी एतावतातेजोगुक्तलेस्याविनाबीजीच्यारलेश्याऊइं हाथीनाउदयपांस्यातेहांनाक्षयोपशमकांद्दखपाव्याकाद्दुपससा  
व्याशीतलकीधाकर्मतथाखपाव्याकर्मनेउदयव्यातेहांनेविकखं भपणे पुणउदयपणेतेणेकरीअध्यवसायसनसंबंधीपरिणतिमनेचिंत  
वेकरीभलेपरिणामक० जीवनीपरिणतिपरिणामविशेषतेजीववे तदावरणकर्मतेजातिस्वरणकर्ममतिज्ञानावरणकर्मनोभेदजाणि  
वोतेजातिस्वरणकर्मनेआवरे ढाकेतेहांनेक्षयोपशमेकरी कृता विद्यमानअर्थनोजसन्मुखतेईहाकक्षीये अपोहविविचारणानामार्गनीग

त्यातएणंतुमंसेहाएयमंडं सभ्यं अभिसंसेहू एवंखलु सयाअतीएदोच्चैभवगगहणेइहेवजंबुह्रीनेभारहेवा  
 सेवेयडुगिरिपायधुलेजावधुहंहुहेणंविहरई तत्थगंसहयाअयलेयाखुवेअग्निगंसंभवेसमणुभूएतत्थयंतु  
 संसेहातस्सेवदिवसस्यपन्वानरएहकालसमयंसिणियएणंजूहेणंसद्धिं समस्यागएयाविहोत्यातएणंतुमंसे

वेषणाकरतांजेएपूर्वदीठोछे इमविचारणाकरतां प्राक्तनजन्मपाछिलाभवनाजन्मनोजेखरणसंभारिवोतेसंछिपूर्वजातिसरणाकही  
 येएतलेपाछिलाआपणाभवदेखे एहवोजातिसरणजपनोतेहाथीने तिवारपछीतुं हेमेष एअर्थपूर्वजातिदेखनाखूपप्रयोजनप्रतेसम्यक्  
 साचोजांकोदेखेएणेप्रकारेखलुनिअयसेअतीतगया बीजाभवग्रहणेविषे एतलेवत्तमानधीपाछिलाभवग्रहणेविषे एहिजजंबूदीपना  
 माद्वीपसांहि भरतक्षेत्रसाहि वैताडपर्वतना एकप्रदेशनान्हापर्वतनाखलथुडनेविषे ह्रं हंथीऊतो यावत्सुखेसमाधिहू विचरेतिहा  
 ताईवर्णन तिहांओटोएतादृश्यरूपएहवो अग्निनोसंभवसमूहजपनो तेदीठोअनुभव्यो तिवारपछीतुं हेमेष तेहिजदिवसनापूर्वाप  
 राङ्गकालप्रथमप्रहर्यकी मांडीपाछिलाप्रहरलगे निजपोताना दूयसंघाते आवतोहृतो तिवारपछीतुं हेमेषबीजाभवनेविषे सात

दिप्राग्बत्संज्ञिनःपूर्वजातिः प्राक्तनं जन्मतस्यात्स्वरणं यत्संज्ञिपूर्वजातिस्वरणं व्यस्तनिदेशेतुसंज्ञीपूर्वोभवोयत्तत्संज्ञिपूर्वं संज्ञीति च विशेषणंस्वरूपज्ञानार्थं नह्यसंज्ञिजातिविषयंस्वरणमुत्पद्यतइति अभिसमेसित्तिअववुध्प्रत्यपराङ्गोपराङ्गः तएणमित्यादिकोप्र

हारासुखे हेजावसस्त्रिजाइसरणेचउह तेमेरुअभेणामं हत्थीरायाहोत्था तएणंतुभंके हाअयमेयारूवे  
अभ्रमत्थिएजावससुपज्जित्थातंसियंखलुससइयांशिंगंगाएभहाणइएदाहिणिल्लं बूलंसिसिविञ्जगिरिपा  
यमूलेदवग्गिसंताणकारइसाएणंजुहेणंअहइसहालयंजंडलंघाइत्तएत्तिकट्ट, एवंसंप्रेहिहिसिइसुहंसुहेणं

हायनो देहजं चो नवहायलां वोइसहायपड्डलो यावत्विचारकरतासंज्ञीजातिस्वरणजपनोतिहाताइ चउदंतोरातेवणे मेरुप्रभना  
साहायीहथिणीयांनोराजाड्डतो तिवारपञ्चीतु हेमेघ एताइरुपएहवो आत्मानेविषेएहवो जावसनोगतभावजपनो तेकाणयकीअय  
अलुखलुनिअयसुअनेहिबडां गंगानासासहासोटीनदीनाहच्छिणदिशिना बूलकाठानेविषे एतलेजीमणापासानाबूलनेविषे विंध्या  
चलपर्वतनाएकदेशप्रदेशनाग्हापर्वतनाधडनेविषे दवनाअग्निनोजपनोजेभयतेहनेसंताणराखिवानाकारणभणी पोतानायथसंघा

योजातिस्मरणविशेषणमाश्रयवर्णितः द्वाग्निंजायकारणदृष्टि द्वाग्नेःसंजातस्यकारणस्य भयहेतुर्निवृत्तयेद्ददंद्वाग्निंजातकारणार्थमर्थः शब्दस्यनिवृत्त्यर्थत्वात् क्वचित्द्वाग्निंजायकारणदृष्टिदृश्यते तत्रद्वाग्निंजायकारणार्थेतिव्याख्ये चं मंडलंघाएसिस्तिष्ठ

विहरद् तएणंतुंमेहाअस्सयाकथाद् पढंमंपाउसिचंमहाबुडिकायंसि सखिवायंसि गंगाएमहाण  
 इए अदूरसामंते बड्डहिंहत्थी जावकलभियाहिय सत्तहिंहत्थिसएहिं सद्धिं संपरिबुडे एगंमहंजो  
 यणपरिमंडलंमहंति महालयं अंडलंघाएसि जंतत्थतणंवा पत्तंवाकडुंवा कंटएवालयावा वल्लौवा

तेमोटुं वृक्षादिकने उपघातच्छेदवाभणीमांडलुंकरं इमकरीने इमविचारेविमामे विचारीने सुखेममाधिद्विचरेक्के तिवारपक्खीतुं हे  
 मेघएकदाप्रसावेप्रथमवर्षाकालनेविषे घणीवृष्टिपडतेक्कते एतलेघणोवरसात वरसतेक्कते गंगानामामोटीनदीने पासिअतिघणुवेग  
 लूनहींटूकडोनहींएह्वं घणाहाथीघणीहाथिणीनीबालिकाहथिणी सातसयहाथिणीसंघाते परिवस्योक्कतो एकमोटोयोजननोपरि  
 सामस्यपणे मांडलोकरे महामोटुं वृक्षादिक्केदीकरौ जेतिहांतणाअथवापांनडाकाष्टलाकडा कांटानावृत्तता वेलिखीलाखुंटाबी

चाद्युपघातेन तत्करोषीत्यर्थः खुवेत्तिबुपोऽस्वशिखःशाखी आङ्गणियरत्ति प्रकंयप्रकंयचलयित्वेत्यर्थः उद्धरेत्सि उद्धरसिपडेसि  
त्तिच्छेदयसि दोषं तिद्वितीयं तस्यैत्रमंडलस्यघातं एवंद्वितीयमिति नलिनीवनविधवनकरे दूहविधवनंविनाशःहेमतेत्तिशीतकालेकुंदाः

खाणुं वारुक्खं वा खुवंवा तंसब्बंतिक्खु,त्तो आङ्गणियरत्तएणउद्धरेसि हत्थेणंगिररुद्धएणंतेपाडेसि  
तएणंतुमंमेहा तस्सेवमंडलस्स अटूरसामंतंगंगए महाणइए दाहिणिल्लेकूले विंज्जगिरिपायमूले  
गिरिसुयजावविहरइ तएणंतुमंमेहा अस्सयाकयाइं सज्जिमएवरिसारत्तंमि महावुट्टिकार्यंसि

जाईवृक्षपुपनान्हीशिखासहितवृक्ष त्रिणवारप्रकंपावीचलावीहलावीनेउखेडे तेटुकडापगेकरीऊधरेराखे पच्छेसुंडीयेकरी  
लीये तेएकांतेपरठवेनाखेनाखीने तिवारपच्छीतुं हेमेष तेहिजमांडलायकी अतिवेगलोढ कडोनही गंगानामामहानदीना दक्षिण  
दिशिनाएतलेजीमणाकाठानेविषेविंध्याचलपर्वतनाएकदेशप्रदेशनान्हापर्वतनाम्बलथडनेविषे गिरिपर्वतच्छेत्ताताईविचरेच्छंतुं तिवा  
रपच्छीतुं हेमेष एकदाप्रस्तावे मध्यवर्षारालभाद्रवामासना वर्षाकालनेविषे वर्षाकालनेविषे पडतेच्छते जिहांते एकयोजनोमांडलोच्छे



पुष्पजातीयविशेषाः लोभाच्च वृक्षविशेषास्तेचशीतक्रालेषुष्यं त्यतस्तेषुद्धताः पुष्पसम्बद्धा उद्धुराद्भवयत्नसतथा तथातुषारं हिमंतत्प्रचुरंय

सखिवायंसिजेशेवसेमंडले तेशेवउवागच्छइरत्ता दोच्चंपिमंडलंधाएसि एवंचरिमवरसारत्तंसिम  
हावुट्टिकायंसिसखिवायसाणंसि जेशेवसेमंडलेतेशेवउवागच्छइरत्ता तच्चंपिमंडलघायंकरं तिजंत  
त्यतणंवाजावसुहंसुहेणंविहरई अहसैहातुं गयंदभावंभिवट्टमाणो कसेणणखणिवण विधवणक  
रहेअंतकुं दलोद्धउद्धततुसारंपउरंसिअइक्कं तेअहणवगिहकालसमयंसिपत्ते वियट्टमाणोवणेसुवण

तिहांताईपोतानापरिवारसहित आवेश्यावीने हेमेषवीजीवारमांडलाप्रते वृक्षादिदृष्टानेहेदे एमचरमक्केहलावर्षीरातिवर्षीकाल  
नेविषेघणीवृष्टिपडतेच्छते जिहांतेमांडलोच्छे तिहांतुंमेषपोतानापरिवारसहित आवेश्यावीने तीजीवार मांडलाप्रतेघातकरेवृक्षा  
दिज्याउद्धतेतेच्छेदे जेतिहां तथापांनडाप्रसुखजेऊइ तेनाखे जावसुखेसमाधिइ विचरेक्के अथहिवेहेमेष तुं गजेद्रहाथीमाहेइद्र  
सारीखोएहवागजेद्रनाभावनविषे वर्त्ततोप्रवर्त्ततोक्के क्रमेअनुक्रमेकेडाकेडे नलिनीकमलिणीना वनखंडनेविधविनाशउपद्रवना

लसतयाततःकर्मधारयः ततस्तत्रग्रीष्मोऽष्णकालेविवर्त्तमानोविचरन् वनेषु वनकरेणुनांताभिर्वाविविधादित्तं दत्ताःकजप्रसवैःपद्म  
कुसुमेःघाताः प्रहारयेनयस्यवासतथा वणरेणुविविहदित्तकयपसुषाडन्ति पाठान्तरेतुवनरेणवो वनपांसवोविविधमनेकधादिखन्ति

करेणु विविहदिणुकयप्रसवघात्रो तुमं उलयकुसुमकय चासराकसूपूर परिमंडियाभिरामेअयव

करणहारएहवोहेसंतशीतकालआव्योतेकेहवोछे कुं दफुलनीजातिविशेषलोभ्रद्वविशेषएसर्वते दृच्छशीआलानेविषे फूजेएकारणयकी  
तेदृच्छउद्वताफलनीसन्द्विच्छद्विजकरीउद्वतउल्काटछे जेशीतऋतुकालमाहे तथातुषारहिमपालोतेप्रचरषणोछेजेहनेविषे एहवोजेह  
नेएतलेपाणीनीक्रीडावखाणीनायीनीशीतकाल अतिकस्येउल्लंघ्ये गदूछते हिवतिहानवोग्रीष्मसमयउष्णकालउक्तालोप्राप्तआव्येच्छतेते  
उष्णकालनेविषेविवर्त्तमानविचरतोप्रवर्त्ततोकेहवोछेवनखंडकरेणुहाथिणीतेणीएनिविधवणाप्रकारनादिन्नदीवाछे कजप्रसवैःक०पा  
णीतेहयकीजउपनाजेकमलतेहनाजेफूलएतत्तेकमलनीपांखडीतेणेकरीघातप्रहारजेहनेएतलेपाणीनीक्रीडावखांणीहायीनीहेसेषतु  
ऋतुयकीजकहतांजपनाजेकुसुमफूलतेणेद्वतकीवाछेचामरनीपरेकरणपूरकाननापूरतेणेकरीपरिमंडितसोभायमानएहवोअभिराम

दत्तादिद्वालानिच क्रीडापरतयाच्चिन्नायेनसतथा तथाक्रीडयैवकृतः पशुघातोयेनसतथा ततः पदद्वयस्यकर्मधारयः तुभंतिलं तथाकु  
 सुमैःकृतानिन्यानि चामरवल्कणपूराणितैः परिभंडितोभिरामञ्चयः सतथाक्वचित् उच्यकुसुमत्तिपाठः तत्रचतुजकसुमेरितिव्याख्ये  
 यंतथासदवशेनविकसन्ति कटतटानिगंडतटानि ल्लिन्नानिआर्द्रीकृतानियेनतत्तथा तच्चतर्जं धमद्ववारिच तेनसुरभिजनितगंधःम  
 नोच्चकृतगंधःकरेणुपरिहतः ऋतुधिःसमस्तासभासावाः परिपूणीजनिताशोभायस्यसतथा कालेकिंभूतेदिनकरः प्रचण्डोयत्र सतथात  
 त्वपरिशोषिताःनीरसीकृताः तरुवराःश्रीवराःश्रीभावन्तो येनपरिशोषितातरुवराणांश्रीः संपद्धरायांभुवियेन पाठान्तरेपरिशोषिता  
 तानितरुवरशिखराणियेन सूतथासचासौ भीमतरदर्शनीयञ्चेति तत्रमृंगाराणां पञ्चिविशेषाणां रुवतांरवंकुर्व ताभैरवोभीमोरवःश

सविकसंतकडतडकिलिसु गंधमद्ववारिणासुरभि जणियगंधोकरेणु परिवारिओ उऊसमत्तज

सनोहरहे तथासदननेवशेकरीविगसंतविकसताहे विकारापामताहे कडतगंडतकपोलगस्यलकिलिन्ननीलानौघाहे जेणेतेहना  
 गंधरूपजसदवारिसदनोपाणीतेणेकरी सुरभिसनोरसक्रीधोके उपजाव्योके गंधकरेणुहाथिणीएपरिवश्योक्ततो तथाकचतुएसमखा

द्वेयस्मिन्सतया तत्रनानाविधानियतकाष्ठलक्षणकचवराख्य द्रुतानि उत्पाटितानियेनसतया सचासौप्रतिमास्तश्चप्रतिकूलवायुसेन  
 आदिगंधंनभस्रलंब्योम पटुसमाणेत्ति पटुत्वादुपतापकारिखिन् पाठातरेउक्तविशेषणेन प्रतिमास्तनेनादिगंधंनभस्रलंबुसगण  
 चयस्मिन्सतयात्र वातोल्यावात्ययादास्तुतरोचःसतयातत्र लक्षणावशेनयेदोषावेदनादयस्त्रैर्दोषिता जातदोषाद्रूषितावास्त्रमंतो

शियसोहोकाले दिशयस्करप्रयंडे परिसेसिसियतस्वर सोहरभीमतरदरिसणिल्लेभिं गारखवंतरव  
 भेरवरवेणाणाविह प्रक्षकडुतणकयव रहुतपइमारुया इडुणहयलदुसगणेवा उलिदारुणतरे तरुहा

परिपूर्णजनितउपजावीनेसोभाजेहनेकालप्रस्तावउष्णऋतुनेविषेतेकालकेहवोच्छेदिनकरसूर्यनोकीधोतापप्रचंडआकरोच्छेजेकालनेवि  
 षेवलीतेकेहवोच्छेपरिशोषाणाच्छेनीरसकीधोच्छे तस्वरप्रधानजत्तमद्वत्तेहना शिखरजेणतेएभीमतररौद्रआकरो दर्शनदेखवायोग्य  
 छेएहवाकालनेविषेवलीकेहवोच्छे भृंगारपंखोविशेष तेहनारवशब्दकरताएहवानो भैरवरौद्रभीहामणोरवशब्दजेहनेविषे वलीतेकाल  
 केहवोच्छेनानाविधश्चनेकप्रकारनापत्रपानडाकाष्ठलाकडाटणकचरोकादवतेउधरुच्छे उपाद्याच्छेजेणतेएजेप्रतिमास्तप्रतिकूलअस्तुख

विविधयेस्वापदासौः समाकुलोद्यःसतथा तत्रभीमंयथाभवतीत्येवंदृश्यतेयः सभूमदर्शनीयः तत्रवर्त्तमानेदारुणेश्रीष्मे केनेत्याहमारु  
तवशेनयःप्रसरःप्रसरणंतेन प्ररुतोविजृंभितश्च प्रवलीभूतोद्यःसतथा तेनवनदवेनेतियोगः अथधिकंयथाभवत्येवंभीमभैरवोतिभीष्मोर  
वप्रकारोद्यस्यसतथातेन अष्टुधारायायत्पतितंपतनं तेनसिक्तउद्भावमानः प्रवर्द्धमानोद्यगधगायमानो जाञ्चल्यमानः संदोद्धतश्चदृष्ट्वा

वसदोस दूंसियभसंत विविहसावयसभा उलेभीमद्रिसिण्जे वट्टंतेदारुणंमिणिग्हे आरुयवसप

कारीमारुततेहनेविषे एहवाकालविषे तेवायरोतेणेआदिग्ध व्याप्योक्तेनअखल आकाशतलवली दुमगणाष्टक्षनासम्ग्रह जेहनेविषेएह  
वांकाल विषे वलीतेकेहवोक्ते वाउलिवायरानाजिसमूहवंतोलीया आंधीप्रसुखतेणेकरीदारुणिवरघणो वलीतेकेहवोक्ते लक्ष्णालघाने  
वसेकारीजेदोषवेदनादिकतेणे करीदूषितपीड्याह्यता उरहापरहाविविधघणाप्रकारना जेखापदसिंहव्याघ्रादिकतेणेकरी समाकुल  
आकुलव्याकुलक्ते जेतेवीहामणो आकरोक्तेजेतेकालएहवांकालवित्रे भीमरौद्रजिमज्झइं एहवोदेखीयेजेतेभीमदर्शनीयकहीये वर्त्त  
मानहिनडावर्त्ततोथको दारुणआकरोएहवाग्रीष्मकालनेविषे केणेश्ये करी तेरुहेछे आरुतवशेनवायराने वसकारीजेपसरवुं तेणेक

मानदारस्यंप्रबलः पाठान्तरे शब्दोद्धतश्चयः सतथातेनदीप्ततरोः सस्फुलिङ्गश्चतेनधूममालाकुलेनेति प्रतीतंस्वापदशतांतकरणेजत

सरपसरिय विद्यंभि एणं अग्निहोमभेखवरप्रगारेणं मङ्गधाराप्रडियसित्तउद्घायमाणेधगधगंत  
समुद्ध्येणंदिस्ततरकुह्लिंगेणं धूममालाउलेणं सावयसयंतकरणेणंवरणदेवेणं जालालोवियणिरुद्घधूमं

रीपसख्योविसख्यो विजृंभितप्रबलीभूतघणो विसख्यो जेतैएहवेवनदेवकरी श्रीष्मत्तुकाठिनच्छे तेवनदेवकेहवोच्छे अतिधणोअधिको  
जिमङ्गइं एमभीमरौद्रआकरोरवशब्दनो प्रकारेच्छे जेवनदेवनोतेणेकरी वलीतेकेहवोच्छे मधुसहितनी धाराधारनोजेपडिवोच्छादि  
काजपरयकी तेणेसीच्योच्छतो उद्घावमानः धातोडं चोउच्छलतोप्रकर्षकरीवाधतोजाज्वल्यमानधगधगतो रसतेणेकरी उल्कृष्टबलतो  
लाकडानोरसतेणेकरीप्रबलच्छे जे तेअथवाबलतोकाष्ठनोशब्दउद्धतकाडकडशब्दइत्यादिवाइच्छे जेतैएहवीवनदेवनीअग्नितेणेकरीवली  
तेवनदेवकेहवोच्छे दीप्ततरतेजवंतदेदीप्यमानजेते अग्ननाकणीयातेणेशहित धूमधुंआडानीमालाअग्नितेणे आकुलयथातेणे वली  
तेकेहवोस्वापदजीवना जेशतसइकाडातेहना अंतविनाशकारीतेणे एहवे वननेदेवेअग्निहूं करी शीथकालआं करोच्छे मालाईं करी

हिनाशकारिणा ज्वालाभिरालोपितः कृताच्छादनो निरुद्धश्च विवक्षितदिग्गमनेनिवारितो धूमजनितान्धकाराङ्गीतश्चयः सतथा आत्मानं  
 नसेवपालयतीत्यालपालः पाठांतरेण आश्रयवालोयत्तितल आतपालोकेन ऊतवहतापदर्शनेन महान्तौतुं बकितौसम्बतया अरुहदृष्टुं वा  
 कृतीवुत्तौससंज्ञसौकरणैयस्यसतथा आकुंचितस्थूलपीवरकरः भयवशेन भजंतीदिशद्दृतिगम्यतेदीप्ते नयनेयस्यसतथा आकुंचियघोरपी  
 वरकराभोयसम्बभयंतदित्तणयणोत्ति पाठांतरंतलाभोगोविस्तरः सर्वोदिशोभजंतीदीप्ते नयने यस्येतिवेगेन महामेघद्भववातेनोदितम  
 हारूपः किमित्याह येनयस्यांदिशि कृतोविहितस्ते त्वया पुरापूर्वदवाग्निभयभीतहृदयेन अपगतानि लणानि तेषामेवचप्रदेशाम्बलाद

**धयारभौओ आश्रयवालोयमहंततुं बद्रयपुस्यकणो आकुंचिय घोरपौवरकरो भयवसभयंतदित्तण**

आलोपितकीघोढांकवो निरुद्धोवांछीदिशि जावाने विषे निवास्थो धूंआड़ाथकी उपनोजे अंधकारते हथकी वीहनोछे जे ते हाथी आतपा  
 लोकेन अग्निनातापने देखिवेकरी महंतमोटातुं बकितसम्बपणे अरुहदृष्टनातुं वाने आकारे वाटलासंभ्रमउतावलाएहवाकां नछे जे हना  
 आकुंचियसंकोचितघोरस्थूलजाडोपीवरपुष्टएहवोकरसुं डादंडछे जे हने भयने वशेकरीसघलीदिशिप्रते भजताजोताछे एहवादीप्तिवंत

वोवयवा दद्याच्चयत्वात्सोपगतत्वात्प्रदेशश्चः कोसौद्वन्द्वोद्देशः दत्त्वप्रधानोभूमेरेकादशोरूद्वोद्देशोवाकिसर्थेदवाग्निसंताणकारणाधि  
 दवाग्निसंताणहेतुरिदंभवत्वित्येतदर्थतयायेनैवयस्यासेवदिशिमण्डलेतेनैवतत्त्वैवप्रधारितवान्गमनायक्यत्रञ्जभिर्हस्त्यादिभिःसाद्भिर्मि

थशोवेगेणसहासेहोव्वायणोल्लियमहल्लख्वो जेणकञ्जोतेपुरादवन्नि भयभौथिहियएणं अवगयत  
 णअवेसरुख्वोएवंसोहूँसो दवन्निगसंताणकारणदृष्टाए जेणवमंडलेतेथेवप्रहारैत्थगमणाए एकोतावएस

नयननेतञ्जेहनावेगेकरीसहासेषनीपरैवायरेकरी उदितप्रकञ्चोमहारूपएतलेजिम भेघउतावलो सर्वरेले तेसहायीके फालउता  
 वलोदिवाभणीसोटुंरूपयञ्जे जेनकहतांजेदिशिनेविषे कडकीधोके तेलयातेपुरापूर्वप्रथमपहिलंद्वनी अग्निनेभयेकरी भीतवीहनी  
 केहृदयचित्ततेणेकरी अपगतगयाच्छे लगानाजप्रदेशसूलादिकअवयववलीरुक्खवृत्तजेहयकी तेअपगतत्वात्प्रदेशवृत्तकहीये तेल्या  
 भणीद्वनीअग्निनेराखवानाकारणेने अर्थेद्वनाअग्निने राखवानो एहेतुच्छेएहवाअर्थभणी तणारहित्तेजेजिहाजेदिशिने भांड  
 लोच्छेतेहिजदिशिनेविषे प्रधारितञ्जओ गमनजावाभणी मेरुप्रभहायीषणीहथिणीसंघाते एकप्रथमएगमो जाणिवोगमक०आलावो



त्ययमेकोगमः यत्पुनः तएणं तु संभेहाअखयाकयाईकमेणपंचसुइत्यादिदृश्यते तद्गमांतरं मन्यामहे तच्च एवं द्रष्टव्यं तच्च पिमंडलघायंकरेशि

गसोतएणं तु संभेहाअखयाकयाइं कमेणंपंचसुऊलसुसमइकं तेसु गिभहकालसमयं सिजेद्वाफूलेमा  
सेपायवसंवंससुद्विएणं जावसंवद्विएसु मियपसुपक्खिसिरोसवेसुदिसोदिसंविष्यलायमाणेसुतेहिं  
इहिं हत्थोहिंयसद्धिं जेणेवमंडलेतेणेवपहारेत्यगमणाए तत्थणंअखेवहवेसीहायवग्घायविगायदी

सरिखोपाठकहीये तिवारपछीतुं हेमेघअन्यदाप्रस्तावे क्कमअनुक्कसेप्राष्टकालं वर्षीरात्रं शरत्कालं हेमंतच्छतु४ वसंत५ एपांच  
चतुअतिकमेच्छते श्रीअज्ञालउन्हालो आव्येच्छते ज्येष्ठमासनेविषे पादपटच्चवांशादिकमांहेमाहिंघसावेकरीजद्योजपनोजेअग्नितेणे  
करी जिहंघणोदावानलद्विपामेच्छते षगलापद्युपंखीयासरीरूपससाप्रसुखनचरजीव दिशोदिशिप्रते नासवामांद्याऊतेच्छतेवणा  
हाथीघणीहाथिणी संघाते जेदिशिनेविषे सांडलोच्छे तेदिशिनेपधारतोऊअोजावाभणो तिहातेमांडलानेविषे अनेराबीजाघणासो  
हव्यात्रवरगडाचीता अक्कारोच्छतरच्छालोकप्रसिद्धजीवविषे पारासरजीवविषे शरभअष्टापदजीवसियालसञ्चरकृतिराकोल

जावसुहंसुहेणंविहरसि तएणं तुमंसेहाअणयाकयाइं पंचसु उउसुअइकं तेसुइत्यादियावत् जावजेणेवसंडलेपहारेख्यगमणाएत्तिंसि  
 हादयःप्रतीताः नवरंष्टलाःविरुक्ताःद्वीपिकाश्चित्रकाः अच्छत्तिक्तलाःतरच्छालोकप्रसिद्धा'परासराःशरभाः इष्टगालविरालशुनकाः  
 प्रतीताःकोलाःसूकराः शयकाःप्रतीताःकोकं'िकालोमटका चित्ताचिस्रगा आरथ्याजीवविशेषाः एतेषामध्ये धिष्ठतवाचनायाकानि  
 चिन्नइक्षंते अग्निभयविद्रुताः अग्निभयाभिभूताः एगउत्तिएकतोत्रिलवर्त्मणं विलाचारेणयथैकत्व त्रिलेयावंतोमत्कटकादयःसंसांति

विद्याअच्छारीच्छतरच्छायपारासरास्रभाय सिञ्जालविरालाशुणहकोलाससाकोकंतियचित्ता  
 विभ्रुताःपुत्रप्रविष्टिग्राअग्निभयार्थिभविह, याएगओत्रिलवर्त्मणं चिद्रंति तएणंतु प्रंसेहाजेणेअसेमंडले

ससालोमटकाजीवचित्ताचिस्रलाअटवीसंबंधीयाजीव एसर्वजीवप्रथमपहिला मांडलामाहिपैठाछेअग्निभयेकरीविद्रुतपौद्याविहल  
 यनाब्धता एकएकयकी विलवर्से विलाचारे जिमएकदिलमाहे जेतलामकोडादिकसमाइरहे तेसुगलादिक सर्वजीवदिलनीपरसंड  
 लामारहेतिवारपछीतेहेसेषपगेकरी गात्वप्रते शरीरप्रतेखाजकरस्युएहवाहेतुथकी पगडं चोडपाद्यो तेपगेचापीभूमिलापूर्वलाविचा

तितान्वंतस्त्रिष्टन्ति एवं ते पीतिततस्वया हे मेघगालेण गालं कंडूयिष्ये इति कृत्वा इति हेतोः पाद उत्वच्छिप्तः उत्पाटितः तं सिचणं अतरं सितस्त्रिं  
 चातरपादाकातपूर्वञ्च अंतराले इत्यर्थः पादं निक्खमिस्सामित्तिकट्टु इह भवं निरूपयत्विति शेषः प्राणानुकांपयेत्यादिपदचतुष्टयमेकार्थं दया

ते एव उवागच्छ इत्ता । ते हिंम इहं सो हिंजावचिष्णु एहिय एगयञ्चो विलधम्मो णं चिड्डु सित एणं तु मंसे  
 हापाएण गच्छं कंडुस्सामीत्तिकट्टु, पाएउक्खित्ते तं सिचणं अंतरं सिअस्ये हिथ वलवंते हि यसत्ते हि यपल्ला  
 इज्जमाणे रससएअणुपविट्टे तएणं तु मं सेहागायं कंडु इत्ता पुणरविपायं पडिणक्खमिस्सामित्तिकट्टु, तं

लेतेपगनीभूमिने विचाले अंतराने विषे अनेरेषणे वलवंते सत्वजीविते माडलोभराणो तेणे जीवे करीठे लाठे लिकरता बलवंते ठेलीये  
 एगससो जीवपैठो तेपगना ठामनी खाली भूमिने विषे तिवारपच्छीतं हे मेघगातशरीरप्रतेखाजिखणीने वली भूमिप्रते हे ठोपगमं क  
 स्यु एतलेपगमं कवालागोइस करीने तेन लेशशापेठाप्रते देखे देखीने प्राणैर्बेद्वियादिकजीवनी अनुकांपादयाथकी भूतवनस्यतीमात  
 नीदयाथी जीवपंचेद्वियमातजीवनीदयाथकी पृथवीपाणी अग्निवायुतेहनीदयाथकी अंतराविचालेनिर्द्धार लं चोतिमजपगराखे

प्रकर्मप्रतिपादनार्थं निदृष्टिं निष्ठागतः क्लृप्तस्वकार्थो जातइत्यर्थः उपरतोऽनालिङ्गिते धनात् व्यावृत्तः उपपत्तौ तज्ज्वालोपशमात् विष्कामांतो गा

सस्यं अणुपविष्टं प्रासद् रत्ताप्राणाणुं प्रयाएभूयाणुं प्रयाएजीवाणुं प्रयाएसत्ताणुं प्रयाएसेप्राए अंत  
 राचिवसंधारिणो चैव शंणिक्वत्ते तएणं तु भंमे हाताए प्राणाणुं प्रयाए जावसत्ताणुं प्रयाए संसारप  
 रिक्तो कए मणुस्साउणिवद्धे तएणं सेवरादवे अढा इज्जा इं रा इं दिद्या इं तं वणं ज्जामे इणिट्टिए उच्चरए उ  
 वसंते णिज्जा एथा विहोच्छा तएणं ते बहवे सीहा जावन्विष्णुणा यतं वणदवं णिट्टियं जावविज्जामायं प्रांसं

चेव निचयधरती इं पगम् केन चै तिवारपच्छीतुं हेसेवते प्राणीनी अनुकंपा दयायकी जावसत्त्वपृथव्यादिकनी दयाथी ससाजीवनी दया  
 येकरी संसारनोपरि चक्कीधो थोडो संसारकीधो वली मनुष्यनी गतिनो आउखो वांछो तिवारपच्छीते वननो देव अढी रातिदिवसतां ई अ  
 ढी अहो रातता ई दिनलगी वल्यो ते वनपोते आपणेषु शस्यो उल्लाणो बलतो नीव्यो कीधो पोतानो कार्य अणलागे धणाथकी पाछो बल्यो उ  
 ह्लाणो उपपत्तियथो ज्वालानाशमयी निर्व्यातयथो अंगाराग्नासडिना अभावयकी एतले सर्वथा उदहाराणो तिवारपच्छी धणासो हया

रसुर्मुंराद्यभावात् चापीतिससुच्चये जीर्णं इत्यादि शिथिलावलिप्रधानाया त्वक्तयापिनद्धं गात्रंशरीरंचस्थसतथा अस्थामाशरीरव

तिर्त्ताअग्निभयविष्यमुक्तातएणंसेवहवेहत्थीजावद्धुहाएपरिभाहया समाणातओमंडलाओप्रडि  
 शिखमंतिर्त्ता दिसोदिसिंविष्यसरित्यातएणंतुमंसेहाजुस्स जराजज्जरिथदेहे सिटिलत्रलियापिणि  
 इगत्तेदुब्बलेकिलंते जुस्सिएपिवासिएअत्थामेअव्वले अपरक्कमे अचंकमणेवां धाणुक्खंभवेगेणवि

वत्चिह्नलापजीवपर्यंततेवननोदवबलतोनीद्यो यावत्सख्योउल्लहाणो तेप्रतेदेखेदेखीने अग्निनाभयउपद्रवयकीस्वं काणाकृतातिवारप  
 क्खीतेघणाहाथीघणीहाथिणी तरसेभूखेपरभवीपीड्याकृता तेमांडलायकी बाहिरनीसरनीसरनीनेसगलीदिशिद्विदिशनेविषेविखरा  
 णाविस्सखातिवारपच्छीतुं हेमेघजनोययो जराइं करीजाजरोदेहशरीरययोक्के जेहनोएतलेघणुं डोकराणोययो वलीकेहवोक्के शिथि  
 लढीलीबललीलरीवलीते प्रधानजेत्वचाचामडीतेणेकरीपिनद्धवांधोक्के गात्रशरीरजेहनो दूबलोशरीरक्के जेहनोगलाणययोभूखोति  
 स्योययो अथामाशरीरसंबंधीबलनाविकल्पणाथी बलरहितययो अवष्टंभआधाररहितपणाथकी निर्वलजोरनहींएहवो अपराक्रम

लविकलत्वात् अत्रलोऽवष्टंभवर्जित्वात् अपरक्रमोनिष्पादितस्वफलाभिमान् विशेषरहितत्वात् अचक्रमणतोवाठाणुक्वंडेत्तिजड्डि  
स्थानेनखंभितगातद्वत्यर्थः रथयगिरिपद्भारः ईषद्वनतंखंडं उपमानाऽनेनास्थमहत्तयैववर्णेतोरक्तत्वात्तस्यवाचनात्

असरिस्त्रासितिकट्ट, पापसारेमाणेविज्जुहएविवरययगिरिपद्भारेधरणितलं सिसब्बंगेहंसखिव  
डिएतएणंतवसेहा सरीरणंसिवेयणाप्राडुभूयाडुज्जलाजावदाहवक्कंतीएयाविविहरतितएणंतुमंमे

नीपजाव्योपोतानाहींडवानाफलनोअभिमानविशेषतेशेकरी रहितपणाथकीएतलेलिगारमातहींडवानोपराक्रमनहींअचक्रमसाण  
अणहींडवाथकी ऊओरहिदेकरीखंभितयांआरूपथयोच्छेदरीरजेहनोवेगेकरीतिणेसमेअंगविस्सारस्युमोकलुकरस्युड्डं एहदुंकारीनेत्रि  
चारीनेउ'चोपगसंकोचीराख्योछेतेपगपसारतोहेठोख'कतोछतोवीजलीनापडवानीपरिध्रसकत्तूटीनेतथारजतरूपानोपवतप्राग्भारपू  
र्विलोभारयोडोस्थोनस्थोनीच्यो एहवोखंडएकत्तूडीनेधरतीनेविषेपडे तिमसर्वंगेकरीहेमेघतुं सन्निवडिएपडियोइहांधोलापवतनीउ  
पमाइ'कारीएहाथीनेमोटापणेकारीवर्णव्योपरंतेहाथीमेरुप्रभनेवर्णथकीवर्णव्योनथी रातावर्णपणाथकीतिवारपच्छीतुअनेहेमेघशरीर

हातं उज्जलं जावदुरहियासं तिस्विराद्दृष्ट्याद्द्वेयणं वे एसाणे विहरित्ता एगं वाससयं परमा उच्यं पाल  
 इत्ता इहेवजंबूह्वी विरभारहेवासिरायगि हेणयरेस्ते णियस्वरसो धारिणी एदेवी एकुच्छिं सिक्कुमारत्ता ए  
 पच्चायात एणंतुमं मेहाअणुपुव्वेणंगुभवासाओ णिकलं तेसमाणे उकुक्कबालभावेजोव्वरणगमणुपत्तेमम  
 अंतिएसुं डेभविताअगाराओ अणगारिथं पव्वइएतं जइतावतुमेमेहां तिरिकलजो णियभावसुवागएणं

नेविषेवेदनाप्रकटयातीऊई ऊजलीघणुआकरीयावत्दाघज्वरऊपनोएहवीवेदना सहिततुं विचरेक्केतिवारपच्छीतुं हेमेघतेऊजलीवेद  
 नादुक्खे अहीयासीसकीइं एहवीवीणरातीदिवसवेदनाप्रतेवेदतोच्छतोविचरीनेएकसोवरसनोउल्कृष्टआउखोपालीनेएहिजजंबूद्वीपे  
 भरतचेत्तेराजगृहनगरनेविषेअणिकराजानीधारीदेवीनीकूखिनेविषेकुमारवेटापणेऊपनोतिवारपच्छीतुं हेमेघआनुपूर्वीइं गभीवा  
 सगभयकीनीसखोच्छतो जन्मपास्योच्छतोउत्प्राप्त्यपणेकारीमंक्वोच्छे नालभावयोनवयपांस्योतिवारपच्छीमाहरासमीपनेविषे मुंडयईने  
 आगारघरयकीनीसरी साधुपणाप्रतेआदस्योप्रवर्ज्योतेकारणयकीजोतावप्रथमपहिलुंतं हेमेघतिथंछनीयोनिनाभावप्रतेपास्योअप्रति

रेतुसितवासाविति अप्पडिलहसमत्तरयणलंभेणंति अप्रतिलब्धोऽसंजातः विपुलकुलसमुद्भववेणमित्यादौ शंकारावाक्यालंकारेनिरु  
पहतंशरीरं यस्वसतया दान्तानिउपशशंनीतानि प्राक्कालेअनिसंतिपंचेन्द्रियाणि येनसतया ततःकर्मधारयः पाठांतरेनिरुपहतः

अप्पडिलह समत्तरयणलंभेणंसेपाएपाणाणुकंपयाएजावअंतराचेवसंधारिए णोचेवणंणिवित्ते किमं  
ग तुणतु नेमेहाइयाणिं विपुलकुलसमुद्भववेणंणिरुवहयशरीरदंतलहपचिंदिएणंएवंउट्टाणणववलीरि  
यपुरिसक्कारपरक्कमसंजुत्ते णं ममअतिएसुंडेभवित्ता अगाराओअणगारियंपव्वइएसमाणेसमणाराणं

लब्धअणपांस्थोऽतोसस्यक्तरूपरलकहीयेलंसकः पांस्थोएतावतासस्यक्तापास्थोनशीतोहृतेपगम्हं कवानौखालिभूमिने विषेप्राणीससो  
राख्योतेहनीदयायेकरी यावत् अंतराविचालेजं चोपगराख्यो चेवनिश्चयहेठो धरतीम्हं क्वोनहीं किंप्रश्ने अंगकोमलामंतणेवलीते  
हेमेप्रह्विडायिस्तीर्णकुलनेविषेजपनोक्के निरुपहतउपद्रवरहितशरीरक्के जेहनोतथाउपसमाव्याक्के पूर्विकाकालनेविषेलह्लह्याक्के  
पाचइंद्रियजेणेणंकारसगलेवाक्यालंकारभणीक्के एणेप्रकारेउत्थानचेष्टाविशेषबलशरीरसंबंधीवीर्यजीवनो सामर्थ्यपणो पुरुषाकार



शरीरप्राप्त्यासौ लक्ष्यं चेन्द्रियञ्चेति समासः एवमित्युपलभ्यमानरूपैरुत्थानादिभिः संयुक्तोचः सतथा तल उत्थानं चेष्टाविशेषः बलं शरीरं वीर्यं जीवप्रभवं पुरुषाकारोऽभिमानविशेषः पराक्रमः स एव साधितस्वबलइति नोसस्यक्सहसे भयाभावेन क्षमसे क्रोधाभा

श्लिगंथाणंरात्रोपुष्वरत्तावरत्तकालसमर्थसिवायणाए जावधस्माणुओगचिंताए उच्चारस्ववापासवण  
स्ववां अतिगच्छस्माणाणयणिच्छस्माणाणयहत्यसंघट्टणाणियपायसंघट्टणाणियजावरयरेणुगुं डणा

अभिमानविशेषपराक्रमकः तेहिजसाध्योच्छे पोतानोफलतेणेकरीसंयुक्तच्छे जेतेएतले मनुष्यसापंचेन्द्रियनाभोगभोगवीने माहरासमी पनेविषेसुं डयईने गटहस्यावासथकीनीसरीने अनगारतासाधुप्रणाप्रते आदस्थो दीक्षालीघेच्छते अमणतपस्वीनिग्रं यगांठरहितएह वासाधुचारिलीयापहिलांअनेपाछलीरातिनासमयनेविषेएतावतारातिनाच्यारप्रहरमांहि एकेकसाधुवाचणीलिवानेअर्थे एकेकप्र अपूच्छिवाभणी एकेकसाधुपाछलोभस्थोपाठदेवाभणीएकेकसाधुधर्मने अर्थेअनुयोगसूतनोवखांणतेहनीचिंताभणीउच्चारवडीनीतिते हनेअर्थेवलीपरिअवलघनीतिनेअर्थे वसतिउपाअवमांहिसाधुप्रवेशकरताआवता तथावसतिमांहिथी बाहिरनीसरता हाथनासे

वेनतिवसे देव्यानवलंबनेन अध्यासयसि अविचलितकायतया एकार्थिकानिचेतानि पदानि तस्यसेषस्थानगारस्य जातिस्मरणं

शियणोसम्सहस्रितिवक्सिअहियासेसितएणंतस्समेहस्सअणगारस्ससभणस्सभगवओमहावीरस्सअं  
 तिएएयमइंसोच्चणिसम्महुभेहिंपरिणामेहिंपसत्येहिंअजभवसाणेहिलेसाहिं विमुदभमाणिहंतयावर  
 णिज्जाणंकास्साणंखओवससेणंइहापूहमगणगवेसणंकरेमाणस्ससस्सिपुब्बेजाईसरणेउप्यस्स एयमइंसम्भं

घट्टनाहायेकरीफरस्थो पादनासंघटनापगेकरीसंघद्योछतो यावत्पगयकीवेगकी पगनाउतावलासाडवायकी रेणुरजेकरीगुंडण  
 भरेछेधूलेभरेछेएहवंडुक्खतुं सक्कभलीपरेसहतोनथीभयनेअभावेकरीतुं खमतोनथीदीनपणानेअनअवलंबने तुंअहीयासंतोनथी  
 निचलजायापणेजरी तिवारपछीते सेघनामा अणगारसाधुचारिलीयांने अमणभगवंतश्रीमहावीरदेवनासमीपनेविषे एहपूर्वोक्त  
 अर्थप्रतेसाभलीशुभभलेपरिणादे प्रशस्तउत्तमभले अथ्ववसायेकरी उत्तमलेस्याइं विमुदमाननिर्मलीलेस्याइंचैतवे तदावरणकर्म  
 तेजातिस्मरणकर्ममतिज्ञानावरणकर्मनो भेदजाणिवो मतिज्ञानावरणनो आवरणहकवो तेरूपकर्मखपवेकरीज्योपयमेकरी छता

समुत्पन्नमिति संबंधः समुत्पन्ने च तत्त्वकमित्याह एतदर्थं पूर्वोक्तं वस्तुसम्यक् अभिसमेदन्ति अभिसमेति अवगच्छतीत्यर्थः संभारि

समुत्पन्नमिति संबंधः समुत्पन्ने च तत्त्वकमित्याह एतदर्थं पूर्वोक्तं वस्तुसम्यक् अभिसमेदन्ति अभिसमेति अवगच्छतीत्यर्थः संभारि

यपुव्वजाईसरणेत्ति संस्मारितंपूर्वजात्योः प्राक्तनजन्मनोःसंबंधि कारणं गमनं पूर्वजाति स्मरणं यस्य स तथा पाठांतरं संस्मारितपूज्वंभवः

यपुव्वजाईसरणेत्ति संस्मारितंपूर्वजात्योः प्राक्तनजन्मनोःसंबंधि कारणं गमनं पूर्वजाति स्मरणं यस्य स तथा पाठांतरं संस्मारितपूज्वंभवः

अभिसमेदतएणंसेमेहेअणगारेसमणेणंभगवयामहावीरेणं संभारियपुव्वजाईसरणेदुग्गुणाणियंसंवेगे

अभिसमेदतएणंसेमेहेअणगारेसमणेणंभगवयामहावीरेणं संभारियपुव्वजाईसरणेदुग्गुणाणियंसंवेगे

आणंदयंसुपुसुहेहरिसवसेणंधाराहयकयंबगंपिवसमूसियरोमकुवे समणंभगवंमहावीरंवंदइणमंस

आणंदयंसुपुसुहेहरिसवसेणंधाराहयकयंबगंपिवसमूसियरोमकुवे समणंभगवंमहावीरंवंदइणमंस

विद्यमानअर्थनोजे अभिसुखसामुहोअमोहतेहनीविचारणा तेमार्गनीगवेषणाकरता जेमेएहनुं पूर्वदीठो छेएसविचारणाकरताने

विद्यमानअर्थनोजे अभिसुखसामुहोअमोहतेहनीविचारणा तेमार्गनीगवेषणाकरता जेमेएहनुं पूर्वदीठो छेएसविचारणाकरताने

तथाप्राक्वालापेक्षयाद्विगुण आनीतः संवेगोयस्ससतथा आनंदाशुभिः पूर्णैः कृतं स त मित्यर्थो सुखं यस्य स तथा हरिः सवसत्ति अनेन हरिः स  
 सविसम्यमाणा हि य एत्ति द्रष्टव्यं धाराहंतं यत्कदंबकं कदंबपुष्पं तद्वत्सु च्छितरे। मकूपोरोमां चित इत्यर्थः निसङ्केत्ति निखद्योदत्तः अनगा

1) इत्ता एवं वयासौ अज्जप्यभिर्गुं भं तं मसदो अकसो णि लोत्तूणं अवसेसकां एससणा णि ग्गं था णि सङ्केत्ति  
 कट्ट, पुणरविसमं वदइणं सइत्ता एवं वयासो इच्छामि णं भंते इया णि सयमेव दोच्चं पिपव्वा वि यं सयमेव

इषनेवसेकरी विस्वारपामतोच्छे हृदयचित्तजेहनो एहवो तथावली केहवोथवो मेघनीधाराइं हण्योजेकदं ननामाट्ठनो कदंबफूलविक  
 स्याते फूलनीपरेसमुच्छितरोम कूपरोमां चित हर्षजपनोच्छतोसेषसुनि असणभगवंतश्रीमहावीरदेवप्रते वां देनसस्कारकरेकरीने इत्थ  
 जहतोच्छो आजनादिवसथकी प्रारंभी हे भगवन्साहरीवे आंखिसूं कीने अवशेषबीजोशेषथाकतोमाहरोकायदेह असणविशंथ  
 साइने एहं कहीने पुनरपिवली असणभगवंतसाहवीरदेवप्रते वां देनसस्कारकरे करीने इत्थकहतोच्छो ऊं इत्थुं कुं वां कुं कुं हे भग  
 वन् इत्थं वली पुंहे पोते इत्थजीजीवारप्रवर्ज्यादीक्षादेवो पोते इत्थपुंहे लोचकरो यावत्पोते ज आचारज्ञानादिषियअनुष्ठानकाले



सुं डावियंजावसयमेवआयारगोयरायासायाउत्तियधक्षमाइक्खओतएणंसमणेभगवं महावीरेसे  
 हंकुमारंसयमेवपव्वावेइजावजायासायाउत्तियंघक्षमाइक्खइएवंदेवाणुण्णियागंतब्बंएवंचिद्वियब्बंएवं

सिद्धांतनोभणिवो गोचरगोचरीइं फिरवोविनयप्रसिद्धके वैनयकहतातेविनयनोफल कर्मक्षयादिचरणव्रतचारित्रादिकरणपिंड  
 आहारनीविद्युद्धादियातासंयमनीयातामातातेहनेजअर्थे आहारनीमाताप्रमाणोपेत आहारादिकनाउत्तिकहतावर्त्तवोछेजेहने  
 विषेएआचारगोचरादिधर्मप्रतेकहेसेवसुनिप्रते इण्णेप्रकारेहेदेवाद्युप्रियहेमेघसुने इर्यांसुमति चालवोवसरप्रमाणभूमिनेविषेहृष्टि  
 थापीने इमनिदोषभूमिनेविषेरहिवोजओ इमउभायी हेठोवंसवंभूमिपूंजीने इमसूइवो रातिसंधारानी पोरसीनासाभायका  
 दिकनोउच्चरवायकीपहिलुंयरीरनी प्रमार्जनापूंजिवाप्रतेकरने संथारो । उत्तरपट्टर एवेइनेजपरपोतानीवांहरूपउसीसो करी  
 डावापसवाडायकीसूइं इसजीमवोवेदनादिकनाकारणथकी अंगारादिदोषरहित इमभाषिवोवोलिवो हितकारिमीठावचनया  
 बोलवायकी एण्णप्रकारेउठीने प्रमाहनिद्रानिटाखिवेकरीजागीने प्राणवेद्रीतेइं द्रीचोरिंद्रीभूतकहतावनस्यति जीवपंचेद्रियसालसर्व

रवर्णकोवाच्यः सचायं इरियासमिएभासासमिएसणसमिएअथाणभंडमतनिक्खेवणासमिएउच्चारपासवणखेलसिंघाणजल्लपारि  
 द्वावणियासमिएसणसमिएवयसमिएकायसमिएअणगुत्तेइमनः प्रभृतीनासमितिः सत्प्रवृत्तिः गुप्तिस्तु निरोधः अतएवगुत्तेगुत्तिंदिएगुत्त

णिसौयव्वं एवं तु द्वियव्वं एवं भुं जियञ्चं एवं भासियव्वं उट्ठाय २ प्राणाणं भूयाणं जौवाणं सत्ता णं संजसेणं संजमिय  
 व्वंतएणं से मे हे स म ण स भ ग व ओ म हा वी र स स अ य मे य आ रू वे ध म्मि यं उ व एं सं स म्मं प ड्ढि च्छ इ र त्त ता त ह च्चि इ इ जा  
 व सं ज मे णं सं ज म इ त ए णं से मे हे अ ण गारि जा ए इ रियासमिए अ ण गार व स अ ओ भा णि य व्व अ ओ त ए णं से मे हे अ ण

सत्त्वपृथ्वीपाणीअग्निवायु एप्राणादिकनेविषे जेसंयसरत्तारारिखुंवुंतेप्रतेयत्न करिवो तिकारपच्छीतेसेधसुनि अभणभगवंतश्रीमहावीर  
 देवनोएताइशरूपएहवो धर्मसंबंधीउपदेशप्रते सम्यक्भलीपरिअंगीकारकरेअरीने तिमपूर्वोक्तीरीतेजभोरहे यावत्प्राणादिकनेराख  
 वेकरीयतनकरिवुं तिवारपच्छीते अनगारसाधुययो ईर्यासमितिप्रसुखपाचसमितेसमितो इहाउववाइउपांगरूत्वमांहियकी सर्वसाधु  
 नोवर्णनजाणिवो तिवारपच्छीतेमेघनामा अनगारसाधु अमणभगवंतश्रीमहावीरदेवनासमीपनेविषे तथारूपतेहवाधिवरसाधुनामा



वंभयारीब्रह्मगुप्तिभिःवाइसंगानांधसेलज्जुरज्जुरिवव्यक्तव्यवहारत्लज्जालुव्रीसंयसेनलौकिकलज्जयावातवस्त्रीखंतिकखमेचात्या। ज्जम  
तेयःसतथाजिइंदिएसोहीशोधयत्यात्मपरावितिशोधोभीवाअणिदाणेअणुस्सु, एअत्यौत्सुक्योनुत्सुकइत्यर्थःअवहिस्सेसंयमादवहि

गरिसमणस्वभगवओमहाधोरस्वअंतिएतहाह्वनाणंधेराणंसामाइसाइयाइं एकारसअंगगाइअहिज्जइर  
त्तावहुहिंचउथइइमइसमहुवालसेहिंमासइमासखमणेहिंअण्णाणंभावेमाणेविहरइत एणंसमणेभग  
वंमहावीरेरायगिहाओणयराओगुणसिलाओचेइयाओपडिणिअवमइत्ता। बहियाजणवयविहारंवि

गतथासामायकअध्ययनआदिदेइइग्यारेअंगसंपूर्ण भणेभणीने पछेघणाचउत्थउपवास छट्टअट्टमदसमउपवास५ वारसमउपवासई च  
उदसमउपवास७ मासखमणइत्यादिकतपकरवेकरी आपणाआत्माजीवद्रव्यप्रतेभावतोचलावतोचमादिदसविधयतिधर्मपालतोच्छतो  
विचरेतिवारपच्छी अमणभगवंतश्रीमहावीरदेवराजगृहनामानगरथकी गुणशिलनामायज्जनाचैत्ययकी नीकलेनीकलीने बाहिर  
जनपददेशमांहेविचरेमेघ सुनिसहित तिवारपच्छीमेघनामासाधु एकदाप्रस्तावे अमणभगवंतश्रीमहावीरदेवप्रते वांदेनमस्कारकरे

भूतचिन्ततिः सुसासणरएइणसेवनिगंगं पावयणं पुरओत्तिकडुविहरतिनिग्रंयेप्रवचनानुसार्गेणेत्यर्थः अहासुहंतियथासुखंसुखानतिक्र  
 मेणमाप्रतिबंधविधानंधिषेहविवक्षितस्येतिगम्यंभिक्षुपडिमत्तिअभिग्रहविशेषः प्रथमाएकसासिकीएवंद्वितीयाद्याः सप्तम्यंताः क्रमेणद्वि  
 तिचतुःपंचपट्सप्तसासमानाः अष्टमीनवमीदशस्यः प्रत्येकसप्ताहोरालमानाद्वादशीएकादशीअहोरालमानाद्वादशीएकादशानेतितत्त्वपडि

हरइतएणसेमेहेअणगारेअणयाकयाइसमणंभगवंवंदइणसंसइत्ताएवंवयासीइच्छामिणंभंतितुभंभिंहिं  
 अभभणुणाएसमाणेमासियंभिक्षुपडिसंलुवसंप्रज्जित्ताणंविहरित्तएअहासुहं देवाणुप्पियासापडिवं  
 थंकरेहतएणंसेमेहेसमणेणंअभभणुणाएसमाणेमासियभिक्षुपडिमं लुवसंप्रज्जित्ताणं विहरइमा

करीनेणोप्रकारेआगलिकहिंस्येतिमकहताज्जओ इकुं कुं वांक्कु हे भगवन्तुहे आज्ञाअनुमतिदीधेच्छते एकसासनीभिच्चयतीनी  
 प्रतिमाअभिग्रहप्रतैअं गीकारकरीने ज्जं विचकप्रवत्तं तेऊपरभगवंतकहेत्ते जिमसुखहोइं हे देवानुप्रियतिमकरिसुखप्रतेअणउल्लंघ  
 वेकरीतुं प्रतिबंधघातविघातप्रतैमकरितिवारपक्कीतेमेघसुनिअमणभगवंतश्रीमहावीरदेवेअज्ञादीधीच्छतीएकसासनीपहिलीयतिनी



वज्रइयाओ संघयणधिईजुओमहासत्तो पडिमाउभाविअप्या सस्मं गुण्णाअणुसाओ गच्छेच्चियनिस्माओजापुब्बादसभवेअसंपुसा  
 नवमस्सतईयवयू होइजहसोसुआभिगमो वोसठुचत्तदेहो उवसग्गसहोजहेवजिणकप्पी एस्सणअभिग्गहिआ भत्तंचअलेवडंतस्सडुठ  
 स्सहत्थिमाई तओभएणंपयंपिनोसरइएमाइ नियमसेवी विहरइजाखंडिओमासो इत्यादिग्रंथांतराभिहितो विधिरासांद्रष्टव्यःयञ्चे  
 हएकादशांगविदोपिमेघानगरस्य प्रतिमानुष्ठानंभणितं तत्खर्व वेदिससुपदिष्टत्वादनवद्यमवसेयमिति यथासूत्रं छत्वानतिक्रमेणयथा  
 कल्पं प्रतिमाचारानतिक्रमेण यथासार्गज्ञानाद्यनतिक्रमेण क्षायोपशमिकभावानतिक्रमेणवा कायेननमनोरथमातेणफासेइत्तिउच्चि

सिग्रंभिक्खुपडिमंअहासुत्तंअहाकप्यंअहामगंसस्मं काएणक्कासेइपालेइसोहिइ तीरेइकीइइसस्मं

प्रतिमाअभिग्रहप्रते अंगीकारकरीनेविचरे पहिलीप्रतिमाइंभातनी? पाणीनीदातिवेइमचढत ऊतरतकरिवो मासनीयतीनीप्र  
 तिमाप्रतेपडिवजीमासलगीसर्वउपसर्गसहेखसे यथासूत्रंसूत्रप्रतेअणउस्संघवेकरी यथाकल्पंजिमप्रतिमानाआचारप्रते अणउस्संघवे  
 यथासार्गेजिमज्ञानादिकअणउस्संघवेकरीया अथवायथामार्गकहतांक्षायोपशमिकतभावअनतिक्रमवे भलीपरेकायाये करीमनोरथ

तकालेविधिनानाग्रहणात् पालयति असद्वहुंपयोगेनप्रतिजागरणात् शोभयतिपारणकदिनेगुरुदत्तशेषभोजनकारणात् शोभयतिवा  
 अतिचारंपंकद्वालनात् तीरयति पूर्णैपिकालेस्तोककालसवस्थानात् कीर्त्तयतिपारणकदिने इदंचैवेत्स्याःद्वत्यं द्यतमित्येवं कीर्त्त

काएणफ्रासित्तापालित्तासोभित्तातीरित्ताकिट्टिता पुणरत्रिसमगंभगवंसहावीरं वंदइणमंसइरत्ता  
 एवंवयासीइच्छाम्भिरंभंतुभ्भेहिंअम्भणुयाएसमाणे दोमासियंभिव्वूपडिअं उवसंपज्जीत्ताणंविह

माताइं करीनहीं फरसेयोग्यकालनेविषेग्रविधेग्रहिवापाले वारंवारउपयोगे प्रतिजागरणयकी सोभेपारणानादिननेविषेगुरेदीघा  
 शेषथाकताकालप्रते रहिवायकी तीरेपरिपूर्णकालउतेहते थोडाभोजननाकरवायकी अथवासोधिअतीचाररूपकादवनापखालवाय  
 कीकीत्ते पारणानादिवसनेविषेएवस्तुएहनेअकरवायोग्यकरवालेवा योग्यहेएहवाकीर्त्तनयकी सस्यक्भलीपरिकायाकरीफरसीने  
 पालीनेसोधीनेतीरीने कीर्त्तिनेप्रथमप्रतिमा पूरीकरीनेवली अमणभगवंतश्रीमहावीरदेवप्रतेवांदे नमस्कारकरे करीनेइमकहतोउ  
 ओवांछुहुं हेभगवन् तुमेअज्ञाअदेशदीधोह्यतो वेसासनीयतीनीप्रतिमावीजीते प्रतेअंगीकारकरी विचरवाभणीकल्पे इहांभात

रित्तएअहासुहं देवाणुप्रियासाप्रडिबं धंकरिहजहापठमाए अभिलावोतहादोच्चाएतच्च।एचउत्था।ए  
 पंचमाएछ्मासिथाएसत्तमासिथाएपठमसत्तराइं दियाइं दोञ्जेसत्तराइं दियाइं तच्चरुत्तराइं दिया

नीदातिरपांणीनीदातिर इमसातमीप्रतिमाताइ हातिएकेकीवधारीयेसातमी प्रतिमाइं सातदाति भातनीसातहातपांणीनीदा  
 तिकुडछीप्रमुखएकअन्ननासीयथीसांडिकहीये तेजपरवीरकहेछे यथासुखंसुखप्रते अणउल्लंघीने एतलेजिमसुखहोइं तिमकरिवो  
 हेदेवानुप्रियहेमेघप्रतिबंधविघातविलंबप्रतेतुं मकरि जिमप्रथमपहिहलीयतीनी प्रतिमानोआलावोकरिवानो विधिकह्यो तिमबीजी  
 प्रतिमानोविधजाणवो तिमबीजीप्रतिमानोविधि तिमचोथीप्रतिमानोविधि तिमपांचमीप्रतिमानोविधि छ्ठीछ्मासनी प्रतिमानो  
 विधितिमजसातमौसातमासनी प्रतिमातेहनोविधितिमजसातमीप्रतिमातांई प्रथमअठमीप्रतिमासातरातिनी गामनाहिर  
 उत्तानशयनउपसर्गजपजेतेसहे बीजीनवमीसातरातिनीप्रतिमाइं लगडशायीवक्रकाष्ठनीपरंपगनीपाणहीअनेमाथानीकोपरीभूमि  
 लागेबीजोशरीरभूमिथकी उंचोराखे लीजीदसमीप्रतिमासातरातिनीगोदोहिकावीरासनादिककरेइग्यारमीअहोरातिनीप्रतिमा



णरत्नः संवत्सरोयत्नतपसितद्गुणरत्नसंवत्सरं इति इह च तयोदशमासाः सप्तदशदिनाधिकारुपः कालः तिसप्ततिश्च दिनानि पारणकका  
 ल इति एवं चायं पञ्चरसवीस च उवीस पणवीसाय च उवीस एकवीसा च उवीसा सत्तवीसाय ? तीसा तेत्तीसा विद्य च उवीस  
 छवीस अष्टवीसाय तीसा जत्तीसा विद्य सोलसमासे सुतव दिवसा ? पञ्चरसदसदृक्कपंचचउरपंचसुयतिष्ठितिस्थिति पंचसुदोदोयतहासो  
 लसमासे सुपारणगा ३ इह च यत्नमासे अष्टमादितपसोयावंति दिनानि न पूयंते तावंत्यग्रे तनमासादाद्व्यपूणीयान्यधिकानि चाग्रे तन  
 मासे चोत्तव्यानीति च उत्यमित्यादि च उत्य च त्वारिभक्तानियत्नज्यंते तच्चतुर्थमियंचोपवासस्य संज्ञा एवं षष्ठादि रूपवासद्वयादिरि

प्पियामापडिबंधंकरे हतएणंसे मेहे अणगारे पठमंसासे च उत्यं च उधेणं अणिखित्तं णंतवोकस्मं णं दियाडा

तेरमासऊपरसतरदिन अधिकतपनो कालतिऊत्तरि १३ दिवसपारणानो कालऊद्दं एतले सर्वथई सोलमासपूराथइ एहवोशुणरत्न  
 संवत्सरतपनो कर्मआदरीने विचरवोकल्पे वलताभगवंतकहे सुखप्रते अणउत्तं धीने यथाशक्ति जिमसुखहोइ तिमकरो हे देवाशु  
 प्रियइहं प्रतिबंधं बिनकरिवो तिवारपच्छीते मेघसुनिअणगारसाधुप्रथममासपहिला मासनेविषे चारभातजेतपनेविषे छांडीयेछे

तिअणिक्खित्तेणंति अविआंतोनदियहाणुक्कडुएणंति दिवादिवसेस्थानमासनमुत्कुटकं आसनंपुतालगनरूपं यस्यसतथाआतापयवन्  
 आतापनाकुर्वन्वीरासणेणंति सिंहासनोपविष्ठस्य भूमित्यसुपादस्यापनीतसिंहासनस्ये वयद्वस्थानंतद्वीरासनं तेनव्यवस्थितइति  
 गम्यतेकिंभूतेन अप्रावृतेन अविद्यमानप्रावरणेनसएववा अप्रावृतःशंकारास्तु अलंकारार्थाः उरालेणमित्यादि उरालेनप्रधानेन

शुक्लडुएसूरभिमुहे आथावणभूमिएआथावेमाणेरत्तिंवीरासणेणं अवाउडएणं दोच्चंमासंछडुंछडुंरेणं

तेचउल्लङ्घनीयेअनेवलीचोयतेउपवासनो संज्ञाच्छेएतलेएकउपवासअनेपारणेएका सणूइमएकमासताइ तपकरिवोअविआंतविसामा  
 अंतरारहिततपकरवेकरी दिवादिवसनेविषे स्थानआसनउत्कटआसननेविषेवैसवुं सूर्यसामुहोरहीआतापनालेवानीभूमिनेविषेआ  
 तापनाप्रतेकरतो छतोरहेरातिइंवीरासनकरीरहे सिंहासनजपरवैठोपद्यवीनेविषेवैठोपगथाप्याच्छे एहवापुरषधने अलगाकीधासिं  
 हासननीपरेजेरह्विते वीरासनकहीये एहवेवीरासनरच्छोच्छे केहवेवीरासननेकरी नथीविद्यमानप्रावरणओढवानावस्वएतलेवस्व  
 रहितत्रीजामासनेविषे छट्टउपवासवेकरे विचालेवीसामाआंतरारहित एहवोतपनोकरिवो दिवसनेविषेउकडुआसनेरहे सूर्यने

अणि विखत्ते णं दियाद्वाणुक्कडुए सूराम्भिसुहेआथावणभूमौए रत्तिं वीरासणेणं अवाउडेणं तच्चं मासं  
 अट्टमअट्टमेणं अणि खित्ते णं तवोकम्मणेणं दियाद्वाणुक्कडुए सुराम्भिसुहेआथावणभूमौए आयावेमाणेर  
 त्तिं वीरासणेणं अवाउडेणं चउत्थं मासं दसमं दसमेणं अणि खित्ते णं तवोकम्मणेणं दियाद्वाणुक्कडु  
 एसूराम्भिसुहेआथावणभूमौए आयावेमाणेरत्तिं वीरासणेणं अवाउडेणं पंचमं मासं दुवालसमेणं अ

सामुहोदृष्टिकरे आतापनालेवानी भूमिकानिविषे आतापनाप्रतेकरतो छतो प्रवत्ते रातिनेविषे वीरासनकरीरहे ओढवानावखर  
 हिततीजामासनेविषे अट्टमउपवासकरे विचाले आंतरारहित तपनेकरवेकरी दिवसनेविषे जकडूआसनवेसे सूयसासुहोरहीआ  
 तापनालेवानी भूमिनेविषे आतापनाप्रतेकरतो रातिनेविषे वीरासनकरीरहे ओढवानावखरहित दसमभक्तः उपवासकरे विचाले  
 आंतरारहित एहवातपनेकरवेकरी दिवसनेविषे जकडूआसनरहे सूयनेसासुहोउभोरही आतापनालेवानी भूमिकानेविषे आतापना  
 प्रतेकरतो छतो रातिनेविषे वीरासनकरीरवेसेवखरहित पांचमं मासनेविषे दुवालसमकः पांचउपवासकरे आंतरारहित एहवातपनेकारवे

शिखित्तं गंतवो कस्मै गंधियाद्या गुञ्जु ए सूराभिस्तु हे आथावणभूमौ ए आथाविमाशेरत्ति वीरारासणेयं अ  
 वाउडेणं एवं खलु एणं अ भिलावेणं छु चउहसमेणं सत्तमेमासि सोलसजं अइमेमासि अइारसमेणं  
 वसेमासि वीसतिमं दसमेमासि वावीसतिमं एकारसमेमासे चउवीसतिमं वारसमेमासे छब्बीसतिमं  
 तेरसमेमासे अइादीसतिमं चउहसमेमासि तीसतिमं पंचदसमेमासि वतीसतिमं सोलसमेमासि च

कारीदिवसने विषे उकडू आसनरहे सर्वने सामुहोरही आतापनाले वानी भूमिने विषे आतापनाप्रतेकरतो लेतो छतो रातिने विषे वी  
 रासन करीरहे वसरहित एण प्रकारे खलु निचय मासमासप्रते कहिनुं छुठामासने विषे छुठउपवास सातमासने विषे सातरउपवा  
 सकरे आठमासने विषे अठारसमंकहतां आठउपवासकरे नवमासने विषे वीसतिमं वाहता जवनवउपवासकरे दसमासने  
 विषे वावीसतिमं क० दसउपवासकरे इयारमासने विषे चउवीसतिमं क० इयारउपवासकरे वारमासने विषे बारवारउपवा  
 सकरे तेरमासने विषे तेरेतेरेउपवासकरे चउहमासने विषे चउहरउपवासकरे पंचदसमासने विषे पनरेपनरेउपवासकरे

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय



आयाविभाणेर  
 उत्तिसतिमंरं अणिखित्तणं तवोकस्सं णंदियाडाणुक्कडुएणं सुराभिमुहेअथायावणभूमोए आयाविभाणेर  
 त्तिं वीरासणेणं अवाउडणय तएणंसेमेहेअणगारे तुणरयणसंवच्छरं तवोकस्सं अहासुत्तं जावसम्मं  
 काएणप्पासेइपालेइ सोभइतीरेइकिइइ अहासुत्तं अहाकप्पं जावकिहितासमणं भगवंऊ हावीरं

सोलमामासनेविषे सोलउपवासकरे विचालेवीसामारहित एह्वेतपकरवेकरी दिवसनेविषे उकडूआसनेवेसे सूयनेसन्नु ख आता  
 पनालेवानीभमिनेविषे आतापनाप्रतेकरतोक्कतो रातिनेविषे वीरासनरहे वखरहितनगरूप तिवारपच्छीतेसेघनामाअणगारसाधु  
 गुणरयणसंबत्तरनामा तपयथाशक्तिइं सुवनामार्गप्रते अणउत्सं घीने यावत्सस्यक्भलीपरिकायाये करीफरस्ये योगकालनेविषे  
 विधिइं करिग्रहिवायकी वारंवारउपयोगे करीप्रतिजागरणयकी सोधेअतीचारकादवनापखालवाथकी तीरेपरिपूर्णकालइतेछते  
 थोड़ाकालप्रतेएह्ववाथकी कीर्त्तपारणानादिवसने विषेएवस्तुएहनेलेवायोग्ये एहवाकीर्त्तनयकी सुत्वप्रतेअणउत्सं  
 धवेवारी यथाकल्पं जिमगुणरत्न संबत्तरतपनाकल्पआचारप्रते अणउत्सं धवेकरो यावत्कीर्त्तनी कृत्यअद्वत्यनाकीर्त्तनयकी अमण

विपुलेनवज्जदिनत्वाद्द्विस्त्रीर्णेन सञ्जीकेणसशोभेन पयत्तेर्णतिगुरुणाप्रदत्तेन प्रयत्नवतावाप्रमादरहितेनेत्यर्थः प्रगृहीतेनवज्जमानत्वात्प्रकर्षाद्गृहीतेन कल्याणेन नीरोगताकरणेन शिवेन शिवहेतुत्वात् धन्येन धनावहत्वात् संगल्येन इरितोपशमेसाधुत्वात् उदश्र

वंदद्गणमंसद्गत्ता वज्जहिं छड्डुडुमदसमदुवालसेहिं मासद्दमासखमणेहिं विचिन्ते हिंतवोकभ्मेहिं  
अप्याणंभाविसाणेविहरद्गतएणंसेमेहे अणगारेतिणंउरालिणंविपुलेणं सस्मिरीएणंपयत्ते रणंप्रणहिंए  
णंकक्ष्णारेणं सिवेणंधर्षेणं संगल्येणं उदार्एणं उत्तमेणं महाणुभावेणं तवोकभ्मेणं सुक्के

भगवंतञ्जीमहावीरदेवप्रते वांदिनमस्कारकरेकरौने छट्टउपवास२ अट्टमउपवास३ दसमउपवास४ दुवालसउपवास५ मासखमणञ्चा  
धोमासखमणतेणेकरी विचित्रअनेकप्रकारे तपनेकरवेकरी आपणाआलाजीव द्रव्यप्रतेभावतोक्तोविचरेछे तिवारपच्छीतेसेषनाभा  
अणगारसाधु तेणेउदारप्रधानकरवेकरी विपुलतपनाघणा दिवसपणाथकीसञ्जीकसोभायमानसहित गुरुइद्वीधोउद्यमवंतनेअथवा  
प्रमादेरहित प्रग्रहीतवज्जमानना प्रकर्षथकी ग्रह्योच्छे कल्याणनीरोगपणानिकारणेकरी शिवनिरूपद्रवनाहेतुपणायकी धन्यकारी

शतीब्रेण उदारेण औदार्यवता निःसृहत्वातिरेकात् उत्तमेरुंति ऊर्द्धं तमसोज्ञानाद्यत्तथातेन अज्ञानरहितेनेत्यर्थः महानुभा  
गेनाचिन्त्यसामर्थ्येन शुष्कोनीरसशरीरत्वात् भुक्त्वेत्ति न भुञ्जावशेनरूक्षीभूतत्वात् किटिकिटिका निमैसास्थिसम्बन्धी उल्याष्य

भुक्त्वे लुक्त्वे निम्नसे निस्त्रोणि ए किडिकिडियाभू ए अट्टिचस्मावण्डे किसेधमणि संत एजा एयावि हो

याधननाश्रापवापणायकी संगलीककारीपापउपपद्यमाविवानेविषे साधुपणायकी उदग्रतीव्रकठिनउदयभावे उदारऔदार्यवंतनिःसृ  
हपणानाश्राधिक्यपणायकी उत्तमप्रधानउंचो आधीराज्ञानयकी एतलेत्राज्ञानरहितमहानुभाव अचिंत्यसामर्थ्यकारी एहवेतपने  
करवेकारी सूकोथयोनिरसशरीरपणायकी भूखेकारी भूखेचीगटरहितशरीरथयुंक्के सांसरहित रुधिररहितशरीरथयो हाडखडखड  
वालागाचालतां निमैसेकारी हाडसंदंधीशब्दकिमिरे एहवोतेप्रते भूतपास्येक्के जेतेमेघमुनिवलीतेमेघमुनिनो शरीरकेहवोथयोक्के  
अस्थिहाडअनेचर्मचामडींकारीबांध्येक्के शरीरजेहनोक्कशदुर्बलथयो घमनीनाडीनसजालतेणीं संततताप्येक्के मेघकुभरनोशरीर  
एहवोथातोडओ शरीरनेवलेकारीजीवोचालेक्के शरीरनेवलेकारीजभोरहे भाषाप्रतेभाषीने बोलीनेगिलानथाइं भाषाप्रतेभाषतो

भूतजीवजीवेणगच्छति जीववलेनेत्यर्थः भासंभासित्ता इत्यादे कालत्रयनिर्देशः गिलाइत्ति ग्लायति ग्लानोभवतिसेइत्ति अथार्थः अयशब्दश्चवाक्योपक्षेपर्यः यथाहृदातार्थः नामितिसंभावनायां एइतिवाक्यालंकारे अङ्गाराणा अङ्गाराशकटिकागन्त्री अङ्गारशकटिका

त्याजीवजीवेणगच्छइ जीवजीवेण चिइइ भासंभासित्तागिलाइ भासंभासमाणेगिलाइ भासं  
भासिस्सामित्तिगिलाइ सेजहानामएइ गालसगडीयाइवा कडुकगडियाइवा प्रत्तसगडियाइवा  
तिलटंडसगडियाइवा एरंडकडुसगडियाइवा उरुहेदिस्सासुक्कासमाणी ससहंगच्छइ ससहं चिइइ

बोलतोछतो गिलानखेदपामे भापाप्रतेभाषिसु बोलिसु भूणे खरेकरीतिवारपिणगिलानथाइ सेअथहिवेयथाहृटांतार्थेनामसंभा  
वनार्थे एवाक्यालंकारे जेजिमहृटांतसंभवेतेतिमकहेछे अंगरानीभरीसगडियागाडलीकिमवाजे चालतातिममेघसुनिनोशरीरवाजे  
छेचालतां काठलाकडाइ धणप्रमुखनीभरीगाडलीकिमवाजे चालतां सूकापानडानीभरी गाडलीकिमवाजेचालतां तिलनाडंडतिल  
रहिततिलघंटानाभरीगाडलीकिमवाजे चालतां एरंडकाष्ठमयगाडली आतपतापनेविषे दीधीसूकांणीछती कडिरशब्दसहितचाले

एवं काष्ठानां पत्राणां पर्णानां तिलदन्ति तिलदन्डकानां एरंडशकटिका एरंडकाष्ठमयी आतपेक्षा मुष्कासतीतिविशेषणद्वयं  
 आर्द्रकाष्ठपत्रमृतायाः तस्याः सम्भवति इतिशब्दा उपप्रदर्शनार्थाः वाशब्दाविकल्पार्थाः सशब्दं गच्छति तिष्ठति वा एवामेव भेषो  
 नगरः सशब्दं गच्छति सशब्दं तिष्ठति ऊताशन इव भस्मराशि प्रतिच्छन्नः तवेणंति नपोलक्षणेन तेजसा अयमभिप्रायो यथाभस्मा

इएवामेवमेहेअणगारेससहं गच्छइ सससहं चिड्डइउवचिड्डइतवेणंअवचिएमंससोणिएणं ऊयासणे  
 इवभासरासिपरिच्छिण्ये तवेणंतेएणंतवतेयसिरीएअड्डैवइउवसोभेमाणेइचिड्डइतेणंकालेणं तेणंसम

किडिरशब्दसहितगाडलीजभीरहे एणेप्रकारे एवनिश्चयसहितमेघनामासाधु शब्दसहितचालतांहाइवाजेहे शब्दसहितहाइखड्डर  
 कारतोजभोरहेछे बैसेतिवारेहाइखड्डखड्डवे तपेकरी अपचितसोषाणोशुष्कययोहेमांसरुधिरजेहनो ऊताशनअग्निनीपरेराख  
 मांहिटाक्योछे तपरूपतेजेकरी एतलेराखमांहिटाक्योअग्निमाहिरहस्ये तेजरहितऊड्डं अंतर्ह्ये राखमांहिटाक्योज्वलेहेतेजसहित  
 छेएणीपरेमेघसुनीपिणवाहिरहन्ते सोषाणामांसरुधिरपणायकी निखेजतेजरहितदीसे अनेवलीअंतर्ह्ये करीशुभस्थानतपनेतेजे

च्छन्नोवहिर्द्वं त्यातेजोरहितोऽन्तर्द्वं त्यातुज्वलति एवं मेघानगारोपिबहिर्द्वं त्यापचितमांसादित्वान्निखेजाः अन्तर्द्वं त्यातुशुभधानतप  
साम्बलतीति उक्तमेवाह तपसो जः अथ अतीवातीवउपशोभमानः २ निष्ठतीति तं अल्यितामेवेत्ति तदेवमस्ति तावन्मे उथानादिन

रणंसमणे भगवंसहावीरे आइगरे तित्यगरेजावपुब्बाणुपुब्बिचरमाणे गामाणुगामंदुइज्जसाणेषु  
हंसुहेणं विहरकाणे जेणामेवरायगिहिणयरे जेणामेवगुणंसिलएचेइए तेणामेवउवागच्छइइत्ता  
अहापडिखुवंउग्गहंडुगिहत्ता संजमेणं तवसा अप्पाणं भाविमाणेविहरइतएणंतस्समेहस्सअणगारस्स

करीन्वलेच्छे तेजसहितच्छे यावत्तपनातेजरूपत्रियारूपलक्ष्मीदं करी अतीवर घणुघणु उपशोभमानसोभायमानदीसेच्छे तेकालेतिणे  
समयअमणभगवंतश्रीसहावीरदेव धर्मनीअदिनाकरणहारार्थनाकरणहार यावत्पूर्वोपपूर्वो चालता विहारकरता गामानु  
ग्रामप्रतेअतिकमतोम्हं कतोच्छतो सुखेसमाधिद्वं विचरतो जिहाराजटहनगरनेविषे जिहाराणुशिलनामायन्नोचैत्यच्छे तिहांआवे  
आवीनेयथाप्रतिरूपयथोक्तमार्गे अवग्रहआदेशउतरवानीआज्ञाप्रते ग्रहीने संयमेकरी तपस्याइकरी आपणाआत्माप्रते भावतोवि

सर्वथाचीं तद्दितिभावः तंजावतामेत्तितत्तत्त्वात् यावन्मोक्षि उल्यानादितादृति भाषामात्रेण यावच्चमेधर्माचार्यः सुहृत्सीति पुरुष

रात्रोपुञ्जरत्तावरत्तकालसमर्थसि धम्मजागरिखंजागरमाणस्य अयमेयारूवे अउक्त्यिएजावससुप्प  
ज्जित्थाएवंखलुअहंदंभेणं उरालेणंतहेवजावभासंभासिस्खामितिगिलाइ तंअत्थितामेउट्टाणकम्मं व  
लेवीरिएपुरिसक्कारपरिक्कमे सद्धाधिइसंवेगे तंजावतामेअत्थिउट्टाणकम्मं बलेवीरिए पुरिसक्कारपरि

चरेच्छे तिवारपक्कीतेमेघनामासाधु रातिनेविषे पूर्वापररातिना समयनेविषे धर्मजागरिकाप्रतेजागरकर्तानेएतलेअनेकपुङ्गलजीव  
द्रव्यनीविचारणाकरताने एतादृश्यरूपएहवो अथात्मआत्मानेविषे रत्तोजेभाव सगोगतअध्यवसायते ऊपनोजयजे एणेपरिखलुनिच्च  
यङ्गं एणेप्रधानकारीतपेकरीतिमज्जुष्कभूखो लूखोशरीरथयो यावत्भाषावचनप्रते बोलस्यु तिवारेगिलानखेदपांसे तेकारणथकी  
अत्थिच्छे तावत्तिहांलगीमेमुक्कने ऊठवानीशक्तिच्छे बलवीर्यपुरुषाकारपराक्रमअद्धावांछाधृति संतोषसंवेगकहतां सम्यक्ज्ञानदर्शन  
चारित्वनाउत्साहरूपमोक्षनो अभिलाषवांछातेसंवेगच्छे एतलेऊठवावैसिवानीबलवीर्यीदि शरीरनीसमर्थीदाइं सर्वथाचींणथइनथी

वरगंधहस्ती शुभावाचाहिकज्ञानादयोर्थायस्य सतथा तावच्चतावच्चैत्ति वस्तुदयापेक्षयाद्वि शक्तिः कडाईहिंति कृतयोग्यादिभिःमेह

क्लेशसद्वाधिद्वसंवेगे जावयमेधम्मायरिए धम्मोवएसए समणे भगवंसहावीरे जिणेषु हत्थीविहर  
इतावमेसेयंकहूं पाउप्यभाए रयणीए जावतेयसाजलंते समणंभ गवंसहावीरं वंदित्ताणमंसि  
त्तासमणेणंभगवंयामहावीरेणं अभ्भणुणाथसमाणस्स सयमेवपंचसहव्वयाइं आरोहेत्तागोयमा  
इएसमणेण्णिणं धेनिगं धीओयखामेत्तातहाखुवेहिंकडाइहिंधेरेहिंसद्धिं विउलं पव्वयंससिथियंरुडुखु

तंतेकारणयकी यावत्भाषामालसेसुम्फनेच्छे जठवावै सिवानीशक्तिबलवीर्यपुरुषाकारपरक्रमअद्वाधर्मवाच्छाष्टिसंतोषमोचनीइच्छा  
यावत्मेमाहरोधर्माचार्य धर्मोपदेशनोदाता असणभगवंतओमहावीरदेवजिनकेवली पुरुषप्रधानमांहिगंधहाथीसरिखोच्छे अथवा  
शुभभलाचायकज्ञानदर्शनचारितना अर्थप्रयोजनच्छेजेहनेएहवाभगवंतविचरेच्छे तोसुम्फनेअयभलुंकालिविहाणेपाउप्रकाशउद्योतयथा  
अनंतररजनी प्रभातविहाणे प्रगटदिवसनो सुखयथेऊतेच्छते यावत्तेजकरी जाजुल्यमानतेजवंतदेदीयमान एहवोसर्धजयच्छते



घणसन्निगासंतिघनमेघसदृशं कालकमित्यर्थः भक्तपाणपडियाइक्खियस्सन्ति प्रत्याख्यातभक्तपानस्यकालंति मरणंजेणोवइहंति इह

हित्तासयमेवमेहघणसखिगासंपुहविसितापट्टयंपडिलेहित्तासंलेहणाएउभूसणाएडूसियस्सभत्तपाण  
पडियाइक्खियस्सपाओवगयस्सकालंअणवकंखमाणस्सविहरित्तएवंसंपेहेइइकस्सं पाउप्पभाएरयणी  
एजावजलंति जेणेवसमणेभगवंसहावीरे तेणेवउवागच्छइइत्ता तिकखुत्तोआयाहित्तासंलेहणाएउभूसणाएडूसियस्सभत्तपाण

अमणभगवंतश्रीमहावीरदेवप्रते वांटीनिनमस्कारकरीने अमणभगवंत श्रीमहावीरदेवे आन्नादीघाळतानिसुक्कने पोतेजपांचमहाव्रत  
प्रतेआरोहीनेवीजीवारउच्चरीने गौतमादिदेईअमणनिग्रथसाधुप्रते निग्रथीसाधवीप्रतेखमावीने तथारूपतेहवा थविरसाधुसंघाते  
लेईनेविपुलनामापर्वतप्रते हलूइं हलूइं चढीने पोतेजमेघनासंस्सहसरिखोएतलेवणुकालोएहवो इधवीशिलारूपपट्टते आसनविशेष  
प्रतेपडिलेहीनेपुंजीने संलेखीइप्रतलाउच्छकरीये एणीयेतेसंलेखणातपतेसंलेखनानीजोषणासेवा तेणेभूसियसेव्योछेअथवाभूषित  
व्याप्योछे जेतेएहवाने पञ्चव्याह्वेतज्याह्वे भातपांणीजेणेएहवामिघसुनिने पादोपगमनअणसणवंत कालमरणप्रते अणवांळताएहवा

इवंद्वैतसंज्ञात्ता एवमासंज्ञात्ता इदं सुसमाणेण संसमाणे अभिसुहेविणएणं पंजलिउडेप्रज्जुवास  
 इमेहेतिसमणे भगवं महावीरे मेहंअणगारं एवंवयासी सेणुणंतवमेहाराओ पुब्बरत्तावरत्तकाल  
 समयंसिधम्मजागरियं जागरमाणस्सअथमेयाखुवे अउभक्तिथिएजावससुप्पजित्था एवंखलुअहंइमे

सुभने विचरवाभणीकल्पे एहवोरातिमध्ये विचारेविचारीने कालआवतेकालिप्रकाशद्योतययेऊतेछते एतलेसूर्यजगतेछते यावत्  
 तेजेकरीजाजुल्यमानतेजवंत देदीप्यमानएहवो सूर्योदयऊतेछते जिहंअमणभगवंतश्रीमहावीरछे तिहंमेषसुनिआवेआवीने विण  
 वारजीमणापासाथीप्रारंभीमर्यादाकरी प्रदक्षिणाकरे करीनेवांदे नमस्कारकरेकरीने अतिघणुआसनढूकडोनहीं अतिघणुदुर  
 नहीं इमरह्योछतो सुश्रूपासेवाकरे लिगारेकनमतो प्रणामकरतो भगवंतने सम्मुखयकीविनयकरी बेहाथजोडीपर्युपासनोसेवाकरे  
 मेघअपिआदिदेई अमणभगवंतश्रीमहावीरदेव मेघनामांसाधुप्रते इमकहताऊआ तेनिअथतुभने हेमेघरातिमांहिमध्यरातिना  
 समयनेत्रिपे धर्मजागरिकाप्रते करतातुभने एतादृश रूपएहवोआत्मानेविषेरह्यो यावत्मनोगतभाव अथवसायजपनोइमनिअहं



शंभुरालिणंजावजेषेव अहंतिशेषेवहव्वसागए सेणूणंसेहाअइससइहंताअत्थि अहासुहंदेवाणुपि  
 थाभापडिबंधंकरेहतएणंसेमेहे अणगारेसमणंणं भगवयामहावीरेणं अभ्भणुणाए समाणेहइतुइ  
 जावहिथएउडाएउइइउइइत्ता समणंभगवंसहावीरं तिक्खुत्तोआयाहिणं प्रयाहिणंकरेइइत्तावं  
 दइणंसंइइत्ता सयमेवपंचमहव्वयाइं आरुहइइत्तागीयमाइससणे निगंगंधेणिगंगंधीओथखासेइ

ऊं एणे उदारप्रधानतपकरताघणुदूवल्लोथयोक्कुं यावत्भाषाबोलिसुभीणे खरेबोलस्युं तोहिखेदपाह्छुं तथापिजठवावैसवादिकानी  
 शक्तिसेसंलेखनाकरवीएहदोचिंतवीनेजिहां ऊं छुं तिहांतुं उतावल्लोआव्यो तेनूनं निअयहेमेघएअर्थसाचो तिवारपच्छीमेघसुनिकहे  
 एसांचोछे भगवंतकहेछे जिमसुखहोइं तिमसहीहेदेवानुप्रियप्रतिबंधविलंबंतुं मतकर तिवारपच्छीतेमेवनामाअणगर साधुअमण  
 भगवंतओमहावीरदेवे आज्ञाआदेशदीधोक्ततो हर्षसंतोषपांस्योयावत्तुहृदयघणुहर्षवंतछे तिहांथकीजठेजभोथईने अमणभगवंतओ  
 महावीरप्रते विणवारजीमणापासाथी प्रारंभीमर्चादाकारीप्रदक्षिणाकरेकारीनेवांदिनेमस्कारकरेकारीने पोतेजपांचमहाजतप्रतेआ

शब्दविपर्ययानं इदमित्यर्थः संप्रतिपत्तयः संप्रतिपत्तयः संप्रतिपत्तयः संप्रतिपत्तयः संप्रतिपत्तयः संप्रतिपत्तयः

तहाखुवेहिं काडाइएहिंथरेहिं सद्धिं बिपुलं प्रव्वयंसखियंइदुखुहइत्ता सयसैवमेहवणसखिगासं पुढ  
विसिलापइयं पडिलेहेइत्ता उच्चारपासवण भूमिपडिलेहेइत्ता दभसंथारगंसंथरइदभसंथारं

रोहेउच्चरेउच्चरीने गौतमस्वामिआदिदेइ अमणनिग्रंथसाधुवक्त्रीनिग्रंथी साधवीप्रतेखमावे तयारूपतेहवाकृतकरवा योग्यकार्य  
एहवायविरसाधुसंधानेलेई विपुलनामा पर्वतप्रतेथोडिंरचढेचढीने पोतेजमेघनासम्हसरिखाघणु कालोस्थामवणएहवोष्टयवीशिला  
रूपपट्टकआसनविशेषवैसिवानोठासते प्रते पडिलेहेइदृष्टि जोइपूजेपूजीने उच्चारवडीनीतिपरिअवणसूत्रलघुनीतितेहनीभूमिठाज  
प्रतेपडिलेहेपडिलेहीने इहाशिय्यपूछेहे हेस्वामिन्पादोपगमनअणसननाकरिवाथकी वडीनीतिलघुनीति ऊठीने करवाथकीस्थाने  
अर्थभूमिपडिलेहीइके तेजपरशुयकहेछे हे शिष्यसांभलिपादोपगमनअणसणकीधायकी पहिलुतेवडीनीतिलघुनीतिनेकरवापणा  
यकी उच्चारादिकनीपडिलेहे भूमिप्रतेते निरर्थकनहींजाणवो डाभनासंधाराप्रतेपाथरे डाभनासंधाराऊपरचढेचढीने पूर्वाभिसु

दुःखहर्दपुरत्याभिसुहेसंपलियंकणिसस्ये कर्त्तव्यलपरिगहिचंसिरसावत्तं मत्थएअंजलिंकट्टु, एवंवया  
 सौणसोत्थुणं अरिहंताणंभगवंताणंजावसंपत्ताणं एतोत्थुणंसमणस्स भगवअोसहावीरस्सजावसंपा  
 विउकामस्स मसधम्मायरियस्सवंदामिणं भगवंतंतत्थगयं इहगए प्रासउमेभगवं तत्थगएइहगयं

खपूर्वसन्सुखडाभनासंधाराप्रते पाथरीने पच्चासनकरीपालंठीकरी निषन्बवैठोच्छतो कारतलहाथजोड़ी धिरसाथेअणपास्योअण  
 फरस्यो अथवाशिरसाथानेविषे आवत्तं नपरिअभावोक्के जेहनोतेशिरसावत्तं कहीजे तेप्रतेसाथानेविषे अंजलिप्रतेकरीनेएहवोक्के  
 तोऊओ नमःनमस्कारअस्तुऊओ कुणभणीचोसठिइं इनीकीधीपूजाप्रते अर्हयोग्येतेभणी यावत्सोत्तपदपास्याक्के एहवाअनंता  
 तीर्थंकरदेवनीपदवी पालीसुक्तिपडतातीर्थंकरदेवसिद्धयथा तेभणीनमस्कारऊओ हिवेनमस्कार ऊओकुणभणी अमणतपस्वीभग  
 वंतपूर्णैठकुराईवंतअमीमहावीरभणी यावत्आठकर्मखपावीसुक्तिजांवाभणी अभिलाखेजेहने माहरोधमांचार्थभगवंतअमीमहावीर  
 तेहभणीनमस्कारऊओऊंवांडुं कुं तिचाराजगटहनगरमांहिरद्याप्रतेऊं इहांविपुलपर्वतनेविषेरह्योक्कु पासओदेखोभगवंतमहिमावंत

मसद्वोपायोपणं पैश्रूयं पिशुनकर्मपरिवादोविप्रकीर्णापरदोषकथा अरतिरती धर्माधर्माङ्गिषु मायाशुषावेषांतरकरणतो लोकोक्तिप्र

त्तिकट्टु, बंदइणमंसइरुत्ता एवंयासीपुव्विप्रिणंसमणस्स भगवओमहवीरस्स अंतिएसव्वेपाणाइवा  
एपच्चक्खाइसुसवाए अदिस्सादाणेमेहणे परिगह्हे कोहिमाणेमाया लोभेपेज्जेदोसेकलहेअभमकखा  
णपेसुखे परिपरिवाए अरइरइमायामोसे मिच्छादंसणसल्ले पच्चक्खाएइयाणिं पिणंअहंतखेवअंति  
एसव्वंपाणाइवायंपच्चक्खासि जावमिच्छादंसणसल्ले पच्चक्खामि सव्वंअसणपाणाखाइमंसाइमंचल

तिहाराजगृहनगरनेविषे रत्थाच्छो इहांऊं विपुलपर्वतनेविषे रत्थोच्छुं एहवासुभने एहवुकहीनेवांदेनमस्कारकरेकरीने इमकहतो  
ऊवोपूर्वेपिणमेअमणभगवंतओमहावीरदेवनासमीपनेविषेसगलोसर्वसर्वप्राणातिपांतपचख्योच्छेच्छषावादअदत्तादानमेथुनपरिश्रहको  
धमानमायालोभप्रेमरागद्वेष कलहअच्छतादोषनुक्किह्वुतेअभ्याख्यानपिशुनचाडीनो कर्मपरीपरिवादपारकादोषनुं कहिबुधमअधर्मेने  
विषेदुखसुखनोवेववो मायाशुषावेषांतरवेसना पालटवाथकीलोकनेच्छेतरवुंमिथ्यादर्शनसल्यएअद्वारमापस्थानपचख्याच्छेभगवंतनेपासे

तारणं संलेखनां कथायशरीरकथतां स्पृशतीति संलेखनास्यशर्कः पाठान्तरेण संलेहणाभूसूणाभूसिएति संलेखनासेवनाजुष्टइत्यर्थः

विविहंपिआहारं पञ्चक्वामि जावज्जीवाएजंपियइमंसरीरं इडुंकंतंपियंजावविहारोगायंकाप्ररी  
सहोवसगाफुसंति त्तिकडु, एवंपियणंचरिमेहिं उसासणीसासेहिं वोसरामि त्तिकडु, संलेहणा  
भूसूणाउभूसिए भत्तपाण पडियाइक्विए पाओवगएकालं अणवकंखमाणेविहरइ तएणं तेषेरा

हिवणांपिण ऊं तेहओमहवीरनाजसमीपने विषे सधलोप्राणातिपातपचख्यो यावत् मिथ्यादर्शनसत्यपवंत अढारपापस्थानकपच  
ख्याच्छे सधलोई अशनपानखादिमखादिम एच्यारप्रकारनाआहारप्रतेपचबुंछुं तजुछु जिहांताईजीवुतिहांताईजावजीवलगीअपि  
निचयवली एप्रत्यक्षशरीर इष्टकांतप्रियवस्तुभच्छे यावत्विविधघणाप्रकारनारोगज्वरव्याधि प्रमुखआंतकजेरोगऊपनाच्छतातकाल  
घातकरे एहवेरोगेभख्यो परीसहरर उपसर्गतेशरीर फरसेच्छेएहवुकहनीने एणेप्रकारे एशरीरचरमच्छेहले ऊसासनीसासेएतलेच्छे  
हलेसासोखासे एदेहवोसरावुत्यजुछुएहवुकरीने संलेखनानीसेवाइसेव्योच्छे अथवाआठकर्मखपाव्योच्छे एहवोतथाभातपाणीपचख्यो

मासियाएत्ति मासिक्वामासपरिसाणया अप्याणंभूसितेत्ति क्षिपयित्वा षट्तिंभक्तानि अणसणाएत्ति अनशनेन स्थित्वाव्यवच्छेद्या

भगवंतोमेहस्सअणगारस्स अगिलाणवेयावडियंकरिंति तएणंसेमेहेअणगारे समणस्सभगवओम  
हवीरस्सतहाख्वाणंथेराणं अंतिएसामाद्दमाद्दकारसअंगद्दं अहिज्जद्दत्ताबहुपडिपुस्साद्द  
दुवालसवासाद्दं सामखपरियागंपाउणित्ता मासियाएसंलेहणाए अप्याणंउभूसित्तासट्ठिभत्ताद्दं अ

च्छेपादपोपगमनअणसणच्छतो कालसरणप्रते अणवांछतोविचरेच्छे तिवारपच्छीते थिवरभगवंतज्जानवंतसाधुचारिणीयासाथेआव्याच्छे  
तेमेवनामासाधुने अगिलाणप्रतेज्जं ताच्छतावेयावच्चप्रतेकरेच्छे तिवारपच्छीतेमेवनामा अणगारसाधु अमणभगवंतओमहावीरदेवना  
तेहवासाधुनीक्रियायोग्य एहवाथिवरसाधुचारिणीयाने पासेसामाथकअध्ययन आदिदेइआदरसहितद्दग्यारअंगप्रते भग्याभणीने  
वज्जप्रतिपूर्णघणुसंपूर्णवारवरसताद्दहीचानो पर्यायपालीनेमासदिवसनीसंलेखनाद्दं करी आत्मानाकर्मखपावीने साठिभातदिनर  
भोजनजीमणवेलातज्याच्छांडवाथकी तीसदिवसेकरी साठभातज्जद्दं एहवासाठभक्तअनसनेकरीच्छेदीनेच्छांडीने आलोयोगुरनेकच्छां



किलदिनेर् द्वे भोजनेलोकाः कुरुते एवं च त्रिंशतादिनैः षष्टिभक्तानां परित्यक्तानां परित्यक्ताभवतीति परिनिष्वाणवत्तियंतिपरिनि  
र्वाणसुपरतिर्मरणमित्यर्थः तत्प्रयोजननिमित्तं यस्यसुपरिनिष्वाणप्रत्ययः स्रुतकपरिष्ठापनाकायोत्सर्गइत्यर्थः तं कायोत्सर्गं कुर्वन्ति आ

णसणां द्रुक्ते देता आलोद्रयप्रडिक्कंते उद्धरियसस्त्रे समाहिप्रत्ते आणुपुर्व्वेणं कालगए तएणंतेथेराभगवं  
तोमेहंअणगारंआणुपुर्व्वेणं कालगयं प्रासंतिरत्ता परिणिव्वाणवत्तियंका उसगगकरिंतिरमेहसस्र  
णगारस्सआयारमंडगंगिणहंतिर विउलाओपव्वयाओ सखियंपच्चोरुहद्र

जेअतीचाररूपपापजपनो मडीकस्यो अलगोकीधोक्के जेणे उद्धर्याक्के उखेडीनांख्याक्के सालमननजिणेणहवो समाधिसंतोषअथवा  
समाधिवोधिवीजसस्यक्तपांस्थोच्छतो आनुपूर्वींईअनुक्रमेकालकीधोमरणपास्यो तिवारपच्छीतेथविरभगवंतसाधुचारितीयामेधनामा  
अणगारसाधु अनुक्रमेकालकीधोप्रतेदेखेदेखीने परिनिर्वाणमरणतिहां जेशरीरकलेवरनोपरिठवो तेहिजनिमित्तहेतुक्के जेहने  
एतलेपरिनिर्वाणप्रत्ययकहता स्रुतकपरिठववानिमित्तका उसगगतेप्रतेकरे तिवारपच्छीमेधनामा अणगारसाधुआचारज्ञानादिक

चारायज्ञानादिभेदभिन्नाय भांडकंउपकरणं वर्षाकल्पादि आचारभांडकं पगइभइएइत्यतयावत्कारणादेवंदृश्यं पगइउवसंतेपगइपव  
 शुकोहमागमायालोभेमित्तमइवसंपन्ने आलीणभइएविणीयत्ति तत्रप्रकृत्यैवस्वभावेनैव भद्रकोऽनुकूलवृत्तिः प्रकृत्यैवोपशांतः उप  
 शाताकारः खडुचतन्माईवंचखडुसाईवं अत्यं तमाईवमित्यर्थः आलीनआश्रितोगुरुः अनुशासनेपिच भद्रकएवयः सतथाकहिंणएत्ति

जेणसेवससणेभववं महावीरेतेणामेवउवागच्छइत्तासमणंभगवंमहावीरंबदणसंसइत्ता एवंवया  
 सीएवंखलदेवाणुप्पियाणंअंतेवासीमेहिणामं अणगारेपगइभइए जावविणीएसेणंदेवाणुप्पियाणंइहिअ  
 भभणुस्साएससाणेगोयसाइएससणेणिणगंधेयणिणंथी ओयस्सामित्ताअरुहेहिं सद्धिविउलंपव्वयंससि

सेवेकरीभिन्न आचारभणी ओषोपात्वादिभाडउपकरणग्रहेलेईने विपुलनामा पर्वतयकीतेसाधु चारित्रीया थोडे हेठाउतरेउतरी  
 ने जिहागुणसेलकयचनादेहराने जिहांअमणभगवंतश्रीमहावीरदेवछे तिहांआवे आवीने अमणभगवंतमहावीरदेवप्रते वांदेनम  
 स्सारकरेकरीने एहवोकहताहआ एणेप्रकारे खलुनिच्चयहेदेवानुप्रिय हेभगवन् तुमारोचंतेवासीससीपवर्त्ती शिष्यसेधनामाअण

यं दुर्दुर्हस्यमेवमेहघणसशिगासं पुढविसिलंपडिलेहेइरत्ता अत्तप्राणपडिइक्खिए अणुब्बेणंकाल  
 गएएसणं देवाणुप्पियामेहस्सअणुगारस्सआयारभंडए भंतत्तिअयवंगोयमे समणं भगवंसहावीरं वंद  
 इणभंसइरत्ता एवंवयासीएवंखलु देवाणुप्पियाणं अंतवासीमेहेणामं अणुगारेसेणं भंतिमेहेअणुगारे

गारसाधुतेकेहवो प्रकृतिस्वभावेजभद्रानुभूखलवृत्ति सरलच्छे जेते यावत्विनीतजेते तेहेदेवानुप्रिय तुमेअज्ञाअदेशदीघोच्छतो गौत  
 मादिअमणुसाधुसाधवी तेप्रत्तेखामीने अमारिसंघाते विपुलनामापर्वतप्रते थोडे चढेचढीने पोतेपोतानी मेलेसेवनासख्हसरिखी  
 कालोवर्णएहवो दृश्यवीशिलारूपपट्टकपाटलो आसनविशेषतेप्रते प्रडिलेहेपडिलेहीने पादपोपगमनअणुसणकरीभातपाणीपच खी  
 अणुपूर्वअणुक्रमेकालगतमरणपास्यो हेदेवानुप्रिय हेभगवन् एमेघनामा साधुना आचारभणी भांडकउपगरणअथोघोमुहपतीपाला  
 कपडोकांबलाएउपगरणलेइ आव्याहेभदंत हेभगवन् एहवुंक्कीज्ञानवंतगणधर गोतमअमणुभगवंतअमीमहावीरदेवप्रते वां देवस  
 स्कारकरीने एहवुंपूछतोऊअओ एणेप्रकारेखलुनिअयहेदेवानुप्रिय तुम्हारोहायनो दीछोशिष्य मेघनामासाधु सेअथयहिवेभंतेहेभगवन्

कालमासेकालं किञ्चाकहिंगए कहिंउववस्ये गोयमाइससणे भगवंमहावीरे भगवंगोयमं एवंवया  
 सौएवंखलुगोयसामसअंतिवासौ सेहेणसंअणगारे पगइभइए जावविणीए सेणंतहाहूवाणंधेरा  
 णं अंति एसामाइयमाइयाए एक्कारसअंगाइ अहिज्जइइत्ता वारसभिवबु पडिमाओ गुणरअणसं  
 वच्छरंतवेकम्मं काएणं कासित्ता जावकिट्ठित्तमए अअभणुखाएसमाणे गोयमाइधरेखामेइ तहा

तेसेवनासासाधु कालसरणपास्येअते कालकरीनेकेहिगतिनेविषेजपयो केहीगतिनेविषेजपनो तिवारपछीभगवंतकहे गोतमादिसा  
 धुअमणभगवंतत्रीसहावीरदेव ज्ञानवंतगणधरगौतमप्रते एहवुंकहत्तुओ एणीपरिखलुनिच्चयहेगौतम माहरोहसदीद्वितशिष्यमेघ  
 नासासानुप्रकृते स्वभावेजभद्रकसरलक्रे जेते यावत्प्रकृतिइ उपशमवंतप्रकृतिइ विनीतक्रे जेतेसेधमुनितया रूपतेहवाथविरसाधुना  
 समीपनेविषे सामावकयादिदेई इग्यारेअंग भयाभणीने वारेभिचूयतीनीप्रतिमावहीगुणरत्तसंबत्थर तपनेकरवेकरी कायाइकरी  
 फरसीने यावत्कीर्त्तने मेअनुजाआदेशदीधोक्तो गौतमादिसमस्तसाधुप्रतेखामे तथारूपतेहवा कडाईसाधुसंघातेविपुलनामा

क्वेहिंजाविपुलंपव्वयंदुरुहइत्ता दभसंधारंगंधरंतिश्त्ता दभसंधारीवगए सयमेवंपंचमहव्व  
 एउच्चारिइवारसवासाइं सामखपरियागंप्राउणित्ता मासियाएसंलेहणाएअप्पाणंभूसिन्तासद्धिं  
 भत्ताइं अणसणाएक्केदेत्ता आलोइयपडिक्कंते उद्वियसद्धे समाहिपत्तेकालमासेकालेकिच्चा उडुं चं  
 दिमसूरग्गहगणणक्खत्तताराख्खवाणंवहुइं जोयणाइं बहुइं जोयणसथाइं बहुइं जोयणसहस्साइं ब  
 हुइं जोयणसथसहस्साइं बहुइं जोयणकोडीओबहुइं जोयणकोडाकोडीओउडुं दूरं उअइत्तासोह

पर्वतप्रतेशोडे रचछे चढीने डाभनासंधाराग्रते पाथरेपाथरीने डाभनासंधारा ऊपरबैठोक्खतो पोतानीमेलियंचमहाव्रतउच्चरे वार  
 वरसताई चारित्तनोपधीवपालीने मासएकनीसंलेखणाइकरी आपणाआलाप्रतेखमावीने साठिभातअनसनकरीक्खेदीने एतलेउप  
 वासवीसकरी गुरुइं दीधोकत्थो तेपापआलोईकरीपापथकी ऊधुखासाल मननाएहवोसमाधि संवरसंतोषपाम्योक्खतो कालअव  
 सरआव्येक्खतेकालकरीने उंचोचंद्रमा सूर्यग्रहनागणसमूहनत्तताराखूपभूकीने घणाजोयण वडुवणाजोयणनासईकडा घणा

कस्यागतौ गतः क्वचिद्देव लोकादौ उत्पन्नो जातः विजयविमानमनुत्तरविमानानां प्रथमांपूर्व्वदिग्भागवर्त्तितत्वोरुक्थादिस्थितेर्भावा

स्मोसाणसंक्रुमारमाहिंद्वंभलंतगसहस्रुक सहस्राराण्यप्राणयारणञ्चुए त्तिस्थियञ्चरसुत्तरेगे  
वेज्जविभाणवाससएवीइवइत्ता विजएसहाविमास्से देवत्ताएउववणे तत्थणंअत्थेगइयाणं देवाणं  
वत्तासंसागरोवमाइं ठिइपणत्ता तत्थणंमेहस्सविदेवस्स बत्तीसंसागरोवमाइं एसणंभंतेमेह्हेदेवत्ता

चोजननासहस्स घणायोजननाशतसहस्सलाख घणीयोजननीकोडि घणीयोजनलीकोडाकोडि उं चोषणुद्रुवेगलूंउतपतीनेकेतलेए  
उं चोसुधर्मादेवलोका १ ईशानदेवलोकर सनल्लुमार ३ माहें ३४ वल्लु ५ लातकई महाशुक ७ सहस्सारट आनत ६ प्राणत १० आरण  
१ १ अच्युत १२ त्रिणयोक्कविण्णैवेयक्कनोएक्कयोक्क एहवावेविण्णयोक्कनाठामउत्तरप्रधाननवण्णैवेयक्कविना विमाननावासनी शतसो  
गमेस्सुक्कीने विजयनामाभहामोटाविमाननेविषे देवतापण्णैतिहाज्जपनो एमेइसाधु तेविमाननेविषे एकेककेतलाएकपरंसवलानी  
नहीं देवतानी वत्तीससागरोपमनी स्थितिआउखानीकहीयेक्के तिहांतेविजयविमानने विषेमेइनामादेवतानीपिण वत्तीससागरोप

दाह तपेत्यादि आयुःक्षयेण आयुर्दलिकनिर्जरेणेन स्थितिक्षयेण आयुःकर्मणः स्थितेर्वदनेन भवक्षयेण देवभवनिबंधनभतकर्मणां गत्यादीनां निर्जरेणेनेति अनंतरं देवभवसम्बन्धनांचयं शरीरंचइत्तित्यक्त्वा अथवाच्यबंधनं कृत्वासिस्त्विति निष्ठिताथतयाविशेषतः सिद्धिगमनयोग्यतया महर्द्धिं प्राप्त्वावा भोत्स्यते केवलालोके नमोक्ष्यते सकलकर्मस्यैः परनिर्वास्यति स्वस्थोभविष्यति सकलकर्म



ओ देवलोगाओ आ ऊ क्वरणं भवक्वरणं ठिड्रक्वरणं अणंतरंचयंचइत्ता कर्हिगच्छर्हिंतिकर्हिंउव वज्जिर्हिंति गोयसामहाविदेहेवासिसिज्जिर्हिंति बुज्जिर्हिंति सुच्चिर्हिंति परिणिब्बार्हिंति सब्बदु

सनी आउखानीस्थितिच्छे एषहेभगवन्मेघनामादेवता देवलोकथकी विजयविमानथकी आयुष्कर्मदलनेनिर्जरणकरे देवतानाभव नाबिबंधनभूतकर्मनिगत्यादिकानाकर्मतिहानेनिर्जरवेकरी आउखाकर्मनीस्थितिनेवेदेवेकरी देवताना भवसंबंधीयो चयशवीरप्रते त्यजीनेअथवाअतरारहित च्यवेचवीने केहीगतनेविषेजास्ये केहीगतनेविषेजपजस्ये भगवंतकहे हेगौतम महाविदेहक्षेत्रनेविषे सीभस्ये नीठाद्या अर्थपणेविशेषथकीसिद्धि जावायोग्यसोटीच्छद्दिने पामवेकरीभोगवस्ये बभूस्येकेवलज्ञानने पामिवेकरीतत्वनो

द्वानविकाररहिततया किमुक्तं भवति सर्वदुःखानामन्तंकरिष्यतीति एवं खल्वित्यादिनिगमनं अप्येवं भवति न हि तेन गुरुणो  
 त्यर्थः उपालंभो विनिवृत्त्या विहितविधायिनः आप्तोपालंभः सन्निमित्तं यस्य प्रज्ञापनस्य तत्तथा प्रथमस्य च तात्पर्यमनंतरोदितः  
 सेवजुपारचरिततत्त्वणोर्थाभिधेयः प्रज्ञप्तोऽभिहितः अविधिप्रवृत्तस्य शिष्यस्य गुरुणा मार्गस्थापनाय उपालंभो देवो यथा भगवतो

कथायां अंतर्काहिति एवं खलु जंबूसमयेणं भगवथासहावीरेणं आहूगरेणं तित्यगरेणं जावसंपत्ते  
 णं अणोलं भणिमित्तं प्रटमसस्यायाज्भयणस्य अथमदुपस्यत्ते तिवेजिः प्रटमं अज्भयणं समत्तं मज्जरे

जाराद्धस्ये सूंकस्ये समखकर्मने अंशेकरी कर्मरूपसंतापतापटाली शीतलताडोयास्ये समखकर्मनाकीधा विकारनाविरहवियोग  
 पशुंकरी शरीरनासननासहला दुखनाकलेस तेहनाअंतविनाशनोवारणहारुद्धस्ये इणप्रकारे खलु निच वलुधर्मगणरवाहेछे हे  
 जंमन्त्रकणगवंतञ्जीसहावीरदेवे प्रवचननी आदिनोकरणहारतेणे यावत् सोचपज्जतातेणे हितकारीगुरुने अविनयकारी शिष्यने  
 उपलंभञ्जोलंभारूप उपदेशधलो निमित्तहेतुछे जे बुद्धिवंत शिष्यने एइपदेशकस्यो पहिलो ज्ञाताध्ययननो एआंतरारहितकस्यो मेघजु





दत्तोमेघकुमारारयेत्येवमर्थं प्रथममध्ययनमित्यभिप्रायः इहगाथामङ्करेहिं निडणेहिं वयणेहिं चोययति आयरिया सीसेकहिं चिख  
लिएजहमेघसुणिंलहावीरो? इतिशब्दःसमाप्तौ ब्रवीमिति प्रतिपादयाम्येतदहं तीर्थकरोपदेशेन नखकीयबुद्ध्या इत्येवंगुरुवचनपार

हिंशिडणेसिं वयणेहियचोययति आयरियासीसे कहिंचिखलिए जहमेघसुणिंलहावीरो ?

मारनाचरिलखण अर्थप्रख्यो कख्यो अविधिप्रवर्त्तताशिव्यनेत्रीगुरुने तेहशिव्यनेमार्गधर्ममार्गनेविषे थापवाभणी उपलंभञ्चोलंभो  
उपदेशदेवो जिमभगवंतेहीधोञ्चोलंभो मेघकुमारसाधु भणीइतित्तिवेमि इतिएशब्दअध्ययननीसमाप्तिनेविषे प्रवर्त्त ब्रवीमिकहतां  
सुधर्मास्वामी कहे परंतीर्थकरने उपदेशे करीपोतानी बुद्धिइकरी कहतो नथी एह्वुं गुरुवचननीपरंपराये सुधर्मास्वामीपोता  
नाशिव्यजंबूस्वामिभणी केहेअनेरेसाधुचारिलीयाथाइवो एहवोदेखाडवाभणी पहिलोज्ञाताअध्ययननो अर्थसंपूर्णययो ॥१॥

तथानीजाआचार्यादिकशिव्याने उपदेशइसदीइ' तेकिसएहवे मधुरमीठे निपुणडाहेवचनेकरी प्रेरणाकरे आचार्यशिव्यप्रते  
घणेकष्टेकरीखलतोपडतोरखे जिममेघसुनिप्रते पडतोरख्योत्रीमहावीरदेवतिमराखे एतले प्रथमअध्ययननोटवो संपूर्णययो ।१।

तन्व्यं सुधर्मस्वामी आत्मनो जंबूस्वामिने प्रतिपादयति एवमन्येनापि सुसुक्ष्णामभिव्यक्तमित्ये तदुपदर्शनार्थमिति ज्ञाताधर्म्यं कथा  
 यां प्रथमं ज्ञातविवरणं मेघकुमारकथानकाख्यं समाप्तं । अथसंघाटकाख्यं द्वितीयं ज्ञाताध्ययनं व्याख्यायते अस्य च पूर्ववत् सहायं सख्यं च  
 पूर्वस्मिन्ननुचितप्रवृत्तिकस्य शिष्यस्य उपालंभउक्तः इहत्वनुचितप्रवृत्तिकोचितप्रवृत्तिकयो रनर्थार्थप्राप्तिपरस्परभिषीयते इत्येवंसख्य  
 न्यस्यास्येदमुपज्ञेपसूत्रं जङ्गमित्यादिकं च एवं खलित्यादितु प्रकृताध्ययनार्थसूत्रं सुगमंचैतत्सूत्रं नवरंजीर्णोद्यानं चाप्यभूत् चा

जङ्गुंभंते समरणं भगवयामहावीरेणं प्रथमसंख्यानस्य अथमदुप्रसूते विद्वयसंख्यानस्य

इति श्रीनागपुरीयतपागच्छे श्रीपासचंद्रसूरि श्रीसमरचंद्रसूरि श्रीराजचंद्रसूरि विनेयोपाध्याय श्रीहीरानन्दचन्द्राणां शिष्यलेशेन सुनि  
 प्रेमजीकेन श्रीज्ञाताप्रथमाध्ययनार्थः संपूर्णः कृतः । यदिजोहेभगवन् अमरणेभगवन्तेसंपूर्णठकुराईवंत महावीरदेवे प्रथमपहिला  
 ज्ञाताध्ययनोपहिला प्रथमन्याचदृष्टाना अध्ययनो एतलो प्रथमअध्ययनो एहपूर्वोक्तार्थकह्योतेसांभल्यो हिवेभंतेहेभगवन्बीजा  
 ज्ञाताध्ययनो केहवोकुणस्योअर्थ प्रणयोक्तह्योकेभगवन्ते तेजपरिसुधर्मास्वामी जंबूप्रतेकहेछे एमअगलकहिस्ये तिमखलुनिश्चयते

उक्तयस्सके अट्टे पणत्ते एवं खलु जंबू तेणं कालेणं तैणं समएणं रायगि हेणामं णयरे होत्था वसुओ तत्थणं  
 रायगि हेणयरे सेणिएणामं राया होत्था महया वसुओ तत्थणं रायगि हसणयस्स बहिया उत्तरपुर  
 च्छिमे दिसीभाए बुणसिलएणामं चे इए होत्था वसुओ तस्सणं गुणसिलयस्स च इयस्स अट्टरसामंते  
 एत्थणं सहं एगे पडियजिणुब्जाणेया विहोत्था विणइ देउले पडियतोरणघरेणाणा विह गुच्छगुम्म

अवसरपिणी कालनाचउथा आरालक्षणे कालतेहनेविषे तेसमयनेविषे राजगृहनामानगर ऊओ इहां धरवाडीनगरनोवर्णकसर्व  
 उवावाइ उपागयकी जाणिवो तिहार राजगृहनगरनेविषे अणिकनामा राजाऊतो तेमोटोहिमवंत पर्वतसरिखो इत्यादिसर्ववर्णव  
 उवाइथीजाणिवो तेराजगृहनगरने वाहिर उत्तरदिशि अनेपूर्वदिसिनो भागनेविषे एतलेइसानकृण्णिनेविषे गुणसेलीयानामाचै  
 त्यनो देहरोऊतोऊओ तेयच्चनोवर्णेन वृक्षादिवर्णेनसर्व उवयाइथीजाणिवो तेगुणसेलकयचना चैत्यदेहरानेपासे अतिघणुंवेगलू  
 नहैअतिघणू कडूनहै एहवुं इहामोट एकपडो जीणीयानजूनो उद्यानवनखंडऊतो तेहवोछेविणवांछे देउलदेवकूल देहरा पड्या

पीतिसमुच्चये अपिचेत्यादिवत् विनिष्ठानि देवकुलानि परिश्रितानि तोरणानि प्राकारद्वारदेवकुलसंबंधीनिष्ठहाणिचयत्ततया नानाविधये गुच्छाहंताभीप्रभृतयः गुल्मीवंशजालीप्रभृतयःलताः अशोकलतादयः पल्लस्तपुषीप्रभृतयः लताः सहकारादयः तैम्ब्यादितंयत्ततया अनेकैर्व्यालयतैः श्लापदशतैः शंक्रनीवं भयजनकंचायभूत् शङ्कनीयमित्येतद्विशेषण संबहुत्वात्क्रियावचनस्य पुनरुक्तता मालुकाकच्छइति एकास्थिकृफला लक्षविशेषाः मालुकाः प्रज्ञापनाभिहितश्लेषां कञ्चोगहनं मालुकाकच्छइति

लयावस्त्रिवच्छाद्रए अणेगवालसयसंकण्डजेयाविहोत्या तस्सणंजिणुज्जाणस्सवड्डमज्जदेसभाए

केसडीगयाहे तोरणप्राकारगढनावारणा देहरासंबंधियातया वलीधरपद्याहे जीर्णोद्याननेविषे एहवु वलीतेकेहवोहे नानाविध घणाप्रकारना जेगुच्छारौंगणीप्रमुखगुम्मावंशजालप्रमुखलता असोकलतादिकवस्त्री आउसडीकाकडीनीजाति विशेषवेलप्रमुखदृक् आंवादिक्तणेकरीच्छाद्यु दांश्वोहे जेते वलीतेवनखंडकेहवोहे अनेकषण्येव्यालसतखापदी जिवनेसईकडांगसेकरी संकनीयसंकनीक संकाभयनी उपजावणहारज्जतोड्ढयो तेजनाउद्यानवनखंडनाषणामध्यभागविचालानाप्रदेसनेविषे इहांसोटीएकभग्नभगीलूटोपड्यो

तुजीवाभिमचूणिंकारः किरह्हे किरहोमासेइहयावत्कारणादिदंइत्थंणीलेणीलोभासेहरिएहरिओभासेसीएसीओभासेणिद्वेणिद्वो  
भासेतिव्वेतिव्वोभासे किरह्हे किरह्हेच्छाएणीलेणीलच्छाएहरिएहरियच्छाएसीएसीयच्छाएणीद्वेणीद्वच्छाएतिव्वेतिव्वच्छाएवरा  
कडियकच्छाएत्ति क्खणवणींजनवत् स्वरूपेण क्खणएवावभासते द्रष्टृणा प्रतिभातीति क्खणावभासः क्खिलकिंचिहस्तुस्वरूपेणभवत्य  
न्यादृशं प्रतिभासतेतु सन्निधानविप्रकर्षादेः कारणादन्यादृशमिति एवंक्वचिदसौ नीलोमयूरग्रीववत् क्वचित्हरितः शुक्तिपिच्छवत्

एत्थणंमहंएगेभग्गकूवयाविहोत्था तत्थणंभग्गकूवस्स अटूरसामंतेएत्थणं महंएगेमालूयाकच्छेएया  
विहोत्थाकिरह्हे किरहोभासेजावरस्से महामेहनित्तरंभवभूए बह्भहिंस्सक्खेहियगुच्छेहियगुस्सेहिय

एहवोकूपड्डतो तेहनो नामभगनकूपतेभागा कूवानेपसि अतिवेगलो नहोँ अतिठ कडो नहोँ इहामोटीएक मालूयाकच्छेएकहता  
एकोकूलियाना फलएहवाएचविशेषनेमालूका एत्थकहीइतेमालूका एत्थानाजेकच्छकहतां गहनजटाजूटभाभीभासेवे तथामालूकाए  
त्थनीकाकडीनीजाति जातिविशेषतेहनागहनजटाजूटच्छेएहवो मोटी एकमालूकाएचच्छतोतेकेहवोच्छेक्खणकालोअंजनसरिखोवली

हरितालाभद्रतिष्ठद्वाः तथाशीतः स्पर्शतः वस्त्राद्युक्तांतत्वादिति चष्टद्धाःस्निग्धेनरूचः तीव्रोवर्णादिगुणप्रकर्षवान् तथाकृष्णः सन्  
वर्णतः कृष्णच्छायः क्षयाचदौष्टिरादित्यकारावरणजनितचेति एवमन्यत्वापि घणकडिकडिच्छाएत्तिअन्योन्यशाखानुप्रवेशात्घननि  
रंतरच्छायः रस्योमहामेधानां निकुरं वः समहामेघनिकुरं वभतः वाचनांतरेत्विदमधिकंपद्यते पत्तिएपुष्किएफलिए  
हरियगरे रिज्जंमाणे हरितकचासौरेरिज्जमाणेत्तिभृशंराजमानञ्चयः सतथासिरीए अईवरउवसोभेमाणेचिदृत्ति त्रियावनलक्ष्म्या

तथाहिय वक्षीहियतणे हिय कुसेहियखाणुएहिय संकृणेपरिच्छणे अंतोउभुसिरेवाहिंगंभीरेअणे

तेकेइवोक्के पोतातानेखरूपेकालोजप्रतिभासेक्के देखणहारपुरुषांनि जावसब्दधीवनखंडनोवर्णनसंपूर्णकच्चिघुघणुजरमणिकप्रतिभासेक्के  
इत्यादिवनखंडवर्णनउवाइथी जाणिवो घणोभे हानानिकुरं व सम्हतेहनीपरिजेवनखंडयईरह्योक्केएतलेनिकुरं वभतफलयोफलयोतेणे  
करीनीचोनस्योक्के घणेइच्छे अंभादिकेकरी घणीभूइरौंगणीयेकरी घणीवंसजालितेणेकरी लताअसोकलतादिकेकरीघणी ओषधी  
प्रसुषनीवेलतेणेकरीटणांचारि तेणेकरीकुसडाभादिकेकरीस्याउछकाठुंठ अथवाकोलनाविलखाड इत्यादिकेकरीसंछन्वव्याप्योक्के

अतीवउपशोभमानसिष्ठति कुसेहियत्ति दमैः क्वचित्कूवएहियत्ति पाठसाल कूपिकाभिः लिङ्गव्यत्ययात् खज्जु एहियत्ति स्थायुभिश्च  
 पाठान्तरेण खत्तएहंति खातैर्गत्तैरित्यर्थः अथवाकूविएहंति चौरगवेषकैः खत्तएहंतिखातकैः ज्ञातस्येतिगम्यते चौरैरित्यर्थः अथ  
 सभिप्रायोगहनत्वान्नस्य तलचौराः प्रविशंति तन्नवेषणार्थमितरेचेति संछन्नोव्याप्तः परिच्छन्नः समन्तात् अंतर्मध्येमुषिरः आवजा  
 शत्वात् वहिर्गंभीरो दृष्टेरप्रक्रमणात् अड्ढेदित्ते दूहयावत्कारणादिदं द्रष्टव्यं दित्तेविच्छिस्सविउलभवणसयणासणजाणवाहयादूस्थे  
 बद्धदासदासीगोमहिंसगवेलगप्यभूएच्छधणवड्जायरूवरयए आओगपओगसंपउत्तेविच्छड्डियविउलभत्तपाणेत्ति व्याख्यात्वस्यमेव

गवालसयसंकणिज्जेयाविहोत्था तत्थणंरायगिह्णयरेधस्स णामं सत्थवाहेअड्ढेदित्ते जावविउले

गवालसयसंकणिज्जेयाविहोत्था तत्थणंरायगिह्णयरेधस्स णामं सत्थवाहेअड्ढेदित्ते जावविउले  
 द्वाक्योच्छेचउफेरव्याप्योढाक्योच्छेचनखंड वनखंडमांहियीभूसिरपोलोच्छे अवकाससहितप्रणायकी वाहिरगंभीरगह्वरके दृष्टिनेअपसर  
 वायकीअनेकवणव्याल स्वापदसर्पनासेईकडातिणेकरी संकिर्णसाकडोहृतोहृओ तेमालुयाकच्छते राजगृहनगरनेविषे धनानामे  
 सार्धवाहवसेच्छे तेहवो आढाकृद्विवंतवलीतेकेहवुदित्तेदीपतेसवलोएहवु जावशब्दनाग्रहणयकी संपूर्णआवकनो आलावोकहिबो

कुमारराजवर्णकवत् भद्रावर्णकस्य तु धारिणीवर्णकवन्वरं करयलयन्ति अनेनकरयलपरिर्मियतिवलयमच्काइतिदृश्यं बंभक्तिअपत्य

भक्तप्राणतस्वर्णधणस्सस्यवाहस्य भद्रानामंभारियाहोत्या सुकमालप्राणिपाया अहीणपडिपुस्यंपं  
चिंदियसरीरं लक्षणवज्रगुणोवेवेया माणुस्माणपडिपुस्यसुजायसव्वंगसुंदरंगी ससिसो

देतच्छतांशभात पाणीजैच तिहांलगकहिवु ते धननामासार्थवाहने भद्रानामाभार्यास्त्री हतीज्जइ तेकेहवीके सुकमालसुहाला  
कोमलहायपगत्ते जेहनाएहवीके वलीकेहवीके अहीनही णाओछानयी प्रतिपूर्णपूरापांचइ द्रीयेजेहनेविषे तेहवोसरीरदेहके  
जेहनोएहवीके तथावलीकेहवीके लक्षणजन्मसंघातेसाथीयाचक्रादिकप्रगटहोयतेलक्षणकहीयेजन्मपाखीज्जओमसतिलादिकतेव्यंजन  
कहीयेतेहनागुणप्रसंसनीयतातिणसहितएहवी वलीकेहवीकेमानेकरी? उन्मानेकरी? प्रतिपूर्णसंपूर्णकेओछानयी  
सुजातभलानीपनाके सषलाअंगमस्तकआदिदेई अंगोपांगजेहनेविषेतेहवोसुंदरमनोहर अंगसरीरकेजेहनो एहवीधारणीनामा  
वर्णनयकी जाणिवो वलीकेहवीके यशीचंद्रमानीपरिसोम्यभलोआकारजेहनोएहवी कांतकमनीयमनोहरएहवी एहकारणयकी



पालनापेक्ष्यानिष्फला अविद्याउरिति प्रसवानंतरमपत्यमंरणेनापि फलतोबंध्याभवतीत्यत उच्यते अविद्याउरिति अविजननशी  
लाअपत्यानामतएवाह जानुर्क्षुर्पराणामेवमाताजननी जानुर्क्षुर्परमातान्वेवशरीरांशभूतानितस्थाः सनौस्यृशंति नापत्यमित्यर्थः

माकारं कं तपियदंसणं सुखुवाकरयलपरिमियतिलियमज्जा कुं डलुलिहियगंडलेहा कौमुद्रय  
रयणियरघडिपुणसोमवयणसिंगारंगारचारुवेसाजावपडिखुवाबंध्माअविद्याउरीजाणुकोप्परमा

देखणहारारुषाने प्रियवस्तुभदर्शन जेहनो एहकारणथकी जभलोशोभाकारीछे रूपजेहनो एहवीछे वलीतेकेहवीछे करतलकह  
तांमूठतेणेकरीमितक० त्रिणिवली करीसहित मध्यमथ भागकडनोभागछे जेभद्रानो वलीतेकेहवीछे कानने कुं डलेकरी वसतीछे  
गंडलेहाकपोलस्थलरेखजेभद्रानी वलीतेकेहवीछे कौमुदीकहतां पुनिमनीरालि रजनिकरचंद्रमा प्रतिपूर्ण सोलकलासहितऊई  
तिसतेहवीसोमवदनाचंद्रमुखिचंद्रमासरिखी सुखेजेभद्रानो वलीतेकेहवीछे शृंगारमंडणभूषणादिप्रधान आकारसंस्थानविशेष  
चारुमनोरमवेषवस्त्रनो पहिरवेसछे जेभद्रानोतांलगवखाणवी जिहां तांईप्रतिरूपपर्यंत देखणहारारप्रते प्रतिरूपप्रतिबंधदीसेछे

अथवाजानुकूर्परारख्ये व मालापरप्रमाणो देसाहाय्यासमर्थं उत्सङ्गनिवेशनीयोवा परिकरीयस्याः नपुल्लज्जणः साजाउकूर्परमात्वा दासचेइति दासस्यभृतकविशेषस्य चेटःकुमारकः दासचेटः अथवादासश्चासौ चेटश्चेतिदासचेटः तक्करेत्तिचौरः पापस्यपापकर्मका

यायाविहोत्यातत्यगंधखस्यसत्यवाहस्य पंथएदासचेडएहोत्या सव्वंगसुंदरगीमंसोवचिए बालकी

जेभद्रानो परंतेकेहवीसंतानंफलनी अपेच्चाइनिःफलफलरहितवांशुणीछेसंतानप्रसवानंतरवालकनेसरवेकरीपणणिःफलथकीवांशु शिऊई एहवीछे तेभद्राएकारणथकीकहीईछे अविथाउरासंतानना अणजणवानोखभावछे जेभद्रानो अविथाणिछे एकारणथकी जकहेछे जानूढींचणनाकूपारानीजमाताने जानूकूर्परमाता कहीये जानूढीं चणएहपणिसरीरना अंसभत्तेतेहनायुगलपरसे छेचूषणरूपपरसंताननथी एहवीभद्राजानूकूपरिमाताहती तेधनासार्थवाहने पंथकनामा दाससेवकविशेषतेहनो चेडककहतांपुल वेटोपंथकहंतो तेपंथककेहवीछेसगलोअंगमाथाप्रमुखआदिदेई अंगोपांगसुंदरभलोऽङ्गशरीरछे जेपंथकनो वलीकेहवीछे मांसेकरी घणपुटजाडो वलीतेपंथककेहवीछे बालकाने क्रीडाकराविवारामति कराविवानेविषे कुसलडाहोडतोडओ चअपिससुच्चयाथे

रिणः चण्डालस्यैवरूपं स्वभावोयस्यसतथा चण्डालकर्मपिच्छया भीमतराणि रौद्राणिककर्माणिथस्यसतथा आरुसियति आरुष्टस्यैव

लावणकुसलेयाविहोत्यातएणसेधसेसत्यवाहेरायगिहेणयरेबहुणंणगरणिगमसेट्टि सत्यवाहाणंअ  
द्वारसरुहयसेणोप्पसेणीणंबहुसुकज्जेसुयकुडुबेसुय जावचक्खुभूएयाविहोत्याणियगस्सवियणंबहुसु  
कुडुबेसुयबहुसुगुज्जेसुयजावचक्खुभूएयाविहोत्या तत्थणंरायगिहेणयरेबहियाविजएणामंतक्करेहो

तिवारपच्छीते घनोसार्थवाह्व राजगृहनगरनेविषे घणानगरनानिगमव्यापारीयां मांहिसेठ्ठे सार्थवाह्व अधोवाद्देया मांहिवडो  
सार्थवाह्वतथा अट्टारअेणिकुंभार आदिदेई लोहारना कर्मपयंत अट्टारप्रअेणिदाणी आदिदेई एहवां तेहमांहि सार्थवाह्व  
डोक्के घणाकार्यनेविषे घणालोकांना कुटं वानेविषे घघणामंतरहस्य एकांतआलोचनेविषे तांजांतेसवलाने चक्खुभूत नेवसरिखो  
वस्सभडुतो तेधन्नोसार्थवाह्वसेठि हिवेपोतानाघणा कुटं वमाहि तथापोताना कुटं वनाघणाकार्यनेविषे तांजालोचनभूत हंतोऊ  
ओ तेसेठधनो सार्थवाह्वते राजगृहनगरवाहिर विजयनामातक्करचोरवसतो ऊतोऊओ तेचोरकेहवुंक्के पापकर्मना करणहारो

दीप्तिरक्ते नयने यस्य सतथा खरपरुषे अतिकर्कशे महत्त्वौ विद्वतेषु भस्त्रे दंष्ट्रिके उत्तरौष्ठके शगुच्छरूपे दशनविशेषरूपे वायस्य सतथा आ  
संपतितौ असंपुटितौ असंघटितौ वापरस्य रालग्नौ तुच्छत्वाद्दशनदीर्घत्वाच्च औष्ठौयस्य सतथा उद्भूताः वायुना प्रकीर्णविकीर्णानि त्रिमाना

त्यापविवंचडालरुवेभीसतररुहकस्त्रे आरुसियदित्तरत्तस्य णेखरपरुसविगयवीभच्छर्दाटिएअसंपुडिय  
उड्डे उड्डुयपद्रुणलंघनतमुड्डए भसरराज्जवणे शिरणुकोसे शिरणुतवेदारुणेप्रभ्रुणसंसद्रुणिरणुकंपे

वलीकेहवुक्के चंडालनासरिखोरूप वलीतेकेहवोक्के चंडालनाकर्मनी अपेच्चाङ्करी भीमतरषणुवीहामणो रोद्रकठिनभूडाकर्मक्के  
जेविखभावक्के जेचोरनो वलीतेचोरकेहवोक्के आमर्षादाकरीरुसियारोषरीसालिनांसरिखादीपतारातानेक्केजेविजयचोरनाएहवो  
वलीतेकेहवोक्के खरपुरुषअतिषणुं कठिनकठोर एहवीवेमहस्रसोटी विखरीवीहामणीवेदाढीक्के जेविजयचोरनीएतले उपरलाहोठ  
केसनाम्बुनीदाढी अनेदडववीप्रमुखनीदाढीएवंदाढीवेक्के जेहनो वलीतेकेहवोक्के असंपतितसंपुटनथी बाहोसांदिमिलतानथीदांत  
नाथोडापणायकीविरला मोकलारहेक्के औष्ठहोठवेवोरनाएहवोवलीतेकेहवोक्के उड्डुयउड्डुतउंचावायुवेकरीविखेखाउडायाक्केलंबा

स्वर्ज्जायस्यसतथा भ्रमरराज्वर्णः दृष्ट्याइत्यर्थः निरनुकोशोनिर्द्वयोनिरनुतापः पश्चात्तापरहितएवदाहणो रौद्रःअतएवप्रतिभयोभयजनकः निःसंशयिकः शौर्यातिशयादेतत्साधयिष्यास्येवेत्येवं प्रवृत्तिकः पाठांतरेण निसंसे नृन्नरान् शंसतिहिनस्तीतिचुशंसः निःशंसेवाविगतस्नाधः निरशुकंपेत्ति विगतप्राणिरक्षः निर्गतावाजनानां अनुकंपायत्न सतथा अहिरिवएकांताग्राह्यमेवेहंसयेत्येवलेका

अहोवएगंतदिडौएखुरेवएगंतधाराएगिइअमिसत्तलिच्छेअग्निमिवसव्वभक्खीजलमिवसव्वग्गाहो

यमानलांवाएहवोमाथानाकेसकेचोरनाएहबु भमरानीपूंछि अनैराज्जग्रहविशेषएवेह्वनावर्णसरिखो कालोच्छेजेचोरनिर्द्वयदयारहितकेजेचोर पश्चात्तापरहितकेपापकरी पश्चात्तापनकरे एकारणयकीदारण रौद्रके एकारणयकीजप्रतिभयनो उपजावणहारएहवोनिशंकितसरपणाना अतियथकीजतेकार्यसाधस्यो करस्योएहवो निर्गतगईकेलोकानी अनुकंपादया जेचोरनेविषे अहिसर्पनीपरएकदृष्टिकजिमसर्पदीठोनहू लेतिमएचोरएकांतग्रहिवा योग्यएहवुप्रवर्त्तेहे पाठांतरेण निसंसेचुक्कहतां मनुष्यांप्रतेसंसति कहतांहणेकेसारिच्छेजेचोरअथवा प्रशंसनीकरेहितके जेचोरएहवो कुरानीपरे एकधारोजिमकुरपलो एकचं तवस्तुनो भागहरवानेविषे धारजे

निश्चयादृष्टिर्यस्यसतया खुरेवएंगंतधाराएत्ति एकतांतिवस्तुभागेऽपहर्तव्यलक्षणेषधारेवधारा परोपताप्रधानप्रष्टितिलक्षणायस्यसतया यथाक्षुरएकधारएवमसौ मोषणलक्षणैकप्रष्टितिकएवेतिभावः जलमिवसव्वग्गाह्मिच्छि यथाजलंसर्वस्वविषयापन्नमभ्यंतरीकरोतितया

उक्तं चणवंचणमायाणियडिकूडकवडमाइसंपञ्चोगबहुले चिरणगरविण्डुडुडुसौलायरचरित्तेजयप्रसं

द्रव्यादिकवस्तुपंथमने लेवो एहवानिश्चयसहितदृष्टिच्छे जेचोरनीएहवो गृह्यपंखी आमिषमांसनो लोभीच्छतोजे जिवनेकेडे लागेतेह नीकेडम्बके नहीलीधाविनातिमजचोरधनदीठो तेलीधावीनाचोखाविजारहेनहींतथाअगनिनीपरिसर्वभक्षीजिमअगनिमाह्मिच्छि सीवस्तुरहेनहीतिमतयाजलपाणीनीपरिसर्वग्राहीजिमपांणीसर्वपोतानेविषेमावेचउफेरेफरीअभ्यंतरकरे पीणछोडेनहीतेतिमएचोर सर्वग्रहे जचोघणोकोइम्बल्यादिकचढावीवाकरिवाभणी हीनगुणवस्तुने घणाप्रधानगुणनो कहिवो तेउल्कंचनकहीये वंचनविप्रता रवोमायाआगिलानेवंचनानी बुद्धिनियडनीकृतिकहतां वेगलानीपरि आगिलानागलाकापिवानेनिमत्तरहिबोछे जेचोरनोबूडक० खोटोमापातुलाताकडी आदिकनो करवोआगिलाने वंचनानिश्चयैअधिकोओछोकरिवोतथाकपटएसंघाते जेअतिसयेकरीसंप्रयोगक०

यमपि सर्वगृह्णातीतिभावः तथाउत्कंचनवंचनमायानिकृति कूटकपटैः सहयोगितिसंप्रयोगोगार्हतेनवङ्कलः प्रचुरोयःसतथातत्वउर्द्धं  
 कंचनंमूल्याद्वारोपणार्थं उत्कंचनहानगुणस्य गुणोत्कर्षप्रतिपादनमित्यर्थः वच्चनंप्रतारणं मायापरवंचनबुद्धिः निष्कृतिर्वकष्ट्यागल  
 कर्त्तकानामिवावस्थानं कूटं कार्षीपणतुलादेः परवंचनाथंन्यूनानाधिककरणं कपटनेपथ्यभाषाविपर्ययकरणं एभिस्तृकंचनादिभिस्सहा  
 तिथयेनयः संप्रयोगस्तेन योवङ्कलः सतथायदिवासातिशयेनद्रव्येण कसूरिकादिना परस्यद्रव्यस्य संप्रयोगः सातिसंप्रयोगः तत्तुक्तं  
 चसोहोद्रसाङ्गो दवं जंछुहिय अन्नदत्त्वे सु दोसगुणावयणेसुय अथविसंवायणं कुणइति एकीयंव्याख्यानं व्याख्यानानंतरंपुनरेवं  
 उत्कंचनमुत्कोचोनिष्कृतिर्वच्चनप्रच्छादनाथं कर्मसातिरविस्वभं एतत्संप्रयोगेवङ्कलः शेषंतथैव चिरंबङ्ककालंयावत् नगरेनगरस्यवा  
 विनष्टोविसुतः चिरनगरविनष्टवङ्ककालीनो योनविनष्टोभवति सकिलात्यन्तं धूर्त्तोभवतीत्येवं विशेषितः तथादुष्टंशीलंस्वभावःआ  
 कारआकृतिश्चिरित्वानुष्ठानं यस्यसतथा ततःकर्मधारयः द्यूतप्रसंगीद्यूतासक्तः एवमितराणिनवरं भोज्यानि खंडखाद्यादीनि पुन  
 दीरणग्रहणं हृदयदारकइत्यस्य विशेषणार्थत्वात् नपुनरुक्तं लोकानां हृदयानिदारयति स्फोटयतीति हृदयदारकःपाठांतरेणजण  
 हियाकारएजनहितस्याकर्त्तैत्यर्थः साहसिकोवितर्कितकारी संधिच्छेदकः क्षेत्रखनकः औपधिको मायाकत्वेन प्रच्छेद्यचारीविस्वभंभ

घातीविष्वासघातकः आदीपकोग्निदाता तीर्थानितीर्थभूतदेवद्रोण्यादीनिभिनन्ति द्विधाकरोति तद्द्रव्यमोषणायतत्परिकरभेदेने

गौसज्जपसंगौसंप्रसंगौभोज्जपसंगौदारुणहिय यदारएसाहसिएसंधिच्छेयएउवर्हिणविस्संभघाईआलि  
यगतित्यभेए लङ्गहत्थसंप्रउत्तेपरस्सदव्व हरणेणिसंअणुवद्धितिव्वेरेरायगिहस्स णयरस्सवड्ढणअतिग

रघपणोतेणेकरीवड्ढलघणोके विजयचोरएहवो चिखणाकालताईनगरनो विनष्टलंडंभंडके घणाकालनोविनष्टहोईघणुधतारोहोई  
तेसद्धितयाई इड्ढुंडोसीलखाभावभुंडोआकारभुंडोचरित्तअनुष्ठानक्रियानोकारवोके जेचोरनोजवटानाप्रसंगी मद्यसुरापाननोआस  
क्तमासनोआसक्तभोज्यखांडनाखांजाप्रमुखसुंखडी खावातोप्रसंगी दारुणरौद्रके लोकानाहियानेविदारके दारिके फोडेकेतेहृदयदा  
रकहीये साहसीकके अणुविचाया कामनो कारणहारो संधिच्छेदकखालनोखणहारोखात्रपाडीजाणेअपचिककपटमायापणेकरी  
खानोचालेके विष्वासघातीविसवासदेईघातकरेअगनिनो दाताअगनिलनाडेवालैर्यभूतदेवद्रोण्यादिकप्रतेभेदेविप्रकारकरेतेतीर्थना  
द्रव्यस्रसवालैवांभणी तेहनापरिकरनेभेदपाडेके तेतीर्थभेदकहीये लघुहस्रचोरीकरवानीक्रियानेविषे लघुहलुएहाथेकरीघनलेवापा



तितीर्थभेदः लघुभ्यांक्रियासुदक्षाभ्यां हस्ताभ्यांसंप्रयुक्तोयः सतथा ततःपदत्वयस्य कर्मधारयः परस्यद्रव्यहरणेनित्यमनुबद्धः प्रतिबद्ध इत्यर्थःतीब्रवैर अनुबद्धविरोधः अतिगमनानि प्रवेशमार्गात् निर्गमनानि निस्सरणमार्गात् द्वाराणि प्रतोल्यः अपद्वाराणिद्वारिकाः छिंडीःछिण्डिकाः वृत्तिच्छिद्ररूपाखंडी प्राकारच्छिद्ररूपाः नगरनिर्द्धमनानि नगरजलनिर्गमचालनात् संवर्त्तनानि मार्गमिलन

मणाणियणिगमणाणियदाराणियअवदाराणियच्छिंडीओय खंडीओयणगरणिद्वमणाणियसंबट्ट  
णाणियणिवट्टणाणियजूखलयणियाणियवेसागाराणियतक्करठाणाणियतक्करघराणिय

रकाद्रव्यहरवानेविषे नित्यनिरंतर अणुबद्धक्केजेते तीब्रवणावैरविरोधनो करवाहारो एहवोचोरराजगृहनगरमांहिषणा प्रवेशकर वानामार्गप्रते राजगृहनगरमांहियकी नीसरवानामार्गथकीप्रते द्वारनगरनीमोटीपोलिप्रते अपद्वाराणि कहतांबारीप्रते छिंडिवा डिनाच्छिद्रनीछीडानीछींडी गढनाछीडाप्रते नगरमाहियकी बाहिरपाणीनी सरवानामार्ग खालतेप्रतेसंवर्त्तनाकहतां मार्गमिल वानास्थानकतेप्रते नगरमांहियकी लोकानि पछावलवानामार्गप्रते जूयारीना थानकप्रते मदिरानाघरते प्रते वैश्याना घरप्रते

स्थानानि निवर्त्तनानि मार्गनिवर्त्तनस्थानानि द्यूतखलकानि द्यूतखंडिलानि पानागाराणि मद्यगेहानि वेद्यागाराणिवेद्या  
भवनानि तस्करस्थानानि मून्वदेवकुलागारादीनि तस्करगृहाणि तस्करनिवासान् मृङ्गाटकादीनि प्राग्व्याख्यातानि सभाजनो

सिंघाडगाणिवतयाणियचउक्काणियचच्चराणियथागधराणियभूय धराणियजकवदे उलाणियसमा  
णियपवाणियपाणिय सालाणियसुखधराणिय आभोएमाणामगमाणे गवेसमाणेबहुजणस्सिद्धिहे

चोररहिवानाथानिकसूनाजज्जइदेहरासुनाधरादिक चोरनाधरचोरनानिवासतेह्याप्रतेसिंघोडाने आकारेत्विषु णाथानिकतेप्रते  
लीगमार्गएकठालिलेतेथानिकतेप्रते घणामार्गएकठामिले तेचाचरानो मालसूकवानाचोक चारिमार्गएकठामिले तेयातिकतेप्रते  
भूतेप्रेत्यादिकने नागदेवनानाधर भूतदेवतानाधरप्रते यच्चदेवताना देउलधरतेप्रते सभाघणालोकनेवे सवानाथानाठामतेप्रते  
प्रपापांणीनादानदेवानाठामपवपोइइत्यादिभाषा पणितसालाहाटनाठाम तेप्रते सूनांजजडधराप्रते देखतोछतोमार्गनाविचार  
करोछतो अन्वयधर्मनाविचारणाथकी गवेपणास्तुतिउछतोव्यतिरेकधर्मना विचारणाथकी घणालोकानाछिद्रनेविषे योडापरिवा

पवेशनस्थानानि प्रपाजलदानस्थानानि लिंगव्यत्ययश्च प्राकृतत्वात् परिणतशाला हृद्धान् मूत्र्यगृह्णाणि प्रतीतानि आभोगयन्पथ्यन्  
 मार्गयन्अन्वयधर्मं पर्यालोचनतः गवेषयन् व्यतिरेकधर्मं पर्यालोचनतः बहुजनस्यच्छिद्रेषु प्रविरलपरिवारत्वादिषु चौरप्रवेशायका  
 शेषविषमेषुतीव्ररोगादिजनितानां तुरत्वेषुविधुरेषु व्यसनेषु राजाद्युपस्रवेषु तथाभ्युदयेषु राज्यलक्ष्यादिलाभेषुभुक्त्य  
 वेषुउन्द्रोत्पत्त्यादिषु प्रसवेषु पुत्रादिजन्मसु तिथिषु मदनत्वयोदश्यादिषु क्षणेषु बहुलोकभोजनदानादिरूपेषु यज्ञेषु नागादिपूजासु

सुयविसमेसुयविद्धरेसुयवसणसुय अभुदएसुयउसवेसुय पसवेसुयतिहीसुय छणसुयजणसुय

रथकीदिवसनेविषे चौरनाप्रवेशकरिवाश्रवकासनेविषे तथाविषमआकारारोगादिकनी पीडाजपनी तेहनेविषे विधुरकाहताइष्ट  
 बलभनावियोगने विषेतथाराजादिकना उपद्रवनाविषे तथाव्यसनकष्टादिकतेहनेविषे अभ्युदयरजलक्ष्मी आदिकराजानोमानमो  
 टाजदयतेहनेविषे इंद्रादिदेवतानाउत्सवनाठामतेहनेविषे प्रसवपुत्रादिकजन्मना उत्सवनाठामतेहनेविषेमदनतरसिप्रसुखतिथिना  
 उत्सवनाठामतेहनेविषे छणक्षणाकहता घणालोकनाजिमणवारभोजननाठामतेहनेविषे नागादियच्चदेवतानी पूजानाठामतेहने

पर्वणीप कौमुदीप्रभृतिषु अधिकरणभूतासु मत्तः पीतमद्यतया प्रमत्तञ्चप्रमादवान् यः सतथा तस्यवृद्धजनस्येतियोगः व्याचिप्तस्यच प्रयोजनांतरोपयुक्तस्य व्याकुलस्यच नानाविधकार्याक्षेपेण सुखितस्य दुःखितस्यच विदेशस्यच देशांतरस्यच विप्रोषितस्यच देशान्तरगन्तुं प्रवृत्तस्य मार्गंचपन्थानं छिद्रंच अपद्वारंच विरहंच विजनंअन्तरंचावसरमिति आरामादिपदानि प्राग्वत् सुसारेणसुश्रुति

पर्वणीसुयजुद्देशुय मत्तपमत्तस्यवक्त्रत्तस्य वाउलस्ययसुहियस्ययदुहियस्यय विदेशस्यस्ययवि  
 प्वसियस्यस्यमगंचछिद्रंचविहरंच अंतरंचमगमारे गवेसमारे एवंचणंविहरद्र बहियावियणं

विषे पर्वणीकौमुदीपनिमप्रसुखतिथिनामहोत्सवनाठामतेहनेविषेघणालोकनेविषे मांहोमाहिसुद्धकरठानाठामतेहने मत्तमदीनत्त सुरामदिरापीवानेकरी वलीप्रमत्तप्रमादवंतच्छे जेलोक्तेहघणालोकनेविषे कार्यांतरनेविषे उपयोगवंतव्यग्रचित्तपणोतेलोकनोजोद्घघणाकार्यकामनी अपेक्षाद्वकरी आकुलव्याकुलघणालोक्तेजोद्घे घणासुखीयालोक्तेहनेविषे घणासुखीया लोक्तेहनार्द्धेविषेजोतो देखतो विदेशदेसातरनेविषे रद्यालोक्तेहनेदेखतो देशांतरप्रते चालनाभणी प्रवर्त्यालोक्तेहनेजोतोदेखतो मार्गंपथप्रतेच्छिद्रवा

राथगिहसणयरस आरामेसुयउज्जाणेषुय सुसाणेसुयवाविप्रोक्वरिणीदौहियागुं जालियासुय  
सरेसुयसरपंतिवासुय सरसरपंतिवासुय जिणुज्जाणेषुयभग्नकूवेसुय मालुयाकच्छएसुय सुसाणे

रीप्रते विचरेसुय्यरहितएकांतमप्रते अंतरअवसरप्रते विचारणाकरतोछतो गवेषणाकरतोथको इणप्रकारे विजयनामाचोरवि  
चरेछे तथानगरनेवाहिरपिण राजगृहनगर आमर्थादाकरीरमेछेजेमाधवी लतानाघरादिकनेविषे पुरुषस्त्रीनाजोडलोकीडाकरे  
तेआरामनेविषे फलादिकनीकृद्विर्वते वृत्तेकरीसांकड़ा आकुलव्यकुलउत्सवमहोत्सवउत्तेछते घणालोकनेविषे जजाणीइजइभोजन  
करिवानाथानकतेउद्यानवनखंडने विषेसमसाणनेविषे वाविच्यारिखूणानी पुष्करिणौवाटलाकारिवावि अथवाकमलवतीवाविदीह  
यादीर्घकासमीनीतपाणी जावानोठाम गुं जालिकावांकीपाणीजावानीक प्रनालिकातेहनेविषे सरोसरोवरपांणीरहिवानोआअथ  
विसेषतेहनेविषे सरसरोवरसलावांनी पंतिअेणिपांतिहने जेसरोवरारी अेणिनेविषे एकतलावथकी नीकलीपाणीबीजासरोव  
वराताइविषे संचारानेसंचरेकपाटनेतलेकरी पाणीसंचरेजाईतेसरसरःपंतीयाकहीजे जूनाउद्यानवनखंडनेविषे भागपड्याकृआ

शुभानिषगिरिकंदरेषुगिरिरंभ्रेषुलयनेषु गिरिवर्त्तिपाषाणष्टहेषुउपस्थानेषुतथाविधमण्डपेषुवज्जनस्यच्छिद्रेष्वित्यादिपुनरावर्त्तनीयं  
 यावदेवंचणंविहरइत्ति कुटुंबजागरियं जागरमाणीएत्ति कुटुंबचिंतया जागरणं निद्राक्षयः कुटुंबजागरिका द्वितीयायास्तृतीयायथे

सुय गिरिकंदरलयण उवट्टाणेसुयवज्जजणस्यच्छिद्रे सुयजावएवंचणं विहरइतएणंतौसेभद्दाए भारि  
 याएअण्णयाकयाइं पुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि कुडुंबजागरियंजागरमाणीए अयमेयारूवेअज्ज

नाठामनेविषे जेहचनानाफलमांहिएककूलियो होइतेमालुयाहचानी जटाजूटभाभीकांसमांहिसमसाननीभूमिकानेविषे गिरिपर्वत  
 नीगुफापर्वतना छिद्रविवरलयनपर्वतपु वर्त्तीपाषाणनावर तेहनेविषे तथाउपस्थान मांडवानाठाम तेहनेविषे षणालोकांना छिद्र  
 योडोपरिवारजाई इत्यादि शब्दपाच्छिला सर्वकहिवायावत्विजय चोरइणपरिविचरेखे तिहांताईतिवारपच्छी तेधन्नासार्थवाहनी  
 भार्यास्त्रीभद्रानामा तेएकदाप्रस्तावे पूर्वरातिअपरराति समयतथ्यरालिना समयनेविषे कुटुंबनी चिंताइकरी जागरणनिद्रानो  
 चयउंघने छांडवेकरी जागीनेकुटुंबचिंताकरे जेचस्त्रीनेपुतखे अयकीनेपुतखे अथ्यवसायविषेषुतमाहरेकोइ पुवादिनथीएहवो

त्वात्तथाजाग्रत्यावु ह्यमानया अथवाकुटुं बजागरिकां जाग्रत्याः कुर्बत्याः प्रथमिति प्रजनयामि तासिमन्त्रे इत्यलतासांसुलब्धं जन्म

त्थिएजावसमुप्यज्जेत्या अहंधस्त्रेणंसत्यवाह्रेणंसद्धिं वहुणंवासाणिसहृफरिसरसंगंधरूवाणि माणु  
स्सगाइं कामभोगाइं पच्चणुभभवमाणौविहरामीणोचेवणं अहंदारंगंवादारियंवापयायामितंधसा  
ओणंताओअस्मयाओ जावसुलहेणंमाणुस्सएजस्मजौवियफलेतासिं अस्मयाणंजासिमस्त्रे णियकुक्खि

आत्मानेविषे रह्यो अध्यवसायविशेष पुत्रचिंतालक्षणसंकल्प विकल्पमनोगतभाव उपजेआगलिकहीस्ये तेहवोहुं धनोसार्थवाह  
संधातेघणावरसलगी शब्दफरिसरसरूपपांचप्रकारे मनुष्यसंबंधीया कामभोगप्रते प्रत्यनुभव भोगवतीकृतीविचरकुं पणिअहंहुं दार  
कपुत्रवेटाप्रते अथवा दारिकावेटीप्रते जणतीनथी तेकारणथकी तेधन्यउत्तम तेपुत्रनी माता जावतांजाभलुंरूडूं लाधी मनुष्यना  
जन्मजीवतव्यनोफल तेपुत्रनी मातानोहुं मनेमानो विचारेजेस्त्रीयाने पुत्रपुत्रीनी माताने निजकपोतानी कुखनापोताना संभू  
उपनाबालक स्तननाट्टुधधावणनां लोभियाएतलेमाताना आंचस्त्रिधावताहुई मधुरमीठा वचनेवोलताहुई मामणुखलणयामणुका

जीवितफलं ग्रहं मन्ये वितर्क्यासि यासां निजककुच्चिसम्भूतानीत्येवमक्षरघटना कार्या निज ककुच्चिसंभूतानि डिंभरूपाणि इति  
 गम्यते स्तनदुग्धलब्धकानि मधुरसमुष्णापकानि सन्ननंस्खलत्प्रजल्पितं येषां तावितथास्नानसत्वात्कच्चादेशभागमभिसरन्तिसंचरंति

संभूयाद् धणदुद्धलुद्धयाद् सज्जरसमुष्णावगाद् सन्मणपयंपिथाद् यणमूलककवदेसभागं अभिसरमा  
 णाद् सुद्धयाद् यणियंपिवंति तत्रोथकोमलकमलोवसेहिं हत्थेहिं गिरिहडणं उच्छं गी णिवेसियाद्  
 देतिंसमुष्णावएपिएमज्जरे पुणोपुणेभंजुलप्पभर्णएतस्सं अहंअधसाअपुसाअलकवणां अकयपुसाए

लरुद्रत्यादिकबोलबोहे जेनालकाने एहवी सनमूल आंचलयणना मूलयकी काखवाहनदीसभाग अभिसरसंचतां चालतां बालकख  
 नजआंचलनादूधप्रतेपीईके धावताहे एहवा तिवारपच्छीवली तेमाता पुतादिप्रते कोमलसुकमालकमलनी उपमासरिखी सुहालो  
 वेज्जं हाथेकरी ग्रहीनेलेईने उत्तं गखोलाने विषे वैसारयापे द्येदीइंससुष्णापकसाम्हाहं लामणाप्रते प्रितकारोयाभला मधुरमी  
 ठावचन प्रतेवारवारर मंजुलसनोहर समतरोवपुतईसकहे वेटाप्रते तेपुन्याउत्तमाधन्या स्त्रीजाणिवी तेधन्याकारणयकी ऊं अध



स्तनजं पिबन्ति ततश्चकोमलकमलोपमाभ्यां हस्ताभ्यां गृहीत्वा उत्सृज्जनिवेशितानि ददति समधुरान् समधुरान् एत्तो एगमविनप  
 त्तित्तद्वतः पूर्वं एकमपि डिम्बकं न प्राप्ता अथवा इत उक्तलक्षणात् डिम्बकविशेषणकलापादेकमपि विशेषणं न प्राप्ता वह्नियानागवराणि

त्तो एगमविणपत्तातं सेयं मम कर्हं पाउप्यभाएरथणो एजावजलंते धसुं सत्यवाहं आशुच्छेत्ता धसुं गंसत्य  
 वाह्येणं अरुभणुस्यायासमाणी सुबहु विपुलं असरणं पाणं खाद्रुमं साद्रुमं उवक्खडावेत्ता सुबहु पुपफ्रवत्यगं

न्याच्छुं अपुन्यापुन्यरहितच्छुं भलालक्षणे करीरहितच्छुं असुंदर पाडएलक्षणे करी सहितच्छुं अकीधा पुण्यनीपापनी भोगवणहारी  
 छुं इहांशुकी पूर्वैकपणिवालकप्रते नयामीडुं तेकारण्यकी अयकल्याण होसुक्ने कालिआवतेकाले प्रगटप्रकाशवं तथायेदीयवे  
 लायेप्रभातिसूर्यजग्ये छते जावत्जालगेजाजल्यमानदेदीयमानतेजवंतएहवो सूर्योदये छते धनासार्थवाहप्रते आपूच्छीने धनानामा  
 सार्थवाहे आन्नादीधी छती अतिघणुं रूडुं विस्तीर्णविशेष अरण्यन्न पाणीखादिममेवामाल स्वादिभतं बोलादि एच्यारप्रकारनाआ  
 हारप्रते रंधावीनेनीपजावीनेपके घणुं जघणुं रुडा अणुं गंधासोकला फूलसुगंधघूपमाल्यगुंध्या फूलनीमाला अलंकार आभरणादिक

धमल्लालंकारंगहायवद्धं मित्तणोद्भ्रुणियगसयणसंबंधिप्रियणमहिलाहंसद्धिंसं परिबुडाजाद्रं इ  
माद्रं रायगिहस्सणयस्स बहिद्याणागाणियभूयाणिय जक्खाणियद्रं दाणिय खंदाणियरुद्दाणिय  
सिवाणियवेसाणिय वेससणाणियतत्थणंवज्जणं णागपडिमाणियजाववेसमण पडिमाणियअहरिहं

प्रतेलेइनेवणामित्तनी ज्ञातीमातापितानाभाइं प्रसुखनीनिजकपोतानापुत्तादिकने ठामिज्जवे तेहनी स्त्रीस्वजनपीतरियाप्रसुखनी  
संघिपुत्तने ठामिकहाबोलवीयेतेहनासुसरादिकवे वाहिनीपरिजनदासस्त्री दासेत्यादिकांनी स्त्रीयासंघातेपरिवरिच्छती जेआग  
लकाहिस्ये तेनागादिक राजगृह्नगरनेविषे वाहिरनागय ज्वादिदेइवतानादेहराघरच्छे यच्चनादेहराघरच्छे इन्द्र  
नाघरच्छे खंदकार्तिकेयस्वामीनाघरच्छे रौद्र ? तेहनाघरच्छे शिवईश्वरनाघरच्छे वैस्यदेवतानाघरच्छे वैश्रमणकुवेरदेवतानाघरच्छे तिहां  
जईनेवणी नागदेवतानाघरप्रते प्रतिमाप्रते जिहाताइबैश्रमण कुवेरदेवतानी प्रतिमाच्छे तिहांताइ कुवेरदेवतानीप्रतिमापयंतप्रते  
वज्जमुल्य एहवेफूलादिकेकारीपूजाप्रतेकरीने जाणुवैठीचणेकारीवेठी चणकारीयईठीचण धरतीनिविषयापीने नमस्कारप्रतेपामीएत

येत्यादिप्रतीतंजसु पायवडियत्तिजानुस्यानुपादपतिता जानुनीभविबिन्ध्यस्यप्रणतिंगतेत्यर्थः जायंचेत्यादि यागंपूजांदा  
यंपूर्वदिवसादौदानं भागंलाभांश्च अक्षयनिधिमव्ययंभांडागारं अक्षयनिधिवामूलंधनं येनजीर्णीभूतस्य देवकुलस्योद्धारःकरिष्यते  
अक्षीणिकांप्रतीतांवल्लुंयामि पूर्वकाले अल्पसंतमहांतं करोमीतिभावःउववाइयंति उपयाच्यतेस्त्वयत्तत् उपयाचितमीप्सि

पुणःश्रुणियंकरेत्तजानुपायवडियाएएवंवइत्ताजइगंअहंदेवाणुप्पियादारगंवा दारियंवापयायामि  
तेणंअहंतुभंजायंचदायंच भायंचअक्खयणिहिंच अणुवइमित्तिकइ, उवाइय उववाइत्तएएवंसंपे

लेपगेपडीनेएसंकहीनेकहे जोऊंहेनागदेवतादेवप्रसुख हेदेवानुप्रिय दारकपुत्रप्रतेवादारिकापुत्रीप्रते प्रसवस्युजणस्य, तोऊं तुमभ  
णीयागपुजाप्रते करस्यु दायक० पर्वदिवसानेविषे दानदेस्यु, भागंक० द्रव्यनाभाग अंसविप्रेभागप्रते देस्युआपिस्यु, अक्षयनीधि  
भंडारनानिधानद्रव्यवधार अथवामूलधनजेषे द्रव्ये जूनादेहरानो उद्धारकरीस्युं, तेवधारूपूर्वं भंडारनोद्रव्यथोडोक्खे तेमेवणोकर  
वधार उवयाइययाचीइंसांगी इहेजेवस्तुवाक्खितवस्तुयाचिवाभणी प्रार्थनाकरवाभणी एसमध्यरातिमांहिभद्राविचारेविचारीने आ

हेइरत्ताकह्यं जावजलंति जेणामेवधस्ये सत्यवाहि तेणामेवउवागच्छइरत्ताएवंवयासीएवंखलुअहंदेवा  
 णुप्पियातुभेहिंसद्धिं वड्डइं वासाइं जावदे' ति समुह्खावएसुमऊरेहिंपुणो'रसंजुलप्पभणिएतस्यं अहं  
 अधणाअपुणाअकयलक्खणा एत्तोएगमविणपत्तातंइच्छामिणंदेवाणुप्पियातुभेहिंअभणुखायास

वतेकालिसूर्योदयसूर्यउदयपांमेच्छे जिहांधन्तोसार्थवाह्छे तिहांआविभद्राआवीने एहवंकहतीऊई धनाप्रतेएवंइणेइणप्रकारे अहंऊ  
 खलुनिचयहे देवानुप्रियतुह्रसंधातेघणावरसताइपंचेद्रीसंधीयाभोगव्यातोपणिकोइपुतपुवीलक्ष्णकोरूपामीनहीजिहांलगीते  
 धन्यापुन्धवती माताजेछोरप्रतेखोलामेयापेयापीने ऊलरावेतेधन्या प्रीतकारीयामीठा वचनेनेसामणाकहे वारंवारसंजुलमनोहर  
 मामतरोवमाताकहे तेउत्तमाधन्यास्त्रीजांणीतेकारणयकीऊं अधन्याछो पुखरहितकु माहराअसुंदरपाडूयालक्षणदीसेछेजेकार  
 गायकी आजयकीपूर्वैकपणियालकप्रतेनयामीऊं' तेकारणयकीइकुकुवांछुकुं हे देवानुप्रिय हेधन्नासार्थवाह तुम्हारी आत्मादीधी  
 ऊतीछतीविपुलघणो असनपानखादिमखादिमएच्यारप्रकारना आहारप्रते रंधावीनेमितानी स्त्रीयासंधाते जावभंडारनाद्रव्यप्रते

माणीविपुलं असंख्यं जाव अणुवट्टे मिउवाइयं करित्तएतएणं धस्से सत्थवाहे भहं भारियं एवं वयासी  
 मसंपियणं खलु देवाणुं प्रियाएसचेवमणोरहेकहस्से तुमंदारगं वादारियं वापयाएज्जासिमहाएसत्थवा  
 हीएयमडुं अणुजाणइ तएणं साभहासत्थवाही धस्से णं सत्थवाहे णं अभणुखायासमाणी हट्टुवुड्डाजाव  
 हिययाविउलं असणपाणखाइमसाइमं उवकखडावेइरता सुबडुं पुण्णगंधमल्लालंकारं गिरहइरता

वधाएतिहांताइ एहवुअहीने माणीछेप्रार्थनाकरिवाभणीपुतवापुलीप्रते एहवभद्रायेकच्छा तिवारपच्छी धन्नोसार्थवाह भद्राभार्थीप्रते  
 बलतोइमकहतोऊओ सुभनेपिणखलु निच्चयसहितहे देवानुप्रियहेभद्रे एहिजमनोरथछे जेकिसेउपाये तं पुतप्रतेपुलीप्रतेवा अथवा  
 प्रसवेजणेतो वारूमद्रासार्थवाहीनो एअर्थएअभिप्रायसंताननीचिंताएप्रयोजनप्रतेऊं जाणुं एहवधुनेकच्छोतिवारपच्छी तेभद्रासार्थ  
 वाहीधनेसार्थवाहे आजादीधी ऊंतीकती हर्षसंतोषपांमी जाव सद्धना ग्रहणथीहर्षवाची सर्वशब्दकहिवा धणु हृदय हर्षभराणी  
 छतीविपुलधणु असनअन्नपांणी स्वादिमखादिमतं वीलादिएच्यारप्रकारना आहारवणवावे नीपजावेरंधावीने धणु रूडाघणा

तं वस्तु याचितुं प्रार्थयितुं उल्लस्य पडसाडयेत्ति स्नानेनार्द्रपटशाटिके उत्तरीयपरिधानवस्त्रे यस्याः सातथाश्रालोएत्ति दर्शनेननागादि

सयाओगिहाओगिगच्छइत्तारयगिहंणयरंमउभंमउभंण्णिगच्छइत्ताजेणेवपोक्खरिणीतिणेवउ  
वागच्छइत्तापुक्खरिणीएतीरेसुवह्णुण्णगंधमल्लालंकारंठवेइत्तापुक्खरिणीओगाहिइत्ताजलमज्ज  
णंकरेइत्ताजलकिडंकरेइत्ताएहायाकयवलिकस्माउल्लपडगसाडियाजाइं तत्थउप्पलाइं जावसहस्सप

फूलअण्णगूंथ्यागंधसुगंधवासखेपंधूयणादिमाल्यगूंथ्याफूलनीमालाअलंकार आभरणप्रते ग्रहेग्रहीने पोतानाघरथकीनीसरेनीसरीने  
राजगटहनगर.माहिंयइने नीसरेनीसरीने जिहा पुष्करणीकमलसहितवावच्छे तिहांआवेअवीने पुष्करणीवाविनातीरकाठाने  
विपेवणाफूलगंधमाला फूलानीअलंकारपोतानाघरथकी प्रथमलाइच्छे तेप्रतेथापेस्वकेस्वकीने पुष्करिणीवाविमांहिपइसेपइसीने  
जलमज्जनस्नानकरेस्नानकरीनेपाणीनीक्रीडाकरेकरीने स्नानकरीअंधोली स्नानकरी उल्लआद्रनीलाभी गापडगोपरिओढवानो  
वस्त्रअनेसाडीपहिरवानोएहवा वस्त्रेजेह अद्रानाएहवेच्छती जेतेपुष्करणी मांहिकमलक्षेयतपत्त हजारपांथडीनाकमलक्षेतेकम

प्रमाणानां प्रणामं करोति ततः प्रत्युत्पन्नमति लोमहस्तकं प्रसाज्जं निकं पराश्रयति गृह्णाति तत्खेनताः प्रसाज्जयति अब्भक्खे इति च

त्ताइं ताइं गिरं हइइं तापुक्खरिणीओपच्चोरुहइइं तुबहुपुफ्फवत्थगंधं मल्लं गिरहइइं ताजेणामेवणागधर  
एयजाववेसमणघरएयतेणेवउवागच्छइइं तातत्थरणंगणपडिमाणयजाववेसमणपडिमाणयओयलोमहत्थेणंप्रम  
मंकरेइइंसिपच्चणमइ लोमहत्थगंधरासुसइरणंगणपडिमाणय जाववेसमणपडिमाणयलोमहत्थेणंप्रम

लानेलेवेलेवीने पुष्करणीधीवाहिरअविआवीने तेपहिलांधणाफलगंधपूणादिसुगंधमाला फूलनीअलंकारमूं क्वाळे आभरणमेल्या  
केप्रते ग्रहेग्रहीनेजिहांनागयच्च देवतानाघरदेहरा आदिप्रथमपहिलाके तिहांथकी आरंभीनेजिहांलगी केहलोवेअमणकुवेरदेवता  
नोघरकेतिहांताइअविआवीने तिहांनागयच्च देवतानीप्रतिमाआदिदेइ जिहालगीकेहलीकुवेरधनदेवतानी प्रतिमापधंतप्रतिमा  
नेसघलीयादींठिक्कते प्रणामकरेहाथजोडे थोडोसोमाथोनीचो मोडे लिगारिक पकेलोमहत्थगंक० मोरनापौंकेनीपूजणी प्रतेपरा  
सुसेतिवारपच्छी नागदेवतानी प्रतिमाआदिदेइसगली जिहांवेअमणकुवेरधनदयच्च देवताइं ड्रनो भंडारीतेहनी प्रतिमापधंततेणे

ज्जइद्रगधारएअभुक्खेइ२पुहलसूकमालाएगंधकासाइगायाइं लूहेइं महिरहंवथारुहणंमह्वारुह  
 रांगंधारुहणंचचुस्सारुहणंवणारुहणंचकरेइजावधुवंडहेइजाणुपायवडिश्रापंजलिउडा एवंवयासीज  
 इणंअहंदारगंवादारियंवापयायामितोणंअहंजायंचजावअणुवट्टेमिच्चिकहुउवाइयंकरेइजेणेवपोक्ख

सोरपीछेनेपूजणीकारीतेनगादिप्रतिमाप्रते प्रमार्जेपूजे जीवजयणाकरे पछेपाणीनीधाराइकारी अभिषेककरेपखालेपखालीनेपह्व  
 लपन्नवतीजेहनापूं भावाहिरएहवी सुकमालसुहालीसुगंधेसहितकापायिकाकषाइकारीराति सुं कडिकेसरीभरीरहेहेएहवीजेसाडी  
 अंगलूहगारूपतेगोलूह्यान्हे अंगसरीरजेनागादिकुवेरदेवपयंतप्रतिमानाएहवापछेमहर्ष्यं वज्रसूत्यसूहवाएहवावखचढावेपहिरावे  
 मालाफूलनी गलेचढावे गंधसुगंधधरेप्रतिमानेसरीरे जिहार जेहवोर वर्णसोभाकरे तेहवोर वर्णचढावेवर्णकरे तथाअविरादि  
 चूर्णछाटे अंगारादिकधूपप्रते वालेउखेवे पछेढीचणुवेहं धरतीने विषयापीपगेपडी वेहायलोडीकरी एहवोमांगतीऊई हेनागादि  
 कयन्नजोऊं पुत्रप्रते अथवादारिकावेटीप्रते प्रसवुजणुतोऊं घणीपुजाप्रतेकरं पर्वदिवसादिकनेविषे दानदेउं द्रव्यनालाभभागदेऊं



अभिचतित्वस्वारीहणादीनिप्रतीतानि चाउद्दसीत्यादौ उद्दिष्टिअमावास्या आपन्नसत्तत्तिआपन्नउत्पन्नः सत्त्वोजीवोगभयथाः सा

रिणीतिशेषवत्तवागच्छद्दत्ताविउलंअसणं४ आसाएभाणीजावविहरइजिमियजावसुद्र भूयाजेशेवस  
एगीदृतिशेषवत्तवागच्छद्दत्तुत्तरंचणं भद्दासत्थवाहीचाउद्दसद्दुसुद्दिद्दुपुण्णमांसिणीसुविपुलंअसणं४उ

भंडारद्रथ्यनोवधासं अथवापद्यादेहरानो उद्धारकराउं इमकहीनेयाचनाकरे मांगेमांगिनेतिहांयकीजिहांपुष्करिणीवाविच्छे तिहां  
आवेआवीनेविपुलघणाअन्नादिच्यारप्रकारनाआसाएक० स्वादयंतीखातीछतीघणुनाखतीछे खेलडीनाखंडनीपरिघोडोनांखतीनयी  
जिमवायोग्यभो जनपरिभाएभाणी माहीमांहिअनेरानेदेतीछे परिभंजमाणेपरिसामस्यपणेभोजनकरतीछे जिमीभद्रासार्थवाही  
तेपूर्वीत्तपरिवारसंघाते भोजनकीघायकी अनंतरतेसर्व नाथानिकनेविषे आवोवतीनिर्मल पाणीइकरीचलूकीधो सितादिकनेटाल  
वेकरीएकारणथकी परमवणुशुचीभतपवित्वभूतयद्द एतावताचलूलेइपवित्वथईछती भद्रासार्थवाही जिहांपोतानोघरत्ते तिहांआवे  
आवीनेसगलापरिवारसहितअथहिंवे वलीभद्रासार्थशाही चउद्दसउद्दिष्टक० अमावास्या आठमिपूनिमएच्यारतिथिनादिवसनेविषे

वक्त्रुडेइरत्ता वहवेणागाणयजाववेसमणाणयउवायमाणीणमंसमाणी जावएवंचणंविहरइतएणं  
 साभहासथवाहीअणयाकथाइ'केणं कालंतरेणंआप्रखसत्ताजायायाविहोत्थातएणंतीसेभहाएसत्य  
 वाहीएदोसुमासेसुविइक्कंतेसुतइएभासेवट्टुमाणेइमेयारूवेदोहलेपाउभ्भुएधखाओणंताओअम्मयाओ  
 जावकयलक्खणाओताओअम्मयाओजाओणंविउलंअसणं४सुबुज्जुयुपफ्फगंधमल्लालंकारंगहायमित्त

घणुविसीर्णअसनपानखादिसमेवामावस्वादिमंतंवीलादिअजमादिएच्यारप्रकारना आहारप्रतेरंधावेरंधावीने घणानागदेवताना  
 यत्तआदिदेइ जिहांधनदेवयत्तच्छेहिलाताई पुलअथवापुलीप्रतेमांगतीच्छती नमस्कारकारतीच्छती सुखेसमाधेएणेप्रकारेविचरेच्छेति  
 वारपत्तीतेभद्रासार्थवाही एकदाप्रस्तावे घणादिवसमासथकी अनंतरकेतलोकालंतरेआपन्नकहतांजपनोच्छेसत्तजीवगर्भनेविषे जेभद्रा  
 नेएहवीभद्रासार्थवाहीगर्भवतीज्जई तिवारपच्छी तेभद्रासार्थवाहीने गर्भजपनावेमासव्यतिक्रमेगइच्छते लीजोमासवर्त्ततेच्छते लीजा  
 मासमाहि एहवोदोहदमनोरथजपनो दोहलारूपधन्यते पुलवेटानीमातानो जिहांताईकीषाच्छेपूखाच्छेदोहलालक्षणसगलामनोरथ



अस्यंशुआसाएमाणीओजावपरिभुंजमाणीओदोहलंविणेति एवंसंपेहेइरत्ता कलुंजावजलंतिजेणेवधसे  
 सत्यवाहे तेणेवउवागच्छइरत्ता धसुं सत्यवाहंएवंवयासीएवंखलुदेवाणुषियाममतस्वगभसस्वजावविणं  
 तितंरूच्छामिणंदेवाणुषिया तुभेहिंअभसणुस्यायासमाणीजावविहरित्तएअहासुहं देवाणुषियाआप

पणंजरतीछे तेधन्याविचारिनेचिंतवीने कालिआवतेकालिजिहंगी जाजुल्यमानओसूर्यउदयपामेछेते जिहंगधनोसार्थवा  
 क्केतिहायवेआवीनेभद्रासार्थवाही धन्नासार्थवाहप्रते इमपर्वोक्तप्रकारदोहलालक्षणाप्रकारकहतीऊई इणेप्रकारेखलुनिचयसहि  
 तहेदेवानुप्रियमाहरातेगर्भने दोहिलो उपनोछेतेपरोथाईतिसकरो जावजीवलगी धन्यपुलांनीमातापोतानामनोरथदोहतापरा  
 करेहेतेधन्यऊंअपुन्यछुं पुन्यरहितछुं तेमाहरागर्भने दोहलारूपमनोरथपूरोथातोनीतेकारणथकीईछुंक वाछुछु हेदेवानुप्रियहे  
 धन्नासार्थवाह तुम्हारीआज्ञादीधीछतीजावतिहां लगीषणाफुलमालाअलंकारप्रते ग्रहीनेमिवादिककीस्त्रीसंघाते परिवरीछतीअस  
 नादिवारप्रकारना आहारंधावीने इत्यादिकसंधकहीने संभलाव्यो तिवारपछीधनोसार्थवाहकहेछे जिमसुखऊइ तिमकरिहे

डिबंधंकरे हतएणंसाभद्दासत्यवाहीधस्त्रेणंसत्यवाहेणंअभभणुसायासभाणी हहृतुश जावहिययाविड  
 लंअसणंठुजावरुहायाकय० जावल्लुपडगसाडगा जेणेवणागघरएजावधूवंडहेइइ२पणाअंकरेइ जेणेवपु  
 क्वरिणीतेणेवल्लवागच्छइ२चातएणंताओमित्तणइजावणयरमहिलाओभद्दासत्यवाहीसव्वालंकार

देव। तुप्रियमाविलंबकरितुं तिवारपच्छीतेआद्रा सार्थवाहीधन्ने सार्थवाहे आच्छादीधी हर्षीसंतोषपामीच्छती जावशब्दनाग्रहणथकी  
 हर्षवाचीशब्दसर्वकहिनाषणु जच्चित्तमांहे हर्षरलीयायतथईच्छतीषणुविस्तीर्णअसनपानखान्खादिमखादिमएचारप्रकारना आहारप्रते  
 रंधावीनेजावजिहंबगी अंधोलीतिहंताइजावतिहंपुष्करिणीयकी कमललेईनेकांठेफुलादिकम्बुवाछेतेलेइनेनीलीभीनीओढवानी  
 पहिरवानीशाडीछे जेहनेएहवीच्छतीजिहंतागदेवतानाघरदेहराआदिदेईधनदयस्वरादेहरानीप्रतिमाताइ देखीप्रणामकरपीपूजा  
 प्रतेकरीजावधूप्रते उखेवेजखेवीने प्रणामकरे प्रणामकरीने जिहंपुष्करणीवाविछे तिहंभद्रासार्थवाहीआवेआवीने तिवारपच्छी  
 तेमित्तज्ञातिपोतानामाताप्रिताभाई प्रसुखदास नगरनीवासी पुरुषइत्यादिक पुरुषांनीमहिला स्त्रीयासहित, भद्रासार्थवाहीस

विभूसिंकरे तितएणंसाभद्दासत्यवाहौताहिंसित्तणाद्रणियगसयणसंबंधि परिचयणयरमहिलिया  
 हिंसद्धितं विपुलंअसणंठुजावपरिभुंजमाणौयदोहलंविणेतिजामेदिसंपाउभूयातामेवदिसंपडिग  
 यातएणंसाभद्दासत्यवाहौसंपुण्णदोहलाजावतंगभंभंसुहंसुहेणं परिवहद्दतएणंसाभद्दासत्यवाहौणव  
 णहंमासाणंवज्जपडिपुण्णाणंअहुइमाणरायंदिद्याणंसुकमालप्राणिप्रायंजावदारंगंपथायातएणंतस्सदार

गला अलंकारपद्धिरेवसनी विभूषासोभाप्रतेकरे तिवारपच्छी तेभद्दासार्थवाही तेमित्तज्जाति निजगसयनखजनसंबंधिवेवाहीपरिज  
 नदासनगरनिवासी पुरपइत्यादिकानी स्त्रीयासंघाते विपुलविल्लीणेषणाचारप्रकारनाआहारप्रतेरंधावीनेयोडुखातीछे षणुनाख  
 तीजिहलगीमाहोमाहि अनेरीस्त्रीयानेदेतीछती भद्दासार्थवाहीजिमताजीमाडतां दोहलाप्रतेपूरोकरे जेदिसयकीआवीऊतीतेहि  
 जदीसनेविषे पाच्छीवलीलेइनेगइ तिवारपच्छी तेभद्दासार्थवाहीसंपूर्णपरिपूर्ण दोहलाकीधायकीअनंतरजिहलगीतेगर्भप्रतेसुखेसमा  
 धिपरिवहेछे तिवारपच्छी तेभद्दासार्थवाही नवमाससंपूर्णऊवेछते ऊपरसाढासातदिवसव्यतिकसेछते एतेलेनवमासऊपरिसाढासा

गस्य अस्मापि यरोपटमे दिवसे जाइ कर्मकरं तित हेव जाव विपुलं असणं उवक्खडा विइत हेव मित्तणा इभो  
 यावेत्ता अयसेया खवं गोसं गुणनिपणसं णामधिउभंकरे इइत्ता जमहाणं अरुहं इमेदार एअरुहं णागप  
 डिमाणय जावेसमणप्रडिमाण उवाइय लइणं तं होउणं अरुहं इमेदार एदेव दिसे णामेणं तएणं तस्सदा

तदिवस गयांथका अनंतर सुकुमालसुं हाला हाथपगच्छे जेहना दारकवालकप्रते प्रसवे जणे भद्रासार्थवाही तिवारपच्छी तेपुत्रनामाता  
 पिताप्रथमपहिला दिवसने विषे जातकर्मनालच्छेद्रनोकर्मकरे तथा अनेकजन्मना उत्सवमहोत्सवकरे करीने तिमजजिहांताई विपुल  
 घणाविस्तीर्णं अन्नपाणीखादिमखादिमएच्यारप्रकारना आहारप्रते रंधावेरंधावीने तिमजमित्तजाति आदिदेई दासनीस्वीया  
 पयंतते डीनेसऊने जीमाडीनेतेहानीसाखे एहवोजेहवो स्वरूपकहीयेतेहवो गुणयकीआव्यो गुणे करीनीपनुं एहवं नामधिज्जं देव  
 दिन्ननासकरे जेकारणयकी अमारि एप्रत्यक्षदारकवालक धणीनागयक्ष देवतानीप्रतिमाआदिदेइ जिहांलगीछेहलीवैअमणधनद  
 यत्तनीप्रतिमाताइं पूजा करीनमस्कार करीछे तेहनेपासे उपयाचित मांगवांने उपाये करीलाधोपास्यो बालक तेकारणयकी ऊओ

रगस्सअस्मापियरोणमधिज्जंकरेतिदेवदिस्सेस्मितएणंतस्सदारगस्सअस्मापियरोजायंचभायंचअक्ख  
 यण्हिंचअणुवड्ढेतितएणंसंपथदांसचेडएदेवदिस्सदारस्सवालगाहौजाएदेवदिस्सं दारगंकडिएणि  
 रहइरवह्महिंडिंभएहियदिंभियाहियदारएहियदारियाहिय कुमारीहिय कुमारियाहियसद्धिंसंप

याओ हमारि एप्रत्यज्जदारकवालक ते देवदिन्नवालकनामेयाओ तेकारणयकी तेवालकनापुत्रना माताअनेपितानामधेज्जनाम  
 करेयापेदेवदिन्ननामा तिवारपच्छी ते देवदिन्नवालकना माताअनेपितायागपूजाआरतीकरे चारपर्वनादिवसनेविषे दानदीर्घभाग  
 द्रव्यनालाभना अंसभागप्रते आपेतेनागयत्तैवअसणनी प्रतिमाने तथावलीनागादियत्तनाभंडारनाद्रव्यवधारेद्रव्यादिकमानणानी  
 क्खणासर्वकरे तिवारपच्छी तेपंथकदासनो वेटोदेवदिन्ननामावालकपुत्रनो वालकनेग्रहीतेडीजाइ देवदिन्नवालक  
 प्रते कडिनेविपे ग्रहेलेवेलेईने घणाच्छोकरासंघाते घणीच्छोकरीयासंघाते घणावालकप्रते घणीवालिकासंघाते परिवस्योच्छतोरमतो  
 कीडाकरतोच्छतो रमाडेक्खेलेलावेक्खे तिवारपच्छी तेभद्रासार्थवाहीकुिवारिकएकदाप्रसावे देवदिन्न वालकप्रते अंधोलावे तिवार



रिवुडेअभिरममाणेअभिरमद्वृतएणंसाभहासत्यवाहिअण्णयाकयाइदेवदिण्णं दारयंएहायंकयवलिक्क  
 म्भंकयकोउयअंगलपायच्छित्तंसव्वालंकारविभूसियंकरेइ पंथयस्सदासचेडयस्सहत्थयंसदलयइतएणं  
 सेपंथएदासचेडएभहाएसत्यवाहीएहत्थाओ देवदिण्णं दारगंकडीएगिण्हइइसयाओगिहाओपडि  
 णिक्कवमइइबहुहिंङ्गिंभएहिय ङिंभियाहियजावकुमारियाहिंसद्धिं संपरिवुडेजेणेवरायमग्गेतेणे

पच्छीकीधोवलिक्कर्मघरनादेवतानोपूजाकर्म कीधोपच्छेकीधच्छेकौतुकमपीमसिन्वातिलक्क द्रोवप्रसुखमंगलीकनिन्तप्रायश्चित्तविषननि  
 वारवाभणी सगलेअलंकारे आभरणेकरीसोभायमानएहवाप्रतेकरेपच्छे पंथकदासकुमारनाहाथनेविषेअपेतिवारपच्छीतेपंथकदास  
 कुमारभद्रासार्थवाहीना हाथयकी देवदिन्वबालकप्रते पोतानीकडिनेविषे ग्रहेग्रहीने पोतानाघरयकी नीसरेनीसरीने घणाङ्गिमक  
 छोकाराघणीछोकारी जिहालगीघणीकुमारिकाकन्यानापरिवार संघाते परिवस्योच्छतो राजमार्गराजपंथछे तिहांआवेअवीने देव  
 दिन्वबालकप्रते एकांतेएकपासेथापे बैसारेपच्छे घणाओकरा जिहांलगीघणीकुमारिका संघातेपरिवस्योच्छतो प्रमादकरेरासति

तथाङ्गिभदारककुमारकाणामल्पवज्जतरकालकृतोविशेषः सूच्छित्तोमूढोगतविवेकचैतन्यइत्यर्थः श्रुतितोलीभंतुभिःसंदर्भितः गृह्यः

वज्रवागच्छइत्तादेवदिखं दारयंगंतइवेइ बज्जहिंङ्गिभएहियजावकुमारियाहिंसङ्गिसंपरिवुडेपम  
 त्तैयाविहोत्याविहरइइमंचणंविजय तक्करेरायगिहस्सणयरस्सबज्जहिंदाराणियअवदाराणियतहे  
 वजावअभाओएमाणे मग्गमाणेगेवेसमाणेजेणेव देवदिखे दारएतियेवउवागच्छइत्ता देवदिखं दार  
 यंसव्वालंकारविभूसियंपासइत्ता देवदिखस्सदारगस्स आभरणालंकारेसुसुच्छिए गट्टिएगिइ अ

कीडाविनोदकरवालागो एहवासमयने विषे एहवुविजयनामा चोरराजगृह्नगरना घणावारणा पोलकमांडनी तथाघणीनगरी  
 नीवारीनांवारणाइत्यादिकतिमजपाच्छिली परिजावजिहांताइ आभोगतो जोतोछतो मार्गणाकरतोछतो गवेषणाकरतोछतो जिहां  
 तिहांपरिभमतोछतो जिहां देवदिन्ननामाकुमारवैठोछे तिहांआवेआवीने देवदिन्ननामादारकवालकसगलाअलंकारआभरणादि  
 कनेअलंकारेकरीविभूषितसोभायमान एहवाप्रते देखेदेखीने देवदिन्ननामावालकना आभरणअलंकारनेविषे सूच्छित्तोविवेकज्ञान

आकांक्षावान् अर्धपपन्नः अधिकतदेकाग्रतांगतइति श्रीब्राह्मीनिष्कार्थिका निशीप्रतातिप्रयत्नापनार्थानिनिःप्राणमुत्श्वासादिरहितं

उभोववस्ते पंथयंदासचेडयंपमत्तंपासईर्दिसालोयंकरेइर्त्ता देवदिष्टं दारगंगिणहइर्त्ताकवखं सिअस्त्रि  
थाविइर्त्ताउत्तरियेणंपिहेइसिग्वंतुरियंचवल्चेइयंरायगिहस्वणयरस्त्रवदारिणंशिणगच्छइर्त्ताजिणेव  
जिणुल्लारेजेणेवभगक्वएतेणेवउवागच्छइर्त्तादेवदिष्टं दारयंजीविथाओववरोवेइर्त्ताभरणालंकारं

पणोगयो ग्रथिलपणे लोभरूपंतुइकरीगूथो तेलेवानेविषे घणुएकाग्रतापणाप्रतेघयो पंथकदासकुमार प्रभत्तप्रमादअसावधानप्र  
यापणाप्रतेदेखेदेखीने देवदिन्नालकप्रते ग्रहेलीएलेइने काखवाहनेविषे लीइलेइने एतलेवाहमाहिधालीने उत्तरीयकहतांओ  
दवानोवखतेणेकरीढाकेढांकीने सीप्रउतावलो त्वरितघणुउतावलो कायानाचपलपणायकी घणुजउतावलोछतो रखेकोईदेखेइत्या  
दिकभयअणतोछतोरजगटहनगरनी वारीइकरी नीकलेनीसरीने जिहाजूनोवनखंडछेजिहांभागोपड्योक्छेतिहांआवेआवीने  
देवदिन्नामाबालकप्रते जीवतव्यथकी दसप्राणथकीजूदेकरे एतलेमारि मारीनेपछे आभरणअलंकारसगलोग्रहेग्रही

निचेष्टं व्यापाररहितं जीवविषयजडं तः आत्मना विप्रसुक्तं निश्चलोगमना गमनादिवर्जितः तः निष्प्रदोहस्ताद्यवयवचलनरहितः तृष्णीको

गिरहस्ता देवदिस्सुसदारगससरीरं शिप्राणं शिचवेष्टुं जीवविषयजडं भगवत्प्रकृतिवद्वृत्ताजिणैव  
मालुयाकच्छएतेणोवउवागच्छइस्तामालुयाकच्छयं अणुष्विसइस्ताणिच्चलेणिसिप्रदं देवुसिणीएदिव  
संखवेसाणेचिइतएणसेपंथएदासचेडए तत्रोसुज्जत्तरस्सजेणैवदेवदिस्से दारएठविएतेणैवउवागच्छ

नेलेइनेपच्छे देवदिन्नवालकनोशरीर निःप्राणसासोस्वासादिदसप्राणादिरहित कलेवरनिचेष्टहालवाना व्यापाररहितचेष्टारहित  
प्राप्ताइं जीविइं करीवि प्रसुक्तरहितएतावतासृतकसरीरएहवादेवदिन्ननासरीरप्रतेभागाङ्गानि विषे लेईनाखेनाखीने प्रक्षेपेयापे  
विजयचोरजिहामालयानामकाच्छे तिहात्रावेअवीनेमालुयाकाच्छाप्रते पच्छेपइसि प्रवेसकरेतिहांएहवोयकोरहे तेचोरनिश्चल  
गमनादिरहितच्छतो निष्प्रदहाथपगादिकनाअवय तृष्णीकवचन रहितअणुबोल्थोएहवो दिवसप्रते खपावतोनी गमतोच्छतो तिवार  
पक्षी पंथकदासकुमार तेदेवदिन्नवालकचोरलीधायकी अनंतरसुद्धत्तांतरनेयोगे वेघडीपच्छीजिहां देवदिन्ननामावालक थायोच्छे

वचनरहितः चेपयन्प्रेरयन् श्रुतिवार्त्तामातंश्रुतंतस्यै वसंबंधिनंशब्दं तच्चिह्नंवा प्रष्टत्तिव्यक्त्यंतरवार्त्तानीतोमित्रादिनास्वगृहेअप

इरुत्ता देवदिष्णं दारयंतंसिटाणंसि अप्रासमाणेरोयमाणे कंदमाणेविलवमाणे देवदिष्णस्सदारगस्स  
 सव्वञ्चोसभंता मग्गणगविसणंकरेइ देवदिष्णस्सदारगस्स कत्थेइसुइं वाखुइं वा पउत्तिंवाअलभमाणे  
 जेणेवसएगेहेजेणेवधस्से सत्थवाहे तेणेवउवागच्छइरुत्ताधस्सं सत्थवाहंएवंवयासीएवंखलुसामीभद्दा  
 सत्थवाहीदेवदिष्णं दारयंरुहायंजावसमहत्थंसिदलयइरुत्ता एणं देवदिष्णं दारयंकडौएणिण्हइरुत्ता

सूक्तोक्ते तिहांतेठामनेविषेआवेआवीने देवदिन्न बालकप्रते तेठामथानकनेविषेवेठो अणदेखतोछतोरोतोछतो आक्रंदकरतोछतो  
 विलापकरतोछतो देवदिन्ननामा बालकनीसगलेचउफेर मार्गणागवेषणाप्रतेकरे एतलेसगलेजोवे परं देवदिन्नबालकनीकिहांइ  
 श्रुतिवार्त्ताप्रते तेबालकनुचुत्तिच्छीकअथवाचिह्नप्रते तेबालकनीप्रष्टत्तिक प्रकटवार्त्ताप्रते अणलहतोअणपामतोछतो पंथंकजिहां  
 पोतानोघरक्के जिहांधनो सार्थवाहक्के तिहाआवेआवीने धन्नासार्थवाहप्रतेएहवोकहतोऊओ इणप्रकारेखलुनिअथ हेस्वामिनुभद्दा

हृतचौरैण आक्षिप्तउपलोभितः परसुनिवत्तेव्वन्ति परधुनाकुठारैणनिष्कत्तः छिन्नोयःसतथातहत् नगरगोत्तियत्ति नगरस्यगुप्ति

जावक्षगणगवेसुगंकरेमिंतण्णज्जइरुंसाभीदेवदिस्से दारएकेणयतणेतिवाकेणयत्रवहरिएवाअक्खि  
वत्तेवा पायवडिएधणस्ससुत्थवाहस्स एयमइंणिवेइइ तएणंसेधस्से सत्थवाहे पंथस्सदासचेडयस्सएयम

सार्थयाही देवदिन्नत्रालकप्रतेन्हवरांवे अंधोलकरावी धरनादेवपूजी मसितिलकादिदृष्टिनिवारिवा भणीकरीआभरण अलंकार  
पहिरावीएहवावालकप्रते माहराहाथनेविषे आय्योतिवारपच्छी देवदिन्नत्रालकप्रते कडिनेविषेमेग्रह्योलीधीलेइं राजमार्गमांदि  
गयो जिहंघणाच्छोकरा कुमारिकाविनोदकरेके तिहंगवोएकांते बालकवेठारीऊं' छोकराछोकरीमांदिक्कीडाकरवालागोपह्वेवडीर  
पश्रीतिहाआब्योवालकदीठोनहीपक्के सगलामार्गणागवेषणाप्रते कीधीपरंवात्तांमात्तपणलाथीनही तेकारणथकीनजाणीयेदेवदिन्न  
वालकने किणहीकमितादिके पोतानाघरनेविषेलीधीतेडीगया वाअथवाकेणेकचोरिअपहस्यो वाअथवाकेणेकलोभपमाडाब्योराम  
कडादेवाडिने पगनेविषेपछोच्छती धन्नावाहसार्थवाहने एहपूवोत्तियप्रथयोजनप्रते कहेसंभलावेतिवारपच्छी तेधन्नोसार्थवाहपंथक

द्वंसोच्चाणिसन्म तेणयमहापुत्तसोएणाभिभूएसमाणे परिसुणियत्तेवचंपगपायवे धसत्तिधरणिणयलं  
 सिसव्वंगेहिंसखिबइए तएणंसेधणेसत्थवाहे तओमहुत्तंतरसआसत्थेपच्छागयपाणेदेवदिखस्सदार  
 गस्ससव्वओसमंताम गणगविसणंकरेइइत्ता देवदिखस्सदागरस्स कत्थइसुइंवाखुइंवा पडत्तिंवा

नामादासकुमारनासुखयकी एपूर्वोक्तअर्थपुत्रअपहखालक्षण प्रयोजनप्रतेसांभलीनेहीयामांहि अवधारीने तेणेमाहामोटे पुत्रवेटा  
 नेसोकिकरी अभिभूतपराभय्योपीड्योछतो फरिसिकहतांकुठारकुहाडेकरी नियत्तकहतांनिकतछेदो काय्योजोचंपकनामाचांपाट्ठ  
 तेजिमधसकीधसीने धरणींतलष्टयिवीनेविषे हेठोपड् तेमतेट्ठनीपरि धन्वोसार्थवाहसवंगेकरी धसकीने हेठोभूमिपड्योपुत्तनी  
 वार्त्तासांभलीने तिवारपक्की तेधन्वोसार्थवाह तिहांयकीसुद्धत्तांतरघडीर वेनेआंतरे आश्वस्ससांसतोस्वसाथयो प्रत्यागतप्रांणठांमि  
 आव्याप्राणतिवारपक्की देवदिन्ननामा बालकने सगलेचउफेरतत्काल मार्गणागवेषणाप्रतेकरे देवदिन्नबालकनीइकिहाईश्रुति  
 वार्त्तांतबालकसंवंधीउक्कीकवो प्रकटवार्त्ताप्रते अणलहतोअपामतो जिहांपोतानोघरुक्के तिहाआधेआवीनेधन्वोसार्थवाहमालेघणुभे

अलभसाणेजेणेवसएगिहेतेणेव उवागच्छइरेत्तामहत्थंपाऊडंगिगहइरेत्ताजेणेवएयवगुत्तियातिणेव  
उवागच्छइरेत्तातंसहत्थंपाऊडं उवणेइरेत्ताएवंवयासौ एवंखलुदेवाणुप्पिया भसयुत्ते भद्दाएमारि  
याएअत्तए देवदिस्सेणासंदारएइडे जावडंवरयुगंक्रंपिवइल्लुहेसवणयाए किमंगणुणधासवणयाएतए  
णंसामद्दादेवदिस्सेणहायं सव्वालंकारविभूसियं पंधस्सहत्थेदलयइ जावप्रायवडिएतंसमणिवेइयए

टगोग्रहेग्रहीने जिहानगरनीगुप्तिकहता रचारखवालाप्रते करेतेनगरगुप्तिकाकहतां कोटवालकहीयेतेजिहंछि तिहंआवेआवीने  
तेमोटोवऊमूल्यभेटणु आगलिनूकेस्वकीने इणेप्रकारे कहतोऊओ कोटवालप्रते एमपूर्वीत्तप्रकारिनगरनी रचानो करणहारछो  
तुम्हे खलुनिचयसहितहेदेवानुप्रय माहरोपुलभद्राभार्यानी आलजअंगजपुत देवदिन्ननामावालक तेवणुइष्टजावजिहंताई उंवर  
दत्तनाफूलनीपरिदोहिलोसामलवेकरी अंगकोमलामंतणेतो पुणवलीदसंननोदेखिवो किहंथकी सोहिलोएहवो तिवारपछीते  
भद्रासार्थवाहीदेवदिन्नवालकप्रते अंधोलकरावी सगलाअलंकारपछिरावी एहवोविभूमिपितथोभायमानकरी एहवापुते पंथकनाहाथने



रत्नां कुञ्जतीति नगरगुप्तिकाः आरञ्जिकाः संनद्धवृष्वस्त्रियकवयत्ति संनद्धाः संहननाभिः कृतसन्नाहाः वद्धाः कसाबंधनेन वल्भि ताश्च अंग  
 रचीकृताः शरीरारोपणे कवचाः कंकटायैस्ते तथाततः कर्म्मधारयः अथवा वर्मितशब्दः क्वचिन्नाधीतएव उष्णीखियसरासणपट्टिचाल  
 त्याटिता आक्रांतागुणेन शरासनंधनुसुखस्रज्ज्यापट्टिकायैस्ते तथा अथवा उत्प्राटिता वद्धाशरासनपट्टिका बाहुप्रट्टिकोयैस्ते तथा इत्येते च धनु

तं इच्छामि गंदेवा गुप्त्रिया देवदिस्सुद्धारयस्स सव्वओसमंतामग्गणवेसणं करिच्चएतएणं तीणयर  
 गोत्तिया धम्मं गंसत्थवाह्णिणं एवं वुत्तेसमाणा सणद्धवद्धकवया उष्णखियसरासणपट्टिया जावर्गहिया

विषेते तिहांताई जिहांनी गमाणो गयो ते सर्वसमाचारपंथकेपगेपडी सुश्रुने कस्योति समाचारते कारणथकी इच्छावांछाकरुं छुडुं देवा  
 नुप्रिय देवदिन्दनगतकनी सुगलेदिसोदिसे मार्गणगवेषणा जोवराविवाखबरकराविवाप्रतेकल्ये तिवारपक्की तेनगरनाकोटवाल  
 रखवालापालादिकधने सार्थवाहे एहवुंकच्याडं ताछता तेकेहवाथाइछे सन्नाहणेपहरिरे करीसन्नाहीकी धावद्धक० वांध्याक्केकसा  
 चर्मनेबंधनेकरी शरीरनेविषे रूपकीषाक्के सरीरनेविषे पहिरवाइकरी कवचकंटा लावगतरजिणेकोटवाले बलीकेहवोक्के उत्प्रावल्य

ई राणावाहीचर्मपट्टबंधति इहस्थानेयावत्करणादिदृश्यं पिण्डगुणवेज्जवद् आविद्धविमलवरचिंधपट्टा पिनड्वानिपरिहितानिप्रैवे  
चकाणिग्रीवारत्नारण्येते तथा बद्धोगाढीकरणेनआविद्धः परिहितोमस्तकेविमलोवरचिक्नपट्टोयैस्ते तथा ततःकर्मधारयःगहिद्याउ

उहपहरणा धरणंस्थवाहेणंसद्धिं रायगिहस्स गयस्स बद्धणिअइगमणाणिय जावपवासुयम  
ग्वाणगवेसणंकरेमाणा रायगिहाओणयराओ पडिणिवखमइइत्ता जेणेवजिणुज्जाणे जेणेवभग्ग

पणेपीडीके आकमीचापीके गुणप्रत्यं चाइं करीसरासनक० धनुषनीपट्टिका पाटीजेणेकोटवालेवलीतेकेहवाळे पिण्डगुणवेज्जवद्वा  
विद्धविमलवरचिंधपट्टापिण्डज० पद्धियाळे गेविज्जक० कोटनेरखवालाकवचजेणेकोटवालेवद्दगाढीकरवेकरी आविवद्धक० पद्धियोळे  
सायानेपिपनिर्मलवरप्रधानएहवुंचिक्नपट्टसुगटरूपटोपजेणे कोटवाले वलीतेकेहवोळे ग्रह्याळेलीधाळेआयुद्धहथियारादिकसस्त्रप्रहा  
रदेवाभणीमारिवाभणीजेणेएहवोयईओ धन्नासार्धवाहसंधातेराजगृहनगरमाहिसगलेवद्धषणाअतिषणानीसरवानामारगपइसा  
वानामार्गजिहाताईपर्वचैत्यमठवाविड्यादिकनाठामनेविषे तेदेवदिन्नकुमरनीमार्गणागवेषणा करतारजोताराजगृहनगरथकीवा

हृपहरणाटहीतान्यायुधानिप्रहरणाय प्रहारदानाययस्तेतथा अथवायुधप्रहरणयोः क्षेप्याक्षेप्यकृतोविशेषः ससखंति ससाक्षिसाक्षि

कूवए तेणेवउवागच्छइरत्ता देवदिखस्सदारयस्स सरौरंणिप्पाणंनिच्चेइं जीवविप्पजटं पासंतीरहा  
हाअहोअकज्जमिच्चिकइ, देवदिखं दारगंभगकूवाओ उत्तारेइरत्ताधस्ससत्थवाहस्सहत्थेणंदलय  
इतएणंतेणयरगुत्तिया विजयस्सतक्करस्स प्रयमगणुगच्छमाणेणेवमालुयाकच्छएतेणेवउवागच्छ

हिरनीसरेनीसरीनेजिहांजीणीणोद्यानजनूवनखंडच्छे जिहांभागोपड्योक्कूपच्छे तिहातेसगलाअवेआवीने देवदिन्नवालकनो शरीर  
निःप्राणप्राणरहितनिःचेष्टचेष्टा रहितजीवरहितकलेवर एहवोसरीरप्रतेदेखेदेखिने हाहाइतिखेदेअहोआअत्मकार्यआस्यंययुंइम  
कहीने देवदिन्नवालकनासरीरप्रते भागाक्कूआथकी उत्तारेवाहिरकाटे पच्छेधन्नासार्थवाहने हाथिआपेद्ये तिवारपच्छीतेनगरनारख  
वालाकोटवाल विजयनामा चोरनापगर जोतार पगनेसार्गेपच्छे जाताच्छताएतलेपगने केडेजाताच्छता जिहांमालुकानामेकाच्छवो  
च्छेतिहांआवेआवीने मालूकाकाछामांहिप्रवेशकरे विजयनामाचोर सगलानीसाखे सुखअनेवांसासहित ग्रैवेयकेनसहग्रीवागवा

गोऽथ्यज्ञान् विधायेत्यर्थः सहोढं तिसमोषं सगेवेज्जं तिसहस्रैवेवकेन ग्रीवाबंधनेन यथाभवति तथा गृह्णंति जीवगाहं गिण्हंति तिसिजीव  
तीति जीवसूत्रं जीवंगृह्णंति अस्थिसुष्टिजादुक्त्परैस्तेषु वायेप्रहारास्तैः संभग्नमथितं मोढितं जर्जरितं गालं शरीरं यस्य स तथातं कु  
धेति अवउडबंधर्गाति अवकोटनेनावसोटेनेन क्कोटिकायावाहोच्च पश्चाद्भागानयनेन वंधनं चस्य स तथातं कुर्वन्ति कसप्यहारेयत्तिवद्धे

इरत्ता मालुयाकच्छयं अणुप्यत्रिसंति विजयंतक्करं ससक्खं सहोढं स हगीवेज्जं जीवगाहं गिण्हइरत्ता  
अट्टिसुष्टिजाणुकोप्यरप्यहार संभग्नमसिहियगत्तं करंति अवउडडबंधर्गांति देवदिसस्सदारय

डिनावंधनसंघातेवांध्यो जिमउद्ध तिमवांधेजिववेजीवते जीवता चोरप्रतेग्रहेग्रहीने अस्थिहाडसुष्टिजादुढीचणकोप्यरहारीना  
कूर्पराल्यादिकनेविषे जेप्रहारतिणेकरिसंभग्नभागाच्छे मथितमरुद्धोच्छे जाजरोकीधोच्छे गात्रसरीरजेचोरनोतिमतेचोरप्रतेकोटवा  
लकरे पत्रेअवकोटकक० कोटगावडिमरुडीने एतलेगावडिने अनेवलीनेज्जं वाहडाहाथाने पाच्छिलाभागने विषेपमाडवेकरी एतले  
कोटनेवेज्जहाथने सरोडीने अपूठावासानेविषे आणीनेपाच्छेवाहीकरीबंधनवांधोच्छेजे चोरनेतिमतेचोरप्रतेकोटवालकरे पक्केदेव

ताडनानिच्छिवत्तिस्त्वच्छःकाषः लताकंबवालघातकप्रहारदानेन बालभारकःप्राणवियोजनेन रायमञ्चे तिरांजामात्याः अवरज्ज्मइत्ति

स आभरणंगिरहंति विजयस्वतक्करस्वगीवाए बंधइत्ता मालुयाकच्छयाओ पडिणिवखसंतिजे  
 शेवरायगिहेणयरे तेणेवलवागच्छंति रायगिहंणयरं अणुप्पविसंति रायगिहेणयरे सिंघाडगति  
 गचउक्कचच्चरमहापहपहेसु कसप्पहारिय लयाप्पहारिय च्छिवाप्पहारिय शिवाएमाणा छारंचधू

दिन्मवालकनाआभरणप्रतेग्रहे तेआभरणसगलाविजयचोरनी कोटिगावडिनेविषेवांधे बांधीने मालूयाकच्छयकी बाहिरनीसरेनी  
 सरीने जिहराजगटहनगरच्छे तिहांआविआवीने राजगटहनगरमांहे प्रवेशकरे कोटवालादिक पछेराजगटहनगरनेविषे सिंधोड़ाफल  
 नेआकारे लिख्णामार्गतिकत्विकतिणि मार्गएकठामिले त्रिवटांचऊक च्याररथमिलवानाएकठामार्ग चउवटाचाचराघणामार्गएक  
 ठामिले महापथमोडाराजमार्गइत्यादिकमोडामार्गनेविषे लतामोडामोडानाप्रहार छिवाकानाप्रहार कसवाप्रनाताडनतेहनप्र  
 हारवालघातनेप्रहारतेदेवेकरी पाडनाभूंउहेठोनाखताछे छारराखधुलिप्रते कचवराप्रतेछांटताछे राखधुलिकचरोतेचोरनामाथा

अपराधतिअनर्थकरोति नशत्यत्तिनत्वन्वतेत्यर्थः वाचनांतरेत्विदं नाधीयतएव स्वकानिनिरुपसचरितानि नोपचारिणात्मनःसंबंधि

आ०टी०

४४५

खल

भाषा

खिंचकयवरंच उवरिप्रक्खिवभाणां सहं शंखुघोसेसाणा एवंवयासीएसणं देवाणुप्पिया  
विजएणांसंतक्करे जावगिद्धे विवआमिसभक्खी बाल्लआएथ बाल्लकमारए तंणोखलु देवाणुप्पियाएथ  
स्सकिइरायावारायसच्चैवाअवरउक्काइणस्यथअप्पणासयाइं कस्माइं अवरउक्कंतित्तिकइ, जेणासेवचार

जपरिखिरेतार नाखतारच्छता मोटे सादेखरेकरी उदघोषणापुकारकरताच्छताइमआगलिहीस्ये तिमकहे एअहोदेवानुप्पियाओ  
विजयनामाचोर जिहांताइं गट्ठपंखीयानीपरि आमिसमांसनी भक्खीखाणहार तिहांताइं कही एवालकनाधाननोकरणहारएवा  
लकनोमारकहे तेकारणयकी खलुनिचययसद्धित अहोदेवानुप्पिओ एविजयचोरनेराजा अयवाराजानो अमात्यप्रधानअनर्थकरतो  
नयीतेमाटे एहने अन्याइंनेकोइ छोडाविख्यो मांएअपराधीछे चोरनेसूकांवणो नहीं राख्य इहंकोइंकेहनोविभागनथी आपरा  
पोताराकीधा कर्मआतमापोतेभोगवस्ये इहंनिरापराध अनर्थकोइं करतानथी एमकहीने जिहांचारककहतांवंदीखानानीशाला

३८

गसालतिष्णामिवलुवागच्छंति हृदिभ्रंशंकारिंतिभक्तप्राणेश्वरोहंकारिंति तिसंज्झंकासप्यहारिवज्जाव  
 णिवाएसाणान् विहरंति तएणंसेधस्से सत्यवाहे अित्तणाद्दृणियगसयसंणंघिप्रविद्यणेणं सद्धिरोप्रभा  
 शेणं जावविलवजाणेणं देवदिस्सुस्स दारगस्ससरीरस्समहया इद्धीसक्कारसमुदएणंणी हरयंकारिंतिर  
 वज्जइ लोइयाइमयकिच्चाइं कारिंति केणइकालंतरेण अवगतयोएजाएयाविहोत्थातएणंसेधस्से सत्य

वरछे तिहांतेचोरने लेईनेआवीवंदीखाने घालेपछेभातपाणीदेवानोनिसेधकरेतेकोटवाल हडिलाकडासयनो बंधनकरे एतलेहडि  
 घाल्योपछेविणि संख्याइकसनाडीनाप्रहारदेवालतानाप्रहारकांवाना प्रहारप्रजुखतेणेकरी अनेकप्रकारे मारेपछे भईहेठोनाखे  
 एमकारताछता विचरेछे तिवारपछी तेधन्नोसार्थवाह अिलच्चाति निजक पोताना संबधीपरिजनदासदासीसेवकासंघातेरूवे आंक  
 दकरेअराडिम्बके विलापकरेरेपुन तुम्हविणरहिवासेकेम पछेदेवदिन्बवालकनोघरीरकलेवरतेहने ओटेमंडाणेघणीज्जद्विसत्कारे  
 समुदायेसमुहकरी निःक्रमणीसरवूनाहिरकाठिवोकरे एतलेलेईजाई पछेबज्जघणांलोकिकलोकनेविधे ऊआजेव्हतकनाआयंकरि

निलज्जम्बुगंसिन्धि लघुःस्वआत्मास्वरूपंयस्य सलघुस्वकःअल्पस्वरूपः राक्ष्त्रिविषयेअपराधो राजापराधस्तत्संप्रलप्तः प्रतिपादितःपिशु

वा हेअश्याकथाद् अश्याल हसयंसिरायावराहंसि संप्रलित्ते याविहोत्या तएणंतेणगरशुत्तिया  
धयंसत्यवाहंगिरुहंति जेशेवचारुगी तेशेवउवागच्छं तिरुत्ता चारुगंअणुप्पविसंतिरु विजएणंतकरे

वातेसगलाकार्यकरेपच्छे केतलाइक कालांतरे अपगत सोकसोकरहितथयो घरनाकार्यचलाविवालागो व्यापारकरवाप्रवत्यौ तिवार  
पथी तेधन्नासार्थवाह एकदाप्रखावे लघुयोडोपोताना आत्मास्वरूपअपराधच्छे जेहनो एतलेसर्वथायोडो राजानेविषे दांणचोरि  
नोजेअपराधतेराजाअपराध कहीये तेदांणचोरीकीनी तेहनेविषे तेवन्नासार्थवाहसंपलित्तकह्यो देखाद्यो चाडीएवयरीएतलेरा  
जानापुरुष आगलिजइप्रगटकरे तिवारपच्छी तेनगरनारखवालाकोटवालते राजानी सीखेकरीधन्नासार्थवाहनेवि जयनामांचोर  
संघाते जिहावंदीखानानोघरच्छे तिहाधन्नाखेठिनेलेईने आव्यालेईआवीने तेराजपुरुषवंदीखानानाघरमांहि पैसेपेसीनेपच्छेतेधन्ना  
सार्थवाहनेविजयनामा चोरसंघाते एकठीएकहडिमाहिघाले एहवाएकहडिनाबंधनप्रतेकरे तेसेठनेराजानापुरुष तिवारपच्छीभद्रा



नैरितिगम्यते भोयणपिडयंति भोजनस्थाल्याद्याधारभूतं वंशमयं भोजनपिटकंतत्करोति सज्जीकरोतीत्यर्थः पाठांतरेण भरेद्वृत्तिपूर्य  
तिपाठांतरेण भोजनपिटकेकरोति अथनादीनि त्वांछितं रेखादिदानतोमुद्रितं कृतमुद्रादिमुद्रितं उच्चं क्वेद्वृत्ति विगतलांछनं करोति

गुं सद्धिं एगओहडिबंधं करिति तएणं सामह्यभारिया कल्लं जावजलंति विउलं असणं ४ उवक्खइ तिरे  
भोयणपंडिएकरेइ भायणाइपक्खवंति लंछियमुद्धियं करितिरे एगंचसुरभिवारिपडिपुण्डगवारयं  
करितिरे पंथयंदासचेइयं सहावेइरत्ता एवंवयासी गच्छणं तुमे देवाणुप्पिया इमं विपुलं असणं ४ गहा

भार्या आवतेकालिजिहांताई जाजुल्यनान सयं उगेच्छते तिहालगौ विपुलघणो असनपानखादिमखादिम एच्यारप्रकारना आहार  
प्रतेरांधेनीपजावे रांधीने करंडीउतेसज्जकरेभोजननीहांडिलीने रहिवानो मूकवानो आधारभूतवांसनोभाजनपिटकवांसनोकारं  
डीउतेसजकरे तेकरंडियामाहि भोजनअन्नादिके भस्याभाजनठामडाम्बुके पछेतेअन्नादिकनाठामउपरिलांछितकरेरेखादिकमा  
टीनीलिटियादिकदेवाथकी चपुनःवलीएकएकसुरभिमुगंधएहवो वारिकः पाणीतेणे करीप्रतिपूर्णसंपूर्णभस्यो पाणीनोकरवोनान्हो

यचारगसालाएधणस्ससत्थवाहस्सउवणेहिंतएणंसेपंधए भद्दाएसत्थवाहिएवंवुत्तेसमाणेहइतुइते  
 भोयणपिंडयंतंचसुरभिवरवारि पडिपुसं दंगवारयंगिएहइत्ता सयाओगिहाओपडिणिकखमइरे  
 त्तारायगिहं णयरंमज्झंमज्जेणंजेणवचारगसाला जेणेवधखे सत्थवाहेतिणेवउवागच्छइत्ताभोय  
 णंपिंडयंउवेतिरे उलंछइत्ताभायणाइंगिएहइत्ता भायणाइंधोवइत्ताहत्थसोयंदलयइत्ताध

घडोसज्जकरेसुद्रादेईतेहनेढाके पछेपंधकदासकुमारने तेडावेतेडावीने एहवुकहतीऊई जातुं हे देवासुप्रियहेपंधकदासकुमारआ  
 विपुलधणो असनपानखादिमस्वादिसएचारप्रकारनो आहारलेईनेवंदीखाणानीसालानेविषे धन्नासार्थवाहनेआपिवोतिवारपछी  
 तेपंधकभद्रासार्शवाही इमकच्छोछतो हर्षसंतोषपाभ्योछतो तेभोजननो वांसनो करंडी ओवलीतेसुगंधपाणीइ संपूणंपरिपूर्णभयो  
 एहवोपाणीनोकरवो लसुषडोतेवेऊप्रते ग्रहेग्रहीने पोतानाघरथकी नीसरनीसरनी राजटहनगरने मांहियईने जिहांवंदीखा  
 गानीगालाछे जिहाधन्नोसार्थवाहछे तिहांआविआवीने भोजननो वासनोकरंडीओ हेठोमूके हेठोमूकीने सुद्राउघाडेउघाडीने

खं सत्यवाहं तेषु विपुलं असुरं परिवेसेद् तेषु सेविजएतकरे धसं सत्यवाहं एवं वयासौ वुमेणं  
 देवाणुष्विया समएत्ता विपुलाओ असुरं संविभागं करेहि तेषु सेधसेस्यवाहे विजयंतकरं एवं  
 वयासौ अविद्याइ अहं विजया एवं विपुलं असुरं कायाणवा सुणगाणवा दलएज्जा उक्करुडियाए

भोजनकरिवाना भोजनथालवाटकाकटोरप्रतेग्रहेग्रहीने भोजनथालीकटोरप्रते धोविधोवीने पक्केहाथे सोचलीये हाथधोवेहाथ  
 धोईने धन्नासार्थवाहप्रते तेविपुलघणो असनपांनखादिम स्वादिमएच्यारप्रकारना आहारप्रते परीसेजीमाडितिवारपच्छीतेविजय  
 चोरधन्नासार्थवाहप्रते एहवुकहतोडओ तुहे देवानुप्रिया सुभने एसां हिथकी घणाअन्नादिकमं हिथकी अन्नादिकनोसंविभागकरि  
 सुभनेआपितिवारपच्छी तेधन्नासार्थवाह विजयचोरप्रतेइमअहतोडओ अपिसंभावनायां इतिभाषा वचनेएहवीसंभावनाभाषाक्केजे  
 उं हेविजयचोर एप्रत्यक्षघणो अन्नादिकच्यारप्रकारनो आहार कागाने वाअथवा कुतरांभणी देउं आपुवाअथवा उकरडीनेविषे  
 नाखीदेउ परंनहींजचेवनिश्चयसहिततुभने पुतनाघातकने पुतानाघातकरणहारने पुतनामारणहारने अरिगतुने बैरीपरियाग

परिवेद्यतिभोजयति अविद्याइति अपिः संभावने आइति भाषाया अरेः श्लो वैरिणः सासुबंधशतुभावस्य प्रत्यनीकस्यप्रतिकूलवृत्ते

वागंछुडेज्जा णोचैवणंतवपुत्तथायगस्स पुत्तभावरगस्स अरिस्सत्रेरियस्स पडिणीयस्स पच्चाभित्तस्सए  
तोविपुलाओ असणंअसणं संविभागं करेज्जाभि तएणंसिधस्से सत्यवाहे तंविपुलंअसणंअहाहारेइपंधयं  
विसज्जेइतएणसेपंधयएदासनेइएतंओयणपिडगंगिरहइजासिेवदिसंपाउभूएताजेवदिसंपडिगएतएणंत  
स्सधएस्ससत्यवाहस्स तंविपुलंअसणंअहाहारियस्ससमाणस्स उच्चारपासवणेणं उव्वाहित्यातएणं

तसत्त्वभावनोधरणहारवयरी प्रत्यनीक प्रतीकूलप्रतिवृत्तितेहने एहतेवस्तुनोविणासणहार प्रत्यनीकप्रतिकूलवस्तुनो अभितएतले  
मितमिवाइनो टालणहार एहमाहियकी विस्तीर्णअन्नपाणीखादिसप्रते संविभाग करोनहीं एतलेतेपूवैकह्या तेदाने अन्नादिवि  
हचीआपुनहीं एपरमारयजाणवो तिवारपच्छी तेधनोसार्थवाह तेविस्तीर्णघणो अन्नादिकंअहाहारजीमे पच्छेपंधकनेवि  
सर्जेपाओमेले तिवारपच्छीते पंधकदासकुनर तेभोजननाकरंडीया प्रतेग्रहेग्रहीने पच्छेजेदिसिथीआथोहतो तेहिजदिसपाच्छेव



हारियस अत्थिउच्चारेवापासवणेवामसखं देवाणुप्पिया इमेहिंवल्लहिंसकसप्पहारिहिय जावल  
 याप्पहारिहिय तरुहाएय खुहाएयपरभमाणस णत्थिकेइ उच्चारेवापासवणेवा तंछंदेणंतुमं देवाणु  
 प्पिया एगंतिअवक्कमिता उच्चार पासवणं परिइवेइतएणंसेधसेसत्थवाहे विजएणंतक्करेणंएवंवुत्तेस  
 माणेतुसिणोएसंचिइइ तएणंसिधखं सत्थवाहेसुल्लत्तं तरस्स वलियतरागं उच्चारपासवणेणंउव्वाहि  
 ल्लमाणेविजयं तक्करं एवंवयासी एहितावविजया जावअवक्कमामो तएणंसेविजए धखंसत्थवाहंए

घणेकसनाडीने प्रहारेकरीजिहांतांद्रं लतालकडीने प्रहारेकरीमारिक्केपछेतरखेकरी भूखेकरीपराभव्यापीद्यासुक्कने नहीछेकाई  
 यंडिलामात्वमात्वानीवाधा तेकारणथकीछंदपोतानेअभि यथाएचेतुग्हे देवानुप्रियएकांतयानकमनुष्यरहित थानकनेविषेजइने  
 तेयंडिलमूलप्रते परिठविणवाधाटालिए तिवारपक्कीतेधन्नोसार्थवाह विजयनामाचोरने एहवुं कहेऊतेछते धम्मोसार्धवाहअण्णो  
 ल्योरत्तोतिवारपक्कीतेधन्नोसार्थवाहसुहत्तांतरवेघडीनेजतारेव लिष्टतरघणुआकरीखमीनसकाइएहवीयंडिलनीमालनीवाधाइपी

वंवयासौ जहणंतु प्रदेवाणुप्पिया तओविपुलाओ असणं४संविभागंकरेहि तओहंतुमेहिं सद्धिएगंतं  
 अब्बमासि तएणसेअस्सेसत्यवाहे विजयंतकरं एवंवयासौ अहणं ताओविपुलाओ असणं४संवि  
 भागं करिस्सामि तएणसेविजएतकरे धणस्ससत्यवाहस एयमइं पडिसुणेइ तएणसेविजयएतकरे  
 धणं सद्धिएगंते अब्बमइं उच्चारपासवणपरिइवेई आयंतेचोक्खे परमसुइभुएतमेवडाणंउवसंका

छोछतोविजयचोरप्रतेइमवलीकहतोउवोआवितुंतावचनमावहेविजयचोरजिहांताइं मनुष्यरहितएकांतनेविषेआपणजइएतिवार  
 पछीतेविजयचोरधन्नासार्थवाहप्रते एमवलीकहतोउओजोतुं हेदेवानुप्रियहेधन्नासार्थवाह तेविस्तीर्णघणाअन्नादिक४मांहियकीसं  
 विभागकरे अन्नपाणीखादिमस्वाम्भनेआपे तोऊं तुभसंघाते एकांतमनुष्यरहितथांनकप्रतेआवुं तिवारपछीतेवली धन्नोसा  
 र्थवाहविजयचोरप्रते एहवुंकहतोउओसेठि ऊंतेघणाआहारमांहियकी अन्नपाणीखादिमस्वादिस आहारनोसंविभागकरस्युं एह  
 वुंकह्यापछीतेविजयचोर धन्नासार्थवाहनो एहअर्थप्रतेसांभलिअंगीकारकरे तिवारपछीतेविजयचोर धन्नासार्थवाहसंघातेएकांतम

मित्ताणं विहर इत एणं साम्हा कल्लं जावजलंते विपुलं असणं ४ जावपरिवेसे इत्ता तणंसे धखे सत्थवाह्वि  
जयस्सतक्करस्स ताओ विपुलाओ असणं ४ संविभागं करे इ तएणंसे धखे सत्थवाह्वे पंथयं दासचंडं विस  
ज्जे इत एणंसे पंथए ओयणपिंडयंगहाय चारगसालाओ पडिणिवसम इत्ता रायगिहं णय रं मउभं  
मउभेणं जेणेवसएगेहे जेणेवभद्दाभारिया तेणेवउवागच्छ इत्ता भद्दं सत्थवाहिणं एवंवयासी एवं

नुधरहितठांसने विपे जाइति हां थंडिलस्सुत्तपरिठवे एतलेति हां थंडिलनीवाधाटालि पक्केसरीरचोखोकीधुपाणीलेई परमशुचिपवि  
तयइउतेछते पछेतेहिजथानकठाम बंदीखाणानाप्रतेअंगीकारकरी आवीनेविहरेविचरे तिवारपछीतेभद्रासार्धवाहीवलीआवते  
कालिंविजेदिवसेकार्यनीविलाइं सर्वोदयपासेछते विपुलघणुं अन्नादिक ४ रांधीनेपंथकप्रतेआपे जिहांताईभोजनपरीसे तिवारप  
छीतेधन्नोसार्थवाह विजयचोरनेतेघणामाहियकी अन्नादिकनोसंविभागकरे तिवारपछीतेधन्नोसार्थवाह पंथकदासकुमरप्रतेपाछी  
सोकलेतिवारपछी तेपंथकभोजनकरंडीओ तेप्रतेग्रहेग्रहीनेलेइने बंदीखाणानाघरयकी नीसरेनीसरीने राजगटहनगरसांहियइने



खलु देवाणुष्मि एधस्ये सत्यवाहेतवपुत्तघायस्सजावपञ्चामित्तस्स ताओ विउलओ असणंप्राणंखाइमंसाइ  
 मंसंविभाणंकरेइ तएणंसाभद्दासत्यवाही पंथयस्सदासचेडस्सअंति एयमइंसोच्चोआसुएत्तारुद्धाजाव  
 मिसिसिमिसिमाणीधस्स सत्यवाहस्सउसमावज्जइ तएणंसेधस्ये सत्यवाहे अणयाकयाद्रिमित्तणाइणि  
 यगसयणसंबंधिपरियणेणं सएणयअत्थसारेणंरायकज्जाओ अप्पाणंसोयावेइइत्ताचारगसालाओ

जिहांपोतानुघरच्छे जिहांभद्राभार्या तिहांआवेआवीने भद्रासार्थवाहीप्रते एहवुंकहतोऊओएणेप्रकारेखलुनिश्चयसहितं हे देवाणुप्रि  
 येहेभद्रे धन्वोसार्थवाह ताहरापुलनाघातकने जिहांताइप्रत्यमित्तवस्तुप्रतिअमित्तअप्रीताने एहवाविजयचोरने तेषणाआहारमां  
 छियकीअन्नादिक४नोसंविभागकरेच्छे तिरारपच्छी तेभद्रासार्थवाही पंथकदासकुमारना अंतिकसमीपयकी एहवोपूर्वोक्तअर्थप्रते  
 सांभलीनेक्रोधेकरौरत्तरातीथईरुठी जिहांताइमिसिमिसमानघणुधिगधियमानक्रोधेदिप्यमानथइ छतीधन्वासाथ्यवाहनेऊपरि  
 प्रद्वेपऊपनोक्रोधघणोऊपनो तिवारपच्छीतेधन्वोसार्थवाह एकदाप्रस्तावे मित्तज्ञाति पोतानाखजणसंबधी परिजनसेवकतेणेएकठा

प्रायेण यथारुचीत्यर्थः । अलंकारियसहस्रिष्यां नापितादिभिः शरीरसत्कारोविधीयते अलंकारिककर्मनखमंडनादि दासागृह

प्रडिग्निखसद्गत्ताजेणेव अलंकारियसभातिणेव उवागच्छद्गत्ता अलंकारियकर्मकरावेद्गत्ता जेणेव  
पुक्खरिणीतिणेव उवागच्छद्गत्ता अहधोयमड्डियंगिणहद्गत्ता पुक्खरिणीओगाहेद्गत्ता जलमज्जणं  
करेद्गद्गहा एकयवलिकस्सेजावरायगिहंणयरंअणुप्पविसद्गरायगिहस्सणयरस्समज्जमंउभेणजेणेवसए

मिली धन्नासार्थवाहनोअर्थद्रव्यसारप्रधानतेणे करी राजानोकार्यदंडरूपकारीने एतले राजानेद्रव्यआपीनेपोतानाआत्माप्रतेसूकावे  
सं कावीने खोडावीने एतले धन्वोसार्थवाहच्छुटेच्छुटीनेवंदीखाणानाघरथकीनी सरैवाहिरनीसरीने जिहाजेअलंकारियसभानेविषेना  
वीयादिकेगरीरनोसत्कारसमारवो करीयेक्केते अलंकारियसभात्ते तिहां आवेआवीने अलंकारियकर्मनखकटावेदाढीसूखसरीरप्रसुखना  
केसलेनराधेलेपराधिने जिहापुनःपुक्खरिणीतिखणीवाविक्केतिहां आवेआवीनेहे ठलीमाटीप्रतेग्रहेग्रहीनेसरीरधोइमाटीलेइनेपक्के  
पुक्खरिणीवाविअवगाहेअवगाहीनेपइसीनेजलमज्जनस्नानप्रते अंधोलकरेपक्केकतवक्कीकर्मकीधोक्केवलिकर्मपूजाकर्मजिहांताइराज

गिहृतिशेषवपहारित्यगमणाएतएणंतधरणं सत्यवाहं एज्जमाणंपासित्तारायगिहृणयरेवहवेणयराण्णिग  
मसेट्टिसत्यवाहपभिएआढं तिपरिजाणंतिसक्कारे तिसस्माणेतिसभुद्धेतिसरीरकुसलंपुच्छं तितएणं  
सेधणेसत्यवाहेजेणेषएणिहृतिशेषवपुवागच्छइरत्ताजावियसेतत्थवाहिरियापरिसाभत्रइतं० दासाति  
वापेस्सातिवाभाइं गातिवाभाइल्ले तियासावियणंधरणं सत्यवाहं एज्जमाणंपासइत्तापायवडियाएखेस

महनगरमाहिप्रवेसकरेराजगृहनगरमाहिथइनेजिहांपोतानुं घरच्छे तिहांजावाभणीपधारिवाभणी प्रवर्त्ततोऊओतिवारपच्छीधन्वा  
सार्थवाहप्रतेदेखीनिआवताप्रतेदेखीनेराजगृहनगरनेविषेघणानगरनानिवासीनिगमव्यागारीसेटिसार्थवाहप्रमुखओदिदेईसर्वलो  
कजानेवोलावेमानहीयेसत्कारवस्वारदिक्कनीपहिरावणीकरेसनमानजुहारादिककरेचभाथइकांमकरेशरीरनीकुसलवार्त्तापुच्छेतिवा  
रपच्छीतिधन्वोसार्थवाहजिहांपोतानोत्रच्छेतिहांआवेआवीनेजेसर्वथातेतिहां बाहिरलीपरिषदाऊइतेकेहवीच्छेतेदेखाडेकेधरनीदासी  
नापुवतेदासपेसाकःजेतेहवाप्रयोजनगरादिकनेविषेमोकलीधरनांसो टिकाकामदीजीयेतेप्रोखकहीयेगृतकतेजेगुलांसअवालपणा

दासीपुत्राः प्रेष्याथेतथाविधप्रयोजनेषु नगरातरादिषु प्रेष्यंतेऽतकाये आत्रालत्वात्प्रोषिताः भाद्रहृत्तित्तिये भागंलाभस्यलभंतेतेच्च म  
कुशलसनर्यासुहृवानर्थप्रतिघातरूपं कंठेचकंठेचगृहीत्वा कंठाकंठि यद्यपिव्याकरणेयुद्धविषयएवैवंविधोऽव्ययीभावदृष्यते तथापियोगवि  
भागादिभिरेतस्य साधुगद्गतादृश्येति अथवासिद्यत्ति आलिंग्यवाप्यप्रसोक्षणं आनन्दाशुजलप्रसोचनं नाथएवेत्यादि नायकः प्रभुः

कुसलंपुच्छेद्भजावियसेतत्य अभिभंतरियाप्रिसाभवइतं० मायाद्रयापियाद्रयाभायार्तिवाभद्रणीतिवा  
सावियणंधरणं सत्यवाहं एज्जभाणंपासइत्ता आसणा ओअभुइइकंठाकंठियंअवथासि यत्राहप्यसोक्व

योपेस्थानाभनाभागप्रतेलहेतेसहीचारीकहीयेतेसऊधन्नासार्थवाहप्रतेआवतांप्रतेदेखेदेखिनेपगेपडिप्रणामकरेपछेतेसगलाच्चेसकु  
सलप्रतेपूछेअनर्थ उपजावणहासुं यनेअनर्थऊपनानोप्रतिघातनोकरणहारोजेवलितेच्चेमकुशलकहीयेतेघरनी अहिभंतरसांहिला  
पुरपानीयइसवानीपरिपदाऊइतिहाजावितेकेहीमातावइसवानीवाअथवापितावइसवानीआताभाईवहिनीतेहपिणसगलाईधन्ना  
सार्थवाहप्रतेआवताप्रतेदेखेदेखीनेआसनवेसणायकीउभायाईउठेउठीने कंठाकंठिगलानेविषयहीनेगलेवलगे अवदासियकहतांआं

शंकरे इत एणंसे धखे सत्यवा हे जेणे व महाभारियतिणे व उवागच्छ इत एणंसां महासत्यवा ही धखं सत्यवा  
 हं एज्जमाणं प्रास इत्ता णो आढातिणे परि याणइ अणढा यमाणी अपरि जाणमाणि तु सिणीया परसु  
 हीसं चिदु इत एणंसे धखे सत्यवा हे महं भारियं एवं वयासी किखंतु मं देवाणु पि याणवु ड्डी वाण हरि सो वाणा  
 णं देवा जंम ए स एणं अत्यसारे णं राय कज्जाओ अप्पा विमोइ एत एणंसां महाधखं सत्यवा हं एवं वयासी क

लिंगीने चालिंगण देइने वाष्पनो प्रमोक्षण अनंदना आसूना पांणी नोसू किवो ते प्रतेकरे एतले आसूस्वकतां पाडता छे जे सेठिने दुखपड्युं ऊ  
 तो हि वसुष समाधि इसेठ आया निरविषन पणे तिवार पछी ते धन्वो सार्थवा ह जिहां भद्रा भार्या छे तिहां आवे आबीने तिवार पछी ते भद्रा सा  
 र्थवा ही धन्वा सार्थवा ह प्रते आवता प्रते देखे देखीने बोलावे नही आदर नकरे ओलखे पिण नही अथ आदर करती छती अणजाणती अणओ  
 लखती छती अणवोलती छती पराड् सुखी उपराठि देइने अणपठी वेसी रही तिवार पछी ते धन्वो सार्थवा ह भद्रा भार्या प्रते एह वुं आगलिक हिंसे  
 ते कहतो ऊओ किमतु हे देवानु प्रिये हे भद्रे संतोषन पा मिसुक्कने देखीने हर्षन पांमी आणं दपामी नही जेकारण थकीसे पोताने अर्थे द्रव्यसार

नायदोवान्यायदगीं ज्ञातकोवा स्वजनपुत्रकः इतिरूपप्रदर्शने वा विकल्पे याद्विदितिसहचारीसहायः साहाय्यकारी सुहृन्मित्रं

दृष्टं देवाणुष्वियाममवुद्धौवाजावआणं देभविस्वइजेणंतुमंसम पुत्तघायकस्सजावपच्चामित्तस्सताओवि  
पुत्ताओअसणं४संविभागंकरेसितएणंसेधखे सत्यवाहिंएवंवयासौणेखलुदेवाणुष्विप्यएध  
स्मोतिवा तवोतिवाकइप्रडिकइयात्रा लोगजत्तातिवाणयएतिवाघाडियाइतिवासहाएइवासुहिति

प्रधानेकरीएहवो द्रव्यआपीनेराजानाकार्यकरीने आपणीआत्मासूकाव्यो एतलेछुटोऊं तेतुक्कनेगस्योनही तिवारपच्छीतेभद्रासार्थ  
वहीधन्नासार्थवाहप्रते एहवुंकहतीहईकिसहेदेवानुप्रिय हेस्वामिनसुक्कनेसंतोपकिसहोस्ये जिहांताईसुक्कनेआनंदकिसहोसे जेका  
रणं साहरापुत्रनाघातनाकरणहारने जिहातांवसुवस्तुनो अप्रतितिनोकरणहार एहवानेतेविस्तीर्णघणाआहरसांघियकीअसन  
पानयादिसस्वादिमएचारप्रकारना आहारनोसंविभागकरे एहवुंकच्यापच्छीवलतुंतेधन्नोसार्थवाह भद्रासार्थवाहीप्रतेएआगलिकही  
स्येतिमकहतोऊओनोनोनिषेधामसर्वथानही खलुनिश्चयहेदेवानुप्रियेहेभद्रेधर्म हेतआप्योनयी तपनेहेतुआप्योनही लोकानेजाणवाहे

वातओविपुलाओअसणं ४ संविभाएकणखथ्यसरीरचिंताए तएणंसामहासथ्यवाहीधखेणंसत्य  
 वाहेणंएवंवृत्तासमाणी हइतुडाजावआसणाओ अभुइ तिकंठाकंठिअवतासेतिखेमकुसलंपुच्छइरत्ता  
 राहायाजावपायच्छिता विपुलाइभोगभोगाइ भुंजसाणीविहरइ तएणंसेविजयतकरचारगसाला

तुलोकानेदेखाडिवा हेतुआप्योनथी नायकस्वामीठाकुरन्यायनोदेखाडणहारअथवाज्ञातककहतांस्वजननोपुलइत्यादिकहेतुजाणी  
 नथी आप्योसहचारीसंघातीजाणी आप्योनथीसाहाय्यकारीसहाइओजाणीदीधोनथी सुहृदामितवांधवजाणीदीधोनथीतिवणाओ  
 हारमांहियकीअन्वादिक४आहारनोसंविभागकीधोते केवलनीःकेवलमाहरा शरीरनीचिंतानेअर्थेआप्योके परंवीजाकिसाकामने  
 काजनेअर्थेआप्योनथीइत्यादिकसर्ववाततेसाचीकहीतिवारपछी तेभद्रासार्धवाहीधन्ने सार्धवाहेएहवंकहतेऊ तेषते हर्षसंतोषपामी  
 छतीआससनैसणायकी उठेजठीनेकंठेबिलगीआलिंगनदीधो षष्ठेचेमकुसलपूछेपूछीने अंधोलीजिहांताइष्टं गारअलंकारकस्यामंग  
 लीकनाउपचारकस्यापछे प्रायच्छित्तविषननिवारिवानाहेतुभणी अनेकमसिनातिलकादिककस्या पछेघणामनुष्यसंबंधीयापचेद्वीयभो

वन्धेहियन्निवंधोरन्वादिबन्धनबंधोयथादिताडनं कथप्रहारादयस्तुतद्विशेषाःकालिकालोभासइत्यादिकाषःद्विषयर्षःकालएवावभारुते  
द्रष्टृणां कालोवात्रभवभासोदीप्तिर्यस्य स कालावभास इहयावत्कारणादिदंष्टस्यं गंभीरलोमहरिसे भीषलत्तासणए परमकारुहे वर्येणं  
सेणंतत्यनिञ्चंभीए निञ्चंतत्येनिञ्चंतसिए निञ्चं परमसुहसंज्ञंनरगन्ति तत्र गंभीरोमहान् रोमहर्षोभूयः संभूतो रोमांचोयस्ययतो

एतीहिबन्धेहिय वंहेहियकसप्रहारेहिय जावतणहाएयकुहाएय परभभाशेकालमासिकालंकिञ्चाण  
रएसुणेरइताएउववर्णं सेणंतत्येणेरइएजाएकालिकालाभासेजाववेयणं पञ्चगुभ्रमभाशाणविहरंतिसे

गभोगवतीछती विचरेछे धन्नासार्थवाहसंघाते हिवेतिवारथकी अन्तरतेविजयचोर बंदीखायानीशालानेविखे तिहंबंधकहतांरास  
डीयादिकेवांधवो वधकहतांलाकडियादिकेताडवो कसनाडीयादिकनाप्रहारतेणेकरी जिहंतांईषणीर पीडाघणीतरिखातरिसघ  
णीभखतेणेकरी पराभव्योपीडोछतो कालनेससेकालकरीने नरकनेविषेनारकीपणे अपनोहिवेतेतिहंनारकीकैहवोधयो कालोव  
र्णदेखणहारानेकालोजभासेछे कालोअवभासदीप्तिछवि जिहंतांइवेदनानासमूहप्रतेअनुभवतोभोगवतोछतोविचरेछेतेतिहंनारकी



ऽवकाशात् स तथा किमित्येवमित्यादि भीमोभीष्मः अतएवोलासकारित्वाद्दुवासकः एतदपि कुतइत्याह परमकृष्णोवर्णेनेति परां प्रकृष्टा अशुभसंबद्धांपापकर्म्मण्योपनीतां अणाद्रयमित्यादिअणादिकं अणवदगं तिअनंतं दीहमद्धं ति दीर्घाद्धं दीर्घकालं दीर्घाद्धं वादीर्घं माग्नं चातुरंतं चतुर्विभागं संसारएव कांतारसरथं संसारकांतारमितिअतोधि क्तं ज्ञानं ज्ञापनीये योजयन्नाह एवामेवेत्यादि

खंतओलवद्वित्ता आणीदीयं अणवदगं दीहमद्धं चातुरंतं संसारकं तारं अणुपरियद्विस्सइ एवामेवजंबू जेणं अमहंनिगंथोवा निगंथीवाअयरियलवज्जायाणं अंतिएसु डेमवित्ताअगाराओ अणगारियं

मांहियकीनीसरे नीसरीनेपापनोलीधोपक्के जेहनीआदिनही अनादिकअनंतसंसारघणोकाल दीर्घलांबोकालएहवो चातुरंतचतुर्विभागच्यारगतिमांहिसंसाररूपजकांतार अरथअटवीप्रतेनिरंतरपरिअमणकरस्ये हिवप्रारंभ्योजेन्याय तेजणाविवानेविषेदृष्टांत जोडतोक्तोकहेक्के एमविजयचोरनीपरिहेजंबू जेअम्हारानिग्रंथसाधुं अनेग्रंथीसाधवी आचार्यअनेउपाध्यायना समीपनेविषेसुं उयईनेदिचालेईने आगारघरथकीनीसरी अनगारतासाधुपणानी दीक्षाप्रतेप्रवर्ज्जीकृतो दीखोक्तो विपुलविशीर्णमण्णिचंद्रकां

एवमेवविजयचोरदेव सारिणंति सारकरेणमित्यलंकारेण करणतृतीयाचेयं लुभ्यति लोभीभवति सेविवंचेवन्ति सोपि प्रव्रजितो

पञ्चदशसमाणे विपुलमणिमुत्तिथधणकरणयणसारेणलुभइसेवियएवंचेव तैरणंकालेणंतैरणंसमएणं  
धम्मत्रोसाणामंधेराभगवंतो जाइसंपखाजावपुब्बाणुपुब्बिंचरआणे जावजेणामेव रायगिहेणयरेजेणव  
गुणसिलएचेइए जावअहापडिखवंउग्गहंडगिगिहत्तासंजमेणंतवसाअप्पाणं भावेमाणविहरंतिप  
रिसाणिगया धम्मोकाहिओतएणं तस्सधणस्ससथवाहस्स बहुजणस्सअंतिए एयमइंसोच्चाणिसम्मइमे

तादिकमोतीधनकानकसुवर्णरयणरतनकर्के तनादिकसारिणं साररप्रधानभलाउत्तमद्रव्य तणेकरीलोभीयाइ तेसाधुएमविजयचोर  
नीपरिदुखपामे तेकालनेयिणे तेसमयनेविषे धर्म्मघोषसूरिनामाधिवर भगवंतजातिसंपन्नजातिंपूराकुलेपूरा एहवाजिहंताइं पूब्बी  
सुपूर्णिइं विहारकर्मकरता अनुकमेर गामनगरअतिकमताछता जिहंराजगृहनगरनेविषे जिहागुणसेलियासुं चेत्यदेहरोक्खेति  
द्यायानेयावीने जिहंताइं यथायोग्यसाधुने रहिवायोग्यअवग्रहग्रहीने आदेसमागीनेरहिजतर संयमेकरी तपेकरी आपणीआ

धारूवे अज्जकत्थिए जावससुप्पज्जित्थाएवं खलु भगवंतो जाइसंपस्साइहमागया इहसंपस्सातंइच्छामि  
 रंथेरे भगवंतं वंदा मिणसंसा मिरुहाएजावसुद्धप्पविसाइमंगलाइ वत्थाइ पवरपरहि एप्रायविहारचा  
 रेणं जेणैवगुणसेलएचेइए जेणैवधरे भगवंते तेणैव उवागच्छइत्तावंदइणमंसइत्तातएणं धेरा भगवं

त्माप्रतेभा वताच्छताविचरेच्छे परिषदावादि वानीसरीगइ गुणएधर्मोपदेसकह्योतिवोरपच्छीतेधन्ना सार्थवाहने घणालोकने समीपे  
 एअर्थप्रयोजन प्रतेसांभलीनेहीयासां हिअवधारीनेएहवो आत्मानेविषेर ह्योजेभावअध्यवसायप्रार्थित मनोगतचिंत्तरूप संकलपवि  
 कलपजपजपनो एणंप्रकारिखलु निअथभगवंतज्ञानवंतजातिपूराकुले पूरापूर्वानुपूर्विविचार कर्मकरताकृता इहांआव्याच्छे इहां  
 पडताच्छे तेकारणथकीईकुं कुंवां कुच्छं थिवरभगवंतेजइ वादोनमस्कारकरोएमविचारीनेअं घोळ्यो पच्छेधरनादेव तानीपूजाकी  
 धीमसिनातिलकादिककीधाशुद्धनिर्दोषनिर्मल राजद्वारसांहिपह्मिरीजावा जोग्यएहवामंगलीककारीया वखललघडापवरप्रधानपहि  
 स्याच्छे पादविहारचारीअणहाणोअनेपालिएहवोजिहांगुणसेलीओचेत्यदेहरोच्छे जिहांथिवरभगवंतसमोसख्याच्छेतिहांआवेआवीने

तो धरास्य सत्यवाहस्य विचिंतधम्मं साद्रक्खं तितएणं सेधस्ये सत्यवाह्विधम्मं सोच्च एवंवयासीसइहामि  
 र्गंभंतेणिग्गं थेपायवणेजावपव्वइए जाववज्जुणिवासाणि सामणपरियागंपाळणित्ताभत्तंपच्चकखाइत्ता  
 आसियाएसंलेहणाएसुट्टिं भत्ताइं अणसणाएच्छेइइत्ताकालमासेकालं किच्च। सोहम्मं कप्पे देवत्ताएउ  
 ववणे तत्थणं अत्थेगइयाणं देवाणं चत्तारिपलि ओवमाइठिईपसत्ता तत्थणं धणुस्स देवस्स चत्तारिपलि

वां दे नमस्कारकरेवां दीने नमस्कार करीने तिवारपच्छिथिवर भगवंतधन्नासार्थवाहने विचित्तअनेकप्रकारनाधर्मप्रतेकहे तिवारपच्छी  
 तेधन्नासार्थवाह धर्मप्रतेसांभलीने एहवुक्कहतोद्धवो हे भगवन्संदंक्षोमेनिग्रंथ प्रवचनसिद्धांतमार्गसाधजांख्योतेकारणयकीजिहांतां  
 इप्रवज्जोषरच्छां डीदीचालीधी पच्छेजिहातां ईवणातपतपी वणावरसलगीचारितनोपर्यायपालीने वणावरसताईचारितपालीने भात  
 पागीपचवीने एकमासदिवसनीसंलेखणाईं करी साठिभात अणसणे करीच्छेदीने कालसमे काल करीने सुधर्मनामाकल्प देवलो  
 कनेविषे देवतांपणे उपनो तिहा देवलोकनेविषे एकेककेतलाएक देवतानाचारपल्योपमआजखानीथिति देवतानीकहीछे तिहांधन्ना

विजयवदेव नरकादिकमुक्तरूपं प्राप्नोति जहाणमित्यादिनापि ज्ञातमेव विज्ञापनीये नियोजितं नखत्यसरीरसारक्वणडाएत्ति न  
शरीररक्षणार्थाश्च्यव तदर्थमेवेत्यर्थः जहासेधस्त्वत्ति दृष्टान्तिगमनं इहपुनर्विशेषयोजनामिसामभिदधति बद्धश्रुताः इह राज

श्रीवमाद् ठिद्रप्रसत्ता सेणं धस्से देवेताओ देवलोगाओ उक्वएणं भवक्वएणं ठिद्रक्वएणं गइक्वए  
णं ४ अणं तरं चयचइत्ता महाविदेहेवासेसिचिभहिंति जावसव्वदुक्वएण मंतंकरेहिंति जहाणं  
जंबूधस्सेणं सथवाहेणं णोधस्सेइवा जावविजयस्सतक्करस्स ताओ विपुलाओ असणं ४ संविभगीकएण

नामादेवतानी चारपत्थोपमनी आजखानी धितं जपनो तेधन्वो देवताते सुधर्मपहिला देवलोकथी देवतासंबंधी आजखाने चयेक  
री देवतासंबंधी भवने चयेकरी आंतरारहितचयकहतां सरीरप्रते तजीछाडीने महाविदेहक्षेत्रने विपे सीअस्थेयावत् सर्वसगला दुःख  
नोअंतकरस्ये एतले सुक्तिमोक्षजासे हिवेहेदकहेछे जिमहे जंबूधन्वे सार्थवाहे धर्महे तु संविभागदीधोनथी इत्यादि जिहाताइं विजय  
चोरने ते आहारभांहियकी अन्नपांणी खादिमखादिमआहारनो संविभागकी धोते बीजाकिसाहे तु माटिनथी दीधोएककेवलिनीः के

गृहनगरस्थानीयं मनुष्यत्वे तं धनसार्थवाहस्थानीयः साधुजीवः विजयचोरस्थानीयः शरीरपुत्रस्थानीयो निरुपसनिरंतरानंदनिव  
 धनत्वेन संयमो भवति असत्प्रवृत्तिक्रशरीराल्पं यमविधातः आभरणस्थानीयाः शब्दादिविषयाः तदर्थप्रवृत्तं हि शरीरं संयमविधाते  
 प्रवर्तते हृडिबंधनस्थानीयं जीवशरीरयोरेव विभागेनावस्थानं राजस्थानीयः कर्मपरिणामः राजपुरुषस्थानीयाः कर्मभेदाः लघुस्व  
 कापराधस्थानीयाः मनुष्यायुक्कर्म हेतवः सूत्रादिमूलपरिष्ठापनास्थानीयाः प्रत्युपेक्षयादयोव्यापाराः यतोभक्तादिदानाभावे  
 यथासौ विजयः पञ्चवर्णादिव्युत्कर्षनाय न प्रवृत्तवान् एवं शरीरमपि निरसनं प्रत्युपेक्षयादिषु न प्रवर्तते पायकस्थानीयो सुगंध  
 साधुः सार्थवाहस्थानीया आचार्यासौ हि विवक्षितसाधुं भक्तादिभिः शरीरसुपष्टं भयंतं साध्वंतरादुपशुत्योपालं भयंति विवक्षित

सत्यसरीरस्वरक्वणद्वारेणैव जंबूजैणं अकहंश्लिष्यं धेवाणिगंगंधीवाजावप्रव्वहूएसनाशेववगयग्रहा

वलशरीरराखिवाने अर्थि अन्नदीधोपरंवीजं कोईधर्महेतुमितादिकाहेतुद्वं आहारदीधोनहीं परमारथजांशिवो एमधन्नासार्थवा  
 हनीपरिहेजं जेअम्हारानिग्रयसाधुसाधवी प्रवर्ज्याचारितलीधेकते व्यपगतम् केपरिहरेस्नान अंधोलसर्दनतिलादिकनोअब्धिं

साधुनैव निवेदनावैयावत्यादिके भोजनकारणे परितुष्यतिवेति पद्यते च सिवसाहणेसु आहारहेतुजनवदृष्टेहो तन्नाधयोव

णुमदृणपुपुफगंधमल्लालंकारेविभूसेद्रमस्यओरालियसरीरस्य णोवण्यहेतुं वाखवहेतुं वाविसयहेतुं वातं  
विपुलं असणं४ आहारजाहारेद्रणस्यथ्य णाणदंसणचरित्ताणंवहणदृयाएसिणं इहलोए चैवबहू णंसमणा  
णंवहू णंसमणीं णं बहू णंसावगाणंबहुंसां वियाणंअच्चणिल्लेभवइजावपज्जुवासरिणिल्लेभवइपरलोएविय

गफलगंधसुगंधचूयादिमाला अलंकारआभरणप्रमुखनी सोभाविभूषा आविद्यमानच्छतो उदारिकजेसरीरदेह तेहनेरूडाणपयावा  
नाहेतुभणीनहीं वणेरूडावर्णेनाहेतुभणीनहीं अन्नादिकआहारप्रते आहारतोकरतोनथी एतलेवणेरूपविषयथावाहेतुभणीआ  
हारकरतोनथी बीजोकोइसंसत्यविकल्पइहानथी एककेवलनिःकेवलज्ञानदर्शनचारित्तने वहवानेअर्थि इंपालिवानेअर्थे निसित्त  
आहारलीइच्छे तेसाधुसाधवीइहलोकनेविषे चैवनिश्चयघणाअमणसाधुने घणीसाधवीयामाहि घणाआवगांमाहि घणीआविकानेअ  
र्चनीकपूजनीकपूजाजोग्यथाइ जातांपर्युपासनाशेवाकिरवायोग्यइइ तेसाधुसाधवी तथापरलोनाभवनेविषे पिणबहुवणाहाथएदे

विजयसाह्रतं तेणपोसेज्जा । एवं खल्वित्यादिनिगमनमितिशब्दः समाप्तौ ज्वीसीति पूर्ववदेवेति ज्ञाताधर्मकथायां विवरणतोद्दि

रणं न ऊ णि हत्थ च्छेयणा णिय कस च्छेयणा णिय एवं हिय उप्पा यणा णिय व स सुप्पा  
यणा णिय उल्लं वणा णिय पा वि हिति अणा दीयं चणं अण व दग्गं दी हं जा व वी इ व इ स इ ज हा व से ध णे स त्य वा  
हे एवं ख लु जं वूं सम णे णं भ ग व या म हा वी रे णं जा व संपत्ते णं दो च्च स णा य उ भ्क य ण स अ य म इ प्र ण त्ते त्ति वे मि

न ही ते साधु साधवी तथा कान्छेदावेन हीं तथानासानासिकाछेदावेन ही एमहृदयहियांसाहिउपपातउपापलउनथाइ तथावसनगो  
लीयादिकनोउपाडिवीतेपामिस्येन हीं तथाउल्लं वणजं चोलां नाविउभाधिवोइत्यादिकपाभस्येन ही निचय सर्वथा तथावलीतेजीवअ  
नादिकालनोअनंतोघणोकालघणूंलां वीमार्ग एहवासंसारप्रते ऊतात्रलोजसर्वव्यतिक्रमस्ये खपावस्ये भोजजास्येहि वसंबंधसेलवेछेजिम  
ते वल्लोसार्थवाहमोखनेकाजेऊओ एमएणे प्रकारे खलु निचयसहितहेजं व अणतपस्वीइजातां सोक्षपदवीपामीतेणेभगवंते श्रीमहावीर  
देवे बीजो ज्ञाताअध्ययननोएपूर्वोक्तार्थकह्यो जे हवोअर्थश्रीभगवंतेसुभनेकह्योछेतेहवोअर्थतुभनेकह्योमेहेजं व इति श्रीनागपुरीतपागछे



साधुनैव निवेदनाविधावत्यादिके भोजनकारणे परितुष्यतिवेति पद्यते च सिवसाहणेसु आहारहेउजंनवदृष्टेहो तस्माधशोब

णुमदृणपुपुफुगंधमस्र्वालंकारेविभूसेद्रमस्रश्चौरालियसरीरस्र शोवस्रहेउंवाख्वहेउंवाविसयहेउंवातं  
विपुलंअसणं४आहारआहारिद्रणस्र्थणणदंसणचरित्ताणंवहणद्वयाएसेण इहलोएचैवबहृणंसमणा  
णंवहृणंसमणीणं बहृणंसावगाणंबहृणंसांवियाणंअच्चणिल्लेभवइजावपज्जुवासरिल्लेभवइपरलोएविय

गफलगंधसुगंधचयादिमात्मा अलंकारआभरणप्रमुखनी सोभाविभूषा आविद्यमानच्छतो उदारिकजेसरीरदेह तेहनेरूडाणपयावा  
नाहेतुभणीनहीं वरणरूडावर्णनाहेतुभणीनहीं अन्नादिकआहारप्रते आहारतोकरतोनथी एतलेवर्णरूपविषयथावाहेतुभणीआ  
हारकरतोनथी बीजोकोदूसंसल्पविकल्पइहानथी एककेवलनिःकेवलज्ञानदर्शनचारित्तने वहवानेअर्थि इंपालिवानेअर्थे निमित्त  
आहारलीइच्छे तेसाधुसाधवीइहलोकनेविषे चैवनिश्चयघणाअमणसाधुने घणीसाधवीयामाहि घणाआवगांमाहि घणीआविकानेअ  
र्चनीकपूजनीकपूजाजोग्यथाइ जातांपर्यपासनासेवाकरिवायोग्यइइ तेसाधुसाधवी तथापरलोत्तभवनेविषे पिणवहुषणाहाथेइदे

विजयसाह्रतं तेणपोसेज्जा । एवं खल्वित्यादिनिगमनमितिशब्दः समाप्तौ ब्रवीतीति पूर्ववदेवेति ज्ञाताधर्मकथायां विवरणतोद्वि

रणंणोवड्डण्हत्थच्छेयणाणियकस्सच्छेयणाणियणासाच्छेयणाणियएवंहियउप्पायणाणियवसणुप्पा  
यणाणियउल्लंघणाणियपाविहितिअणादीयंचरणंअणवदग्गंदीहंजाववीइवइस्सइजहावसेधणे सत्यवा  
हेएवंखलुजंबूसमणेणंभगवयामहावीरेणं जावसंपत्तेणं दोच्चस्सणायउत्तयणस्सअयमइपणत्तेत्तिबेमि

नहौतेसाधुसाधवी तथाकानच्छेदावेनहौंतयानासानासिकाच्छेदावेनहौ एसहृदयहियासाहिउपपातउपापलउनयाइ तथावसनगो  
लीयादिकनोउपाडिवीतेपामिस्येनहौं तथाउल्लंघणजं चोलंवाविउवांधिवोइत्यादिकपामस्येनहौनिचय सर्वथा तथावलीतेजीवत्र  
नादिकालनोअनंतोघणोकालघणुंलावोमार्गएहवासंसारप्रते उतावलोजसर्वव्यतिक्रमस्ये खपावस्ये भोजजास्येहिवसंबंधसेलवेच्छेजिम  
तेवन्नोसायंवाहमोक्षनेकाजेऊअथो एमएणेप्रकारे खलुनिचयसहितहेजंबूअणतपस्वीइजाता मोक्षपदवीपामीतिणेभगवंतेश्रीमहावीर  
देवे बीजोज्ञाताअध्ययननोएपूर्वोक्तअर्थकच्छो जे हवोअर्थश्रीभगवंतेसुभानेकच्छोछेतेहवोअर्थतुभनेकच्छोमेहेजंबूइतिश्रीनागपुरीतपागछे

सीयमध्यचनं समाप्तमिति । अथ तृतीयं व्याख्यायते तस्य च पूर्वेण सहायं संबन्धः अनंतराध्ययनेसाभिष्वं गस्य निरभिष्वं गस्य

वियंणायञ्भयणंसम्भत्तं २ सिवसुहसाहणेषु आहारविरहिञ्चोर्जनवदृष्टेहो तरुहाधणोव्वविजयं

श्रीपासचंदस्वरिश्रीसमरचंदस्वरिश्रीराजचंद्रसूरिविनेयोपाध्यायश्रीहीरानंदचंद्राणां शिष्यलेसेनमुनिप्रमजीकेनश्रीज्ञाताध्ययनस्यद्विती  
यवार्त्तिद्वतः ॥ इहांदृष्टांतसेलेच्छे पंडितइहाराजगृह्ननगरनेथानके मनुष्यचे तजाणिवोधन्नासार्थवाहनेथानके साधुजीवविजयना  
माचोरनेथानकेए शरीरजाणवोपुलनेथानकेओपसारहितनिरंतरसदाईअनंदनेकारणपणे करीएहवोसंयमपुतऊवेखोटापाडूआ  
मार्गनेविषेप्रकत्थीजेशरीरतेहयकीसंयमनो विषातथाइं तथाआभरणेथानके शब्दादिकनाविषयजाणवातेविषयसेववाने अथेप्रव  
त्थीएशरीरतिवारेचारित्वनाविनाषनेविषेप्रवर्त्ते शरीरहृडबंधननेथानकेजीवनेशरीरवेऊं नोएकठोरहिंवुं राजानेथानकेकर्मनोपरि  
णामजांणिवोरजपुरुषनेथानके कर्मनाभेदजाणवाथोडाराजानाअपराधरूपमनुष्यनावंधनाहेतुजांणवामलसूत्रपरिटविवानाथां  
नकरूपप्रतिलेखणावारंवारजोवादिक्क्यापार जेकारणअन्नादिकदानदेवाना अभावऊतेछते जिमएविजयचोरमलसूत्रादिकपरि

साङ्गणंतेणपोसिज्जा। जइणंभंतेसमणेणंभगवयामहावीरेणं दोच्चसणाथज्जकथणस्सअथमइपयत्तेतच्चस्स

ठविवाभगीनप्रवत्यों तिमएणेप्रकारेशरीरपिण आहारपाणीरहितकृतोच्छतो पडिलेहणप्रमार्जनाक्रियाकलापजोवा करवानेवि  
 पेप्रवत्तैनहीं पंचकदासकुमारने थांनकितोसाधुभद्रासाथवाहीथांनके आचार्यादिकते आचार्यपिणकहवावांछतासाधुचारित्रीया  
 प्रतेकहेतुमेशरीरपुष्टकरो अन्नादिकेकरीएहवूंबीजासाधुना समीपयकी साभलीनिआचार्यओ लंभोदीयेजेमहानुभावोआपणनिरं  
 तरआहारकरीशरीर मातोपुष्टनकरीये तिवारेवलतुं तेणैसाधुचारलीये भोजनकरिवानो कारणकहेछते आचार्यसंतो षपामेहे  
 भगवन्देहनाशरीरनी असमाधिअनेसाधुनोवेयावञ्चकरिवोतेनिमित्तनिरंतरभोजनकणंछुं भोच्चसुखनासाधननेविषे आहारकरी  
 रहितछे एतलेआहारपामेनहीं जे साधुतेहनोदेहबाधेनही एतलेतपनिअभादिकीयाहद्विवंतीनयाइ सेकारणयकीधन्नासाथवा  
 हनीपरिआहारदेवोविजयचोरप्रतेदीधोतिस तथासाधुचारित्रीयातिमतेणे कारणेशरीररूपीया चोरनेपोसेआहारादिकेकरीयदि  
 जोणंवाक्यालंकारभंते हेभगवन्अमणतपस्वीइंभगवंते संपूर्णठजुराईवंते एहवेओमहावीरेकर्मरूप शत्रुनाजीपवायकीवीजात्ता

च दोषगुणानभिदधता चारित्तशुद्धिविधेयतयोपदिष्टा इह तु शंकितस्य निःशंकस्य च तानभिदधता संयमशुद्धेरेव हेतुभूतास्यस्यक्त  
शुद्धिविधेयतयोपदिश्यत इत्येवं संबद्धस्यास्येदमुपक्षेपसूत्रं जर्ङ्गणमित्यादि एवं खलित्यादि प्रकृताध्ययनसूत्रं च समस्तं कंठ्यं नवरसब्धो  
उपत्तिसर्व्वे ऋतवोवसंतादयः तत्त्वं पाद्य कुसुमादिभावनं वनस्यतिना समुद्भवात् यततत्तया क्वचित्खल्वोचयन्तिदृश्यते तेनच सर्व्वो

शंभंतेणायञ्ज्जयणस्यसमरणंभगव्रयामहावोरेशंकेअडुपस्यत्तेएवंखलुजंबू तेणंकाखेणंतेणंसमएणं चंपाणा  
अंणयरीहोत्थावणओतौसेणं चंपाणयरीएवहियाउत्तरपुरच्छिमेदिसौभाए सुभूमिभागणासंउज्जाणे

तासूत्रनो अध्ययननोएतलेवीजाअध्ययननो एपूर्वोक्तअर्थकस्यो श्रीमहावीरदेवेतेसाभल्यो हिवलिजाज्ञातासूत्रनाअध्ययननोअर्थ  
कहीयेछे अमणभगवंतेकेऊणअर्थकस्युंतेकहेछे सुधर्मास्वामी एमआगलिकहिस्ये तिमखलुनिचयसहितहेजंबू तेअवसर्पिणीकाल  
नाचउयाआरानेविषे तेसमयनेविषे चंपानामनगरीऊंतीतेहनो वर्णकउववाइथीजाणवो तेचंपानगरीनेविषे वाहिरउत्तरदिसि  
अनेपूर्वदिसिचाले एतलेइशानंकोणनेविषे सुभूमिभागनाम उद्यानवनखंडऊं तुंतेकेहवुंछे सगलाऋतुवसंतादिककानांनीपनावन

उपपुष्पफलसमिद्धे इत्येतरसूचितं अतएवसुरस्यं नंदनवनं भेरोद्वितीयवदनं तद्वच्छुयासुखावासुराणिः शीतलाचच्छायातया सम  
 सुवहं व्याप्तं दोषुद्धे इत्यादि द्वे द्वि संख्ये पुष्टे उपचितेपर्यायेण प्रसवकालकसेणागति पर्यायगतैः ग्राह्यतत्वेन चकारलोपात् परि  
 यागएत्ति भणितं पिष्टस्य शालिलोष्टस्य च पिंडीपिष्टांडीतद्वत्याहुरेयेते तथा नित्रणे ब्रणरहिते रुमुपागतयोरेकतरस्य गृहे निरुप

होत्यासव्वञ्चोउयसुरस्येणंदणवये इवसुहसुरभिसीयलच्छाएसमयुनद्धेतस्वयंमुभूमिभागस्वउज्जाण  
 स्वउत्तरएगदेसंमि मालुयाकच्छएहोत्या वस्यञ्चो तत्थयंएगावस्वमयूरो दोषुष्टेपरियागए पिडुलं

स्यतीनाफलफलछे जेहनेविषेएकारणथकी सुरस्यसुंदरहेनंदनवणसेणपर्वतसुं बीजुवनतेसरीसुं वलीकेहवुंछे शुभभलीसुरभिसुगं व  
 सीतलछायायेकरीवायुंछे तेभूमिभागनास उद्यानवनखंडने उत्तरदिसनाएकदिसएकभागनेविषे मालुयानामाकाछोदू तोतेह  
 नोवर्णकउवाई उपागयीजाणवोतेमालुयाकाकासाहि एगवननीमचूरीमोरडीरहेछे तेमोरडीवेदू डाप्रसवे तेकेहवापुष्टे पुष्टद्वपा  
 स्यात्तेजेहवावलीतेकेहवाछे पर्यायेकरीप्रसवाकालिपासिकरी आयाहेएहवा वलीतेकेहवाके पीनोशालिनालोटीनीउं डीक पींडी

हते वातादिभिरनुपहते भिन्नास्यन्नुषिरायासुष्टिः साप्रमाणं यथोक्ते भिन्नसुष्टिप्रमाणे अयूरींश्रंडके अयूरांडके न कुक्षुटाद्यं डके

डोपंडुरेणिव्वणेणिरुवहए भिन्नसुष्टिप्रमाणेअयूरींश्रंडएप्रसवद्वसएणंपक्ववाएशंसंरक्वमाणीसंगोवे  
मायोसंचिद्वेसाणीविहरइतत्यशुंचंप्राएणयरी एदुवेसत्यवाहदारागापरिवसंतितंजहाजिणदत्तपुरे  
यसागरदत्तपुत्तयसहजाययासहवद्वियया सहपंडुकीखियया सहदारदरिसो अस्समस्समशुत्तया

तेहनीपरिपांडुरघोलाच्छे वलीतेकेहवाच्छे निन्नणएणरहितच्छे वलीतेकेहवाच्छे निन्नपहतवायरादिकेकरी उपद्रवरहितच्छे एतलेहाल  
तानथीशरीरिवायुनथी वलीकेहवाभिन्नकहतांसांहि पोलीजेसुद्धीतेप्रमाणच्छे जेहनाएहवाअयूरीनाइं डोवेतेप्रते प्रसवेजणेएसंबंधप  
छेपोतानीपांखनेवायूरेकरी वनमोर्डीसंशस्यक्भली परिराखतीपालतीच्छती सांभलीपरिगोपवीढांकतीच्छती भलीपरिवीटनी  
पोखतीच्छतीविचरेक्केरहेछे तेचंपानगरीनेविषे वेसार्थवाहनादारकपुत्रतेवसेछे एकजिणदत्तसाथंवाहनीपुत्रच्छे बीजोसागरदत्तसा  
र्थवाहनीपुत्रच्छे तेवड्ड'केहवाच्छेतेकहेछे संघातेजण्याच्छे जनमद्विसनाएकपणायकी संघातेद्विप्रतेपाम्याच्छे संघातेपांसुरजधूलि

प्रसूतेजनयति संरक्षंतीपालयंती संगोपयंतीस्यगयंती संवेष्टयंतीपोषयंती सहजातौजन्मदिनस्यै कल्वात् सहृद्वीसमेतयोर्द्विसुपुगत  
त्वात्सहपांसुक्रीडितकौसमानवालभावत्वात् सहदारदर्शिनौ सम्मानयौवनारंभकत्वात् सहैव एकावसरएवजातकामविकारतयादारा  
नस्वकीयेरभार्थे तथाविधदृष्टिभिर्दृष्टवंतौ अथवासहसहितोसंतौ अन्योन्यगृहयोर्द्वरिपश्यतस्त्रात्प्रवेशनेनेत्येवं शीलौघौतौ तथाएतच्चा  
नंतरोक्तस्वरूपमन्योन्यानुरागेसति भवतीत्याह अन्योन्यमनुरक्तौसं हवंतः अतएवान्योन्यमनुव्रजत इत्यनुव्रजौएवंब्रंदानुवर्त्तकावभिप्रा

अस्यमणुव्ययया अस्यमसृष्टंदाणुवत्तथाअस्यस्यसिंहिययिपियकारयथा अस्यमस्येसुगिहेसुकिञ्च 1इ

नीक्रीडारामतिकरताक्के सरखावालपणायकी संघातेदारास्त्रीप्रतेदेखताजोताक्के सरीखायौवननाञ्चारंभपणायकी वलीतेवेड्ड'केह  
वाक्के माहोसांहिअणुरत्तासनेहवंतरागवंतक्के एकारणयकीअनोन्यमाहोसांहि संघातेअनुव्रजचालेक्केहीडेक्के एकारणयकीअन्योन्य  
माहोसांहिछंदाशुवर्त्तिवो छंदकहताछांदिपोताने अभिप्रयिप्रवर्त्तक्के एकारणयकीमाहोमाहेहीयाचिचनेविषे अंतरंगप्रीतनाकारक  
क्के एतावताकारमोरगनथी अन्योन्यमाहोसांहिघरनांकिञ्चकहताकर्त्तव्यजेकरणीय प्रयोजनकार्यकामतेप्रते पञ्चणुभवकरताकृतावि



यानुवर्तिनौ एवं हृदये स्थितकारकौ किञ्चाद्दं करणीयाद्दं तिकर्तव्यानि प्रयोजनानीत्यर्थः अथवा कृत्यानि नैत्यकानिकरणीया नि कादाचि  
त्कानि प्रत्यनुभवंतौ एगउत्तिकचिदेकस्मिन् देशे सहितयोः मिलितयोः समुपागतयोरेकतरस्य गृहे संनिषन्नवरूपविष्टयोः सन्निविष्टयोः  
संहनतया स्थिरसुखासनतया च व्यवस्थितयोर्मिथः कथापरस्परकथातस्याः समुक्त्वापो जल्पोयः सतथा समुदपद्यतसमेच्चित्तिसमेत्यपाठांत

करणीज्जाद्दं पञ्चणुभभवमाणाविहरंति तएणं तेसिंसत्यवाहदारगाणं अण्णयाकथाद्दं एगञ्चोस  
हियाणं समुसुवगयाणं सखिसखाणं सखिचिद्धाणं इसेयाखवेमिहोकहाससुद्धावे समुपर्ज्जित्या  
जणं देवाणुप्पियां सुहं दुहं वापव्वज्जावा विदेसगमणं वाससुपज्जद्द तस्यं अरुहेएगञ्चोसमेच्च णित्थ

चरेकेवेडजणा तिवारपच्ची तेसार्थवाहनापुलवेड्ढने अन्यदाएकदाप्रस्तावे किहाएकएकदेशने विखेएकठामिल्या समुपागतञ्चा  
व्याच्छे एकनाघरने विखेवैठाच्छे सन्निचिद्धनिश्चलसुखञ्चासनपणे रत्थाच्छे एहवोआगलिकहिस्से तेहवो मिथः माहोमां हिकायावात्तानोस  
सुक्तापवोलवोच्छे जेतैएहवो उपनेतेकेहवोजपनोतेकहेच्छे जेकारणशकीहे देवालुप्रियएकएकनेकहे सुखअथवादुख अथवादिचालेवी

रेसंहिम्बित्तिसंहित्य सहसंभूय संगारंतिमंकेतंपडिसुणेतित्ति अश्युपगच्छत चउसड्डीत्यादि चतुःषष्टिकलाःगीतवृत्तादिकाःस्त्रीजनो  
चितावात्स्यायनप्रसिद्धाः चतुःषष्टिगणिकागुणाः आलिंगनादिकानामष्टाना क्रियाविशेषाणा प्रत्येकमष्टभेदत्वात् एतेपिवात्स्यायनप्र

रियव्वंतिकट्टु, अस्समस्समेयारूवं संगारंपडिसुणंति सकम्मसंपडत्ताजायाविहोत्था तत्थणं चंपाए  
णयरीएदेवदत्ताणामंगणियापरिवसंति अट्टाजावभत्तपाणा चउसट्टिकलापंडिया चउसट्टिगणिया

विदेसपरदेसनेविषेगमनजाइवुं याइतेसव्वसायेजएकठा तेकारणथकी आपणेएकदेसप्रदेसनेविषे ससेचमिलीने एकठायइनेतेका  
र्यनिस्तरिवोपरिपूर्णकरिवोएमकहीने साहोमांहिएहवंपूर्वोक्त संगारसंकेतकथोतेप्रतेअंगीकारकरे पछेपोतानाकामकाजसहित  
याताऊआ एतावताआपआपणाकामकरताऊआ तेचंपानगरीनेविषे देवदत्तानामगणिकाविश्यावसेछे तेकेहवीछे ऋद्विवंतछेजाव  
जिहालगीघणाभातपांणीरंधावेछे देवरावेछे वलीतेकेहवीछे चोसट्टिकलागीतवृत्त्यादिकस्त्रीजनने जोग्यवात्स्यायनग्रंथप्रसिद्धजेक  
लातेजाणेछेपंडितछे आलिं गनआदिदेईआठक्रियाविसेखाने प्रत्येकजुदार आठभेदपणथकी एतलेगणिकाना चोसट्टिगुणतेणेक

सिद्धाः एवं विशेषादयोपिनवंगुत्तपडिबो ह्यिति प्राग्वत्नवयौवनेतिभावः संगयगयहसियद्रत्यनेनेदंसूचितंसंगयगयहसियभणियवि  
हियविलाससल्लियसंलावनिउणजुत्तोवयारकुसला व्याख्यात्वस्यपूर्ववत् वाचनांतरेत्विसधिकांसुंदरेयणवयणचरणनयणलावस्यरूव

गुणोववेया अउणत्तीसंविसेसबसमाणी एकवीसरतिगुणप्रहाणा वत्तीसपुरिसोवयारकुसलाणवं  
गसुत्तपडिबोहिया अड्वारसदेसीभासाविसारया सिंगारागाराचारुवेसासंगयगयहसियभणियवि

रीसहितछे वलीतेकेहवीछेउगुणतीसरमीबानाविषेष्टेणे करीरमतीछे क्रीडाकरतीछे वलीतेकेहवीछेएकवीसरतिनाकंदर्पनाजे  
गुणतेणेकरीप्रधानछे वलीतेकेहवीछे वतीसपुरुषनाउपचार कामशास्त्रमांहिप्रसिद्धतेहनेविषेकुरुलडाहीछे वलीतेकेहवीछेनवअंग  
वेकानवेनेवनासिकाएकजीभएकचामडी एकमनएनवअंगसूता यौघनेकरीप्रतिबोद्ध्याछे जाग्याछेखादनेग्रहवेकरी प्रवडाईपणाच  
उराईपणाप्रतेपाम्याछेजगणिकाना वलीतेगणिकाकेहवीछे अडारदेसनीजिभाया तेहनेविषेविसारदपंडितजाणेछे जेगणिकावली  
तेकेहवीछेशृंगाररसविषेपना आगारथानकसरिखो मनोहरवेसछे जेगणिकानो वलीकेहवीछे ऊंचीधजाछे जेगणिकानिषरेवली

जोष्वणविलासकलिया उच्छित्तध्वजासहस्रैर्भाज्यालाभोवस्थाः सातथा वितीर्णानिराज्ञाछत्रचामराणि वालवीजनिकाचचामरवि  
शेषोवस्थाः सातथाकर्णोरथःप्रवहणविशेषस्तोन प्रयातंगमनंवस्थाः सातथाकर्णोरथो हिकृद्भिमतकिष्पतिचिदेवभवतीतिसोपितस्याअस्ती

हियविलासलियसंलावणितुत्तो वथारकुसला ऊसियऊक्या सहस्रलंभा विदिसूछत्तचामर  
वालवीयणोया कर्णोरथप्रयायाविहोत्या बज्जंणं गणियासहस्राण आहिवच्चंजाविहरइ तरणं  
तंसिसत्यवाहदारगाणं अण्णयाकथाइं पुब्बावरण्हकालसमयंसिजिमियभुत्तुरागयाणं समयाणं

तेकेह, हजारदीनारकीदेहनाभाडानेविषेलाभेहे जेगणिकानेवलीतेगणिकाकेहवीहे विदिन्नदीधाके राजाइं छलअनेचामरजे  
गणिकाने कर्णोरथप्रवहणविषेप तेगेरथेवैसीने जावुं आविवुंके जेगणिकानेकर्णोरथकृद्धिसंतने केतलाएकनेऊइ तेकर्णोरथपि  
णतेगणिकानेहे घणीगणिकानासहस्रानो अधिपतिपणुं पालतीछती विचरेकेतिवारथकीअनंतरतेसार्थ वाहनावेऊं बालकनेएकटा  
प्रखावेपूर्वापरकालसमयविपोहरनासमयनेविषे वेऊकुमरजिस्थामोजनकीधायकी अनंतरवेसेसमानाधानकनेविषे आव्याथकानेते

आयत्तार्यं चोक्तवार्णं परमसुदुर्भूयार्यं शुहासणवरगयाणं इमेथारुविमिहोकाहासमुद्धाविसमुष्पज्जि  
 त्यातंसैयंखलु अरुहं देवाणुप्रियाकहं जावजलं तेविपुलं असणं ४ उक्कवडावेत्तातंविचलंअसणं ४ उववक्का  
 डावेत्तातंविचलंअसणं ४ धूपुष्कगंधवत्थंगहायदेवदत्ताएगणियाए सद्धिंसुभूमिभागस्य उज्जाणस्य

कोहवाग्रहेने आख्याचिर्भलपाणीयेकारीचलकीधाच्छे लेपसिच्छादिकनेटालवेकरी एकारणयक्तीअत्यंतवसुभुचिपवित्तयथा एतलेच  
 लूलेहेपवित्तयथायका एहवाडुखासनवरप्रधानच्छे वैठायकाने एहवोएतदरूपमित्यमाहोमांहियका वात्तांनोससुद्धाप्रविचारउपजेते  
 कारणयक्तीस्येयभलुं खलुनिश्चयसहितआपणवेळं जणाअहोदेवानुप्रिया कालप्रभातेजलंतदेदीप्यमान ह्दरिजउग्येविपुलवणुं विस्ली  
 र्णअसनपानखादिमखादिमएचारप्रकारनो आहाररंधावीने तेघणोअन्नपाणीखादिमखादिमएचारप्रकारनो आहाररंधावीने  
 तेघणोअन्नपाणीखादिमखादिम धूपुष्कगंधवस्तग्रहीनेदेवदत्ता नामागणिकासंधाते सुभूमिभागनामा उद्यानवननी लक्ष्मीफूल  
 प्रते प्रत्यसुभवभोगवतायकाआपणविचरीने एतलेवेथ्यानेरमवाजहे इएहवुकाहीने माहोमांहि एहवुंअर्थअंगीकारकरीनेकालिसूरि

त्यतिशयप्रतिपादनार्थी अपिशब्दइतिस्थूणा प्रधानोवस्त्राच्छादितोमंडपःस्थूणाभंडपःआहणहन्ति निवेशयतेतिभावः लघुकरयेत्या

सिरिंपच्चणुभ्रमत्रसाणाणं विहरित्तएत्तिकहु, अस्त्रमस्त्रस्त्रएयमंडपडिसुखेइरत्ता कल्लं पाउभ्रमूकोडुं वि  
 यपुरिसिसहावेइरत्ता एवंवयासीगच्छहणं देवाणुप्पियाविउलंअसणंठुउवक्खडेहरंतविउलं असणं ४  
 धूत्रपुणंगहायजेणेअसुभूमिभागेउज्जाणेजेणेवनंदापुक्खरिणीतेणमेवउवागच्छइरत्ता खंदाएपोकव  
 रिणीए अदूरसामंतेथूणामंडवआहणह आसियसमज्जिओवत्तित्तं सुगंधजादकलियंकरेह अमहंघ

जउदयपामेतिवारे कोटुं विकआदेसकारीपुरुषांप्रतेतेडावितेडावीने एहवुंकहताऊआ जाओतुहे अहोदेवानुप्रियाओविपुलवणुं  
 अन्नपाणीखादिमस्त्रादिसनीपजावोनीपजावीने तेघणोअन्नपाणीखादिमस्त्रादिसधूपफलसर्वलेईने जिहांसुभूमिभाग उद्यानवनके  
 जिहानंदानामा पुस्करिणीवाविक्खे तिहांतुहे आवज्योआवीनेपक्के नंदापुस्करिणीवाविथकी अतिघणुं वेगलुनहींवणु दुकडुनहीं  
 एहवु थूणाप्रधानंघणवस्त्रे ढांक्योतेमंडपते थूणामंडपप्रतेआणोथापो धरतीसमरावीपांणीइं छांटोकचरोपरहोकढावीलीपावोव

दिलघुकरणं गमनादिकाशीघ्रक्रियादक्षत्वमित्यर्थः तेनयुक्ताथे पुरुषास्तै र्योजितयंल्यपादिभिः संवधितंयत्त त्तथाप्रवहणमिति संबंधः पाठांतरेणलङ्करणजृत्तएहिति तत्रलघुकरणेनदक्षत्वेनयुक्तौघौतीतथाताभ्यां ककारइहस्वार्थिकःगोयुवाभ्यांयुक्तमेव प्रवहणसुपनयते

डिवालेमाणाच्चिडह जावतेविचिडृतितएणं सेसथ्यवाहदारगादोच्चंप्रिकोडुं बियपुरि सेसहावेइरत्ताए  
वंवयासौखिप्रमेव लङ्करणजुत्तजोतिथं समखुरवालिहाणं समलिहितिवस्सिंग एहिरयथा

लितिहांसुगंधअगरधपउखेवो फलपगरभरावोएणेसहितकरावो पछेअम्हे आवुंतिहांलगी अरहारीवाटजोताथकावैसीरहिज्योतेअ  
देसपुरुषतिसजवाटजोताथकारहेछे तिवारपच्छीते सार्थं वाहनापुत्रवेळंबीजीवारआदेसकारीसेवाकारी पुरुषप्रततेतेडावेतेडावीने  
एभक्कहताळ्हा अहोदेवानुप्रियोउतावलाजतुम्हे लघुकरणकं जावानीचलाविवानी उतावलीक्रियानेविपे डाहाचतुर तेणेशुक्तस  
हितजेपुरुषपतेणेजोतख्यो रथधूसरतेसहितजेरथप्रवहण तेसज्जकारोसमीजेवलदानीखुरीछे वालिधानकहतांभलाभलापुच्छे जेवलि  
दानाएहवातेणेसहित समसरिखावरावरलिखितक० चित्तारेसखेकरी आलिख्यातेसरीखातीखासौंगडावेछे जेवलदानाएहवा

तिसंबंधःसमसुरवलिधानौसमाग्यफुच्छौसमतुल्ये लिखितेशस्त्रे णापनीतवाह्यत्वके तीक्ष्णे च्यु'गेययोस्त्रौतथाततःकर्म्मधारयःताभ्या  
 वाचनांतरेजंबूणयमयकलावजोत्तपद्मविसिद्धएहिं जांबनदमयौसुवसंभयौकलापी कंठाभरणविशेषौ योक्त्रो णचयूपेनसहकंठसंबनर  
 ज्जुप्रतिविशिष्टेययोस्त्रौच तथाताभ्यांरजतमयौ रूप्यविकारीबंधे ययोस्त्रौतथा सूत्ररज्जकेकाष्णीसिकसूत्रदवरकसयौ वरकनकखचिते  
 येभ्यस्ते नासिकान्यस्तरज्जु केतयोः प्रग्रहेणरश्मिना अग्रगृहीतकौबद्धयौतोतथाततः कर्म्मधारयःअतःताभ्यानीलोत्पलकृतापीडाभ्यां  
 आपीडःशेखरःप्रवररगोयुवाभ्यां नानामणिरलकांचनबंधिकाजालेनपरिच्छिप्तं प्रवरलक्षणेपेतं वाचनातरेऽधिकमिदं सुजातजगज्जु

मयधंठसुत्तरज्जुयपवरकंचणखचियणत्थ वग्गहोवग्गहिंएहिं शौलुप्रलकयाभिलएहिंपवरगोणजुवाण

तेणेसहित रथयामयक० रूपानीबंधितेणेसहित एहवावलदसूतनाजेरज्जु क० दोरत्रेवरप्रधानकंचनसोनेकारी खंच्याक्केएतलेरासि  
 सूत्रनेसोनानीरचनाक्के एहवीनायक्के तेणेदोरेकरीसाह्याक्के एहवाजेवलद नीलोत्पलकसलनोकीधोक्के शेखरसेहरोमाथानेऊप  
 रि एहवा वरप्रधानवलदनवातेणेसहितरथकरो नानाप्रकारनाविचितवषणा प्रकारनीसणिकंडूकालादिकरथणरतनककं तनादिके



तत्र लज्जगपसत्यसुविरयनिष्प्रियंति तत्र सुजातं सुजातदारुमयं युगं चूपः युक्तं संगतं ऋजुकं सरलं प्रशस्तं शुभं सुविरचितं सुघटितं निर्मितं निवेशितं यत्नतत्तथा युक्तमेव संबद्धमेव प्रवहणं यानं परिदक्षगं वीत्यर्थः किंते जावसिरीत्यादि व्याख्यातं धारिणीवर्षं के हल्यसंज्ञे स्त्री एत्ति

एहिं णामणिरयणकंचणधं टिवाजालपरिक्खत्तंपवरलक्खणगुणेववेयं जुत्तमेव प्रवहणउवणे हतेवित  
 हेवउवणेइतएणसेसत्थवाहदारगारुहायाजावसब्बसरीरांपवहणंदुरुहंति जेणेव देवदत्ताएगणियाएगिइ  
 तेणेवउवागच्छंति प्रवहणाओपच्चोरुहंति देवदत्ताए गणियाएगिहं अणुप्पविसंति तएणंसादेवदत्तागणि

कनकसोनो एहवीषधरीनाजालीया तेणेकरीपरिखित्तसहित्थे वलीवरप्रधानजलक्षणेणे उपपेतकहतांसहित जुत्तमेव क० सगलो पदार्थे करीसहितएहवुं प्रवहणयानरथतेसज्जकरी उवणेहलावो एहवुंकच्चापच्छीते आदेशकारीपुरुषतहेव तिमजसज्जकरीनेआणी नेसंपेतिवारपच्छीते सार्थवाहनदारकअंधोल्या जिहलगीमधीतिलकादिकरी वस्त्रआभरणेकरीसब्बं सरीरसोभावमानकरी रथ प्रतेचढेवेसे बैसीनेजिहं देवदत्तानामागणिकानोघरत्ते तिहांआवेआवीनेरथयकीहेठाउतरजतरीने देवदत्तानामागणिकानाघरप्रते

यातेसत्यवाहदारए एज्जभाणेपासइत्ताहइतुडाआसणाओअभूइइइत्ता सत्तडुपयाइं अणुगच्छइ  
 र्त्तातंसत्यवाहदारयं एवंवयासी संदिसणं तुमं देवाणुप्पिया किमिहागभणपओयणं तएणंतेसत्य  
 वाहदारगादेवदत्तंगणियं एवंवयासी इच्छाओणं देवाणुप्पिएतुइहिंसद्धिं सुभूमिभागसउज्जाण  
 स्वसिरिंपच्चणुभवमाणाविहरित्तए तएणंसादेवदत्तागणिया तेसिंसत्यवाहदारगाणं एयमइं पंडि

प्रवेशकरे तिवारपछीतेगणिकादेवदत्ता तेसार्थं वाहनावेकं पुत्रभावताप्रतेदेखेदेखीने हर्षसंतोषमामीथकी चारनवैसणाथकीज  
 ठेजठीने सातथाठपगवासाहमी अविआवीने तेसार्थं वाहनापुतांप्रते एहवुंकहतीऊई आदेउघीऊहो तुम्हारचहो देवानुप्रियोसुं  
 इहांआविवानुप्रयोजनकारण्हे एतलेकिसेकारणआव्याछो तिवारपछीतेसार्थं वाहनोपुत्र देवदत्तागणिकाप्रते एसकहताऊयाअ  
 भेमांछीयेछे हे देवानुप्रियेहे देवदत्ते तुम्हसंवाते सुभूमिभागनामा उद्यानवनखंडनी श्रीलक्ष्मीफलफूलनीतेप्रते भोगवताकीडाराम  
 तिविनोदकरताविचरवाभणीकल्पे तिवारपछीते देवदत्तागणिका तेसार्थं वाहनापुतांनो एहपूर्वोक्तप्रर्थं प्रतेसांभलेसांभलीनेचंवीली

सुरेन्द्रहाया कथवलिकम्भा किंतिप्रवरजावसिरिसमाणवेसा जेशेवसत्थवो हस्सदारगा तेशेवससा  
 गया तएणंतेसत्थवाहदारगा देवदत्ताएणियाएसद्धिं जाणंदुएहंतिचंपाएण यरीएसडक्कंमडक्केण  
 जेशेवसुभमिभागेडज्जाणे जेशेवणंदापुक्खरिणि तेशेवडवागच्छइत्ता रहाओपच्चोरहंति णंदा  
 पुक्खरिणीडगाहंति जलमज्जणंकरिंति रहायादेवदत्ताएसद्धिं पच्चोरहंतिजेशेवथूणासंडवेते  
 णामेवडवागच्छंतिइत्ता अणुपविसंतिस्सवालंकारभूसियां आसत्थावीसत्थासुहासणवरगयादेव

कीधोच्छेवलिकमंघरनादेवतानोपजाकर्म षणुं किंसुतेवरप्रधानजावजिहां तांइलच्छमीदेवतानासरिखो वेसकरीजिहां सार्थवाहना  
 पुतळेतिहंतेदेवदत्ताआवी तिवारपच्छीतेसार्थवाहनापुत देवदत्तागणिकासंघातेयानरथप्रतेचढेवे सेचंपानगरीमाहिथइजिहांसुभ  
 मिभागनामाडद्यानवनखंड्छे जिहंनंदापुक्खरिणीनामावाबडीछे तिहंआवेआवीने रथयकीहेठाउतरेउतरीने नंदापुक्खरिणीवा  
 वडीप्रतेचकगाहेप्रवेसकरे जलमज्जणकरेपाणीनीकीडारामतिकरे एहावा अंबोल्यापक्केदेवदत्तावेखासंघातेवाहिरनीसरेपाछावले

दत्ताए गणियाएसद्धिं विपुलंअसणं ४ ध्रुवपुफ्रगंधवत्थं आसाएमाणा विसाएमाणा परिभुंजइ  
 एवंचणंविहरंति जिमियभुत्तुतरागया वियणंसमाणा देवदत्ताएगणियाएसद्धिं विपुलाइं माणु  
 ख्खगाइं कामभोगाइं भुंजसाणाविहरंति तएणंतेसत्थवाह दारगा पुब्बावरएहकालसमयंसिदे  
 वदत्ताएगणियाएसद्धिं धूणांमंडवाओपडिणिकवमंति हत्थसंगेह्लिए सुभूमिभागेबहुसुअल्लिघ

जिहांधूणासंडपवखेटाक्योक्के तिहाअवेअवीनेतेमंडपमांहिपेसे सगलेअलंकारेअलंकखात्ता सुसतालेइ वीसामोत्यइ भलेसु  
 खासनेवरप्रधानवेठात्ता देवदत्तानामागणिकावेश्यासंघाते विपुलंघणु अन्नपाणीखादिभखादिसवावरेधूपफलगंधवत्त्र एणेप्रकारे  
 विचरेक्के जिस्याथकीअनंतरवेसवानाथानकनेविषेअथ्यात्ता देवदत्तागणिकावेश्यासंघाते विपुलघणामनुव्यसंबंधीयाकामभोगप्रते  
 भोगवतात्ताविचरेक्के तिवारपच्छीतेसार्थवाहनापुल विपोहरनासमयनेविषे देवदत्तागणिकासंघाते धूणांमंडपयकीनीसरनीसरीने  
 साहोसाहिहाथनेअवलंवे करीहाथेवलगीने सुभूमिभागउद्यानवनखंडनेविषेघणा आलीनामावनस्यती विसेषतेहनाघरतेहनेविषे

अन्योन्यं हस्तावलंबनेन आलिषर एसुय कयलिषर एसुय आलीकदल्यौवनस्यतिविशेषी लताघर एसुयलताश्रयोकादिलता अच्छणघर एसुय अच्छणां तिआसनं पेच्छणघर एसुय प्रेक्षणकंपसाहणघर एसुय प्रधानं मंडलं मोहणघर एसुय कुसुमप्रायवनस्यतिमोहनं निधुवनं

रेसुयकयलीषरेसुय लयाघर एसुय अच्छणघर एसुय पासाणघर एसुय मोहणघर एसुय सालघर एसुय कुसुमघर एसुय उज्जाणसिरिपच्चणुभवमाणाविहरं तितरणं तेसत्त्ववाहदारया जेणेवमालुयाकच्छे ए तेणेवपहारित्यगमण ए तएणं सावणमयूरी तेसत्त्ववाह

केलनाघर तेहनेविषे लताअसोकादिलतानाघर तेहनेविषे अच्छणकहतां आसनवैसवानाघर तेहनेविषे पेच्छणक० दृत्यनाटिककरवा नाघर तेहनेविषे पासाणक० मांडणामहिदीनातथा अलतानाकरवानाघर तेहनेविषे मोहनकहतां भोगकरवानाघर तेहनेविषे सालनामाहृच्छविसेपतेहनाघर तेहनेविषे जालियांसहितघर तेहनेविषे कुसुमफलप्रायवनस्यतिविषे तेहनाघर तेहनेविषे उद्यानवननी फलफूलनीलक्ष्मीप्रते प्रभत्यदुधभोगवताच्छताविचरेच्छे तिवारपच्छी तेसार्थवाहनांपुत्र जिहंमालुकानामेकाच्छवोच्छे तिहंजावाभणी

सालघरएसुयशालाःशाखाः अथवाशालाहचविशेषाः जालघरएसुय जालगंठजालकान्वितं कुसुमघरएसुयकुसुमप्राय वनस्थतिगृहे

दारएएज्जभाणेपासइत्ताभीया तत्यामहयार सहेणुंकेक्कारंवंविणिसुयमाणीर मालुयाकच्छाओ  
पडिणिक्वमइ एंगंसिख्खडालथंसिठिच्चा तेसत्थवाहदारए मालुयाकच्छयंचपविसमाणाअणि  
मिसाएदिक्कीए मेहमाणीरचिइइ तएणंतेसत्थवाहदारगा अथमसुं सहावेइत्ता एवंवयासीजहाणं  
देवाणुप्पियाएसावणमयूरी अहेएज्जभाणेपासित्ता भीयातत्या तसीया उव्विणापलायासहयार

प्रवर्त्याएतलेत्विणदिसेचाल्या तिवारपक्खीतेवननीमोरडीतेसार्थवाहनादारकपुत्रभावतादेसेदेखीनेवीहनीत्वासपासतीक्खतीमोटेरस  
व्देकरीकेकारवसब्दप्रतेसुं कतीक्खतीऊंतीमालुयानामाकाक्खाथकी नीसरेनीसरीने एकइच्चनीडालनेविषेजेइवैसीनेतेसार्थवाहनापुत्र  
प्रतेअनेचपुनःवलीमालुयानामाकाक्खाप्रतेप्रवेसकरताक्खताप्रतेएकइष्टिइं अनिमेषमात्रमेघोन्नोषरहितजोतीरहेक्खेतिवारपक्खीतेसा  
र्थवाहनापुत्र माहोमाहिसादकारेतेडावेतेडावीने एहवुंकहताऊआजिमच्चोदेवालुप्रिओ अहोभाइओएवननीमोरडीआपणनेआ

सहैरंजाव अहेमालुयाकच्छयं चपेहमाणीरचिद्वई तंभवियव्वमेत्थकारणेणं तिकइ, मालुयाक  
 च्छयंअंतोपविसंति तत्थरंदोपुइ परियागए जावपासित्ता अस्सअखंसाहावेइरत्ता एवंवयासीतंसेयं  
 खलुदेवणप्पिया अहेइमेवणमउरीअंडएसाणं जाइमंताणंकुक्कु, डियाणंअंडएसुपक्खवावेत्तएतए  
 णंताओजाइमंताओकुक्कु, डियाओ एअंडएसएयअंडएसएणं पक्खवाएणंसारक्खमाणीओसंगोवे

वतादेखीनेवीहनीवासतानाठी उदवेगणीउचाटणीछतीनासीछती मोटेसब्देकारीबोलतीछती जिहांलगीआपणावेळंजणाप्रतेअ  
 नेवलीमालुयानामाकाछामांहिप्रवेसकरता प्रतेदेखतीप्रतेजोतीरहेछे तंतेकारणथकीळअच्छे इहांकाईएककारणेकारीएहंबुंकीही  
 नेतेमालुयाकाछामांहिप्रवेसकरे तेभय्ये चालोजीवो तिहांमालुयाकाछामांहिवेपुइके० वृद्धिपास्यापरियागएक० प्रसवकालययांए  
 तावताथोडादिनांसाहेवचडाहोस्ये एहवाइंडावेदेखीने मांहोमांहिसादकरेसादकरीने एमकहताळआ तेअेयभलुंनिअयसहित  
 अहोदेवाबुप्रियो भाईओ आपणएआवननीमोरडीनाइं डानेपोतानीपोतानी जातिवंती कुकडीनाईडानिवेखेपीसेसूकीसे

माणीओविहरसंतिरणं अरुहंएत्यदोकीलावणगामरुपीपोयगाभविस्संतित्तिकहु, अणुमणुसए  
यसइंपडिसुइरणेत्ता सएसएदासचेडए सइविइरत्ता एवंवयासीगच्छ हणं तुभभेदेवाणुप्पियाइमे  
अंडएगहायसगणं जाइसंताणं कुक्कुडीणं अंडएसुप्रक्खिवहजावतेविप्रक्खिवंति तएणंतेसत्यवाहदा  
रगादेवदत्ताएगणियाएसइं सुभूमिभागसुलज्जाणस्सिरिंपच्चणुभभवसाणाविहरित्ता तमेवजाणं

पछे कुक्कुडीपोतानेपांखनेवायरेकरीइदिपमाडस्ये तिवारपच्छीतेजे एएजातिवंतकुक्कुडीयकी एतेइंडाविळ्ळं पोतानाइंडाप्रतेजा  
णीनेपोताने पाखवाइकरी तेराखतीछती गोपवतीळ्ळं तीछती विचरस्ये प्रवत्तस्ये तिवारपच्छी आपणेवेळ्ळं क्रीडारामतिकरवाभणी  
ओरनापोतकहतावालकळस्ये एहवुं विचारीने अन्योन्यमाहोमाहि एअर्यं प्रतेसांभलेसाभली आपआपणादासचेडाप्रते तेडावेतेडा  
वीने इमकहताळ्ळा जाओतुमेअहोदेवानुप्रियोदासकुमारो आइंडाप्रपेलेइनेपोतानी जातिवंती कुक्कुडीनाइंडानेविषेप्रखेपोसूको  
पछेजिसकळ्यं तिमजकरीतेदास कुमरतेइंडाप्रतेसूके तिवारपच्छी तेसायं वाहनापुलदेवदत्तागणिकावेश्यासायं सुभूमिभागनामा



दुरुढासमाणा जेणेवचंपायथरो जेणेवदेत्ताए गणियाएगिहेतेणेवउवाच्छइरत्तादेवदत्ताएगिहंअ  
 गुपविसंति देवदत्ताएगणियाएवि उलंजीवियारिहंप्रीइदाणंदलयइ सकारेंतिसम्भारोइदेवदत्ताएगि  
 हाओपडिणिक्रमंतिजेणेवसयाइगेहाइतेणेवउवागच्छइरत्ता सकन्मसंप्रत्ताजायाथाविहोत्या  
 तत्थणंजेसेसागरदत्तपुत्तेसत्थवाहदारएसेणं कम्भं जावजलंतेजेणेवसेवणमउरीअंडएतेणेवउवागच्छइ

उद्यानवनीलक्ष्मीप्रते भोगवीकरीनेतिहंषणांविनोदकरीनेतेहिजयानरथप्रतेआरूढयथाचट्टाऊताऊताजिहंचंपानामानगरीछे  
 जिहंदेवदत्तागणिकानोगेहधरछेतिहंआवेआवीनेदेवदत्तागणिकानाघप्रतेप्रवेसकरे देवदत्तागणिकानेविपुलघणुंजीवितिहंतांइ  
 खाताखरचतांदानदेतापुञ्जचेएवुंप्रीतिहर्षनुं दानदेईनेवस्त्रादिकेकरीसत्कारकरीनेसन्मानीने देवदत्तागणिकावेस्यानाघरथकीनी  
 सरनीसरीनेजिहंआपणाआपणापोतानाघरछेतिहंआवेआवीनेआपआपणापोतानाकर्मकार्यव्यापारकरवाप्रवर्त्तताऊआ तिहंते  
 जेतेसागरदत्तनोपुत्र सार्धवाहनोदारकनालक तेकालसूर्योदयवेलाइं जाजुल्यमानसर्वउगेऊंतेछते जिहंतेवननीभोरडीनाइं

खित्यर्थः क्वचित्कदलीगृहादिपदानि यावच्छ्रंशंकितः किमिदंनिःपश्यतेनवेत्येवं विकल्पवान् कांचित्सूत्रफलाकांक्षवान् कदानिपश्यते इतोविवक्षितफलमित्यौत्सुक्यवानित्यर्थः विचिकित्सितः जातेपीतोमयूरयोतेऽतः किंमसक्रीडालक्ष्णंफलं भविष्यति नवेत्येवं फलप्रतिशंकावान् किमुक्तं भवतिभेदसमापन्नोमतेद्विधीभावंप्राप्तः सद्भावासद्भावविषयविकल्पव्याकुलितद्रुतिभावः कलुषसमापन्नोमतिमालिन्यसुपगतः एतदेवलेगतश्चाह किष्मित्यादिउद्धर्त्तयति अधोदेशस्योपरिकरणेन परिवर्त्तयति तथैवपुनःस्यापनेन आसारय

इत्तांतिसमञ्जरीश्रंडयंसि संकिष्कंखिएवितिगिच्छा समावस्ये भेयसमावस्ये कलुससमावस्ये किष्णं

डाक्ते तिहांश्रवेश्रवीने तेमोरडीनाईडानेविषे जोइनेसंकोकरेस्युं एनीपजस्ये किंवानहींथाइ एहवोविकल्पकरे तेमोरनाइंडा नाफलनीवांछावंतथाइ किवारेएनीपजस्ये इंडामांक्षिथीवाहिरनीसरस्ये एकारणयकीवांख्याफलप्रतेघणुं उतावलोथाइइच्छेनीपना पूठित्यकलासीखस्ये केनहींसीखस्येस्युं माहरेरमवालक्ष्णफलथास्ये किंवानही द्विधाभावप्रतेपास्यो एसांइच्छेकेनहीछे एम आकुलव्याकुलथाइ मनमांक्षिकलुषमैलपणुं पास्योस्युं माहरेरामतिक्रीडाकरिवाभषी वननीमोरडीनावालकथास्ये अथवानहींहो

तिर्द्वेषत्स्वस्थानत्याजनेन संसारयतिपुनः रद्वेषत्स्वस्थानात् स्थानांतरनयनेन चालयति स्थानांतरनयनेनस्यंदयति किंचिच्चलनेन घटयति हस्तस्पर्शनेन द्योभयति र्द्वेषद्भूमिसुक्तीर्यतत्प्रवेद्यनेन' कर्षंमूलंसिति स्वकीयकर्षणसमीपेष्टत्वा टिट्टियत्तिशब्दायमानं करोति

ममंएत्यकौलावणमऊरी पोयएभविस्संतितुदाड्डणोभविस्संतित्तिकट्टुतंमऊरीअंडयं अभिक्खणंर उव्वत्तेइपरियत्ते इ आसारेइसंसारेइचालेइफ्रदेइघट्टेइखोभेइ अभिक्खणंरकस्समूलं सितिट्टियावेइ तएणंसेवणमऊरीअंडए अभिक्खणंर उवइज्जमाणेजावटिट्टियाविज्जमाणे पोच्चडेजाएयाविहोत्था

स्ये एहवीविचारणाकरीने तेवननीमोरडीना इंडाप्रतेवारंवारवलीवली उंचुलेइहेठिलाभागनेऊपरकरवेकरी तिमजवलीयापवे सूक्कवेकरी लिगारेकपोतानाथानकथकीछंडावेकरी वलीलगारेकपोतानाथानकथकीवीजाथानकप्रतेसूक्कवेकरी वीजाथानकनेविषे लेइनेफरकावेकांडएकचलावेकरी हाथनेफरसेकरीलगारेकभूमिप्रतेउखडीखणीने तिहाप्रवेसनेकरावेकरीअभिक्खणंवारंवारपोता नाकाननेपासेधरीनेशब्दायमानकरेखडखडावीजीईतिवारपच्छीतेवननीमोरडीनाइंडाप्रतेवारंवारउंचुलेइहेठुंलेइपासेसूक्कोच्छतो

पोञ्जडंति असारं हीलनीयोगुरुकुलाद्युद्दहनतः निन्दनीयः कृत्वनीयोमनसाखिंसनीयो जनमध्ये गर्हणीयः समक्षमेवपरिभवनीयोऽ

तएणंसेसागरदत्तपुत्ते सत्यवाहदारए अस्थथाकथाइं जेणेवसेमऊरीअं डए तेणेवउवावच्छइरत्ता  
 तंमऊरीअं डयंपोञ्जडमेवपासइरत्ता अहोणंमएसकीलावणए मऊरीपोयएणजाएत्तिकहु, उह  
 यमणजावञ्जियायइ एवामेवसमणउसोजो अमहंणिगंथोवा णिगंथीवा आयरियउवज्जाया  
 णंअंतिएपव्वइएसमाणे पंचमहव्वएसुजावच्छ्जौवणिकाएसु णिगंथेपावयणेसंकिएजावकलुससमा

खडखडावताच्छता इमकरताज्जंताच्छता इंडोपोच्चठाबुंजीवतथ्यरहितथातोइओतिवारपच्छीतेसागरदत्तनोपुत्र सार्थवाहनोवालकाए  
 कदासमेजिहातेमोरडीनु इंडुच्छेतिहाअवेअवीनेतेमोरडीनु इंडुपोचुंठाबुंज देखीनेसाहरेएसकीडाकरवानोवननीमोरडीनोवाल  
 वानययोनिजीवययोएहवंकरीनेमनसांहिचिंतारूपध्यानचिंतवेतेवलीउपनोच्छेसंकल्पविकल्पहिवेसुधर्मस्वामीकहेएणीपरितीर्थंकरक  
 हेअहोअमणोआउखावंतसिध्दो जेअम्हारासाधुसाधवीआचारिजउपाध्यायनासमीपनेविषेप्रवज्ज्यादीख्यालीधेऊतेछतेपंचमहाव्रतने

वयं सेणंद्द्रहभवेचेवबहुणं समणारणं बहुणंसावयाणं बहुणंसावियाणं होलणिल्ले  
 णिंदणिल्ले खिसणिल्ले गरिहणिल्ले परिभवणिल्ले परलोएवियणंआगच्छइ बहुणिंदणणिय  
 जावमणुपरियइइ तएणंसेजियदत्तपुत्ते जेणेवसेअयूरीअंडए तेणेवउवागच्छइइत्ता तंसिमयूरीअं  
 डयंसिणिसं किए सुव्वत्तणंसमएत्थकी लावणसयूरीपोयए भविस्सतीत्तिकइ तुंसयूरअंडयंअभि

विषेजिहांताईछजीवनि कायराखिवानेविषेनिग्रंथप्रवचनविषेशंकाआणेजिहांताईमनमांहिमेलोयाइतिहांताइकहिबोतेसाधुसाधवी  
 आभवेविषेचेवनिचयसहितधणासाधुचारित्रीयांनिषणीसाधवीयानेधणाआवकनेधणीआविकानेहीलनीयथाइंशुबकुलादिकथीवाहि  
 रकरावायोग्यऊइमनेकरीभंडुंजांणीनिंदवायोग्यथाईअनजभाथावादिकेकरीखिसवायोग्यऊइएतलेलोकमांहिअवगुणबोलेशरहनीय  
 होधपरिभवनीयहोयपरलोकमेपिणवणादंडनरकतिरियंचजिहांताइंधणोसंसारभमस्येपरिअमणकरस्येजेधमोपरिसंकादिकआण  
 स्येसाधुसाधवीएतलेजिमसागरदत्तनापुवतेभणीतिमसाधुसाधवीतिवारपछीतेजिणदत्तनोपुवजिहांतेबीजोमोरडीनोइंइच्छेतिहां

कवणंरुणोचवत्ते इ जावणोठिडियावेइ तएणंसेमयूरीअं डएअणुव्वत्तिज्जमाणे जावअठिडियाविज्ज  
 माणे तेणंक्कालेणंतेणंससएणं उडिक्कणेमयूरीपोयए एत्थजायएतएणंसे जिणदत्तपुत्ते तंमयूरपोययं  
 मासइरत्ता हइतुइमयूरपोसएसहविइरत्ता एवंवयासी तुभंभेणंदेवाणुण्णिया इअंसयूरपोययंवड्ड  
 हिंसयूरपोसएणुप्राउग्गे हिंदव्वेहिं अणुपुव्वेणंसारवच्चमाणा संगेवेज्जाणासंवड्डे हणड्ड, ह्रुगंअसिक्खावे

आवेआवीनेतेमोरडीनाइं डानेविषेनिसंकितासंक्रानाणेइंसजाणे एसुवतअलोखुडोमाहरक्कीडाकरवानोरसवानोमोरडीनोपोतत्राल  
 काळस्थे एहवोनिअचकरीने तेमोरडीनाइं डाप्राते वारंवारउच्छालेनहीं उं चोकरेनहीं जिहांतांइंखडखडावेनहीं तिवारपछीन्नेमोर  
 डीनाइं डाप्राते अणहलावतोक्तो जिहांताइंअणखडखडावतोळं तोळतो पूरेदिहाडेपूरिसमथे इं डोफूटीमोरनोवालक्कययोतिवार  
 पछीजिणदत्तनोपुव्व तेमोरडीनापोतवालकप्राते देखेदेखीने हर्षरुंतोषयाभ्योळं तोळतो मोरनापोषजेषुषमोरप्रातेपोषियालेहइ  
 पमाडेएहवापुरषप्राते तेडावेतेडावीने एहंभुक्कहतोळ्ळी तुमेअहोदेवानुप्रियो आमोरनावालकप्राते षणामोरनापोषवानाजिप्रवोगड

नभ्युत्थानादिभिः मयूरपोषकायेमयूरान् पुञ्जं तिनट्टु, सुगंतिनाद्यं विन्नयेत्यादौ विषयपरिणयमेत्ते जीव्यगणमणुष्यत्तेलक्वणवंज  
 णगुणोववेए इत्येवंदृश्यंमानेनविष्कंभतः उन्मानेनवाहृत्यतः प्रमाणेनव्यायामतः परिपूर्णौपक्षौ पेञ्जनकलावेत्तिमयूरंगकलापञ्चयस्यस

हतएणंतेमयूरपोसगाजिणदत्तस्वपुत्तस्वएयमद्वं पडिसुणेइरत्ता तंमयूरपोयगंगिरहंति जेणेवसएणि  
 हतेणेवउवागच्छइरत्ता तंमयूरपोयगं जावणट्टु, सुगंसिक्खवावेत्ति तएणंसेमयूरपोयए उरुक्खवाल  
 भावेविस्सायजोव्व्यणलक्वणवंजण माणुस्साणपडिपुस्सपक्खपेज्जणकलावेविचित्तापि च्छोसत्त

पायतेशेकरी घणाद्रथ्यतेशेकरी आनुपूर्वीइं अनुक्रमे राखताज्जताच्छता गोपवताज्जंता वड्ढिपमाडोमोटोकोरो चपुनःवलीणदुसुगंणा  
 ङ्किककलाप्रते सीखावोएमकहतोज्जओ तिवारपच्छी मोरनापोषकपुरुष जिणदत्तनापुवनेपासे एपूर्वोक्तअर्थप्रतेसांभलेअंगीकारकरे  
 करीनेतेमोरनावालाकप्रतेग्रहेग्रहीने जिहापोतानोषरच्छे तिहांअतिसयस्युं आवेआवीने तेमोरनावालकप्रतेजिहांतांई नाटिकनी  
 कलाप्रतेसीखवेतिवारपच्छी तेमोरनोवालाक उत्प्रावत्यपणेकरीभूक्खोच्छे बालभावबालपणुं जेणेएहवोज्जतोच्छतो विज्ञानचेतनावंतययो

तथा विचित्राणि पिच्छानि शतसंख्याञ्चंद्रकायस्य तथा वाचनांतरे विचित्राः पिच्छेष्ववसक्ताः संबद्धाञ्चंद्रकायस्यस्य विचित्रपिच्छावस

चंद्रएणीलकंठएणञ्चणसीलएयएगाएचप्पुडियाएसमाणीएअणेगाइंणइ, सुगसयाइं कथाइय  
सयाणियकरेसाणेविहरइतएणंतेमयूरपोसगांतमयूरपोयगंडमुक्कबालजावकरेमाणंपासित्ताणंतम  
यूरपोयगंगिएहंतिरत्ताजिएदत्तस्वपुत्तस्वउवणे तितएणंसेजिएदत्तपुत्ते सत्यवाहदारएमयूरपोयगं

यौवनवयपास्योच्छे मोरनालचरणपूरायथाच्छे मोरनात्रंगोपागप्रगद्याह्नेमानकहताजं चपणेकरीउन्मानक० लांवपणोतेणेकरीप्रमाणक  
हतांपडलपणो तेणेकरीप्रतिपूर्णपूरापचवेज्जं पांखच्छे तथापेह्णकलावक० मोरनात्रंगकलापएतावताचादलाना समूहच्छेजेमोरने  
विचित्रचित्रादिमरूपपिच्छानेविषेअवसक्तसहितसंयुक्तचांदलाच्छे जेमोरनेनीलोच्छे गलोजेमोरनो नाटिककरवानोनाचवानोसीलख  
भावच्छेजेमोरनो तेमोरनोवालकएकचापटी कौषीज्जं तीच्छतीएतले एकचापडीचापडीवजावीज्जं तीच्छती अनेकप्रणानाटिकनांसई  
काडांकारीनिज्जं तेच्छतेतथात्रनेकप्रणांकेकाचितमोरनाशब्दस्वरभीठोखुकारीबीलवुं एमविनोदकरतोड्डतोच्छतोमोरनोवालकविचरेच्छे



कचंद्रकाः नीलकांठकोनर्त्तनशीलकः चप्युटिकाप्रतीताकेकायितं मयूराणांशब्दः एकस्याचप्युटिकायांद्धतायां सत्याशांगोलाभंगसिरो  
हरेत्ति लांगुलाभंगवत् सिंहादिपुच्छवक्रीकरणमिव शिरोधराग्रीवायस्यस तथा खेदापन्नोजातखेदः श्वेतापांगोवासितनेतांतः अत्र

उभ्युक्त्वा लजावकरेमाणं प्रासित्ताहृदुडेतेसिंविउलंजौवियारिहंपीद्राणंपडिविसज्जेद्रतएणंसेमथू  
रपोथएजिणदत्तपुत्तेणं एगाएचप्युडियाए कथाएसमाणीएणंगोलाभंगसिरोधरेसियावंगेउत्तरियप

तिवारपच्छीतेमोरनापोषकहारापुरुष तेमोरनाबालकप्रते उत्कृष्टपणेवालभावपपुं स्रं क्याप्रतेअनेकनाटिककलाकरताकृताप्रते दे  
खे देखीने तेमोरनावालकप्रतेग्रहेग्रहीने जिणदत्तनापुलनेआणीने आपेतिवारपच्छी तेजिणदत्तपुलसार्थं वाहनो बालकतेमोरना  
बालकप्रते उत्कृष्टपणेस्रं क्याच्छेवालभाव जिहांजिहांताई नाटिकनीकलाकरताप्रतेदेखीनेहर्षसंतोषपास्योच्छतो तेमोरनापोसणहा  
रापुरुषानेविपुलधणोजिवे तिहांलगीजोग्य एह्वंप्रीतिहर्षनुंदानदेईआपीने प्रतिविसर्जेमोकलेसीखदीए तिवारपच्छीतेमोरनावाल  
कजिणदत्तसार्थं वाहनेपुले एकचापडीकीधीऊंतीच्छती लांगुलपूकनीपरिसीहना पूच्छडानी परिभंगवाकीथईच्छे सिरोधराग्रीवा

तारितो शरीरात्पृथक्कृतौ प्रकीर्णौ विकीर्णपिच्छौपक्षौयस्यसतथा ततः पदद्वयस्यकर्णधारयः उत्क्षिप्रजङ्घीकृतश्च द्रुकादिकः चन्द्रक  
प्रभृतिकस्यूरगकविशेषोपेतच्च द्रुकैरचितोवाकलापः शिखंडोयेनसतथा केकायितशतंशब्दविशेषशतंप्रणयएहिंतिपणितैर्व्यवहारैर्द्वौ

द्रुखपक्खे उक्खित्तचंदकाइयकलावे केकाइयसइयविमुच्चमाणेणच्चइह तएणसेजिणदत्तपुत्ते तेणंमयू  
रपोयएणं चंपाएणयरीए सिंघाडगजावपहेसु सएहिइयसाहसिएहिइयसयसाहसिएहिइय परिणएहि

कोटिजेहनौतेहनौपरिमोरथयोखेतपरसेवेथयोसरीरे अथवाखेतपगधोलाक्खे नेतनामध्यभागसरीरथकी उतास्याअलगाकीधा  
क्खेप्रकीर्णविसारस्याक्खेविलेखाक्खेपौष्ठापाखरजेहनाएहवो उंचाकीधाक्खेचांदलाप्रमुख मोरनाकलापअथयविसेषजिणे अथवाजं चो  
कीधोक्खे चादलेकरीरच्योक्खे कलापपुंछडोजेणेमोरिएहवनमोर केकायितकहतांमोरदाशब्दनासेकडातेप्रते सूंकतोऊतोऊतोणच्चइ  
नाचेक्खेमोरतिवारपक्खी तेजिणदत्तनोपुत्त तेणेमोरनेबालके चंपानगरीनेविषे तिवटातिखूणाभार्गतिहां जिहांराजमार्गतेहनेविषे  
सोगमेद्रुथ्यनीहजारगमेद्रुथ्यनी लाखगमेद्रुथ्यनी पणितकेहताहोडेकरी जीपतोजयवादकरतोऊतोऊतो विचरेक्खेमोरडीकलाइक

ड्डादिभिरित्यर्थः एवमेवेत्यादि उपनयवचनमिति भवतिचात्रगाथाः जिणवरभासियभावेसु भावसत्त्वेसुभावउभद्भसं षोडश्यासंदेहं

यजयंकरेसारेणिविहरद्द्रएवामेवसमणउसोअमहंणिगंगथोवाणिगंगथीवापव्वइएसमाणेपंचसुमहव्वएसुछ  
सुज्जीवणिक्काएसुणिगंगथेप्रावयणेणिसंकिण्णिक्खिण्णिव्वित्तिगिच्छेसेणंइहभवेचेववज्जणंसमणणंउ  
णंसमणेणंउणंसावयाणंउणंसावीयाणंजाववीइवइसइएवंखलुजंबूसमणेणंभगवयामहावीरेणंजा

रीजीपेक्के एअएणीपरिजिणदत्तना पुत्रनीपरिसाधुने तीर्थंकरअहोसाधोआउखावंतो अम्हारानिग्रंथसाधुयती साधवीदिच्चालीवे  
छतेपांचमहाजतनेविषे ष्ठयवी१पाणीरअग्नि३ वाउवनस्पती५छट्टोलसदंएक्खजीवणिकायनेविषे निग्रंथप्रवचननेविषे निसंकितनिसं  
देहसंकासंदेहनारणे अनैरादेवगुणनोअभलापवाह्यानकरेधर्मनाफलनेविषेसर्वथासंदेहनकरेसाधुनीदुगंछानकरेतेसाधुसाधवीआभ  
वनेविषेचेवनिश्चयसहित षणासाधसाधवीआवकआविकातेहाने पूजवायोयधणुंआदर सनमानदेस्येपजास्ये एणेप्रकारेखलुनिश्च  
यसहितहेजंबूसुधर्मास्वामीकहे अमणतपस्वीद्भगवंतसंपूर्णं ज्ञानवंतमहावीरदेवतेणे जिह्वातिहा सिद्धिरूपमोक्षनोथानकपास्यो

वसंपत्तेर्गंतच्चस्वराण्यञ्जयणस्य अयमद्वे प्रणत्तेत्तिविमिश्रतद्रयंणायञ्जयणं सम्भ्रं तं जिणवरभासियभाविभुभा  
 वसञ्चेसुभावओमद्रुसंशो कुञ्जासंदेहं संदेहोणत्थिहेउत्ति १ शिखंडेहत्तंपुणगुणहेउ जंतओतयंकज्जंएत्थ  
 दोसेट्टियथाअं डथग्गाहीउदाहरणं २ तं कत्थमद्रुडुब्बलेणतव्विहायरियविरहवा विण्णियगहणत्तरेण्णया

छेतेगोतीजाजाताथ्यननो एपूर्वोक्तार्थकहोच्छेतेहवोज अर्थसुधर्मास्वामीजंवप्रतेकहे इतिश्रीनागपुरीतपागच्छे श्रीपासचंदसूरिश्च्री  
 ससरचंदसूरिश्च्रीराजचंदसूरि विनयोपाध्याय श्रीहाराणंदचंद्राणां सिष्यसुनीप्रेमजीकेन ज्ञातादृतीयाध्यवनस्यवार्त्तिककृतः शिवेदृ  
 षांतभेलेच्छेजिनवरश्च्रीवीतरागतीर्थकरदेवनाभाष्या कक्ष्याभावनेविषेभावसत्यभावसाचानेविषे भावयकीयथाख्यातभावयकीसंतिबुद्धि  
 वंतनकरेसंदेहप्रते संदेहतेहनोहेतुच्छे एतलेअनर्थमिथ्यात्वनोकारणच्छे १ निसंदेहपणुं छेतेपुनःवलीगुणनोहेतुकारणच्छेने तेकार  
 णयकीतयंतेनिसंदेहपणुवारिवुंसंदेहरहितयावुंइ' हांसंदेहनेविषे दोसेठिनापुत्रमोरडीनाइ' डानाग्रहण हारातेहनाहटांतजाणवाए  
 तेनिसंदेहकिहाइ' मति बुद्धिनेदुर्वलपणेकारी तथातेहवायोग्यआचारिजनविहरथकीवा अथवाअपिनिश्चय तथाअजाणअज्ञानेग्रह

मयंगतीर दृहेति स्रतगंगतीर क्रूरः स्रतगंगयतगंगदेशे जलं व्यूढमासीदिति आनुपूर्वेण परिप्राच्यासुष्टजातावप्रासटायत्वसतथा गंभीरमगांधशीतलंजलं यत्वसतथाततः पदद्वयस्य कर्मधारयः क्वचिदिदमधिकं दृश्यते अच्छविमलसलिलपडिच्छस्ये प्रतीतं नवरं स्रतत्वा

तेणं कालेणं तेणं समएणं वाणारसीणामंयरी होत्या वस्य श्रोतीसेणं वाणारसी एणयरी ए वहियाउ  
त्तरपुरच्छिमेदि सीभाएगां गाए महाणई एमयंगतीर दृहेणामं दहे होत्या अणुपुव्वसुजायवप्पगंभीरसी

अर्थ कस्योते सामल्यो हिवचौयाज्ञाता अध्ययननो अमणभगवंतश्रीमहावीरदेवे कृणुअर्थ केहवोअर्थ प्रकृष्यो कस्योते उपरि सुधर्मास्वा मीजंबप्रतेचौया अध्ययननोअर्थ केहेछे इणे प्रकारे निश्चय सहि नहे जंबू तेकालते समयने विषे वाणारसी नामानगरी होती ऊई तेनग रीनोवर्णवउवाई थी जाणवो तेवाणारसीनगरीने विषे बाहिर उत्तरपूर्व दिसनो भाग एतले ईश्याणि कृणुना भागने विषे गंगानामा नदीमोटीने विषे स्रतगंगतीर दृह ऊतो इओ स्रतगंगकहतां जिहांगंगानदीना एक प्रदेशने पांणीवहेते स्रतगंगा कहीयेते स्रतगंगतीर दृह केहवोछे आनुपूर्वकेडाके डिंपरिपाटीइं करी सुसुष्टु भलाजातययाछे वटतटजे स्रतगंगतीरने विषे तथा गंभीर उं दुं अथाहशीतलता

प्रतिच्छन्नश्चादितः क्वचित्तुसंछन्नेत्यादिसूचनाविदंश्यं संछस्यपत्तमपत्तभिससुणालेसंछन्नानिश्चाच्छादितानिपद्मैः पतैश्चपद्मिनी  
दलैः विद्यानिपद्मिनीसुलानिष्टणालानिचनलिननालानियत्ततथा क्वचिदेवंपाठः संछस्यपत्तपुष्पलासे संछन्नप्रतैः पद्मिनीदलैः पुष्प  
पलायैश्चकुसुमदलैर्नः सतथावहुत्तपुष्पलासुभ गसोर्गंधियपुं डरीयस्यपत्तसहस्रपत्तकेसरफुल्लोवद्भ्रुवङ्गभिरुत्पलादिभिः केस

यजलश्च विमलसलिलपडिपुम्बे संछस्यपत्तपुष्पलासे बहुत्तपुष्पलासुभ कुसुययणल्लिण सुभगसो  
र्गंधियपुं डरीयमहापुं डरीय स्यपत्तसहस्रपत्तकेसरपुष्पफोवचिण पासाइए४ तत्थणंबहुत्तं मच्छा

दुंपाणीके जेष्टगंगतीरनेविषे वलीतेद्रुहकेहवोके अच्छाक्योक्तरारहितविमलनिर्मल जेपांणीतेणेभस्यापण्याथकिपडिच्छिन्नढां  
क्योके संछन्नश्चाच्छाद्योढाक्योके पत्तकमलशीनां पांनडाफूलनापलाससमूह तेणेकरीजेतेगंगतीरद्रुह वलीतेगंगतीरद्रुहकेहवोके  
वहुत्तपुष्पलासुभपद्म राताकमलकुसुमकहतां चंद्रविकासीकमलनलिनकमलविशेष शुभगकमलविशेषपुं डरीकधोला  
कमलमहापुं डरीकमोटा धोलाकमलस्यपत्तसोपांखडीना कमलसहस्रपत्तहजारपांखडीना कमलइत्यादिकेकमलतेप्रधानकेसरी

रप्रधानैः फुल्लैः जलजपुष्पै रूपचितः समृद्धोचः सतथा तत्रोत्पलादीनि नीलोत्पलादीनि कुमुदानिचंद्रबोध्यादीनि पुंडरीकाणिशिशु  
तपद्मानि शेषाणि लोकरूढ्यावसेयानि छप्ययपरिभुज्जमाणकमले अच्छविमलसलिलपत्यपुष्पे अच्छंचविमलंच यत्खिलोंहितंपथ्यंते  
नपूर्णः परिहृत्यभमंतमच्छकच्छत्रश्लोणसउगणमिच्छणपविचरिए परिहृत्यदत्ते दत्त्वात्रमंतोमत्स्याश्चकच्छपाश्च यत्रसतथा ततःपद  
द्वयस्यकर्मधारयः पासाइयेदरिसण्ज्जे अभिरूवेपडिरूवेइति प्राग्वत् पावेत्यादि पापौ पापकारित्वात् चंडौक्रोधनत्वात् रौद्रौभौ

णय कच्छभाणयगाहाणय मगराणयसुं सुमाराणय सथाणिय सहस्वियाणिय सयसाहस्विया  
णिय जूहाइं गिभयाइं गिरुव्वियाइं सुहंसुहैणं अभिरसमाणाइं विहरंतितस्सणं मयंगतीर

इं करीफुल्लउच्छे पाणीनीफूलतेणे करी उपचित्तसमृद्धच्छद्विवंतच्छे जेतेद्रहएकारणथकी धणुं जजोवावोयच्छे तेद्रहमांहिषणामाच्छि  
लाकाच्छिभागाहकमाच्छिलाविसेष मगरमाच्छलासुसुमारमाच्छिलाविसेष तेहसतसोगमे हजारगमेलाखगसे एहवामाच्छिलाजलच  
रजीवनाजुयच्छे तेनिर्भयभयरहितच्छे निरुपसर्गउपसर्गरहित सुखिसमाधिंश्रीभरतारनाजोडला अभिरसतांथावेरसतांकीडाविनो

पयाकारतया तत्तद्विवक्षितं वस्तुलब्धुमिच्छतइति तस्मिन् साहसिकौ सहसाप्रवृत्तौ लोहितौ प्राणी अग्रिमौपादौययोखौतया लोहितयानं चम्बनयोरखीति लोहितपानिनौ आमिषंसांसादिकमर्थयतः प्रार्थयतौयौतौतया आमिषाहारौ सांसादिभोजिनौ आमिष

इहहस्य अदूरसामंते एत्थयुंभहं एगेमालुया कच्छएहोत्थावस्यओ तत्थयुंदुवेपार्वसिया लगापदि वसंति पावाचंडारहातस्मिच्छ्या साहसिया लोहितप्राणीओ मिसस्यीओमिसाहारा आमिसस्यि

दकरतांविचरेके तेस्यतंगंगातीरद्रहनेपात्रे अतिघणुं दुकडुं नहीं घणुं वेगलुनही इहांएकमालुयाकाछोहोहोहोओ एतावताजालिकरी जाडीभूमिछे एहवोवर्णकपाखिलीपरिवखाणवो तेमालुयाकाछानेविषे दोपापसीयालीयावसेछे तेकेहवाछे पापनात्परवायणाथकीपा पीछे चंडछेकोधनाकरनापणाथकीकोधीछे तेतेवांछीतेवस्तुतेलहिवाभणी ईच्छताछता साहसीकछे कामकरताओसरतानथीसहसा वारेप्रवर्त्तवाथकी लोहितेभस्याछे प्राणीकहतांआगिलादोपजदोस्थालीयाना आमिसकहतांसांसादिकप्रतेअर्थयतप्रार्थ तांछेजेते स्यालियाआमिससांसादिकनाआहारीछेआमिषप्रीयवस्तुभसांसादिकछे सांसनालोलीपंपटछे सांसप्रतेगवेषणाकरताजोताफरेके



प्रियौवृषभमांसादिकौ आमिषलोली आमिषलंपटौ आमिषंगवेषयमाणौसंतौ रात्रौचरजन्यांविकालेच संध्यायां चरतद्रत्येवंसीलौ  
 यौतौतथा दिवाप्रच्छन्नं वापितिष्ठतः सूरिएत्यादिसूर्ये भास्करेच्चिरास्त्वामिते अत्यंताऽऽसंगते ललितायां अतिक्रांतप्रायायां संध्यायां

याआमिसलोला आमिसंचगवेसमाणारत्तिं विद्यालचारिणो दिवाप्रच्छणाया विचिद्वृति तएणं  
 ताओभयंगतीरदृहाओ अखयाकयाहं सूरियंसिचरत्यभियंसि लुलियाएसंजभाए प्रविरलमा  
 शुसंसिणिसंत पडिणिसंतसि समाणुंसिदुवे दुग्धगाआहारथी आहारंगवेसमाणा सणियंरुत्त

एभकरताप्रवर्त्तताडताछता रत्तिं रात्रिनेविषेव लीविद्यालकहतांसांभनासमयनेविषे चालवानोविचरवानोस्वभावछेएहवावेपापसी  
 यालीयादिवादिवसनेविषेप्रच्छन्नछानारहेछेतिवारपछी तेऽतंगंगतीरदृहयकी एकदाप्रसावेसूरिजचिरअत्यं तवणुंअसुं गतआथमे  
 डतेछतेललितक० अतिक्रांतप्रायसांभपडीएतलेषणुंअंधकाररूपसांभयदृडतेछतेपविरलयोडामदुयनोसंचारडुं तोछतोषणांभवांयकी  
 निवर्त्यांछेनिशांतकहतांधरनेविषे प्रतिशांतकहतांधरनेविप्रतिनिआंतक० विआमठामिलोकरह्याएतलेआपआपणेठामेसगलालोकसर्व

पविरलमाणुसंसिनिसंतपडिनिसंतसित्तिकोर्यः प्रविरलंकिलमाणुषसंध्याकालेयत्तवदेशे आसीत् तत्रापिनिशंतप्रतिनिशते अत्यंत

रंति तस्वेवमयंगतीरदृहहस्य परिपेरंतैणं सव्वओसमंता परिघोलमाणाद्वित्तिं कप्पेमाणाविह  
रंति तथाणंतं चणंते पावसियालगा आहारत्थी जावआहारंगवेसमाणा मालुयाकच्छयाओ  
पडिणिक्वमंतिरत्ता जेणेवमयंगतीरदृहे तेणेवउवागच्छंतिरत्तातस्सेव मयंगतीरदृहहस्य परिपेरं  
तेणंपरिघोलमाणाद्वित्तिं कप्पेमाणाविहंति तएणंते पावसियालुकुम्मए पासंतिरत्ताजेणेवतेकु

धारहेऊं तेरुतेसर्वथासनुव्यादिकनोसंचारनिवत्योच्छेवऊं कूर्मकाळभाआहारन अर्थीआहारप्रतेवांळताप्रार्थताळताआहारप्रतेगवे  
पणाकरताळताठामिरफिरताळताधीरेरऊतरेनीसरतेसुतंगंगतीरदृहनेपासेअरहापरहासगलीदिसिनेपरिघोलतापरिअमणुकर  
ताठामिरफिरताळतावृत्तिंआजीविकाप्रतेकप्पे माणाकरताआचरताळताविचरेच्छेतिवारपच्छी तेपापसीयालीयाआहारनाअर्थीजि  
हाताइआहारप्रतेगवेषणाकरताजोताळतामालुयाकाळाथकीनीसरतीने जिहांसुतंगंगतीरदृहच्छेतिहांआवेआवीनेतेहिजसुत

स्मएतेणैवप्रहारैथ्यगमणाएतएणंतेकुम्भयातेपावसियालयएज्जमाणे पासंति२त्ताभीया तत्यातसिया  
उव्विगासंजायभयाहत्थेपाएणीवाएयसएहिंसाहरइ२त्ताणिच्चलाणिप्रफ़्फ़ंदावुसिणोयासंचि  
इंतितएणंतेपावसियाला जेणैवकुम्भगातेणैवउवागच्छंति२त्तातेकुम्भगासव्वओसमंताउच्चोयंतिपरि

गंगातीरद्रहनें पासे अरहापरहा परिस्त्रमणकरताफरताजाताआवताछता आज्जीविकाप्रते आचरताछताविचरेछे तिवारछीते  
पापसीयालीयावेकूर्मकाछवाप्रते देखेदेखीने जिहंतेवेकाछभाछे तिहंआविवाभणीगमनप्रारंभ्योछे तिवारपछीतेविड्डंकाछभाते  
पापसीयालीयाप्रते आवताछतादेखेदेखीने बीहनानाठाउदवेगपाम्या एकारणथकीसंजातभया जपनाभयभयवंतथवाछताहाथप  
गग्रीवाकोटिएसर्वअंगोपागपोतानी कायाप्रते संताडेढांकेहाथकोटिप्रते एकारणथकीनिश्चलरहे हाथपगफरकावेनहीं अणवोल्या  
छानाड्डंताछतारहे तेपापसीआलीया वेड्डंकाछभाछे तिहंजअवेआवीने तेवेड्डंकाछभाप्रतेसगलीदिसे जछालेअरहापरंहाफे  
रवीमूँके बीजेठामेमूँके वलीरसंभालीरठामिमूँके ताडनाकारिवालवे खोभनाकरेपगफेरवेसुखफेरवेहाथपगफरकावे आगिलापग

अमण्यद्विरतेनिशान्तेषुवा गृहेषु प्रतिनिःश्रितिविश्रान्तेनिष्कानि अत्यन्तजनसंचारविरहइत्यर्थः समागंसत्तिसति आवाधां ईषद्वाधां

यत्तंतिअसारेति संसारेतितालितिवेभिति घट्टंतिफ्रंदंतिणहेहिंअलुंपतिदंतेहि आखोडंतिणोच  
वणंसंचाएतितेसिंकुम्भगाणंसरीरस्रआवाहंवाप्यवाहंवाप्यवच्छेयंवाकरित्तएतएणंतपा  
वसियालातेकुम्भएदोच्चंपि तच्चंपिसव्वओसमंताउव्वट्टेति जावणोचैवणंसंचाएति करित्तएतहेवसंता

नेनखेकरीचोभनाकरे नखेकरीविदारैदंतेकरीने खोभनाकरेदंतेकरडे तोउहिपणितेकाछवाप्रते आक्रमीनसकेकांईपीडाकरवास  
मर्थनऊई तेसीयालीयातेकाछवानासरीरनेथोडीआवाधाप्रते प्रवाधाप्रकट उतकटघण्णीआवाधाप्रतेउपजाविवाभणीकरवाभणीसरी  
रनाछविच्छेदप्रते करवाभणीसमर्थनऊईतिवारपच्छीवलीतेपापसीयालीयातेकूमकाछवाप्रतेत्रीजीवारत्रीजीवारसगलीदिसेउच्छालेअ  
रहापरहाकरेजिहांताईतोहिपणियोडीइं आवाधाघण्णीवाधापीडाकरवाभणीसमर्थनऊइतेकारणेतेसीयालीयासरीरयकीआंतम  
नेकरीयाक्कासरीरयकीअनेमनेकरीवेळंथाकाएकारणयकीसर्वथाउद्यमरहितसर्वथाकाकृताधीरिरेतिहंयकीपाछानीसरेपाछानी

प्रवाधां प्रकृष्टांवाधां आवाधांवा क्विच्छेदं शरीरच्छेदं आतौशरीरतःखिन्नौ तांतौमनसा परितंताबुभयतः ताएउक्विहाए इहएवंदृश्यं

तंतापरितंता निब्बिण्णसमाणासणियं२प्रञ्चोसक्को इ२त्ता एगंतमवक्कमंतिणिच्चलाणिफ्फं दावुसिणी  
यासंचिद्धंति तत्थणंएगेकुम्मएते पावसियालएचिरंणए दूरुंगएजाणितासणियं२एगंपायंणिच्छुभंति  
तएणंतेपावसियालातेणंकुम्मएणंसणियं२ एगंपायंणीणियंथासंति२त्तासिग्घं वुवियंचंडजइरण्वेगयंजे

सरीने तेसीयालीयाएकांतेजाइं एकेपासेएकेखुणे निच्चलच्छताहाथपग अणहलावताच्छता अणवोल्याच्छानावेसीरहेतेकाच्छवाप्रतेजो  
ताच्छतातिहांएककाच्छवोतेपापसीयालीयातिहांथकीचिर घणेगयादूरवेगलाघणुंगयाजाणीनेधीरे२एककाच्छवोएकपगप्रतेवाहिरकाढे  
तिवारपक्कीते पापसीयालीयातेणे काच्छवेधोरे२एकपगवाहिर आख्योवाहिरकाढोएहवा एकपगप्रतेदेखेदेखीनेतेउत्तृष्टकाच्छवानी  
जेपोतानीगतिजीवनीतेउत्तृकर्षकहीये सीम्रउतावलीगतिचपलपणुंकायानुचंडपणुं आरंभसमारंभथकीसर्वंअंगहलाव्यावुविरियत्वरि  
तउतावलपणुं मनेउतावलपणायकीउद्धतपणुंशेषथाकता सरीरनाअवयवनाकंपवाथकी जयनिगच्छतिसेषथाकतीकाच्छवानीगतिप्र

येवसेकुम्भएतेणेवउवागच्छइइत्तातस्सणकुम्भगस्सतंपायणहे हिंआलुं पइदंतेहिंअक्खोडंतितओपच्छाअं  
 संचसोणियंअहारेइइत्तातंकुम्भगंसव्वओसमंताउव्वत्ते ति जावणोचेवणंसंचाएतिकरित्तएताहेदोच्चं  
 पिअक्कमंतिएवंचत्तारिविपायाजावसणियंइ गौवंणोणेतितएणंतेपावसियालातेणकुम्भएणंगीवंणीणि  
 यंपांसंतिसिग्घंचवलंणहेहिंदंतेहिंकवाडंविहाडिति तंकुम्भगंजीवियाओववरोवेइइत्ताअंसंचसोणियंच

तेजीपवापणायकीवेगवतीं गति एहवीगतिकरीतिहंतेकाक्खन्नोच्छे तिहंआवेआवीने तेकाक्खवानोतेपगप्रते नखेकरीअलुपेचुटेविदा  
 रेदांतेकरीवोडे तिवारपच्छी मासअनेलोहीप्रते आहारकरेपच्छे तेकाक्खवाप्रते सगलेसर्वदिसिंजोतापाछा अंगसंवरं तेकारणथकी  
 सगलासरीरनेनखेकरी दांतेकरीविदा रिवालोल्लवाभणी समर्थनल्लवेते सीयालीयातेकारणथकी सियालीयावीजीवा एकांतिजा  
 इएकबूणेछानारहे एमपूर्वोक्तप्रकारनीषरि अणुक्रमेवीजोपग काढेतीजोपगकाडेपच्छे चोथोपगकाडेमोडे सोडेपच्छेचारपगअ  
 नुक्रमेखाधापच्छे कोटिप्रतेवाहिरकाडेमोडे तिवारपच्छीतेपापसीया लीयातेणेकाक्खवेग्रीवा कोटिवाहिरकाढीप्रते देखेदेखीने सीप्र

आहारं ति एवासेवसमणालसो जो अरुहं णि गंगो वा णि गंगी वा आ यरि यलवज्जायाणं अं ति ए प्रव्व इ ए रू मा  
 शेपं च यसे इ दि या इ अशुत्ताणे भवं ति से यं इ ह भवे चे व बहू णं समणा णं बहू णं समणी णं बहू णं सावगा णं ब  
 हू णं सावो या णं हौ ल णि ज्जे य र लो ए वि य णं ग च्छ इ व हू णं डं डणा णं जा व अ णु परि य इ ति ज ह सि कु म्म ए अ गु ति  
 दि ए त ए णं ते पा व सि या ल गा जे शे व से दो च्छ ए कु म्म ए ते शे व ल वा ग च्छ इ ता इ तं कु म्म गं स व्व अो स सं ता ल व्व त्ते ति जा

चपलगतिं इजइ नखेकरी दांतेकरीकपालप्रतेविदारफाडेविदारीने तेकाछवाप्रतेजीवतव्यथकीअलगोकरेकरीने मासअनेरुधिरप्रते  
 आहारेआहारकरेहिबेसुधर्मास्वामीकहे जं व प्रते एणीओपमाइ यतीने अहोअसणालसोअहोआलखावंतसाधोजोअह्वारासाधुसा  
 धवीआचारिजउपाध्यायना समीपनेविषेदीक्षाणीधेऊतेछतेपांचइ द्रियप्रतेअशुप्रइ एतलेपांचेंद्रियगोपवीनराखिते साधुसाधवीआ  
 भवनेविषेचेवनिचयसहित घणासाधुसाधवीआवकआविकानेहेलनीयइइ अनेपरलोकपरभवआवताभवेनेविषे जाइउपजेहिबेघणा  
 दंडबंधनकिलेसपामेतेसाधुसाधवीजावजीहांताइं घणांसंसारमांदि परिअसणकरेतेसाधुसाधवी जिमतेकाछवो असुते द्रियअणगो

वदन्ते हिं अक्रवोडेति जावकरित्तएतएण्ते प्रावसियालगादो चंपिणोसंचाएतितस्सकुम्मगस्सकिंचिआवाहं  
वाप्पवाहंवाजावच्छविच्छेयंवाकरित्तएताहेसंतातंतापरितंताणिव्विस्सासमाणाजामेवदिसंपाडभूयाता  
मेवदिसंपडिगयातएण्सेकुम्मएते प्रावसियालएचिरंगयं दूरगयंजाणित्तासखियंरुगौवंणौणेतिरत्तादि

पव्याइं द्द्रीयच्छते ४ तेपापसीयालीयेखाधो तिवारपच्छीतेपापसीयालीया जिह्मातेवीजोकाच्छतो तिहांआवेआवीने तेवीजाकाच्छिवाप्रते  
सगलेचोउफेरअरहोपरहोहलावे तिहाजिहांनलेकरीदातेकरी विदारेइमअनेकमारवानाडपायकरे तोपिणमारवाभणीसमर्थन  
ऊवेतिवारपच्छीतेपापसीयालीया बीजीवारलीजीवार अनेकउपायकरेमारवाभणीतोही समर्थनऊवेमारीसकेनहीं तेकाछिवाने  
काइंयोडीअवाधापीडा घणीअवाधाजिहांतिहाच्छविच्छेदकरवा भणीसमर्थनऊवे तिवारेतेसीयालीयासरीरथकीथाका मनेकरीथा  
कासरीरमनवेऊंयकीथाका आसारहितथयाऊंताच्छताजेणीदिसथकीप्रगटथयाऊंता तिण्दिसेगया तिवारपच्छीतेकाछिवोतेपा  
पसीयालीयाघणुंवेगलुंअतिघणुंवेगलागयाप्रतेजाणीनेमोडेप्रथम पहिलीगटवाकोटिकाठेकाढीने दिसिसगलीअवलोकनकरेदिसोदि



तुरियाएचवलाएचंडाए सिग्धाएउड्डयाए जयणाए क्खेयाएत्तितवउत्कष्टाकूम्रीणांयःखगत्युत्कर्षः तद्वततीत्वरित्वं मनसओत्स क्खात्  
क्खेकःचपलत्वंकायस्य चंडत्वंसंभारव्वत्वात् शीघ्रत्वं अतएवउड्डु तत्त्वंशेषशरीरावयवकंपनात् जयनीयत्वंशेषकूर्मगतिजेहत्वात् क्खेकत्व

सावलोयंकरेइजमगसमगंचत्तारिपायाणीणेतिताएउक्किडा एजावकुम्मगईएवीइवयमारेजेणेवमयंगती  
रइहेतेणेवउवागच्छइइत्तामित्तणाइणियगसयणसंबंधिपरियणेणंसद्धिं अभिसमखागएयाविविहरइए  
वासेवसमणाउसोजो अइहंसमणेवासमणीवापंचयसेइं दिया णिगुत्ताइं भवंतिजावजहासेकुम्मएगुत्तिं

सजोइकरी पक्खेजमगसमगकहता समकालिसायेच्यारेपगवाहिरकाढेकाढीने तेउत्कष्टिततावलीतिहांजिहांकाह्वानीगतिकरीअ  
तिकमतोचालतोऊं तोहत्तो जिहाम्हतंगतीरद्रहक्के तिहांसुखेसमाधेआवीने मित्तज्ञातिपुलादिकखजनवडागोत्वसंबंधिपरिजनदास  
दासीतेसगलासंघाते अथिसंपूर्णे मिल्योयकोविचरेक्के सुखेरहेक्के च्चिवेसुधर्मास्वामीजंबूप्रतेकहेक्के हेजंबूएमयतीओ पमाणेप्रका  
रेजेअम्हाराअहोअमणाउसो अहोसाधोअमणसाधुअमणीसाधवीपांचइं द्वियगुपताऊइ एतलेपांचेद्वियगोपवीराख्याऊइमोकलाम्ह

सपायपरिहारनैपुण्यादितिजातोपनय निगमनेचकंश्चे केवलं आयरियउवज्जायाणं अंतिपष्विएसमाणे इत्यत्रविरहतीतिशेषो  
द्रष्टव्यः विशेषोपनयनमेवं कार्यइहकूर्म स्थानीयौ साधुशृगालस्थानीयौ रागद्वेषीवापंचमपाद चतुष्टयस्थानीयानिरागादिजनित

दिएएवंखलुजंबूसमणेणंभगवयामहावीरेणंचउत्थसणाय उभयणस्यअथमडुपसूतेत्तिबेसिचउत्थंणाय  
उभणंसम्मत्तंठुविसएसुइंदिद्याइंरुंभंतरागदोसविमुक्कापावंतिणिब्बुइसुहंकुमोव्वमयंगदहसोक्खंइइय

कथानुद्धवे जिहतांदिजिमतेवीजोकाछवोगुप्तं द्वियच्यारपगपांचमीकोटि पांचइंद्रीगोपवीरह्योयको सुखेसमाधिंपोतानेथानकगयो  
इणेप्रकारेखलुनिश्चयसहित हेजंबअमणतपस्वीइंभगवंत समग्रठजुराइवंततेणे कर्मरूपसत्तु नाजीपवाथकीमहावीरतेणेचउथाज्जाता  
अध्ययननोअर्थकत्तोसुधमीस्वामीकहेछेजेहवोअर्थ श्रीभगवंतनासुखयीसंभल्योडंतो तेहवोअर्थतुभ्रप्रतेकहंछुं इतिश्रीज्ञातानोचो  
योअध्ययनसंपूर्णययोश्रीनागपुरीतपागच्छेअपार्श्वचंद्रगच्छिवउपध्याय श्रीहीराणंदचंद्राणांसिष्यलेसेनसुनिप्रमजीकेनश्रीज्ञाताथ  
यनस्यवार्त्तिककृतं हिवेइहांकाखिवानेथानकेवे साधुवेसीयालियाथांनकरागदेषच्यारपगनेपांचमीकोटिनेथानज्ञापांचइंद्रियच्यारप

कर्म प्रभवानि तिर्यग्नरनरकनाकिभवेषु नानाविधदुःखानि पादादिगोपायनस्थानीया इन्द्रियाइन्द्रियाइन्द्रियसंलीनता ऋगालाग्रहणलब्ध  
णारगाद्यानुत्पत्तिः ऋतगंगानदप्रवेशतुल्यानिर्व्याणप्राप्तिरिति इहगाथाविसण्डु इन्द्रियाइन्द्रुंभंतरारागदोसनिम्बुक्का पावैतिनिन्वि  
तिस्त्रुहंकुम्बु व्वमयंगदहसोक्खं ? इन्द्ररेडषण्णत्थपरंपरा उपवेतिपावकम्भवसा संसारसागरगया गोमाडगसियकुम्बोव्वरइत्तिज्ञाता  
धर्म कथायां चतुर्थमध्ययनं विवरणतः समाप्तं । अथपंचमंशैलकाख्यं ज्ञाताध्ययनं विवियते अस्यचपूर्वेषुसहायसंबंधः पूर्वत्वारुंलीने  
द्विथेतरघोरनर्थार्थीवुक्ता विहृतुपूर्वमसंलीनेन्द्रियोभूत्वापियः पञ्चात्वंलीनेन्द्रियोभवति तस्यार्थप्राप्तिरभिधीयतइत्येवं संबंधस्यास्येदं

रउअण्णत्थपरंपराओपावंतिपावकम्भवसासंसारसागरगयागोमाडगसियकुम्बोव्वरइण्णंभंतेसमण्णंभ

गयनेकोटिपसारवानेसब्दादिकपांचविषयनेविषेपांचइन्द्रीयनोप्रवर्त्तीवोवेपापसीयालिया नापामवानेथानकरागद्वेषनोप्रगटथावोप  
गादिकनो कापवोपच्छेपच्छेकाक्खिवानोमरणतेहनेथानकरागद्वेषादिकथी उपनाआठकर्मथयातेआठकर्मनापराभवयकी तिरयंचमनु  
थनरकदेवतानीगतिनेविषे अनेकप्रकारनादुषभोगवाइ जेपांचइन्द्रियमोक्खलाम्बं कस्ये तेसाधुसाधवीहिववीजाकाक्खिवानी परि

गवयामहावीरेणुजावसंपत्तेणं च उच्यते प्रसूते प्रचमससुता य उच्यते यणससमशेणं भग

पगादिगोपवाने धानकापाचइं द्रीचनोसंलीनता पापसीयालीयाना अणग्रहवालक्षणा नकरागादिकनो अणप्रजिवो ऋतगंगातीर  
द्रुह्नोपाभिवो अनंताप्रदेसीशरीखी मोक्षनीप्राप्तिएतले दूषवीजोकाछिवोपगादिकनासंवरवाथकीसुखेसमाधिलपद्रवरहितऊतेछ  
तो ऋतगंगातीरद्रुह्नपास्यो लिप्तसाधसाधवीपाचइं द्विय नागोपवासंवरवाथकीमोक्षपासेऽ मो अध्ययननोसंबंध इहांगाथाविकाहेछे  
विषेशब्दादिकापांचविषयनेविषे पाचइं द्रीचप्रतेषु धतासंवरताजीव तथारागथकीनिर्मुक्तारहितऊवे तेजीवपामेनिदृत्तिमोक्षनासु  
खप्रतेकाछिवानी परंजिमएवाकाछिवोच्यारपग अनेषांचमीकोटिनावांधिवाथकी रंधवाथकी ऋतगंगातीरद्रुह्ननासुखप्रतेपास्यो ?  
इतरवीजोकाछिवोपगादिकनाप्रसंवरवाथकीमोक्षलाहं कवाथकी जिमअनर्थनीपरंपरा अणिप्रतेपावे पापकर्मनेवसेकरीसंसाररूप  
सागरससुद्रसाहिगयाऊं ताछता परिश्रमणकरे गोसायुकहतांपापसीयालीया एगृह्याकाछिवानीपरिजिमए काछिवोपगकोटिना  
खंगोपांगथकीप्रत्यक्षदुखपास्या हिवपांचमोसेलकनामा ज्ञातानोअध्ययनकहेछे एपांचमाअध्ययनोपाछिला अध्ययनसंघाते एसंबंध

सर्वं जइणमित्यादिसर्वसुगमं धयावइमइनिष्ठावत्ति धनपतिवैअमणसान्त्यानिर्मापितानिरूपिता अलकापुरीवैअमणयचपुरीप्रसु

वयामहावीरिणंजावसंपत्तेणंकेअइपखत्तेएवंखलुजंबूतेणंकातेणंतेणंसमएणंबारवईणाअंणयरीहोत्थाया

ईणपडीणाययाउदीणदाहिणविच्छिखाणवयोवण विच्छिखाडुवालसजोयणायाभाधणवइमइणिष्ठाया

चोषाअध्ययननेविषे अगुत्ते द्विय गुत्ते द्वियनेविषे अनर्थ सहितकह्याअने पांचमाअध्ययननेविषे प्रथमगुत्ते द्वियहइने जेपाछेसंली

ने द्वियथाइ तेअर्थ नीप्राप्तिकहेछे एहवोसंबंधएअध्ययननेछेतेकहेछे जोभंतेहेअगवन् अमणतपखी अगवंतज्ञानवंतअमीमहावी रइ

वचोयाज्ञाताअध्ययननोएअर्थकह्योतेसांभल्योमनमांहेधाखो द्विवेपांचमाज्ञाताअध्ययननो अमणतपखी श्रीमहावीरदेवेजुणअ

र्थकेहवो अर्थप्ररूप्योकहोतेकहोतेकहेछे एमआगलिकहोसे तिमनिअयसहितहेजंबू तेकालतेसमयनेविषे हारिकानाजानगरी

होतीहोइ तेनगरीकेहवीछे परवदिसिअनेपछिमदिसि आयतलांवीछे उत्तरदिसिअनेदक्षिणदि शिविलीणंपडलीछेतेहारिकानग

रीवलीतेहारिकानगरीकेहवीछे नवजोयणनीपडलीछे वारजोयननीआयामलांवीछे वलीतेकेहवीछे धनपतिवैअमणउत्तरदिसिनो

दितप्रक्रीडिता तद्वासिजनानांप्रसुदितप्रक्रीडितत्वात् रैवतकउज्जयंतः चक्रवागत्तिचक्रवाकः मयणसालत्तिमदनशारिका अनेकानि

चामीथरप्रवर पायाराणामणिपंचवराक विसीसगसोहिद्या अलथापुरीसंकासापमुइयपक्कीलियाप  
 चक्रवंदेवलोगभूयातीसेणंवारवईएणयरोएव हिद्याउत्तरपुरच्छिमेदिसी भाएरेवथएणामपव्वएहोल्या  
 तुंगेगगणतलमणुलिहंतसिहरेणाणविहगुच्छ गुम्मलयवस्त्रिपरिगएहं समिगमयूरकोंचसारसचक्र

अधिषाथकसुधर्मद्रुनोभंडारी कुवेरनोमायचतेहनीमतिइंबु द्विंनोपजावीछेनवमावासुदेवनेअर्थचामीकरकसुवर्णतेहनोप्राकार  
 कंगदछे अढारहायनोजं चोछेगानाप्रकारनीमणिवंद्रकांतादिकपंचवर्णमणिनाकोसीसाछेजेगढ़नेविषे तेषोकरीसोभतीछेजेहारि  
 कानगरी अलक्रापुरीधनदयथ्यनीतेसरीखीछेजेहारिकाप्रसुदितहर्षवंतअनेप्रकर्षकरिक्रीडावंततेनगरीनावसणहारालो  
 कछेएतलेसर्वयाउपद्रवरहितछे प्रत्यक्षदेवलोकनीओपमासरिखीछेजेहारिकानगरीतेहारिकानगरीनेवाहिरउत्तरअनेपूरवविचेए  
 तलेइगानकूंगिनाभागनेविषे रैवतनामापर्वतएतलेगिरनारनामामापर्वतऊतोऊओतेगिरनारजंकोछे तेगिरनारपर्वतगगनतलंआ

तटानिकटकाञ्च गंडशैलायतनसतथा विद्यरत्तिविराणिच अक्कराञ्च निर्भरविशेषाः प्रपाताञ्चस्र्गवः प्राग्भाराञ्च ईषद्वनतागिरि  
देशाः शिखराणिचकूटानि प्रचराणियत्नसतथा ततःकर्माधारयः अश्वरोगणैर्देवसंघैः चारणैर्जंघाचारणादिभिः साधुविशेषैः

वायमथणसालकोद्भूलकुलीवैएअणेगतडकडगविवर उक्करप्रवायप्रभारसिहरपउरेअच्छरगणदेवसंघचा

कासनातलाप्रते आकासलगीलिखेसरीरफरसेछेसिखरजेगरनारपर्वत नानाप्रकारनारुच्छागुच्छायतावे लङ्गत्यादिकदृक्त्वनीजातिक  
रीपरिगतकहतांभस्योछे जेगिरनारपर्वततथाहंस्र्गहृद्विणमोरक्रौंचसारसचक्रवाकमदन सारिकाकावरिकोकिलाकोद्भूलङ्गत्यादिक  
पंखीयानाजिकूलस्र्गहृतेणैकरीउपपेतसहितछेजेगिरनारपर्वतअनेकधणातडक० तटपर्वतनास्र्गलच्छेकडगक० पर्वतउपरिथीमोटाअथ  
टितसिलारूपपाषाण हेठापड्याछेजिहांविवरच्छिद्रयका नीभरणानीसरतेहनाप्रपातपडवायकीपभारक० प्राग्भारलगारेकथोडा  
हेठानम्याछेपर्वतनाप्रदेससिखरकूटतेप्रचूरषणाछेजेगिरनारनेविषे अच्छरगणअश्वरादेवांगनानागणसस्र्गहृतेणैकरी देवदेवताना  
गणसस्र्गहृतेणैकरीविज्जाहरमिज्जणक० विद्याधरनामिथुनजोडलांएतावताविद्याधरस्त्रीसहिततणेकरी संविणैकहतांसगलोमर्षादा

विद्याधरमित्युनैच संविश्वित्तिसंविचरितः आसेवितोयःसतथा नित्यं सर्वदाक्षणात्सववायत्वासौनित्यक्षणाकःकेषामित्याहदसाराः

रणविज्जाहरमेज्जणसंविणेणिसत्थणएदसारवरवीरपुरिसतिलोक्कवलवगाणं सोमेसुभगेप्रियदंसणे सु  
 खवेपासाईएदरसणीएअभिखुवेपडिखुवे तस्सणंरेवयगस्सपव्वयस्सअटूरसाअंतिएत्थणंणंदणवणेणामंड  
 ज्जाणेहोत्था सव्वत्थयुपफफलसमिद्धेरस्से णंदणवणप्पगासेपासाईए तस्सणंउज्जाणस्स वहुमउभदे

करीसेव्यो मेजेगिरनापर्वतनित्यनिरंतरसर्वदाच्छणएक० उत्खवच्छेजेगिरनारपर्वतनेविषेतेकेहनोउत्खवच्छेतेकहेच्छे दसारससुद्रविज  
 यादिकतेसाह्वरप्रधानतेहिजवीरसुभटपुरुषच्छेजेतेति लोक्कवलवगाणंविणविभुवनयकीपणअधिकवलवंतच्छे अतुलवलत्रीनिसनाथस  
 हिरपणाथकीएकारणयकीसौस्थसोमाकारीच्छेसुभगसनोरमच्छेएकारणथकी प्रियदर्शनच्छेजेपर्वतनोभलुरुपच्छेजेपर्वतनोतेरैवतकगिर  
 नारपर्वतनेपासेषणंवेगलुंनहींषणुंठु कडुंपिणनहींएहंभुइहानंदनवननामउद्यानवनखंडउतोह्मओतेकेहवुंछेसगलीच्छेत्तुनांनीपनां  
 जेफलफलतेहनीसत्तद्विच्छद्विइं करी नंदनवनसरिखोच्छेजे नंदनवनखंड तेनंदनवनउद्यानना षणामध्यदेशनाभागनेविषे सुरप्रिय



समुद्रविजयादयः तेषुमध्ये वरासाएववीराधीरपुरुषाथेते तथातेलोगवलवगाणं तैलोक्यादपिवलवं तोऽतुलवल्लिनेमिनाथयुक्तत्वात्

सभाएसुरप्पिएणामंजक्खायणेहोत्थादिव्वे वस्सओतत्थणंवारवईएणयरीए कएहेणांमंवासुदेवेराथा  
परिवसई सेणंतत्थससुद्धविजयपामोक्खाणं दसएहंदसाराणंवलदेवपामोक्खाणं पंचएहंसहवीरा  
णंउगसेणपामोक्खाणं सोलसरहंरईसहस्साणं पज्जु, सपामोक्खाणं अद्दु, द्वाणंकुमारकोडीणंसं  
वपामोक्खाणं सट्टीणंदुहंतसाहस्सीणं बीरसेणपामोक्खाणं एकवीसाएवीरसाहस्सीणं महासेण

नामाजक्खायणयत्तनुं आयतथानकदेहरो तेदिव्यप्रधानमहिमावंतसाचो तेवर्णकउवाइथीजांखवो तिहांद्वारिकानगरीनेविषेकण  
नामावासुदेवराजा परिवसेक्खेहेक्खे तेकणवासुदेव तिहांससुद्धविजयप्रमुखआदिदेइ, दसभाईदसयदसारतेहनोबलदेवप्रमुखआदि  
देइनेपांचमहावीरमोटासुभटतेहनो उग्रसेनप्रमुखआदिदेइ सोलराजानासहस्रएतलेउग्रसेनराजा आदिदेइनेसोलहजारराजा  
नोप्रत्तु, न्मकुमरप्रमुखआदिदेइने आठकुमारकोडिनोसंबकुमरप्रमुख आदिदेइनेसाठिदुर्दोतकुमर नाहजारतिहांनो बीरसेनप्र

प्रामोक्त्वाणंछ्मणाएवत्वगसाहस्वीणंरूपिप्रामोक्त्वाणंबतौसाएमहिलासाहस्वीणं अणंगसेणंपा  
 मोक्त्वाणंअणेगाणंगणियासाहस्वीणं अस्सेसिंचवहुणईसरतलवरजावसत्यवाहप्रभिइणंवेयडुगिरिसा  
 गरपेरंतस्सयदाहिणडुभरहस्सयवारवईएणयरीएआहेवच्चंजावप्राप्तेमाणेविहरइतत्थणंबारवईएणयरी

सुखआदिदेईने एकवीसवीरसुभटसंग्रामांहे अग्रे सरतीतेहनाहजारएतले एकवीसहजारवीरकुमरानो महासेनप्रमुखआदिदेईने  
 छप्पन्नवलवंत गर्वनासहस्रमल्लीपरिवलनाधरणहार रुकमणीप्रमुखआदिदेईने वत्तीसमहिलास्त्रीनाहजार तेहांनोएतलेरुक्म  
 णीरांगीआदिदेईनेवत्तीसहजारस्त्रीछे दृष्टाने अनंगसेनाप्रमुखघणागणिकावेथ्यानो हजारतेहांनो तथाअनेराइघणाईसरतल  
 वरमाडंवरदितिहांजिहा सार्यवाहप्रभृतिप्रमुखतेहानो वैताढ्यपर्वतपर्थतअने पूर्वससुद्रदक्षिणससुद्रपच्छिमससुद्रपर्थत एतीननो  
 खंडनोदक्षणाई भरतखेतनो दृष्टवाखुदेवहारिकानगरीनेविषे रद्वोछेअधिपतिपणुं धणियापणुं अग्रे सरतीपणुं जिहांतांईपालतो  
 ऊतोऊतोविचरेछे श्रीदृष्टतिहांद्वारिकानगरीनेविषे थावच्चानामागृहस्थनीवसेछे तेकेहवीछे ऋद्विवंतीछे तिहांजिहांअपरिभता

येतेतथातेचतेचतेषां बत्तीसाओदाओद्वान्तिशत्रुकोव्यइत्यादिकोदायोदानं वाच्योयथा

एथावच्चाणामंगाहावईणौपरिवसइ अड्डाजावअपरिभूयातीसेणंथावच्चाएगाहावइणीएपुत्ते धावच्चा  
पुत्तेणामं सत्यवाहदारएहोत्था सुकुमालपाणिपाए जावसुरूवे तएणंसाथावच्चागाहावइणीतंदो  
रगंसातिरेग अड्डुवाससयंजाणित्ता सोहणंसितिहं करणकवत्तसुद्धत्तंसि कलायारियस्सउवणे  
तिजावभोगसमत्थंजाणित्तावत्तीसाएवालियाणंएगदिवसेणं पाणिंगिरुहावेइवत्तीसाओदाओजाव

घणुंमानवतीछे तथावच्चानामागृहस्थणीनेपुलछे तथावच्चापुलनामा सार्थवाहनोबूलकडतोड्ढओ तेकेहवोछेसुकमालसुहालासु  
कोमलहाथपगछे जेजिहांघणुंरपछे तिवारपच्छीतेथावच्चानामा गृहस्थणीतेबालकप्रतेसातिरेक भाभकेराअठवरसनाथयाप्रतेजा  
णीनेसोभनरूडीतिथिनेविषे रूडानबननेविषे रूडाभलासुहत्तनेविषेकलाचार्यनीपासिंभणवाभणीजिहांतांईसगलीविद्याभण्याप  
च्छीचौवनवयपास्यापच्छी भोगभोगविवानेसमर्थयथाप्रतेजाणीनेथावच्चानीमाता बलीसवालिकावतीसकाने एकदिवसेपाणीग्रहणकार

मेवकुमारस्यसोचेववक्ष्यन्ति आङ्गरेतित्यगरेइत्यादिर्योमहावीरस्य अभिहितः गवलन्तिमहिषशृङ्गं गुलिकानीलीगवलस्यवागुलि

वतीसाएइभकुलवालियाहिंसद्धिविपुलेसहृफरिसहख्वगंधेजावभुंजमाणेविहरइतेणंकालेणंतेणं  
समएणंअरिहाअरिइणेमीसोचेववक्ष्यन्तीसधणुसेहेणीलुप्यलगवलशुलियअवसिकुसमअगसिअइ  
रसएहिंसमणसाहस्वीहिंसद्धिसं परिबुडेचत्तलीसं अज्जियासाहस्वीहिंसद्धिपरिवुडे पुव्वाणुपुव्विं

वेपरणावे पच्छेसुसुरोवतीसप्रासादघरवतीसकोडिसोनानी वतीसकोडिरूपानीइत्यादिकदाओक० दानआपेमेवकुमरनेदायजोआ  
प्योतिमआपे इश्वकुलनीवालीकावतीसस्वीयासंधाने विपुलविस्तीर्णधणा शब्दः फरिसरस्यशं३रस४ रूपगंधपांचप्रकारनाभोगप्रते  
तिहातांइंभोगवतोछतोथावञ्चापुत्रविचरेच्छे तेडुबभोगवेच्छे तेकालतेचमयनेवित्रे अरिहंतअरिहनेमीश्रीनिमिनायवावीसमोती  
धंकरतेचेवनिचयसहितवर्षेवेच्छेतेकहेच्छे दसधनुषप्रमाणसरीरं चोच्छे जेनेमिनायनो नीलाउत्पलकमलगवलगक० कामायुंभेसानुं  
सौंगुलोचक० नीलीगुलीअयसिक० सालवादेसमाहेप्रसिद्ध अलसीधान्यविशेष तेहनाफूलइत्यादिकवस्तुना वर्णसरिखोप्रकास

चरमाणे जावजेणेववारवद्वणयरी जेणेवरेवएप्रव्वएजेणेवणंदणवणउज्जाणे जेणेवसुरप्रियस्सजवख  
स्सजक्खायतणे जेणेवअसोगवरपायवे तेणेवउवागच्छइरत्ता अहापडिखुवंउगहंउण्हत्तासंजमे  
णंतवसाअप्पाणंभावेमाणे विहरइपरिसाण्णिगया धम्मोक्कहियो तएणंसेकरहेवासुदेवे इमौसेकहा

छेजेनेमिनाथनोअठारहजारसाधुचारितीयारुंधाते परिवस्थोछतो चालीसअार्जिकानासहस्रचालीस हजारसाधवीयांसंघातेपरि  
वस्थोछतो पूर्वानुक्रमेचालतोविहारकतोऊतो श्रीनेमिनाथ जिहांताइजिहाहारिकानगरीछे जिहारैवतगिरनारपर्वतछेजि  
हानंदनवननोउद्यानवनखंड जिहांसुरप्रियनासा यक्षनोयक्षायतनदेहरूछे जिहाअसोकवरप्रधानपादपट्टछे तिहांअतिसयसुं  
पधारेपधारीने यथाप्रतिरूपयथाजोग्यअवग्रह थांनकपाटपाटिलाप्रते मांगीनेऊतरे संयमजीवयतनाईकरी तपवारभेदतपेकरी  
आत्माप्रतेभावतोऊतोछतो श्रीनेमिनाथविचरेछे श्रीभगवंतआव्यासाभलीने परिखदाअवीवैठी धर्मकह्योसांभलाव्यो तिवारपछीते  
द्वेष्यासुदेव जनलोकनासुखथीसांभल्योजे श्रीनेमिनाथआव्याछे एहवीकथावार्त्तानोअर्थलह्योपास्यो जाण्योऊं तोछतो कौटुंबि

कागवलगुडिका अतसीमालवकप्रसिद्धोषान्यविशेषः कोमुद्भयंतिउत्सववाद्यं क्वचित्सासुदायिकीभितिपाठः तत्रसासुदायिकीजननी  
लक्षप्रयोजनानिहमङ्गरगंभीरपडिस्त्र एणंप्रिवत्ति स्त्रिग्धमधुरगंभीरं प्रतिश्रुतं प्रतिशब्दोयस्यसतथा तेनैवकेनेत्याह शारदिकेन शर

एलइडेसमाणेकोडुं वियपुरिसेसद्देवद्देत्ता एवंवयासौ खिप्पामेवभोदेवाणुप्पियासुहम्माएसभाएसे  
धोघरसियंगंभीरंमङ्गरसहं कोमुद्देयंभेरिंतालेहतेणंकोडुवियपुरिसाकरहेणंवासुदेवेणंएवंवुत्तास  
माणोहडुजावमत्थएअंजलिकट्टुएवंवयासीतहत्तिजावपडिसुणेद्देकरहस्सवासुदेवस्सअंतियाओपडि

नाआदेशकारीपुरुषाप्रते तेडावेतेडावीने तेसेवकांप्रतेएहंक्कहतीऊओ च्चिप्रउतावलाजभोदेवानुप्रियाओ सुधर्मास भानेविषे भेष  
नासम्हसरिखोरसितसद्धे जेभेरिनोएहवीप्रते गंभीरमोटोडं डोसद्धे मधुरमीठामनोरमसद्धे जेभेरिनोएहवीकोमुद्दीभेरिह्हे  
कोमुद्दीकहताउत्सवकरवानीभेरिप्रते तुमेताडवोजावो तिवारपछीतेकौटुं विक आदेशकारीपुरुष क्कणवासुदेवे एपूर्वोक्तप्रकारेज  
ह्यागोल्याहता हर्षसंतोषपास्याहताहता जिहंताइमाथानेविषे अंजलीप्रतेकरीने तेआदेशकारीपुरुषएमकहताह्हातहत्तिकरी

त्कालजातेन बलाहकेनसेधेनतु रसितंशब्दाधितंभेर्थाशृंगाटकादीनिप्राग्वत् गोपुरंनगरद्वारं प्रासादोराजमहद्वाराणि प्रतीतानि

शिकवमंतिरुत्ता जेणवसुहम्मासभा जेणवभेरी तेणववागच्छइरुत्तातंमेघोघरसिय गंभीरंमऊरस  
इंकोसुदिदंभेरिंतालेति तत्रोण्डिमऊरगंभीर पडिसुएणपिवसारइएणंवल्लाहएणंमणुरसियंभेरी  
एतएणंतीसेकोसुदिद्याएभेरीए तालियाएसमाणीएबारदइरण्यरीए णवजोयणविच्छिण्णए दुवालस

जिहांतांईवचनत्रंगीकारकरेकरीनेकण्णनामावासुदेवनासमीपथकीतेसेवकनीसरेनीसरीनेजिहापरकोसुदीभेरिछे कौसुदीक०उत्थ  
वसहोत्ववनीभेरिछे जिहांसुधर्मासभाछे तिहांआवेआवीने तेमेघनासम्हनीपरिमेघनागाजसरीखीएहवी गंभीरउंडीषणुंमीठा  
मधुरसवप्रलेवोलेछे एहवीकौसुदीउत्थवनीभेरिभंभाप्रते ताडेवजावेतिवारपच्छी निह्वकहतां चीगटोलूखोनहीं मधुरमीठोमनोरम  
गंभीरमोटीजंढो एहवुंप्रतिश्रुतक० पडछंदउछेजेहभेरिनोतेणेकरी तेणेछंदोकुणजस्युं होइ सरत्कालत्तुनोजपनोवलाहकक०  
मेघनागाजनोजाणेकरी पडछंदउछपनोजस्युं तेणेकरीसरिखोएतले आशुकातीमासिनोसरत्कालनोजपनोउनयउवडीआव्योमेघ

भवनायिष्टहाणि देवकुलानिप्रतीतानि तेषुयाःपडिसुयत्ति प्रतिश्रुतःप्रतिशब्दस्तासां यानिश्चतसहस्राणिलक्षासैः संकुलायासातथा  
ता कुर्वन् कामित्याह द्वारकावंतीनगरौ कथं सतामित्याह सभ्रिंतरवाहिरिवंति सहाभ्यंतरेणमध्यभागेन बाहिरिका वाचप्रा

शंयणायामाए संघाडगतिचउक्क चच्चरकंदरदरौय विवरकुहरगिरिसिहर शगरगोपुरप्रासा  
यदुवारभवणदेउलपडिसुयासयसहस्र संकुलंसहं करेसाणात्रारवइणययिंस विभंतरियवाहिरियं

तेअरीवजाआपच्छी तेकौसुदीभेरिवजाडीऊं तीछती द्वारिकानगरीनेविपे तेकेहवीछे नवजोयननी विच्छिन्नालावीछेवारजोजननी  
पुऊलीछेजेद्वारिकानगरीतेहनेविषेतेतेकिहारपडछंदोधयो विसुख्योतेथानकदिखाडेछेसिंघाडाफलनेआकारविवूणाभार्गतीनसार्ग  
एकठामिले च्यारमार्गएकठामिले तिहांगणामार्गएकठामिले तिहानाहरानीगुफादरीकोटीपर्वतनीगुफा तिहापर्वतनाविवरतरूप  
डीतरूपपर्वतनेविपे चालेपर्वतपर्वतनासिखरनगरनो वारणोप्रसादराजानाघर तथावारणभवनक० सामान्यप्रकारथीलोकनांघर  
देउलदेवकुलसामान्यथकी सर्वदेहराइत्यादिकसगलीठांमनेविषे पडिसुयापडिछंदतेजाणकेते कौसुदीभेरिनाजेसतसहस्रक०ला



काराद्वहिर्नगरदेशेनयासा साभ्यंतरवाहिरिकातां सेद्वतिसभेरीसंबंधीशब्दः विषयसरित्यत्तिप्रामोक्त्वाइत्तिप्रशुभः।

सव्वत्रोसंभतासेसद्दे विषयसरित्या तएणंतीसेवारवद्देएणयरोएणवजोयणविच्छिखाए वारसजोयण।  
यामाएससुद्देविजयपामोक्त्वादसदसारा जावगणियसहस्साएकोसुदोयाएभेरीएसद्देसोच्चाणिससु

खतेणेपडच्छंदेकारीसंकुलआकुलव्याकुलयद्देद्वारिकानगरीतेकेहवीछे अर्थितरमध्यभागेकारीराहितगढमाहिभलोभागतेअर्थित  
हीयेअनेगढयकीवाहिरनगरनादेसप्रदेस तेणेकारीसहितजेतेनगरीछे तेद्वारवतीनगरीप्रते खगलेचोफेर सेकहतातेभेरीसंबंधिस  
विषेकेरीप्रसरतोविखरतोऊओ तेभेरीनोसब्दसगलेविखास्यायकी अनंतरतेद्वारिकानगरीनेविषे नवजोजननीखांवीछे चवडीछे  
वारयोजननीखांवीछे एहवीद्वारारवतीनगरीनेविषे ससुद्रविजयप्रमुखआदिदेई दसदसारदसभार्दिजिहांतांईगणिकावेखानासहस्र  
एतलेद्वारिकानगरीनोसगलोलोक तेकीमोदकीउत्पवनी भेरिनासब्दप्रतेसंभलीने हीयामांदिअवधारीने तेससुद्रविजयादिकहर्ष  
संतोषपास्या जिहांताइतेसगलाइअंधोल्याखानकोधा पछेसपीतिलकादिककारी सर्ववखअलंकारेकारीसहितआविद्धकहतांपहिया

द्वयव्यारियमस्रदासकलावत्ति परिहितप्रलंबपुष्यमालासमूहा इत्यादिवर्षं क'प्राग्वत् पुरिसवगुरापरिक्वत्ता वागुरास्रगन्धनं

हइतुद्राजावगहायात्राविद्वग्धारियमस्रदासकलावात्रहयवत्यचंद्रणोकिशुगायसरौराअप्येगइया  
हयगयरहसौयासंदमाणी अर्ष्ये गइयापाय विहारचारिणंपुरिसवगुरापरिक्वत्ताकशहस्रवासुदे  
वस्रअंतियंपाउभवित्या तरणंसेकशुहेवासुदेवे समुद्रविजयपामोक्खे देसदसारि जावअंतियंपाउभ

केवग्वारियककहतालंगायमानलांवाएहवामाल्यदांस कलापामाल्यफुलनीमालानासमूहजेयोराजाएं आहतहणाणानथीऊंदरादिके  
करद्यानथीएहवावस्त्रपहिस्यात्ते तथाचंदनलगाद्योछे केतलाइकराजाघोडेचढीकेतलाइ कहाथीऊपरिवेसीकेतलाएकरथचढीकेत  
लाएकपालखीनेसीसंदमांणी कहतांपालखीविसेषप्रवहणंवेसी तथाकेतलाएकराजापादविहारचाले मालाचालवे' करीतिपादविहार  
चारीकहीयेजिमवगुराकहतास्रगहरिणानोबंधनविसेषघणे जीवकरीसि तज्जइतिमतेसगलाइराजापुरुषने' समुहेकरीपरिवस्राऊं  
ताच्छताकृष्णवासुदेवनाअंतियंसमीपे प्रगटरद्याआविउभारद्या तिवारपच्छीतेकृष्णवासुदेव समुद्रविजयप्रसुखराजासगला देसदसार

वमाणेपासिताहृदुडे जावकोडु विद्य पुरिसेसहावेइरता एवंवयासौ खिप्पामिवभोदेवाणुप्पियाचा  
 उरंगिणीसेणंसज्जे ह विजयं च गंधहत्थिं च उवडुवेह तेवितह्वेव उवडुवेइ जावपज्जुवासइ थावच्चापुत्ते  
 विखिण्णहेजहासेहोतह्वेव धम्मं सोच्चाणि सम्मज्जेणेव थावच्चागाहावइणितेणेव उवागच्छइरता प्रायण

जिहंतांइं समीपप्रतं प्रगटथया आवीजभारह्यादेखीने कृष्णवासुदेवहर्षसंतोषपास्योक्तोक्ततो जिहंतां देवली आदेसकारीपुरुषा  
 प्रतं तेडावेतेडावीनेतेकौटुंबिकपुरषांप्रतं एमकहतोह्रश्चिप्रउतावलोजावोतुम्हे अहो देवानुप्रियाश्चोचतुरंगणी सेनाहाथीषोडारथ  
 पायकएच्यारप्रकारनीसेनाप्रतं सज्जकरो विजयनामा गंधहाथी प्रतं सज्जकरीलावो एमकहतोडुवो तिवारपक्कीते आदेसकारीपुरुषप्रति  
 सजसज्जकरीसेना आणीराखी गंधहाथीपणि आणिकभोकीधोतिवारपक्कीकृष्णवासुदेवचतुरंगणीसेनासहित विजयगंधहाथीजपरि  
 चढीतथा भगवंतआव्यासांभलीनेथावच्चा पुलपिणवांदिवा भणीनीकल्यो नीसख्योजिममेघकुमार श्रीमहावीरनेवां देवाभाव्योतिम  
 थावच्चापुल तिमजमेघकुमारनीपरिथावच्चापुलधर्मप्रतं सांभलीने हीयांसां हिंधारीने जिहंथावच्चागटहस्यणीके तिहंथावच्चापुलआ

हणंकरेइ जहामेहखतहाचेवणिवेयणा जाहेणोसंचाएइविसयाणुलोमाहियविसयपडिकलूलाहि  
 यत्रुह्णिंआधवणाहिय प्रखवणाहिय विखवणाहिय सखवणाहिय आधवित्तएवा४ ताहेअकामिया  
 चेव थावच्चापुत्तस्य दारगस्सणिव्वमणमणुम्मसित्था तएणंसाधावच्चा गाहावइणिआसणाओअम्भु  
 डेइइत्ता महत्थंमहधंसहरिहं रायारिहंपाऊडंगिखइइत्ता मित्तजावसंप्रिवुडा जेणेवकरहस्स  
 वासुदेवस्स भवणवरपडिदुवारदेसभाए तेणेवउवागच्छइइत्ता पडिहारदेसिएणंमगेणं जेणेवक

वेआवीने थावच्चागृहस्थिनीनापादग्रहणप्रतें करे पगेलागीने आच्चामांगीने जिममेवकुमरनीपरिसगलुंकहिवुंजिममेवकुमारनेमा  
 ताइं अनेकसंसारनालालचदेखाद्यातिमइहां थावच्चापुत्तनेपिणमाताइं सगलीसंसाररहिवानीलालचदेखाडीअनेकप्रकारनीपरं  
 जिवारेमातानोवचनमाने नहीसंसारमाहिरह्निवासमर्थनऊइ तिवारपळीयावच्चागृहस्थनी आसणथकी ऊठेऊठीनेमोटोअर्थके  
 महर्थवऊमूल्यमोटाने अहंजोग्य राजाने जोग्यएहवुं प्राभृतभेटणुंतेप्रते गृहेलीयेग्रहीनेलेईमित्तजाति खजनसंबंधिप्रमुखपरिवारे

रहैवासुदेवे तेणैवलवागच्छइरत्ता तंमहगंधंमहरिहं रायारिहंप्राहुडंचलवणे  
 इरत्ता एवंवयासी एवंखलुदेवाणुप्यिवा ममएगेपुत्ते थावच्चापुत्ते णामंदारए इडेजावसेणंसंसारभ  
 युव्विग्गेइच्छइ अरहओअरिइरणेमिस्स जावपब्बइत्तए अहस्सुंणिक्खमणसक्कारंकरेमि तंइच्छामि

परिवरीऊंतीच्छती जिहांकृष्णवासुदेवनाथवरप्रधाननाद्वारपोलिनादेसभागच्छे तिहांथावच्चासार्थवाहौआवेआवीने प्रतिहारक  
 हतांपोलियोतेहने देखाडेमार्गेएतलेपोलीयानेआदेशेकरी जिहांकृष्णवासुदेवच्छे तिहांथावच्चापुत्रनीमाताआवेआवीने करतलत्रे  
 ऊं हाथजोडीने कृष्णवासुदेवप्रते वधावेवधावीने तेमहर्ष्य वरुसूत्यवणुं मोटाने जोग्यराजानेजोग्यएहव भेटणुं आगलिस्त्रकेसू की  
 नेइरणेप्रकारेकहतीऊइ एमआगलिकहिस्से खलुनिश्चयसहित हेदेवानुप्रियहेमाहाराज माहरे एकपुत्रथावच्चापुत्रनामादारकवालक  
 केतेकेहवोछे इष्टवस्त्रभच्छे जिहांतिहांतिपुत्रभगवतनी देसनासांभलीने संसारनाभयथकीउदवेगपास्योछे इच्छे केवांकेछे अरिहंतओ  
 अरिष्टनेमित्रीनेमिनाथने पासे तिहांजिहांदिच्चालेवाभणीवांछेछे तेकारणथकीऊंतेपुत्रनो निकमणुदिच्चाम होत्यवकारं तेकारण

णं देवाणु प्रिया थावच्चापुत्तस्सणिकवमणस्स छत्तमउडचासराओविदिद्याओ तएणंसेकरह्विवासुदेवे  
 थावच्चागाहावइणीएवंवयासौअच्छाहिणं देवाणुप्रियासुणिन्वुयावीसत्या अहणं सयमेवथावच्चापु  
 त्तस्सदारणस्स निकवमणसक्कारंकरिस्सामि तएणंसेकरह्विवासुदेवे चाऊरंगिणीएसेणाए विजयं ह  
 त्थिरयणंहुण्टेसमाणे जेणेवथावच्चाएगाहावइणीए भवणेतेणेवउवागच्छइरत्ता थावच्चापुत्तंएवंव

थकीळं वांछुं छुं हे देवासुप्रिय हे महाराजथावच्चापुत्तनें दीखानोउत्सवनें काजें छत्तचासरमाथानोसुकटादिदेईने वाजितथापोदि  
 रावोतिवारपच्छीक्षणवासुदेव थावच्चागृहस्थिनीप्रतिं एमआगलिकहिस्थे तिसकहतोळवो रहेतुमंतुं हे देवाणुप्रीयेहेसार्थवाहिशु  
 भलीपरिनिर्दंतनिश्चितसंदेहरहितविष्वासवतीळतीछतीरहे अहंछं स्वयमेवपोतेइजथावच्चापुत्तवालकनो निक्रमणसत्कारलेवानादे  
 चासत्कारउत्सवमहोत्सवतें करिस्सामिएहवुं श्रीक्षणवासुदेवथावच्चासार्थवाहीप्रतें कहे तिवारपच्छीतेक्षणवासुदेव चतुरंगनीसे  
 नाघोडाहाश्रीरथपायकए थारप्रकारनीसेन्याकटकतेणे संहितविजयनामाहाथिसगलाहाथीमांहरितनसरिखोपाटनोहाथीतेप्रते

यासौ साणंतुमं देवाणुष्प्रियासुं डे भवित्तापव्वाहि भुंजाहिणं देवाणुष्प्रिया विउलेमाणुस्सए कामभो  
 एममंवा ह्छायापरिणाहिण केवलं देवाणुष्प्रियस्स अहंणोसंचाएमि वाउकायं उवरिसेणं गच्छमिणं  
 णिवारित्तए असोणं देवाणुष्प्रियाणं जं किंचि विआवाहं वा प्रभाहं वा उप्पाए इतं सव्वं णिवारेमि तएणं

चढोद्धतो छतो जिहांथावच्चा गृहस्थीनी नोघरक्के तिहांकृष्णवासुदेवआवे तिहांआवीनें यावच्चापुत्रप्रतें एमआगलिकहिस्सये तिम  
 राजाकहतोद्धओ माइतिनेषेधेहे देवानुप्रिय हेथावच्चापुत्रतुमंतुं सुं डुयईनेप्रवज्यादिच्चा मतले पूर्वहिप्रथमपहिलोयौवनावस्थाहि  
 तेभोगनेहे देवानुप्रिय हेथावच्चापुत्र विपुलविस्तीर्णमनुष्यसंबंधीया कामभोगप्रतें भोगवो माहरीबांहनीछायाइं परिग्रहितरह्योव  
 स्योद्धंतो छतो एतावतामाहरेजपरिकरी केवलनीः केवलहे देवानुप्रियहेथावच्चापुत्रतुभने अहंऊं वारनहीं काईकऊं नहीवरजुनहीं  
 जिमताहरेइच्छाआवे वायुकायवायुरानीपरिंखेच्छाइं पोतानी इच्छाइं हीडंताजिमरुचिइं तिमचालतां कोईवारं नहीं तथाअनेरी  
 बीजीपिण हे देवानुप्रिय हेथावच्चापुत्रतुभने जेयोडीआंवाधापीडा घणीआवाधापीडा ऊपजेऊपजावे तेसगलुंऊं निवारं टालुं

धावञ्चापुत्ते करहेणवासुदेवेणं एवंवुत्तेसमाणे कणंवासुदेवं एवंवयासौ जद्रुणंतुमं देवाणुप्रियाममं  
 जीवियंतकरणंमञ्जुएज्जमाणं णिवारेसिजरंवासरीररुवंविणसिणंसरीरं अत्रद्वयमाणिणिवारेसि  
 तएणंअहंतववाहुच्छायापरिगहिणं विउलेमाणुस्सएकामभोगेभुं जमाणेविहरामि तएणंसेकरहे

एहवुंकच्यापच्छीतेथावञ्चापुल कणवासुदेवेएसपूर्वोक्तप्रकारेकच्चोहं तोच्छतो बलतुं कणवासुदेवप्रतेएसआगलिकहिस्से तिमकहतोहु  
 वोजीतुं हेमाहराजमाहाराजीवतव्यआउखानुं अंतनुंकरणहारं एहवुंहुकडुं सृत्युमरणआवताप्रतेतुं निवारिसितुं टालसिवाअथवा  
 जरावडपणसरीरनारुपने विणासनीकरणहारीएहवीजरा शरीरप्रतें तुं निवारिसितुं वरजीसि ताहरीवाहुहायनीछायाद्परि  
 खामस्यपणे ग्रच्छोहुतोच्छतोविपुलविस्तीर्णघणामनुथ्यसंबंधीयाकामभोगवतोहुतोच्छतोविहरामि विचरुं प्रवर्तुं गृहस्थावासमांहि  
 रहुं अन्यथानरहुं एहवीथावञ्चापुलकणप्रते उत्तरदेतोहुअतिवारपच्छीकणवासुदेवथावञ्चापुलने एसपूर्वोक्तप्रकारे कच्चोहुतेच्छते  
 बलतुं कणवासुदेवथावञ्चापुलप्रते इमआगलिकहिस्से तिमकहतोहुवो हेदेवानुप्रियहेथावञ्चापुलतुं हे मरणजरादिकनिवारवाना



वागुरेव वागुरा समुदायः नस्तथ्यअप्यणाकस्मक्वएणंति नइतियदेतन्मरणादिवारणशक्तो निषेधनंतदन्यत्वालमनाकृतान् आत्मनोवा

वासुदेवैथावच्चापुत्तेणंएवंवुत्तेसमाणेथावच्चापुत्तंएवंवयासीएणंदेवाणुप्पियादुरतिक्रमणिज्जाणोख  
लुसक्कासुबलिएणविदेवेणवादाणवेणवाणिवारित्तएणस्तथअप्यणोकस्मक्वएणं तएणंसेथावच्चापुत्ते  
कणहंवासुदेवंएवंवयासीजइणंएदुरतिक्रमणिज्जाणोखलुसक्काजावणस्तथअप्यणोकस्मक्वएणंतंइ

उपायकच्छो तेमरणजरादिकनाभयदोहिलाऽतीक्रमीये दोहिलाउलंघिये नोइतिनिषेधेखलुनिश्चयसहितसक्रे द्रसरिखातेकेहवासु  
अतिसयकरीवलवत्तरमहावलिष्टइतेहपणिमरणादिकनिवारिवाभणी देवतादानवअसुरादिक देवतातेणेपुणमरणनिवारीसकी  
येनहींतोवीजोऊदारिकसरीरनोधरणहारमरणजरादिकना समरथनऊइतोवीजोकुणटालीसके क्खणवासुदेवकेहेक्खेजेमरणजरा  
दिकवारवानीसक्तिनोनिषेधववोते अन्यत्वनहींअनेरोवीजोकोइनहीं अप्यणोपोतानोआत्मासंबंधीया आठकर्मनात्तयथकीमरणज  
रादिकनाभयसगलाक्के अन्यथावीजोकोइटालीसकेनहीं तिवारपच्छीतियावच्चापुलक्यणवासुदेवप्रते एमआगलीकाहिस्येतिमकहतोऊ

संबन्धिनः कर्म ज्ञयात् आत्मना क्रियमाणं आत्मीयं वा कर्म ज्ञयं वर्जयित्वेत्यर्थः आनेत्यादौ अत्ताणे अप्यणो वा काम्मक्खयं करिक्खएत्ति

च्छामिणं देवाणुप्पिया अखाणमिच्छत्त अविश्यकसायसं चियस्स अत्तणोकम्मक्खयं करित्तएतएणं से  
करहेवासु देवेथावच्चापुत्तेणं एवंवुत्तेसमाणे कोडुं वियपुरिसेसहावेइरत्ता एवंवयासौगच्छहणं देवा

वोजो ते सरणजरादिक्कनाभयदुखे अतिक्रमे उल्लंघीटालीसकीये जिह्वांतिहां अनेरोकोद्विसरणादिक टालिवाभणीसमर्थपोतानाकीधा  
आठकर्मनाच्चयकीसरणजरादिकनाभयसगलासर्वथाटाले तेकारणयकीडुं वांछुं हे देवानुप्रिय हे माहाराज अज्ञानपणे करीमिथ्या  
त्वपणे करी अविश्रयपणे करी कषायकोषादिके करीसंच्याएकठाकीषाजे कर्म तेहने टालिवाभणी पोताना आत्मासंबन्धीया कर्म नाच्चयवि  
नासिप्रते करिवाभणीडुं वांछुं तिवारपच्छीते कृष्णवासुदेवमाहाराज थावच्चापुत्ते एहवुं कहे ऊते छते कोटुं विकपु रिषअदेशकारीयापुरु  
षांप्रते तेडावेते डावीने एमआगलिकहिंस्ये तिम कहतोडुवो तुम्हे जावो हे देवानुप्रिया हे आदेशकारीयापुरुषो द्वारावतीद्वारिका  
नगरीने विषे संघाडाफलने आकारित्तिखुणामार्गतेहने विषे त्रिवटासार्गते विषे चारपथएकठामिले ते मार्गएकठामिले ते चाच

युष्मिन्ना बारवद्रणयरीए संघाडगतियचलक्कचच्चर जावमहाप्रहेसुहत्थि खंधवरगयामहया२स  
 हेणंउग्घोसेमाणा २ उग्घोसणंकरेह एवंखलुदेवाणुप्पिया थावच्चापुत्तेसंसारभउव्विग्गेभीएजम्म  
 णसरणाणंइच्छइ अरहोअरिइणेमिस्स अंतिएसुं डेभवित्तापव्वइत्तए जोखलुदेवाणुप्पियारायावा

रोमार्गतिहांजिहांसहापंथराजमार्गतेविषे वरप्रधानहाथीनाखांधाजपरि एतलेहाथीजपरिचढयाऊं ताछता मोटामोटासब्दसा  
 दतेशेकरीउद्दघोषणाकरताकरताहीं डो एहवीउद्दघोषणासब्दवोलतासादपाडतातेप्रतें करेहकरोतुम्हे एमआगलिकहिस्थे तिमकको  
 खलुनिच्चयसहितअहोदेवानुप्रियो अहोसमसलोकोठमेसंभलोतुमेसंभलज्योसंसारच्यारनरकादिगतिमांहिजावाआविवानाभवय  
 कीउद्दवेगपास्याक्खेवलीवीहनोक्खे जनममरणजारोगनिवाभणीवाक्खेक्खे थावच्चापुत्तअरिहंत औअरिष्टनेमिऔनेमिनाथनाअंति  
 केसमीपनेविषेसुं डथईने प्रपर्ज्यादिच्चालेवाभणीवाक्खेतेकारणथकीजेखलुनिच्चयसहितअहोदेवानुप्रियो राजअथवाजुवराजाअथवा  
 देवीपटरांणीअथवाकुमार वाईश्वरलीलावंत तलवरतलारकोटुं विकसेवकपुरुषमांडंविद्य विवहारीयनगरसेठि सेनाप्रतिकटकना

कर्त्तृणाद्दृष्टव्या पच्छात्तरस्येत्यादि पश्चादस्मिन् राजादौ प्रव्रजिते सति आतुरस्यापि च द्रव्याद्यभावाद्दुःस्थस्य चेतस्य तद्दीयस्ये

जुवराया वादे विवा कुमारे वा दिसरे वा तल्लवरे वा क्रोडुं विद्य पुरिसामाङ्गं विद्य इभमसेद्विसेणावईस  
 त्यवाहे वाथावच्चामुत्त प्रव्यं तमणु प्रव्यथति तस्सणं कणहे वा सुदेने अणुजाण इपच्छात्तुरस्साविद्य सेसि  
 त्तणा इजोगखे सवहुभाणी पडिव हति त्तिकाट्ट, घोसेणं घोसेह जावघोसं तितरणं थावच्चामुत्तस्स अ

नायक सार्थवाहजे कोईने भावजपजे दिच्चालेवाना ते सर्वथावच्चामुत्त दिच्चालेवा प्रते जाइछे तेहने पठिसाये जेहना दिखाना भाव होई  
 जे दिचालीये तेहने कण्णवासुदेव अणुजाणे अज्ञादीये छे अने वलीकहे छे कण्णवासुदेव पाक्खिल एरा जादिके दिचालीये छे ते छे तुर  
 स्थक दुखीया छे इद्रव्यादीकना अभावयकी तेहने तथासेक० तेहमित्तान्नातिस्सजनसंघिपरिजन प्रमुख समस्त परिवारने योगक्षेमनी  
 वात्तारा जाकरी सेयोग अणुपांसीवस्तुनो जेलाभते योगक्षहीये छे सक० लहीपांसीजेवस्तुतेहनुं परिपालवोराखिवुं ते छे सकहीयेतेयो  
 गजे सवेडं करी वर्त्तमानकालनाभावयकी वर्त्तमानीवर्त्तती प्रवर्त्तती जेवर्त्तती योगजे सवर्त्तमाननी प्रते निर्वाहरा जाकरी सेइति

त्यर्थः मिलञ्जातिनिजकसंबन्धिपरिजनस्य योगक्षेमवार्त्तमानीं प्रतिवहति तत्रालम्बस्ये स्थितस्यै ववस्तुनोलाभो योगोलम्बस्यपरिपा  
लनंचे मसाभ्यावर्त्तमानकालभवा वार्त्तमानी वार्त्तयोगक्षेमवार्त्तमाननीतां निवीहराजाकरोतीतितात्पर्यं इतिकट्टु इतिद्वल्ला  
इतिहेतोरिवंरूपप्रामेवधोषणां धोषयतकुरुत पुरिससहस्रमित्यादि इहपुरुषसहस्रं स्नानादिविशेषणं यावच्चापुत्रस्यांतिके प्रादुर्भूत

पुराएणंपुरिससहस्रं शिखसमणोभिसुहं गहायंसव्वालंकारविभूसियं पत्तयं२ पुरिससहस्रवाहि  
णी सुसिवियासुदुखुटंसमाणं मित्तणादूपरिबुडं यावच्चापुत्तसस्रंतियं पाउभभवित्यातएणंसेकरुहे

कट्टुकहतांएलकहीनेएहेतुकारणथकीएहवी धोषणाप्रतेतुन्हंघोषकरो एहवीआञ्जाआपेतेसेवकपुरुषांप्रते' तिमजनगरीमाहिघोष  
करेतेसेवकपुरुषतिवारपच्छी यावच्चापुत्रनेअनुरागे खेहरागेकरी पुरुषनाएकसहस्र एकहजारपुरुषप्रगटथाताप्रतेदेखेदेखीने तेषु  
षतुं सहस्रानिःक्रमणदिचालिवाने' अभिसुखसन्नु खययोच्छे तेषुसहस्रनाहे तेषुसहस्रं सहस्रसर्वसगलेअलंकारेकरीविभुषितअलं  
कस्योपहिस्थुं एहवंपुरुषांतुसहस्रप्रत्येक १जुदी १ एकेका पुरुषनीहजारपुरुषवाहेहजार पुरुषेवहीयेउपाडीयेएहवी सिवकापाल

वासुदेवपुरिससहस्रं अंतियंपाउभ्रवमाणं प्रांसद्रत्ता कोडुं वियपुरिससहविद्रत्ता एवंवयासौ  
 जहासेहस्रणिक्ख मणाभिसेओ तहवसोयापोएहिं कलसेहिण्हावेद्रत्ता तएणंसेथावच्चापुत्तेस  
 हसपुरिसेहिंसडिं सिवियाएदुरुठे समाणे जावरवेणंवारवईणययिं मज्झंमज्जेणं जेणेवअरहोअरि

खीनेविषे हजारपुरषनु सम्हहचढोद्धतो मित ज्ञातिखजनसंबंधीपोतानेपरिवारेपरिवर्युं एहवोपुरषनोसहस्रथावच्चापुलना  
 अंतिकेसमीपनेविषेप्रगटयथुं तिवारपच्छीतेक्षणवासुदेवपुरषनासहस्रदिच्चालेवानिमत्तथावच्चापुलनासमीपनेविषेआवीप्रगटयथुं दे  
 खेदेखीनेक्षणवासुदेवकोटं विकपुरषआदेसकारीयापुरषप्रतेतेडावेतेडावीनेइमआगलिकहिस्ये तिमअहतोइओक्षणजिमसेघकुमर  
 नेनिःक्रमणदिच्चालेवानोअभिषेककीधोद्धतो तिमजसोनाना१०८कलसरूपाना१०८रतननाकलस१०८माटीनाकलस१०८एवंआठप्र  
 कारनाएकसोआठ२ कलसेकरीतीर्थनेपाणीएकरीस्नानकरावेथावच्चापुलप्रतेस्नानकीधापच्छीतेथावच्चापुलहजारपुरषेसंघातेपालखी  
 ऊपरिचढोवेठोद्धतोतिहाजिहांघणेवाजिलेवाजतां हारिकानगरीमांहियईनेजिहांअरिहंतअरिअनेमिअ्रीनेमिनायनाअति

मितिसंदंभः विज्जाहरचारणेति इहजंभएथदेवेउवयमाणे इत्यादिद्रष्टव्यमेवमन्यदपि मेघकुमारचरितासुरेण पूर्ववदेतदर्थे तव्य

दुणेमिस्वच्छत्ताइच्छत्तं पडागाइं पडागंपासंतिरत्ताविज्जाहरचारणजावप्रासित्ता सीवियाओपञ्चोरुहं  
नितएणंसेकरुहे वासुदेवेथावच्चपुत्तं पुरओकहु, जेणेवअरिहा अरिदुणेमिसब्बंतंचेव आभरणंतए  
णंथावच्चगागाहावइणीहंसलक्खणेणंपडसाडएणं आभरणमह्वालंकारपडिच्छईहारवारी धारच्छि

सयच्छत्तातिच्छत्तउपरिच्छत्तअनें ध्वजाउपरिध्वजाएहवा श्रीनेमीनाथनाअतिसयप्रतें देखेदेखीनेतथाविद्याधरजुं भकदेवताविमानि  
कदेवताजं चाउतपतताजाताआवताचरणक० जंघाचारणयतीअनेविज्जाचारणसाधुतेप्रतें उं चाउतपततादेखीनें थावच्चापुत्रप्रमुखस  
गलाईपालखीथकीहेठाऊतरेतिवारपच्छीतेक्षणवासुदेवथावच्चपुत्रप्रतें आगलीकरीनें जिहांअरिहंतअरिष्टनेमिनायच्छेसगलुं तिम  
जमेघकुमरनीपरिंआभरणउतारेतिवारपच्छीथावच्चपुत्रथावच्चपुत्रनीमाताहंसलखणध उलुंवल्लहंसरुपवस्त्रअथवाहंसअालेख्याच्छेएह  
वोहंसलक्षणपटसाडोपटोलीरूपसाडोतेणेकरीआगलिधरीआभरणमालाफुलनीअलंकारसगलापहिरवेसतेप्रतें प्रतीच्छेग्रहेथावच्चपु

स्वसुत्तावलिपगासाहं अंसूणिविणिमुयमाणीर एंवयांसीजद्रयब्वं जायाषडियब्वं जायापरि  
 मियब्वंजायाअस्सिं चणं अडुणोपमाएब्वं जासेवदिसिंपाउभभूया तासेवदिसिंपडिगया तएणंसेथाव  
 चापुत्तेपुरिससहस्सेणसद्धिं सयसेवपं चसुट्टिलोयंकरे'ति जावपव्वइए तएणंसेथावच्चापुत्तेअणगारे

तनें आंगलिउभीरहीयकीहारत्वटोमोतीनोहारवारिधारपाणीनीधाराछेदांणीमोतीनीअेणितेहनीइसरीखाएहवाअखियकीआंसू  
 सू कतीहतीछतीरथावच्चापुत्वप्रतें माताएमआगलिकहिस्थे तिमकहनीऊई संयमनेविषेयतनकरिवु'ने' हेजातहेपुत्वएडीक्रियानीद्र  
 च्छाकरिवाने'विषेयटनाकरवीते' हेजातहेपुत्वचारित्वउपरिपरक्रामवलफोरवोलहे'जातहेपुत्व एपूर्वोक्तचारित्वपालिवानार्थने'वि  
 षेतें प्रमादनकरिवो एहवीसीखामणदेईयावच्चासार्थवाहीजेणीदिसिथिप्रगटथईआवीऊती तेणीजदिसें गइतथाकृष्णवासुदेवआदि  
 देईसगलाजेदिसथकिआव्याऊं तातेहिज दिसिप्रतें पाछागयातिवारपच्छीतेथावच्चापुत्व एकहजारपुरुषसंघाते स्वयसेवपोतेपोतानीसे  
 ले'पंचसुष्टीलोचप्रतें करे'अीनेमिनाथनें पासेदीजालीनीभगवाननोहाथनोदिच्चितथयो तिवारपच्छीतेथावच्चापुत्वषररहितथयोचा



मिति इरियासमिएइत्यादि इहयावत्करणदिदृश्यं' एसणासमिएआयाणभंडमत्तनिक्खेवणासमिए आदानेनग्रहणेनसहभांडमा  
 लायाउपकरणलक्षणपरिच्छेदस्य यानिच्चे पणामोचनंतस्यां समितःसम्यक्प्रवृत्तिमान् उच्चारपासवणखेलसिंघाणजस्रपारिद्धावणि  
 चासमिए उच्चारःपुरीषं प्रस्रवणं'सूत्रं' खेलोनिष्ठीवनं सिंघानोनासासलः जस्रःशरीरभलः मणसमिएवयसमिए कायसमिएचिच्चा  
 दीनांकुशलानां प्रवर्त्तकइत्यर्थः मणगुत्ते वइगुत्ते कायगुत्ते चित्तादीनाममुभानांनिषेधकः एतदेवाहगुत्ते योगापेक्षया गुत्तिंदिए

जाएइरिआसमिए भासासमिएएसणासमिए आयाणभंडमत्तणिक्खेवणासमिए उच्चारपासवणखे

रितीयोथयो वलीतेकेहवीच्छे लोकेषणुं बाहितवच्चोतेभागने'विषेपगर धूसरप्रमाणभूमिनेलेकरी देखतोऊ'तोळतो चालेतेइयीसुम  
 तीकहीयेसमितक०भलीएकाग्रपरिणामनीचेष्टातेसमितकहीये इयीसमितवंतथयो सावद्यरहितवचननावोलवाथकीभाषासमितवंत  
 थयो वेतालीसदोषरहितअन्नादिकनाग्रहवाथकी एषणासमितवंतथयो भलीपरिंजोइने'ग्रहेलीये भांडपालादिकअने' मातरादिक  
 माटीनोठामडोअने'भलीपरिंजाईने'पातरोअने'मातरोहेठोम्ब'किवो उच्चारवड़ीनितिपासवणअवणसुत्र खेलसलेखभावलखादिक

इं द्विधाणाविषयेष्वसत्प्रवृत्तिनिरोधात्गुप्तबन्धचारी वसत्यादिनवत्रह्यचर्यशुभ्रियोगात् अक्रोहेऽ कथमित्याह संतिसोऽथमूर्त्तिं त्वात्  
 पसंतेकषायोदयस्य विफलीकरणात् उवसतेकषायोदयाभावात् परिवुडे स्वाख्यातिरेकात् अणसवेहिंसादिनिवृत्तेः असमेसमेत्युक्ते  
 खस्याभिष्वंगतो असङ्गावात्अकिंचनः निर्द्रव्यत्वात् छिन्नगन्धेमिथ्यात्वादिभावग्रथिच्छेदात् निरूवलेवेतथाविधबंधहेत्वभावेन तथा  
 विधकस्मानुपादानात् एतदेवोपमानैरूच्यते कंसपाईवसुक्तोए बंधहेतुत्वे नतोयाकारस्यस्ते हस्याभावात् संखोड्वनिरंजणेऽजनस्य  
 रागस्यकर्तुमशक्यत्वात् जीवोविवअप्यडिहयगईसर्वतौचित्ये नास्त्वलितविहारित्वात् गगणमिवनिरालंकरणे देशग्रामकुलादीनामना  
 लंबकत्वात् वायुरिवअप्यडिवद्धे स्ते तादौप्रतिबंधभावेनौचित्ये न सततविहारित्वात् सारयसलिलंबसुद्धुहियए साव्यलक्षणगडुलत्वव

लजस्रसंधाणपारिडावणौयाससिए तएणंसेथावच्चापुत्ते अणगारि अरिहोअरिदुणेमिस्स तहारूवाणं

जस्रसरीरनोमलसिंधाणनासिकाथकीजपनोमलरौंटादिकतिहाने जीवरहितयंडिलभूमिभूमिने विषे परिठवानीविधंकरौपरिठवि  
 वोतिवारपक्कीतेधावचापुतअणगरसाधुचारितीयोअरिहंतशीअरिष्टनेमिनाथतथारूपतेहवासूधाधिवरसाधुनासमीपने विधंसामा

ज्ञानात्पुक्खरपत्तंपिवनिस्वलेपद्वयपलम्बिव भोगाभिलाषलेपाभावात्कुम्भोद्भवगुत्तिं दिएकुम्भोः कच्छपः खगविसाणं वएजाएखल्लआर  
 ययः पशुवियेषः तस्यविषाणंशृंगंतदेकंभवतितद्वदेकोजातोयोऽसंगत्वतः सहायत्यागेनसतथा विहगइवविष्यसुक्के आलयाप्रतिबंधेनआरं  
 डपक्खीव अण्णमत्ते भारंडपच्चिणोहि एकोदराः प्रथग्गीवाअन्योन्यफलमच्चिणोजीवद्वयरूपाभवति तेचसर्वदाचकितचित्ताभवंतिइति  
 कुंजरोद्भवसोडीरेकस्मिंशतुसैन्यंप्रतिसूरइत्यर्थः वसभोद्भवजाययामेआरोपितमहाज्रतभारवहनं प्रतिजातवलोनिर्वाहकत्वात्सीहोइव  
 दुद्धरिसेदुद्धर्षणाय उपसर्गसृगैः मंदरोद्भवनिष्पकंपेपरीषहृपवनैः सागरोद्भवगंभीरेअतुच्छचित्तत्वात्चंदोद्भवसोमलेसेशुभपरिणामत्वा  
 त्सूरोद्भवदित्तेएपरेषांबोभकत्वात्जच्चकंचणं वजायरूवे अपगतदोषलक्षणाकुद्रव्यत्वेनोत्पन्नश्चभावः वसुंधराइवसव्वफाससहेष्टथवीवत्  
 सीतातपाद्यनेकविधस्यर्शच्चमः सुऊयऊयासणोव्वतेयसाजलंतेष्टतादितर्पितवैश्वानरवत्प्रभयादीप्यमानः नयितस्वभगवंतस्सकत्यइपिडि  
 बंधोभवतिनास्त्वयंपचोचदुततस्य प्रतिबंधोभवतिसेयपिडिबंधेचज्व्विहेपसत्ते तंजहादव्वओखित्तओ कालओभावओदव्वओसचित्ता  
 चित्तमीसेसुखेत्तओ गामेवानगररेवारणे वाथलेवा खलधान्यमलनादिस्थंडिलंकालओसमएवाआवलियाएवा असंख्यातसमयरूपायां  
 आणापाणूएवाउच्छासनिःश्वासकालेथोवेवासप्तोच्छासरूपेवा खणेवावडतरोच्छासरूपेवालवेवा सप्तसोकरूपेमुऊत्तेवालवसप्तसप्त

तिरूपे अहीरत्ते वापक्खेवामासेवा अयणेवादक्षिणायनेतररूपे प्रत्ये कंषण्मासप्रमाणेसंवत्सरेवा अशुतरैवा दीहकालसंजो एयुगदौ भावओकोहेवामाणेवामाएवालोहेवाभयेवाहासेवाहास्यहर्षेवा एवंतस्सनभवए एवमनेकधा तस्यप्रतिबंधोनभवतिसेणं भगवंवासीचंदणकप्पे वास्यांचंदनकल्पोयःसतथा अपकारिणोग्गुपकारकारीत्यर्थः वासीवांगच्छेदनप्रवृत्तां चंदनंकल्पयतियःसतथा समतिणमणिले दुकंचणेसमसुहदुक्खे समानि उपेक्षणीयतया तदणादीनियस्यसतथा इहलोगपरलोगपडिबद्धे जीवियसरणनिरवकंखे संसारपारगा मीकम्सनिग्घायणट्टाए अभुट्टिएएवंचणंविहरइत्ति एवमीर्यासमित्यादिगुणयोगेनेति पंचाणुव्वइयंइहयावत्करणात् एवंदृश्यं सत्त

थेराणंअतिए सामाइयमाइयाइं चउदइसपुव्वाइं अहिज्जईवज्जुहिंजावचअत्थविहरेइ तएणंअरि  
हाअरिइणेमिथावच्चापुत्तस्स अणगारस्सतंइभंमाइयं अणगारसहसंसीसत्ताएदलयइ तएणंसेथाव

यिकअध्ययनआदिदेइने चोदपूर्वभरणेपेक्खणा जिहांताइं चउत्थएकउपवासच्छुअट्टमादिकतपकरतोच्छतो विचरेक्खेथावच्चापुत्ततिवा  
रपच्छीअरिणनेभिनाथस्वामि थावच्चापुत्त अणगारसाधुने तेइज्जभादिकव्यवहारीया अणगारसाधुनो सहस्रतेप्रतें सिध्यपणेकरी

चापुत्ते अणगारे अणयाकथाद् अरहं अरिदुणे सिंवदद्रणमंसद्रत्ता एवंवयासीद्रच्छामिणंभंति तुभ्भे  
 हिंअभगुणाएसमाणे सहस्त्रेणं अणगारेणंसद्धिं बहिया जणवयविहारं विहरित्तए अहासुहं देवा  
 णुप्पियातएणंसेथावच्चापुत्ते अणगारसहस्त्रेणंसद्धिं तेणंउरालेणंउदगेणंपयत्ते णं प्रगहिहिएणं बहि  
 याजणवयविहारं विहरद्द तेणंकालेणं तेणंसअएणं सेलयपुरेणमंणयरे होत्थावणुओतस्सणं सेलगपु

आपेजेणे हजारपुरेषेथावच्चापुलसायेंदिच्चालीधीच्छे तिवारपक्कीतेथावच्चापुल अणगारसाधुएकदाप्रखावने विषेअरिहंतअरिष्टत्रीने  
 सिनाथप्रते वांदिनमस्वारकरेनमस्वारकरेने इमआगलिकहिस्सेतिमथावच्चापुलसाधु कहतोऊवोइच्छामिऊं वांछुंछुं हे भगवन्तुहा  
 रीआच्चातुहारोआदेसपास्योऊतोऊतो हजारअणगारसाधुसंघाते वाहिरजनपदेसमांहिहिविहारकरिवाभणीविहरं विचरणं एहवुं  
 कहेवलतुंत्रीनेमिकहेयथासुखजिमसुखहोदेवानुप्रियहेथावच्चापुलसाधुतुक्कनेतिमकरोतिवारपक्कीत्रीआदेसदीघापक्कीतेथावच्चापुल  
 साधुचारिणीयो तेसाधुचारिणीयाएकहजारसंघाते तेणंउरालप्रधानकारीतेणे वाहिरजनपदेसमांहिहिविहारप्रतंकरेवाहिरत्रीने

रस्रुबहिया उत्तरपुरच्छिमेदिसेीभाएसुभूमिभागणांमंडज्जांणेहोत्यातस्खणंसेलगपुरस्खसेलएणांभंथाया  
 होत्यापउमावइदेवैभइएकुमारैजुवरायातस्खणंसेलगस्खपंथगपामोकवाणं पंचमंतिसयाहोत्याच उवि  
 हाएवुद्धौएउववेएरज्जधूरचिंतएयाविहोत्यातएणंथावच्चापुत्तेणांमंत्रणगारैसहस्खेणंअणगारैणंसद्धिंजेणे



मिनाथयकीज्जादेसमाहिंविहारकरे तेकालतेसमयनेविषे सेलगपुरनामानगरहोतोज्जओतेसेलगपुरनगरनेंवाहिरउत्तरदिशिअ  
 नेंपूरवदिसिनाभागप्रदेसनेविषेएतलेइसांनकूणिनेविषेसुभूमिभागनामउद्यानक्रीडानोवनखंडहृतोद्धवोतेसेलकपुरनोसेलकनाभारा  
 जाहृतोहओ तेसेलकराजानेपंथकनासामंतीसरप्रमुख आदिदेईपांचसेमंतीसरऊंतातेकेहवाछे उतपातकीवुद्धिं विनयकीरपरि  
 णासकीं कामकीवुद्धिं४एच्यारप्रकारनीवुद्धिकरीसहितछे जेपांचसेमंतीसरवलीतेकेहवाछेमंतीराज्यनीधुरानाचिंतकचिंतानाकर  
 णहारएहवांसंतीपांचसयप्रधान तिवारपच्छीथावच्चापुलनाम अणगारसाधुएकहजारअणगार साधुचारिणीयांसंघाते जिहासेलग  
 पुरनगरछे जिहांसुभूमिभागनामउद्यानवनखंडछे तिहांआवीसमोसरियाऊतरीया पछेसेलगराजापिणवांदिवाभणीनीसस्योनगर

सिक्खान्नाइयुवालसविहगिह्धिधम्मं पडिवज्जित्तएअह्हासुहं देवाणुप्पियामापडिबं धंकाहिसि तएणंसेसेलएराथावच्चापुत्तस्सअणगा

वसेलगपुरेजेणेषुभूमिभागिणामंउज्जाणे तेषेवसमोसद्वेसेलएविरायारिणगएधम्मोकिह्धिओधम्मं सोच्चाज  
हाणं देवाणुप्पिययाणं अंतिएवह्वेउग्गाभोगाजावचइत्ताहिरस्यं विहरंति जावपव्वइएतहाणं णोसं  
चाएभिपव्वइत्तए तओणं अहं देवाणुप्पिययाणं अंतिएपंचाणुव्वयं जावसमणेवासए जावअभिगतजी

धीभगवंतयावच्चापुत्तसाधुक्कं वांद्या धर्मोपदेसकच्छो थावच्चापुत्तसाधुइं राजाधर्मप्रते संभलीने थावच्चापुत्तसाधुनेकहेक्के जिमतुग्हा  
रासमीपनेविषे धर्मसंभलीने घणाउग्रनाऊपनाभोगकुलनाऊपनाराजा एहवासंसारप्रते क्कांडीने त्यजीने विचरेक्के जिहाताइं  
सुं डयईनेदिच्चालिषी हेभगवन् तिमऊं समर्थनहींकुंसुं डयईदिच्चालेवाप्रवर्त्तवाभणीतुग्हारिपासे तेकारणथकीअहंऊं तुग्हारासमी  
पनेविषे पांचअणुव्रततोनिगुणव्रतचारसिख्याव्रतए बारव्रतआवकनाअंगीकारकक्कुं प्छेवारव्रतअंगीकारकीधापेक्केसेलकनामराजा  
अमणोपासकआवकथयो तिहांजिहांताई अभिगतजाख्याक्खेजीव १ अजीव २ पुन्य ३ पाप ४ आअव ५ संवर ६ निर्जरा ७ वंध ८

रस्वयंति एषं चानुब्वद्वयं जावउवसंपञ्जइ तएणंसेखेलएरायाससणोवासएजाए अभिगयजीवाजीवेइहयावल्कारणादिदंइहयंउवलइपुरा  
 पावेआसवसंवरनिज्जरकिरियाहिगरणवंधमोव्वकुरुसले क्रियाद्यायिक्वादिवा अधिकरणं खड्गनिवर्त्तनादि एतेन च ज्ञानिनोक्ता अस  
 हज्जेअविद्वद्मानसाहाय्यः कुतीर्थिकेप्रेरितःसस्यक्ताविचलनंप्रतिनपरसाहाय्यलपेक्षतेइतिभावोऽतएवाह देवासुर जक्खरक्खसकिन्नर  
 किंपुरिसगरुलंगंधम्मसहोरगाईएहिं देवगणेहिंनिणंथाओ पावयणाओअणतिकसणिज्जे देवानैसानिकज्योतिष्काः शेषाभवनपति  
 व्यंतरविशेषाः गरुडाःसुवर्णकुमाराः एवंचैतद्यतोनिणं येपावयणेनिस्सं किए निक्कंखिएसुक्तादर्शनांतरपद्यपातः निव्वितिगिच्छे फलं  
 प्रतिनिःशंकः लड्डइअर्थअवणतः गहिइअर्थअवणतः पुच्छियइसंघयेसतिअभिगयइ बोधात्विणिच्छियइ ऐदंपयोपलंभात्अत  
 एवअट्टिसिंजपेसाणुरागरत्ते अस्थीनिचप्रसिद्धानिभिंजाचतन्नायवर्त्तोधातुरस्थिसिंजासाः प्रेआनुरागेण सार्व्वंअप्रवचनप्रीतिलक्ष  
 णाकुसुंभरागेणरक्ता इवरक्तायस्यसतथा केनोक्खेखेनेत्याह अयमाउसोनिगंधेपावयणे अइअयंपरमइसे खेअणइआउखोत्तिआउक्का  
 न्निपुत्तादिरासंतं शेषंधनधान्यपुतदारराज्यकुप्रवचनादि जसिदाफलिहेउच्छितं सटिकसिवस्साटिकं अंतःकरणंयस्यसतयामौ  
 नीड्रप्रवचनावासां परिपुटसनाइत्यर्थः इतिहहइह्याख्याकेचिच्चाड्डःउच्छितअर्गलास्थानापदनीयजड्डीद्वितोनितरचीनःकपाटपद्या





ज्ञागापदनीतइत्यर्थः उत्सृतीवा अग्रगतःपरिघोऽर्गलागृहद्वारेयस्यासौ उच्छ्रितपरिघःउच्छ्रितपरिघोवा औदार्यातिरेकादतिशयदान  
 दायित्वेनभिक्षुकप्रवेशार्थमनर्गलित गृहद्वारइत्यर्थः अवंगुयदुंवारिअग्रावृतद्वारः कपाटादिभिःभिक्षुकप्रवेशार्थमेव अस्थगितगृहद्वार  
 इत्यर्थः इत्येकीयंब्याख्यानं दृष्टानांतुभावनावाक्यभेवंयदुतसदृशंनलाभेन कस्माच्चित्पाषंडिकाद्विभेति शोभनमार्गपरिग्रहेणोद्घाट  
 शिरास्त्रिष्ठतीतिभावः चियत्तंतेउरधरदारप्रवेशेचियत्तित्तिनाप्रोतिकरः अंतःपुरगृहेद्वारेणनापद्वारेणप्रवेशःशिष्टजनप्रवेशनंयस्य  
 सतथाअनीर्थाबुल्वंचास्याऽनेनोक्तं अथवाचियत्तोत्तिलोकानांप्रीतिकरएव अंतःपुरेगृहेद्वारेणवाप्रवेशोयस्यसतथा अतिधार्मिकतया  
 सर्व्वंताऽनाशंकनीयत्वादिति च। उहसदृमुद्दिदुष्टुणिमासिणीसुपडिपुसंपोसहंसम् अणुपालेमाणेउदिडा अमावास्यापौषधमाहार  
 पौषधादिचतुर्ऋतुं समरणेणगं धेफ्रासुएणं एसणिज्जेणंअसणपाणखाडूमसाइमेणं वत्यपडिग्नहकंवलपायपुच्छणेणं पतन्न, हःपालं

वाजीवेजावअप्राणं भावेमाणेविहरइ पंधगपामोक्त्वाणं पंचमेतिसयासमणोवासयाजाया थाव

मोक्षऽएनवतलभलीपरिसदृहीपोताना आलाजीवद्रव्यसुं भावतोछतोविचरेके पंधकसंतीप्रसुखआदिदेईपांचसेमंती अमणोपासक

पादप्रोच्छन्नं रजोहरणं उसहभेसज्जेणं भेषजंपथं पाडिहारेणं पीढफलगसेज्जासंधारणं पडिलाभेसाणे प्रातिहारिलेण पुनत्समर्पणं  
 शीथेनपीठमासनं फलकमवष्टंभार्थं शय्यावसतिः शयनं वायल प्रसारितपादैः स्वप्यते संस्वारकोलघुतरः अहापरिगही एहिंतवो कम्मो हिं

आपुत्ते वहियाजण वयविहारं विहरइ तेणं कालेणं तेणं समएणं सोगंधियाणामंणयरी होत्था  
 वसुओ शीलासोएउज्जाणे वसुओतथणं सोगंधियाए णयरीएसुदंसणेणामंसेट्ठीपरिवसइ अहुजाव  
 अपरिभूए तेणं कालेणं तेणं समएणं सुएणामंपरिब्वायएहोत्था रिउव्वेयजजुब्बेय सामवेयअथव्वण

सावुनासेवकथयाएलेआवकथया तिवारपक्कीयावच्चापुत्तआचार्यतिहाथकीवाहिरजनपदेससांहि विहारप्रतें करे तेकालतेसमय  
 नेविषे सोगंधिकानामनगरीइतीइइ तेहनोवर्णकउववाइथीजाणिवो तिहांनीलासोकनामाउद्यानवनखंडछे तेहनोवर्णकउववा  
 इथीजाणिवो तिहांसोगंधिकानगरीनेविषेसुदंसननामासेठिवसेछे घणीअद्विछे जिहांअपरिभूतअणगणीलक्ष्मीछ तेकालतेसमयने  
 विषेसुकनामापरिवाजकसन्धासीऊं तोतेकेहवोछे रिजुवेदइ ययुर्वेदरसासवेदइ अथर्वणनामावेदइ साठितं वक्रापिलीयसास्त्रनेविषे

अप्याणंभविमाणेविहरइ सुयपरिव्वायगेत्तिष्ठुकोव्यासपुत्रऋग्वे दादयश्चत्वारोवेदाः षष्टितंसांख्यमतं सांख्यसमयेसांख्यसमाचारैब  
 व्यार्थीवचनांतरेतुयावत्करणादेवसिद्धमवगंतव्यंऋग्वे दयजुर्वेदसामवेदाथर्वणवेदानामितिहासपंचमानांइतिहासःपुराणंनिघंटोनाम  
 कोशःसांगोपांगानामंगानिशिद्धादीनि उपांगानितदुक्तप्रपंचनपराःप्रबंधाःसरहस्थानामेदंपथयुक्तानांसारकः अध्यापनद्वारिणप्रवर्त्त  
 कःस्मारकोवाऽन्येषांविस्मृतस्यस्मरणात्वारकोऽद्भ्युद्धपाठनिषेधकःपारगःपारगामीषडंगवित् षष्ठीतंतवविशारदःषष्ठीतंतंकापिलीयकथा  
 स्त्रं षडंगवेदकत्वमेवव्यनक्ति संख्यानेगणितस्कंधःशिक्षाकल्पे शिक्षायांअक्षरस्वरूपनिरूपके शास्त्रेकल्पे तथाविधसामाचारप्रतिपा

वेयसद्वितंतकुसलेसंखसमएलद्धृपंचजसपंचणियमजुत्तंसोयमूलयंदसप्पयारंपरिव्वायगधम्मंदाणध

कुसलडाहोक्ते सांख्यमतनासमयसास्त्रनोलब्धलह्योक्ते पास्योक्तेअर्थजेणे पांचयमपांचनियमतेणेंसहितपांचयमके ह्याप्राणातिपात  
 वेरमण१ षष्ठावादविरमण२अदत्तादानविरमण३सैद्युनविरमण४परिश्रहविरमण५ पांचयमथकीविरम्योनिदृत्योक्तेहिहवपांचनियमक  
 हेक्केसोच१ संतोष२तप३सञ्ज्माइ४ईश्वरनोप्रणिधानोकरिवोए पांचनियमकरेक्केसौचस्त्रलकंपांचयमपांचनियमवेडनामिलवाथ

दके व्याकरणेशब्दलक्षणैरुद्धसि पद्यवचनलक्षणिरूपकेनिरुक्ते शब्दनिरुक्तप्रतिपादके ज्योतिषामयनेज्योतिःशास्त्रे अन्येषुचब्राह्मणकेषुशास्त्रेषु च सुपरिनिष्ठितइतिवाचनांतरं पंचयसंपंचनियमयुक्तं तत्रपंचयमाः प्राणातिपातविरमणादयः नियमास्तुशौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि शौचमूलकंयमनियममीलनाद्दृशकारं धातुरक्तानिवस्त्राणिप्रवराणि परिहितोयःसतथातिदंडादीनिसप्तहस्तेगतानियस्यसतथा तत्रकुंडिकाकमंडलुः क्वचित्क्वाचनिकाकरोटिकावाधीयते तेचक्रमेण रुद्राद्याहृतमालाष्ट्रज्ञानं वोच्यतेषणालिकंत्विकाष्ठिका अंकुशोद्वचपल्लवच्छेदार्यः पवित्रकंतास्त्रमयमंगुलीयत्रं केसरीचीवरखंडंप्रमार्जनार्थं संखारुंतिसांख्य

संचसोयधस्मं च तित्याभिसेयंच आधवेमाणेषुवेमाणेषु धातुरत्तवत्यपरिहियएतिदंडकुंडियच्छत

कीएकठाकरिवायकीदसप्रकारपरित्राजकसन्व्यासीनोधर्मतेप्रते दांनधर्मरथघोडावाहनादिभूमिदानए मोक्षमार्गचपुनःअनेंजलसोचधर्मचपुनः वलीतीर्थाभिषेकतीर्थंगंगायमुनाप्रसुखतीर्थनेविवे नाहरणकरवो एह्वाधर्मप्रतेआघोचपदेसकहतोच्छतो लाभदेखाडीनेप्ररुपतोच्छतो धातुरेखुंरत्तराताकीधाजेवस्त्रतेपहिस्योक्ते जेतेपरित्राजकलिण्दिदंडकुंडिकाकमंडलुर छन्नमोरपीछरच्छन्नालिका

मंतसज्जपुढवित्तिकुमारप्रथिवी पवयणंआरुहेद्रुपाकस्थानेचुल्यावा वारोपयतिजम्भाणसुष्णत्वंग्राहयति दिष्टिंवामित्तएत्तिसंतंवमयि

छषालियाअंकुसप्रवित्तिय केसरिहृत्थगए परिब्यायगसहस्रेणंसद्धिं संपरिवुडे जेणेवसोगंधिया  
णथरी जेणेवपरिवायगांवसहेतीणामेवउवागच्छइत्तापरिवायगावसहंसि संडणिकवेवंकरेइत्ता  
संखसमएणंअप्पाणंभविमाणेविहरइ तएणंसोगंधियाए सिंधाडगबडुजणो अण्णसण्णस एवंखलुसु

त्विणिलाकडानोकाष्टविसेस8टच्चनापल्लवच्छेदवाअर्थे अंकुसप्रपवित्तिकतांवांनीवीटीकेसरीक०वखानोखंड पूजवानेअर्थेएसातमोउप  
गरणहाथमध्ये तेहनेपरिब्राजकसत्यासीहजारसंधाते परिवखोहृतोच्छतो जिहांसोगंधिकनगरीछे जिहंपरिब्राजकसत्यासीनो  
आवासयांनकरहिवानोठामछे तिहांजसुकपरिब्राजकआवेआवीनेपरिब्राजकसत्यासीरहिवानायांनकनेविषेभंडपावादिजनोनिचे  
पम्किवोकरेकरीने सांख्यमतनासमयशास्त्रनेविषे आपणाआत्माप्रतेभावतोच्छतोविचरेतिवारपच्छीसोगंधिकानगरीनेविषेसिंधोडा  
फलनेआकारित्तिषुणामार्गत्विटोजिहारजमार्गतेमार्गनेविषे बडुघणजनलोकअन्योमामोहोसांहिएणंप्रकारेकहेछे जेखलुनिश्च

एपरिव्वायए ईहहृहृव्वमागएजावविहरति परिसाणिगयासुदंसणेविणीगएतएणं सेसुएपरिव्वायए  
 तौसेपरिसाएसुदंसणस्सयअस्से सिंच वज्जणंसंखाणं परिकहेइएवंखलुसुदंसणा अरुहंसोयमूलएधम्म  
 पस्सत्ते सेवियसोएदुविहेणपस्सत्ते तंजहादव्वसोएयइ भावसोएयइ दव्वसोएयउदएणं मड्डियाएयभा  
 वसोएयदभमेहियभंतैहियजस्सं अरुहंदेवाणुप्पियाकिंचिअसूईभवइतंसब्बंसज्जपुटवीएआलिंपइतओ

यसहितआजइहांसुखपरिमाजक ईहांउतावलुआव्योछे एमसुखसमाधिंचरेछे तेसुकपरित्राजकआवीउतस्योजाणीनिवांदिवाभणी  
 परखदानीसरीसुदंसनसेठपिणनसस्कारकरिवाभणीनीसस्यो तिवारपच्छीतेसुकपरित्राजकसन्यासीतेमोटीपरषदाने विषेअने वलीसु  
 दंसनसेठि तथाअनेराइघणालोकाने साखमतनाधर्मप्रते कहेप्ररूपेमआगलिकहिस्ये तिमखलनिअयसहितहेसेठिहेसुदंसनअम्हा  
 रेसौचसूलधम्म कस्योछे तेसौचसूलधर्मवेप्रकारकस्योछे तिमजअनुक्रमेकहेछे एकद्रव्यसौचधर्म वीजोभावसौचधर्मर हिवेद्रव्यसौ  
 चतेकहीयेछे जेउदकपांणीइं करीमाटीइं करी भावसौचतेकहीये दाभेकरीमंतेकरीवेज्जभेदेकरीजेअम्हारे हेदेवानुप्रियहेसुदंसन

पच्छासुद्धेणवारिणापक्खालिज्जइतओतंसूईसूईसूइभवइ एवंखलुजौवाजलाभिसेयपूथप्पाणोअविग्घे  
 णंसगंगच्छंतितएणंसुदंसणेसुयस्सअतिएधम्मं सोच्चाहइतुइसुयस्स अंतियंसोयस्सलंधम्मं गिणहेइइत्ता  
 परिव्वायएसुविपुलेणं असणपाणखाइ मसाइमवत्थ पडिलाभेमाणे जावविहरइ तएणं सेसुएप  
 रिव्वायए सोगंधियाओणयरीओ णिगच्छइणिगच्छिता बहियाजणवयविहारंविहरइ तेणं का

काइएलगारमालअशुचिअपवितहोथ तेसगलं सज्जपुढवीकहतांखारीकुमारीमाटीइं सरौरलीपीयेतिवारपच्छीसुद्धनिमलचोखेपाणो  
 येसरौरपखालीयेधोईये तिवारेतेअशुचिअपवितइइ तेसुचिपवितथाइ एणंप्रकारेखलुनिच्ययसहित जीवप्राणीजलाभिषेकजलसत्ता  
 नकरीमाटीइं सरौरलीपीये अविघ्नविघ्नरहितपणेकरी स्वर्गदेवलोकप्रतेजाइ एहवोधर्मपरूष्यो तिवारपच्छीसुदंसनसेठिसुकपरिवाज  
 कसमीपनेविषे सोचम्मूलधर्मप्रतेसांभलीनेहर्ख्योइतोह्यतो सुकपरिवाजकनासमीपप्रते सौचम्मूलधर्मप्रतेग्रहेआदरेआदरीनेपरिवा  
 जकसन्यासीनेविषे विपुलविस्तीर्णघणुं असनादीअन्नपाणीखादिमखादिम एचारप्रकारनाआहारप्रते लाभतोइतोदेतोह्यतोवि

लेण तैणंसमएणं थावच्चापुत्ते णामंअणगारे सहस्सेणं अणगारेणं सद्धिं पुब्बाणुपुब्बिंचरमाणेगामा  
 णुगामंदुइज्जमाणे सुहंसुहेणं विहरमाणे जेणेवसोगंधियाणयरी जेणेवणीलासोएउज्जाणे तैणेवस  
 सोसटेपरिसाणिग्गया सुदंसणाविणिग्गए थावच्चापुत्तं णामंअणगारं आयाहिणंपयाहिणं करेइर  
 त्तावंदइणंसइत्ता एवंवयासीतुम्हाणं किमूलएधम्मं पस्सत्ते तएणं थावच्चापुत्ते सुदंसणेणं एवंवुत्ते

चरेक्केसुदसेनसेठि तिवारपच्छीतेसुकपरिब्राजकसोगंधिका नगरथकीनीसरेनीसरीने वाहिरजनपददेसमाहिवीजनगरगामिविहार  
 करेतेकालतेसमयनेविषे थावच्चापुत्तनामासासुहजारसाधुचारितीयासंघाते पूर्वानुपूर्वीइं विहारकरतोएकगामउल्लंघीबीजेगामीजा  
 तोनथी एकग्रामउल्लंघीअतिकमीजातो नथी एकग्रामानुगामप्रते अतिक्रमतोछतो सुखेसमाधिंविचरतोछतो जिहांसोगंधिकानगरी  
 जिहांनीलासोकउद्यानवनखंडक्के तिहांआवीसमोसस्योजतस्यो नगरमाहिवीपरखदानीसरी सुदसेनसेठिपिणनगरथकीवाहिर  
 नीसस्यो थावच्चापुत्तनामासाधुप्रते आदच्चिणाप्रदक्षणाप्रतेकरे वांदिनमस्कारकरेकरीने एमआगलिपूच्छस्ये तिमकहतोउवोसुदसे



समाणे सुदं सणं एवं वयासी सुदं सणा विणय मूले धम्मं पस्सत्ते से वि य वि ण ए दु वि हे पस्सत्ते तं ज हा आ गार वि  
णय अण गार वि ण ए य तत्थ णं जे से आ गार वि ण ए से णं पंच अणु व्वयाइं सत्त सि क्खा वयाइं ए गार स  
उ वा स ग प डि मा ओ तत्थ णं जे से अ ण गार वि ण ए से णं पंच म ह व्वा इं पस्सत्ताइं तं ज हा स व्वा ओ प्रा णा इ

न से ठि तु ण्हा रा कु ण म्भू ल ध र्म प्र रू प्थो छे ति वार प्र छी था व च्चा पु त्र सा धु सु द र्से न से ठि ए म पू र्वा क्त प्र का रे क ह्यो छु त्तो छ त्तो था व च्चा पु त्र सा धु सु द  
र्से न से ठि प्र ते ए म आ ग लि क हि स्ये ति म क ह त्तो छु वो हे सु द र्से न अ ण्हा रो वि न य म्भू ल ध र्म प्र रू प्थो छे ते वि न य वे ऊं प्र का रे क ह्युं छे ते अ नु क्र मे क  
हे छे गृ ह स्य आ व क नो वि न य ध र्म अ ने बी जी सा धु नो वि न य म्भू ल ध र्म छे ति हां जे ते गृ ह स्य आ व क नो वि न य म्भू ल ध र्म छे ते पां च अ णु व्र त अ ने सा त  
सि ख्या व्र त ए आ व क ना वा र व्र त त था इ ग्यार आ व क नी प्र ति मा ए गृ ह स्य आ व क नो वि न य म्भू ल ध र्म जां णि वो ति हां बी जी जे ते अ ण गार सा धु वि  
न य म्भू ल ध र्म जां णि वो ते पां च म ह्वा व्र त प्र रू प्थ्या क ह्या छे ते क हे छे स र्व स र्व थ की प्रा णा ति पा त जी व ने मा र वा थ की वे र म ण वि र मं वुं नि व र्त्ति वुं ए  
प च्चि लो म हा व्र त ? स र्व स र्व थ की सु सा वा या ओ ष था वा द वो ल वा थ की नि व र्त्ति वुं ए बी जी म हा व्र त र स र्व स र्व थ अ द त्ता दा नं अ ण दी धा पं दा र्थ नो

वायाओविरमणं सव्वाओसुसावायाओविरमणं सव्वाओअदिखादाणाओविरमणं सव्वाओओमेड्डणा  
 ओविरमणं सव्वाओपरिगहाओविरमणं सव्वाओरईभोयणाओविरमणं जावमिच्छादंसणसह्वा  
 ओदसविहेप्रत्वाणे वारसभिव्खुपडिमासो इच्चैयणंदुविहेणं विणयमूलेणं धम्मणं अणुपुब्बेणं अट्टका  
 म्मपगडिओखवेत्ता लोगगप्रयट्ठारेभवद्द तएणंथावच्चापुत्ते सुदंसणं एवंवयासो तुभ्भेणंसुदंसणंकिं

लेवोतेहयकीनिवर्तितुंएत्तीजुंमहाव्रतश्च सर्वसर्वयकीमैथुनस्त्रीनीसेवायकी विरमवोनिवर्त्तवोएचोथोमहाव्रतश्च सर्वसर्वयकीपरिश्रमम  
 ताम्बूर्खीरूपपरिश्रयकीनिवर्त्तितुं एपाचमहाव्रतजांणिसर्वयकीरात्रीभोजननिवर्त्तितुं वोजिहांतांइप्राणातिपातआदिदेईसिथ्यादसे  
 नसत्यपयंअटारपापयानकवोसिरावीनिवर्त्तितुं दसविधदसप्रकारनवकारसीप्रमुख आदिदेइदसपच्चव्खाणकरे वारभिव्खुयतीनी  
 प्रतिमानोविहवोएसाधुसाध्वीनो विनयमूलधर्मजांणिवोइत्यादिआवकनावारटतइयारप्रतिमासाधुनापांचमहाव्रतआदिदेईएवड  
 प्रकारेविनयमूलधर्मधर्मैकरी आनुपूर्वोइ'केडाकेडेंज्ञानावरणीयादिकआठकर्मनीप्रकृतिखपावीने लोकाग्रप्रतिष्ठानमोक्षनोस्थानकटा

मूलएधम्मे पसुत्ते अमहाणं देवाणुष्मिया सोयमूलधम्मं पसुत्ते जावसग्गच्छति तएणंथावच्चापुत्ते  
 सुदंसणं एवंवयासी सुदंसणासेजहाणामएकेइपुरिसेएगंसहंरुहिरकयंवत्थंरुहिरणं चेवधोवेज्जातए  
 णंसुदंसणा तस्सरुहिरकयस्सवत्थस्स रुहिरणं चेवपक्खालिज्जमाणस्स अत्थिसोहीणोइरण्हे समइ

म श्रेतिहांजाइं एवेऊं विनयस्सलधर्मनेकरिवेकरीएविनयस्सल धर्मकह्याथकीअनंतरथावच्चापुलसाधुसुदसंसनप्रते एमआगलिपूछस्येतिम  
 पूछतोऊवोतुम्हारी हे सुदसंसनस्यास्सलधर्मप्ररूप्योकोह्योकेवलतुं सुदसंसनसेठिकहेअम्हारीहे देवानुप्रियहेथावच्चापुलशौचस्सलधर्मं प्ररू  
 प्योच्छेतेहिजसोचस्सलधर्मंआचरताकरता जीवदेवसोक्तप्रतेजाइंकेएहवोसोचस्सलधर्मसुदसंसनसेठिकह्योतिवारपच्छीथावच्चापुलआचांय  
 सुदसंसनप्रतेइसवोलताऊवा हे सुदसंसनतेयथानामे कोइएकपुरुषएकमोटो लोहीनुकीधुलोहिइं खरड्योवस्स रुधिरलोहीइं जचेवनि  
 अयसहितवीवेपखाले तिवारपच्छीहे सुदसंसन तेरुधिरलोहीइं खरड्यावस्सनेरुधिरजकरीचेवनिअयसहितधोइ पखालतांधोतांनेनथा  
 इसोधिविशुद्धजलोवस्सथाइपछे सुदर्शनकहेनोइतिनिषेधे एअर्थसमर्थनहीसर्वथातेवस्सजलोनथाइप्रत्युत्तर थावच्चापुलपुरुक

एवाभिव्युत्सृज्य तु भूमिप्राणाद्वा ए जावमिच्छादं सणसहैरण्णत्थीसोही जहातस्सर्हि रकयवत्थस्स  
 रुहिरैणंचेव पक्खालिज्जमाणस्सणत्थिसोही सुदंसणसिजहाणामए केइपुरिसे एगंसंहंरुहि रकय  
 वत्थंसज्जियखारेणं अणुं लिंपइत्ता पयणंआरुहेति उरुहंगाइइत्ता तओपच्छासुद्धैणंवारिणाधो  
 वेज्जासिणूणं सुदंसणातस्सर्हि रकयवत्थस्स सज्जियाखारेणं अणुलित्तस्स पयणंआरुहि रकयवत्थस्स उरुहं •

हेच्छेणजेजहटांतेकरीहेसुदसेन तुम्हनेअपिनिच्चवसहितप्राणातिपातआदिदेइ जिहामिथादसेनसल्यपर्यंत अठारपापस्थानकनेसेवे  
 करीजीवप्राणीने नहीछेसोधिनिर्मलतापापयकीरहितपणुं जिमतेरुधिरलोहिखरखावखने रुधिरलोहीइं बनकरीचेवनिच्चयसहित  
 पखालतांभीतांनोइनथाइं सोधिउद्धिनिर्मलपणुं तिमअठारपापस्थानकसेवतांजीवमारतांधर्मनथाइंसर्वथाहिवेसुद्धजलोथाइतेउपा  
 यकहेछे श्रीगुरुयावच्चापुत्र हेसुदसेनतेयथानामेकोइकपुरुष एकमोटारुधिरलोहीयेखरखावखप्रते साजीखारेणुं लीपिसाजीनिपा  
 णीइपलालेपलालिनेपयणंकहतांपापस्थानकचत्तहाजपरिचढावेजकालेअगनिइं करीनेवणुं जनुं करेगाहेजनुं करीनेतिवारपक्कीसु

गाहियस्य सुद्वेषं वारिणाप्रख्यालिज्जमाणस्य सोहीभवद्दहंताभवद्भवमेवसुदंसं सणा अरुहं पिपासा  
 द्रवायवेरसणेणं जावमिच्छादंसणसह्यवेरसणेणं अत्थिसोहीजहावितस्सरुहिरकयस्सवत्थस्य जावसुद्वे  
 षं वारिणाप्रख्यालिज्जमाणस्य अत्थिसोहीतत्थणंसुदंसं सणेसंबुद्धेधावञ्चापुत्तवंदइणसंसइरत्ता एवंवया

द्विनिर्मलचोखंपाणीइं करीधोदूपखाले तेननंनिचयसहित हेसुदर्शनतेरुधिरइं लोहीइं खरड्यावस्त्रने साजीखारे करीअद्युलीयानि  
 साजीनेपाणीइं पवहहाले पक्केचलाजपरिचढ़ावीजकलीअगनिइं घणुं लनुकरीएहवुंनारीलगडाने पक्केसुद्धिनिर्मलचोखंपाणीइं करी  
 पखालतांछतानेधोताछतानेवस्त्र सोधिनिर्मलोपवित जजलोथाइवलतुं सुदर्शनकहेहांस्वामीचोखोजजलुंथाइ हिवथावञ्चापुलकहे  
 एणेदृष्टांतेकरीहेसुदर्शन अरुहे प्राणातिपातनावेरमणे निवत्तं करीप्राणमारवानेनिचमेकरी तिहांजिहांमिथ्यात्वदर्शनसत्यपधंतथ  
 डारिपापठामनेविरसणेकरीवोसिरावेकरी अव्यजीवथाईनिर्मलोसगला पापमधीरहितथाइ जिमतेरुधिरलोहीखरड्यावस्त्रनेसा  
 जीखारेकरीखरडीचहलाजपरिचढ़ावी अगनिइं करीघणुंलहनुकरिपक्के सुद्धिनिर्मलपांणीइं करीपखालतांघोताछतां वस्त्रथाइज

सौदृच्छामिणंभंतेधम्मं सोच्चा जाणित्तएजावसमणो वासएजाए अभिगयजीवाजीवे जावपडिला  
भेमाणेविहरइ तएणंतस्ससुयस्सपरिव्वायगस्स इमीसेकहाएलइइस्ससमाणस्स अथमेयाखुवेजावससु

जलोनिर्मलो एहवोवस्सनोदुष्टांतसांभलीने तिहांसुदर्सनसेठिसंबुद्धप्रतिबोधपास्योक्ततो यावच्चापुलसाधुप्रते उठीनेवांदिनमस्कारकरे  
वांदीनेनमस्कारकरीने एमआगलिकहिस्थे तिमसुदर्सनकहतोज्जवो वांक्कुंभंतेहेभगवन्वीतरागभाषितधर्मप्रते सांमलीनिजांणीने  
आराधवोचारित्व लेवाभणीसमर्थनहीक्कुं इमकहीने आवकनावारव्रतआदस्यातिवारपक्की सुदर्सनसेठिअमणोपासकआवकथया  
जाण्याक्के जीवतत्वअजीवतत्वपुण्यपाप आश्रवसंवरनिर्जराबंध मोक्षएनवतत्वजेणे साधुसाधवीनेअन्नपांणी खादिमस्वादिमएचारप्र  
कारनाआहारप्रतेतथावस्वप्रते प्रतिलाभतोदेतोक्ततोविचरेक्के तेसुदर्शनसेठिआवकथयापक्कीतेसुकपरिब्राजकने एहवोसुदर्सनसे  
ठिआवकथयानोएहवीकथावात्तानो लक्ष्योपास्योअर्थएहवासुकपरिब्राजकने एतदरूपएहवोआत्मानिविषे रक्ष्योमनोगंतभावजपजे  
एमपूर्वीत्तप्रकारिंखलुनिश्चयसहितसुदर्शनेसौचमूलधर्मप्रतेविप्रजहायक्कांडीने विनयमूलधर्मपडिवज्ज्योक्के तोअथेअभलुं निश्चयसहितसु

प्यञ्जित्या एवंखलु सुदंसरणं सोयधम्मं विप्यजहाय विणयमूलधम्मपडिवस्से तंसेयंखलुसमंसुदंस  
 णस्सदिट्ठिं वामेत्तए पुणरविसोयमूलएधम्मं आधवेत्तएत्तिकट्टु, एवंसंपेहेइरत्ता परिब्वायगसहस्से  
 णंसद्धिं जेणेवसोगंधियाणयरी जेणेवपरिब्वायगावसहे तेणेवउवागच्छइरत्ता परिब्वायगावसहं  
 सिभंडणिकखे वंकरेइरत्ता धाउरत्तवत्यपरिहिए पविरलपरिब्वायगसद्धिसंपरिवुडे परिब्वायगवस

भनेसुदसंननोविनयमूलसमकितरूपजेदिट्ठिक० मततेप्रतेवमाविवाभणीम्बं काविवाभणीजाउवली सौचमूलधर्मकहिवाभणीआदरि  
 वाभणीसमर्थकरिसुं इममनमांहि विचारेवीचारीने सुकपरिब्राजकएकहजारपरिब्राजकसंघाते जिहांसोगंधिकानगरीके जिहां  
 परिब्राजकसन्ध्यासीनेरहिवानोजतरवानोथानकठामच्छेतिहांआवेआवीने परिब्राजकनेउतरवानाथानकनेमठनेविषेभांडपालानिजे  
 पम् कीवाप्रतेकरेम् कीकरीने धातुगेरुनारंग्यारातावखपच्छिखोके प्रविरलकहताथोड़ापरिब्राजकथोड़ासन्ध्यासीसंघातेपरिवस्योऊ  
 तोछतो परिब्राजकनामठयकी नीकलेनीकलीनेसोगंधिका नगरीनेमांहिथईने जिहांसुदसंनसेठिनुंघरके जिहांसुदसंनसेठिकेति

हाओप्रडिणक्खमइरत्तासोगंधियाएणथरीएसज्जंमज्जंकेणंजेणवसुदंसणस्स गिहेजेणवसुदंसणेतणेव  
 उवागच्छइरत्ता तएणंसेसुदंसणेतंसुयंएज्जमाणंपासइरत्ताणेअभुइत्तिणोप्रच्चुगच्छइरणोआटाइरणो  
 परियाणाइरणोवंदइ तुसिणीएसंचिइइतएणंसेसुएपरिव्वायए सुदंसणंअणुभुट्टियं पासित्ताएवंवया  
 सीतुमेणंसुदंसणअणया मसंएज्जमाणंपासित्ता अभुट्टिसिजाववंदसि इयाणंसुदंसणातुमंसंएज्ज

हाओवेओवीने तिवारितेसुदर्सनसेठितेसुकपरिव्राजकप्रते आवताप्रतेदेखेदेखीने उठेनहींजभोथाइनहीं साहसोपुणजोइनहीं  
 आदरसन्मानपिणदीयेनहींबोलावेनहीं इहांआव्योक्तेतेपिणजाणेनहींवांदेनहींअणवोल्योरच्चोळं तोळतोभलीपरिवेसीरहे तिव  
 रतेसुकपरिव्राजक सुदर्सनसेठिअणउद्या अणजभायाताप्रते देखीनेएणंप्रकारेकहतोळओ तुं हेसुदर्सनअन्यदा पहिलाममसु  
 भाप्रते आवताप्रतेदेखीने उठतोसाहसोआवतोआदरदेतो जाणतोबोलावतोवांदतो हिवडांहेसुदर्सन तुं सुभनेआवताप्रतेदेखीने  
 उभोधयोनहींतिहाजिहांवादतो नथी तेकत्सतेहेसुदर्सनए एहवोस्तब्धरूपअहंकार रूपविनयमूलधर्मपडिवज्योके तिवारिसुदर्सन



माणंपासिताजावणोवंदइतंकस्सणं तु मे सुदं सणा इ मे ए आरु वे विणय मूले धम्मो पडिवस्से त एणं सुदं सणं सु  
 एणंपरिव्वाय एणं एवं वुत्ते समाणे आसणा ओ अभुइ इ करियल सुयं परि व्वाय गं एवं वया सो एवं खल देवा  
 णुप्पिया अरह ओ अरिइणे मिस अंते वा सो थावच्चा पुत्ते णां मं अणगारे जावइ ह माग ए इ ह चै वणी ला  
 सो ए उज्जाणे विहर इ तस्सणं अंति ए विणय मूले धम्मो पडिवस्से त एणं से सु ए परि व्वाय ए सुदं सणं एवं वया सो

सेठि सुकपरित्राजके एमपूर्वी क्त प्रकारे कच्चोऊं तो छतो सांभलीने सुदर्सन ऊठे उठीने करतल वे हाथ जोडीने सुकपरित्राजक प्रते इ म  
 क कह तो ऊओ सुदर्सन एणे प्रकारे खलु निश्चय सहित हे देवाणु प्रिय हे सुकपरित्राजक परिहंत अरिष्टने मिश्रीने मिनाथनो हाथनो दिख्योसि  
 यथावच्चा पुत्रनामा अणगार साधु अनुक्रमे विहार करतो ऊतो इ हां आव्योक्के इ हां ज अजनी ला सो कनामा उद्यानवन खंडेके विच  
 रे छेऊतस्योक्के तथावच्चा पुत्र साधुना समीपने विप्रै विनय मूल धर्म पडिवज्योक्के इ म सेठि कच्चोते सांभलीने ति वारिते सुकपरित्राजक सु दर स  
 णने इ म कह तो ऊओ तो चालो आ पण वे ऊं जणा हे सुदर्सन ता हरा धर्मा चायने थावच्चा पत्र साधुने समीप प्रते प्रगटथाव्यो एतले आ प

तुं त्याजयितुमित्यर्थः अद्वाद् इति अर्थान् अर्थमाणात्वाद्धिगस्यमानत्वादित्यर्थः प्रार्थमानत्वाद्वाचाच्यमानत्वादित्यर्थः वक्ष्यमाणया  
 तायापनीयादीन् तथातानेवहेजतिहेतून् अंतर्वर्त्ति न्यासदीयज्ञानसंपदोगमकात् पसिणातिंप्रश्नान् पृच्छ्यमानत्वात्कारणा  
 इति कारणानि विवक्षितार्थं निश्चयस्यजनकानि नागरणाद् इति व्याकरणानि प्रत्युत्तरतयाव्याक्रियमाणत्वाद्देशामिति नियमदृपसिण

तंगच्छाशोणसुदंसणा तवधम्मायरियस्य थावञ्चापुत्तस्य अंतियंपाउभवासो इमंचणं एयारूवा  
 इ अद्वाद् इहेजद् इ पसिणाद् इ कारणद् इ वागरणाद् इ पुच्छ्यासोतंजइरणंसेसेइयाद् इ अद्वाद् इ जाववागरे

णवेच्छतिहांजइए एप्रत्यक्षएताइसरूपमाहरामननाअर्थं प्रतेजांणवापणायकीआगलिकहिंस्युं पृच्छस्युं यात्वायापनीयादिपयंतप्रश्नप्रते  
 हेतुप्रते अंतवर्त्तीतेसंवंधीज्ञाननी संपदानाजाण्णवापणायकी प्रश्नप्रतेप्रश्ननातत्वयात्वायापनीयादिकसब्दना अर्थं पृच्छवापणायकी  
 कारणप्रतेवाच्या अर्थने निश्चयनाउप्रजावणहारा व्याकरणपृच्छ्याअर्थं नोपाच्छोउत्तरदेवापणेकरी कहिवापणायकी एहवाप्रश्नप्रते  
 आपणवेच्छं पृच्छांजोसेसुभने सेतेथावञ्चापुलसाधुएप्रत्यक्षएहवामनना अर्थं प्रतेहेतुप्रतेप्रश्नप्रते कारणप्रतेवागरेकहे तिवारिपक्की

वागरणंति निर्गतानि स्थानि स्फुटानि प्रश्नव्याकरणानि प्रश्नोत्तराण्यस्य सतथातं खीणा उवसंतत्ति च योपयममुपगता इत्यर्थः एते

तित्तत्रोणं अहंवदामिणमंसाभि अहमेसेइमाइं अद्वाइजावणेमे वागरेइ तएणंअहंए एहिंचेवअ  
 ड्दिहेऊहिण्णिअट्टप्रसिण्णवागरणंकरिस्सामि तएणंसेसुएपरिवायगसहस्सेणं खुदंरुणंणिसिद्धिणा  
 सद्धिजेणवणीलासोए उज्जाणे जेणैवथावच्चापुत्ते अणगारेतेणं वउवागच्छइरत्ता थावच्चापुत्तंएवं

ऊं वां दुं नमस्कारकणं थावच्चापुत्तप्रते अथवासुक्कनेते थावच्चापुत्तएप्रत्यक्षप्रश्नपूच्छा एहवाअर्थ हेतुप्रश्नकारणं जोनहीं कहे उत्तरनहीं  
 ऊइतिवारपच्छीऊं एथावच्चापुत्तनेएणअर्थ करीहेतु एकरीप्रश्ने करीनिः पृष्ठव्याकरणकरिण्युं निष्पट्टकहतां निर्गतगयाक्के यथानथी  
 प्रकटपसिण्णवागरणक० पूब्बां प्रश्ननाप्रत्युत्तरपाच्छा उत्तरजेहनुं एहवुंकहे तिवारपच्छीते सुक्कपरिवाजकहजार परिवाजकसंघातेपरि  
 वयोअनेवलीसुदर्सनसेठिसंघाते जिह्वांनीलासोकउद्यानक्के जिह्वांजिह्वांथावच्चापुत्त अणगारसाधुतिह्वां आविआवीने थावच्चापुत्तप्र  
 तेइएप्रकारेपूच्छतीकहतीऊओ यात्ताप्रवर्तक्केभेक० तुमनेभंतेहे भगवन् हे भगवन्तुमेयापनीच्छो हे भगवन्तुमेअवाधारहितच्छो हे भग

वयासौ जत्ता भेभंते जवणिज्जं अब्वावाहं फासु एविहारं तएणं धावञ्चापुत्ते सुएणं एवंवुत्ते समाणं सुयं  
परिब्बायं एवंवयासौ सुयाजत्ता विसे जवणिज्जं च विसे अब्वावाहं पिसे फासु यविहारं पिसे तएणं से  
सुएथावञ्चापुत्तं एवंवयासौ से किंतं भंते जत्ता सुयाजखं समणाणं दंसण चरित्त तवसे जसमाइ एहिंजोए

वन्तुहे प्राडुकविहारप्रवत्तोच्छो एह्वं पुच्छा तिवारिते थावञ्चापुत्तसाधु सुकपरित्राजके एसपूर्वीत्तप्रकारे प्रन्नपूच्छेकहेच्छते सुकपरि  
त्राजकप्रते इणिप्रकारे उत्तरदेतो ऊवोथावञ्चापुत्त हे सुकयात्तापणिसे सुभनेच्छे हे शुक्रयापनीयपणिसे सुभनेच्छे हे शुक्रयावाधारहितनि  
रावाधपणिसे सुभनेच्छे हे शुक्रप्राडुकनिदोषविहारपिणसुभनेच्छे इमउतरदीधापक्की वलीने शुक्रपरित्राज कथावञ्चापुत्तसाधुप्रते इणि  
प्रकारिपुच्छतो ऊओ किंप्रप्ने भंते हे भगवन्थात्तातेसू कहीये इमपूच्छो श्रीगुणकहेच्छे हे शुक्रजे सुभनेश्चानदंसनचारित तपवारभेदसं  
यमसतरभेदे इत्यादि कनेयोगे करी जेयतनकरिवुच्छकायनुं तेयात्तावाहीये हि वैभंते हे भगवन थापनीयतेसू कहीये इमपूच्छो श्रीगुरु  
कहे हे सुक्रयापनीयतेवेऊं प्रकारे प्ररूयोच्छे कल्योच्छे तेजिम अनुकमेकहेच्छे एऊइं द्वीयथापनीयच्छे वीजो नोइं द्वित्र थापनीयच्छे

हिंजोयणासैयंजला सेकिंतंभते जवणिज्जं सुया जवणिज्जेदुविहेपसत्ते तंजहा इं दिवजवणिज्जेय  
 णो इं दिवजवणिज्जेयसेकिंतं इं दिवजवणिज्जं सुयाजसं मसोइं दिव चक्खुइं दिव वणिण्दिदियजि  
 भिंभं दिव फासिं दिव्याइं शिरुवहयाइं वसेवइं ति सेत्त इं दिवजवणिज्जे सेकिंतंणो इं दिवजवणि  
 उजे सुयाजसं कोहजाणमायालोभखीणा उवसंताणो उद्वयं तिसेत्तंणो इं दिव जवणिज्जे सेकिंतं

सुकपूछेइं द्वीययापनीयतेसू कहीये इमपूछ्योगुरुकहे हेसुशतेमाहरा ओतं द्वियकांन चक्षुरिं द्वियत्रांखिं घ्राणे द्वियनासिका जिह्वे  
 द्वियजीभस्पर्श नें द्वियपरिसकायादेह एहपांचइं द्वियनिरुप हतउपद्रवरहित रूडापडवडाछे पणिमाहरे वसिवर्त्तीछे उनमार्ग  
 जावतानथी तेइं द्विययापनीयकहीये वलीसुकपरिवाजकपूछे हेभगवन्नोइं द्विययापनीयतेसू कहीये वलतुं थावच्चापुलगुरुकहे  
 हेसुकजेत्तोधमान अहंकारमायाकपटि बुद्धिलोभलोल्यपणो एकोधादिकक्षीण सर्वथाक्षयगया उवसंताकहतां उपसस्याछेओ  
 ह्हाणछे चयोपसमप्रतेपास्याछे नोउद्वयंतीकहतां वलीउद्वयनहीं आवे तेनोइं द्विययापनीयकहीये वलीसुक पूछेतेसू हेभगवन्ना

भंते अब्बावाहंसुयाजणं समवाइयप्रित्तयसिंभियसखिवाइय विविहारोशायंकाणो उदीरे' तिसेत्तं  
 अब्बावाहंसेकितंभंते फासुयविहारंसुया जणं आरामेसु उज्जाणेसुदेवकुलेसुसभासु पव्वासुइत्थि  
 यपसुपंडगविवज्जियासुवसहीसुपडिहारियं पीठफलगसिज्जासंथारयं उगिण्हत्ताणंविहरामि

वाधारहितकहीयेगुरुकहे हेसुकजेसुकने वाइपित्तलेप्पासान्निपातिक एहवाविविधप्रकारनारोगन्वरादिकआतंकसूलादिरोगविसे  
 पतेउदीरेनहीं पीडानकरेसुकनेलागेनही तेअवारहितनीरावाधपगुंकहीये वलीसुकपछेतेसुभगवन् फासुविहारकहीयेगुरुकहे  
 छेहेसुकजेआरामसुखरहितठामतेहनेविषे उद्यानक्रीडारमवानवनतेहनेविषे यचनादेहरानेविषे वगालोकत्रेसवानीसभतेह  
 नेविषे पांगीनीपर्वतेहनेविषे स्त्रीसमुख्यणीपद्युगाइं भईसिंपग्नीयादिकपंडगनपुं सकलिंगपदार्थकरी विवर्जितरहितएहवीवसतियां  
 नकनेविषे गृहस्थनोलेईने पाछुतेगृहस्थने आपवोतेपाडिहारिलेईने पीठपाठकावजोटफलपगपीआशय्यावसतिउपाअयअयवास  
 व्याकहतांजेनेविषेलांपगकरीनेसूइइं डाभादिकनोटोसंथारोसंथारयंनान्होडाभनोसंथारो एहवाठामसांगीनेलेईनेएहपूवोक्तयां

याचयात्वादिपदानां सागमिकगंभीरार्थत्वेनार्थस्य तदर्थपरिज्ञानमसंभावयताऽपञ्चाजनाथं प्रश्नः कृतइति सरिसवयति एकलसव

सेत्तं फासुयं विहारं सरिसवयातेभंते किं भक्त्वेया अभक्त्वेया सुयासरिसवया भक्त्वेया विप्रभक्त्वे  
यावि सेकेण्डेणभंते एवंवुच्चइसरिसवया भक्त्वेयावि अभक्त्वेया विप्रसुया सरिसवयादुविहापण

नक्तनेविषेडं विचरं क्ं रडं क्ं तेफासुविहारकहीयेप्रथमप्रश्ननोजतरदीधो सूक्तने एयात्वादिकचारपदार्थनाअर्थनेविषे सिद्धांतसं  
बंधीडं डाअर्थपणेकरी आचायेनेतेहनाअर्थनोज्ञानअणजपजतोजाणी अपञ्चाजनाभणीलोकसांहिनिद्याहीलनाकारिवाभणीसुक  
परिब्राजके एप्रश्नकीधोडतोपणि ज्ञानवंते थावञ्चापुलआचार्यते हनामननोजांण्योजतरदीधो हिवेप्रश्नवीजोपूक्के छेसरिसवतेतुम्हा  
रेभंतेहेभगवन्सुं भच्चडइखावायोग्यडइ किंवासरिसवअभच्चडइअणखावायोग्यडइहेसुक सरिसवभच्चखावायोग्यपण्छे अनेसरि  
सवअभच्चअणखावापिणयोग्यक्के अम्हारितेकिस्थे अर्थे हेभगवन्तुम्हे इमकहोछेजेसरिसवभच्चखावायोग्यडइ अभच्चअणखावायोग्य  
डइइमपूक्के गुरुकहेहेसुकसरिसवतेवेडं प्रकारेविडभेदेकह्याक्के तेजिभकहेछे एकमितसरिसवछेमिलनासरीखोवयक्के जेहनोतेमि

त्वातंजहामित्तसरिसवयाधस्स रिसवयातत्थणं जेतमित्तसरिसवया तंतविहाप्रसत्ता तंजहास  
हजाया सहवड्डयाय सहपांसुकीलियायतेणं समणाणंशिणां धाणं शिण्णंशीणं अभक्खेयातत्थणं  
जेतेषस्सरिसवयाते दुविहाप्रसत्तातंजहासत्थप्ररिणयाय असत्थप्ररिणयाय तत्थणंजेते असत्थ  
परिणया तेसमणाणंशिणां धाणंअभक्खेयातत्थणंजेतेसत्थपरिणया तेदुविहाप्रसत्तातंजहापांसुया

तसरिसवकहीये बीजोधान्यअन्नविषेससरिसवच्छेएभेदोतिहांजेते मित्तसरिसवसरीखावयनाधणीच्छे तेतिधातिऊंभेदे तेजिमअनु  
कसेकहेच्छे संघातेजिण्यासाथेजन्मपास्यासंघातेवध्यासाथेद्वपास्यासाथे एकठापंशुधुलिमांङ्किक्कीडाविनोदरामतिकरीऊइ तेमित्तस  
रिसवकहीये तेमित्तसरिसवसाधुचारितीयांने निग्रंथने अभक्खअणखावायोग्यऊइहेसुकपरिज्जाजक तिहांजिहांवीजाधान्यसरिस  
वतेतेविऊंभेदेकह्याच्छे तेकहेच्छे एकधान्यसरिसवसखपरणीतीपील्यारांध्याअचित्तजीवरहित्ते अनेबीजाधान्यसरिसवअसखपर  
णीतआखासचित्त तिहांजेतेअसखपरणीतसचित्तकाचा धान्यसरिसवऊइ तेसाधुनेनिग्रंथने अभक्खऊइअणखावायोग्यऊइ तिहां



यअफ़ासुवाय तत्थणंअफ़ासुयति सुयाणोभक्खे यातत्थणंजेतेफ़ासुया तेदुविहापसत्ता जाइयाअ  
 जाइया तत्थणंजेतेअजाइयातेअभक्खे यातत्थणंजेतेजाइयातेदुविहापसत्ता एसणिल्ला यअणोसणि  
 ल्ला य तत्थणंजेतेअणोसणिल्ला तेणंअभक्खे या तत्थणंजेतेएसणिल्लाते दुविहापसत्तातंजहाल्लाय

जेतेसखपरणीतरांध्यापील्याअचित्तधान्यसरिसवच्छे तेवेहं भेदेप्रख्याच्छे तेकहेच्छेएकफ़ासुअचित्तचितना रहितसरिसवधान्यछेबीजा  
 अफ़ासुसचित्तधान्यसरिसवहेसुक साधुनेभक्षनहोइखावायोग्यनहोइ त्रिहंजितेफ़ासुधान्यसरिसव तेवेहं भेदेप्रख्याच्छे तेकहेच्छेए  
 कधान्यसरिसवयाच्यामांग्याच्छे बीजाअणयाच्याअणमाग्याच्छे त्रिहंजितेअयाच्या अणमांग्याधान्यसरिसवच्छे तेअण्हारिअभक्षछेनखा  
 वायोग्यच्छे त्रिहंजितेसरसव ज्याच्यामांग्याच्छे तेवेहं भेदेप्रख्याच्छे तेकहेच्छेएकएषणीयएषणीयण वेषणासहितसुभ्रताच्छे अनेबीजा  
 सरिसव अनेपणीवगवेषणा रहितअसुभ्रताच्छे त्रिहंजितेसरिसव अनेपणीयऽसुभ्रताच्छे तेसरसवसाधुने अभक्षआहारकरवा  
 योग्यनहीं त्रिहंजितेसरसवएषणीयपे तालीसदोषरहितछे तेसरसवविहंभेदेकह्याच्छे तेकहेच्छे एकसरिसवलाघादीधादातांरिबीजा

यसःसदृशवचसः अन्यत्वसर्षपाःसिद्धार्थकाः कुलत्यन्ति। एकत्रकुलेतिष्ठतीति कुलस्थाः। अन्यत्रकुलत्या धान्यविशेषाः सरिसवयादिपदप्र

अलङ्घाय तत्पणुंजेते अलङ्घाते अभक्त्वे यातत्य णुंजेते। लङ्घाते। अणुंभक्त्वे याएणुंअङ्कुं सुयाएवं  
वुञ्चइसरिसवयाभक्त्वे याविअभक्त्वे याविवं कुलत्याभाणियव्वाणवरंइअंणाणत्तं इत्थिकुलत्याय

सरसवलाधानहीं पास्यानहीदीधानहीं तिहांजेतेसरसवलाधापास्यानहीं पातसांहिआव्या नहींतेसरसवसाधूनेअभक्षआहार  
कारिवायोग्यनहीं तिहागोचरीकरता जेतेसरवसूक्ततालाधामित्या पांतसांहिआव्याऊईतेसरस वसाधूनेनिग्रयनेभक्षऊईआ  
हारकारिवायोग्यऊइ एणुंअर्थेएणेकारणे हेसुकपरित्राक एणुंपूर्वोक्तप्रकारेअम्हे कहीयेछेसरिसवभक्ष पणुंछे अनेअभक्षपणुंछे  
इमवलीसरिसवनापूछ्वानी परिकुलत्यनापूछ्वानाप्रअ तिमजांणियाएसर्वकपटे पृच्छोऊं तुपणुंते सर्वजतरदीधोसरसवयकीन  
वरं एतोविसेषकुलत्यासांहिजाणिवो एकस्त्रीकुलत्याकुलने विषेमर्यादासांहितिष्टे रहेते स्त्रीकुलस्था कुलस्त्रीकहिथे अनेबीजो  
धान्यविसेषकुलत्यकहीये स्त्रीकुलत्याकुलस्त्रीते त्रिणभेदकह्याछे तेकहेछे एककुलवंतनौवऊं बीजीकु लवंतनीमाता लीजीकुलवंत

धणकुलत्याय इत्यकुलत्यातिविहापणत्तातं० कुलबद्धयायकुलभाउयायकुलधूयायधणकुलत्यात  
 हेवएवंमासाविणवरं इमंणाणत्तंमासातिविहाप०तं कालमासायअत्यमासायधणमासाय तत्यणं  
 जेतकालमासातेणंदुवालसविहाप०तं० सावणेभद्वेअसणे कत्तिएमगसिरेपोसेसाहेफ्फणुणेचिच्चे  
 वंदइसाहेजेइ आसाठेतेणं अभक्खेयाअत्यमासादुविहाप०तं० हिरण्णमासाय सुवण्णमासायतेणंअभ

नीत्रेटीए त्रिणकुलखीएसर्वयतीनेऽभल्ल अनेजेधान्यअन्नविषेपकुलत्याहे तेसरिसवनीपरिसर्वकहिंवुं एमकुलत्यनीपरिंमासपणि  
 पध्या परंकुलत्याथकीइहानवरंमा समांहिएतलोविसेवजाणिवो मासतेविणप्रकारप्रख्याहेतेकहेछे एककालनोमासकहीये?  
 वीजोअर्थद्रव्यनोमासोक्कहियेमासोक० मानविषेपतीजोधान्य अन्नविसेपमासक० अडदतहाजेतेकालमास कह्यातेबारेभेदेवारिप्र  
 कारकह्याहेतेकहेछेआवणमास? भाद्रवोमास? आसोजमास?कार्तिकमास? मार्गसिरमास?पुषई माहमास?फागुण मास  
 चैत्रमास? वैशाखमास?० जेठमास?२ असाढ़मास?२ एकालमास?२ तेयतीनेअभल्लड्ड अर्थजेअर्थद्रव्यनो मासनोतेपिणवेप्र

अथ ह्यग्रहणेनोपहासार्थं कृतइति एगेभवंति एकोभवान् इति एकत्वाऽभ्युपगमे आत्मनः कृतैस्सूरिणाञ्चोत्रादि विज्ञानामवयवानां चाल्म  
 नोअनेकतोपलक्षाएकत्वं दूषयिष्यामीति बुद्ध्यापर्यनुयोगः द्युकेनकृतः दुवेभवंति द्वौभवान् इति च द्वित्वाभ्युपगमे अहमित्ये कत्वविशिष्ट  
 स्यार्थं स्यद्वित्वविरोधेन द्वित्वं दूषयिष्यामीति बुद्ध्या पर्यनुयोगो विहितः अक्षयः अव्ययः अवास्थवोभवाननेन नित्यात्मपक्षः पर्यनुयुक्तः  
 अनेकेभूताः अतीताः भावाः सत्त्वाः परिणामावा भाव्याश्च भाविनीयस्य स तथा अनेन वा अतिक्रातभा विसत्ताप्रश्ने न अनित्यात्मपक्षः पर्य

वत्वे याधस्यसासाते हेव एगेभवंदुवेभवं अणेगेभवं अक्खएभवं अण्वएभवं अवट्टिएभवं अणेगभूयभावभवि

कारेकच्छाच्छे तेजिम एकहिरण्यरूपानो मासनोमांनविशेष अने वीजोसुवर्णसो नानोमासोमानविशेष तेरूपानोमासोसो नानो  
 मासोयतीनिऽभन्नखावायोग्यनहौ धान्यमासअडधान्यविशेषते सरिसवनीपरिरतिमजकहिवो वलीसुकपूच्छे हेथावच्चापुल एकलोतुं छे  
 एह्वोप्रश्नपूष्योतेजाणेच्छेसुकजे थावच्चापुलआचार्यं पोतानाआत्मानुं एकलापणुं अंगीकारकीषेड्डं लेच्छतेकान प्रसुखनापाचइं द्रिय  
 नाविज्ञानना अवयवाने एकेकाइं द्रियनेजदार भावपरिणामवे करी आत्माने अनेकपणेषामवे करी एकच्छं रहवं एकपणुं कहिस्ये तेह

नुयुक्तः एकतरपरिग्रहे अन्यतरस्य दूषणायति तत्राचार्येणस्याद्वादस्य निखिलदोषगोचरातिकांतत्वात् तमवलंब्योत्तरमादायि एकोप्यहं कथं द्रव्यार्थतया जीवद्रव्यास्यैकत्वात् नतुप्रदेशार्थं तथा तथा चान्येकत्वान्मत्स्यवयवादीनामनेकत्वोपलंभोनवाधकः तथा कथं चित्स्वभा

एभवं सुया एगे विअ हं दु वे विअ हं जाव अणे ग भूय भाव भवि एअ हं से के ण ड्ढे ए गे विअ हं जाव सुया दब्ब ड्ढया ए ए गी अ हं णा ण दं स ण ड्ढया ए दु वे अ हं प ए स ड्ढया ए अ ख य धि विअ हं अ व्व ए विअ हं अ व द्वि ए विअ

दुखस्युं एहवीकपटनी बुद्धिं करी सुकपरिज्राजके प्रसन्नकीधुं दोतुं छे अनेकतुं छे अक्षयतुं छे अव्ययतुं छे अवस्थिन नित्यतुं छे तथा अनेकघ णाभूतकहतां पूर्वे ह्वा एहवाभावकृता विद्यमानभावअथवाभावक० परिणामअने वली एहवाभावभाविक० होस्ये जेहने एहवोतुं छे एहवोप्रसन्नकीधोहि वेयावच्चापुत्र एहवोउतरआपे छे हे सुकपरिज्राजक एकपरिणुं छुं वे परिणुं छुं तिहां जिहां अनेकह अहताभावअने कपरिणामआगलिहोस्ये जेहने एहवोपरिणुं छुं तेके अर्थे तेस्याभणी हे भगवन् एकपरिणुं छुं जिहां गुणक हे हे सुकद्रव्यार्थपरिणकारी जीवद्रव्यने एकलापणार्थकी एकलोडं छुं तथा ज्ञान दर्शनपरिणकारी दर्शनार्थं परिणवेडं छुं ज्ञानं दर्शनं एविडं जीवद्रव्यकी जडा

वमाश्रित्ये कालसंख्याविशिष्टस्यापि पदार्थं स्वास्वभावांतरद्वयापेक्षयाहित्वस्यपि नविरुद्धमित्यतउक्तं हावयहंज्ञानदर्शनार्थं तयानचैक  
स्वभावेदोषदृश्यते एकोहिदेवदत्तादिपुरुषः एकदैव तत्तदपेक्षयापित्वपुत्रत्वन्नाटव्यत्वपित्व्यत्व मातुलत्वभागिन्येयत्वादीन  
अनेकान्स्वभावास्तु भवति तथाप्रदेशार्थं तथा असंख्येयप्रदेशतामाश्रित्याक्षयः सर्वथाप्रदेशानांक्षयाभावात् अथयः कियतामपि  
चाव्यथाभावात् किमुक्तं भवत्यवस्थितो नित्यः असंख्येयप्रदेशताहिनकदाचनपि व्यपैति अतो नित्यतास्यु पगमेपिनदोषः उपयोगा  
र्थतयाविधिविषयानुपयोगानाश्रित्य अनेकभूतभावभविष्योपि अतीतानागतयोर्हि कालयोरनेकविषयो बाधानामालनः कथंचिदभिन्ना

हं उवश्रोगद्वयाएत्रशेगभूयभावभविष्येहं एतथ संसुएसं वुइ तएणंथावञ्चापुत्तं अणगारं वंदइ णसंसइर

नथीतेणेळं वेळं छुं तथाप्रदेशार्थं पणेंकारी जीवद्रव्य असंख्याताप्रदेशप्रते अश्रयीने अक्षयळं छुं सर्वथाप्रदेशानाक्षयना अभावयकी  
अव्ययत्रविनासीळं छुं केतलाएकप्रदेशने विनासना अभावयकी अवस्थित नित्यशास्वतोपणिळं छुं असंख्यातप्रदेशपणे करी नवो किवारे  
जीवद्रव्यळवोनथी एकारणयकी नित्यसास्वतोळं छुं उपयोगार्थं पणें विविषयणाप्रकारना विषयना अनुप्रयोगप्रते अश्रयीने अनेकअ

त्ता एवं वयासौ द्रच्छामि गंभंते तु भंभंते अति एके वलिपसुत्तं धम्मं गि सामित्त एधम्मकहाभा गियब्वा तएणं से सु  
 एपरि व्वाय एथावच्च । पुत्तस्स अंति एधम्मं सोच्चा गि सस्स एवं वयासौ द्रच्छामि गंभंते परि व्वाय गसहस्सेणं सद्धिं सं  
 परि बुद्धे देवाणु ष्पियाणु अंति ए सु । डे भवित्ता पब्ब इत्त ए अहा सु हं देवाणु ष्पियाजा वउत्तर पुर च्छि मेदि सी भा ए

तीतकाल अने अनागतकालने विषे ऊवा होस्ये अने कविषयनाजाणवाने आत्मानि घणा इष्टकरी अभि न्नइं अभेदाने उपजवाथकी  
 अने विनासवाथकी एहवा दृष्टाने देखे उडवेकरी सुद्ध अर्थ मनना जाणयाने कहि वेकरी इहांते सुकप्रति बोधपांम्यो तत्वमार्ग जाण्योति वा  
 रपक्की थावच्च । पुल अणगारसाधु प्रते वादे नमस्कार करे वां दीने नमस्कार करीने इम अगलिक हि स्ये तिम कहतो ऊवो इच्छुं वुं वाच्छुं वुं  
 हे भगवन् तुम्हारा समीपने विषे केवली तीर्थं करनो प्ररूयो कह्यो भाय्यो एह वो जे धर्म ते प्रते सांभलि वा भणी इहां धर्म कथा जाणवी श्रीवी  
 तरागनो भाय्यो धर्म संभला व्यो सिद्धांत नावचन संभला व्योति वार पक्कीते सुकपरि ब्राजक थावच्च । पुल अचारि जना समीपने विवे सुधर्म  
 प्रते साभलीने हियासाहि अंधारीने एण प्रकार कहतो ऊवो इच्छुं वुं वाच्छुं वुं हे भगवन् परि ब्राजक सहस्र हजार परि ब्राजका संघाते

तिदं डयाओ जावधाउरत्ताओयएगंते एडेइरत्तासयमेवसिहंउप्पाडिइरत्ताजेणेवथावच्चापुत्तेजावसुं डेमवि  
 त्ताजावपब्बइएसामाइयमाइयाइं चोइसपुब्बाइं अहिज्जइतएणंथावच्चापुत्तेसुयस्सअणगारसहस्संसैसि  
 त्ताएविहरइतएणंथावच्चापुत्ते सोगंधियाओणिलासोयाओउज्जाणाओपडिणिकवमइरत्ताबहिंयाजण

परिवस्योसहितएहवे तुम्हारासमीपनेविषेसुं डयइनेमाथानाकेसलोचीने दिच्चालेवाभणी इमसुकेकच्चोतिवारि गुरुकहेजिमसु ख  
 ह्वेतिमकरो तिहाजिहाताईउत्तरदिसिअनें पूर्वदिसनाभागनेविषे एतलेइसानकूणिनेविषेजइनेतिणदंउआदिदेईनें जिहांतांईप  
 रिब्राजकनासतें उपरणेरुनारंग्यारा तावस्वपयंतसातेंउपरणप्रते एकांतयानकनेविषेसूकेसूकीने स्वयमेवपोतें जपोतानीमे  
 लिंसोहकहतांसिखामाथानीसिखाचोटलीप्रते उपाडीनेलोचीने जिहायाववापुलआचार्यकेतिहाआविआवीनेसुं डयइनेदिच्चालीधी  
 पछेसामाधिकअथ्यनआदिदेइ चोदपूरवभणेभणीने तिवारपच्छीयावच्चापुल अणगारसुकनामा साधनेअणगारसाधुनासहस्रएकह  
 जारसाधुप्रते सिथ्यपणेचैलापणेआपेजेहजारपरिव्राजके साथेदिच्चालीधाक्तेप्रते आपेसिथ्यपणेतिवारपच्छी थावच्चापुलआचारिज



नाशुत्यादाद्विगमाद्वा नित्यपद्वोनदोषायेति पुं डरीकेशादिदेवगणधरेण निर्वाणतः उपलक्षितः पर्वतस्तस्यतत्रप्रथमं निर्दंतत्वात्

वयविहारं विहर इतएणं सेथावच्चापुत्ते अणगारसहस्रेणं सद्धिसंप्रिवुडे जेणेवपुं डरीएप्रव्वएतेणेवउवाग  
च्छइरत्तापुं डरीयंपव्वयंसणियंरदुण्हंतिरत्ता सेयधणससिगासं देवससिवायपुठविसिलापडुदंजावपा  
ओवगमणंसमणुवसेतएणं सेथावच्चापुत्तेणामंअणगारे बडुण्णिवासाणिसामस्यपरियागंपाउणित्तामासि

सोगंधिक्कानगरीयकी नीलासोकउद्यानयकी नीकलेनीत्रलीने विहारकरीने वाहिरवीजाजनपददेसमाहि विहारप्रते करेकरीने  
तिवारिथावच्चापुल अणगारसाधु साधुचारितीयासंधाते परिवस्योच्छतो जिहांपुं डरीकपर्वतच्छेत्त्रीऋखभदेवने पुं डरीकगणधरेनि  
र्वाणयकीउलखाणोजेपर्वततेपुं डरीकपर्वतकहीये तेपुं डरीकपर्वतनेविषे प्रथमपहिहलामोच्चजावाभणीयकीपुं डरीकपर्वत  
शेवंजयपर्वतच्छे तितांआवेआवीने पुं डरीकपर्वत सेतुं जयपर्वतप्रते धीरे सासतोऊपरच्छेउपरच्छेने मेघनाससुहसरिखोस्या  
मवर्णकालोएहवो जिहादेवतानाससूहआवीक्रीडाविनोदकरेच्छेएहवं जेपृथवीसिलापट्टेप्रते दृष्टिजोइपंजीप्रमार्जीकरीने तिहांजि

याएसलेहणाएसडिंभत्ताइं अणसणाएजावकेवलवरणाणदंसण समुप्पाडित्तातओपच्छासिद्धेवुद्धे जावप  
 हीणेत्तएणंसिसुएअस्यथाकथाईजेखेवसेलगपुरेणयरेजेणेदसुभूमिभाएउल्लाणेतेणेवसमोसरीएपरिसाणि  
 ग्गयासेलओविणिग्गओधम्मं सोच्चजंणवरं देवाणुप्पियापंथगपामोक्खाइं पंचमंतिसयाइं आयुच्छामिम्मं

हांताइपादपोपगमनअणसणतेप्रते क्रीधोतिवारपच्छी तेषावच्चापुलनामाअणगारसाधु घणावरसतांईआमण्यचारित्तनापर्यायप्रते  
 पालिने एकमासनीसंलेखणाकरीने साठिभक्तिक्केद्याएहवो अणसणकीधो जिह्वाताइ केवलज्ञानवरप्रधां नज्जानदंसनऊपजावीने  
 तिवारपच्छी सिद्धययोनुद्धययो जिह्वातिहांसगलादुःखयकी खूंकाणोमोक्षपडं तातिवारपच्छी तेसुकअणगारसाधुएकदाप्रस्तावे अणु  
 क्रमेविहारकरतोविचरतो जिहांसेलगपुरनगर जिह्वासुभूमिभागउद्यानवनखंडक्के तिहांआवीनेसमोसखोऊतखो वांदवाभणीन  
 गरमांहियकीपरखदानीकली सेलकराजापिणसुक्कआचारिजने पांदवाभणीनीकलीयो धर्म्मोपदेसदोधोतेधर्मसांभलीने पण्णिजे  
 एतलोविसेपराजाकहे हे देवानुप्रियहेसाधो पंथकप्रमुखआदिदेई पांचसयमंतीपांचसयप्रधानंप्रते आमर्यादाकरीने ऊं पुच्छं तथा

दुयं च कुमारं रज्जेद्वा वेमित औपच्छा देवाणुष्पियार्णं अति ए सुडेभ वित्तां अगारा औ अणगारि यं प्रव्वया मि अ  
 हा सुहं देवाणुष्पिया त ए णं से से ल ए रा या से ल य पु रं ण य रं म उ भं म उ भे णं अणु ष्प वि स द्द जे णे व स ए गि हे जे णे व वा  
 हिरिया उ व द्वा ण सा ला ते णे व उ वा ग च्छ द्द र्त्ता सौ हा स णे स णि स खे त ए णं से से ल ए रा या पं थ य पा मो क्खे पं च मं  
 ति स ए स द्दा वे द्द र्त्ता एवं व या सी एवं ख लु दे वा णु ष्पि या म ए सु य ख अं ति ए ध म्मे णि स खे से वि य मे ध म्मे द्द च्छि ए प

मंडुककुमारप्रते राज्यने विषेयापुं तिवारपक्की अहो देवानुप्रिय तुम्हारा समीपने विषे सुं डयद्दने धरवासक्कांडीने गट्टहस्थावासयकी  
 नीसरीने साधपणाप्रते ऊं लेऊं दित्तालेऊं पक्के गुरुकहे जिम सुखहो देवानुप्रिय हे राजन् ए ह्वं कख्यापक्की अनंतर तिहाथीनीसरीने ते  
 सेलगराजा सेलगपुरनगरमाहि प्रवेसकरे प्रवेसकरीने जिहांपोतानो धरक्के जिहावाहिरली उवद्वाराण साला वेसवानीसाला तिहांआ  
 वेआवीने सिंहासणाऊपरि भलिपरि निसखवेठो तिवारे ते सेलगराजा पंथकप्रसुखआदि देइ पांचसयप्रधानां प्रते ते डावे ते डावीने  
 इणि प्रकारे कह तो ऊवो इम आगलिकहि स्येति मकहे खलु निश्चय सहित अहो देवानुप्रियो अहो प्रधानो सुकआचारि जने समीपे धर्म

डिच्छि ए अ भि त् इ ए अ ह स्रं देवाणु प्रिया संसारम उब्बि गे जा द प व्व या मि तु भ्भे ए देवाणु प्रिया विं करे ह किं व से ह किं वा ते हि य य इ च्छि ए सा म त्ये न ए णं ते पं थ य पा मो ज्ज वा से ल यं रा थं ए वं व या सी ज इ ए तु भ्भे देवाणु प्रिया सं सार जा व प व्व य ह अ र्हा णं देवाणु प्रिया किं अ स्रे आ हारे वा आ लं ने वा अ र्हा हे वि य णं देवाणु प्रिया सं सार म उ

सांभल्योति धर्मनिश्चयनिरधारी करी मे इच्छो विशेषकरी प्रतिष्ठी वांछ्यो तेकारणयकीषणुं रच्यो रोचिष्यं तेकारणयकी अ हो देवानु प्रियो गृहस्थावा समध्ये वा अथवा ते तुम्हारा हि यानुं स्युं वा छ्यो छे तुम्हारा ही याना भावस्या इच्छिते के ह वा भाव छे ति वार प छी ते पं थ क प्र मु ख पांच स य प्र धां न से ल का रा जा प्र ते इ म क ह ता ह्म आ जो तु ग्हे हे देवानु प्रिय हे रा ज न् सं सार ना भ य थ की वी ह ना उ द वे ग पा स्या छ ता दि क्षा ले वो छी तो अ ग्हा ने हे मा ह रा ज को न अ ने रो वी जो आ धा र ऊ इ अ व लं व ऊ ई ए का र ण य की अ ग्हे मा ह रा ज जन म सर ण सं सार ना भ य थ की वी ह ना उ द वे ग पा स्या छ ता ति हां जि हां दि क्षा लि स्यां जि म हे देवानु प्रिय हे स्वा मि न् हे मा ह रा ज तु मे गृ ह स्था वा स सां हि अ ग्हे नि ष णा

विष्णुजावप्यवासो जहाणं देवाणुष्पियया अरुहं बज्रं सुकज्जं सुयकारणे सुयजावतहाणं पव्वद्रयाणु विसम  
 णाणं वज्रं सुचक्वु तएणं सेसेलएराया पंथयपामोक्खे पंचमं तिसए एंबं वयासी जइणं देवाणुष्पियं या तु भमे संसार  
 भउ विष्णा जावप्यवहतं गच्छ हणं देवाणुष्पियया सए सुइ कुडुं वेसुजेइ पुत्ते कोडुं वमज्जे ठावेत्ता पु रि ससह  
 खवाहिणीयाओ सयाओ डुरुढासमाणा समअं तियं प्राउ भव हते वितहेव पाउ भवंति तएणं सेसेलएरा

कार्यवाभने विषेयाप्याख्या वणाकारणहे तु एकां तकार्यं पूछिवा अत्रावतासह त्रिहां जिहां तिमदिच्छामां हि पणि तु ग्हारे' साथे आवी सेयती  
 मांहे घणायति नाकामकाजने विषेति हां जिहालोचनभूतयेछे तिवारपच्छी ते सेलकराजा पंथकप्रमुखआदिदेइ पांचखेमंती प्रधांनां  
 प्रते एणं प्रकारे' कहतोह् अजो जावो अहो देवाणु प्रियो अहो प्रधानो तु ग्हे संसारनाभयथकी बीहनाउदवेगपाख्याच्छता तिहां जिहां दिध्याले  
 वोछो ते कारणयकी जावो तु ग्हे अहो देवाणु प्रियो आप, आपणापोतानारकुटं वने विषेज्ये एवडापुलवडावेटाप्रते' आपआपणां कुटंबमां  
 दिध्यापीने' हजारपुरुषवाहिनी हजारिपुरुषेषेवहीये एहवीशिबिकापालखीप्रते' चट्टाऊताच्छता माहरासमीपप्रते' प्रगटथाओ तु ग्हेवे

थापंचमंतिसयाद्र पाण्डुभद्रमाणाद्र पासद्रत्ता हृदुतुद्रुकोडु वियपुरिसेसहावेद्रत्ता एवंवयासौ  
 खिष्याभिवभोदेवाणुष्यियासं डुयख कुमारस्समहत्थं जावरायाभिसेयं डवडुवेहृद्र अभिसिंचंतिजा  
 वरायाजाएविहरद्र तएणंसेसेलएराया मंडुयंआपुच्छद्रत्ता तएणंसे मंडुएराया कोडु वियपुरिसे  
 सहावेद्रत्ता एवंवयासौखिष्याभिवसे लगपुरंणयरं आसियजावगंधवडिभूयंकरिह कराविहयएथ

गात्रावोतेपंथकप्रसुखपाचसयप्रधानतिमघरिजईने पुत्रनें थापीकारीपालखीवेसी प्रगटथथाआव्या तिवारपच्छीसेलकराजापांचस  
 यप्रधानाप्रतें आवीप्रगटथयाकृताप्रतें देखेदेखीने तुष्टसंतोषपास्योछतो कौटंकिपुरुषआदेसकारीपुरुषांप्रतें तेडावेतेडावीनेइमक  
 हतोहृओ छिप्रसेवउतावलाज भोदेवानुप्रियोअहोसेवकपुरुषोमंडुक कुमारनेमोटांमंडाणसहितवह्मूल्यवणुं राजानेजोग्यएहवा  
 राजाभिवेकप्रतेंथापोथापीनेपक्केषणेकलसेकरीसींच्योराजाभिवेककरो तेणेतिमजकखोपक्केमंडुकराजाथयोछतो विचरेछेतिवारपच्छी  
 तेसेलकराजामंडुकराजाप्रतें पूछेपूछीनेतिवारपच्छीतेमंडुकराजा आदेसकारीपुरुषांप्रतेंतेडावेतेडावीने इमकहतोहृओछिप्रसेवउ

भाणति यं प्रच्छिणह त एणंसे मंडु एराया दोच्चं पि कोडु विय पुरिसे सह विदुत्ता एवंवयासी खिप्पा  
 भेवसे लयस्सरसो महत्थं जावणिक्खमणाभिसेयं जहामेहस्सतहेवणवरं पडुमावइ देवीअग्गकेसेपडि  
 च्छइसव्वेविपडिग्गह गहायसौयंदुरुहंति अबसेसंतहेव जावसामाइयमाइयाइं एकारसअंगाइं अ

तावलाजअहोखेवकोसेलकपुरनगरप्रतं मर्यादाकरीसौच्योलीपावोधउलावो पाणीइं छंटावोकचरोपरोकरावोचंदननाहाथदेवरा  
 वोठामि गंधनीवाती अगएउखेवोसगलानगरमांहि इमटुग्हेपोतेकरोअनें अनैरावीजापाखे करावोइमकरीनिकरावीनें एमाहरी  
 आजाप्रतं करीनें पाच्छीसुंपो तिवारपच्छीतेमंडुकराजा वलीवीजीवारआदेसकारी पुषुषांप्रतंतेडावेतेडावीने तेइमकहतोडुअचिप्र  
 सेवउतावलाजसेलकराजाने मोटामंडाणसहितनिकमणाभिषेक दिछालेवानाअभिषेकप्रतं करो एकसोआठरकलसेकरी तीर्थना  
 पांणीभरीनवरावोजिमपहिलाअध्ययनमाहिमेघकुमारनो दिछामहोत्सववण्योक्के तिमइहापणिसर्वकहिबो पणिनवरंएतलोवि  
 सेषइहांजुदेक्के जेपदमावतीराणीपटकूलधरीच्यारअंगुलप्रमाणके समूंकीवीजाआगल्याकेसप्रतं पडिच्छेग्रहेलीइखोलासांहिपक्के

हिज्जद्वज्जहिं चउत्थजावविहरद्र तएणंसेसुएसेलयस्स अणगारस्सताद्रं पंधयपामोक्खाद्रं पंचअण  
 गारसयाद्रं सौसत्ताएविथरद्र तएणंसेसुएअणगारे अस्सयाकयाद्रं सेलगपुराओसुभूमिभागाओओल  
 ज्जाणाओ पडिणिक्खमद्रत्ता बहियाजणवयविहारंविहरद्र तएणंसेसुएअणगारेअस्सयाकयाद्रं ते

सर्वस्त्रीयारजोहरणओषोपडिगहपात्वाप्रतंलेईनें पालपालखीप्रतंवेसेत्तेअवसेषसेषथाकतुं सगलुंतिमजसेषकुमारनीपरितिहांजिहां  
 थिवरनेपासें सामायिक अध्ययनयादिदेई इयारअंगसंपूर्णपूराभरणेभणीने षणाचउत्थच्छडअडमामितपसंधमपालतोछतो विचरेत्ते  
 तिवारपच्छीतेसुकसाधु सेलकनें साधुनें तेपंधकप्रसुखपांचसयप्रधानेसाथीद्रं दिज्जालीधींछेतेपंधकसाधुआदिदेई साधुपांचसयप्रते  
 सिध्यपणंआपेएतले सेलकसुनिने आचारिजपदनोपट्टाभिवेककीधो तिवारपच्छीतेसुकअणगारसाधु एकदाप्रस्सावेसेलगपुरनगर  
 थकी सुभूमिभागउद्यानवनखंडथकी नीसरनीसरीनेचालेचालीने बाहिरजनपददेससांहिविहारप्रतंकरे तिवारपच्छीतेसुकअण  
 गारसाधुआचार्यएकदासमये तेअणगारसाधुचारितीयाहजारसंघाते परिवस्योछेतोपूर्वानुपूर्वीं केडाकेडेचालतोविचरतो गामानु



पुं डरीकपर्वतः शलं जयः अं ते हि एत्यादि अं तैः वक्ष्य चणकादिभिः प्रांतैस्त्रैरेवभुक्तावशेषैः पर्यु धितैर्वारुच्यैर्निःस्त्रै ह्येस्तुच्छै रल्यैः अरसैः  
 द्विंवादिभिरसंस्कृतैर्विरसैः पुराणत्वाद्द्विगतरसैः श्रुतैः शीतलैः उष्णैः प्रतीतैः कालातिक्रान्तैः लक्षणाबभक्षाकालाऽप्राप्तैः प्रमाणाति

गुं अणगारसहस्रेणं सद्भिं संपरिबुडे पुब्बाणुपुब्बिंचरमाणे गामाणुगामं विहरमाणे जेणेवपुं डरीएप  
 ब्वएजावसिद्धाबुद्धा सुत्ता अंतगडा तएणंतस्वसेलगस्सरायरिसिस्सतेहिं अंतैहियपंतैहिय वुच्छेहिहय  
 लू हेहियअरसेहिहय विरसेहिहय सौएहिहय उरहेहिहय कालायक्कंतैहिय पमाणाइ कंतैहिय णिच्चंच

गामप्रथमगामथकीबीजागामप्रतं विचरतोचालतोच्छतो जिहांपुं डरीकसत्तुं जयपर्वतच्छे तिहांजईसिद्धयथाबुद्धतलनाजांणथथासंसा  
 रथकीसुं काणा अंतगडकेवलीययामोचपडता तिवारंपच्छीतेसेलकराजरिपितेणे आहारैअंतकं वालचणादिकनेकरी प्रांततेहि  
 जजिस्थापच्छीउगस्योअन्नतेणेआहारिकरी तुच्छनिर्धननाघरनाआहारतेणेकरी लूखाधीरहितआहारतेणेकरी हिंगादिकनेसंस्कार  
 वधारैरहिततेणेकरी जनाखाडनाकुच्छा अन्नआहाररसरहित तेणेकरी सीतलताडा आहारतेणेकरी उग्ग्हाआहार तेणेकरी

क्रातैः बुभुक्षापिपासा मातानुचितैः चकाराः समुच्चयार्थाः एवंविधविशेषणान्यपिपानादीनि निष्ठुरशरीरस्य न भवन्ति बाधवेत्तत्राह  
प्रकृतिखुडुमारकस्येत्यादिवेयणापाउभूयाइत्यस्य स्थाने रोगाद्यंवे इति क्वचिद्दृश्यते तत्र रोगञ्चासावातं कच्च कृच्छ्रजीवितकारोति समा

पाणभोयणेहिय प्रइयखुकुमालस्य सुहोच्चियस्यसरीरंगंसि वेयणापाउभूया उज्जलजावदुर  
हियासाकंडुयदाहपित्तजरपरिगय सरैरियाविविहरइ तएणसेसिलएरायरिसीएएणरोगायंकेणं

तेकेहवाक्छेतरसुभूखनाकालेनैः अतिक्रमी उल्लंघीनेऽत्राहारपास्याक्छेतेणेकरी भूखतरसञ्चाहारपाणीनी मात्वाप्रमाणोपेतअतिक्रमी  
उल्लंघीजिमेतेहवेऽत्राहारिकरी एहवानित्यनिरंतरपाणी अन्ननाञ्चाहारकरतांजीमतांछतां इमनिरंतरपांणी अन्ननेजीजवेकरीनि  
दुरसरैरमेऽत्राधारोगउपजतानहइतेहनेरोगउपजे प्रकृतेऽस्वभाविकरीसुकमालसुहालोसरीरक्छे जेसेलकराजकृषीनो भलाऽस  
रसरञ्चाहारकरीसुखोचित्तसुखेकरी इद्विपास्योक्छेजेसेलकडुंसरीरएहवासुखोचित्त सरैरनेविषेनिरस आहारादिकनेकरिवेकरी  
वेदना प्रगटयईवेदनाउपनीतेकेहवीक्छे वेदनाउज्जलाउज्जलीघणुंआकरी दुःखमांहिकाईओछुंनहीं एहवीदुरहीयासीदोहिलीअ

सुक्केसिजाएथाविहोत्था तएणंसेसेलएरायरिसी अणयाकयाइं पुव्वाणुपुव्विंचरमाणे जावजेणेव  
सुभूमिभागीउज्जाणे तेणेवविहरइपरिसाण्णिगया मंडुओविरायाण्णिगओ सेलणंअणगारं बंदति  
णमंसतिपडजुवासति तएणंसेमंडुएरायासेलगस अणगारससरीरयं सुक्कं भुक्खं लुक्खं जावसब्बा

हीआसताखमतां एहवीवेदनाऊपनीतेकेहीदुःखतेकहेछे कंडुकखाजिखसरो अनेदाहतेप्रधाने आकरेएहवेपित्तव्वरे करीशरीर  
देहपरिगतव्याप्येछे सरीरजेसेलराजक्खणिनो एहवीवेदनाभोगवतोछतोविचरेछे तिवारपच्छीतेखेतराजक्खणि एणेरोगज्वरादिके  
करीआतंकसंपूर्णतकाल आउखानाघातनाकरण हारातेणेरुको संपूर्णमांसरुधिररहितथातोऊवो तिवारपच्छीतेखेलक  
राजरीषी एकदाप्रस्ताविपूर्वीइ चालतोविहारकरतोगामानुगामप्रते अतिकमतोछतोमूंकतोछतो जिहांसुभूमिभागउद्यान  
वनहे तिहांआवेआवीने विचरेछेरहेछे पछेनगरमांहियकीपरिषदा वांदवाभणीनीकलीआवीमंडुकराजांपण्णिवांदवाभणीनगरमा  
हियकीनीसख्योतिहांआव्यो खेलकसाधुप्रतेवांदे नमस्कारकरेसेवाकरेछे तिवारपच्छीतेमंडुकराजा खेलकअणगारसाधुनासरीरदेह

सःकंडूःकंडूतिः दाहःप्रतीतः तत्प्रधानेनपित्तत्वरैणपरिगतं शरीरं यस्यसतथातेइच्छंतिचिकित्सां आउंटावेमिति आवत्तंथाभिकार

वाहंसरोगंपासइत्ता एवंवथासौअहस्यंभंतेतुभंअहापवित्तेहिंतिगिच्छिएहिंअहापवत्तेणंओसह  
भेसज्जएभत्तपाणेणंतिगिच्छं आउंटावेमि तुभंणंभंतेममजाणसालासुसमोसरहफ्रासुयंएसणिज्जं  
पौढफलगसिज्जासंथारयंउगिण्हित्ताणंविहरहतएणंसेसेलएअणगारिमंडुयस्सरसोएयमइंतहत्ति

प्रते सुकोमाससधिररहित भूखोतेजरहितलूखोचिगटरहित तिहांजिहांसगलीआवाधासहित रोगसहितएहवासरीरप्रते देखेदे  
खीने इमआगलिकहिस्ये तिमकहतोद्धवोद्धं हेभगवन्तुन्हनें यथाप्रवृत्तेकरीजिमसाधुयोग्यओषधंकरी चिगत्सावेदगरं करीय  
थाप्रवृत्तिंसाधूनेयोग्य ओषधचूर्णभेषजपथ्यएहवा भातपाणीनेदेवेचिकत्सावेदांप्रतें करावुंएहवुराजाकहे जोतुन्ह हेभगवन्माहरी  
जांणयानकहतांरथगाडलापालखीन्हं कवानी सालाधरक्केतेषरनेविसे आवीसमोसरोउतरो प्रासुकनिर्दोषएषणीयगवेषणासहि  
तवाजोटाटाटिपाटिउं मोटोडाभनोसंथारोनान्होडाभनोसंथारो एसगलापाडीहारप्रते ग्रहीनेमांगीने विचरोप्रवत्ता एहवुराजाक

यामि सभंडभत्तोवगरणमाथाएत्ति भंडमात्रपतद्द, हपरिच्छेदश्च उपकरणंचवर्षाकल्पादिभंडमालोपकरणंखंचतदालीयं भंडमालोपकरणंच स्वभंडमालोपकरणं तदादायगृहीत्वा अभ्युद्यतेनसोद्यमेन प्रदत्तेनगुरुणोपदिष्टेनप्रमट्हीतेन गुरुसकाशादंगीकृततेन

पडिमुणेइतएणंसिमंडुए रायासेलयंरायरिसिवंदइणभंसइइत्ताजामेवदिसिंपाउभएतामेवदिसिंप  
डिगतएणंसेलएरायरिसिकल्लंजावजलंते सभंडमत्तोवगरणमायायपंथयपामोक्खेहिंपंचहिं अणगा  
रसएहिंसद्धिसिलगपुरमणुपविसति जेणेवमंडुयस्सरणेजाणसालाओतियेवउवागच्छइइत्ताफ्फासुयं

हेतिवारितेसेलग अणगारसाधुमंडुकराजानो एपूर्वोक्तअर्थप्रतेमान्यं कहेवारू अंगीकारकरेसेलकराजच्छषि तिवार पच्छीतेतिच्चं  
यकीमंडुकराजा सेलकराजिरिषिप्रते' वांदिनमस्कारकरेवादीने नमस्कारकरीने जेणदिशियकीप्रगटथयोआव्यो आ'व्योऊ'तोतेणी  
जदिसपाच्छेवलीगयो तिवारपच्छीसेलकराजच्छगिकालस्वरिजजग्यापच्छीजलंतेदेदीयमानस्वरिजजग्येच्छते वर्षाकालने' योग्यपोताना  
भंडपातामातरा उपगरणवस्त्रादिकसर्वपोतानोउपगरणपोतानोलेईने पंथकप्रमुखआदिदेई पांचसयअणगारसाधुसंघातेपरिवस्यो

पीठं जावविहरइतएणंसेमंडुएरायातिगच्छएसहावेइइत्ता एवंवयासीतुभेणं देवाणुप्पिथासेलथस्सरा  
 यरिसिस्स फासुयंसणिज्जेणं जावतिगच्छं आउंटेह तएणंतिगिच्छं आयामंडुएणंरणाएवंवुत्तासमा  
 णाहइतुत्ता सेलगस्सरायरिस्सअहाप्रवित्तेहिं ओसहभेसज्जेणं भत्तपाणेहिंतिगिच्छं आउंटेहिंमज्जापा  
 णयंचउवदिसंति तएणंतस्स सेलगस्स अहाप्रवित्तेहिं जावमज्जापाणएयसेरोगायं केउवसंतयाविहोत्था

सेलगपुरनगरमाहिप्रवेसकरे जिहांमंडुकराजानीयांनसालाछे तिहांअविआवीनिफासुनिदौषपीठपाटिलापाटिडाभनोनांन्होसंथा  
 रोतेप्रते'लेईनेविचरेछे तिवारपच्छीतेमंडुकराजा चिकित्सवेद्यांप्रतेतेडावितेडावीनेइमकहतोइओतुम्हे अहोदेवानुप्रियोअहोवेद्योसे  
 लकराजरिषिनेफासुनिदीषषणीयएहवीजिहातिहांचिकित्सारोगजोइवेद्यांप्रतेकरो अथवाकरावोतिवारपच्छीतेचिकित्सवेद्यमंडुक  
 राजाने इमकह्याज्जताछताइणेप्रकारिआदेसदीषाछता हर्ष्यांसंतोषपास्याछता सेलकनामाराजच्छषिने यथाप्रवृत्तिरोगजोइकारी  
 ओषधचुर्णादिभेषजपथ्ये करी भातपाणीइं करीचिकित्सावेद्यांप्रते तैवेद्यकरेमद्यपानमदिराप्रतंसुरापानलेवोतेप्रतेउपदिसेकहेतैवेद्य

विहारेण साधवर्तनेन विहर्तुं वर्त्तितुं पाश्चे ज्ञानादीनां त्रिहस्तिष्ठतीति पार्श्वस्थः गाढम्बानत्वादिकारणं विनाशयथातराभ्याश्च तादि

हृद्देजाववलीयसरीरेजाए ववगयरोगायंके तएणंसेसेलए तंमिरोगायंके सिउवसंतंसिसमाणंसितं  
सिउलेअसणंपाणंखाइमंसाइमं मज्जापाणएथमुच्छिए गट्टिएगिइ अज्जोववणं पासथो पासत्य

तिवारिइ तेसेलगराजक्खविने यथाप्रवृत्तिं यथारोगयोग्यवेदेकरवेकरी तिहांजिहांमद्वयानसुराधानने पीवेकरी तेरोगपित्तज्वरा  
दिआतं कम्बूलादिकते सर्वरोगउपधांत उपसमथातोह्मओ सर्वधारागटल्यो निरोगथयो हर्षपांस्यो बलीष्ठवलवंतथयो स्थूलशरीरथयो  
व्यपगतसर्वधारायं कव्यपगत गयोसमाधिवंतथयो तिवारपच्छी तेसेलकराजक्खणि तेखाजिखसदाधतेरूप पित्तज्वररोगतापांदि  
धातं कतकालघातना कारणहारासूलादिके रोगतेसगलाइरोगउपसमेच्छे पणितेविपुलविस्तीर्णततकालनानीपनाएहवा असन  
पांनखादिमखादिमना आहारकरतोच्छतो अने वलीमदिरापांनसुरापांनपीतोच्छतो क्खण्यो गहिलोथइरह्योच्छे गट्टिलोभीथइरह्योच्छे  
तेमयगुरुथइरह्योच्छे एहवो अब्भवसायजपनो शिथ्यने तेकेहवोगुरुथयोच्छे पासत्यक' एकापासे अलगा ज्ञानदसेनचारिलवाहिरह्योच्छे

पिंडभोजनत्वादागसोक्तविशेषणः सचसदृशदनुचितकरणेनाल्पकालमपिभवति ततउच्यतेपार्श्वस्थानां योविहारोवह्ननिदिनानियाव  
तथावर्त्तनंसपार्श्वस्थविहारः सोऽस्थासीतिपार्श्वस्थविहारी एवसोसन्नादिविशेषणान्यपि नवरसोसन्नोविवक्षितानुष्ठानालसःआ  
वश्यकसाध्यायप्रत्युपेक्षणाध्यानादीनामसस्यकारीत्यर्थः कुत्सितःशीलःकुशीलः कालविनयादिभेदभिन्नानां ज्ञानचारित्वाचाराणां

विहारीओसखोओसखविहारीकुसौलिकुसौलिविहारी प्रमत्तेप्रमत्तविहारीसंसत्तेसंसत्तविहारी  
उउवद्वपौढफलगसिज्जासंधारएप्रमत्तेयाविहरद्वयोसंचाएति फ्रासुयंएसण्ज्जं पौढफलगंपच्च

जेहयकीतेपासत्योकहीये तेपासत्यानुंजेविहारषणादिवसताई एकथानकेवत्तं वुंतेपासत्यविहारकहीये तेपासत्यानोविहारएहने  
केतेपासत्यविहारीकहीये वांकारूडीक्रियाअनुष्ठाननेविषे आलस्ययोक्तेआवस्यकसज्जायपडिलेहण पूजवाप्रमार्जबनेविषे आलस्य  
यद्वैविचरके कुत्सितभूंडोसीलआचारकेजेहनो कालविनयादिभेदभिन्नज्ञानदर्सनचारितना आचारनोविराधकथयो विचरेछेप्रमा  
दीथयो प्रमत्तपांचप्रकारनाप्रमादनायोगथकीपांचप्रमादकरतोक्तोविचरेकेसंसत्तकहतांकिवारेकसंविघ्नकहता रुंवेगीबागुणनासं



विराधकइत्यर्थः प्रमत्तः पंचविधप्रमादयोगात्संसक्तः कदाचित्संविग्नगुणानां कदाचित्पार्श्वं स्याद्विदोषाणां संबन्धात् गौरवलयसंश्र  
जनाच्चेति ऋतुबद्धेष्विअवर्षाकालेषु पीठफलकादिद्वय्यासंस्कारकंयस्यस्यतथा नैवभूयः पुनरपि एवमित्यंकरणाद्यप्रवर्त्तिष्ये इतिशेषः एव

प्रिणित्तामंडुयंच रायंआपुच्छित्ता बहियाजणवयविहारंविहरित्तए तएणंतेसिंपंथगवज्जाणंंपंच  
एहंअणगारसयाणं अस्सयाकयाइं एगओसहिधयाणं जावपुव्वरत्तावरत्तकालसमयांसि धम्मजागरि

बंधयकीकिवारिकपासत्यादिकनादोषनासंबंधयकी ऋद्धिगारवरसगारवसातागारवएत्तिणगारवनाउपजवाथकीएहवोसंसत्तोयईवि  
चरेछेउवद्धऋतुवद्धकहतांमागसिरमासआदिदेईआसाढपयंत आसाढमासनेविषेएतलेवर्षाकालविनापाटलावाजोटपाटियापाटि  
संथारोडाभादिकनोनिरंतरखेवेमासकलपयिणयालटीनही एहवोप्रमत्तप्रमादीयईविचरेछेतेकारणथीसेलकराजऋषिनेंनथीचिंता  
फासूनिदीप एषणीवपाटलां पाटिआपाडीहारंआवकनामांगीलीधाछे तेप्रतेपाछाआपीनेछांडीने वस्तीमंडुकराजाप्रते पच्छीने  
वाहिरवीजाजनपददेसमांहिंहिहारप्रतेकरे करिवाभणीप्रवर्त्तीयेईमविचारकर्त्तो नथी तिवारपच्छीतेपंथकसाधुवरजीने एकजंणा

यं जागरभाषाणं अयमेयाखुवेअज्जात्थिएजावसमुपज्जित्थाएवंखलुसेलएरायरिसीचइत्तारज्जंजाव  
 पव्वइएविपुलेणं असणं४मज्जपाणएसुच्छिए णोसंचाएइ जावविहरित्तए णोखलुकप्पइदेवाणुपिप  
 मासमणाणं जावपमत्ताणंविहरित्तए तंसेयंदेवाणुपिपया अरुहंकल्लंसेलयंरायरिसिं आपुच्छित्ता

पांचसेषाधुचारित्तीयानि४६६ एकदाप्रस्ताविइं एकठामिलीनेवेठाने तिहांजिहांपूर्वप्रथमपहिली रातिअनेअपरपाच्छिलीराति  
 एतावतामथ्यरातिनासमयनेविषे धम्मजागरिकासज्जायधर्मध्यानप्रते जागरमाणाकरतानेध्याताने एहवोएतदरूपआत्मानेविषे  
 ह्अचिंतारूपअणप्रार्थी एहवोमनमाहिरह्योमननोभावजपजेते सगलामिलीनेविचारे एणंपूर्वीकप्रकारेनिश्चयसेलकराजज्जधि  
 त्यजीनेंछांडीनेंराज्यप्रते तिहांजिहांएंसंयमचारित्वलीधो पणिविपुलविस्तीर्णं अन्नपांणीखादिमखादिमच्चारप्रकारनां आहारने  
 विषेअनेमदिरापांनपीवानेविषे सूच्छीणोच्छेतेकारेणंनयीचिंतवताजेइंहांधी विहारक्करिवाभणीचालिवाभणी तेकारणयकीनिश्चयक  
 ल्पेनहींअहोदेवानुप्रियोअहोसाधो अमणसाधुनेनिग्रंथाने प्रमादपणेपडिरह्निवाभणी तेकारणयकीअयभलुंनिश्चयसहितअहोदेवा

पाडिहारियं पौढफलगसिज्जासंथारगं पञ्चप्पिणित्तासेलगस अणगारसपंधयं अणगारं वेयावच्च  
 करंठवित्ता बहियाअभुज्जाणं जावविहरित्तए एवंसंपेहेइ कल्लं जेणवसेलएरायसि आणुच्छि  
 त्तापाडिहारियंपौढफलगं जावपच्च प्पिणित्तिपंधयं अणगारं वेयावच्चं करंठावेइ बहियाजावविहरंति

नुप्रियोअहोसाधो आपणने कालिप्रभाति सेलकराजञ्चपिप्रते पूच्छीने पाडिहारूपाटलावाजोढफलगपाटीउं पाटिसोटासंथाराना  
 न्हासंथाराएसर्वपाछाआपीने विसरजीनेछाडीने सेलकनामासाधनेअर्थेपंधकसाधुप्रते वेयावच्चकरप्रतेथापीने सूकीने आपणने  
 वाहिरदेसमाहिअभुज्जाणंउद्यमसहित उजमालयईने गुरुने आदेसे करी गुरुनापासायकीअंगीकारकीधेविहारे करी साधवत्तेवि  
 चरवाभणीयुगतोच्छे इमविचारणाकरेसगलासाधुपच्छेकालिप्रभातयथाअनंतरसूरिजउम्यापच्छी जिहंसेलगराजञ्चपिच्छेतिहंआवीने  
 सेलकराजञ्चपिने पूच्छीने पाडिहारंप्रते पाटलापाटिआपाटिसंथाराप्रते पाछाआपेविसर्जेछांडे पंधकसाधुप्रते वेयावच्चकरप्रते  
 थापेसू केपच्छेगुरुनीआज्ञाभांगीने वाहिरदेसमाहि विहारकरे ४६६साधुः तेसगलेधिष्वेविहारकीधापच्छी तेपंधकसाधुसेलकराजरि

तएणसेपंथएअणगारे सेलयस्वराथरिसिस्वसिज्जासंधार उच्चारपासवणखेलभत्त ओसहभेसज्जभ  
 त्तपाणएणंअगिलाणविणएणं वेयावडियंकरेइ तएणंसेसेलिएरायरिसि अणुयाकयाइं कत्तियचा  
 उम्मासियंसिविउलंअसणं४ आहारमाहारिएसुबुजं च मज्जपाणयंपीए पुब्बावरण्हकालसमयंसि

षिनोडाभनोमोठौ संथारोनांहोसंधारो रुडौपरिसाचवेवडीनीतिपरिअवणम्हत्तसलेखमाए सर्वनोमातरोपरिठेओषधचूर्णीदिभेष  
 जपथ्यतथारसांगते सर्वआणीआपेभातपाणी सदोषपण्णिआणीआपे गुरुधणुंअनाचारपणेप्रवत्ते के तथापिभलाभावसहितगुरुनोवि  
 नयतेकारवोजतेभणीपंथकअगिलाणपणेउद्यमसहितपणे करीविनयवेयावच्चकरेकेपंथकशुद्धचारित्वालेके गुरुशियिलपणेप्रवत्तेकेतेसे  
 लगराजक्वपिअकदाप्रस्तावि कार्त्तिकचोमासानेविषे विपुलघणोअन्नपांनखादिमखादिमनाआहारबलवंतआहारीजिमीकरीनेअ  
 तिवणुंजवली मद्यपांनमदिरापांनप्रतेपीइकरी पूर्वअपरकालसांक्रनासमयनेविषे सुखेसुतोकेसेलकराजक्वपिं तिचारितेपंथकसाधु  
 कार्त्तिकचोमासानेविषेएतलेकार्त्तिकसुदि पूनिमनादिवसनेविषे अतीचारनोकाउसणकीधेकते पछे आलोईदेवसीसंबंधीप्रतिक्रमण

सुहृत्प्रसुत्ते तएणंसेपंधएकत्तियचाउम्मासियंसिकथकाउसगणे देवासियंपडिक्कममाणंपडिक्कं तेचाउम्मा  
 सियपडिक्कमिडं कामे सेलयंरायरिसिं खामणद्वयाए सीसेणंपाएसुसंधडे तएणंसेसेलएरायरिसिपं  
 थएणंसौसेणंपाएसुसंधट्टिएसमाणे आसुरत्ते जावमिसिसिसेमाणे उट्टेइएवंवयासौ सेकेणद्वेणंभोए  
 सअप्पत्थियपत्थिए जावपरिवज्जिए जेणंममसुहृत्प्रसुत्तंपाए संघट्टेइतएणंपंधए अणगारेसेलए

सूत्रपडिक्कस्यो पच्छेकार्तिकचोमासानुं पडिक्कमणुकरवाभणीकामअभिलाषवाच्छतो पंधकसाधु सेलकराजच्छषिप्रते खामवाखामणा  
 नेअर्थे प्रसोजने करीपंधके सीर्षपोतानेमाथेकरीगुरनापगनेविषे संघच्चोएतलेमाथोगुरनेपगनेविषे अडाच्चोतिवारित्तसेलकराजच्छ  
 षिपंधकसाधुनोमाथोपगनेविषे संघच्चोअडाच्चोफुरस्योजाण्योच्छतोते सेलकराजच्छषि महाक्रोधवंतथयोच्छतोतिहांजिहांताइंधिग  
 धिगायमानथयोच्छतोसूतो अट्टेअठ्ठीनेइमकहतोअओ इमवोल्पोखानेअर्थेकिस्येकारणंअरे अप्रार्थीनोअणवांछ्यानोप्रार्थकवांछणाहा  
 रोच्छे तिहांजिहांमरणनाइच्छणहारालज्जाइंसोमाइं करी परिवर्जितरहितच्छे जेणेकारणेसुभनेसूताप्रते पगनेविषे सुखसमाधिसंघ

गं एवं बुब्बेसमागो भी एतत्येतसि एकस्मिन् कथका लसगो देवसि  
 यं प्रद्विक्रमं प्रद्विक्रं ते चालस्मासि यं स्वामे मागे देवाणुष्पि यं वंदमागे सीसेणं पाणसु संवद्वे मितं खमतु मं देवाणु  
 ष्पि यथाणाद्रभुज्जोर् एवंपं करणया एत्ति कट्टु, सेलयं अणगारं एयमद्वं सत्तं विणएणं भुज्जोर् खामे इतएणं तस्स  
 सेलयस्स रायिरिसिस्सपंथएणं अणगारेणं एवं बुत्तस्स अवमेया खुवे जावसमुप्पज्जित्या एवं खलअं हं रज्जं च

थो संवटो करी जगाप्पो तिवारपच्छीपंथक अणगारसाधुसेलकराजक्कपिने इमकक्यो छतो वीचनो छतो लासो छतो तासपांम्यो छतो  
 करतलदोघाय जोडी करीने इमपंथक सुनिककत्तो ऊअोऊ हे भगवन्पंथक थिय्थो अतिचारनो कालसगकी धापच्छी देवसि कदिवसं  
 वंधी पद्विक्रमं पद्विक्रमणासूतपगामसिज्जाय पच्छेकातीची मासासं वंधी अपराधखमातो छतो तुम्हप्रतं वंदतो छतो माच्छरे माथे करी तु  
 म्भारापगं नेऊ संघढीं मुं अलोछुं ते माच्छराथ विनय अपराधप्रतं तुम्ह खमो हे पव्व्यथी गुक्की वारयली वली इणं प्रकारे अपराधकरया  
 भणी प्रवर्त्तस्युं नहीं सेलकसाधप्रते एपूथीत्त अपराधप्रते भली परि विनय करी वारं वार खामे खमावे इमसां भल्यो तिवारपच्छी ते सेलक

जावउउवइपौढविहरामितंखलुणोकपप्रइसमणणं पासत्याणं जावविहरित्तएतंसंयंख  
 लुकल्लं मंडुयंरायंआपुच्छित्तापाडिहारिचं पौढफलगंसेज्जासंधारयंपच्चपिणित्ता पं थएणंअणगारे  
 णंसद्धिंबहिचाअभूज्जएणं जावजणवयविहारं विहरित्तएवंसंपे हेइरत्ताकल्लं जावविहरइएवामेवस

राजकृषिने पं थकअणगारसाधुने इमकह्यानिइमसंभलाव्यातवसेलकराजकृषिनें एहवोअध्यवसाय एहवोभनसां हिभावजपजेजेणोप्र  
 कारेवेरागेकरीखलुनिश्चयअहंहं आप्रत्यत्तराज्यप्रतें छाडीनेत्यजीनेचारित्वलेईने सरसआहारनोलालचीछतोरुडीक्रियासंयम  
 मार्गनीपरिहररीनेवर्षाकालविनापाटिपाटिउं डाभनोसंधारोएसर्वसेखाकालनेविषेसेवतोछतोऊं विचरुं छुं रोगविनाप्रमादपणेऊं  
 असंयमकरणं कुं तेकारणथकी खलुनिश्चयसहितनकलपेअमणसाधुनें यतीनें पासत्यापणुं संयममार्गनेविषे प्रमादपणुं करीविचरवा  
 भणीतोअथभलुं असंयममार्गंछांडुनिश्चयसहित कल्लं कालिप्रभातिसूरिजउग्यापछीमंडुकराजाप्रतें पूछीनें पाडिहारजेलीधोछेगट्टह  
 स्थनोपाटलावाजोटाटोउं पाटिग्याडाभनो मोटोसंधारोसंधारयंकहतानान्हो संधारोएसगलापाडिहारं उपगणं प्रतें पाछा

मणाउसोजावणिगं धोवांणिगंधिवाओसखोजावसंधारएप्रमत्ते विहरइसेणंइहलोएचेववज्जुणंसम  
 णाणंवज्जुणंसमणिणं वज्जुणंसावगाणंवज्जुणंसाविद्याणं हीलणिज्जे संसारोभाणियव्वोतएणंतेपं थगव  
 ज्ञापंच अणगारसयाइमिसेकहाएलइहासमाणाअस्समखं सहावेइरत्ता एवंवयासीसेलएरायरिसौ

आपीनेवीसर्जीछांडीनेपंथकअणगारसाधुसंघाते लेईनेवाहिरउद्यमकरीतिहांजिहांजनपददेशमांहिंविहारकरवाभणीसुभनेकल्पेइ  
 मविचारेविचारीनेकालिप्रभातथयापछीविहारकरेसेलकाचार्यः श्रीसुधर्मस्वामीकहेजंबूइमसेलक राजरिषीनीपरिअहोअमणोआउ  
 खवंतो जिहांनिग्रंथसाधुसाधवीओसन्नपणे पासत्यापणेकुसीलपणेसंस्तपणंसदोषभातपांणीपोतानी क्रियाअनुष्ठाननेविसेवर्षाकाल  
 विनापाटलापाटिउं उठीं गणनोपाटिवसतिडाभनासंधाराइत्यादिकउपगरणवाववानेविषेप्रमादपणेविचरेतेसाधुसाधवीइहलीक  
 आभवनेविषेचेवनिद्धीरनिश्चयवह्णंषणासाधुसाधवीआविकआविकानेहीलनीयज्जइजेसाधुसाधवीसंयमछांडी  
 प्रमादपणंप्रवर्त्ततेअनंतो संसारपरिभ्रमणकरेतिवारितेपंथकसाधुवरजीएकउणापांचसय४६६साधुचारितीयाछेतेएहवीकथावार्त्ता



पंथएणंविहयाजाविहरइतंसेयंखलुदेवाणुष्मिथा अमहंसेलयंरायरिसिंउवसंपज्जित्ताणंविहरित्तए  
 एवंसंपेहेइत्तासेलयंरायरिसिंउवसंपज्जित्ताणंविहरंतितएणंतेसेलयपामोक्खापं चअणगारसथाव  
 उण्णिवासाणिसामणपरियागंपाउणित्ताजेणेवपुंडरीएपव्वएतेणेवउपागच्छइत्ताजहेवथावच्चापुत्ते

नाअर्थलह्यापास्याच्छताजेसेलकराजच्छधि प्रमादपरिहरीविचरेके एहवासमाचारपास्याऊताछता मांहोमांहितेडावितेडावीनेंच्या  
 रसयनवाणूंसाधुएकठाऊइनेइमकहताऊआजेसेलकराजरिधिअरीगुरुजीप्रमादपरिहरीपंथकसिख्यनेंसंघातेलेईनेवाहिरदेसमांहिबि  
 हारकरीदेशमांहिविचरेके तेकारणथकीअेयभलंखलुनिश्चयसहित अहोदेवानुप्रियोअहोगुरुभाईओ आपणानेसेलकराजरिधि  
 प्रतेअंगीकारकरीनेविचरवाभणीकल्पे इमविचारेविचारणाकरीनेपछेतेसाधु सेलकराजच्छधिप्रते आगलिकरीअंगीकारकरी  
 विचरेकेएतलेपंथकसहितपांचसयसिख्यसेलकाचार्यप्रतेअंगीकारकरीचालेके तिवारितेसेलकाचार्यपंथकप्रमुखआदिदेई पांचसय  
 साधुचारितीयाषणावरसताई चारित्रनाषथीयप्रतेदिबाप्रतेपालीनेकेहडे जिहांपुंडरीकपर्वतसेतुंजयपर्वतके तिहांआवेतिहां

मेवेत्यादिरूपनयः इहगाथासिद्धिलियसंजमकज्जा विहोइउज्जमंति जइपच्छा संवेगाओतेसेलओल्व आराहयाङ्गंति इतिपंचमं

तद्वेवसिद्धाएवासेवसमणालसोजोणिगंगंधोवाणिगंगंधिवाजावविहरइएवंखलुजंबू समणेणंभगवयामहा वीरेणंजावसंपत्तेणंपंचमस्रणायज्जयणस्स अयस्सट्ठेप्रसूत्तेत्तिवेमिपंचमं णायज्जणंसम्मत्तं धू सिट्ठिलियसं

आवीनेपादपोपगमनअणसणकरीने जिमथावञ्जापुत्रआचारिजसिद्धा हजारसाधुसहित तिमजसेलकाचार्यसिद्धामोक्षपङ्कंताइ रेणंपरिइंयतीनेउपमाहे अमणआउखावंतहेजंबू जेसाधुसाधवीप्रमादरहितविचरेहे तेआभवनेविषवणीपूजापामे आपतरेअने राभविकजीवनेतारे इमसुधर्माखामीकहेखलनिच्चयेजंबूअमणतपस्वीइं तांजासंप्राप्तमोक्षपङ्कतोतेणे श्रीमहावीरदेवपांचमाज्ञा तानाअध्ययननोएपर्वोक्तअर्थप्रतेकह्यो जेचारितक्याडिप्रमादपणे असंवरीयईनेसंवरीयाइतेतरे जेहवुंभगवंतनासुखधी सांभ ल्योङ्कंतुं तेहवोङ्कंकङ्कंतुं तुष्कप्रतेहेजंबू इतिअज्ञातानोपांचमोअध्ययनसंपूर्णययो ॥ इहागाथाकहेहे सिथिलढीलाप्रमादवंतथ याहे संयमनाकार्यजेहनाचारितीयाना एहवासिथिलपणियइने तेउद्यमवंतचारितनेविषेजोपहे संवेगयकीथाईतेभय्यजीवसेलक

ज्ञातविवरणंममाप्तमिति५ पंचमानन्तरंषष्ठं व्याख्यायते तस्यचपूर्वेषुसहायसंबन्धोऽनन्तराध्ययने प्रमादवतोऽप्रमादवतश्चानर्थान्तरा  
बुक्ताविहापितयोरेव तावेवोच्ये तेद्रत्येवंसंबन्धमिदं सुगमं नवरंनिरूपयत्तं आतादिभिः दर्भैरग्रभूतैः कुशैर्भूलभतैर्जात्यादर्भकुशभेदइत्य

जमकज्जाविहोइउं उज्जमंतिजइपच्छासंविगात्रोतिसेलत्रोव्वआराहयाहोइ१ जइणंभंतेसमणेणंभगवयाम  
हावीरेणंजावसंपत्तेणंपंचमस्सणायज्जायणस्सअयमइपेसुत्ते छइस्सणंभंतेणायज्जायणस्ससमणेणंभगवयाम  
हावीरेणंजावसंपत्तेणंकेअइपेसुत्तेएवंखलुजंबूतेणंक्वाल्लेणंतेणंसमएणं रायगिहेणाजं रायरेहोत्था तत्थणं

राजरिषिनीपरिं आराधकऊई पांचमाअध्ययनपक्षी छट्टोअध्ययनवखाणीयेछे तेछट्टाअध्ययनसंघातेपाच्छिला अध्ययनसंघातेएसंबं  
धपांचमाअध्ययननेंविषे प्रमादवंतनेअनर्थलाभकह्योतेप्रमादी अप्रमादीवेळंभारियईहलवूथार्इतेहनो संबंधछट्टाअध्ययनने विषेक  
हेछे हिवेछठाअध्ययननोअर्थकहेछे अमणतपस्वीइंतांजामोचनानासुखपामिं सहावीरदेवने पाचमाज्ञातानाअध्ययननोए अर्थकह्यो  
तेसांभल्योहिवेहेभगवन्छट्टाअध्ययननो अमणभगवंतेमोचपडतातेणे श्रीमहावीरदेवे कुणस्सुंअर्थकह्योछेते सांभलुंऊं हिवेसुधर्मा

रायगिह्णयरेसेणिसंरायाहोत्या तत्थणंरायगिहस्स बहियाउत्तरपुरिच्छिमेदिसीभाएएत्थ  
 णंगुणसेलिसंवेइएहोत्या तेणं कालेणं तेणं सभएणं सभणेभगयंसहावीरेपुब्बाणुपुब्बिंचरसाणे  
 जावजेणेवरायगिह्णयरेजेणेवगुणसेलएचेइएतेणेवससोसढे अहापडिखुवं उग्गहंउगिगिहत्तासंज  
 मेणं तवसाअप्पाणंसंभविमाणे विहरइूपरिसाणिग्गया सेणिसोविण्णोअओ भस्सोकाहिओपरिसाप

स्वामिकहेछे इकआगलिकहिस्येतिमखलुनिच्चयहेजंबू तेकालतेसमयनेविषे राजगृहनामानगरहोतोऊओ निहाराजगृहनगरने  
 विषे अणिकनासेराजाऊतो तेराजगृहनगरनेवाहिर उत्तरदिसिनाअने पूरवदिसिनाविचालनाभागप्रदेसनेविषेएतलेईशानकूणि  
 नाभागनेविषे इहांगुणसेलकनामा चैत्यदेहखूँ ऊं तुं तेकालनेविषे तेसमयनेविषेअमणतपस्वीभगवंत संपूणैज्ज्ञानवंतआठकर्मरूपश  
 लुनाजीपवाथकी गामानुगामप्रतेंअतिक्रमतोउल्लंघतोछतो जिहंराजगृहनगरछे जिहंराजगृहसेलीयचैत्यछे तिसंअ वीनेससोसस्या  
 जतस्यायथायोग्यसाधुने रहिवायोग्यएहवा अवग्रहअदेशप्रतेंग्रहीने मांगीनेरहे संघसेकरीतपेकरी आत्माप्रतेभावतोछतोविचरेछे

डिगया तेणं कालेणं तेणं समएणं समएणस्स भगवओ महावीरस्स जेइ अंतेवासो इं दभुइरुणामंअण  
 गारेअदूरसामंते जावसुक्कञ्जाणेवगएविहरइ तएणंसेइ दभूइजायसइएवंवयासीकहणं भंतेजीवा  
 गरुयत्तंवालुइयत्तंवा हव्वमागच्छंति गोयमासेजहाणामए केइणुरिसेएगंमहंसुक्कं तुं बंणिच्छि

भगवंतआव्याजाणीनगरमांहिथी परखदानीसरीवांदिवाभणी अणिकराजापिणनीसख्योतिहांआव्यो भगवंतेधम्मोपदेसदीधोजे  
 णीदिशियकीपरिखदाआवीऊंती तेणीजदिस्सिथईनेगई तेकालतेसमयनेविषे अमणतपस्खीनोभगवंतज्ञानवंत श्रीमहावीरदेवनो  
 जेष्ठवडोसमीपनोरहणहारोसिथ इं द्रभूतिनामाअणगारगणधर अतिघणुंवेगलोनहींघणुंठुकडोपणिनहीं इमवेठोछतोतांजांसुक्का  
 ध्यानसहितछतो विचरेछेप्रवत्तेछे तिवारितेइ द्रभूतिनेजातउपनीछेपूछवानीअद्धावांछाजेहनेसंदेहऊपनोछेएहवोगोतसगणधरइम  
 आगलिकहिस्थे तिमपूछतोऊवो भगवंतप्रते किमहेभगवन् जीवगरुयपणं भारेपणुंथाइ वलीतेजीवल्लुपणुं हलुआपणुं केसउतावलुं  
 पामेथाईइमपूछ्योतिवारि श्रीवीरकहेगोतमः तेयथानामेकोइएकपुरुष एकमोठोशुकोएहवं तुं बडुं निःछिद्रुच्छिद्ररहितएहवुं

दृग्निस्त्वहयं दभेहिय कुसेहियवेटे इरत्ता मडियालेवेणं लींपद्रं उरहेदलयइरत्ता सुक्कं समाणं दो  
 अंपिदभेहियकुसेहियवेटे इरत्ता मडियालेवेणं लिंपद्रत्ता उरहंसुक्कं समाणं तच्चंपिदभेहियकुसे  
 हियवेटेइ मडियालेवेणं लिंपद्र एवंखलुएणंउवाएणं अंतराविटेमाणे अंतरालिंपेमाणे अंतरा

निरुपहतवायरादिकेकरी उपद्रवरहितनीपनुं छे एहवातुं बडाप्रतंदर्भआगिलिडाभनीसलीतेणेकरी कुसडाभनाम्बलतेणेकरीवीटेउप  
 राउपरिवौटीनेपछेमाटीनें लेपेखरडेलीपीनेउष्णतडकितावडिदीइसूकावेसूकावीनेपछेसूकोछतोसूकाणापछीदुजीवीजीवारडाभनी  
 आगलीसलीतेणेकरी कुसडाभनाम्बलतेणेकरी उपराउपरिवौटीने माटीनेलेपेकरीलीपेखरडेलीपीनेवलीतावडीसूकावेसूकावी  
 नेपछेसुकतुं जांणीने वलीवीजीवारडाभनीआगलीसलीतेणेकरी कुसम्बलसहितडाभतेणेकरी ऊपराऊपरिवौटेवीटीने माटीने  
 लेपे करीलीपेखरडेखरडीनें तावडिसूकावेएणेप्रकारेनिश्चय एणेउपायेकरीआंतरेरविचालेरडाभेकरी वींठतोछतोविचालिरआंत  
 रेरमाटीनेलेपेकरीलीपतोछतो पछेआंतरेरवि चालिरतावडिसूकावतोछतो तांजांआठवारडाभेकरी ऊपराऊपरिवौटे पछेमाटीने

न्येअथाहंसिच्चि अस्याधेअगधेइत्यर्थः पुरुषःपरिमाणमस्येतिपौरुषिकं तन्निषेधादपौरुषिकं सृष्टेयानांसंबंधात्पुरुषकतयागुरुकतैव  
 कुतःभारिकतया सृष्टेयजनिताभारवत्त्वेनेतिभावः गुरुकभारिकतयेति तुं विकारधर्मद्वयस्वाप्यधोमज्जन कारणताप्रतिपादनायोक्तं

सुक्तावेमाणेजावंअट्टुहिंसड्वियालेविहिंअलिंपद्रअत्याहंसिअतारगंसि अपारमपोरिसिथंसिउदगंसि  
 पक्खिवेज्जासेणुणं गोयमासेतुं बेतिसिंअट्टुण्हंसड्वियालेवेणं गुरुयत्ताएभारियत्ताए गुरुयभारियत्ताए

लेपेकरीलीपे लीपकरीतावडेसुकाविइमआठवारकरीतुं बाप्रते घणुंभारिकरी अत्याहअस्थाषअगधपणुंजं डु एहवातेकेहवाक्खेअता  
 रतरीसकाइनहीएहवाद्रहप्रसूखपरिमाणएहनोक्खेतेपुरुषकहीये तेपौरुषिकपरिमाणनाअभावयकीअपौरुषिककहीयेएतलेवणुं उं डो  
 द्रहएहवाजं डाद्रहनापांणीनिविषेप्रक्षेपे घालेसूं केमहावीरकहेतेनूनंनिअयहेगोतमसेतुं वडोतेआठवारडाभेकरिवीजुं आठवारमा  
 टीनालेपेकरीलीप्योक्खतीमाटीनालेपनासंबधयकी गुरुकपणेकरीगुरुकतापणेकरी घणुंभारीययोमाटीनालेपथकीययोजेभारवंतप  
 णीतेणेकरी गुरुकमोटाषणाभारपणेकरी उप्पिंजपरितेतुं वडुंनिअय हेगोतमसलिलपांणीप्रते अइवइत्ताअतिकमीनेउसुं धीने

उष्यिं सलिलमद्रुता अहेधरणियलं पद्रुडाणे भवद्रुएवामेवगोयमाजीवावि प्राणाद्रुवाएणंजावमि  
च्छादंसणसक्षेणं अणुपुव्वेणं अद्रुकम्मपगडीओसमज्जिणत्तातासिगुरुयत्ताएभारियत्तागुरुयमारि  
यत्ताएकालमासेमालंकिच्चा धरणियलमद्रुवद्रुत्ता अहेणरगतलपद्रुडाणेभवद्रु एवंखलुगोयमाजीवा

हेठोघरणीतलप्रतिष्ठांनभुमिधथिवीनुं तलूक्के तिहंजईरहे हेठोधरतीजद्रुमतुं वडानादृष्टातनीपरिहेगोतमजीवपणिप्राणातिपात  
आदिदेई ताजामिथ्यादर्सनसत्यपयंतअढारपापस्थानसेवी प्राणातिपातकरीभूठुंवोलीकरी घणापापसेवीकरी आनुपरवीइंकेडा  
केडेकरीआठकर्मज्ञानावरणीं दर्शनावरणीं वेदनीं३मोहनीं४नामकर्म५ गोत्वईंआयुं७अंतरायटए आठकर्मनीप्रकृतिप्रतेउपार  
जीने तेआठकर्मांनीप्रकृतिंकरी गुरुकपणेकरी भारपणेकरीघणुंमोटांभारेकरी कर्मउपारज्यावापणेकरीकालनामासनें विषं काल  
प्रतेकरीने धरणितलपृथवीतलप्रतें अतिक्रमीने उक्खंघीने हेठाहेठलिनरगतलिअपयठाणे नरगतलिअपयठाणेनरकावासेजईवे  
सेजेअढारपापथानकेसेवस्ये इमखलुनिच्चयहेगोतम जीवगुरुकपणुंभारेपणुं शीअउतावल् पासेतेअधोगतिजाईतुं वडानीपरिअथ



उपिंउपरिअइवइत्ता अतिपत्यादिकस्यतित्तंसित्तिस्त्रिमिते आर्द्रतांगतेततः कृथितेकोथमुपपते ततःपरिशटितेपतितद्दृहगाथे

गुर्यत्तं हव्यमागच्छंति अहणं गोयमासेतुं वेतेसिं पटमिह्मगंसिमद्वियालेवंसित्तंसि कुहियंसि  
परिसडियंसिद्रसिंधरणिथलांओउप्पइत्ताणंचिद्वइत्ताणंतरंचणंदोच्चंपिमद्वियालेवेजावलप्पइत्ताणं  
चिद्वइत्ताणंएवंखलुए एणंउवाएणंतेसुअद्वसुमद्वियालेवेसुतित्तेसुजावविमुक्कबंधणेअहेधरणिथलमइवइत्ताउ

हिवेहेगोतमतेहिजतुंवडो तेआठडाभमाटीमांहिलानोएकप्रथमपहिलोडाभनो अनेंमाटीनोलेपपटतेपांणीमांहित्तित्तंसिकहतां  
भीनेच्छते तेबंधकुथितकुहेच्छते तेप्रथमडाभमाटीनोलेपबंधसडीपडीतच्छे ईषत्लगारेक दृथवीनातलाथकीअपरिउंचो तुं वडुआवी  
नेरहेतिवारपक्खी वलीवीजोडाभमाटीनोलेपपटबंधतेपांणीमध्ये भीनें छतेकुहेच्छतेसडीपडेच्छते भूमियकीघणेरू उंचतुं छुआवीरहे  
इमखलुनिश्चय एणंउपायें करीकेडाकेडित्ते आठेडाभनापटबंधअनें आठेमाटीनोलेपपांणीमांहिरहेउतेच्छते भीनेच्छतेसंगेलाबंध  
लेपसडीपडीअलगाथईच्छतेविमुक्तबंधनबंधन रहित तुं वहोथयोतिवारहे ठिलाभूमिनातलाप्रते अतिक्रमीनेच्छांडीने उंचोपांणी

जहमिउलेवालित्तं गुरुयंतुं वं अहोवचइएवंआसवकय कम्मगुरूजीवावच्चंतिअहरगइं । तंचेवतिव्वसुक्कं जलोवरिंठाइजाइलऊभा

पिंसलिलतलप्रइडाणेभवइएवामेवगोयमाजीवापाणाइवायवेरमणेणंजावमिच्छादंसणसह्ववेरमणेणं  
आणुपूवेणं अट्टकम्मपगडौओखवेत्ता गगणतलमुप्पिइत्ताउप्पं लोगगपइडाणाभवंतिएवंखलुगोय  
माजीवालइयत्तंहव्वमाच्छंतिएवंखलुजंबूसमणेणं भगवयामहावीरेणं जावसंपत्तेणंछट्टुस्सणायउम्म

जपरिप्रतिष्ठानऊइएतलेतुं वडुं निर्लेपयया पक्खीहलुं उथयापक्खीतरीनें पांणीजपरिजं चोआवीरहे आवीरहे हे हे गोतम प्राणातिपात  
नेवेरमणेकरीप्रांणीजीवांनिराखिवेकरी तांजांमिथ्यादर्शनसत्ये विरमणेनिवत्तं वेकरी एतलेअडारपापथानकनेपरिहरवेकरी असेवे  
करीआनुपूरवीइं अनुकसेकेडाकेडे ज्ञानावरणीयादिकनीआठांकर्मान्नीप्रकृतिं प्रतें खपावीनेसर्वथाक्षयकरीने गगनतलंआकास  
नातलाप्रतें उत्पतीनेभेदीने उपरिजं चालोकाश्लोकचोदराजना अग्रभागठमिजईने एतलेमोक्षपडुचे इणिएपरिनिश्चयहे गोतम  
जीवभव्यप्रांणीलघुपणुं हलूआपणुं शीघ्रउताबलुं पाभेइणिएपरि निश्चयहे जंबूअमणेभगवंते माहवीरदेवे छट्टाज्ञाताअध्ययननोएपूर्वी

वंजहतहकम्मविसुक्का लोयगपद्रुट्टियाहोति २ षष्ठं ज्ञातविवरणं समाप्नमिति अथसप्तमं विप्रियते अस्सचपूवेण सहायं संबंधं इहानं तराध्ययने प्राणातिपातादिभतां कम्मं गुरुताभावेनेतरेषां च लघुताभावेन अनर्थप्राप्तीतरेत्तके इह तु प्राणातिपातादिविरतिभंजकप

यणस्सअथम इपणत्तेत्तिसिच्छडुं गायज्झयणं सम्मत्तं इह हलपणयगाहाजहमिउलेवाहित्तं गुरुयंतुं वे अहोवयइ एवं आसकयकम्म गुरुजीवावच्चंतिअहरगई १ तंचेवतव्विसुक्कं जलोविरिडाइजाइलज्जभावं

क्तअर्थकच्चोतेमेसांभल्योद्धं तोतेहवोजद्धं तुजप्रते कच्चुं इति श्रीज्ञातानोच्छदोअध्ययनसंपूर्णथयोहिवेसातमोअध्ययनवखाणेच्छे एसातमा अध्ययनसंघाते ए संबंध इह छट्टाअध्ययननेविषे अठारपापस्थानकसेवणहारानेजेकर्मभारीभावेकरी अनर्थप्राप्तेअने अठारपापस्थानका नाअसेवणहारानीवानेकर्महलयापणेकरीमोचजाइतेवेडं कच्चानेइहांसातमाअध्ययननेविषे प्राणातिपातादिविरतिनाभांजणहाराअने पालणहाराराएहवोसंबंधकहेच्छेजिमडाभअने खदमाटीनेलेपलीयोखरछोच्छतो गुरुकपणुं भारेपणुं यइतुं वडुं अहोअधोहेठलिभ मिजरहेइमतुं वडांनीपरिआअवनेसेववेकरीकीधाउपारज्याजेआठकर्मतेणेकरी गुरुकं भारीजीवांतेजाइअधोगतिं अधरनीचीपाडइ

जहतहकस्मविमुक्कालोयगगपद्द्रिव्याङ्गतिर्जद्रुणंभतिसमणेणंभगवयामहावीरेणंजावसंपत्तेणंछद्रुस्सणायज्जभ  
यणस्सअयमडुप्रसुत्ते सत्तमस्सणंभतेणायज्जभयणस्ससमणेणंभगवयामहावीरेणंकेअडुप्रसुत्ते एवंखलुजंबूतेणं  
कालेणंतेणं समएणं रायगिह्णेणमंणयरेहोत्थातत्थणं रायगिह्णेणयरेसेणिएणमंरायाहोत्थातत्थणं राय  
गिह्णेणयरेस्स बहियाउत्तरपुरच्छिदिसौभाएसुभूमिभागेणमंउज्जाणेहोत्थातत्थणं रायगिह्णेणयरेधसे

गतिप्रते । तेवलीतुं वडुंतेडाभमाटीइ सुक्काणुं क्तुं पाणीउपरिठाईरहे एतलेपांणीउपरितरे लवूहलूआभावप्रते थाई जिमतिमआठ  
वर्मयकीसूं काणाकता लोकाग्रप्रतिष्ठितऊईलोकाग्रथानकपामेमोक्षजईरहिवेपांचव्रतपांमीने जेवधारितेतरेतेह्नोसंबंधकहेछेजेहि  
भगवत्अमणभगवंतेतांजांपामे मोक्षतेणेछट्टाज्ञाताअध्ययनना एसें पूर्वोक्तअर्थकह्योतेसे सांभल्योहिवेहेभगवन्सातमाज्ञाताअध्ययन  
नोअर्थ अमणभगवंतश्रीमहावीरमोक्षपुत्ततो तेणेस्योअर्थ प्ररूथोकाह्योछे हिवेसुधर्मांस्वामिकहेछे इमनिच्चयहेजंत्तुं सांभलितेका  
लतेसमयनेविषे राजगृहनामानगरऊत्तुं तिहांराजगृहनगरनेविषे अणिकनासेराजाऊंतो तेराजगृहनगरनेविषेबाहिरउत्तर

णामंसत्यवाहेपरिवसद् अड्डु जावन्नपरिभूए तस्मणं धस्ससत्यवाहस्समद्वाणामंभारियाहोत्थाअहो  
 णंपंचिदियजावसुख्खुवातस्मणं धस्ससत्यवाहस्स पुत्तामद्वाएभारियाएअत्तयाचत्तारिदारयाहो  
 त्यातंजहाधणपालेधणदेवेधणगेवेधणरक्खिएधस्ससत्यवाहस्सचउणहंपुत्ताणं भारि  
 याओचत्तारिसुरह्हाओहोत्था तंजहाउच्चकीयाधोगवत्तियाधरक्खियाधरक्खियोयाधुतएणंतस्स

दिसिपूरवदिसिचालेएतलेइसानकूणनेविषे गुणसेलकनामादेहरुयत्तनुं ऊतुं तथासुभभागउद्यानऊतुं तेराजगटहनगरनेविषे  
 धन्तोनामेसार्थवाहवसेक्के तेघणीअद्धिनोधणीक्के ताजाअपरिभूतकोइपरभवीसकेनही कोइसकेनहीवेसमाहिगणतो नथी तेधन्ना  
 सार्थवाहनेभद्रानामाभार्यास्त्रीऊतीऊइतेकेहवीक्केअहीनहींणानहीजंणानथीपांचइं द्वियजेहनतेपांचइं द्रीयपरिपूरुण्हेसरीरजेह  
 नोतांजाघणासरूप धन्नासार्थवाहनापुतवेटाभद्राभार्यास्त्रीनाआत्मजआत्मायकीऊपनाक्के एहवाच्यारदारकवालकऊताऊवातेहना  
 नामअशुकमेकहेक्के तेकहेक्केधनपालनामधनदेवनामारधनगोपधनरखितध तंधन्नासार्थवाहना च्यारपुतानीभार्यास्त्रीच्यारवऊ

धस्यसत्यवाहस्य अस्वयाकथाइं पुष्वरत्तावरत्तकालसमयंसिद्धमेयारूवे अज्भक्त्यिए जावससुष्मल्लि  
 तथा ए वंखलुअहंरायगिहेणयरे बज्जुणंराजाइसरजावपभिइणं सयस्सकुडं वस्स बज्जसुकज्जेसुयकारणे  
 सुयकुडंवे सुयसंते सुयगुज्जे सुय र हस्से सुय णिच्छिए सुयववहारे सुय आपुच्छे णिज्जे पडिपुच्छे णिज्जे

ऊं तीतेहनानामकहेच्छेडक्कीतानामा? भोगवतीनामेवीजीवज्जुरतीजीरखितावहइ रोहिणीवज्जएच्यारवज्जनानाम४जांणवातिवा  
 रितेधन्नासार्थवाहनेएकदाप्रस्ताविइं पूर्वरातिअनेअपरराति एतलेमध्यरातिनाकालसमयनेविषे एहवंआत्मानेविषेरह्योजेमननोसंका  
 ल्यविकल्पजपजेइमनिश्चयऊं राजगृहनगरमाहिघणाराजाईसरसेठतां जांसगलाराजपुत्रप्रमुखानेतथापोतानाकुटंबनाप्रणांकारि  
 जकामनेविषेकारणनेविषेकुटंबनेविषेसंत्वआलोचकरवानेविसे गुज्जकछांनीवात्तांकारवानेविषेमनुष्यरहितएकांतनेविषेनिश्चयनिर्द्धारस  
 हीकामकाजकरवानेविषेव्यवहारव्यापारनाकामकाजनेविषेआमर्षादाकरीपूच्छिवायोग्यकुंएतलेपूच्छीनेकरेवली? वणुं २पूछवायोग्यकुं  
 वारंवारपूच्छीरकामकाजकरेएकारणयकीधाननाखलामाहिमध्यभागयणीरोपेक्केतेहनीपरिमेढीभूतसरिखोऊं कुं आधारआअयभूत

रिपालकानां तेषु च ते इत्येवं संबंधमिदमपि सुगमं नवरं मएत्ति मद्गयं सित्तिगतिगामादौ एवं च्यते कुतोयनाचारारखपदात्प्रति ते स्वते परासु तांगते भग्ने वा व्याधिना कुजखंजत्वकरणेनाऽसमर्थो भूते लुगंसि वत्तिरग्ने जीर्णतांगतिशटिते व्याधिविशेषाच्छीर्णतांगते पतिते प्रासादादे

सेढीप्रमाणे आहारे आलंबणे च क्व भूए सव्वकज्जवड्ढावएतं णज्जइरणं मएगयंसि वा वयंसि वा भगं  
सिवालुगंसि वा चुयंसि वा सुयंसि वा लुयंसि वा सडियंसि वा प्रडियंसि वा विदेसत्थंसि वा विप्पवसियंसि  
वा इअस्सकुटुं बस्सके मए आहारे वा आलंबणे वा प्रडिवंधे वा भविस्सइतं सेयं खलु मम कहुं जावजलंते विपुलं

कुं पृथिवीनीपरिचक्षुभूतलोचनभूतकुं सगलाकार्यकामनो प्रवर्त्तावककुं हिवडांसगलाकामनो वृद्धिनो करणहारकुं तेकारणथकी नजां  
णीयेजे ते सगलाकामजाजमे गामादिकने विषे गइं चाल्ये छते वायुरादिरोगे करीकूवडोयावापणे करी असमर्थ भूतयद्भुते छते किवारे क  
कोइकअनाचारथकीपोतानापेदथकीच्युते पेडे छते मेसरणपमे छते जूनो रोगीयोघणूं जूनो घणाकालनो रोगव्यापे छते व्याधिरोगे करी  
हाथपगसडी गयेपडी येथकां मेमाचाने विषेतथावरमां हिपडे छते छते गिलाणपणानाभावपणथकी विदेसप्रदेसप्रते जइनेति हांजरहे

मंचकेवान्मानभावात्विदेशस्थेविदेशंगत्वात्त्वैवस्थितेविप्रोषितेस्वस्थानविनिर्गतेदेशातरगमनप्रवृत्तेआधारआश्रयोभूरिवआलंबनंवर

असरणंप्राणंखाद्भूमंउवक्खुडवितामिसत्तणाद् चउरुहयंसुरहाणं कुलधरवर्गं आमंतेत्तांतमित्त  
णाद्गुणियगचउरुहय सुरहाणंकुलधरवर्गं विपुल्लेणं असरणंप्राणंखाद्भूमं ध्रुवपुण्ड्रवत्थगंधजाव  
सक्कारित्तासम्भारणेत्ता तस्सेवमित्तणाद् चउरुहय सुरहाणंकुलधरवर्गस्यय पुद्गओचउरुहंसुरहाणंप

ऊतेछते पोतानाथानकथकीनगरथकीनीसरीनेदेशातरजावानेविभ्रे प्रवर्त्तेछेआकुटं वपरिवारनो कुणस्युंऊं मानुआधारआश्रययद्यि  
वीनीपरिआलंबणरासडीनीपरिवर्तणीरहे प्रतिवंधसारवणीनीशंलीयादिकाने वाधवानादोरानीपरिएहवंकुणहोस्ये तेकारणथकी  
श्रेयभलुं निश्चयसुभनेकांशिंप्रभातयथा पछीदेदीयस्मानतेजवंतसूरिजजग्ये छते विपुलघणुं अन्नपाणीखादिसखादिस एच्चारआहार  
रंधावीने मिलज्ञातिप्रमुखसगलापरिवारप्रते तेडावीनेच्चारवहूप्रते कुलधरनावर्गसम्बृहप्रते तेडावीनेतेमित्तज्ञातिनिजकपोतानास  
गलापरिवारने च्यारवहूप्राने कुलधरनावर्गनेविषेविपुलघणे अन्नादिच्चारप्रकारनेआहारनेकरीजीमाये धूपफलवस्त्रादिदुगंधतांजां



लादिकमिवप्रतिबंधः प्रमार्ज्जनिकाशलाकादीनां दवरकाइवकुलुगटहंपिलगटहंतद्वयोर्मातापितादिस-

रिखणदृथाए पंचरसालिअक्खएदलयद्दत्ता जाणामितावकाकहंवासारक्खइवा संगोवेइया संव  
 डुइवा एवंसंपेहेइत्ता कल्लंजावमित्तणाइ चउणहंसुएहाणं कुलधरवग्गं आमंतेइ विपुलंअसखंपा  
 णंखाइमंसाइमंउवक्खडावेइ तअोपच्छारहाए भोयणमंडवंसि सुहासणसंखिससुं तंमित्तणाइ

सत्कारिने ए सर्वस्वादिदेईने सनमानिने घणाआदरदेईने तेहिजमिलज्ञातिसगलापरिवारने च्यारवह्मअंनेअगलिकुलधरजाव  
 र्गने आगलिच्यारवह्मअनी मरीख्याकरवाने अर्थे मांचपांचसालिनादाणाअखंडितप्रते आपीनेदेईने ऊंजाणूं , तावकहताप्रथमप  
 हिलातेच्यारवह्ममांहिखीकेहवीप्रह्मकिमते सालिनाकरणराखेअणखावाथकी एतलेरूड़ीपरिधरकेहीराखेवह्मसालिनादाणापांचसं  
 गोपवीभल्लीपरिएकठाकरीठांकिराखिवाथकी केहीवह्मभलीपरिवधारेएणी इष्टांतेपरखीकरी घरमांहिबडाकथं इमविचारैचिंतवे  
 चिंतवीने कालिप्रभातयथापच्छीविहाणयथा पच्छीतांजांसंपूर्णसूरिजनोतेजविस्त्रयां पच्छीमिलज्ञातिप्रमुखसगलापरिवारप्रते तथाकु

चउरहयसुरहाणं कुलधरवगणसद्धिं तंविपुलं असरणंघाणं खाद्रुमंसाद्रुमं जावसकारेद्रु समाणेद्रु  
 ३त्तातस्त्रेवमित्तणाद्रु चउरहंसुरहाणं कुलधरवगणस्त्रयपुराओ पंचसालिअक्खएणिएहइरुत्ता जेइ  
 सुरहंउत्तिभुइरुत्ता एवंवयासी तुमंचरणंपुत्ताममहत्था ओइमेपंचसालिअक्खएणिएगहाहि

लघरनोलोकनोसम्हरप्रतंआमंत्वे निऊं तरतेडासेतेडावीने विपुलघणुंअसनपांनखादिमखादिम एचारप्रकारनाआहारप्रतेरंधावे  
 रंधावीनेनीपजावीने तिवारपक्कीअंधोलीसार्थवाह पक्केभोजनजिमवानामांडवानेविषेआवी सुखासनसुखकारीआसनऊपरिनिष  
 खवेठोछतो तेमित्तज्ञातिसगला परिवारसंधातेचारवड्डआं संधातेकुधरलोककुलधरनालोकसंधाते तेविपुलघणाअन्नादिचारि  
 प्रकारनाआहारप्रतं जिमीकरीनें चलूलेइपरमपवितथइपक्केमित्तादिसगलापरिवार चारिवह्णकुलधरनालोकप्रतं सत्कारेवस्त्रादि  
 कआपेसन्धानेसत्कारकरीने वस्त्रादिकआपीने सन्धानीने घणीलालिपालिकरीने तेहिजमित्तज्ञातिसगलाने आगलिसाखेकरीच्या  
 रिवड्डआंनेआकुलधरकहतातेचारवह्णनापिताना पद्धदेखतांवह्णनापीहरनापद्धनेदेखतां पाचसालिनादाणाअच्चतअंखंडितआखा

अणुपुव्वेणंसारक्खमाणी संगोविमाणीविहराहि जयाणंअहंपुत्तातुमंइमे पंचसालिअक्खएजाए  
ज्जातयाणंतुमं ममइमेपंचसालिअक्खएपडिदेइज्जासित्तिक्कट्ट, सुगहाएहत्थेदलयइरत्ता पडिविस  
ज्जेइतएणंसाउज्झिया धणस्सतहत्ति एयमइं पडिसुणेइ धणस्ससत्थवाहस्स हत्थाओतेपंचसालिअ

प्रतेग्रहेहायमध्ये लीयेलेईने ज्येष्ठवडीबहूउज्झियाप्रतेसादकरे नेड़ावेतेडावीने इमकहतोहूओधन्नोसार्थवाह तुं हेपुती हेबहूमाह  
राहायथकी आपांचसालनाकणअच्चितआखा अखंडितप्रतेग्रहराविलेवराविलेवरावीने अनुक्रमे आनुपूर्वीउं तेसालिनापांचदाणा  
प्रतें भलीराखतीछती भलीपरिगोपवीराखतीछती विचरजेजिवारे अहंऊं हेपुतीतुष्कनेएयांचसालिनां आखाअखंडितदांणाया  
चुमाणु तिवारेतुमुजनेआपांचसालिना आखाअखंडितदांणाप्रते पाछाआपज्योएहनाएहीज इमकहीने बहूनाहायनेविषेआपेदीये  
देईआपीने पछेबहूनेविसर्जसोकलेजाओतुमेतिवारे तेउज्झियावडीवहू धन्नासार्थवाहसुसरातुं वचनतहत्तिमानुं एपूर्वोक्तअर्थसी  
खामणप्रते अंगीकारकरेकीने धन्नासार्थवाहनाहायथकी तेपांचसालिनाअच्चतआखा अखंडितदाणाकणाप्रतें ग्रहेग्रहीनेलेईने

बतिअनासनतःसंगोपयति संवरणतः संवर्द्धयति वल्लवकरणतःछोलेइति निस्तुषीकरोति अणुगिलइति भक्षयतिक्वचित्फोले

क्वएगिगइइ एगंतसक्कमइइत्ता इमेयारूवेअज्जत्थिए एवंखलुतायाणं कोट्टागारंसिवह्वेपह्हासा  
 लीणंपडिपुखाचिइंति तंजयाणंसंमंताओ इमेपंचसालिअक्खए जाएइतयाणंअहं पल्लंतराओअ  
 खेपंचसालिअक्खए गहायदेहासित्तिकइ, एवंसंपेहेइइत्ता तंपंचसालिअक्खए एगंतेपाडेइइत्ता  
 सक्कमसंजुत्ताजायायाविहोत्था १ एवंभोगवत्तिया एवरंसोछोलेइ अणुगिलइसक्कमसंजुत्ताजाया

एकांतयानकप्रतंआवेआवीने एह्वोएतद्रूपआत्मानेविषेरह्योमनमांहिभावउपनोजेइसखलुनिअयपितोखुसरानाकोठारनाघरनेवि  
 षेघणापालाकहतांकोठीसालिनीपालाशालिनीप्रतिपूर्णं संपूर्णभस्याच्छेतेकारणयकी जिवारेमाहरेपासिसुसरोजीतातजी एपांचसा  
 लिनाअत्ततआखादांणाते याचस्येमांगस्येतिवारिऊं गमेतेहापालयकीअनेरवीजा पंचसालिनाअत्ततआखाअखंडितदाणाप्रतेलेइ  
 नेदेसुंआपसुइमकरीनेइमविचारेचिंतवीने तेषांचसांलिनाअत्ततआखादांणाप्रतं एकांतनेविषेपाडे नांखीदीयेनांखीदेइने

याविहोत्याः एवंरक्खियाविणवरं पंचसालिअक्खएणिण्हइ इमेयांरूवेअज्झत्थिए४ समुपज्जि  
 त्याएवंखलुमंताओइमस्स मित्तणाइचउण्हंसुण्हाराणं कुलघरवग्गसय पुरओसद्दावेइत्ता एवं  
 वयासीतुमंणंपुत्ताममहत्थाओ जावपडिणिउजाएज्जा मित्तिकइ, ममहत्थंसिपं चसालिअक्खए

पोतानाकम्मकार्यकांमकरवासंयुक्तयातीहइपोतानो कार्यकामकरिवाप्रवर्त्ततीहइ इणंप्रकारेवीजीभोगवतीने तेसालिनादाणाअ  
 पेतिमजलीये इहांविसेषच्छेतेभोगवतीतेसालिना दाणाच्छेलेक्खकसीरहितकरेकरीने पच्छेमुखमांहिवालीगिलेखाइ पच्छेपोतानाकम्म  
 कार्यकरिवासहितयातीहइतीहइ इणिंप्रकारे' लीजीरद्धितावहने' पांचसालिनादाणाअपेइहांएविसेषच्छे तेपांचसालिनाअच्छित  
 आखादांणांप्रतेग्रहेग्रहीलीयेलेइने जेतेरक्खियावज्जनेएहवोएतदरूपअत्मानेविषेरह्या जेभावते अध्यात्मकहीयेचिंतामचअणप्रार्थी  
 एहवोमनमांहिलोजेभावतेउपजे तेकेहवोभावऊपनोते कहेच्छेएवंइणेप्रकारे निश्चयसुभनेतातसुसरोजी आमिलज्जातिसगलानेअग  
 लिच्यारवज्जाने आगलिकुलघरपिताबुंघरवर्गकहतांतेमातापितातेने आगलिएतलेच्यारवहनामातापिताने आगलिसादकरेते

दलथद्रुतंभविव्यवमित्यकारणैणंत्तिकदृ, एवंसंप्रहेद्रुत्तातेपं चसालिअक्खएसुद्धेवत्येबंधद्रुत्तारयणक  
रंडियाएपक्खिवद्रुत्ताओसीसामूलेठावेद्रुत्तातिसंउभंपडिजागरमाणोऽविहरइतएणंसेधस्से सत्थ  
वाहितहेवमित्तजावउत्थंरोहिणियंसुगहंसद्वावेद्रुत्ताजावतंभवियव्वंएत्थकारणैणंत्तंसेयंखलुममएपं

डावेतेडावीने इमकहतोह्मओसुसरोजी माहराहायथकीपांचसालिनादांणा आयाछेतेहिजजिवारेऊं मांगुं तिवारितुम्हे हेपुली  
वऊतेहिजपाछाआपजे इमकहीनेमाहराहायनेविषे पांचसालिनाअत्ततआखादांणा दियातोहोइवुंथाइवुं इहांकांईएककारणैए  
तलेकांईएककारणछे इमकरीनेइमविचारेइमचितवेचितवीने तेपांचसालिनाअत्ततआखादांणाशुद्धचोखेवस्त्रेबंधिवांधीने रतनआ  
भरणनाकरंडीयामांहिम्रचेपेम्ह'केम्ह'कीने तेकरंडीओउसीसानेपासेथापेम्ह'केम्ह'कीने त्रिणसंध्यानेविषेजागतीछती विचरेछेरहेछे  
तिवारपच्छेतिधनोसार्थवाह तिमजमित्तज्ञातिच्यारवह्णनामातापिताने आगलिचउथीरोहिणीवह्णप्रते तेडावेतेडावीनेऽ तिमजपां  
चसालिनादांणा आपेतिमजमांगीलीयोतोहोइनुइहांकांईएककारणैसखिखुदीसेछेतेकारणथकीअथभलुंनिश्चयसुभनेएपांचसालिना

चसालिअक्खएसंरक्खमाणीए संगोवेमाणीएसंवड्डुमाणिएत्तिकड्डु, एवंसंपे हेइइत्त कुलघरपुरिसेस  
 हाविइइत्ताएवंवयासीतुब्भेणंदेवाणुप्पियाएएपंचसालिअक्खएणिएहेहगिखुहइइत्तापट्टमपाउसंसिसु  
 हाबुट्टिकायंसिणिवइयंसि खुड्डुगंकिवारं सुपरिकस्मियंकरेहइइत्ता इत्थेपंचसालिअक्खएवावेहरे  
 तादोच्चं पितच्चंपि उक्खयणिक्खएकरेहइइत्ता वाडिपरिक्खेवंकरेहइइत्ता संरक्खमाण्णासंगोवेमा

अक्खएथच्चतदाणाप्रते राखतीछतीगोपवतीछतीइमकरीने इमचिंतवेचींतवीने पितानाघरनापुरुष्ठांप्रते तेडावेतेडावीने तेषुष्ठांप्र  
 तेइमकहतीड्डु तुम्हे अहोदेवानुप्रियोअहोभाइओ एपांचसालिनाअच्चतआखादांणाकाणप्रते अहोत्योग्रहेग्रहीनेलेईने प्रथमपहि  
 लाकालनेविषे महाघणीवृष्टिवरसीरहेह्हेतेछते नान्होकेदारकारडो भलीपरिकमाईगाहीलणमालजेड्डु तेउपाडींनाखीतक  
 आणीएहवाकारडाप्रतेपेतेकरोकरीने पांचसालिनाअच्चतआखाकाणप्रते तुम्हे वावज्योवावीनेनीपजेतिमकरव्योपछेतेसालिनाखी  
 छितिहांथीउखेडीवीजीवारउखेडीलेईने निच्चतरूडाकारडामांहरोपव्यो इमतुम्हे करोकरीनेपछेतेकारानेचोउफेरवा

णा आणुपुव्वेणं संवड्डु ह तएणंतेकोडं विद्यारोहिणी एणयमड्डं पडिसुणेइत्ततेपं चसालिअक्खएगिणह  
 ईत्ता अणुपुव्वेणं संरक्खभाणासंगोवे माणाविहरइतएणंतेकोडुं विद्यापठमपाउसंसिमहावुड्ढिकायं  
 सिणिवइयंसिसमाणेसिखुड्डुआयंकेदारंसु परिकम्मियंकरितितेपं चसालिअक्खएववंतिरत्तादांअंप्रित

डिकरज्योवाडिकरीने तेसालिप्रतं राखतापुरुसा कारकरताच्छता भलीपरिगोपतावतनकरताच्छता इमआनुपपूर्वींअनुक्रमेवरसोत्र  
 रसिधारज्योएहवीसीखामणदीधीतिवारपच्छीतेकोटुं विकपुरुषकरसणीलोकरोहिणीवज्जनुएअर्थएहवुंवचनसांभलीअंगीकारकरे  
 करीने तेपांचसालिनाअच्चतआखादांयाप्रतंग्रहेग्रहीनेलेइने आनुपपूर्वींअनुक्रमेवरसातआवेच्छेनहींतिहांतांइ भलीपरिराखेअ  
 णखावायकी गोपवीढाकीराखे इमकरताच्छता तेविचरेच्छेप्रवत्तेच्छे तेकोटं विककरसणीलोक प्रथमपहिलुं वर्षाकालनेविषे षणीवृष्टिव  
 रसीषणोवरसीनिष्ठत्ये रहेज्जेत्तेत्ते द्दुद्रनान्होखालीयारूप एहवोवेदारक्यारछो तेप्रतेभलीकेलवीकमाइनी पजावीलणासालम्ब  
 लथीउखेडीनाखीवाप्रतंकरेकरी लेपांचसालिनाअच्चतआखादाणातिहांवावेवावीने जग्यापच्छीसोटाथयापच्छी वीजीवारतथातीजी



चंपि उक्त्वयणिक्वएकरिंतिवाडिप्रिक्खेवंकरेइत्ताअणुपुब्बेणंसंरक्खे माणा  
 संगोवेमाणसंवडुमाणाविहरंति तएणसेसालीअक्खए आणुपुब्बेणंसारक्खिज्जमाणा संगोविज्ज  
 माणासंवडुज्जमाणा सालीजायाकिण्हाकिण्हभासा जावणिकुरंबभूया पासादीयादरसरणिज्जा

वारतिहाथीम्लसहितसालिनांपांचरंखयोडडपाडीनिनिहतरोपवुंतप्रतें करेवीजाजुदाव्यारामध्ये रोपीकरीनेवाडिनाप्रक्षपप्रतंकरे  
 तेसालिनाक्षेवपूठिचोउफेरवाडिकाटानीकरेकरीने आनुपूब्बीइं अनुकमेराखतारखोपुकरताच्छता गोपवताच्छताटद्विपमाडतावधार  
 ताच्छता विचरेछेरहेछे तेसालिनाअक्षतअखंडितआखाछोडप्रतं अनुकमेराखताच्छती संगोपवतीच्छती इद्विपमाडतीच्छतीसालीथई  
 तेकेहवीथई कृष्णकालीथई कृष्णकालीअभाकांतिछेक्खविछे जेसालीनीतिहांजिहांनिकुरंबभूयथईकेमाहोमाहिमिलीनेनिकुरंबस  
 सुहरूपएकठीथइछे तेकारणथकीषणुंमनने प्रसन्नथाईजोवासरिखीएहवीसालिथई तिवारपच्छीतेसालिपच्चियापानडावंतथईवत्ति  
 कहतांसालिनापानछामांहिशलाकाशलाजंआनेवीटवेकरी नालरूपकोशारूपपणेकरी इत्तरूपवाटलाथईनेवाटलीरूपथावापणा

इत्येते देवदृश्यते तत्र च भक्षयतीत्यर्थः पत्तिवृत्तिसंजातपलाः पत्तिवृत्तिब्रीह्रीणां पत्राणां मध्यशलाकापरिवेष्टनेन नालरूपप्रतयावृत्तानि भवन्ति तद्वृत्ततया जातवृत्तत्वाद् वृत्तिताः शाखादीनां वासमतया वृत्तीभूताः संतोवृत्तिता अभिधीयन्ते पाठांतरेण तयावृत्तिसंजातत्वचा इत्यर्थः गर्भिताजातगर्भाः डोडकित इत्यर्थः प्रसूताः कण्ठिशानां पत्रगर्भभ्यो विनिर्गमात् आगतगंधोजातसुरभिगंधाः आयतगंधावा दूरवायिगंधा इत्यर्थः क्षीरकितः संजातक्षीरकाः बद्धफलाः क्षीरस्य फलतया बंधनात् जातफला इत्यर्थः पक्काः काठिन्यसुपगताः पद्वेगताः

तएणंते सालीपत्तियावृत्तिया गर्भिया प्रसूया आगतगंधा खीरा इयो बद्धफला पक्का परिथागया सल्लइ या प्रत्तइया हरिया फेरुं डाजाया विहोत्या तएणंते कोडुं विया सालीपत्तिया जावसल्लइया प्रत्तइया

यकी अथवावृत्तिता क्वहतां शाखाडालादिकानि जीवाटलाभूतयईच्छती तेवर्तिता कक्षीये गर्भिता उपनो गर्भडोडा वंतयईशा लिडोडि आवी प्रसूता कणसडानि जते डोडाथी निसरवाथी कणसडे यई आव्योच्छे उपनोक्के गंधसुरभिगंधदूरवेगलोगंधयई तेशालिनाडोडामां हिखी रदूध उपनोदूधे आवी बांधाणो फलदूधनो फलपण्णे वंधवाथकी उपनाफलदाणा एहवी सालियई पाकी कठिनपणा प्रते पास्थ्यादां णापयी

पर्यागतावासर्वनिष्यन्भतांगताइत्यर्थः सस्रइयत्तिसस्रकीवृक्षविशेषः तस्याइवपत्रिकाणि दलानिकुतोपि साधर्म्यात् जातानियेषा  
 तेतथेतिगमनिकेवेयं पाठांतरेणशल्यकिताः शुष्कपत्रतयासंजातशल्यकाः पत्रकिताःसंजातकुशिकाअल्पपत्राः हरियफेरंडत्तिहरिता  
 निहरितालवर्षानि नीलानिवा पर्वकांडादीनिनालानियेषांतेतथा जाताश्चायभवन् नवपञ्जाएहिंतिनवप्रत्यग्रं पायनं लोहकारेण  
 तापितःकुट्टितः तीक्ष्णधारीकृतः पुनस्तापितानांजलेनिच्छेलनंयेषां तानितथातैःअसिएहिंतिदालैः अखंडाणंतिसकलानांअस्रु

जाणिस्तातिक्खे हिंणवपज्जणेहिंअसियएहिंलुणंतिकरयलमलिएकरिंतिरसापुणंतितत्थणं चोक्खाणं

यपास्यासर्वथापरानीपनादाणा एहवीथईतथाशस्रकीवृक्षविशेष ते हनापानडासरखांयथांछे जेहसालिनाकणसडा तथाहरितहरि  
 आलवर्णनीलाफेण्डपर्वकांडादिनीलाथयांछेजेहना एहवीशालियातीऊई तिवारपच्छीते कोटं विककरसणीलोकते सालिपांनडावं  
 तथईआदिदेईजिहांतांई सूंआपानडायावापणेकरीसल्यसालथयोक्के पांनडाथोडाथयांछेखरीपडवाथकी एहवीथईजांणीजेकापवा  
 आयाआवीनेतीखोनवोततकालनुं पज्जणकहतांपाणुंपाणुं पाणुं केलोहांरेअगनितपावीकूटीतीखीधाराकी धावलीतपाविनेपाणीमां

टितानामसंजातराजीकानां छडछडइत्येवमनुकरणतः सूर्पादिनास्तु टास्तुटीक्षता शोधिताइत्यर्थः स्पृष्टावापाठांतरेण पूतावाये  
तेतथातेषां सागहएपत्यएत्ति दोअसईउपसईदोपसईउखेइयाहोइ चउसेईउउकुडओचउकुडओपत्यओनेउत्ति अनेनप्रसारेनमग  
धदेश्यवहृतः प्रस्थोसागधप्रस्थः उपलिंपंतिघटकमुखस्य तत्प्रिधानकस्यच गोलवादिनारंभंभंजंति लिंपंतिघटसुखंतत्स्यगनं चछग  
यादिना पुनर्भसृणीकुर्वंति लांछितंरेखादिनासुद्रितं मन्मयमुद्रादानेन तत्कुर्वंतिमुरजोमानविशेषः खलकंधान्यमलनस्थंडिले

सइयाणं अखंडाणं अप्फुडियाखंडुधुडुपूयाणं सालीणं सागहएपत्यएजाएतएणंतेकोडुं वियातेसा  
लीणपत्यएसुडएसुपक्खवंतिउपलिंपंतिखंडियसुहिएकरेईइत्ताकोडागारस्सएगदेसंसिठवेइ संरक्ख

हिवोलंबुंछे जेदांतरडानिएहवाषणुं तिखीधाराना असिएहिकहतांदातडातेणेकरी लुणेकापेकापीनेकरतलवेडु हाथमांहिकरलीपू  
लीकरेकरीनेहाथसंघाते मसलेमसलीने उपणेतिहांचोखानिर्मलादाणात्रीहीडांगरिकरे व्रीहिकपरिखासलाऊआटाले अखंडआ  
खासगलाराखे अप्फुटाफाटानथीतरडानथीछडडछडएहवेसब्बनेकरवाथकीसूपडादिकेआटकेआटकीकरीसोध्यातिसालीनोमगधदे

माणासंगोविभाषाणविहरंति तएणतेकोडुं विद्यादोच्चं पिवासारत्तंसि पढमपाउसंसिअहाबुट्टिकायं  
सिणिवद्रयंसि खुडुगंकेयारं सुपरिकम्मियंकरिंतिरत्ता तेसालीववंति दोच्चं पिउक्खयणिणहएजाव

सनाथवहारनोप्रस्थपाथोएकयथोते पांचसालिनादाणानोदेखोवलीएकपसलीवे पसलीएकसेईथाईच्याईए एककुंडोथाईच्यारे  
कुं डेएकपाथोजांणिवोद्वणे प्रमाणिमगधदेसनोपाथोभांनविषेकहीथे तिवारपच्छीतेकोटं विकतेकरसणीलोक तेसालिनोपाथडोन  
वाकोराघडांनविषे घालेवालीने उपलिपंतिकहतांघडानेसुखनेवलीतेघडाडुं अनेढांकणानेछांणगोचरादिके छिद्रभाजेलीपेपछेघडा  
डुं सुखअनेवलीघडाडुंकावुं छांणादिकेकारीवलीसुंहालाकारेकारीने पछेलांछितघडानेसुखजपरिलांछितरेखाली टेकरीसुद्रामा  
टीनीसुद्रादेवेकरी तेकरेकरीनिधाननाकोठारनाएकदेस एकपासानेविषेतेघडाप्रतेथापेसू'केसू'कीने रूडीपरिराखताछता भलीपरि  
गोपवताढांकताछता विचरेछेतिवारपच्छीतेकोटं विककारसणीलोक बीजीवर्षाकालनेविषेप्रथमपहिलावर्षाकालनेविषे मोटीघणीछि  
वरसातघणोवरसीरहेऊतेछते च्द्रनान्हेकेदारक्वारडोतेप्रते रूडीपरिंकमाईकेलवीसूल्' करीएहवाक्यारडाप्रते करेकरीनेतेसा

लुण्ति जावचलणतलमलिएकरिंतिरत्ता पुण्णतितत्थणंसालीणंबहवे कुं डएजाए जावएगदेसंसिठ  
वे'तिसंरक्खमाणा संगोवेसाणाजावविहरंति तएणंतेकोडु'विययुरिसा तच्चंपिवासारत्तं'सिमहा  
बुद्धिकायंसिणिवइयंसि बहवेकेदारैसुपरिवावेज्जा जावलुण्णंतिरत्ता संवहंतिखलयं करिंतिरत्ताम

लिसगलीवाविएकवार वीजीवारतिहायकीमूलसहितउपाडीनेरोपेतिहां पानडेथईदूधथईकणसडेथइ पाकीसूकीपछेतीखेदातरइ  
करीलुण्णेकापेतिहांजिहांचरणतलमलितपगनेतलेकरी मसलीचोलीदाणाकरेकरीने जपणेतिहासालिनाघणा कुंडकययातिहांजि  
हांधाननाकोठारनाएकेस एकपासानेविषेयापेसू'केसू'कीने भलीपरिराखताछताअणखावाथकी रूडीपरिगोपवताछताढांकता  
छतातांजाविचरेछे तिवारपछीतेकोटुं'विकपुण्णकणवी करसणीलोकवीजीवर्षाकालनेविषे प्रथमपहिलावर्षाकालनासमयनेविषेसो  
टीघणीएट्ठिथईवरसातवरसीने निवर्त्तेरहेछतेघणाकेदारक्यारडा तेकेलवीकमाईतिहांवाविनीपनीसालि तांजालूण्णेकापेकापीनेभा  
रावांधीवहेवहीनेखलाकरेखलांप्रतेकरीने मसलेसमलीकरीनेजखाणीचोखो निर्मलासलाजआरहितकरे' पछेघणाकुं भघड़ायया

चतुःप्रस्थश्चाढकः चाढकानां चषष्ट्याजघन्यः कुंभः अशीत्यामध्यमः शतेनउत्कष्टइति चारोज्जिकां भस्मपरिष्ठापिकां कचवरोज्जिकां

लंतिजाववहवेकुंभेजाया तएणंतेकोडुं बिया सालीकोद्गारंसिप्रक्खवंति जावविहरंति चउत्थे  
 वासारत्ते वहवेकुंभसयाजाया तएणंतस्वधणस्स पंचमयंसि संवच्छरंसिप्ररिणममाणंसिपुव्वरत्तावर  
 त्तकालेइमेयाखूवे अज्जत्थिए जावससुप्पज्जित्था एवंखलुमएइओ अतीतेपंचमेसंबच्छरे चउत्तहं

तिवारपक्खीतेकोटुं विककारसणीलोक तेसालिधाननाकोठारनाघरनेविषे प्रक्षेपेस्संकेस्संकीनेपालाभरेभरीने तांजांविचरेक्खेतिवारप  
 क्खीतेकरसणीलोकचउथा वर्षाकालनेविषेघणीवृष्टियईरहेक्खते घणाक्यारडामांह्वावितंजांकुं भघडानासईकडातिवारपक्खीतेघन्ना  
 सार्थवाहने पांचमावरसनेविषे परिणममानजातेक्खते मध्याङ्गरातिनासमयकालनेविषे एहवुं आत्मानेविषे अधिष्ठोरह्योअध्यवसाय  
 मनसांहिलोसननोभावजपजेते केहवोभावजपनोतेकहेक्खे एवंइमखलुनिश्चयमे आवरसयकीपांचमोवरसअतीतगयेक्खते व्यतिक्रमे  
 क्खतेच्यारवड्ढांनी परिख्याकरवानेअर्थे तेपांचसालिनाअक्षतआखादांणा हायनेविषेदीघाआयाहता तेकारणयकीअेयभलुंखलुं

सुगृहाणं परिकल्पणद्वया एतेपंचसालिञ्जकवृहत्थेदिद्या तंसेयंखलुअमकह्लंजावजलंते पंचसालिञ्ज  
 कवृण्जाइत्तएवंजाणमि तावकाएकिहंसारक्खियावासंवड्डियावाजावतिकइ, एवंसं  
 पेहेइत्ताकह्लंजावजलंते विपुलं असणं पाणंखाइमंसाइमंसित्तणाइ चउएहयसुगृहाणं कुलधरजावस  
 म्माणित्तातस्सेवमित्तणाइ चउएहयसुगृहाणं पुरञ्चो जेइंउज्झियंसद्दावेइत्ताएवंवयासीएवंखलुञ्जहं

निश्चयमसुभनेकालिप्रभातितेजप्रकासवंत सूरिजथयापच्छी तेपांचसालिनाञ्चाखादांशायाचिवामांगवामणीजुगतोइयेप्रकारेइंति  
 हांजिहांतांईइजाणु तावप्रथमपहिलीकाएकेणीइं किमतेसालिनापांचकरणराख्याअणखावाथकीगोपवीढांकीराख्या वधास्याव  
 थाकरवाथकी तिहांजिहातांईइमकरीने इमचिंतवेचिंतवीने कालिसूरिजजग्यापच्छीतिहां जिहांतेजवंतप्रकासवंतथयापच्छेविपुल  
 धणुअन्नादिच्यारआहाररंधावेनीपजावे नीपजावीने मित्तञ्चातिप्रसुखसगलापोताना पोतानापारिवारनेंच्यारिवज्जञ्चाने कुलधरपि  
 तानुधरवर्गकंतेमाता पितासगलापीहरनालोकने तेडीनेजीमाडीनेपच्छेसत्कारकरीने सन्मानीनेतेहिजमित्तञ्चातिने आगलितथा



पुत्ताइओ अतीतेपं चमेसंवच्छरे इभस्वमित्तचउग्रहयसुग्रहाणं कुलघरस्वपुरओ तवहृत्यंसिपं चसा  
 सिअक्वएदलयामि जयाणंअहंपुत्ताएएपं चसालिअक्वएजाइज्जातयाणं तुमंममइमे पुत्तासालिअ  
 क्वएपडिणिज्जाएसित्तिकइ, सेणुणंपुत्ताअइसमइहंताअत्थितणं तुमंपुत्ता ममतेसालिअक्वएपडि

चारवहुअंनेआगलितथाचारवहुना मातापितापीहरीयाने आगलिदेखताज्ये षवडीज्जितवहुप्रते तेडावेतेडावीनेसादकरीने  
 इमकहतोहुओइमनिअय ऊं हेपुलि हेवहुइतः आवत्तमानवरसथकीअतीते अतिक्रमीइगयेपाच्छिलांपांचवरसनेविषे आसगलामि  
 लज्ञातिने आगलिदेखतांच्यारवहुअंने आगलिदेखतां च्यारवहुअंनानामातापिता प्रमुखसगलापीहरीअंने देखतांथांहराहायने  
 विषेपांचसालिनाअक्षतआखाकणप्रते ऊं देजं ऊंआपुहुंइमकहीने जेजिवारेऊं पुती हेवहु एतेपांचसालिनाअक्षतआखादांणाप्रते  
 याचोपाळामांगो तिवारितुं सुभनें एपांचसालिनाअक्षतआखादांणाप्रते पाळाआपजे देजेइमकहीने तेनूनंनिअयसहितपुलीवहुए  
 अर्थसमर्थसाचो वहुक हेहंताहांसहीआप्याच्छेहाजीसाचुंतोतुं हे वरहेपुली सुभनेसालिनाआखाअखंडितपाळाआपि तिवारपकी

णिज्जाएसि तएणंसाउज्झिमाया एयमइं धखस्सपडिसुणेइ जेणेवकोट्टागारे तेणेवउवागच्छइइत्ताप  
 ल्हाओपं चसालिअक्खएणिणहइत्ता जेणेवधस्से सत्यवाहे तेणेवउवागच्छइइत्ता धस्सं सत्यवाहंएवं  
 वयासीएणंताओ तेपं चसालि अक्खएत्तिकट्टु, धस्ससहत्थंसि तेपं चसालिअक्खएदलयइ तएणं ध  
 से सत्यवाहे उज्झिकयंसवहसाविद्यंकरेइ एवंकिणं पुत्ता तं चेवपं चसालिअक्खए उदाहुअस्से तएणं

तेउज्झिक्कतावडीवह्णअर्थप्रते धन्नासार्थवाहनोक्कह्यो संभलेअंगीकारकरे अंगीकारकरीनिजिहाधाननाकोठारनो वरच्छेतिहांआवे  
 तिहांआवीने पालामहिथकीपांचसालिनाअच्चत अखंडितआखाप्रतेग्रहेलीयेलेईने जिहांधन्नोसार्थवाहके तिहांआवेतिहाआवीने  
 धन्नासार्थवाहप्रते इमकहतीहुइएतातजीउसराजी तेपाचसालिनाअखंडितदांणाके इमकहतीनेधन्नासार्थवाहनाहायनेविषतेपांच  
 सालिनाअच्चतअखंडितदांणाप्रते आपेतिवारेधन्नोसार्थवाहसुसरोउज्झिक्कतावहुप्रते समसमसगलानादेवरविंसंभलिवाप्रतेकरेधणा  
 समदेरावे इमइणेकारेसुं हेपुत्तीहेवहुतेहिजनिययसहित पांचसालिनाअच्चतआखादाणाहुइ अथवाअनेरावीजाके एहवुं पध्दं

उज्जिकायाधणं सत्यवाहं एवंवयासौ एवंखलुतुभेताओ इओअतौतेपंचमेसंदच्छरे इरुस्वमित्तणाइ  
 चउएहयकुलजावविहराज तएणं अहंहुभं एयमइंपडिडुणेमि तेपंचसालिइक्खएंगरहामिएणं  
 तमवक्कमाभि तएणं मसइभेयाखुवे अउकत्थिएजावससुप्पज्जित्था एवंखलुताओएणं कोट्टागारंसिसं

तिवारपच्छी उज्जिकाधन्नासार्थवाहप्रते इमक्कहतीउईइएप्रकारे निच्चयतुम्हे तातजीसुसराजी आवर्त्तमानवरसयकी गयेव्यतिक्रमे  
 छतेपांचमावरसनेविषे आसउमित्तज्ञातिनीसाखिइं च्यारवड्डनामातापितानीसाखि पांचशालिनाकणआखातूं रुड्डीपरिरा  
 खतीगोपवतीडडिकरतीछतीविचरजे तिवारिउं तुम्हाराएअर्थप्रतेएवचअंगीकारवारं अंगीकारकरी पच्छेतेपांचसालिनाआखाप्रते  
 उं ग्रहंलेउंपच्छे एकांतथानकप्रतेएकांतप्रतेजाउं आवूंउं तिवारेसुभनेएए आत्मानेविषेएच्छोअध्ववसायमनमांहरह्यो मनोगत  
 भावउपजेतेकेहवोभावउपनोतिकोभावकहेछे इएप्रकारेखलुनिच्चयतातपितासुसरानाघानताकोठारनाघरनेविषेघणीयाखिछेतिहां  
 थीलेइआपसुं जिवारिसुसरोजीमांगस्येतिवारिं इसचिंतवीनेमेतेपांचसालिनादाणानाखीदीघा पच्छेपोतानाकामकाजकरवाप्रवती

अवकरशोधिकासमुच्चिकां प्रातर्गृहंगणेलच्छटकदायिकां पाठांतरेणसंपुच्छियत्ति ततसंप्रोच्छिकांपादादिलूषिकां संमार्जिकां

कम्मसं० तस्सोखलुताणं तेचेवपंचसालिअक्खए एएणंअस्से तएणंसेधस्सेसत्थवाहेउज्झिकयाएअंतिए  
एयमडुं सोच्चाणिसम्म आसुरत्तेजावमिसिसेमाणे उज्झिकयंतस्समित्तणाइ चउएहंसुरह्हाणं कुल  
घरपुरओ तस्सकुलवरस्सच्छारुज्झिकयंच च्छाणुज्झिकयंच कयवरओज्झिकयंच संपुच्छियंच संमज्जि

तेकारणथकीजुद्धवे खलुनिश्चयहेतातजीसुसराजीतेहिज पांचसालिनाअच्चतअखंडितएतलेसर्वथातेनजुद्धे एपांचवीजादाणाच्छेति  
वारे'तेधन्वोसार्थवाहउच्चिकतावज्जनासमीपनेविषेएथएवचनप्रतेसांभलीने हियामांहिअवधारीनेधणुं क्रोधवंतथयोच्छेतोतिहांजिहां  
क्रोधिकरीधमधमायधिगिगयमांनथयोच्छेतो उच्चिकतावडीवज्जप्रते तेहिजमित्तज्ञातिसगलापरिवारनेआगलिदेखताच्चारवज्जआना  
मातापिताप्रमुखसगलापीहरीयाने आगलितेज्जज्झितानामातापिता आगलिच्छारराखनेउज्झिकयानांखिवा परिठवाप्रते थापेच्छां  
णानेगोवरनेजसारीनेनांखिवाप्रतेथापे कचवरसगलाकचरापूंजीनेवाहिरनाखवाप्रतेथापेपगदिकलुहेपूंछेआटकेअथवाप्रभातका

गृहस्थांतर्बहिश्च ब्रह्मकारिकावाहिकां पादोदकदायिकां पादशौचदायिकां स्नानोदकदायिकां प्रतीतावाद्यानिप्रेषणात्मिकाणि

यंचपाञ्चोवदांद्रयंचगृहाणोवदांद्रयंचबाहिरपेसणकरियंचठावेद्रएवामेवसमणालसोजोअरुहंणिग्गं  
थोवाणिग्गंथीवापव्वद्रएपंचयसेमहव्वयाद्रं उज्झियाद्रं भवंतिसिणंद्रहभवेचेवब्रह्मणंसमणाणं ब्रह्मणं  
समणीणंब्रह्मणंसावगाणं ब्रह्मणंसावियाणंहीलणिज्जे जावपरियट्टियस्सद्र जहाउज्झियाएएवंभोग

लनेविषे धरनाञ्चांगणनेविषे पांणीनाच्छटकाच्छटोरादीये तेप्रतेथापे समर्जकाकहतांधरनेमांहि अनेवाहिरञ्चांगणेसारणीवाहिवा  
प्रतेथापेएतलेपोतेकाजोकाढो पादसौचपगधोवापाणीनेदीये तेप्रतेथापेदीयेअनअंधोलस्नानकरवापाणी दीयेतेप्रतेथापेकरेवाहि  
रधरवाहिरलापेसणकहता कामकाजसगलाकरेच्छेजेते उज्झितापांचसालिनाकणनांखीदेवाथकी सगलानांखीदेवा कामकरवा  
थापीवाहिरलो अधिकारथापे सुधर्मकहेद्रमएणंणंठणंतेकरी अहोअमणोअ उखवंतोहेजंवूप्रसुख जेअन्हारानिग्रयसाधुनिग्रंथीसा  
धवीमाथोसुंढीलोचकरीने दिव्वालीयेगुरुपासे पच्छेपांचतेमहाव्रतप्रते प्रमादेकरीनांलेच्छे तेसाधुसाधवीअविद्यमान भवनेविषेनि

करोतियासा बाहिरपेसणगरियत्तिभणिया कंडयंतिकासिअनुकंपिता कंडयतींतडुबान् उट्टूखलादौचोदयंति कंडयंतिकातां एवंकुट्टयंतिकांतिलादीनां च्चुसुनकारिकां पेसयंतिकांगोषमादीनांघरट्टादिनापेसणकारिकाबंधंतिकां यंतकेब्रीहिकोट्टवादीनांनिस्तु षत्वकारिकारंधयंतिकां ओदनस्यपाचिकां परिवेषयंतिकांभोजनपरिवेषणकारिकां परिभाजयंतिकांपर्ब्बदिनेखजनगट्टहेसु खंडखा

वत्तियाविणवरंतस्सकुलघरस्स कंडयतियंचकुट्टितियंच पीसणियंचएवंरुधतियंचबंधंतियंचपरिवेस

अयसहितघणासाधुसाधवी आवकआविकानेहीलनीयड्डवेतिहांजिहां परभवनेविषेअनतासंसारसांहि पयंटनपरिअमणकरस्येजि मतेउज्जितावडीवड्डअपमांनीदासी पणुंपांसीतिमतेसाधुसाधवीथाइ इमवीजीभोगवतीवड्डतेडीवीजा सालिनादाणाआणीआपे इहांएतलोविसेषक्खेते सुलगासालिनादाणाखाधाजांणीने तेभोगवतीनामातापितानीसाखि दयावतीक्खतीतंडुलादिकणप्रतंजखला दिकनेविषेनाखतीक्खे तेप्रतेकरेएतलेचोखाधाननीखांडणहारीप्रतेकरेकुच्च्यतिकातिलादिकने कूटीचरणनीकरणहारीतेप्रतेकरीआपे गोज्जंआदिकनेघरटीआदिकेकरीदलसहारीपीसणहारीयापे इमबंधंतिकाक०उखलामांहिघालीसालिकोट्टवादिकनातुसऊपरला

द्यादिः परिभाजनकारिकां महानसेनियुक्तामहानसिकीतांस्थापयति सगडीसागडंतिशक्यश्चगंतः शकटानां समूहः शकटं च या

तियंचपरिभायतियंच अभिमतरियंचपेसणकारिं महाणसिण्ठावेद्र एवासेवसमणाउसोजोअ  
 म्हंससणोवासमणीवा पंचयसेमहब्बथाइं पाडियाइभवतिसेणं इहभवेचेव बहणंसमणाणंवड्डणं

फोतरापराकरे चावलादिकनेराधिसहनेअन्नादिकजीमणपरिसेतेप्रतेथापे दीवालीहोलीप्रमुखपर्वनेदिवसेखजनकुटंवीनाधरनेविपे  
 दहीथराखांडराखाजातेणेकरी विहचीभागकरीलाहेतेकामकरवाप्रतेथापे घरमांहिलाकामकाजकरे भाजनचोखांरुडामांजीधोई  
 राखेमहानसक०रांधवानाथानकनेविषे रांधणथापीएहवीरांधणकरीथापे इमभोगवतिनीपरिंसुधर्माकहे अहोअमणोआउखावंतो  
 हेजंबप्रमुखसाधो जेअन्हारासाधुसाधवीसुं डथइ लोचकरीदिचालेइने पांचतेमहाव्रतांप्रतेप्रमादेकरी नांखेछेपाडेछेखाइछेतेसाधु  
 साधवीइहलोकआभवनेविषे चैनिस्यघणासाधुसाध्वीआविकआविकामांहे जिहांतिहांहीलनीयच्छेपरलोकनेविषेअनंतासंसार  
 भमस्येजिमतेभोगवतीहीलणापांमीसंधनकरीथापीनीचकामकरवाथापीतेपांचसालिना दाणनेखावाथक्रीएणेप्रकारेनीजीरच्छिताप

समशीलं बहुशावगाणं बहुषांसावियाणं जावहीलणिल्लं जहावसाभोगवत्तिया एवंरक्खिया  
 विणवरं जेणेववासवरतेणेवउवागच्छइत्ताभंजूसंवि डिइत्तारयणकरंडगाओतिपंचसालिअकख  
 एगिइइत्ता जेणेवधखेसथवाहेतेणेवउवागच्छइत्तापंचसालिअकखएधणसहत्थेदलयइत्तातर  
 खंसेधखेसथवाहे रक्खियंसुरहएवंवयासी किंसं पुत्तातिचेवएपंचसालिअकखए उदाऊअखेतरणं

चित्तोत्थितावीचितीमांश्यादाणाइहांपतलोविषेधे तेरचित्ताजिहंवासवानोषरच्छेतिहंआवेआवीनेसंजूसपेटीप्रतेजघाडेउघाडीनिरत  
 वनाआभरणनाकरंडीआमांहियकी तेधन्नासार्थवाहनाआप्याते पांचसालिनाआखादाणाप्रतेग्रहेलीयेलेइनेजिहंयन्नीसार्थमाहए  
 तिहंआवेआवीने पंचसालिनाअक्षतआखादाणा धन्नासार्थवाहनाहाथनेविषेदीयेआपेदेइनेआपीने तिवारिल्लेवन्नीराथवाहरसि  
 तावउप्रतेइसपूछतोहओस्युंहेपुतीतेहिजनिअयनिद्धीरएतेपांचसालिनाआखाने आप्याऊंतातेऊइअथवाअनेरावीजाऊइतिवारप  
 कीतेरचित्तावउधन्नासार्थवाहप्रतेइसकहीऊई तेहिजनिअवहेतातसुसराजीतिपांचसालिनाअक्षतआखाकणऊइनेहीअनेरावीजा



रक्त्वया धरुं सत्यवाहं वयासी ते च वताया एपंचसालिअक्वयाणोअखे कहरुं पुत्ताएवंखणु  
 ताओतुभेइओ पंचमंसिसं वच्छरेजावभवियवं एत्यकारणेणंत्तिकट्टु, तेषंचसालिअक्वएसुइवत्येजा  
 वतिसंजंभण्डिजागरमाणि याविविहरामि तंएणंकारणेणंताओतिचेवतेपं चतायाणेअखे तंएणं  
 सेधखे सत्यवाहे रक्त्वयाएसुखहाए अंतिएयमडंसोच्चाहइतुडे तस्रकुलधरस्यथ हिरणुस्यकंसडू

ससरोपछोहेवहूंतकिणतररेराख्यावलतुं रक्षितावहूकहेइमइणेप्रकारेनिश्चयहेतातहेसुसराजी तुहेइओआवर्त्तमानवरसथकीगये  
 पांचमावरसनेविषे सगलानीसाखिपांचसालिनाआखा आयातिवारिसेविचारुं, सुसरोजीसगलानीसाखिआपेछेनोइहं कांइएक  
 कारणछेतेपांचसालिनाअक्षत आखाशुद्धचोखेवस्त्रे बांध्याआभरणनाकरंडीयामथ्ये वालीअसीद्यानिपासेख् कीतांजांलियासंध्याप्र  
 ते प्रतीजागतीसाचवतीछती दिनप्रतें जोतीछती विचरुं छूरहुंछुंतेभणी इणिकारणेहेतातजी तेनिश्चयतेहिजतेपांचसालिनाआ  
 खाहुइहेतातजीअनेरात्रीजानहुइ तिवारपछीतेधन्वोसार्थवाहरक्षितानामावहूनासमीपनेविषेएहवावचनप्रतंसांभलीनेहर्षसंतोषपा

सविपुलघणकणगजावसावतेयस्वभांडा गारिणीं द्विविद्रएवामेवसमणाउसो जावपं चयसेमहव्वयाद्रं र  
 क्वियाद्रं भवंतिसेणंद्रहभवेचेवबहुणंसमणाणंबहुणंसावगाणंबहुणंसावियाणंअच्चणि  
 ल्लेजहाजावसा रक्खियारोहिणीयाविएवंचेवणत्रं तुभेताओममसुवहुं संगडीसागडंदलाहजाणंअ

स्योचतो तेरच्चितानामातापितानेदेखता तेहनीसाखिद्रं रूपानीभंडारणिप्रतंथापे कंसाकूटिदेवदुव्यहीरनावस्त्र विपुलविसीर्णव  
 णोधान्यकनकसुवर्णंतांजां स्वापतेयउत्तमद्रव्यमणिमाणिक्यमोती अलंकारआभरणप्रसुखनी भंडारिणिप्रतेकरीनेथापीनेओसुधमा  
 स्वामिकहे इमरच्चितानीपरिअहोअमणो अहोआउखावंतोसाधोजेअन्हारासाधुसाधवीसुं डयद्रलोचकरीदिद्वालेईपांचमहाव्रतां  
 प्रतेंराखेकेपालेकेतेसाधुसाधवीआ विद्यमानआभवनेविषेचेवनिच्चय घणासाधुसाधवीआविकआविकाने अर्चनीकपजनीकहूवैजहा  
 जिमतेरच्चितावीजीवहूभंडारणिहूईअधिकारणिथापीतिवारपच्छीरोहिणीपासंघिणइमजसालिनादाणाप्रतेंमांगीयाधनेसार्थवाहेइ  
 णेप्रकारेनिच्चयसहितएतलोविसेषच्छेरोहिणीकहेहेतातजीअतिघणासुभने गाडलीगाडलानासम्बहप्रते दलाहदिवरावो जेणेकारणे

कटकंगडडीभोगडडयायत्ति लक्तं भवतिदलाहत्तिदत्तप्रयच्छतेत्यर्थः जाणंतिथेनणमित्यलंकारे प्रतिनिर्यातयामिसमर्प्ययामीति अस्य

हंतुभभेतेपंचसालिअक्खएपडिणिज्जाएमि तएणंसेधखे सत्थवाहरेोहिणिसुणहाएएवंवयासीकहणं तुमं  
पुत्तातेपंचसालिअक्खएसगडसागडेणिज्जामिस्ससि तएणंसारोहिणीधखं सत्थवाहंएवंवयासीएवंखल  
ताओइओतुभभेपंचमेसंवच्छरेईमस्समित्तजाववहवेकुं भसयाजायातेणेवकमेणएवंखलुताओतुभभेएवंसा

हंतुत्तुहनेतेपंचसालिनाअत्ततआखादाणाप्रतेसमपुं पाछाआपुहे सुसराजीइमवहुइंकच्छोतिवारितेधन्नोसार्थवाहरोहिणीवहूप्रतेइ  
मकहतीह्ओक्किमतुं हेपुत्तीतेपांचसालिनाअत्ततआखाकणप्रतेसकटगाडागाडलीनासम्बहप्रतेभरीनेआपिसिदेइसइमसुसरेकह्युंति  
वारपच्छीतेरोहिणीवहूधन्नासार्थवाहप्रते इमकहतीहुइउहूइणेप्रकारेखलुनिश्चयहेतातजीआविद्यमानआवरसथकीगयापाच्छिलापांच  
मावरसनेविषेपुह्णे आप्रत्यत्तमित्तप्रमुखसगलानीसाखिपांचसालिनाअत्ततदीधाहुता तेमाहरापीहरनाकरसणीलोकप्रतेआपीनेव  
रसोवरसतेहिजववराव्यामेवधास्याच्छेते भणीषणाघडानासईकडाथयानेते णेअनुकमेकेडाकेडिइं इमनिश्चयहेताततुह्णेपांचसालिना

लि अक्व ए स ग ड सा ग डे णं शि ज्जा ए भि त ए णं से ध र्मे स त्थ वा हे रो हि णी या ए सु ब ऊ थं स ग डौ सा ग डं द ला इ त ए णं  
 सा रो हि णी सु ब ऊ स ग डौ सा ग डं ग हा य जे णे व स ए कु ल ध र ते णे व उ वा ग च्छ इ र ता को ट्ठा गा र वि हा डे इ र ता  
 प ल्ले उ भिं इ र ता स ग डौ सा ग डं भ रे इ र ता रा य गि हं ण य रं म उ भं म व भ्जे णं जे णे व स ए गि हे जे णे व ध र्मे स त्थ वा हे  
 ते णे व उ वा ग च्छ इ र ता त ए णं रा य गि हे ण य रे सिं धा ड ग जा व व ऊ ज णो अ ण म र्खं ए व मा इ क्व इ र ध र्मे णं दे वा णु

आखाच्याकते इणंप्रकारिंसाबिनाआखाप्रतेअतिषणागाडलागाडीनासम्बूहप्रतेभरीनेहुंआपुं देजं इमबहूनेकच्छुंतिवारपच्छीध  
 न्नोसार्थवाहरोहिणीने अतिषणागाडलीगाडानेसम्बूहप्रतेआपेतिवारपच्छीते रोहिणीअतिषणागाडलातेप्रतेलेईने जिहापो  
 तानामातापितानोघरके एतलेपोतानापीहरीयाकृतिहांआवेतिहांआवीनेकोठारनोघरजघाडे उघाडीने मालाकोठीनासुखनावीड  
 नाप्रते उघाडेउघाडीने गाडीगाडाप्रतेभरेभरीने राजगृहनगरमांदिथईने जिहांपोतानुघरकेजिहांधन्नोसार्थवाहके तिहाआवेति  
 हांआवीनेतिवारिपच्छीराजगृहनगरनेविषे त्रिखूणामार्गत्रिवटाचोवटाचामोटा राजमार्गतिहांनेविषेठाभिर एकठामिलीथोक

प्रिया धर्म सत्यहाहे जस्सणरोहिणीया सुरहापंचसालि अक्वएसगडिसागडेणंणिज्जाएइतएणं  
 सेधणे सत्यवाहितेपंचसालिअक्वएसगडिसागडेणं णिज्जाएइपसेइहइतुइजावपडिच्छइतस्सेविमिसणा  
 इचउणहय सुरहाणंकुलघरस्स पुरओरोहिणीयं सुरहंतस्सकुलघरस्स बडुसुकज्जे सुयजावरहस्सेसु  
 यआपुच्छेणिज्जं जाववट्टावियं तंपमाणभूयंठविइ एवासेवसमणाउसो जावपंचमहव्वयाइ संवडु

डावइयइ घणालोकचन्योन्यामाहोमाहिं इमकहेइमप्ररूपेइमपन्नवेधन्यर अहोदेवानुप्रियो अहोस्वजन्नोधन्नोसार्थवाह जेहनेरोहि  
 णीवहुक्केते धन्य पांचसालिनाआखाआथाहूता अतिघणागाडीगडलाभय्यालेइजावेक्केते प्रते देखेदेखीनेहर्षसंतोषपाम्योच्छतोष  
 न्नोसार्थवाहलीयेलेइने तेहिजमित्तज्ञातिसगलाने आगिलेदेखताथाचारबडु आनामातापिताप्रमुखसंगलापीहरी आनिआग  
 लिदेखताचारबडुआमाहिरोहिणी बडुप्रते तेहनाकुलमाहिघणा कार्यकामनेविषे गुह्यरहस्यएकांतनेविषे पुच्छिवायोग्यऊइताजा  
 एसगलीवातनी वडुनीकरणहारीऊई तेकारणयकी एवऊप्रमाणभूतसगला कुटंबमांहिमुख्य प्रतेथापेइमरोहिणीवडुनीपरिअहो

चज्ञानस्यैवं विशेषणोपनयनं निगदंति यथा जहसेहीतहगुरुणो जहनाइजणोतहासमणसंधो जहवड्ढओतहभव्वा जहसालिक्कणातह

याइं भवंति सेणंइहहअवेचेववड्ढणंसमणणं वड्ढणंसमीरणं वड्ढणंसावगाणं वड्ढणंसावियाणं जाववो  
इवइस्यइजहेवसारोहिणीयाएवंखलुजं वूसमणं भगवयामहावीरेणं जावसंपत्तेणंसत्तमस्सणायज्ज  
यणस्सअयमइपस्सत्तेत्तिवेस्सि जहसेहीतहगुरुणो जहणाइ जणोतहासमणसंधो जहवड्ढयातहभ

अमणोआउखावंतो जेअण्हारासाधुसाधवीभुंडयइ दित्तालेइपाचमहाव्रतां प्रतेतपसंयमक्रियाअनुष्ठानसज्जायआदिदेइ धर्मध्याने  
करीजीवनीजयणाइं करी वधाख्याछे तेसाधुसाध्वीआभवनेविषे चेंवनिचयवणा साधुसाधवीआवकआविकाने पूजनीकड्ढे परम  
वनेविषेसंसारसूक्कीने सोल्लजास्ये जिमतेरोहिणीवहसगला मांहेसुख्यथईमानपामी तिमतेसाधुसाधवी पूजापामेइणेप्रकारेखलु  
निचयहेजंवू अमणतपस्वीइं भगवंतसंपूर्णज्ञानवंते श्रीमहावीरदेवेसातमाज्ञातानामाअध्यननोएअर्थसुक्कनेकह्यो जेहवंअर्थमेभगवं  
तनासुखयीसांभल्योळं तो तेहवोजअर्थकड्ढं कड्ढं कुं तुक्कआगलइहांदृष्टांतमेलवानीगाथाकहेके इहांजिमसेटिसुसरोपरिख्यानुकरण

वयाद् । जहसा उज्जियनामां उज्जियसालीजहत्थमभिहाणापिसणगरित्ते णंअसंखदुक्खक्खणीजाया २ तहभव्वीजोकोईसंघसमक्खं गुरुवदिताद् । पडिवज्जियंसमुक्कद् भह्वयाद् महामोहो ३ सोद्दहचेवभवमी जणेणधिकारभायणं होई परलोएउदुहहत्तोयाणाजो

वाजहसालिकणातहवयाद् । जहसा उज्जियणामा उज्जिय सालीजहत्थमभिहाणापिसणकारित्तेणं असंखदुक्खक्खणीजाया २ तहभव्वीजोकोईसंघसमक्खं गुरुवदिताद् । पडिवज्जियंसमुक्कद् महव्वया

हारतिमगुरुसाधुसिध्यनी परिख्यानोकरणहार जिमन्यातिप्रमुखसगलोलोक एकठामिल्या तिमअमणसंघजाणिवो तिमवह्णएतले वड्ढनीजाद्देगे जिमपांचसालिनाकणतिमतिहां पाचमहाव्रतजांणिया १ जथाजिमते उज्जितानामाथद्दे तेकिमउज्जितानांल्या सालिनाकणतेकारणथकी यथार्थउज्जितानामथाप्यो वडीवड्ढनो तेउज्जितावड्ढ णंणापूजानीनांखणहारीकीधी तेछांणपू जने नाखणपणेकरी असंख्यातादुःखनीखाणीथद्दे तेउज्जिता २ तिमउज्जितानीपरिभव्य जीवउत्तमजीव जेकोद्देएकसंघसमक्खसंघनी साखेगुरुद्दं विषेखेकरी दीधामहाव्रततेव्रतपडीवज्जिनेअंगीकारकरीनेसमुक्कद्दनांखेक्केपरिहरिमहाव्रताप्रते मोटाघणाओहअज्जा

शीसुसंचरइ४ उक्तं चधम्माउभट्टं दृत्तंइहेवधम्मोदृत्तंजहवासाभोगवती जहत्थनामोवभुत्तसात्तिकणापेसणविसेसकारित्तणेणपत्तादुहं  
चेवधूतहजोमहब्बयाइं उवभुंजइजीवियत्तिपालितोआहाराइसुसत्तोचत्तोसिवसाहणिच्छाएईसोएत्थजहत्थाएपावइआहारमाइलिंगि

इं महाभोहाइ सोइहचेवभवंभी जणाणधिकारभायणंहोइ परलोएइहहत्तो णाणजोणीसुसंच  
रइ४जहवासाभोगवई जहत्तणामोथ भुत्तसात्तिकणापे सणविसेसकारित्तणेणपत्तादुहंचेवधूतहजो

ननावसथकीइजेमहाव्रतनेनाखिच्छे तेआहजवत्तमानभवनेविषेचेवनिच्चय जणाणजनमनुष्यमांहि धिकारधिगरधिकारएहवातननो  
भाजनठामऊइ एतलेसहृतेहनेभ् डोकहेअनेपरलोकपरभव आभवयक्कीवीजाभवनेविषे तुपुन,वलीदुखार्त्तं दुखेपीदोछतोनानाप्रका  
रषणाप्रकारनीयोनिनेविषे संचरेजाइनरकतिरयंचादिकयोनिनेविषेजपजे४ यथाजिमजेणेकारखेतेभोगवतीयथार्थनामऊइभुक्खा  
धायालिनापांचकणदाणातेकारणनामभोगवतीथायो तेभोगवतीपिणखांडणपीसणजखणरांधणप्रमुख धरमांहिलोकांसपहिलीव  
डीवहनाकामथकी भोजनपरिसवाविसेवरूडेरोरांधवांनो कामदीधोतेपरीसवारांधवानाविसेष अधिकारपणेकरी पत्तापांसीदुहं



त्तिविउसाणनाइपुज्जोपरलोयंमौदुहंचेव० जहवारक्खियवह्व यारक्खियसालीकणाजहक्खक्खा परिजणमसाजायाभोगसुहाइं चसंप  
त्ताट तहजोजीवोससं पडिवज्जित्तमहव्वएंपंच पालेइं निरइयारेपमायलेसंपिवज्जिं तो॥ सोअप्पहिएक्करइइइहलोयंमिविविज्जिहपण

महअश्राइं उवभुंजइं जीवियत्तिपालं तो आहारइसुसत्तो चत्तोसिवसाहणिच्छाएइं सोएत्थज  
हित्थाएपावइं आहारआलिंगत्तिविसाउणणाइपुज्जो परलोयंमिदुहंचेव० जहवारक्खियवहुडया

दुखप्रतेचेवनिश्चयतेभोगवती॥ तिसभोगवतीनीपरिजे साधुचारित्वीयोपांचमहाव्रतप्रतेउपभुंजइखाइं तेआजीविकानेअर्थे व्यग्रहारि  
इं वेसमात्रचारित्रपालतोछतो आहारादिकनेविषे आसक्तलालचीछतोएतलेतेहने आहारनुं जफलचारित्रपालिवानुफलतेकेहवोछे  
चत्तज्योछांछोछेसिवमोक्षसाधवानीइच्छावाछा तेणीइं एतलेमोक्षनजाइइं तेयतीइहायथाइच्छाइं जेवांछेतेपावे आहारआदिदे  
इंसर्वलिंगवेषमाटिइं तेदुखपंडितमांदिअतिवणुं नपूजाइपूजापामेनही परलोकनेविषेदुखीनेदुःखीइइचेवनिश्चय० जिमअथरत्ति  
तावहराख्यासालिनाकरणतेकारणयकी यथार्थेआप्यायथार्थसाचोनामरत्तिताथाप्यो तेवउरत्तितापरिजनसगलानेमानवावोग्यथइं

यपञ्चोऽङ्गंतसुहीजायइपरं मिमोक्खंमिपावेइ१० जहरोहिणीउसुरहारोवियसाली जहल्यमभिहाणा वडित्तासातिकरणेपत्तासव्व  
स्सामित्तं११ तहजोभव्वोपाविअवयाइं पालेइंजोअप्पणासम्मं अस्सेसिबिभवाणं देइअणोगेसिहियहेउं१२ सोइहसुंघपहाणोत्ति

रक्खियसालीकणाजहल्यक्खा परिजणमस्साजाया भोगसुहाइं चसंपत्ताट तहजोजीवोसस्यं पंडि  
वज्जित्ता सहव्यथेपं चपालेइंणिरइयारे पमायलेसंपिवज्जं तोए सोअप्पहिएक्करईइ हल्लोयंमिबिबि  
जहिंपणयपञ्चो एंगंतसुहीजायइ परंमिसुक्खं पिपावेइ१८ जहरोहणीओसुरहारोवियसालीजह

अनेवलीभोगनासुखप्रतंसंपत्तापांसीरतनसोनानीअधिकारणीयइत्तिम जेमव्यजीवसय्यगप्रकारेपडिवज्जीअंगीकारकरीनेपांचुअहा  
अतपालेनिरलीचारअतिचाररहितपणोकारीप्रसादनलिसअंसप्रतेपणिवरजतोक्खतोपांचमहाव्रतपालेक्खेत्तेसासुअपायाआत्मासुं जंहि  
तहितकारीतेहनेविषे एकअद्वितीयरतिसंतोषसुखप्रतेपामे इहलोकनेविषेपणविज्जं हिक्कहतांपंडितेउत्तमसाधुलोकप्रणतप्रणव्यधि  
पगजेसाधुनाएहवीपूजापामेतेचारित्तनोपालणहार तथातेएजातसुखीथाइ परभवनेविषेमोच्चमुगतिनासुखप्रते पिणपामेतेखाइ१०

लहइसंसहं अप्यपरेसिंकक्षाण कारओगोयमपह्व १३ तित्यस्ववुड्डिकारीअक्खे वणओकुतित्तियाइं ण विउसनरसेवियकसोकमेण

त्यमभिहाणा वड्डित्तासालकणे पत्तासव्वस्ससामित्तं ११ तहजोभवोपावियवयाइं पालेइअप्पणास  
 स्मं अस्सेसिंचभव्वाणं अणेगेसहियं देइउवएसंचसिवहेजं १२ सोइहसंधप्पहाणेजु गप्पहाणुत्ति  
 लहइसंसहं अप्यपरेसिंकक्षाणं कारओगोयमपह्व १३ तित्यस्ववुड्डिकारी अक्खे वणओकुतित्तिय

जिमरोहिणीचोथीवह तेणीइं रोपीरोपांवीसालिखेत्वमाहि तेकारणथकीयथार्थनामरोहिणीनामथाप्यो वधास्याट्टिपम्याद्यासा  
 लिनाकणतेकारणड्डतेछते पामीसगलाकुलमोहिसमस्तपरिवारमाहि स्वाभीपणुंअधिकारपणुंपामी ११ तिमजेभव्यजीवपास्याअंगी  
 कारकीधाजेव्रतपाचमहाव्रततेप्रतेपालेखे आत्मानापतेसस्यकभलीपरिइं तेधातेसाधुअनेराभव्यजीवाने दीयेउपदेशधर्मोपदेशप्रते  
 चपुनःवलीअनेकषणातेमदुष्यना हेतुभणी १२तेसाधुइइइहंइहलोकनेविषे संघमाहिप्रधानमुख्यड्ड एतलेतेआचारिजथाइद्युगप्र  
 धानपणुंएहवोलहे पामेभलासवदप्रते तथातेसाधुअप्यपोतानाआत्माने तथापरअनेरांभव्यजीवाने कल्याणनोकरणहारोड्डईगोतम

सिद्धिं पिपावेइत्ति १४ सप्तमज्ञातविवरणं समाप्तमिति अष्टमज्ञातविवरणं व्याख्यायते अस्य च पूर्वेषु णरु हायसि भिद्वं वः पूर्वस्त्रिन्म हाव्रता नाविराधनाविरोधनयोरर्थानर्थानुक्ताविहृतु महाव्रतानामेवात्येनापि भाषायाश्ल्ये न दूषितानामयथावत्स्वफलसावकत्वसुपदश्ये तइ

यार्हेणं विजसणरसेवियकसो कसमे णसद्धिंपिपावेइं १४ सत्तसंणायज्झणं संसत्तं ७ जइणं भंतिसस  
 णेणं भगवयामहावैरेणं जावसंपत्ते णंसत्तससणज्झयणस्स अयसइे पस्सत्ते अइमस्सणं भंतै अज्झ

खामीनीपरि १३ ते आचारिजतीर्थनो दृष्टिकारी ऊई आक्षेपकरी अनेकदृष्टातदेवइ आक्षेपयकी कुतीर्थी अन्यदर्सनीनेसमभाविप्र तिबोधे तिचारिविषेपयकी विजसरपंडित पुरुषेसेवितकस्यकमचरणपगऊइ कसमे अनुक्रमेसिद्धिमोक्षप्रते पासेते आचारिज १४ सात मोज्ञातानो अध्ययनसंपूर्णययो हिवे आठमो अध्ययनवखाणीयेछे ते आठमा अध्ययननो पाच्छिला अध्ययनसंधाते एसंधसातमा अध्ययन नेविषे महाव्रतानी विराधनानो फल अनर्थकह्यो अने महाव्रत आराधिवानुं फल अर्थहे तु कह्यो अने आठमा अध्ययननेविषे योइे परि मायासल्ये करी दुख्यानो महाव्रतानु अथवासरिखुं पोताना फलनुं साधकपणुं देखाडेछे इणे संबंधे करी बाधो आठसुं अध्ययनकहेछे

त्यनेनसख्यन्धेन सख्युमिदंसर्व्वसुगमं नवरंशीतोदायाः पश्चिमसमुद्रगामिन्याः दक्षिणकूलेसलिबावतीति यदुक्तमिह तद्गुणव्यान्त

यणस्यसमरेणंअगवथासहावीरेणं जावसंपत्तेणंकेअद्वेपसुत्तेएवंखणुजंबूतेणंकालिणंतेणंसमएणंप्रहे  
 वजंबूद्वीवेरमहाविदेहेनासिअंदिरस्यपव्यस्यपच्चत्थिमेणं णिसटवासहरपव्यस्यउत्तरेणंसीउवाएम  
 हाणईएटाहिणेणं सुहावहस्रवखारपव्यस्यप्रच्चत्थिमेणंपच्चत्थिमलवणससुहस्रपुरच्चिमेणंपत्थं

जोहेअगवन् अमणतपस्सीइअगवंतसंपूर्णंज्ञानवंतश्रीमहावीरदेवेसातमाज्ञातानाअध्ययननोएअर्थकह्योतिमेसांअभ्योहिवेहेअगन्आ  
 ठमाज्ञाताना अध्ययननोअर्थअमणअगभंतश्रीमहावीरदेवेकुणस्योअर्थप्ररूप्योकाह्योछेहिवे सुधर्मास्वामीकहेछे इअनिचेहेजंतुतेका  
 लनेविषेतेसमयनेविषेअसंख्याताजंबूद्वीपछे तेसदेहटालिवानेअर्थ इहेवकह्योतेभणीएहिज जंबूद्वीपनामाद्वीपमाहेअहांविदेहनामा  
 जेतनेविषे मेरुपर्वतनेपश्चिमदिशिनेविषे निषधवर्षधरपर्वतनेउत्तरदिशिनेविषेसीतोदामोटीनदीनेपश्चिमसमुद्रमांहि जावाथलीतेसी  
 तोदाअहानदीनादक्षिणदिशिनातटनेविषेसुखावहनामावखारागिरिपर्वतनेपश्चिमदिशिनेविषेपश्चिमदिशिनालवणससुद्रनेपूर्वदिशि

नलिनावतीत्युच्यते चक्रवर्त्तिविजयं चक्रवर्त्तिविजयतथ्यं चेत्यखंडं इमेणंकारणेणंति अनेनवच्यमाणेनहेतुना अन्यथाप्रतिज्ञायाअन्य

सखिलावतीणामंचक्कवडो विजएप्रसूत्तेतथ्यणंसखिलावतीविजए वीयसोयाणामंरायहाणीप्रसूत्ता  
एनजोयणविच्छिष्टाजावप्रच्चक्खं देव लोगभूयातीसेणवीयसोगए रायहाणीएउत्तर पुरच्छिमेदि  
सीभाएत्थणं इं दकुं भेणामं उज्जाणेहोत्था तत्थणंवीयसोगएरायहाणीए बलेणामंरायाहोत्थात  
स्सणंवलस्सरसोधारिणीपामोकवा देविसहस्संउवरोहिहोत्था तएणंसाधारिणीदेवी अस्सयाकथाइं

नेविषेइहासखिलावतीनामाचक्रवर्त्तिनेविषे करीजीपवुं तेचक्रवर्त्तिविजयत्तेनोखंडकह्योक्त्तिहासखिलावतीविजयनेविषेवीतथो  
कानामाराजधानीकहतांनगरीहोतीउइ तेकेहवीच्छेनवयोजननीपज्जलीच्छेवारयोजनलावीच्छेयावत्प्रत्यक्षसाक्षात्देवलोकसरिखीच्छे  
द्वारिकानगरीनोवर्णनइहाकहिवोसगलोतेवीतथोका राजधानीनेविषेइंहाइं द्रुकुं भनामा उद्यानउं तोउवोतिहावीतथोकाराजधा  
नीनेविषेवलनाभाराजाउत्तोतेवलराजानेधारणीराणीप्रमुखआदिदेईदेवीनोसहस्सअंतःपुरउं तोएतलेधारणीप्रसुं खएकहजारप

जावसीहंसुमिणेपा सित्ताणंपडिबुद्धाजावमहव्वलेयदारएजावउसुक्कवालभावे जावअलंभोगसमत्येत  
 एणंतमहव्वलं अस्मापियरोसरिसयाणंसरिस्वव्याणंकमलसिरिपामोक्खाणंपंचण्हंरायवरकखणग  
 सयाणंएकदिवसेणं पाणींगिरहविद्रुपंचवासायसयंवरगथापंचसओदाओजावविहएद्रुतैणंकालेणंते  
 णंसमएणंधम्मघोसणामधोरापंच्हिंअणगारसएहिसद्धिंसंपरिवुडेपुव्वाणुपुब्बिंचरमाणेगामाणुगामं

हराणीऊतीऊई तिवारेतेधारिणीराणीएकदाप्रस्वावे यावत्सीं हप्रतंस्वप्ननेविषेदेखीने जागी यावत्अनुक्रमे महाबलनामाबालकपु  
 लजख्योउन्मुक्तम् क्योक्के बाल कनोभावजेणैवालके तिवारेभणवास्सं क्योसंपूर्णविद्यासगलीकलाभख्यापच्छी यौवनवयपांस्योच्छतोसंपूर्णंप  
 चेंद्रियनाभोगभोगविवाभणीसमर्थयथो तिवारपक्कीतेमहाबलपुत्रनेमातापितासरिखीसखीवय वंतीएहवीकमलश्रीकन्याप्रमुखया  
 दिदेईपांचराजकन्यानासतएतले कमलश्रीकन्याआदिदेईपांचसयकन्याएकदिवसनेविषे पाणिग्रहणप्रतेकरावे पांचसयप्रा  
 सादपांचसयघरदीघातिहारहीकती पांचसयदायजोदीघोपांचसयस्त्रीसंघाते भोगभोगवतोच्छतोविचरेक्केरहेक्के तेकालनेविषे तेसमय

दूद्वज्जसाणे सुहं सुहेणं विहरसाणे जेणे वद्दं दकुं भेणसं उज्जाणे तेणे वससेसठे संजमेणं तवसा च्छुप्या  
 णं भावेसाणे विहरंति परिसाणिग्गयाबलो विरायाणिग्गओ धम्मंसोच्चणि ससज्जणवरं सहव्वलं कु  
 मारं रज्जे ठावेद्दत्तासथसेवबलेरायाथेराणं अंति एपव्वद्दएक्कारसअंगविउ बडुणिवासाणि सामसुं

नेविषे धर्मघोषनामाथिवर पांचसथअनगरसधुसंघाते भलीपरे वरिवखोच्छतो पूर्वांनुपूर्वीइं केडाकेडिइं चालतो विहारकरतो छतो  
 ग्रामानुग्रामप्रते अतिक्रमतो म्कतो छतो सुखसमाधिइं विचरतो चालतो छतो थिवर जिहांइं द्रुकुं भनामा उद्यानवनछे त्रिहां आवीने  
 समोसखोसतरे भेदेसंयम पालवे करीवारभे देतपनें करवेकरी आत्माप्रते भावतो छतो विचरेछे थविरआव्याजांणीने परिषदानीस  
 रीवां दवाभणी बलराजापिणनगरीमां हियकीनीसखोथ विरनें वादिवाभणीआव्यो धर्मप्रते सांभलीने हीयामां हि अवधारीने जे एत  
 लोविशेषछे महावलकुमारप्रते राज्यने विषेयापेयापीने पोते जमाथोसुं डीलोचकरीने बलराजाधर्मघोषथवीरनासमीपने विषे दी  
 च्चालीधी पछेते वलच्छुषिइयारअंगनोजाणथयो धणावरसप्रते आमण्यचारित्वनोपर्यायपालीने जिहां चारमनोहरपर्वतछे त्रिहांआ



प.त्रियायं पाञ्चिन्ता जेखेवचारुपव्वएमासिएणं भत्तेएं अप्पाणेणंके वलंपाउणित्ताजावसिद्धे तएणं  
 साकअलसिरीअस्ययाकयाइं जावसीहंसुसिणेपासित्ताएंपडिबुद्धा जाववलभहोकुमारोजाओजुव  
 वायाविहोत्था तस्सणंमहव्वलस्सरसोइमेच्छप्पियवालबयंस याहोत्थातंजहाअयले१ धरणे२ पूरणे३  
 वसुधु वेसमणेपू अभिचंदेइ सहजायाजावसंनद्धिया तेणित्थिरियवेत्तिकहु, अस्यमणं एयमइंप

वीनें मासभक्तेने पञ्चक्खाणेकरीएकमासनोअणसणकरीनें पांणीइंरहितकेवलज्ञानप्रतें पामीनें सिद्धययोमोचपज्जतो तिवारपक्की  
 महावलराजानीप्रथमपट्टराणीतेकमलश्रीराणी एकदासमयनेविषें यावत्सौहप्रतें सुहणानेविषें देखीने जागीयावत्अनुकसेवलिभ  
 इनामाकुमारजख्यो तेशुवराजाइअतेमहावलराजानें एप्रतल्लच्छप्रियत्रालमित्तुता तेकहेच्छेएकअचलनाममित्तु १ बीजोधरणमि  
 त्तरीबीजोपूरण३चोथोवसुमित्तु ४ पाचमोवैअमणमित्तु ५ छट्ठोअभिचंदमित्तु ६ एक्ककेहवाच्छे संघातेजण्याक्कें यावरसंघाते वध्याच्छे ते छवा  
 लमित्तुकहे देशप्रदेशजाइवु संघाते सुखदुक्खभोगविवोतथासंसारमाहिथीनी कलीनें निस्सरवंते हपिएसाथे इमकरीनेमांहीमांहि

डिसुणेइसुहंसुहणंविहरइतेणंकालेणंतिणंसमएणंघम्मघोसाथेराजेणेवइं दकुं भेउज्जाणेतेणेवसमोसइं  
परिसाणिणगयासहव्वलोविरायाणिणगयओधम्मो कहियो महव्वलेणंघम्मंसोच्चजंणवरं देवाणुप्पिया  
छप्पिएवालवयंसएपुच्छासि बलमहं चकुभारं रज्जे ठाविमिजावजेणेवच्छप्पियवालवयंसए आपुच्छइ

साते जणाएहवीपरठप्रते अंगीकारकरे करीने सुखे समाधिइं साते बालमित्तविचरेच्छे ते कालने विषते समयनेविषे धर्मवोषयविर  
आवीने जिहाइं इकुं भउद्वानच्छे तिहांआवीने समोसखाजतखाआव्याजांणीने परिषदानीसरीतिहाआवीवाद्या तिवारपहेसहा  
वलराजापिणनगरीमाहिथकी वांदिवाभणीनीकल्योतिहांआवी यविरवाद्याधर्मवोषधिवरे' धर्मोपदेशदीधोतिहांमहावलराजाधर्मो  
पदेशसांभलीने प्रतिवोधसास्योवै राग्यपिणजेनवरं एतलोविशेषविलंनच्छे हे देवानुप्रियच्छप्रियवाल एहवामाहरवालमित्तच्छेते प्रतेऊं  
पूछुं अने चपुनःवलोवलिभद्रकुमरप्रते' राज्यने विषेऊं थापुं इमकहीपोतानेवरं आवेआवीनेजिहांछप्रियवालहावालमित्तच्छे तिहां  
आवीने ते छप्रियवालमित्तप्रते पूछेजेह्दीचालेऊं कुं एहवोकह्योतिवारं' ते छप्रियवालहामित्तमहावलराजाप्रते' इमकाहताऊआ

तएणंछप्पियवालवयंसए महव्वलरायंएवंवयासी जइणंभंतेदेवाणुप्पिमा तुभेपव्वयहअहंकेअस्ये  
 आहारेवाजावपव्वयामो तएणंसहव्वलेराया छप्पिएवालवयंसए एंववयासीजइणं देवाणुप्पिया  
 तुभेमएसद्धिं जावपव्वयहतोणं तुभेगच्छे हजेइपुत्तंसएहिंरे रज्जेइवावेहपुबिसस सहस्सवाहिणी  
 ओसीयाओदुखुटासमाणा पाउभभवहतएणंछप्पिए बालववंसएजावपाउभभवति तएणंसेमहव्व

जोहेदेवानुप्रियहेमहाराजतुभे दीचालीयोच्छोतोअन्हारे कुणअनेरोआधारभूतइइं वावत्तेकारणथकीअन्हे दीचालेउं कुं छमि  
 लेइमकह्यो तिवारेमहाबलराजाक्कप्रियवालुहाबालमित्तप्रतें इमकहतोइओ जोअहोदेवानुप्रियोअहोवालमितो तुमेमाहरेसाथे  
 यावत्दीचालोच्छोतोतुम्हे धरेजाओ ज्येष्ठवड़ापुत्रप्रतेस्वकीयपोते पोतानीमेलेआपआपणाराज्यनेविषे थापोथायापछीपुरुषसहस्र  
 वाहिनीहजारपुरुषेवहिये उपाडीयेएहवीथिविकापालखीप्रतें चढाबैठाछतासुभआगलिइहां प्रगटथाओइहांआवोइमराजाइ  
 कह्योतिवारेतेछप्रियवालुहाबालमित्तपोताने धरेजईपोतेआपआपणांवाडावेटाप्रतें पोतानाराज्यनेविषे थापीने हजारपुरुषवाहनी

लेअंतिएछप्पियवालवयंसए पाउभूएपासइरत्ता हडेतुडेकोडु विचपुरिसेसहावेइरत्ता एवंवयासो  
 गच्छहणंतुभेदेवाणुप्पिया वल्लमहस्सकुमारस्समहयारयाभिसेसणं अभिसंचेहंतेवितहेवजाववल्लम  
 हकुमारंअभिसिंचति तएणंसेसहवल्लेराया वल्लमहं कुमारंआपुच्छइ तएणंमहवल्लपामोक्खाछप्पि  
 यात्रालवयंसयाए सद्धिंपुरिससहस्स बाह्णिणींदुखुट्टा वीयसोयाएरायहाणीए मज्झंमज्जेणंणि

पालखीयाप्रते वेठाच्छता तिहाअवीप्रगटयया तिवारेतेच्छमित्त्वानेमहावलराजानासमीपनेविषे छप्रियवाल्हावालमित्वांप्रते प्रगटय  
 याअव्यादेखेदेखीने हर्षतुष्टसंतोषपांस्योच्छतो महावलराजाकौटं विकपुरुषअदेशकारी पुरुषांप्रतेतेडावितेडावीने इमकहतोह्अ  
 जाओतुमेअहोदेवानुप्रियो अहोसेवकपुरुषोवल्लभद्रकुमारने मोटेवणेवणे राज्याभिषेके करी अभिषेकपट्टाभिषेककरो इमकहच्छोति  
 वारेतेअदेशकारीपुरुषतिमज्जेणं प्रकारेवल्लभद्रकुमारप्रते पट्टाभिषेककरावे तिवारपच्छेते महावलराजा वल्लभद्रराजाप्रते पूछेप्  
 छीने तिवारपच्छीते महावलराजाप्रसुल्लअदिदेई. छप्रियवाल्हावालमित्वांसंवाते हजारपुरुषवाह्णिनीपाजखीप्रते चढीवेठाच्छता

गच्छद्द्रुत्ताजेशेवद्द्रुकुं भेउज्ज्जाणे जेशेवधेरभगवंतो तेणवउवागच्छद्द्रुत्ता तेविसयमेवंपंचसुद्विय  
 लोयंकरेद्रुजावपव्वद्द्रए एक्कारसअंगद्द्र अहिज्जित्ता बह्जहिंचउत्थेद्धुद्धुम अप्पाणंभावेमाणेविहर  
 द्रुतएणंतेसिंसहव्वलपामोकवाणं सत्तरह्ज्जअणगाराणं अस्सयाकयाद्द्र एगअओ सहियाणंद्द्रमेयाखवेमि  
 होक्कहाससुख्खावे ससुपज्जित्थाजएहं अभहंद्देवाणुप्पिया एगंतवोकम्मं उवसंपज्जित्ताणं विहरद्द्रुतस्सं

वीतशोकाराजधानीनगरीनें साहियईनें सोठीऋद्धिद्द्रुं घणें आडं बरेकरीनीसरेनीसरीनें जिहांद्द्रुं द्रुकुं भउद्यानछें जिहांधिवर  
 भगवंतछे तिहांआवेआवीनें ते महावलराजाप्रमुखसगलाईपोतानीमेले जपांचसुड्डीलोचकरेकरीनें यावत्दीजालीधीलेइनें इग्या  
 रेअंगभग्णीनें घणाचोथेछद्द्रुअद्द्रुमदमप्रमुखआदिदेई तपकरताछताआपणाआलाप्रते भावताछताविचरें तिवारपछ्ठीतेमहावलच  
 धिप्रमुखसगलंनिसातानेसाधुचारिलीयानें एकादाप्रस्तावे एकठामिलीने एहवोमाहोमांहिकथावत्तांनो ससुख्खापज्जजेकारेजेकार  
 राथकीआपणसातेजणानें अहोसाधोएकजतपःकर्मएकजतपनो करिवोअंगीकारकरीने विचरवोएतलेसातेजणे एकजतपकरिबू ए

थाकरणलक्षणेनसाधारूपत्वादस्यमायाहिस्त्रीत्वनिमित्तं तत्रअयतेतस्य चैतदन्यथाभिधानान्यथाकरणं किलकुतोपिभित्थाभिमानादहं  
नाउक्तएतेलनुनायकाः इहचकोनायकानुनायकानां विशेषोयद्यहंससुक्ल, दृतरतयानभवामीत्येवमादेस्सं भाव्यते इत्यीशासगोयंतिस्त्रीना  
मः स्त्रीपरिणामः स्त्रीत्वयदुदयाद्भवतितत्स्त्रीनामं स्त्रीनाममितिगोत्रमभिधानं यस्यतत्स्त्रीनामगोत्रं अथवायत्स्त्रीप्रायोग्यं नामक  
म्भगोत्रं चतत्स्त्रीनामगोत्रं कर्मनिर्वर्तितवान् तत्कालेचमिथ्यात्वं साखादनंवाअनुभूतवान् स्त्रीनामकर्मणांमिथ्यात्वानंतानुबंधेप्र

अहंहेहिंसव्वे हिंसद्धिं तवोकम्मं उवसंपज्जित्ताणं विहरइएत्तिकहु, अस्समस्सएयमइंपडिसुणे इइत्तावज्जहिं  
चउत्थमत्तं उवसंपज्जित्ताणं विहरं ति एतणंसेमहव्वलेअणगारे इमेणंकारेणं इत्थिणासकम्मं गोयंनिव्वंति

हवोपरठकरे तेभणीआपणसगलासाथे एकजतपनोकर्मकार्यकारिबू तेतपप्रते अंगीकारकरीने विघरवाभणीकल्पे एहवोपरठकरी  
नेअन्योन्यमां होमाहिंसातेजणा एहवापरठप्रतेअंगीकारकरीने घणाचोथभक्तएकांतरउपवासकरीने अंगीकारकरीआदरीनेवि  
चरेछे' तिवारे' महावलसावुइणे आगलिकहिंसेतेणंकारेणं करी प्रतिज्ञाजूदीअनेकरवोजुदो तेजुदाकरवेकरीमायारूपप्रणायकीए

सुजद्रुणंतेमहव्वलवज्जा छअणगाराचउत्थं उपसंपज्जित्ताणंविहरंति तएणंसेमहव्वलेअणगारेछड्डंउ  
पसंपज्जित्ताणंविहरंतिजद्रुणंमहव्वलवज्जाछअणगाराछड्डंउवसंपज्जित्ताणंविहरइतएणंसेमहव्वलेअण

वलनेमायानिअथसहितस्त्रीपणानोनिमित्तच्छे तेमहाबलनेवलीएकहिवोजुदो तेकुणकारणथकीकूठा अभिमानअहंकारथकीऊं नाथ  
कच्छंएसेवकच्छेमाहरा अनेइहांतपकरवानेविषे स्वामीसेवकानोकेहोविशेषजोऊं भलीपरेउत्कृष्टतरपणेकरी नखाउं तोएहवोविचा  
रीनें इत्थीनामगोयंकहतां स्त्रीनामस्त्रीपणेजेहनाउदयथकीऊइ तेस्त्रीनामकहीथे तेस्त्रीनामएगोल कहतां नामच्छेजेहनोतेस्त्रीना  
मगोलकर्मनिव्वित्तेसुकहतां नीपजावतोवांधतोऊओ महावलसुनितत्कालेजमित्थात्वगुणठाणोअथवाकांईसाखादननीजोगुणठांणो  
अनुभवीस्त्रीनामगोलकर्मवांधो स्त्रीनामकर्मनेविषेमित्थात्वअने अनंतानुबंधीक्रोधएवेऊ निमित्तप्रणायकीस्त्रीनामगोलकर्मउपार्ज्यो  
जिवारेतेमहावलसाधुवरजी तेछअणगारसाधुवालमित छड्डवेउपवासअंगीकारकरी आदरीनेविचरेछे जोतेमहाबलवरजीमहाबल  
विनाछसाधुचारितीयावे उपवासअंगीकारकरीआदरीनेविचरेछे एतलेवेउपवासकरीपारणुं करी विचरेछे तोतेमहाबलसाधुअ

त्यत्वात् आसेविवङ्गलीकएत्ति आसेवितानिसद्वक्त्रणाद्वहलीकृतानि वङ्गशःसेवनात्यानितैः अरहंतगाहाअर्हदादिसप्तपदानि तत्रप्रवचनंश्रुतज्ञानं तदुपयोगानन्यत्वाद्वासंधः गुरवोधर्मोपदेशकाःस्थविराः जातिश्रुतपर्यायभेदभिन्नाखलजातिस्थरिः षट्पिबर्षःश्रु तस्थविरःसमवायधरःपर्यायस्थविरोविंशतिवर्षपर्यायः वङ्गश्रुताःपरस्वरापेक्षया तपस्विनोअनघनादिविचित्रतपोयुक्ताः सामान्यसा

गारेअट्टमंडवसंपञ्जित्ताणंविहरंतिएवंअहे अट्टमंतोदसमंअहदसभंतोदुवालसमंदूमेहियाणंवीसाहिय कारणेहिंअसेवियवङ्गलीकएहिंतित्ययरणामगोयंकक्षं निव्वत्ते सुतंजहाअरिहंतशिसिद्धप्रवयणइगुरु

इमत्रिणउपवासआदरीने विचरेच्छेईमतेसाधुचारित्रीया अट्टमत्रिणउपवासआदरी विचरेतोमहाबलदसमच्यारउपवासकरे जोते क्कसाधुच्यारउपवासआदरीविचरे' तोमहाबलसाधुमुनिपांचउपवास आदरीविचरे'तेच्छसाधुयकीअधिकोरतपकरेएप्रत्यक्षआगलिबी स्थानकनाकारणकहिस्थं तेकारणयकीतेकेहवाछे आसेवितछेमर्थादाकरीने एकवारकरवाथकीसेव्याछे वङ्गलीकएहिंघणीवारसेवि वाथकीघणीवारकीधाछे जेवीस्थानकतेणेकरीतीर्थंकरनामकर्म गोलकर्मउपार्जतोवांधतोऊओ तेमहाबलसाधु वीस्थानककहेछे



धवोवाइहचसप्तमीषष्ठ्यर्थेद्रष्टव्या ततोर्हृत्विद्धप्रवचनगुरस्थविर बद्धअततपखिनावत्सलतया वात्सल्ये नानुरागः यथावस्थितगुणो  
 क्तीर्तनानुरूपोपचारलक्षणतया तीर्थंकरनामबद्धवानितिसम्बन्धः तेषितियएतेजगद्बंदनीयाः अर्हद्दादयस्तेषामभीक्ष्णमनवरतंज्ञा  
 नोपयोगेचसतितद्वध्यते इत्यष्टौ१ दंसणगाहादर्शनंसम्यक्तं विनयोज्ञानादिविषयः १० तयोर्निरतिचारःसस्तीर्थंकरत्वं बद्धवान्त्रा

४धेरपूर्वबहुसुएइतवस्वीसु०वच्छलयायटतेसिंअभिवक्षणाणोवओगेयटदंसणद्विणय१०आवस्सएय११

अरिहंतनीआराधनापूजाअरिहंतपदआदिदेईसातपद१सिद्धनीआराधनापूजाप्रवचनसिद्धांतनीपूजा३गुरुनोविनय४थिवरनोवि  
 नयकरवोपूषणोभरणहारतेचनोविनयई एकउपवासआदिदेइनेघणातपनोकरणहारतेहनीसेवा०अरिहंत१सिद्धप्रवचन३गुरु४  
 यविरपूर्वबहुश्रुतईतपस्वी०एसातपदांनीवात्सल्यं वत्सलपणेभक्तउपवासकराजे अनुरागच्छतागुणानो उल्कृष्टपण्येकीर्तनरूपसरिखाप  
 येतीर्थंकरनामकर्मबंधतोद्धवो तेसिं०एतेजगत्तने बंदनीकअरिहंतादिसातपदतिहासुं वारंवारज्ञानोपयोगद्धंतेच्छते तेतीर्थंकर  
 कर्मबंधेज्ञानोपयोगज्ञाननो उपयोगपणोद दर्शनसम्यक्तं ज्ञानादिकनोविनय१० एवेच्छनेनिरतीचारसेविवाथकी तीर्थंकरगोलवां

वश्यकमवस्यं कर्तव्यं संयमव्यापारनिष्यन्नं तस्मिंश्चनिरतिचारःसन्निति तथाशीलानिचलत्तरगुणाः प्रतानिचमूलगुणास्तेषुपुन  
निरतिचारइति १२ क्षणलवग्रहणं कालोपलक्षणं क्षणलवादिषुसंवेगभावनाध्यानासेवनतश्च निर्वर्त्तितवान् १३ तथातपस्यागयोः  
सतोनिर्वर्त्तितवान् ततपसाचतुर्थादिनात्यागेनच यतिजनोचितदानेनेति १४ तथावैयाहृत्यैसति दशविधेनिर्वर्त्तितवान् १५ समा  
धौचगुर्वादीनाकार्येकरणद्वारेणचित्तस्वास्थ्योत्पादनेसति निर्वर्त्तितवान् १७ द्वितीयगाथायांनव अपुष्पगाहाअपूर्व ज्ञानग्रहणेसति

## सौलव्यएयणिरवइयारे १२ खणलव १३ तवच्चियाए १४ द्वाणे १५ वेयावचे १६ समाहौयं १७ अपुष्पणा

धोआवश्यकनोकरिवूं संयमव्यापारयकीनीपनोपडिकमणुं तेहनेविषेनिरतीचारयकीतीर्थंकर कर्मबाधतोद्धवो तथाशीलकहतां  
उत्तरगुणव्रतकहता मूलगुणतिहानेविषेवली अतीचाररहितछतो तीर्थंकरनामकर्मबाधतोद्धवो २ क्षणलवादिकालनेविषे संवेगभा  
वनाध्यानसेववायकी तीर्थंकरकर्मबाधतोद्धवो ३ तपएकउपवासादिकरीने बाधोतीर्थंकरकर्म ४ साधुनेयोग्यदाननेदेवेकरीवांध्योती  
र्थंकरकर्म ५ दसविधवेयावच्चकरतो तीर्थंकरनामबाधतोद्धवो ६ सुर्वादिकनाकार्यकरवाने द्वारे करीचित्तनोस्वस्थपणो उपजावेछ

निर्वर्त्तितवान् श्रुतभक्तियुक्ताप्रवचने प्रभावनातयाच निर्वर्त्तितवान् १८ श्रुतवृद्धमानेन १९ यथाशक्तिमार्गदेशनादिकयाचप्रवचन  
प्रभावनयेतिभावः २० तीर्थंकरत्वकारणतायासुक्तायाहेतुविंशतेः सर्वजीवसाधारणतां दर्शयन्नाह एतैः कारणैस्तीर्थंकरत्वं अन्योपि

णगहणे १८ सुयमत्तौ १९ पवंथणे प्रभावणया २० एण्हिंकारणे हिं तित्ययरत्तं लहइ जीवो २ तएण्तेम  
हव्वलपामोक्खासत्त अणगारामासियं भिक्खुपडिमंउवसंपज्जित्ताणंविहरंति जावएगराइयंउव

ते षणुं संतोषउपजावीतीर्थंकरनामकर्मबांध्यो १७ अपूर्वनवृत्ताननुग्रहिवं भणवूं ते अपूर्वज्ञानकृततीर्थंकरकर्म बांधतोह्रवो १८ श्रुतभ  
क्तिसिद्धांतनीभक्तिकरतोतीर्थंकरकर्मबांधतोह्रवो १९ यथाशक्तिमार्गशुद्धमार्गने देखाडवे करी प्रवचननी प्रभावनापणें करी तीर्थंकरकर्म  
बांध्यो एवीसथांनकसेव्यां फरस्यां तीर्थंकरपणुं थावानाकारणकहे छतेवीसथानकनाकरवाथकी सगलाजीवानेसाधारणपण्याप्रते दे  
खाडतोछतोकहेछे एणेंकारणें करी तीर्थंकरपणुं अनेरोबीजोकोई जीवलहे पामे जीवोइहाएसोपाठऊवे तिवारे एषः महाबलः  
एमहावलसाधुते एणेंकारणें तीर्थंकरपणुं नीपजावतोह्रवो १ तेवीसथानकतपकस्यां पछीतेमहाबलप्रसुखआदिदेईसातसाधुचारिणीया

लभतेजीवइति पाठात्तरेणतु एषोत्ति एषसहावलोलब्धवानिति जावएगराइयंति इहयावल्लरणात् दोमासिचंतेमासिचंचाउन्मासि  
 यंपंचमासिचंक्रमासिचं सत्तमासिचंपदमसत्तराइदियं वीयसत्तराइदियं तच्चसत्तराइदियं अहोराइदियं तच्चसत्तराइदियं तच्चसत्तराइदियं  
 कीलियंति सिंहनिः क्रीडितमिवसिंहनिःक्रीडितं तच्चद्विविधमहत् चद्रकंचेति तद्वृक्षकमसुलोमगतौ चतुर्भक्तादिविंशतितमप्यंतं प्र  
 तिलोमगतौतुविंशतितमादिकंचतुर्धातं उभयमध्ये ऽष्टादशकोपेतं चतुर्थषष्ठादीनि तु एकैकदृष्टौ कोपवासादीनि स्थापनाचयंइहचत्वा

### संप्रज्जित्ताणं विहरंति तएणंतेमहव्वल पामोकवा सत्तअणगाराखुडुगं सौहणिक्कीलियंतवोकम्मं

एकमासनीभिदुसाधुनीप्रतिमाप्रते अंगीकारकरीआदरीने विचरेच्छेयावत्छेहिती एकअहोराविनीप्रतिमाप्रतेअंगीकारकरीनेवि  
 चरेछे इमवारसाधुनीप्रतिमावही पूरीकीधीप्रतिमाकहतां अभिग्रहविशेषकहीये तवारसाधुनीप्रतिमापरीकीधां पछीतेमहावलप्र  
 सुखआदिदेईसातसाधुचारितीयाचुद्रलघुनिःक्रीडिततपआदरीने विचरेछेसिंहनीपरीचालिवासरिखोजेतपतेसिंहनिःक्रीडितकही  
 येसिंहचालतोछतो पाछोजोवे इमसिंहजोवानीपरि जिहांप्रथमतपपूरोकरी उत्तरोत्तरतपकरीये तेतपसिंहनीःक्रीडितकहीयेतेवली

उवसंपञ्जिताणं विहरंति तं जहा च उत्थं करे इत्ता छड्ङं करिंति र्त्ता च उत्थं करिंति र्त्ता अद्भुतं करिंति  
 र्त्ता छड्ङं करिंति दसमं करिंति र्त्ता दुवालसमं करिंति र्त्ता दसमं करिंति र्त्ता चोद्दसमं करिंति र्त्ता दुवालस  
 मकरंति सोलसमं करिंति र्त्ता च उद्दसमं करिंति र्त्ता अद्भारसमं करिंति र्त्ता सोलसमं करिंति र्त्ता विं स ति  
 मं करिंति र्त्ता अद्भारसमं करिंति र्त्ता वीसती मं करिंति र्त्ता सोलसति मं करिंति र्त्ता अद्भारसमं

वेप्रकारेणं एकमहासिंहनिःक्रीडितबीजो लघुसिंहनिःक्रीडिततिहां लघुसिंहनिःक्रीडित सुखकारीपाटीलीधिच्छते प्रथमचोखभक्तयी  
 मांडीवीसभक्तपद्यंतकारिवोवलीदुक्खकारी पाछीपाठीकरीतेच्छते प्रथमवीसभक्तमांडीचोखभक्तपद्यंत कारिवू वेओलीमां हि एकअद्भार  
 भक्तिकारिवो तेअशुक्रभेकहेच्छेप्रथमचोथएकउपवासकरे करीने पारणोकरे करीने छट्टवेउपवासकरे करीने पारणोकरे पछेवली एकउप  
 वासकरे करीने पारणुं करे करीने पछेउपवासतिणकरे करीने पारणुं करे करीने पछेवली विउपवासकरे करीने पारणुं करीने पछे चार  
 उपवासकरे करीने पारणुं करे करीने पछेवली लिणउपवासकरे करीने पारणुं करे करीने पछे पाचउपवासकरे करीने पारणुं करे करीने

रिचत्वारिचतुर्थादीनि त्रीण्यष्टादशानि द्वे विंशतितसेत देवंचतुःपंचाशदधिकंशतं तपोदिनानां त्रयस्त्रिंशच्च पारण्यक्रदिना नालेवसेना  
 स्थांपरिपाद्यांषण्मासाःसप्तरात्रिं दिवाधिकाभवन्ति प्रथमपरिपाद्यांचपारण्यकं सर्व्वं कामगुणिकं सर्व्वकामेगुणाः कामनीचपर्यायावि

करिंतिश्चा चउद्दसमंकरिंतिश्चा सोलसमंकरिंतिश्चा दुवालसमंकरिंतिश्चा चउद्दसमंकरिं  
 तिश्चा दसमंकरिंतिश्चा दुवालसमंकरिंतिश्चा अद्दसमंकरिंतिश्चा इंकरिंतिश्चा

पछेवलीच्यारउपवासकरेकरीने पारणोकरेकरीने पछेछउपवासकरेकरीने पारणूकरेकरीने पछेवलीपांचउपवासकरेकरीनेपारणो  
 करेपछे वलीछउपवासकरेकरीने पारणोकरे पछेआठउपवासकरेकरीनेपारणोकरे पछे वलीसातउपवासकरे करीनेपारणोकरे पछे नवउपवासकरेकरीने पारणोकरे पछे सातउपवासकरेकरीने पारणोकरे पछे आठउपवासकरेकरीने पारणोकरे पछे नवकरेकरीनेपारणूकरे पछे सातउपवासकरेकरीने पारणोकरे पछे आठउपवासकरेकरीने पारणोकरे पछे वलीसातउपवासकरेकरीने पारणोकरे पछे सातउपवासकरेकरीने पारणोकरे पछे वलीछउपवासकरेकरीने पारणोकरे

कृत्यादयोविद्यंते यत्रतत्तथा द्वितीयायांनिर्विकृतिकं तृतीयायामलेपकारिचतुर्थ्यामाचान्त्वमिति प्रथमपरिपाटीप्रमाणंचतुर्गुणंसर्व  
प्रमाणंभवतीति महासिंहनिःक्रीडितमप्येवमेवभवति नवरंचतुर्थ्यादिचतुस्त्रिंशदिकंचतुर्थ्यंतमध्ये द्वात्रिंशोपेतंसर्वं स्वयम्बृहनी

अद्भुतंकरिंतिरुता छद्मंकरिंतिरुता चउत्थंकरिंतिरुता सवत्थसव्वकामगुणियं धारणंपारंतिएवं  
खलुएसाखुडुगसौ हरिक्कीलियस्स तवोकम्मस्स पटभापरिवाडीछ्हिं मासेहिंसत्तहिं अहोरत्तेहि

रेकरीनें पछेउपवासच्यारकरेकरीनेंपारणोकरे पछेउपवासपांचकरेकरीनेंपारणोकरे पछेत्रिणउपवासकरेकरीनेंपारणोकरे  
पछेवली४उपवासकरेकरीनेंपारणोकरे पछेउपवासवेकरेपारणोकरीनें पछेउपवासत्रिणकरेकरीनेंपारणोकरे पछेएकउपवास  
करेकरीनेंपारणोकरे पछेउपवासवेकरेकरीनेंपारणोकरे पछेएकउपवासकरेकरीनेंपारणोकरे प्रथमपरिपाटीनेविषे पारणुं  
सर्वगुणिकपारंसगलाकामगुणक० मनोरमपर्यायविगवलेवीक्के जेपारणानेविषेएतलेसगलामनोज्ञ आहारसगलीविगवलेईपार  
णोकरे एणंप्रकारे निश्चयएल्लुसिंहनिःक्रीडितनीतपकरवानीप्रथमपहिणीपरिवाडीना एकसोचोपनतपनादिवसहुइ अनेतेली

यञ्जहासुत्ता जावञ्जाराहियाभवद्, तथाणं तरंचणं दोच्चाए परिवाडीए चउत्थं करिंतिरत्ता णव  
रंविगयवज्जं पारेइ एवंतञ्चाविपरवाडीए णवरंपारणए अलेवाडंपारिंति एवंचउत्था विपरि  
वाडीणवरं पारणए आयंविलेणं पारेति तएणंते महव्वलपामोकवा सत्तञ्चणगाराखुड्डुगं सिंह

सपारणानादिवसथाइं इमसगलातपनाअने पारणानादिवसएकठामेली एकसोसत्यासीदिवसथाइं तेदिवसनाछमासथाइंअने  
ऊपरसातअहोरातिदिवसअधिकाऊइं एकेकीपरिपाटीने विषे एतलाछमासअने सातदिवसहइं छमाससातदिवसेकरी पूरीथाइं  
सूवोक्तअञ्चाइं करी एकओलीतिहांयावत्अाराधिइच्छे' तेप्रथमपहिलीओलीपूरीकीधा पच्छीबीजीपरिपाटीओलीनेविषे प्रथमएक  
उपवासकरे सगलंपहिलीओलीनीपरेकरे पिणइहाविशेषहेपारणोकरे तिवारेसगलीविगयवर्जोने पारणोकरे इमतीजीपरिवाडी  
ओलोपहिलीओलीनीपरेकरवीपरं तीजीओलीनेविषेएविशेषहे पारणानेविषेअलेपकारीलेपलागे' नही' एहवाआहारकरेइमती  
जीओलीपूरीथइं इमचोयीपिणपरिपाटीओली करिवीपरंइहांचोयीओलीनेविषे एविशेषहेपारणानेविषे' आयंविलेकरीपारणो



णिक्कीलियंतवोकम्भं दोहिंसंवच्छरेहिं अट्टावीसाएअहोरत्तोहिं अहासुत्तंजावआणाएआराहेत्ता  
जेणेवथेराभगवंतो तेणेवउवागच्छंतित्ता आयाहिणं पयाहिणं करेइत्ता वंदइणमंसइत्ता  
एवंवयासीइच्छामिणंभंते महालयंसीहणिक्कीलियं तवोकम्भंतहेवजहाखुडुगं णवरंचउत्तीसइत्ता  
ओणियत्तइएगाए परिवाडीए कालेणएणेणंसंवच्छरेणं छहिंमसिंहिंअट्टारसेहिं अहोरत्तेहिंस

करेइमचोथीओलीपूरीक्कीधी तिवारपच्छीतेमहाबलप्रमुख सातसाधुचारितीयालघुसिंहनिःक्रीडित तपनोकरिवोतेप्रतेपूरोसंपूर्णवे  
वरसेकरोअनेजपरअट्टावीसदिवसेकरी यथासूतनोविधिअणउल्लंघीने यावत्आज्ञाइं करीआराधीने परिपूर्णकरीनेजिहांथिवरभग  
वंतज्ञानवंतछे तिहांआवेआवीने आदच्छिणाप्रदच्छिणाप्रतेकरेकरीने थविरभगवंतप्रतेवादेनमस्कारकरेकरीने इमकहितानुआअ  
म्हे इच्छुंवांकुत्तुं मोटोसिंहनिःक्रीडिततपकरवाभणीपक्केगुणनीआज्ञाइं करीमोटोसिंहनिःक्रीडिततपनोकरिवोअंगीकारकरीविचरे  
तिमजजिमलयुसिंहनीक्रीडित तपकरिवानीपरेमोटोसिंहनिः क्रीडिततपकरेपिणइहामोटोसिंहनिः क्रीडिततपनेविषे एविशेषछे

सम्येतिस्वंपिसीहणिकीलियं छहिंवासेहिंदोहिय मासेहिंवारसेहिय अहोरत्तेहिंसमप्येतिताए  
 णंतेमहव्वलपामोक्खा सत्तअणगारामहालयं सीहणिकीलियं अहासुत्तं जावअराराहीत्ताजेणेव  
 धेरेभगवंतेतेणेवउवागच्छइइत्ता धेरेभगवंतेवंदइणंसइ बड्ढहिजावचउत्थंविहरंति तएणंतेम

घोयभक्तथीमाडीएकउपवासनीष्टद्विवधारवेकरी चोवीसभक्तसोलउवासपयंत चढीवलीपाछानिवर्ते पाछाउत्तरताछताचोवीसभक्त  
 थीमांडीनेचोयभक्तलेकरे पारणेसगलीविगयलीये प्रथमओलीनेविषेसगलीचारओलीना पारणाल्लुसिंहनिःक्रीडिततपनीपरे  
 जाणवा मोटासिंहनिःक्रीडिततपनी एकपरिवाडीएकओलीनोकाल उपरक्कमासअनेअटारदिवस एतलेदोढवरसअटारदिवसेसंपू  
 णंकरीएकपाटीसंपूतेसातेयती इमबीजीओलीवीजीओलीचोथीओली सगलोमोटोसिंहनिःक्रीडिततपक्खरसे उपरवेमासेउपरव  
 लीवारअहोरात्रिइकरी एतलेक्खवरसवेमासउपरवारदिवसेकरी पूरोयविरांप्रतेसमय्येसंपू तिवारपक्कीतेमहावलप्रमुखआदिदेई  
 सातसाधुचारिणीया मोटोसिंहनिःक्रीडिततपतेहनीओली च्यारयावत्अरारीनीपूरोकरीने जिहायविरभगवंतज्जानींके तिहांआ

यंस्यायनाचेयंखंडउत्तिभगवत्यां द्वितीयशते इहैवयथाभेषकुमारो वर्णितस्तथातेपि नवरंथेरत्ति स्कंदकोमहावीरमाष्टष्टवान् एतेतुस्थ  
विरानित्यर्थः प्रतिदिनं द्विर्भोजनस्यंप्रसिद्धत्वात् मासत्रयोपवासेविंशत्युत्तरभक्तशतविच्छेदः कृतोभवति जयंतविमानंअनुत्तरविमान

हृवलपामोक्त्वासत्तत्रणगारा तेषुंउरालेणंसुकवाभुक्त्वा जहाखंडश्रीणवरंथेरे आपूच्छित्तावक्त्वा  
रपव्यंदुरुहंतिरत्ता जावदोमासिथाएसंलेहणाए सवीसभत्तसयंअणसणंचुरासी इवाससयसह  
स्साइं सामस्यं परियागंपाउणंतिर चुलसीइपुव्वसयसहस्साइं सव्वाउयंपालइत्ता जयंतैविमारे

भैआवीने तिहांथविरभगवंतप्रतेवादे नमस्कारकरेकरीने षण्णयावत्चोथभक्तएकउपवासकरताच्छताविचरेछे तिवारपच्छीतेमहाबल  
प्रमुखआदिदेई सातसाधुचारिलीयातेणे उदारप्रधानंकारीतेपेकरी मांसरुधिररहितयथा भूखालूखातेजरहितयथा जिमखंडक  
च्छधिनोशरीरयथुंतेहवाथयाजिमखंडक भगवंतप्रतेपूच्छं पिणइहंविशेषतेमहाबलप्रमुख सातेजणायविराप्रतेपूच्छीने वखारपर्वत  
प्रतेचढेचढीने यावत्वेमासंनीसंलेखणाइंकारी एकसोअनेवीसभातच्छेदीने वेमासनोअणसणकरीने चोरासीलाखवरस चारित्वना

देवताएउवत्रसातत्यणंअत्येगइयाणंदेवाणं वत्तीसंसागरोवमाइं ठिपणत्ता तत्थणंमहव्वलवज्जाणं  
 छण्हंदेवाणंदेसूणाइं वत्तीसंसागरोवमाइं ठिइं महव्वलस्सविदेवस्स पडिपुणाइं वत्तीसंसागरोव  
 माइं ठिइंपणत्तातएणंतेमहव्वलदेवज्जाछप्पियदेवाजयंताओ देवलोगाओआउक्खएणंठिइक्खएणं  
 भवक्खएणं अणंतरं चयंचइत्ता इहेवजंबूह्वीवेइइं भारहेवासि विपुइपियमाइं वंसिसुयरायकुल्लेसु

पर्यायप्रतेपालीने चोरासीलाखपूरवरसनो सगलोआउखोपालीने जयंतविमाननेविषेदेवतापणे ऊपनातिहांजयंतविमाननेविषे  
 केतलाइकदेवतानी बलीससागरोपमनीआउखानीस्थितिकहीहं तिहांजयंतविमाननेविषेसहबल विनाछदेवतानीदेशे ऊणावती  
 ससागरोपमनीआउखानीधितिकहीहं महाबलनामादेवतानी प्रतिपूर्णपूरीबलीससागरोपमनी आउखानीधितिकहीहं तिवारे  
 तेमहाबलदेववरजीने छमितदेवताजयंतदेवलोकायकीजयंतविमानथकी देवतासंबंधीसागरोपमआउखाने बयन्नरीधितिदेवतासां  
 हिरहिवानीधितिनेचयेकरी देवतासंबंधीभवनेचयेकरी अंतरारहितच्यवनकरीने अथवाआंतरारहितचयंकहतां देवतासंबंधीशरी

पंचकेपश्चिमदिग्वर्त्ति इक्खागरायति इक्खाकूणां इक्खाकुवंशजानां अथवा इक्खाकुजनपदस्य राजासचकौसलजनपदोष्यभिधीयते अत्र योध्यानगरीतिअंगरायति अंगजनपदोयत चम्यानगरी एवंकाशीजनपदोयतवाणारसीनगरी कुणालायतआवखीनगरी कुणज्ज नपदोयतहस्तिनागपुरंनगरं पञ्चालायतकापिल्यंनगरं उच्चद्वाराण्डिण्डुति उच्चानिस्थानानि ग्रहाणामादित्यादीनांमेषादीनिदशा

यपत्तेयं२ कुमारत्ताएपव्वाथा तंजहापडिबुद्धा इक्खागराथा १ चंदच्छाएंअंगराथा २ संखेकासीरा  
था३ रुप्पिकुणालाहिवद्र ४ अदीणसत्त कुमराथा ५ जियसत्त ६ पंचालाहिवई ६ तएणंसे महव्व

रखांडीने एहिजजंबूद्वीपनामाद्वीपमाहे भरतक्षेत्रनेविषेविद्युद्धनिर्मलचोखो पितामातानोवंशछेजेहनाएहवा राजानाकुलनेविषे प्रत्येकजुदाएअलगाएकुमारपणे उपनाजण्या तेअनुक्रमेकहेछेपहिलामितनोजीवप्रतिबद्धकुमरडुवोइक्खाकुक०कौसलदेशनोअयो ध्यानगरीनोराजाथयो बीजामितनोजीवचंद्रच्छायनामकुमरथयो तेअंगदेशनोराजाथयो चंपानगरीनोठाकुरर लीजामितनो जीवसंखकुमरथयो कासीदेशवणारसीनगरीनोधणीथयो३ चोथामितनोजीवरूपीकुमरथयो तेकुणालादेशनोअधिपतिस्वामीथयो

दिषु विंशत्येकेष्वेवमवसेयानि अजटषष्टगंगनाकर्कमीनवणिजांशकेष्विनाद्युञ्जाः दशशिष्यत्रष्टाविंशतियौ १५ द्वित्रिषु त्रिघन २० विंशे  
 पुद्गति सोमासु इत्यादि सौम्यादिषु दिग्दाहाद्युत्पातवर्जितासु वितिमिरासु तीर्थंकरगर्भाधानानुभावेन गतान्धकारासु विसुद्धासु अत्र

त्वेदेवेति हिं णाणे हिंसमगणे उच्चद्वाराणगणसु गहेषु सोमासुदिसासु वितिमिरासु विसुद्धासु जइएसु  
 सउणे सुप्रयाहि णाणु कूलंसि भूमिसप्पिंसि मारुयंसि प्रवायंसि णिप्पस्सस्स भेइणीयंसि कालंसि मप

जिहांसावलीनगरीच्छे तेहनोठाक्कर ४ पांचमामितनोजीवअदीनशतकुमरयथो कुरुदेशजिहांहस्तिनापुरनगरच्छे तेहनोधणीययो ५  
 छट्टामितनोजीवजितशतकुमरयथो पांचालदेसनोअधिपतिस्वामीयथो जिहाकांपिल्यनगरच्छे ६ तिवारपच्छीतेमहावलदेवतामतिज्ञा  
 न १ श्रुतज्ञान २ अवधिज्ञान ३ एतिगज्ञानेकरी सहितच्छतोडं चाथानकठामप्रतेग्रह आदित्यादिकानेसेषादि राशिनीदशातिदशांशक  
 नेविषेसौम्यकारीदिशि दाहादिउत्पातरहितदिशि ऊतेच्छते तीर्थंकरनेगर्भसांहिअ्यावीजपजवाने महिमाइ अंधकाररहितदिशि यद्दे  
 छतेविशुद्धनिर्मलरजरहितदिशि ऊतेच्छते राजादिकानेविजयजयकारीयाशकुनपंखीया शब्दबोलतेच्छतेजिमकागवेतीन च्यारशब्दबो

रजस्वरत्वादिनाजयकेषु राजादीनांविजयकारिषु शक्रनेषुयथाकाकानांश्रावणेद्वित्विचतुःशवाः शुभावहाइतिप्रदक्षिणःप्रदक्षिणावर्तत्वात् अतुक्कूलशयःसुरभिशीतमन्दत्वात् सतथातत्वमारुतेवायौ प्रवातेवातुसारब्धे निष्पन्नसस्यामेदिनीभूर्धत्वकाले अतएवप्रसुदि तप्रक्रीडितेषुहृष्टेषु क्रीडावत्सुचजनपदेषु विदेहजनपदवास्तव्येषुजनेषु हेमंताणंतिशीतकालमासानां मध्येचतुर्थीमासःअष्टमःपक्षःकोसावित्याह फाल्गुनस्यशुद्धः शुक्लोद्वितीयइत्यर्थः तस्यफाल्गुनशुद्धस्यपक्षस्य चाचतुर्थीतिथिस्तस्याः पक्षःपार्श्वोद्धंरातिरिति

सुद्रप्रक्रीलिंगं सुजणवएसु अद्भरत्तकाल समयंसि अस्मिणीणक्वत्तंणं जोगसुवागणं जेसेहेमंता

लेतेशुभनाश्रापणहारारुद्धं प्रदक्षिणावर्त्तखट्टिपणाथकीअनुकूलसुखकारीजेक्केसुरभिशीतमंदवावापणाथकीभूमिसंघातेविस्तरतेप सरतेक्वतेएहवोतिहंमारुतक०वायरोप्रवातेक०वावाभणीआरंभेक्वतेनीपनीक्वेशस्यधान्यसालिगोड्डं प्रमुखमेदिनीष्टयवीजेकालनेविषे एतलेघणाधान्यष्टयवीमांहेनीपनाक्वजेकालनेविषेएकारणथकीजप्रसुदितहर्षवं तक्रीडाविनोदवंतक्वजेविदेहदेशनावासीलोकएहवशु खीडतेक्वतेआधीरातीमध्यरातीनाकालसमयनेविषेअग्निनीनक्षत्रसंघातेचंद्रमानो जोगआव्येक्वतेजेतेहेमंत सीयालानाचारमास

भावस्तत्रणमित्यलंकारे वाचनान्तरे सुगिह्याणंपदमेइत्यादिदृश्यते तत्रापिचैत्रसितचतुर्थ्यां मार्गशीर्षसिते कादस्यां तज्जननदिनेन वसातिरेकामासाः अभिवर्द्धितमासकल्पनयाभवं तीतितदपिसंभवति अतोतत्त्वंविशिष्टज्ञानिगम्यमिति अणतरंचयंचइत्तत्तिअव्य वहितंच्यवनंकुलेत्यर्थः अथवाअनंतरंचयंशरीरं देवसंबंधीत्यर्थः चइत्तात्यक्त्वा आहारेत्यादि आहारापक्रांत्यादेवाहारपरित्यागेन

णंचउत्थेमासे अइमेपक्खे तस्सणं फग्गुणसुइस्स चउथीपक्खेणं जयंताओ विमाणाओवत्तीसं  
सागरोवमद्धितीयाओ अणंतरंचयंचइत्ता इहेवजंबूहीवेरु भारहेवासे मिहिलाए रायहहाणी

मांहेचोथोमासआठमोपक्षफागुणशुदिमासतेफागुणमासनोउजुआलोवीजोपक्षतेफागुण मासनापक्षनीतिथिदिवसतेहनापक्षनी आंसध्यराविनेसमयजयंतनासामहाविमानयकीवली ससागरोपमनीआउखानीथितिपूरीभोगवीनेआंतरारहितच्यवनकरीनेअथ वातरारहितचयंक० देवतासंबंधीशरीरतजीनेएहिजजंबूहीपमाहेभरतक्षेत्रनेविषिमिथिलानामाराजधानीनगरीने विषिकुंभनामरा जानीप्रभावतीदेवीपट्टराणीहेतेहनीकूखिनेविषेगर्भपणेऊपनोअवतस्योतेजयंतविमानथकीचवीनेतेमहाबलदेवतासंबंधीआहारनेत्य



भवापक्रांत्या देवगतित्यागेन शरीरापकात्यावैक्रियशरीरत्यागेन अथवा आहारव्युत्क्रांत्या अपूर्वाहारोत्पादेन मनुष्योचिताहारग्रहणेनेत्यर्थः एवमन्यदपि पदद्वयमिति गर्भतथाव्युत्क्रांत उत्पन्नः मक्ष्णंति मालाभ्यो हितं माल्यं क्लृप्तं मंजातावेकवचनं अत्युपपत्त्यर्थं सि

एकुं भगस्स रसोपभावइएदेवीए कुच्छं सिगभत्ताए वक्कं तैताओ देवल्लोगाओ आहारवक्कंतीए भववक्कंतीए सरौरवक्कंतीए जाववक्कंतीए तंरयणिचणंपभावइदेवौ तंसितारिंसगंसि वासभवणंसि सयणिज्जंसि जाव अइवरत्तकालसमयंसि सुत्तजागराओ हौरमाणीइ इमेयाखुवेउरालेकल्लारणेसि

जवेच्छांडवेकरी अथवा अपूर्वमनुष्यनेयोग्य आहारनेलेवेकरी देवतानी गतिनेच्छांडवेकरी देवतासंबंधी वैक्रियशरीरनेच्छांडवेकरी यावत्प्राणीनी कूखिनेविषे गर्भपणंजपनोते रातिनेविषे प्रभावतीरांणीते पुण्यवंतने भोगविवायोग्य एहवावसवानाघरनेविषे एहवीशयनीय शब्दानेविषे सूतीच्छतीयावत्मध्ये रातिनाकालसमयनेविषे कांडूसूतीनिद्राकरतीकांडूजागती थोडीरनिद्राकरतीच्छती एहवाउदार प्रधानकारीयाकल्याणकारीया उपद्रवनानिवारणहारा मागल्यनाकरणहारा सस्त्रीकसोभाकारीया एहवाएहवा

वेधणे अंगलेसखिरीयेचउद्दसहासुमिणे पासित्ताणं पडिबुद्धांतजहागय१वसहर२ सौहृद्दत्रभौसेय४  
 दामधूससिद्ध दिणयरं७ अयंट कुंभं६ पउमसर१० सागर११ विमाण१२ भवण१३ रयण, च्विय१४  
 सिहंच१५ तएणं सापभावईदेवी जेणेवकुंभएराया तेणेवउवागच्छइ२त्ता जावअत्तारकहणं सुम  
 णपाठगपुच्छाजावविहरंति तएणं तीसिपभावईदेवीए तिरुहंमासाणं बहुपडिपुसाणं इमेयारूवे

चोदखप्ताप्रतेदेखीनेजागी तेहनानामकहेछेहाथी१ दृषभवलहर सौहृदलक्ष्मीदेवता४ फूलानीमाला५चंद्रमा६ दिनकरसर्वदध्वजाट  
 कलस६ पद्मसरोवर१० सागरसमुद्र११ जेदेवताआहिथीआवीगर्भमांहे जपजेंतेहनीसाताविसानदेखे जेनरकमांहिथीअेणिकादि  
 कनीपरेआवीगर्भमाहिआत्रीजयजें तेहनीमातानारकीनोषरदेखे रत्ननीराशि१३ शिखानिर्झू साग्नि१४ स्वप्नदौठातिवारेचउदसु  
 पनदौठापछीतेप्रभावतीराणी शक्यायकीजठीनेजिहाकुंभराजाछे तिहांआवेआवीने यावतअनुक्रमेभर्तारबुं कहिवं चउदसुपनानो  
 राजाप्रभातकालेजठीअमकरी अंगमर्दनकरावीस्वप्नपाठकस्वप्नशास्त्रना जांणप्रतेतेडावीनेस्वप्ननाफलपछीने तीर्थंकारचक्रवर्तीकुस्यं

तिआसृतेआच्छादितेप्रत्यवसृते पुनःपुनराच्छादिते इत्यर्थःशयनीयेनिषिखानिविष्नासुप्ताःसिरिदामगंडंतिश्रीदाम्नांशोभा

डोहलेप्राडभभूए धसाओणं ताओअमसाओ जाओणं जलयथलयभासुरपभूएणं दसद्ववखेणं मक्षेणं  
अच्छु यपच्चत्युयंसि सयणिज्जंसि सखिसखाओ सयणुवसाओयविहरंति एगंजमहंसिरिदामगंडं

इत्यादिफलकह्यो घणाद्रव्यदेईसनमानीने स्वप्नपाटकानेसीखदीधीहिवे कुंभराजाप्रभावतीरांणीसुखेसमाधिइं मसुष्यनेचोग्यभोग  
भोगच्छताच्छताविचरेच्छे तिवारपच्छीतेप्रभावतीरांणीने त्रिणमाससंपूर्णप्रतिपूर्णप्राथयेच्छते एप्रत्यच्छडोहलोप्रगतययोधन्यतेपुलनीमा  
ताजेजलनाऊपनाथलभूमिनाऊपनाभासुर देदीप्यमानतेजवंतप्रभूतघणाएहवा दशाद्दुर्बणंपंचवर्णीएहवा मालाभर्णीहितकारीते  
माल्यकहतांफलकुसुमतेणंपंचवरणेफलेकारी आद्याद्याढांकापञ्चत्ययंसिवारंबारबलीरढांका ऊपराऊपरएहवीशयनीयशज्याच्छय  
रखाटनेविषे भलीपरेनिषणवेठीच्छतीमननामनोरथपूरतीच्छती विचरेच्छेतेपुलनीमाताधन्यतथाते छप्परखाटऊपरवैठीसूतीच्छतीएक  
बलीसोटोसिरिदामगंडक० श्रीशोभवतीदाममालानाकांडसम्बुहच्छे अथवागंडक० दडोकहिंयेतेदडासरिखोजेतेगंडकाहीयेतेसोभवती

वन्मालानांकांडंसमूहःश्रीदामकांडंअथवागंडोदंडःतद्वदत्तङ्गंउएवोच्यतेश्रीदान्वांगंडःश्रीदामगंडःपाटलाद्याःपुष्पजातयःप्रसिद्धाःनवरंमल्लिकाविचकिलःसरुवकःपत्रजातिविशेषःअणोज्जित्तिअनवद्योनिर्दोषःकुञ्जकःशतपत्रिकाविशेषःएतानिप्रचुराणिवत्तत्तथापरसशुभदर्शनीयपरमसुखदर्शनीयवासहयागंधद्विगुणिसुयंतंतिमहताप्रकारिणगंधघ्राणिंसुरभिगंधगुणंलसिंहितुंपुङ्गलसमूहमंचत्त्राजि

पाडलप्रह्लियचंपगासोगपुखागमरुयदमरणअणोज्जकोरंउपत्तवरपउरपरमसुहृदरसणिज्जंमहयागंधद्विगुणिसुयंतंअघायसाणीओडोहलंविणैति तएणंतौसिप्रभावतीएदेवीएइमेयारूवं

मालाङ्करीसहितच्छेजेदडोएहवाएकसोटादडाप्रतेतेदडोकेहवोच्छेपाडलनाफलमालतीनाफलचापाअसोगपुन्नागजातिफलविशेषमरुयानापानडादमणानाफलअनवद्यनिर्दोषफलविशेषकुवजसोपानडाविशेषकोरंउद्वज्जनापांनडाएतलावरप्रधानप्रचुरधणाफलपानडाच्छेजेदडानेविषेएहवोपरमउत्कष्टोषणोष्णुभमलंसुखकारीदेखिवूंजोइवूंछेवलीतेकेहवोच्छेदडोमहताघणंप्रकारिकरीगंधद्विगुणिसुरभिगंधगुणसंतोषनाकारणभणीसुगंधपुङ्गलनासमूहप्रतेसूक्तोच्छतोएहवादडाप्रतेसूघतीच्छतीपोतानाडोहलाप्रते

प्रत्युत्पिप्रत्यः कुंभगासोयत्ति कुंभपरिमाणतः भारगसोयत्ति भारपरिमाणतः आरोधोरोवंति अनावाधाभाता अनावाधंतीथंकरं अहो

डोहलंप्राउभ्यूंप्रासित्ता अहाससिंहिया वाणवंतरादेवा खिष्पामिवजलयथलय जावदसद्वस्म  
 ल्लं कुंभगासोय भारगासोय कुंभगसरसो भवणंसिसाहरसिएगंचणं महंसिदिदामगंडजादगंध  
 द्विणिसुयंतंभवणं ति तएणं साप्रभावईदेवी मह्लेणं दोहलंविणेति तएणं साप्रभावईदेवी प्रसत्यदोह

टालतीछेतेपुत्रनीमाताधन्यएहवोडोहलोऊफनोछं तिवारपछीतेप्रभावतीराणीने एहवाडोहलाप्रगटथयाप्रते देखीनेअथहिदेआस  
 न्निकाकहताषण्जदूकडाष्टथवीमाहे हेठाथ अंतरदेवतावसेछे समीपवर्तीवाणव्यंतरदेवताअवीने ततकालउतावलाजलपाणी  
 नानीपनाथलभूमिनाऊपनाएहवायावत् पांचव मालाभणीहितकारीया माल्यफुलतेप्रतेषडाकलशपरिमाणथकी सोटाएहवा  
 भारपरिमाणथकीसोटाएहवा कुंभराजानाघरनेवि. साहरेदृष्टिकरे पछेतेणेफुलेकरीएकसोठोअ्रीदामना मादहाप्रतेयावतंगंध  
 निमुरभिगंधनागुणप्रतेसूं कतोएहवादडाप्रतेनीपजाविकरीनेराणीनेआपेतिवारतेप्रभावतीदेवीरांणीछप्परखाटकपरवैठीसतीछती

लाजावविहरई तएणं सापभावरईदेवौ एवएहंमासाणं बज्जपडिपुखाणं अद्दुद्दुमाणराइं दयाणं जेसे  
हेमंताणं पढमेमासे दोच्चेपक्खे मग्गसिरसुद्धे तस्सणं मगसिरसुद्धस्स एक्कारसौदिवसेणं पुव्वरत्तावर  
त्तकालसमयंसि अस्सिणीणक्खत्तेणं जोगसुवागएणं उच्चङ्गाणएसुग्गहेसु जावपसुइयपक्कीलिए

श्रीदामदडाप्रतेसू धतीच्छे तिवारपच्छीतेप्रभावतीरांणीजलनाजपना थलनाफूलेकरीश्रीदामदडानेसू धवेकरी दोहलाप्रतेसंपूर्णकरे  
तिवारपच्छीतेप्रभावतीराणी प्रशस्तभलाउत्तमदोहलासंपूर्णकरी सुखसमाधिइं विचरेच्छे तिवारपच्छीप्रभावतीरांणी नवमाससंपूर्णप्र  
तिपूर्णापरसाढासातदिवसरालि व्यतिक्रमेगयेच्छतेजेतेसीयालानाचारमासमाहे प्रथमपहिलोमासबीजोपच्च ष्टगशिरसुदि  
तेष्टगशिरनाउज्जआलापच्चना इय्यारसनादिवसनेविषे मध्यरातिनासमयनेविषे अश्विनीनक्षत्रसंघातेचंद्रमानो जोगआव्येच्छते उ  
चाथानकठामप्रतेग्रहआदित्यादिकाने मेषादिलग्नप्रतेआवेच्छते यावत्घणाधान्यष्टथिवीमाहे नीपनाच्छेतेकारणथकीविदेहनावासी  
हर्षवंतकीडावंतविनोदवंतलोकउतेच्छते आनाधारहितमाताच्छे आवाधापीडारहितएश्वो एगूणवीसमोतीथंकरप्रतेजणेप्रसवेतेका

लोयवत्यव्या उक्ति गजदंतक्रानामधो अधोलोकवासव्या अष्टौदिकुमारीमहत्तरिकाद्दूहचावसरे वदभिधेयंतन्महत्तोत्रं यस्य त्रिशेषयद्  
 तिलत्वासंज्ञेपार्थमतिदेशमाह जहाजंबूद्वीवपण्त्तीए जस्मणंसम्बंति यथाजंबूद्वीपप्रज्ञत्यासामान्यतो जिनजन्मोक्तं तयामस्त्रीतीर्थद्वतो  
 जन्मे तिजन्मवक्तव्यतासर्वावाच्ये ति नवरमिहमिथिलायांनगर्यां कंभस्तराज्ञःप्रभावत्यादेव्या इत्ययमभिलापः संयोजयितव्योजंबू

सुत्रणवएसुआरोगारोगेणक्वेषितिसंतिमित्ययंपथायातेणंक्वाल्लेणं तेणंसमएणं अहोलोगवत्यव्या  
 ओअद्रुदिसाकुमारियमहयरियाओ जहाजंबूद्वीवपण्त्तीए सव्वंजस्मणं भाणियव्वं णवरंसहिलिया

लनेविपेतेसमयनेविषेगजदंतापर्वतानेहेठलिप्रधोलोकनीवसण हारीआठदिशाकुमारीचारदिशिअनेचारविदि शियकीदेवांगना  
 आवेजन्मसहोत्पवकरवानिसित्त प्रथमआठमहत्तरिकाअशुचिकर्मपरिचरे बीजीआठगंधोदकसुगंधपाणीनीदृष्टिकरे लीजीकुमा  
 रिकासहत्तरिकाधीजणेवायकरे चोथीआठकुमारिकाआठभारधरे आठचामरधरे आठअारीसाधरे चारकुमारीदीवाधरे चारर  
 छाकरेण्वंप्रुद्धिसाकुमारी जिमजंबूद्वीवपन्नत्तीसूतनेविषे सामान्यप्रकारयकी तीर्थंकरदेवनोमहोत्पवकस्योच्छे तिममस्त्रीतीर्थंकरनो

हीपप्रज्ञात्पुनार्यविद्युतइति किंपर्यवसानंजन्यंक्तथ्यं इत्यतआह यावन्नं दीश्वरेमहिमेति अनिर्दिष्टग्रन्थ आर्थतएवंद्रष्ट्योयथाअष्टौ  
दिक्कुसारीसहत्तरिकाः भोगंकराप्रसूतयस्तत्त्वमयुपजातसिंहासनप्रकस्याः प्रयुक्तावधिज्ञानाः समवसितैकोनविंशतितनतीर्थना  
यजननात् संसंभ्रमसमुष्ठितं समवायाः समस्तजिननायकजन्मसुसहामहिमविधानसखाकं जीतमितिविहितनिश्चयाः स्वकीयस्वकी  
याभियोगिकदेवविहितदिव्यविमानारूढाः सामानिकाविपरिकरवृत्ताः सर्वद्वामिस्त्रिजिनजन्मनगरीमागत्य जिनजन्मभवनंयानवि  
मानैस्त्रिःप्रदक्षिणीकृत्य उत्तरपूर्वस्थांदिशियानिविमानानि चतुर्भिरंगुलैर्भुवमप्राप्तानि व्यवस्थाप्यजिनसमीपं जिनजननीसमीपंच

एणररीए कुंभरायस्सभवणं सिपभावइएदेवीए अभिलावोजोएयव्वो जावणं दीसरवरदीविमहिम्मात

जन्मसहोत्सवसगलोकहिवो परंइहांमस्त्रिनाथनाअधिकारनेविषे एविशेषकेतेकहेक्कें सिधिलानगरीनेविषे कुंभराजानाघरनेविषे  
कुंभराजानीभार्याप्रभावतीराणीनोए अभिलापएअधिकारइंहांजोडिवो जंबूदीवपन्नत्तीसूत्रनेविषे मस्त्रिनाथनोनामलेईजन्मसहो  
त्सवनोअधिकारकक्ष्योनथी एविशेषजांणवोइहांनामजुदोके यावतचोसठिइंइंद्रमिलीनेनंदीसरवरद्वीपनेविषे जईजन्मसहोत्सव्नोमहि



गत्वा त्रिः प्रदक्षिणी द्वात्यक्तप्रजलिपुटाद्द्रववादिषुः नमोस्तु ते रत्नकुक्षिधारिके नमोस्तु ते जगत्प्रदोपदायिके वयमधोलोकवास्तव्या  
 दिक्कुमार्योर्जिनस्य जन्मसहिमानं विधास्यामो अतोयुष्माभिर्नभेत्तव्यमिति अभिघायचविहितहितसंवर्त्तवाताः जिनजन्मभवनस्यस  
 संताद्वोजनपरिमण्डलेक्षेत्रस्य तृणपत्रकचवरादेरशुचिवस्तुनोऽपनयनेन शुद्धयोजिनजनन्योरदूरतो जिनस्याअसाधारणमगणित  
 गुणगणमागायंत्यसास्युः एवमेवोर्द्धं लोकवास्तव्या नन्दनवनकूटनिवासिन्यद्भृत्यर्थः अष्टौ दिक्कुमारीमहत्तरिकास्तथैवागत्य विरचितता  
 भ्रवर्द्धलकात्रायोजनमानक्षेत्रं गन्धोदकवर्षं च पुष्पवर्षं च धूपघटीश्चकृत्वा जिनसमीपमागत्य परिगायंत्यः आसाचक्षुः तथापौरस्यरुचक  
 यास्तव्यारुचकाभिधानस्य तयोदशस्य द्वीपस्य मध्यवर्त्तिनः प्राकाराकारेण मण्डलव्यवस्थितस्योपरि पूर्वं दिक्व्यवस्थितेष्वष्टासुकूटेषु क  
 तनिवासाद्भृत्यर्थः आगत्य तथैवादर्शहस्तागावंत्यसास्युः एवं दक्षिणरुचकवास्तव्या जिनस्य दक्षिणेन भृङ्गारहस्ताः पश्चिमरुचकवास्तव्या  
 जिनस्य पश्चिमेन तालवृन्तहस्ताः उत्तररुचकवास्तव्या चामरहस्ताः जिनस्योत्तरेण एवं च तस्त्रोरुचकस्य विदिग्वास्तव्या आगत्य दीपिका  
 हस्ता जिनस्य चतसृषु दिक्षु तथैव तस्युः तथामध्यमरुचकवास्तव्यारुचकद्वीपस्याभ्यन्तरार्द्धं वासिन्यद्भृत्यर्थः चतस्रस्तास्तथैवागत्य जिनस्य  
 चतुरंगुलवर्जं नाभिनालच्छेदनं च विवरखननं च नाभिनालनिधानं च विवरस्य रत्नपूरणं च तदुपरि हरितालिकापीठवन्धनं च पश्चि

मावर्ज्यं दिक्त्वयेकदलीगृहत्वयंच तन्मध्ये षतुःशालभवनत्वयंच तन्मध्ये देशे सिंहासनत्वयंच दक्षिणे सिंहासने जिनजनन्योरुपवेशनंच शत  
 पाकादितैलाभ्यञ्जनञ्च गन्धद्रव्योद्वर्तनंच पूर्वतपुष्पोदकगन्धोदकशुद्धोदकमज्जनंच सर्वालङ्कारविभूषणंच उत्तरतगोशीर्षचन्दनकाष्ठै  
 र्विद्धिउज्ज्वलनंचाऽग्निहोमंच भूतिकर्मसंच रक्षापोट्टलिकाच मणिमयपाषाणहयस्यजिनकर्णार्थ्यणै प्रताडनंचभवति भगवान्पूर्वतायु  
 रितिभणनंच पुनःसमाटकजिनस्य स्वभवननयनंच शय्याशयनंचचक्रुः कृत्वाचागायत्यसास्थुरिति सौधर्मसंकल्पेश्चशक्रस्यसहस्राश्चा  
 सनंप्रचक्रुपे अवधिवचासौप्रयुं जेतोर्थंकरजन्मचानुलोके ससंभ्रमंचसिंहासनादुत्तस्थौ पादुकेचनुमोच उत्तरासङ्गंचचकारसप्ताष्टा  
 निचपदानितोर्थंकराभिसुखसुपजगाम भक्तिभरनिर्भरो यथाविधिजनंचननामपुनः सिंहासनसुपविवेशः हरिणेगमेषिदेवंपदात्य  
 नीकाश्रिपतिंशब्दयाचकारतमादिदेश तथासुधर्म्यायासभाया योजनपरिसण्डलासुषोषाभिधानांघण्टां त्रिस्ताडयन्नुहोषणाविधेहिच  
 यामोभोदेवागच्छतिशक्तो जंबूद्वीपंतोर्थंकरजन्ममहिमानं कर्तुमतोययंसर्वं समृद्ध्याशीघ्रं शक्रस्यातिकेप्रादुर्भवतेति स्तुतयैवचकार  
 तस्यांचघण्टाया ताडितायामन्यान्येकोनद्वाविंशद्घण्टालक्षाणिसमकमेवरणरणारवंचक्रुः उपरतेचघण्टारवेधोषणामुपमृत्ययथादिष्ट  
 देवाःसपदिदिदधुः ततोपालकाभिवानाभियोगिकदेवविरचिते लक्षयोजनप्रमाणे पञ्चिमावर्ज्यं दिक्त्वयनिवेशितोरणद्वारेनानाम

णिमयखमञ्जरीरञ्जितगगनमण्डले नयनमसामतिप्रमोददायिनि मङ्गाविमानेऽधिरूढः सामानिकादिदेवकोटिभिरनेकाभिः परिह  
 तः पुरः प्रवर्तितपूर्णकलशसङ्कारच्छत्रपताकाचासराद्यनेकमङ्गल्यवस्तुसोमः पञ्चवर्णकुण्डलिका सहस्रपरिमण्डितयोजनसहस्रोच्छ्रित  
 सहेन्द्रध्वजप्रदर्शितसागेरिन्दौश्वरद्वीपे दक्षिणपूर्व रतिकरपूर्व ते कृतावतारो दिव्यविमानर्द्धिसुपसंहरन् मिथिलानगरीं आजगा  
 मविमानारूढएथ भगवतो जिनस्य जन्मभवनं त्रिःप्रदक्षिणीकृतवान् उत्तरपूर्व स्यां दिशि चतुर्भिरंशुलैर्भुवमप्राप्तं विमानमवस्थापितवा  
 न्ततोवतीर्धभगवन्तं समाह्वयं दिक्कुसारीवदभिवंशजिनमातरमवस्थाप्य जिनप्रतिबिम्बं तत्पुत्रिण्यौ निधायपंच भ्रातानमाधाय एकेन  
 रूपेण करतलपल्लवावष्टतजिनः अन्ये नजिननायकोपरिविष्टच्छत्रः अन्यान्याकरचालितप्रकीर्णकः अन्ये नचकारकिसलयकलितकुलि  
 याः पुरः प्रगन्तासुरगिरिशिखरोपरिवर्त्तिपंडकवनंगत्वा तदव्यस्थितातिपांडुकं बलाभिधानशिलासिंहासने पूर्वाभिमुखो निषण्णः एवम  
 न्ये ईगानादयो वैमानिकेन्द्राश्च मरादयो भवनपतीन्द्राः कालादयो व्यन्तरेन्द्राः चन्द्रसूर्यादयो ज्योतिष्काः सपरिवाराः मंदरेव तेरुः तत  
 थाच्युतदेवराजो जिनभिषेककथ्याभियोगिकदेवानादिदेश ते चाष्टसहस्रसौवर्णिकाना कलसानामेवंरूपयमानां मणिमयानां एवं  
 द्विकसंयोगवतां तीक्ष्णसहस्राणि त्रिसंयोगवतामष्टसहस्रं भौमेयकानां च तथाष्टसहस्रं चंदनकलसानां सङ्काराणामादर्शानां तथा

नांसन्येषाचविविधानामभिषेकोपयोगिनां भाजनानामष्टसहस्रं विचक्रुः तैश्चकालयादिभाजनैः क्षीरोदकस्यसमुद्रस्यपुष्करोदकस्यचमा  
 गधादीनाच तीर्थान्यमाचगंगादीनाचमहानदीनां पद्मादीनांमहाङ्गदानामुदकसुत्पलादीनि सृत्तिकांचहिमवदादीनाचवर्षधरा  
 णाचवर्तुलविजयाङ्घ्रीनाच पर्वतानाभद्रशालादीनांचवनाना पुष्याशिंगवान्सर्वौषधीः तुंबराणि सिद्धार्थकान् गोशीर्षचंदनंच  
 निन्युः ततोऽसावच्युतदेवराजोऽनेकेः सामानिकादिदेवप्रहस्रैः सहजिनपतिसभिषिपेच अभिषेकेचवर्तमाने इन्द्रादयोदेवाः क्लृप्त  
 चाभरकलशधूपकलसकाडच्छुकु पुष्पगंधाद्येनेकविधाभिषेकाद्रव्याग्रहलाः वज्रमूलाद्येनेकाशुषसंन्धतन्धुरपाणयः आनन्दजलसवसु  
 तागण्डस्थलाः ललाटपट्टवटितकरसंपुटा जयजयारवसुखरितदिगन्तराः प्रमोदमदिरामन्दमदवशविरचितविविधचेष्टाः पशुपासांच  
 क्रिरेतथाकेचिच्चरुर्विधवाद्यं वादयामासुः केचिच्चतुर्विधेयंपरिजगुः केचिच्चतुर्विधंघृत्तंनष्टतुः केचिच्चतुर्विधमभिनयमभिनित्युः  
 केचिह्वात्रिंशद्विधंनान्यविधिसुपदर्शयामासुरित ततो गंधकाषाधिकयागात्रायलूषयन् ततश्चाच्युतेन्द्रोसुकुटादिभिर्जिनमलंचकार  
 ततो जिनपतेः पुरतोरजतमचतंडुलेर्दंष्ट्रादीन्यष्टाष्टमंगलकान्यालिलेख पाटलादिबहुलपरिमलकलितकुसुमनिकरं व्यकिरन सुभसु  
 रभिगंधबंधुरंधंपंपरिददाह अष्टोत्तरेणष्टयतेनच सन्तुष्टसुष्टावनमोस्तुते सिद्धबुद्धनीरजः अमणसमाहितसमसायोगिन् शल्यकर्तन

निर्भयनीरागद्वेषनिर्झंसनिःशल्प निःसंगमान्पूरणगुणरत्नशीलसागर अनन्तप्रसेधोभव्यधर्माधरचतुरंगचक्रवर्त्तिन् नमोऽस्तुतेऽहं  
 तेनमोऽस्तुते भगवते इत्यभिधायवंदतेऽस्य ततोनातिदूरे स्थितः पशुपासनाचक्रे एवं सर्वेष्यभिषिषे च्युःकेवलं सर्वतैः शक्रोऽभिषिक्तवान्तुतद  
 भिषे कावसरेचरैः गानः शक्रवदालानं पंचधाविधायजिनस्योत्सं गधारणादिक्रियामकरोत् ततः शक्रोजिनस्यचतुर्दिशिचतुरोधवल्लवष  
 भान् विचकार तेषाचमृंगाग्नेऽष्टौ तोयधारा युगपद्विनिर्धयुः वेगेनचसमुत्थेतुः एकत्रचमिलंतिस्म्य भगवतोमूर्द्धनिचनिपेतुः शेषमच्युते  
 द्रयदसावपिचकार ततोऽसौपुनर्विहितपंचप्रकाराला तथैवगृह्णीतजिनश्चतुर्निकायदेवपरिवृतः ह्यनिनादाप्रृितांवरतलोजिननाय  
 कंजिनजनन्याः समीपेस्थापयामास जिनप्रतिविम्बमवस्थापंचप्रतिसंजहार चौमयुगलंकुं डलयुगलंच तीर्थकरस्योच्छीर्षकाम्बलेस्थाप  
 यतिस्मश्रोदासकांडकंच नानामणिसयंजिनस्योत्सोकेदृष्टिनिपातनिमित्तरमणीयं निचिच्छेप ततः शक्रोवेअमणमवादीत्भो देवानां प्रि  
 यद्वात्तिंशद्विरग्यकोटीर्वात्तिंगत्सुवर्णकोटीच जिनजन्मभवेसंहरतदादेशाच्च जृम्भकादेवास्त्रयवचक्रुः शक्रः पुनर्देवैजिनजन्मनगर्थी  
 तिकादिष्वेवंधोषणंकारयामास यथाभोभोभवनवास्यादिदेवाः शृण्वं तुभगवन्तोयथायोजिनेजिनजनन्यांवाअशुभंमनःसंप्रधारयतित  
 स्थार्ज्ज्वकमञ्जरीव सप्तधाच्छूर्वास्तुतु ततोदेवानन्दीश्वरेमहिमानं विदधुः स्वस्थानानिचजगत्सुरिति मालायैहितं तत्रवासाध्वितिमा



एभगवत्यादिगाथाद्वयं ब्रावण्यकनिर्युक्तिस्वन्धिऋषभसहावीरवर्णकरूपं वड्विशेषणानिसाधस्यार्दिहाधीतं नपुनर्गाथाद्वयोक्तानिविशे  
 पणानिसर्वाणि महिजिनस्थघटं ते एतच्च दर्शयिष्यामः तच्च सावर्द्धं ते वृद्धिसुपगच्छति स्म भगवती ऐश्वर्यादिगुणयोगात् देवलोकाच्युतानु  
 त्तरविमानावतीर्णत्वात् अनुपमश्रीकानिरूपमानशोभा दासीदासपरिवृतेतिप्रतीतं परिकीर्णापरिकरितापीठमर्द्धव्यस्यैरित्येतत्किल

संजावणामकरणं जरुहाणं अरुहं इमैसिदारिया एसाडगभंसि वक्त्रसयणीयंसिडो हलं

नीयज्याने विपेसती छती दोहलो पूर्णकस्यो तेकारण्यकी जन्मपणं करी साचा अर्थयकी बोला विवायकी हो उहोथा अनोना मेमस्त्री नामयापेजि  
 ममहावलभगवतीसूत्रमां हे भहानलकह्यो के इहां एसूत्रमध्ये जिममेवकुमरवृद्धिपां मेके तेमहावलमेवकुमरनीपरेतेपुलीवधती के तेमह्नि  
 कुमरीवृद्धिप्रतेपामती के भगवती ज्ञानवती के संपूर्ण ऐश्वर्यादिगुणनायोगयकी बलीतेकेहवीके देवलोकायकी चवीके जयतनामा अलुत्तरवि  
 मानयकी बलीतेकेहवीके अनुमश्रीकानिरूपमानसोभासंसारमां हे उपमारहितशोभाके जेपुलीनीके वलीतेकेहवीके दासीदासेकरीपरि  
 वरीकेहवीके परिवरीके पीठमर्द्ध कहतां ? मिततेणे करी एमितपणोस्त्रीने संभवेन हीमितवाणीस्त्रीयाने जतेस्त्रीयाने हो

प्रायः स्त्रीणामसम्भविष्यत्कानामेवतासासंभवात् अथवालौकिकचरितत्वेन पीठमर्दसंभवेपिनिर्दूषणत्वेन भगवत्यानेदंविशेषण  
 संभवतीतिअसितशरोजाकालकुंतलासुनयनासुलोचना त्रिखोष्ठीपक्वगोल्हाभिधानफलविशेषाकारौष्ठी धवलदंतपंक्तिकापाठा  
 न्तरेधवलदंतत्रेणिकावरकमलगर्भगौरीत्येतद्विशेषणं नसंभवतितस्याः कमलगर्भस्यसुवर्णवर्षत्वात् भगवत्याच्चमल्याःप्रियंगुवर्षत्वेन  
 ख्यामत्वादुक्तंचपउसामभावसुपुञ्जारत्ताससिपुफदंतससिगोरा सुव्यनेमीकालापासोमस्त्रीपियंगामन्ति अथवावरकमलस्यप्रधानहरि

सिविणीए तंहोउणंणामेणं मस्त्रीणामंठवेइ जहामहावलोजावपरिवड्डिया सावड्डइभगवईदेवलो  
 यचुयाअणो वअसररीरा दासीदासपरिबुडा परिक्खियापीठमद्देहिं १ असियसिरयासुणयणाविं

वायकीअथवाअलौकिकचरितपणेकरीमित्वांसंभवउतेछतेएनिर्दूषणपणेकरीमस्त्रीकुमरीनेविशेषघटेजमितेपरीवरीछेतेविशेषघटे  
 असितकालासिरोजामाथानकेयच्छेजेभगवतीनासुष्टभलानयनलोचननेतच्छेजेमस्त्रीनाविंवोष्ठीकहतांपाकागोल्हानामाफविसेसतेपा  
 कागोह्लासारिखाराताहोठच्छे जेहनातथाधउलादातानीपंक्तिअणिच्छेवरप्रधानकमलनासरिखोकोमलसुकोमलअंगशरीरच्छेजेमस्त्री



शस्यगर्भद्रवगर्भोजठरसंभूतत्वसाधस्यीत् वरकमलगर्भः कसूरिकातद्वन्नौरी अत्रदातावरकमलगर्भगौरी श्यामवर्णत्वात्कसूरिकायाः श्यामेत्यर्थः पाठांतरेणवरकमलगर्भवर्णा तत्रापिश्यामवर्णेत्यर्थः वाचतान्तरेणवरकमलकोमलंगीत्यनवद्यमेव फुल्लं विकसितं यदुत्पलं नीलोत्पलादि तस्ययोगंधस्रहन्निःश्रासो गंधसाधस्यीद्विद्याः सातथासुरभिनिःश्रासेत्यर्थः पातंतरेणपउमप्यलगंधनीसासत्तितत्वप्र

बोद्धीधवलदंतप्रतीया वरकमलकोमलंगी फुल्लप्यलगंधणीसासा तएणंसामस्र्वीविदेहरायवरकसा  
उमुक्त्वालभावा जावरूवेण जोव्वणेणय लावणेणय अईवर् उक्किट्टसरीरा जायायावि

कुमरीनो फल्लक० विकास्यो जेत्यलनीलोत्पलादिकमल तेहनोजेगंधतेसरिखोनिःश्राससासो सासच्छेजेमस्र्वीकुमरीभ  
गवतीनोएतलेकमलनागंधसारिखोसुरभिनिःश्रासच्छे तिवारपच्छीतेमस्र्वीकुमरीविदेहा मिथिलानगरैनादेशनोराजा कुंभराजाते  
द्वनीवरप्रधानकन्यापुत्रीच्छे जेतमस्र्वीउत्कृष्टपुंगेकरीसुक्तस्र्वं क्योच्छे तज्योच्छेवालभावपुणुं जेणीद्वं एहवीथईच्छती यावत्स्र्वेपेकरीयौवन  
वयेकरी यावत्लावण्यनेपुणेकरी अतीव? षणुंजररूपादिगुणेकरी उत्कृष्टीथईएतलेस्र्वं कच्छं उत्कृष्टशरीरघणोमोठीयातीच्छेइतिवा

स्यं शतपत्वादिगंधद्रव्यविशेषोवा उत्पलं नीलोत्पलमित्यादि उत्पलकुष्ठं चगंधद्रव्यविशेष इतिविदेहरायवरकण्टि विदेहोमिथिलान गरीजनपदस्य राजाकुंभकस्यवरकन्यायासातथा उक्किष्ठाउक्किष्ठसरीरतिरूपादिभिस्कुट्टाकिसुक्तम्भवति उग्लष्टशरीरितिदेसूण

होत्था तएणंसामक्षी विदेहरायवरकस्या देसुणवाससयंजाया तेच्छप्पियरायाणोविउलेणंओहि  
णाआभोएमाणीर विहरइतंपडिबुद्धीजावजियसत्तु पंचालाहिर्वईतएणंसामक्षीविदेहरायवरकस्या  
कोडुंविचपुसिसे सहविइरत्ता एवंवयसो गच्छहणंतुभे देवाणुप्पिया असोगवणियाए एगंसहं

रपक्षीतेमक्षीविदेहाज०मिथिलानगरीनो विदेहदेशतेहनोराजाकुंभराजातेहनी वरप्रधानकन्यापुत्रीकेजेते देशेजणावर्षशतसोवर सथयाके जेमक्षीकुमरीनेएहवीसोवरसनी माठेरीयईच्छतीतेपाच्छिणामवनाक्कप्रियवक्षममित्त राजानतेप्रतेविपुलविस्तीर्णंसंपूर्णपूरो एहवेअवधिज्ञानेकरी जोतीच्छतीदेखतीयकी विचरेच्छेरेहेच्छेतेप्रथमप्रतिबुद्धीराजाआदिदेई यावत्जितशत्रुराजापांचालदेशनोअधि पतिठाजुरक्केएकराजाप्रते जोतीच्छतीविचरेतितारपक्षीतेमक्षी विदेहामिथिलानगरीनो देशतेहनोराजातेहनीवरप्रधानकन्यापुत्रीके

वाससयजायत्तिदेशो न वर्षगतं जातं यस्याः सातथासो हणघरयंति संमोहोत्पादकं गृहं रतिगृहं वा गभघर एत्ति संमोहन गृहस्य गर्भभूतानि  
 वासभवना नीतिकेचित् जालघरयंति दाव्वीदिमयजालप्रायकुड्यं यत्र मध्यव्यवस्थितं वस्तु वह्निः स्थितैर्दृश्यते सेजहायाम एअहिमड् इवत्तिस

मोहणघरं करेह अणेगखंभसयससिखिविठुं तस्खणंमोहणघरस्य बहुमज्जकदेसभाए छगभभघरएकरेह  
 तेसिखुंगभभघरगाणं बहुमज्जकदेसभाए जालघरयंकरेह तस्खणंजालघरस्य बहुमज्जकदेसभाए मणि  
 पिठियंकरेह तेवितहेवजावपच्चप्पिणंति तएणंमल्लोमणिपीठियाए उप्पिं अप्पणेसरिसयं सरित्तयं

जेते कौटंभिक आदेशकारी पुरुषां प्रतेते डावेते डावीने इमकहती हइजाओतुहे अहो देवानुप्रिय अशोकवनिता अशोकवाडी मां हि एक  
 मोटो मोहनो उपजावणहारो रतिमुखकारी एहवामोहनघरप्रतेकरो अनेकघणायाभा नार्सईकडातेणे करीवींछोसहितके तेमोहन  
 घरना नज्जमध्यदेशभागनेविषे छगर्भभूतवसवानाच्छघरप्रते तेछगर्भघरनेमाहि वज्जमध्यदेशभागनेविषे काथादिमयजालघरकाथादिको  
 राधीजालघरप्रतेकरो तेजालघरना नज्जमध्यदेशभागनेविषे मणि रत्नीपीठिकापेठीप्रतेकरो पच्छेते आदेशकारी पुरुषप्रतिमजमोहनघ

सरिसवयं सरिसलावसुजोवसुगुणोववेयं कणगमयंमत्थएच्छिद्रियं प्रउमप्लपिहायं प्रडिमंकरेद्र  
इत्ता तएणंसाभस्त्रीविदेहरायवरकथा अणयकयाइं जेविपुलंअसणंपाणं खाइमंसाइमं आहारेद्र  
तअोमणुसाओ असणपाणखाइमसाइभाओ कक्षाकस्त्रिं एगमेगंपिंडंगहाय तीसिकणगमइंएम

रसांहिच्छगभंघरयकी तेमाहि एकजालघंरकरीनीपजावी पाछुंकीधुंकाससमर्षसंपें तिवारपच्छीमस्त्रिभुमरी अणिपीठिकापेठीनेऊपर  
आपपोतानेविषें सरिखीपोतानेसरिखीलचाचामडीछे सरिखीवयकेसरिखालावण्यसरिखा यौवननागुणतेणें सहितएहवी कनकम  
चशोनासथएहवीवलीकेहवीसाथानेविषें छिद्रसहिततेऊपरपद्मशतपत्रकमल उतपलनीलोत्पलकमलनोपिधानढांकणा सहितएहवी  
सोनानीप्रतिलाप्रतिनिंबप्रतेकरेकरीने तिवारपच्छीतेमस्त्रीविदेहामिधिलानगरी तेहनोदेशविदेहतेहनोराजा कुंभराजातेहनीवर  
प्रधानकन्यापुत्रीछे एकादाप्रखावेमस्त्रीजेविपुलाविस्तीर्णं अन्नपाणीखादिमखादिम एचारप्रकारनाआहारकरेजीमे तेमनोअथीसहि  
तअथनपानखादिमखादिमादिआहारनो प्रभाति१ दिनरप्रते आहारकरवानीवेलाइं एकएकपिंडएकएककवलएकआहारना कोली

गंधीयधेतिदृष्टान्तोपन्यासेयादृशइत्यर्थः नामएदृत्यत्रलंकारे अहिंस्रतेस्रतसर्पे सर्प कालेवरस्यगंधइत्यर्थः अथवाअहिंस्रतं सर्प कालेव

त्ययच्छिद्रुए जावप्रडिमाएमत्ययंसि पक्खिवमाणीविहरइ तएणंतीसेणंकरणमईएजावमत्ययच्छि  
 ड्रुएप्रडिमाए एगमेगंसिकवलंपक्खिप्रमाणेइ प्रउमप्पलपिहाणंपिहेइ तओगंधेपाउभभूए सेजहा  
 णामएअहिमडेइवा गोमडेइवाणरमडेइवा जावएत्तोअणिइतराए तेणंकालेणंतेणंससएणं कोस

याप्रतेभांगामांहिथीलैईने तेसोनामयसोनानीपूतलीना माथानाच्छिद्रुकाणानेविषे कमलनोढांकणोउघाडीने प्रतिमापतलीनाभा  
 यानेविषे प्रक्षेपतीषालतीस्रंकतीकतीसखीकुमरीविचरेछे तिवारपच्छीतेकनकमयसोनानीपूतलीना यावत्भाथानाच्छिद्रुकांणानेविषे  
 प्रतिमापतलीनामाथानाकांणामांहिच्छिद्रुमाहि दिनदिनप्रतेभोजनकरवानी वेलाइं एकेकाकवलप्रते षालतांस्रंकतांछतां पद्मकमल  
 गतपत्तादि उत्पलनीलाकमलादिकानाढाकणाप्रते दीयेढांकिदिहाडीइसकरतीरहेछे तिवारेतेप्रतिमामांहियकी गंधप्रगट  
 यथोगंधऊपनोतेकेहवो ऊपनोत्तेकेहेछेतेगंधयथा दृष्टांतोपन्यासेजेहवोनामएअहिंस्रतस्रुअसर्पना कलेवरसरिखोगंधउपनोस्रई

रन्तस्यगन्धः सोष्युपचारान्तदेवद्वतिरूपदर्शनेवाविकल्पे अथवासेजहन्ति उदाहरणोपन्यासोपक्षेपार्थः अहिमडेइवत्तिअहिस्वतकस्ये  
वअहिस्वतकमिवेतियावत्कारणादिदंद्रव्यं गोमडेइवासुणमडेइवामज्जारमडेइवामहिममडेइवामसुसगमडेइवासामसम  
डेइवाहल्लिमडेइवासीहमडेइवावग्वमडेइवाविगमडेइवा द्वीपिकश्चित्तकः किंभूतेअहिकडेवरादौ किंभूतंवातदित्याह  
मयकुहियविण्डुडु रभिवावण्डु रभिगंधेस्रतं जीवविसुक्तमात्रं सत्यत्कृत्तं क्रुथितसौपत्तुर्गन्धमित्यर्थः तथाविनि  
ष्टमुच्छूनत्वादिभिर्विकारेः स्वरूपादेपेतंसत्यत्तदुरभितीव्रतरदुष्टगन्धोपेतंतत्तथाव्यापन्नं शकुनिष्टगलादिभिर्भक्षणाद्विरूपां वीभत्यामव  
स्थाप्राप्तं सत्यत्तदुरभिगन्धतीव्रमशुभगन्धं तत्तथा ततः पदत्वयस्यकर्मधारयः तत्रदेववाकिसितिजालाउलसंसत्ते क्वमिजालैव्यांकुलेः आ  
कुलंवासंकीर्णंयथाभवतीत्येवंसंसक्तं संबहुं यत्तत्तथा तत्रतदेववाअसुइचिलीणविगयीभच्छदरिसिण्ज्जे अशुचिअपवित्तमसृश्रत्वात्  
चिलीनंजुगुष्यासमुत्पादकत्वात्विक्तं विकारवत्वात्वीभत्सं द्रष्टुमयोग्यत्वात्एवंभूतंहस्यतइतिदर्शनीयंततः कर्म धारयः तत्रतदेववाभवे  
यारूवेसियायाहयः सर्पादिकडे वरेगंधोभवेत्एतद्रूपसूत्रूपोवास्याद्भवेत्तस्यभक्तकवलस्यगंधइतिसूत्रकारस्यविकल्पोक्षेत्रः षोडशद्वेसम  
डेनायमर्थः संगतइत्ययंस्वतस्यैवनिर्णयः निर्णोतमेवंगन्धस्वरूपमाहएत्तोअणिष्टतराएचेवइतोअनिष्टतरादिगन्धात्सकाशादिनि

दतरएवअभिलापस्याविषयएव अकांततरकोकमनीयतरस्वरूपःअप्रियतरोप्रीत्युत्पादकत्वेन अमनोज्ञतरकःकथयाप्यनिष्ठत्वात्अमनो  
ज्ञतरश्चिन्तयापिमनसोऽनभिगम्यइत्यर्थः नागधरएत्ति उरगप्रतिमायुक्तं चैत्यं दिव्बेत्ति प्रधानंसञ्चेति तदादेशानामवितयत्वात्सञ्चो

लाणामंजणवएहोल्या तत्थणंसागएणामंणयरे पडिबुद्धीणामंरायाहोल्या तस्सणंपडिबुद्धिसरखो  
पउमावईणामंदेवोहोल्या तत्थणंसुबुद्धीणामंअमञ्चे जावरज्जधूरुचिंतए होल्या तत्थणंसागएणय  
रेवहियाउत्तरपुरच्छिमेदिसीभाए एत्थणंसहेगंणगधरएहोल्या दिव्बेसञ्चेसञ्चोवाएसिण्हियपाडि

गाइनाकलेवरसारिखोगंधउपनो सुआनरमनुथ्यनाकलेवरसरिखोगंध उपनोयावतएत्तोसर्प्यादिकलेवरनागंधयकी घणोअनिष्टतर  
पाडुओतेसोनानीपतलीसंहिगंधउपनो तेकालेतेसमयनेविषे कोसलानामाजनशददेशुद्धतोह्रवो तेकोशलदेशनेविषेसाकेतनगरच्छे  
साकेतकहताअयोध्यानगरीकह्नीये पडिबुद्धिनामैराजाऊतोह्रओ तेप्रतिबुद्धिराजानिपदमावतीनामा पट्टराणीऊतीह्रइ तेप्रतिबुद्धी  
राजानेसुबुद्धिनामअमात्यप्रधानच्छे यावत्त्राज्यनीधुरानोचिंतकऊतोऊओ तिहांसाकेतनगरनेविषे बाहिरउत्तरपूर्वदिशिचिवाला

वाएत्तिस्त्मावपातं सफलमेवमित्यर्थः संनिहितं सन्निवेद्यं प्रतिहृद्यं प्रतीहारकर्मतयाविधव्यन्तरदेवेनयत्न

हेरितएणंप्रउमावईएदेवीए अखथाकथाइं णागजत्तएयांविहोत्था तएणंप्रउमावइदेवीणागजत्तसु  
 वड्डियंजाणित्ता जेणेवपडिबुद्धीराथा तेणेवउवागच्छइइत्ता करयलजावएवंवयासी एवंखलुसामी  
 समकल्लंणागजत्तएभविस्सइ तंइच्छामिणंसामीतुभमेहिं अभभणुंसायासमाणी णागजत्तयंगमित्तए

नाभागनेविषेएतलेईशानकूणिनेविषे इहांमोटीएकनागघरसर्प्यंने आकारेनागदेवतानीप्रतिमासहित देहरोद्धतोतेकेह्वं छेदिव्य  
 प्रधानच्छेतेणेकारणेआज्ञानेसाचापणायकी साचोच्छेअथवापासफलजेहनो एतलेमान्याइच्छानोपूरकच्छेसन्निहितथाप्योच्छेकीधोच्छेप्रति  
 हार्चपोलीयानोकर्मतेहवेयंतरदेवताइ जेदेहरानेविषितिवारपच्छी पदमावतीपट्टराणीएकदाप्रस्तावे नागदेवतानीपूजानागदेवतानी  
 उत्सवद्धतोतिवारि तेपदमावतीराणी नागदेवतानाउत्सवआख्याप्रतेजाणीनि जिहाप्रतिबुद्धीराजाहे तिहांआवेआवीनेवेहाथजोडी  
 इमकहतीद्धे इमखलुनिच्चयहेस्वामिन् माहरेकालिसूरजज्यापच्छी नागदेवतानीपूजानामहोत्सवद्धस्ये तेकारणथ कीद्धं इ



तुभेविणंसासी समणगजखयंसिसमोसरह. तएणंपडिबुद्धीराया पउमावइएदेवीए एयमट्टं पडि  
 सुणेइरत्ता तएणंपउमावइदेवीपडिबुद्धिणारखाअभणुणायासमाणीहइतुड्ढाकोडुं बियपुरिसेसहा  
 वेइरत्ता एवंवयासीएवंखलुदेवाणुप्पिया समकल्लंणगजखं भविस्सइ तंतुभेमालागारि सहावेहइर  
 ताएवंवयह एवंखलुपउमावइएदेवीए कल्लंणगजखएभविस्सइ तंतुभेणंदेवाणुप्पिया जलयथलयद

ल्लंवाळुं हेस्वामिन्तुमेआत्तादीधीऊतीछती नागदेवतानामहोत्वव करवाप्रतेजावाभणी तुमेप्रिणहेस्वामिन् हेराजन्  
 माहरानांगदेवतानामहोत्ववनेविषं समोसरज्योआवज्या तिवारपक्कीप्रतिबुद्धराजा पञ्चावतीराणीनोक्कहोएवचनसंभलीने अंगी  
 कारकरेकरीने पक्केराजाइक्कहोवारुतुमेपधारो तिवारपक्कीपञ्चावतीराणीप्रतिबुद्धिराजाइ आत्तादीधीऊतीछती हर्षसंतोषपामी  
 हियेप्रतिबुद्धिराजाआदेशकारी पुरुषांप्रतेतेडाधेतेडात्रीने इमक्कहतोऊओ इमखलुनिश्चयअहोदेवाणुप्रिय माहरे कालिसूरजज्या  
 पथीनागदेयतानीपूजानोमहोत्ववऊस्ये तेकारणयकीतुमेमालाकारमालीयाप्रतेतेडाओतेडावीनेइमतुक्केकहो इणंपकारेखलुनिश्चय

तत्तथादेवाधिष्ठितमित्यर्थः नागजस्रएत्तिनागपूजानागोत्खवइत्यर्थः सिरिदामगंडमित्यादौ यावत्करणात् पाडलमस्त्रि इत्यादिवरणे

सद्ववणं मल्लं शागधरयंसिसाहरेह जलयथलयदसद्ववस्त्रमल्लंसाहरित्ता एगंचणंसिरिदामगंडंउवणे  
हतेणतेजलयथलयदसद्ववस्त्रेणं मल्लेणं शाणाविहभत्तिशुरइयंकरेह तंसिभात्तिसिंहंससियमथूरकां  
चसारसचक्कवायमथणसाला कोइलकुलोववेयं इहामियउसह तुरगणरमगर विहगवालगकिण्णर

अहोदेवानुप्रियोपदमावतीराणीने कालिनागदेवतानीप्रतिमानी पूजानोमहोत्ववज्जस्येतेकारणयकीतुमेअहो देवानुप्रियोमालीयो  
पांणीनानीपनाथलभूमिना नीपनाएहवाद्दद्याद्द्ववर्णी एहवीमालाभणीहितकारी भलामाल्यफूलतेफूलांप्रतेनाग देवताना देहराने  
विषे साहरोआणोस्त्रंको पाणीनानीपनाथलभूमिकाना नीपनापांचवर्णनामाल्यफूलांप्रते साहरीनेआणीने एकश्रीशोभावतीदाममा  
लानाकांडसमूह्छे एहवोएकश्रीदामफूलनोदडो नीपजावोतिवारपच्छीतेमाली पांणीनानीपनाथलभूमिकानानीपना एहवेपांचवर  
शीमाल्यफूलेकारीने नानाप्रकारनावर्णाप्रकारनी भांतिनीभलीरचनाप्रतेकरो तेफूलनीभांतिनेविषे हंसधोलामोरक्रींचसारसचक्र

कुरुसरभचमर कुंजरवणलयप्रलमलयभक्तिचित्तं महगंधमहरिहं विडलंप्रपुष्पमंडवं वर एह तस्मिन्  
 पुष्पमंडवस्य बहुमज्जुदेसभाए एगंमहंसिरिदामगंडं जावगंधद्विणंसुयंतं लक्ष्मीयंसिडलएहप्रलमा  
 इंदेविंपडिबुद्धीश्री प्रडिवालेमाणाचिदृह तएणंतेकोडुं बिया जावचिदृति तएणंभापए भाव इंदेवी

वाकमदनसारिकाकावरि कोडुलप्रमुखपंखीनाकुलसमूह तेणेकरीसहितछेजेश्रीदामदडो यथावरगडाष्टपभवलद घोडामनुष्यमगर  
 मत्स्यपंखीव्यालसर्प किन्नर देवता कुरुगलासरभश्चष्टापदजीवविशेष चमरीगाडूजीवविशेषकुंजरहाथी वननीलताविलडीपद्मकमल  
 नीलताप्रमुखानीभांतिदूंकरी चिलश्चरिजकारीछे जेश्रीदामदडोएहवोकरवो तयामहर्ष्य बहुमूल्यमोटाने योग्यविपुलविस्तीर्णएक  
 मोटाफूलनामांडवाप्रते तमेविरचोकरोचो तेषूलनामांडवानाबहुसंपूर्णमध्यभागनादेशनेविषे एतलेफूलनामांडवानेविचाले एक  
 मोटोसोभाभतीमालानोदडो गंधद्वानिगंधसुगंधनासमूहप्रते सूंकतोछतोएहवाश्रीदामदडाप्रते चंद्रानेविषेवांधोवांधीने पछेपदमा  
 वतीदेवीनीअनेवली प्रतिबुद्धिराजानीपडिवालेमाणा आविवानीवाटजोताछतारहिज्यो एहवीआज्ञादीधीतिवारेते आदेशकारी

कल्लंकोडुं वियपुरिसंखं वयासी खिप्पामेवभो देवाणुप्पिया सागियंणयरंसग्भिंतरवाहिरियं आसि  
यसमज्जिओवलित्तं जावपच्चपिणंति तएणंसाप्रउमावइदेवी दोच्चं पिकोडुं वियपुरिसेजावखिप्पामे  
वलज्जकरणनुत्तामेवउवट्ठावेइ तएणंसाप्रउमावइदेवी अंतोअं तेउरंसिण्हाया जावधम्मियंजाणप

पुरुपतिमनीपजावीकरी रांजारंगीनीआविवानी वाटजोताच्छतारहेच्छं तिवारिपच्छीतेपद्मावतीदेवीकालिप्रभातययापच्छीकौटंवि  
कपुरुषआदेशकारीपुरुषांप्रते इमकहतीऊईच्चिप्रउतावलोज तुमेभोदेवानुप्रियसेवको साकेतनगरप्रतेगढमांहि अनेगढवाहिरसग  
लानगरप्रते पांगीइंछंटावोकचरोपरहोकाढो पूंजोलौंपोधउलावो यावत्तेसेवकपुरुपतिमजगरच्छांटी पूंजीलींपीनेपाछोकाम  
रांणीनेसमण्ये तिवारपच्छीतेपद्मावतीदेवी बीजीवारआदेशकारीया पुरुषांप्रतेइमकहतीऊई यावत्उतावलाजतुमेअहोदेवानुप्रि  
यएहवाउतावलीजात्राआविवानीकियानेविषे डाहाचतुरतेणेकरीसहितजे पुरुपतेणेजोतखोजेरयतेसहित सज्जकरीनेतेतिमजक  
रीरयआंगीथापे तिवारपच्छीतेपद्मावतीदेवी अंतःपुरअंतेउरमाहेन्हाहीस्नानकीधो यावत्धार्मिकयानप्रवहनधार्मिकरथप्रतेदुरूढा

वहणंदूखुटा तएणंसापउमावइदेवी शिथगपरियालसद्धिसंपरिबुडा सागियंणयरंमज्झंमज्झेणं  
 णिगच्छइरत्ता जेणेवप्रोक्खरिणेतिणेवउवागच्छइत्तापउक्खरिण्णिउगाहेइत्ता जलमज्झणंजावपरम  
 सइभूयाउल्लपडसाडया जाइं तत्थउप्पलाइं जावतत्थगिरुहइइरत्ता जेणेवणागघरए तेणेवप्रहा  
 रेत्य गमणाए तएणंसापउमावइएदेवीए दासचेडौओबहुओ पुण्णफूलहत्यगया ओ धूवकड

चढीवैठीतिथारपच्छीते पदमावतीदेवीनिजकपोताना परिवारसंधातेपरिवरीच्छती साक्रेतनगरसाहिथइंने नीसरेनीसरीनेजिहं  
 पुष्करिणीवाक्के' तिहंजअवेअवीने पुष्करणीवाविप्रतेअवगाहेप्रवेशकरेकरीने जलमज्जनस्नानकरेयावत्परमघणुंउत्कृष्टीशुचि  
 पवित्थइंछती भीनीनीलीपटकुलनीसाडी पहरीच्छतीजितिहंउत्पलकमलकें यावत्तेकमलग्रहेलेइने जिहंनागघरनागदेवतानी  
 देहकंकेतिहंजपधारतीविकल्पनाकरतीऊइं जावाभणीतिवारपच्छीतेपदमावतीदेवी दासदासीओघणी पुष्पफूलनीक्खावडीओहाथ  
 सांहिलेइंधूपनाकडुक्खाप्रतेहाथसांहिलेइंपाक्खलियकीरांणीनेपूठेआवेक्खेतिवारपच्छीतेपदमावतीदेवीसगलीक्खइइंकारीढोलदमामाप्र

च्छुयं हत्यगयाओपिडुओस मणुगच्छंति तएणंसापउमावइदेवी सविढीएजावरवेणं सागेयंणयरं  
 मउभंमउभेणं शिगच्छइरत्ता जेणेवणागघरे तेणेवउवागच्छइरत्ता शागघरं अणुपविसइरत्तालोम  
 हत्यगंजावधूवंडहइरत्ता पडिबुद्धिरायं पडिवालैमाणीश्चिक्कइ तएणंपडिबुद्धीरा याणहाएहत्थि  
 खंधवरगएसकोरंटमसुदासेणंक्कत्तेणं धारिज्जसाणेणंसेयवरचामराहिं महयाहयगयरहभडचडग

मुखवाजितनेशब्दे करी साकेतनगरसाहिथईने नीसरे नीसरीने जिहानागदेवतानोदेहरोक्के तिहाआवेआवीने नागदेवतानादे  
 हरामांहि प्रवेशकरे करीने सोरनापौच्छः नीपू जणीलेईप्रतिसापू जेंयावत् पूजाकरीधूपप्रतेउखेवे उखेवीने प्रतिबुद्धिराजाप्रतेआवि  
 वानीवाटजोतीछतीरहेक्के तिवारपछीप्रतिबुद्धिराजान्हायो हायीनाखांघाजपरचढीछतो प्रधानकोरंटफूलनीजातितेहनाफूलमा  
 लानाक्केहडानेविषे शोभाभणीदीजीयेछे मालाभणीहितकारीयासाल्यकः फूलनीदाममालातेणेंकरीजेछलतेणेकरी धरितहेखेत  
 धउलावरप्रधानबेचामरतेणेंवीजीतो घणेप्रकारेजेघोडाहाथीरथभटसुभट तेहनाचटकरहंदविस्तारवंतपहकरसमूह तेलद्वणजेपरि

रप्रहकर साकियण्यरं मज्झमज्झेणं णिगच्छइइत्ता जेणेवणागघरण तेणेवउवागच्छइइत्ता हत्थि  
 खंधाओपच्चोरुहइइत्ता आलोएपणमंकरेइइत्ता पुफ्फमंडवं अणुप्पविसइइत्ता तं एगंमहंसिरिदामगं  
 डंपासइइत्ता तएणंपडिबुद्धिराया तंसिरिदामगंडंसुचिरं कालं णिरिक्खइइत्ता तंसिसिरिदामगं  
 डंसिजायविरुहएसुबुद्धिं अमच्चं एवंवयासी तुमेणं देवाणुप्पिया ममदोच्चैणं बड्डणिगामागरणगरखेड  
 कव्वडसखिवेसाइं आहिंडंसि बड्डणं रायइइसरतलवर जावगिहाइं अणुप्पविसइइ तं अत्थिणं तुम्हे

यारपरिबस्योच्छतो साकेतनगरमाहिथईनेनीसरीने जिहानागदेवतानोघरुके तिहांआवेआवीने हाथीनाखांघायकीहेठोज  
 तरेहेठोजतरीने नागदेवतानीप्रतिमानेजोइदेखीप्रणामकरे नमस्कारकरे करीने फूलनामांडवाप्रतेप्रवेशकरे करीने तेएकमोटोओ  
 दामदडोतेप्रतेदेखेदेखीने तिवारपच्छीप्रतिबुद्धिराजा तेओदामदडाप्रतेवणीवेलालगीजोईजोईने तेओभावतीमालानाऊपनोविस्व  
 यमपरिजपास्योच्छतोरजा सुबुद्धिअमात्यप्रधानप्रतेइसकहतोऊओ हेसुबुद्धितं हेदेवानुप्रिय माहरेआदेशेकरी दूतकर्मघणागाम

देवाणुष्पियाकहिंचिरिए सिरिदामगंडेदिद्विपुब्बे जारिरुएणंइमेपडमावइएदेवीए सिरिदाम  
 गंडेतएणंखुबुद्धीपडिनुद्धिरायं एवंवयासीएवंखलुसामी अहंअखयाकथाइं तु'भेणंदोच्चैणं मिहिलंरा  
 यहाशिंणए तत्थएणंसएकुं भगस्वरणो धूयाएपभावइएदेवीए अत्तयाएमस्त्रीए विदेहवरकखथाएसं

आगरनगरखेटकार्पटसन्निवेशप्रते परिभ्रमणकरेकेजाइके घणाराजाईश्वरव्यवहारीया तलवरप्रसुखनाघरासांहि प्रवेशकरेकेतेका  
 रणथकीके तुमेअहोदेवानुप्रियकिहाईआहवोएस्रिखो सोभावतीमालानोदडोइटपूर्वःदीठेके प्रथमपहिलोजिएहवोएप्रत्यक्षपदमा  
 वतीदेवीनो शोभावतीमालानोदडोएहवोपूब्धो तिवारपछै'खुबुद्धिप्रधानप्रतिबुद्धिराजाप्रते इसकहतोऊओइमनिचेहेस्वामिन्डुं  
 एकदाप्रखावेतुमारि दूतकर्ममिथिलाराजधानीनगरीप्रतेगयोऊतो तिहांमेंकुं भराजानीपुत्री प्रभावतीराणीनीआलजावेटीमस्त्री  
 विदेहमिथलानगरीनो देशतेहनोराजाकुं भराजातेहनो वरप्रधानकन्यापुत्रीतेहनोजन्मनादिवसथकी आरंभीमाडीनेसंवत्सरजोइ  
 छेएतलेदिवसेवरसआजपूरोथयोएहवोकहीयेके महोत्सवपूर्वकजेदिवसनेविषे तेमस्त्रीकुमरीनीनोजन्मनोवरसजोईइके जिहांवरसर



कोदृश्यः दोषेणंतिदौत्येनद्रूतकर्मणा अत्यियाद्दंतिद्दृष्ट्याद्दशब्दोभाषायां संवच्छरपडिलेहणगंसिति जन्मदिनादारभ्यसंवत्सरः प्रत्य  
 पेक्षतेएतावतिथसंवत्सरोअद्यपूर्णइत्येवं निरूप्यते महोत्सवपूर्वकंयतदिनेतत्सं वत्सरप्रत्युपेक्षणकंयत वर्षवर्षप्रतिसख्याज्ञानाथं ग्रन्थिब

वच्छरपडिलेहणगंसि दिव्सेसिदिदामगंडिदिदृष्टुव्वे तस्सणंसिरिदामगंडस्स इमेपलमावद्दएदेवीए  
 सिरिदामगंडेसयसहस्सतमंपिकलंणअग्घेद्द तएणंपडिबुद्धीराया सुबुद्धिंअमच्चं एवंवयासीकिरि  
 सियाणंदेवाणुप्पियासल्ली विदेहरायवरकणा जस्सणंसंवच्छरपडिलेहणंसिसिरिदामगंडस्सपलमा

प्रतेसंख्याजाणवानेअर्थे गाठिनोबंधकरीयेछे तेमल्लीकुमरीनावरसुदिवसना गांठिवांधवानामहोत्सवनेविषे दिव्यप्रधानश्रीदामदडो  
 प्रथमपडिलो तेमल्लीकुमरीनाश्रीदामदडा एपदमावतीदेवीनोश्रीदामदडोलाखसीकला अंशप्रतेपिणअर्थेनहीपामेनहीं एतलेमसि  
 कुमरीना श्रीदामदडानेआगलिए श्रीदामदडोलाखमेभागआवेनहीं तिवारपछीप्रतिबुद्धिराजा सुबुद्धिनामाप्रधानप्रतेद्रुसकहतोह  
 ओतेकेचवीछे अहोदेवातुप्रियमल्लीविदेहदेशनो राजाकुंभराजातेहनीवरप्रधानकन्यापुती जेमल्लीकुमरीनावरसुदिवसनीसंख्याजा

न्मक्रियते यदिदानौ वर्षग्रन्थिरितिरूढं तत्पादेरयमर्थः मल्लीश्रीदामकांडस्यपद्मावतीश्रीदामकांडं शतसहस्रतमामपिकलांशोभायाञ्चं  
शंनार्धतिनप्राप्नोति कूर्मोन्नतचारुचरणान्द्रुत्यादिस्त्रीवर्णकोजंबूद्वीप प्रज्ञप्तमादिप्रसिद्धोमल्लीविषयेअध्येतव्यः सिरिदामगंडजगणिय

वद्रएदेवौए सिरिदामगंडे सयसहस्रतमंपि कलंगुञ्जुद्वीअमञ्जेपडिबुद्धिंइक्खागरायंए  
वंवयासीएवंखलुसामीमल्लीविदेहरायवरकणानुसुस्यचारुचरणवयञ्चो तएणंपडिबुद्धीइक्खागरा

णवाभणीमहोत्सवपूर्वकागाठिवंधकरीयेच्छे तेमल्लीनाश्रीदामदडाने आगलिपदमावतीराणीनो श्रीदामदडोलाखमीकलानाञ्चंशप्रते  
पिणअर्धेनहौंपामेनहौं एतलेमल्लीकुमरीनाश्रीदामदडाने आगलिएश्रीदामदडोलाखमेभागेअवेनहौं तिवारपच्छीसुबुद्धिनामाञ्च  
मात्यप्रतिबुद्धिइस्वाकुवंशीराजाप्रतेइमकहतोह्णो एमनिचेहेस्वामिन् मल्लीविदेहामिथिलानगरीनो विदेहदेशतेहनोराजाकु  
राजातेहनीवरप्रधानकन्यावेटीकेहवीच्छे भलीपरेप्रतिध्यायायाकर्मकाछिवानीपरे उन्नतउ' चाछेचारुमनोहरचरणपगजेमल्लीना  
इत्यादिकस्त्रीनोवर्णकजंबूद्वीपपन्नती सूलादिकमाहे' प्रसिद्धहेतेइहां मल्लीकुमरीनावर्णकनेविषेअंणिवो तिवारपच्छीप्रतिबुद्धिइ

हासोत्ति श्रीदामकांडेनजनितोर्ध्वःप्रमोदानुरागोद्यस्यसतथा अत्तियत्तिआत्मजांसंयंरज्जसुकृत्ति स्वरूपेणनिरूपवरित

यासुसुनुद्विस्त्रअमच्चस अंतिएयमड्डं सोच्चाणिसम्मसिरिदामगं डजणियहासे दूयंसद्दावेद्वरत्ता  
 एवंवयासौगच्छाहिरं तुमं देवाणुप्पियां मिहिलंरायहाणिं तत्थयणंकुं भगस्सरखोधूयंपभावद्दएदेवो  
 एअत्तयंससिंविदेहरायवरकणुगं समभारियत्ताएवरेहि जइवियणंसंसासंयंरज्जसुकृत्तं तणंसेदएप

स्वाकुयंशीराजा सुनुद्विनामाअमात्यप्रधानतेहजासमीपनेविषे अर्थमस्त्रीकुमरीनावरणंप्रतेतथाश्रीदामदडाप्रते सांभलीनेनिशम्य  
 क्षीयासांहिअवधारीने श्रीदामदडेकरीजनितउपनोच्छे हासहर्षप्रमोदअनुरागस्त्रे हरागजे प्रतिवुद्धिराजाने एहवोहर्षवंतच्छतोप्रति  
 युद्धिराजादूतप्रते तेडावेत्तेडावीने इमकहतोद्धओजाओतुमे हेदेवानुप्रियमिथिलाराजधानीनगरीप्रते तिहांकुं भरांजानीपुलीच्छे  
 प्रभावतीदेवीनाआत्माथकी ऊपनीमस्त्रीनामाविदेहदेशतेह्नो राजातेहनीवरप्रधानकन्याकुमरीच्छे तेप्रते माहरीभार्थापणेस्त्री  
 पणेकरीकरमागि जोपिणतेकन्यापोताने स्वरूपेकरी अनोपमचरित्पणेकरीजिहालगौराज्यनो सुकशुकामूल्यच्छेजेकन्यानोर्राज्यने

तथेतियावत् राज्यंशुल्कंशुल्क्यंशुल्क्यःसातथा राज्यप्राथे त्यर्थःतथापिदृष्टवितिसंबन्धःचाउधटं त्तिचतस्रोषंटाःषष्ठतोअग्रतचत्रस्यसतथा  
अश्वयुक्तोरथोअश्वरथः पडिकप्पाविद्वत्तिसज्जयति पहारेल्यगमणःएत्तिप्रधारितवान् विकल्पितवान्गमनायगमनार्थं संजत्ताणावावा

डिबुद्विणारणा एवंवृत्तेसमाणे हडुवुडेपडिसुणेइइत्ता जेणेवसएगिहे जेणेवचाउधटं आसरहेतेरेव  
उवागच्छइइत्ता चाउधटं आसरहं पडिकप्पाविइइत्ता डुरुहेइइत्ता जावहयगयम हयारुडचडगरे  
णंसयाओगिहाओगिगच्छइइत्ता जेणेवविदेहजणवएसउभंमउभेणं जेणेवमिहिलारायहाणीतेणे

आपवेकरीएतले पोते राज्यदेवू इमकहीने त्वंसांगजेएहधोरजाइ कस्योहेतिवारे तेदूतप्रतिबुद्धिराजाइ इमकस्योछतोहर्षसंतोः पां  
स्योछतोअंगीकारकरे करीनेजिहापोतानोघरके जिहाचारधंटानोअश्वरथके रथने पाच्छलिएवधंटाआगलिएकधंटावि हं पाकेडेव  
टाइमचारधंटावांधीकेजेरथने तिहांआवेआवीने च्यारधंटानाघोडानारथप्रते सज्जकरेने चढेवेसेवे सीनेयावत्वोडाहा  
थीरथषणेप्रकारेसुभटसुभटानाचाकारतेणे परिवस्योछतो पोतानावरथकीनीकलेनीकलीने जिहाविदेहनामादेशके तेमांहिजि

शियगसंगतायात्वादेयांतरगमनं संयात्वात्प्रधानानौवाणिककाःपोतवणिकः संयात्वानौवाणिककाः अरहणगेसमणोवासगेआवि

वपाहारेत्यगमणाय १ तेषां कालेषु तेषां ससंघं अंगणं अंजणवणं होत्या तत्थं चंपाणं मंणयरी हो  
 त्यातीसंघं चंपाणयरीए चंदच्छाएअं गराया होत्या तत्थं चंपाणयरीए अरहणपामोक्खान्न  
 हवेसंजात्ताणावावाणियगापरिवसंति अट्टाजावअपरिभूया तएणंसेअरहणए समणोवासएयावि  
 होत्या अभिगयजीवाजीवेवणुओतएणंतेसिअरहणगपामोक्खानं संजत्ताणावावाणियगाणं अणुया

हंमिथिलानामाराजधानीनगरीहे तिहांदूतपधारतोडुओजावाभणीतेकाले तेषमयनेविषे अंगनामाजनपददेशकृतोडुओतिहां  
 चंपानामानगरीडुंती तेषंपानगरीनें विषे चंद्रच्छायअंगदेशनोराजाहृतो तिहांचंपानगरीनें विषे अरहणकप्रमुखंआदिदेईष  
 णासंजत्तायात्वादेयातरनेविषे जाइवूं व्यापारनिमित्ततेप्रधाननावावाहणानावाणियगामनाव्यापारीवसेहेअद्विवंतयायत्अपरिभू  
 तकोईपराम्भीसके नहोएहवाअद्विवंतहेतिवारपछीतेअरहणकसेठिअमणोपासकआवककृतोअभिगतजाण्यहे जीयअजीवइत्यादि

हीत्यत्तिनकेवलमाद्यादिगुणयुक्तः अमणोपासकश्चाप्यभूत् गणिसंघेत्यादिगणिसंनानालिकेरपूगफलादियज्ञगणितंसत् व्यवहारिप्रविशति धरिसंघत्तुलाघृतंसत्त्व्यवक्त्रियते मेयंयत्मे तिकापलादीनामीयते परिच्छेद्यं यद्गुणतःपरिच्छिद्यते परीक्ष्यतेवस्त्रमख्यादिसमिधस्मिति

कथाद् एगञ्चोसहियाणं इमेयाखवेमिहोक्ताहाससुक्तावेसमुपज्जेत्यासियंखलु अरुहंगणिरुं चधरिसंघमे ज्जं चपरिच्छिज्जं च भंडगंगहायलवणसमुद्दं पोथवहणेणंउवगाहित्तएत्तिकट्टु, असुमसुखएयमट्टं पडि

नवभेदजिणं एहवोआवकययो तेवर्णकउववाइथीजाणवोतिवारपच्छीते अरुहन्नकप्रसुखानिं संयातादेशांतर जावाने विषेवाहणाना व्यापारीयाना एकदाप्रस्तावे एकठामिलीने व्यापारीयाने एहवामां होमां हिकथावात्तीनासंलाप जपजेअेयभलुं निअयसहितआपण नेगणिसंघं नालियरसोपारीआदिदेइ जेगखोछतोव्यापारनेविषे प्रवेशकरं तेगणिसकहीये ? वलीधरिसक० ताकडीये धखोतोल्यो छतोव्यापारकरिये ते धरिसकहीये ? जेगज्जं ? जेसेरपालीअधपालीमानेकारीमापीयेमानकारीये तेमेयकहीये ? रपारिच्छिज्जं क० जे गुणयक्तीपरिच्छेद्यतेपरखीये परखीवेदाइवस्त्रमणिप्रसुखएहवाचारकियाणागहायग्रहीनेलेइने लवणससुद्रप्रते पोतवाहणेकरी

सुणेइत्तागणिमं च४ गिखहेइत्तासगडीसागडंसज्जेइत्तागणिसख४ भंडखसगडीसागडियंभरेइत्ता  
सोहणंसितिहिकरणकखत्तमुडत्तंसिबिउलंअसणंप्राणंखाइमंसाइमंउवक्खडावेइत्तामित्तणाइभोय  
णवेलाएभुंजावेतिजावआमुच्छेइत्तासगडीसागडियंजोयंतिइत्ताचंप्राणयरीएसउभंसउभेणंणिगंच्छे

अवगाहवाभणीचढवाभणीदीपांतरप्रते जईद्रव्यउपाजीये एहवाविचारकरीने मां होमां हि सगलाईव्यापारीए अर्थप्रते अंगीकार  
करे करीने गणिम १ धरिसरमेज्जपरिच्छिज्ज ४ एचारप्रकारनाक्रियाणाप्रते लीयेलेईने गाडलीगाडलासमूहप्रते सज्जकरेकरीने  
गणिमप्रमुख्यारप्रकारनाक्रियाणाना गाडलीगाडाप्रते भरेभरीने शोभनभलीतिथिकरणचत्व भलासुहृत्तेनेविषे घणाअसनअ  
न्नादिचारप्रकारनाआहारप्रते रंधावेनीपजावेनीपजावीने मित्तज्ञातिप्रमुखसगलापरिवारने निड्डंतरी तेडीनेभोजननीवेला  
नेविषेजिमाडे जीमाडीने तेमित्तज्ञातिसगलाने पूछेपूछीने तेचारप्रकारनाक्रियाणानाभया गाडीगाडानासमूहप्रते जोतरे जो  
तरीनेचंपानासानगरीने मां हि थईनेनीकले नीकलीने जिहंगंभीरपोतपाटणहेतेगंभीरमोटो वाहणचढवानोथानकच्छे तिहंआ

कणिकायाच्चओसहाणंति तिकटु, कादीनांभिसज्जाणयत्ति पथानामाहारविशेषाणां अथवाओषधानामेकद्रव्यरूपाणां भेगजानांद्र

इंद्रत्ताजेणेवगंभीरपोयपट्टुणेतणेवउवागच्छइंद्रत्तासगडीसागडीयंओयंतिपोयवहणंसज्जेइंद्रत्तागणि  
मस्सुजावचउविहस्स भंडस्सभरंतिंतंडुलाणयसमितस्सयतेहस्स यधयस्सयगुलस्सयगोरसस्सयउदग  
स्सयभायणस्सयओसहाणिय भेसहाणियतस्सयकट्टुस्सय आवरणाणय पहरणाणय अस्सेसिंचव

वेआवीने गाडीगाडानासस्सहप्रतं सू'के'सू'कीने पोतवहनवाहणप्रतं सज्जकरेकरीने' गणिम'धरिमरमेज्जरपरिच्छेदु' एच्यारप्र  
कारनाक्रियाणाने'वाहणमाहिभरे' पच्छेतंडुलचोखाने'भरे' कणिक्काआटानेवाहणमांहिभरे' तेलनेवांहणमांहिभरे' धीने'वाहण  
माहिभरे'गुलने'वाहणमाहिभरे' गोरसदहीनाभस्सापालआने' वाहणमध्ये भरे' मीठापांणीवाहणमध्ये घाले' पांणीनाभाजनतथा  
बीजारांधवानाठामघाले' ओषधत्रिगडू आदिकनीगोलीयानि अथवाओषधएकद्रव्यएकवस्तुनानीपना तेहने'वाहणमांहिघाले' भेष  
जपथकारीआहारविशेषाने' अथवाभेषजघणाद्रव्यनासंयोगनानीपनाने' तथादणचारभरे' कोठीनिघाले' आवरणअंगरखीप्रसुख



उक्तं पोयवहणप्रालगाणं द्वाणंपोयवहणंभरेइत्तासोहणंसितिहिकरणक्वत्तमुक्तं सिविउलं  
 असणंपाणंखाइसंसाइसंउबक्खडवेतिमित्तणाइआपुच्छंतिजेणेवपोयणेतेउवागच्छइत्तातएणंते  
 सिअरहसगपामोक्खाणंवाणियगाणंतेपरियणोजावताहिइइआहिंकंताहिंजाववगूहिंअभिणंदंताय  
 अभिसंयुणमाणायएवंवयासीअज्जतायभायमाउलभाइणेज्जभगवयासमुद्दंणंअभिरक्खज्जमाणाइ

सप्तहावगतरनें वाहणमाहिघाले' कुरीतरवारिकटारीप्रमुखइथीआराने' मांहिभरे' वलीअनेराइवीजाषणावाहणमांहि घालवा  
 नाप्रयोगयोगदूव्यसू' कडीपकवानने' वाहणमांहिभरे' भरीने' शोभनभलीतिथिभलाकारणनत्तवभलासुहृत्तनेविषे' अन्नादिचारप्रका  
 रनाआचारप्रते' घणारंधावेनीपजावे' रंधावीने' नीपजावीनेमिलज्जातिप्रमुखसगलाने निळ' तरीनेजीमाडिनेपेह्णं' पछ्णं' जिहं  
 वाहणानाधानकच्छे' तिहांआवेआवीने' तिवारपछ्णीतेअरहन्वकप्रमुखसगलावाहणाना व्यापारीयाने' तेमित्तज्जातिप्रमुखसगलासम  
 स्तपरिजनपरिवार तेणीइ' इटवसुभवाल्हीने' कांतमनोजमनोहरथावत्एहवीवाणीये' करीआसीसदीये' संपूर्णपणंकरीनदओट्टि

व्यसंयोगरूपाणा आवरणानामङ्गरक्षकादीनां बोधस्थप्रचराणां च अज्जेत्यादिआर्यहेपितामहतातहेपितः हेभ्रातः हेमातुलहेभागि  
नेयभगवतासमुद्रेण अभिरक्ष्यमाणश्चिरं यूयंजीवतमहं चतेत्ति भद्रंभवतांभवत्वितिगस्यते पुनरपिलब्धार्थान् कृतकार्यान्अनघत्वनि  
द्रूपणंतयासमग्रत्वमहीनघनपरिवारतयानिजकंगृहत्वं शीघ्रमागतान्पश्यामीतिद्वलेत्यभिधाय सोमाहितिनिर्विकारत्वात्निद्राहिं

चिरंजीवहमहं चभेषुणरविलद्वडे कथकज्जे अणहसमग्गे णियगंधरंहव्वमागए पासामोत्तिकट्टु,  
ताहिंसोमाहिंणिद्राहिं दीहाहिंसप्पिवासाहिंपप्पूयाहिंदिट्ठीहिंणिरिक्खमाणासुज्जत्तमित्तंसंचि

पामोषणुं स्वतास्तुतिकरताकृताइमकहताह्वाकोईएककहे हेआर्यहेतातहेपिताहेभ्रातहेमातुलहेभाणेजभगवंतनेंसमुद्रेसंपूर्णे  
पणेकरीघणुंराख्यारद्वाकथाच्छता चिरकालताईघणाकालताइजीवोवलीभेतुम्हाने भद्रकल्याणहोवलीतुम्हांप्रते लद्धपास्याअर्थद्रव्यां  
प्रतेकीधाकार्यप्रते कार्यकामकरीनेतेकेहवाकार्येच्छेअणहअनघनिपापनिद्रूपणपणेकरीसमग्रसंपूर्णेअहीनघनपरिवारपणेकरीसहित  
निजकपोतानाघप्रते शीघ्रउतावलावलताआवताप्रतेअम्हे देखुंइमकरीने इमकहीने तेहवीतेणीइ सोमकारिणीविकाररहितपणा

तिसस्त्रे हत्वात् दीहाहितिदूरंयावदवलोकनात् सप्रिवासाहिसपिपासाभिः पुनःदर्शनाकांक्षावतीभिर्वापप्युयाहिति अप्रसुताभिः  
अशुजलाद्रीभिःसमागिण्यसुत्ति समापितेषु दत्तेषुनावीतिगम्यते सरसरक्तचंदनस्यदर्दरेण चपेटाप्रकारेणपंचागुलिषुतलेषुहस्तके

द्वंतिताओसमागिण्यसुपुण्फवलिकम्भेसुदिद्ये सुसरसरत्तचंदणदहरपंचंगुलितलेसु अणुकवीत्तंसिधूवं  
सिपूद्रयसुसमुद्वाएसु संसारियासुवलयत्राहासु जसिएसुसिएसुज्ज्भयगं सु प्रडुप्रवाद्रएसूत्तरेसुज

यकीचीगटीसनेहसहितपणायकी दीर्घलांबीपणोवेगलालगीजोवायकी खजनसडसमुद्रमाहिजोवाजाद्रं वलीदेखवानीवाछावतीद्रं  
आसूनेंपांगीद्रं करीभीनीद्रं एहवीदृष्टिद्रं निरखताजोताछता सुहृत्तमात्रवेवडीमात्र तिहांडभारहें हिवेतिवारं तेषांयातिकजे  
करंतेकहेकेसमागिण्यसुक्रहतांसमापितसंपूर्णवाहणनेविषे फूलनावलिकर्मपूजानाकार्यकीधेच्छते नावानेविषे सरसतत्कालनाघस्या  
रत्तराताचंदनत्रावनाचंदनतेहनादर्दरक० चपेटाने प्रकारे करीपांचत्रांगुलीनातला हाथादिन्नकीधेच्छते अनुपेच्छेउक्खित्तंसिधूवांस  
धूपउपाडे छते धूपदीधेच्छते तथापूजे छते समुद्रवातसमुद्रनावायरापूजे छते एकथानकथकीलेईवीजायोग्यथानकनेविषे याये मू

ष्वित्यर्थः अणुखित्तंसीतिअनुचितं पञ्चादुत्पाटितेधूपे पूजितेषुससुद्रवातेषुनौसायातिक प्रक्रियायांसुद्राविपदेवपादेषुवा संसारिया सुवलयवाहासुत्ति स्थानान्तरादुचितस्थाननिवेशितेषुदीर्घकाष्ठलक्षणवाजुषुआवेक्षकेष्वितिसंभाव्यतेतथाउच्चितेषुद्वीकृतेषुयतेषुध्वजा ग्रेषुपताकाग्रेषु पटु भिःपुरुषैःपटुवा यथाभवतीत्येवंप्रवादितेषु जयिकेषुजयावहेषु सर्वशकुनेषुवायसादिषुगृहीतेषु राजवरशासनेषु

इएसुसर्वसङ्गेषुगहिए सुरायवरसासणेषु नहयाउक्किट्टसीहणाय जावरवेशंप्रकल्, भियमहासमु

क्ये छेते वलयवाहासुकहतांलांवालाकडानाआवेसुलाकडालांवा चाटु, आआयकाढयोग्यथानळ्'काइ' छेते उं चाकीधे'छतेसितधोली धजानाअग्रभागएतले धोलीध्वजाना अग्रभागउं चाकीध'छे' पटु, चतुरडाहेपुरुषे प्रवादितवजाध्याढरवाजितळ्'ते'छते' जयकारी जयनाकहणहारारएहवा सगलाशकुनपंखीयाकाकादिवोलते' छेते' गृहीतग्रहे' लीधे' छते' राजानीवरप्रधानशशनआज्ञा एतलेराजा नीआज्ञालीधे' छते' पट्टापामरीदीधे' छते' सोटाउल्कू, षासी'हनानादशब्दसरिखावाजितनारवशब्द'तेणे' करी प्रचसितप्रकर्षे' करी'क्षोभ नावंतययो'छे' महाससुद्रनारवशब्दभूतसरिखोससुद्रनी वेलानाशब्दसरिखावाजितनिशब्दे' करी खोभनावंतकीध'छे' महाससुद्रना

आत्रासुपट्टकेषुवा प्रक्षुभितमहासमुद्रवरभूतमिव तदालकमिवतंप्रदेशमितिगम्यते तद्योपुस्वमाणवोवक्त्रसुदाड्ङिति ततोऽनन्तरंमा  
गधोमङ्गलवचनंनवीतिस्मेत्यर्थः तदेवाहसर्वेषामेवभवंतांमर्थसिद्धिर्भवतु उपस्थितानिकल्याणानि प्रतिहतानिसर्व्वं पापानिसर्व्वं वि  
प्राःजुत्तोत्तियुक्तः पुष्योनक्षत्रविशेषः चन्द्रमसाद्दहावसरैर्द्वुतिगम्यते पुष्यनक्षत्रंयात्रायांसिद्धिकरंयदाहुः अपिद्वादशभेचन्द्रेपुष्यःसर्वा

द्वरवभूयंपिव मेदृणौ करेमाणाएगदिसिंजाववाणियगापोयणेशुदुखुढातओपुस्वमाणवो बक्त्रसुदाहु  
हंभोसर्व्वेभेसामविअत्यसिद्धओ उवद्वियाद्दं कल्लाणाद्दं पडिहयाद्दं सर्व्वपावाद्दं जुत्तोपुस्वोविजओ

यद्दनीपरेऽथवीप्रतेकरताच्छता एकदिशि एकप्रदेशनेविषेजर्दवाहणना व्यापारीसगलावाहणनेविषेचढ्यावेढा तिवारयकीअनंतर  
भोजगभाटचारणवदीजनमंगलीकनोवचनवोलेखेकेहेखेतेहिजकहेखेहंभोअहोव्यापारीओसगलांजननेतुम्हानेअर्थसिद्धिसंपजजो  
तुमानेसगलने उपस्थितआव्याकल्याणएतलेकल्याणनापदार्थआव्या प्रतिहतहणाणातुमारासगलापापसगलाविघ्नहणाणावाहण  
साहिधेसवानाअवसरनेविषेआजचंद्रमासंघाते संजुत्तोसहीपुष्यनामानक्षत्रपुष्यनक्षत्रचालिवानेविषे सिद्धिकरंहुद्दं प्रपिद्वादशकेचं

शसाधनइतिमागधेन तदुपन्यस्तंविजयोसुहृत्तंस्त्रिंशतोसुहृत्तानामध्यात् अयंदेशकालएष प्रस्तावोगमनस्येतिगस्यते वक्तेउदाहिप  
 तेवाक्ये उदाहृतेहृष्टतुष्टाः कर्णधारोनिर्दामकः कुक्षिधारानौपार्श्वनिद्युक्ताः आवेक्षकवाहकादयःगर्भभागर्भजाः नौमध्येउच्चवा  
 चकर्मकारिणः संयात्वानौवाणिजकाभादुपतयः एतेषाद्वंद्वःवावरिंसुत्तिव्याष्टतवन्तः स्वस्वव्यापारेष्विति ततस्तानावंपूर्णेतसंगाविवि

सुहृतोअयंदेशकालो तत्रोपुस्समाणएणंवक्कसुदाहरिए हड्डतुष्टे कण्ठधारकुत्थिधार गभिज्जसंजु  
 त्ताणवावाणिगया वावरिंसुतंणावंपुण्णच्छंगंपुस्ससुहिं बंधणेहिंतोसुचंति तएणंसाणावाविसुक्कवं

द्वेषुष्यःसर्वार्थसाधकः विजयसुहृत्तत्वीसम्बहृत्ताने साहिथकी एदेशकालएप्रस्तावचालिवानेसमेजाभीयेच्छे' तिवारेमागधेभाटचारण  
 वंदीजने एहवासंगलीकनावाक्यवचनकहेच्छते सगलाहर्षसंतोषपास्याच्छता कर्णधारकनीरयामकनाकूआकुक्षिधारकनावावाह  
 णनेविद्धंपासेथायाच्छेआवेलूकलाना लाकडानाचाटुआनावाहकहलावण हारागभिज्जगर्भवाहणनेमांहिहृआ थायातेगर्भयाक  
 हीये'एतलेवाहणमांहिजाउंचानी चाकामनाकरणहारासंजुत्तासायात्वापरदेशातरद्वीपातरनेविषे जावावाच्छतानावावाहणना

धभांडहतमध्यांवा मध्यभागनिवेशितमङ्गल्यवस्तुत्वात्पूर्णसुखीं पुण्यसुखींवातथैवमन्थनेभ्योविसर्ज्जयन्तिमुञ्चन्ति पवनबलसमाहतावा  
तसामर्थ्यप्रेरिताः ऊसियसियत्तिउत्सुतसितपटायानपान्वेहि वायुसंग्रहायमहान्पटःउच्छ्रितः क्रियतेएवंचासावुपमीयते विततपच्चे  
वगरुडयुवतिः गंगासलिलस्यतीक्ष्णायेऽश्रोतोविगाः प्रवाहवेगाः संक्षुभ्यंतीप्रेर्य माणासमुद्रंप्रतीति ऊर्म्मयोमहाकस्रोलासरङ्गाः

धणाप्रवणबलसमाहया ऊसियसियप्रसियाविततपक्खाद्रवगरुलजुवद्र गंगासलिलतिक्त्वसोयवेगे

व्यापारीतेसगलाद्रवावरिसुक० आपत्रापणापोतानाथ्यापार कामकाजकरवाप्रवर्त्तताह्वा तिवारपच्छीतंणावंतेनावावाहणपुणुच्छ  
गंक संपूर्णघणाप्रकारनाक्रियाणाभस्याछेनावा माहिअथवापुण्यंमध्यांक० नावामाहे पुण्यनापुण्यकारीभागदेवाने' धापवाथकीमंग  
लीकवस्तुपणाथकीएहवीपुण्यमुहिक० पूर्णसुखीअथवापुण्यसुखीनावाप्रते' बंधनयकीनागरथकीसू'केछोडे' तिवारपच्छीतेनावाविमु  
क्तबंधनघणानागरयकी सू'काणीछतीबंधणाथकीछोडीछती पवनवायराने'बलसामर्थ्यपणे'करी वायराने'बलेकरीप्रेरीछतीचला  
वी'तेकेहवीरे ऊसियउच्छ्रितउ'चोकीधोछे'सितपटधोलो पटवस्त्रसिद्धजेनावानेविष' वायरानेविषे'वायरानासंग्रहवाभणीमोटोपा

स्वकक्षीलास्त्रोपामालाःसम्ब्रह्माः तत्सहस्राणि समतित्यमागच्छि समतिक्रामन्ती ओगाढत्तिप्रविष्टा तालजङ्घमित्यादितालद्वयविशेषः

हिंसंबुब्भमाणीर् उम्भीतरंगमालासहस्राद्दं समतित्यमाणीर्कइवएहिं अहोरत्ते हिंलवणसमुद्दं  
अणेगाद्दं जोयणसयाद्दं उगाढातएणंतिंसिंअरहस्यगपामोक्खाणंवाणियगाणंलवणसमुद्दं अणेगाद्दं  
जोयणसयाद्दं उगाढाणं समाणाणंबुद्दं उप्पाद्दयसयाद्दं पाउभूयाद्दं तंजहा अकालेगज्जिएअक्का

टवस्वनोउंचोकरीयेच्छे तेद्दणे प्रकारे एनावाउपमीयेच्छे जाणे करी विततविस्तारीलात्रीकीधीपाखजहोद्दस्युं गुरुडनीस्त्रीपंखितेनावा  
केहवीच्छे गंगानदोनापाणीना तीच्छाअकाराओतोवेगाः प्रवाहनावेगतेणे करी खोभनःपांसतीच्छतीसमुद्दप्रते प्रेरीच्छती उर्मिमोटा  
कसोलपाणीनातरंगनान्हाकसोलपाणीना तिहानामालाक० सम्ब्रह्मतेहनासहस्र हजारमेकस्रोलोलां प्रते समतित्यमाणीर्कहतांअ  
तिक्रमतीउसंघतीम्बं कतीच्छती केतलेएकदिवसे करी लवणसमुद्दमाहे अनेकप्रणायोजननासईकडाप्रते नावापइठी तिवारपच्छीतेस  
गलानेअरहन्वगप्रसुखाने द्वीपातरदेशातरनेविषे जावाभणीवाच्छतावाहणनाव्यापारीयाने लगणसमुद्दप्रते अनेकप्रणायोजननास



सचदीर्घस्वन्यो भवति ततस्त्रालवज्जंघियस्य तत्तथादिवंगयाहिं बाहाहिति आकाशप्राप्ताभ्यामतिदीर्घाभ्यां भुजाभ्यां युक्तमित्यर्थः मसि  
 स्त्रसगमहिंसकालगति महिषीकज्जलंमूषकः उं दरविशेषः अथवामषीप्रधानाम्बुधाताम्बादिधातुप्रतापनभाजनं मषीसूषामहिषश्च  
 प्रतीतएवतद्वल्कालकंयत्तथा भरियमेहवणंति जलभृतमेघवर्णमित्यर्थः तयालंबोद्धं निगयगदंतंतिनिर्गतानि सुखादश्राणियेषां  
 तैतवानिर्गताश्रादंतायस्यतत्तथा आजसिवयणगंडदेसंति आजसियत्तिवानिस्त्रालियजमलजयलजीहंति निर्लीलितंविद्यतसुखा

लेविज्जु, एत्रकालेयणियसद्दे अभिकवणं२ आगासेदेवयाणञ्चंति एगचणंमहंपिसायरूवंपांसंतिताल  
 जंघंदिवंगयाहिंवाहाहिंसिसूसगमहिंसकालगंभरियमेहवणं लंबोद्धं शिगयगदंतंशिस्त्रालियगण

तत्सईकडाप्रतेपेठाप्रवेगकीधाछताने' उत्पातादिकनाशतसईकडाप्रगटयथा ऊपनातेअनुक्रमेकहेच्छे' अकालवर्षाच्छतुविनागाजतोच्छ  
 तोत्तकालवर्षाच्छतुविगावीजलीकारतोच्छतो अकालवर्षाच्छतुविनास्त्रानितशब्दघणोठंडोमोटोगाजनोक्रूरशब्दकरतोच्छतोवारंवारएहवा  
 गच्छयावालागाश्राकानेविपेदेयतानाचेच्छे' इत्यकरताहे' एहवाएकमोटोपिशाचनारूपप्रते' देखेतेपिशाचनोरूपकेहवोच्छे' तालच्छनी

निःसारित्यमलंसमंयुगलं द्वयं जिह्वयोर्धेनतत्तथा आजसियवयणगंडदेसंति आजसियत्तिवाप्रविष्टौक्त्वदनेगंडदेशैकपोलभागीय  
स्यतत्तथाचीणचिभिह्वनासियंति चीनाऋखाचिपिटाचनिन्नानासिकायस्यतत्तथाविगयभुगभसुह्ंतिविकृते विकारवत्यौभुगेभग्ने  
इत्यर्थःपाठातरेण भुगेभग्ने अतीवक्रम्बु वीयस्यतत्तथाखज्जोयगदित्तचक्बु रागंतिखद्योतकोज्योतिरिंगणसाहद्वीप्तच्चूरागोलोचनर

जमलजुयलजीहंआजसियवयणगंडदेसंचौणचिविद्वृणासिकांविगयभुगभग्मसुहंखज्जोयगदित्तच

परंलात्रीवेजांषच्छेजेपिशाचनीवली केहवीरूपच्छेदिव्वं आकाशतांईगत पद्धताषणुंलांवात्रांह हायवेह्दंतेणेंकारिसहितच्छे वलीतेके  
ह्वोच्छे मसिमषीकाजलम्बुषकउं दरजीव अथवामषीकहतांप्रधानभली मूषाकहतांतांवादिधातुधमवात पाविवानोठामविशेषम्बुं स  
तेमषीम्बुं षाकहीये मद्दिसभं सोतेहनोरूप सरिखोरूपच्छे कालुंजेपिशाचनो वलीकेह्वोच्छे भरितपांणीइं भख्यामे घनावर्णसरिखो  
कालीरूपच्छे लात्राहोठच्छेजेपिशाचना निर्गतनीकल्याच्छे मुखयकीआगिला दांतपिशाचनानिर्लालितक० विखास्याविखारवंतमुखथ  
कीवाहिरकाढोच्छे अग्रभागजमलसंघाते जुगलजोडिलोजिह्वाजीभवेह्दनोजेणें पिशाचने रूमे आपूसियक० पैठाच्छे वदनमुखसांहि

कालंयस्यतत्तथा उत्रासनकंभयंकरं विशालवचोविस्तारः स्थलंविशालकुचिंविस्तीर्णं दरदेयं एवंप्रलंबकुचिपहसियपयलियपयडिय  
 गतत्तिप्रहसितानिप्रकृष्टितुमारब्धानि प्रचलितानिच स्वरूपात्प्रवत्तिकानिवा प्रजातवलीकानिप्रपतितानिच प्रकर्षणस्यथीभूतानि  
 गात्राणियस्यतत्तथा वाचनांतरेविगयभुग्गभुमुदप्रहसियप्रथलियपडियफुलिंगखज्जोत्रदित्तचक्खु रागंतिपाठस्तविद्यतेभ्रु गनेत्रु वीप्रह

कवु, रायं उत्तासंणंविशालवत्थंविशाल कुक्खिं प्रलंबकुक्खिं पहसियपयलिय पर्यडियगतं प्रह  
 च्चमाणंअण्णोडंतंअभिवगंतं अभिगज्जंतंवडुसोरे अट्टट्टहासेविणिसुयंतं शीलुअलगवलशुलिय

गंडदेशकपोलनाभागवेडुं जेपियाचना एतले सुखमैपैठाक्के कापोलभागजेहना चीनाकहतांनान्हीछोटीचिपटीनीची वैठीछेनासिका  
 जेपियाचनीविगयविकृतविकारवंतवीहामणीभुग्गभगकहताघणुंजवांकीभमुहभांपण्णजेजोपशाचनीखद्योतक० खज्जु अजौवविशेषतेह  
 नीज्योतिसरीखोदीपतेजवंत चक्षुरागलोचनआखिनोरातापणोक्के जेहनुउत्तासणगंक० भयनोकरणहारोक्के विशालविस्तीर्णपिडु  
 लोवचउरःस्यलहीयोक्के जेहनुविशालपिडुलोकुचिपेटनोदेशक्के जेपियाचनारूपनो प्रलंबायमानलांवीक्के कुचिकुखिवेडुं नोदेश

सिते प्रचलिते प्रपतिते च यस्य स्फुलिंगवत् खद्योतकवच्चक्षुरागच्छस्य तत्तथापणञ्चमाणमित्यादिविशेषणपंचकंप्रतीतनीलुप्यलेत्या  
 दौगवलंमहिपष्टंगं अतसीमालवकदेशप्रसिद्धो धान्यविशेषः खरहारंतिबुरस्यै वधारावस्यसतथा तमसिखड्गं क्षरोक्षतितीक्ष्णधारो  
 भवत्यन्यथा केशानामसुंडनादिति बुरेणोपमाखड्गधारायाः कृतेति अभिसुखमापतत्पश्यंति सर्वे पिसांयातिकाः तत्राह न्नकवर्ज्यायत्क  
 र्वा तितद्दर्शयितुमुक्तमेव पिशाचस्वरूपं स विशेषंतेषां दर्शनं चानुवदन्निदमाह तएणमित्यादि ततस्ते अहं न्नकवर्ज्याः सायातिकाः पिशाच  
 रूपं वक्ष्यमाणविशेषणं पश्यंति इदं च वृहनामिंद्राहीना वृहन्त्युपयाचितं यतान्युपाचिन्वं तस्मिंस्तिसृषुदाचार्यः अथवा तएणंति अरुह

अयसियकुसुमप्लगासं खुरधारं असिं गहाय अभिसुहमावयंमाणं प्रासंतिं तएणंसे अरुहसुगवज्जासं  
 भागप्रहसितप्रकर्षं करीक्रे सितुं पडिवाभणी आरंभ्याच्छे प्रचलितप्रकर्षं करीचलितयथाच्छे प्रोतानारूपयकीथईच्छेल लरीपथडियगत्तं  
 प्रपतिता निक० प्रकर्षं करीचलितयथाच्छे गात्रशरीरजे पिशाचना पणञ्चमाण इत्यादिविशेषणपंचप्रसिद्धे आकाशप्रते फोडतोच्छे  
 सासुहो आवी विलगेच्छे साहसुं सन्मुखगाजतोच्छतो वणोवणो अटाद्यास्यसुखयकी सूं कतोच्छतोनीलात्पलकमलसरिखो मायुभेसा

रागवज्जाइत्यादिगमान्तरं आगाखे देवशाओणञ्चं तिइतोऽनंतरं द्रष्टव्यमत एववाचनातरेनेदसुप लभ्यते उपलभ्यते चैवं अभिसुहंश्राव  
यमाणंपासंतितएणंते अरहणगवज्जानावात्राणियगभीयाइत्यादिततततालपिसायंति तालउच्चाकारोऽतिदीर्घत्वेनपिशाचखालपिशाच  
संविशेषणइयंप्रागिवफुहसिरंतिस्फुटितमबंधनविकीर्णंशिर इतिशिरोजातत्वात्केषायस्यसतथातंभ्रसरनिकरवत्वर्मासराशिवत्

जत्ताणावावाणियगगा एगंचणंसहंतालिपिसायंपासंति तालजंघंदिंवंगयाहिं बाहाहिं फुहसिरंभम

नोसौंगडोतेसरिखोगुलियगुलीनावर्णसरिखो अयसियक अलसीनाप्रकाशसरिखोएहवो खुरक०छरपलापाछ णासरिखीधारच्छेजे  
खन्ननीएहवाअसिखज्जतरवारप्रतेलेईने पाछणोषणुंतीखीधारवंतज्जइं अन्यथावेशानाअसुंडनथावाथकी छरपलानीओपमाखडग  
नीधारानीकीधीछे एहवाखडगप्रतेलेईने अभिसुइसाहसूंआवत्तंपिशाचनारूपप्रते तेष्यापारीवाहणनादेखे देखीने अरहन्नकवर  
जीतेसगलाईवाहणनाव्यापारी जेकरे'छेतेदेखाडवाभगीकह्योति हिजपिशाचनास्वरूपप्रते सविशेषतेवाहणनाव्यापारीयानतेपि  
शाचनोदेखिवूंअनुवदतोमोलतोछतोएकहेछे तिवारपछीतेअरहन्नकआवकवरजी बीजासगलापरदेशनाजाणहारवाहणनाव्यापा

सहिषवच्चकालकोयःसतथातं भृतसेधवसुंतथेव सुष्यं मिषधान्यशोधक भाजनविशेषवत् नखायश्रस सूर्यं नखसुं फालसदृशंजिह्वामि  
तिफालं द्विपंचाशत्पल प्रमाणोलोहसयोः दिव्यविशेष सस्रवङ्गप्रतापितमिहग्राह्यं तत्त्वाधस्यं चेहजिह्वायावस्यं दीप्तिदीर्घत्वादिभिरि  
तिलंबोष्ठं प्रतीतं धवलाभिर्दत्ताभिरक्षिटाभिर्विशवरत्नेनतीक्ष्णाभिः स्थिराभिर्निश्चलत्वेन पीनाभिरुपचितत्वेन कुटिलाभिश्चवक्रत

## रणिगरवरमासरासिसमहिहसकालगंभरियमेहवसुं सुप्पणहंफालसरिसजीहलंबोष्ठं धवलवट्टञ्चसिलि

रीयाएकमोटोतालपिशाचनोरूपश्चागलि विशेषयीकहिस्थेतेहवूदेखे ताडवृक्षने आकारे लांघपणेकरि पिशाचकालतालपिशाचते  
देखेताडवृक्षनीपरे लात्रीवैजाघच्छेजेपिशाचनाहिर्वे आकाशतार्ङ्गैर्गच्छे पञ्चचेछे लात्रावेळुं हाथतेणेकरीसहितच्छे अणवांधवाञ्चण  
गंधवापणेकरी फूटाविखस्याछूटाक्केथिरमाथानेविषे केशवालच्छेजेपिशाचना तथाभसराननिकरसमूह सरिखोवरप्रधानसासरा  
थिउडधाननासमूहसरिखोवलीसहिषभंसाना वर्णसरिखोकालोच्छेजेपिशाचएहवाप्रते तथापाणीद्वभस्थानेहनावर्णे सरिखोवर्णे  
छेजेकालोपिशाचच्छे सुपडासरिखानखच्छेजेपिशाचना वलीकेहवोच्छेफालक वावनपलनो लोहमयदंडधीजकरवानो तेवलीअग्निमां

यादं द्राभिरवगढं व्याप्तं वदनं यस्य स तथा तं विकोशितस्याऽपनीतकोशकस्य निरावरणस्येत्यर्थः धारास्योर्ध्वीराप्रधानखड्गयोश्चद्युगलं द्वितयं ते न समसदृशावत्यंततुल्ये तनुके प्रतले च चलं विसुक्तस्यैत्र्यथाभवत्यविश्रममित्यर्थो गलंत्यौरसातिलौल्यतः लालाविमुंचत्यौरसलोले भक्ष्यं च

द्वितिक्वथिरपौणकुडिलदाढावगूढवयणं विकोसियधारा सिजुयलसमसरिसतणुयचंचलमलंतरसलो ल  
धवल कुरफरंतणिस्रालियगजीहं अदयत्यियमहस्रविगयवौभच्छलालापगलंतरत्ततालुयं हिंगुलयसग

हेतपाव्योरातोकीधोते सरिखी जिह्वानावर्णनीराती दीप्तिच्छं लात्रपणादिके करी जे पिशाचनीलांवाह्ने होठजे पिशाचनाधवलीवृत्तवा टलीभसिलिट्टक० अलगीरक्कें विरलीपणेंकरी तिक्वती खीथिरहालतीनथी निचलपणेंकरी थिरक्केपीनपुष्टक्कें जाडीक्केट्टद्विपणेंकरी कु टिलवांकीक्केवांकपणेंकरी एहवी जेदाढातेणेंकरी भवगूढक० व्याथोक्केवदनसुखजे पिशाचनो एहवाप्रते वलीकेहवोक्के विकोसियक० पट्टि चारमांहिथीमाहिरकाद्रो निरावरणपडियाररहित एहवोधारसिधारक० प्रधानभ्रसिक० खडगतरेवारवेज्जं नोजियुगलजोडलुंतंणे तरवारनेजोडलें करो समेसरिखीसरिसभ्रत्यंतघणुंसरिखी वरावरतनुकेपातलीचंचलस्यैत्र्यं रहित जिमऊद्दंतिमएतले वीसामारहि

संलपटे चपलेचंचलेफुल्लुरायमाणेप्रकंपेनिर्लीलितेसुखान्निःवाधितेअग्रजिह्वेअग्रभूतेजिह्वेजिह्वाग्रेइत्यशौथेनसुतयातंअवत्विर्यति  
 प्रसारितमित्येकेअन्येतुयकारस्यत्प्रत्वात्अत्रयत्वियंप्रसारितसुखत्वेनदृष्टंदृश्यमानमित्याहुर्मदक्षतिमहत्विद्वतंवीभलंललाभिः  
 प्रगलत्प्रक्तंचतालुकाकुदंयस्यसुतयातंतथाहिंगुलकेनवर्षकद्रव्यविशेषेणसगर्भकंदरंलक्षणांवलंबयस्यसुतयातमित्वअंजणगिरि  
 स्वत्तिविभक्तिपरिणामादंजनगिरिं क्वाणवर्षंपर्वतविशेषंअथवाअवच्छिष्ट्यादिहिंगुलएत्यादिदिवकर्मधारयेणचक्षभणवदनपद

भ्रमकंदरविलंचअंजणगिरिस्वअग्निजालुंगिलंतदयणंआजसियअक्वचस्मोडुगंडेसंचौणचिमिद्वं

तगलंतगलतीरसनाअतिलौल्यलःलचपणायकीलालामूंकतीच्छेरसलोलखानारसनेविषंलंपटणीचपलचंचलफरफरायमानप्र  
 कंपपतीएहवीच्छेनिष्तालियग्नंजीहंकसुखसांहियकीवाहिरकाटीच्छेआगलीजीभवेजीभनोअग्रभागजेणंपिशाचेंएहवाप्रतेतथाअ  
 वत्वियंक०प्रसारितमोक्कलामुखपणेकरीदेखतोच्छेसहस्रमोटोविगयविकृतविकारवंतवीभच्छवीहामणोलालायेकरीपगलंतप्रकर्षक  
 रीगलंतोस्करतोच्छतेएहवोरतोतालुओच्छेजेपिशाचनोएहवाप्रतेवलीतेकेहवोच्छेहिंगलूइंकरीसरिखोसगर्भसांहिलाभागसंहितकं



स्यविशेषं पणंकार्थं च स्यतमित्येवं रूपश्च वाक्यशेषो द्रष्टव्यः तथा अग्निज्वाला उद्भिन्नरुद्धनयस्य सतयातं आजसि यत्ति संकुचितं यद्द्वं चम्ब  
जलाकर्षणकोशसद्वत् उद्भिद्धत्ति अप्रकृष्टवपकपर्षदती संकुचितौ गण्डदेशीयस्य सतयातं अन्यत्वाद्दुःआवृषितानि संकुटितानि अक्षाणी  
द्विधाणि चम्ब चन्द्रोपौ च गण्डदेशीयस्य सतयातं चीनाङ्गस्वा चिमिद्धत्ति चिपिटानन्नावं कावक्राभग्नेव भग्ना अयोधनकुट्टिते वेत्यर्थो ना

कणासंरोसागयधमधञ्जंतमारुयण्डि, रखरकरसज्जुसिरउ भुग्गभग्गणासियपुडंघाडुभभडरइयमीसणसु

दरागुफालवणविलदरच्छे' जेहनोतेहनीपरेसुखच्छे' अंजनगिरिकालावर्णनोपर्वतविशेषतेप्रते' अग्निनीज्वालाआलप्रतेउदगिरतोसू  
क्तोनाखतोवदनसुखच्छे' जेहनोवलीकेहवोच्छे' आजसियक' संकुच्योअत्रचर्मक' पाणीकाठिवानोके' सतेहनीपरे' उद्भुक्त' अपकृष्टअप  
कर्षयंतउ' चायथाच्छे' संकुटितगण्डदेशकपोलवेजेपिशाचना तथाअथवाआजसियक' आभूषितसंकुटितयथाच्छे' अक्षपांचद्रु' द्वियचर्मत्व  
चाहोठगण्डदेशकपोलच्छे' जेपिशाचनावलीकेहवोच्छे' चीनाक' नान्हीचिपटीनींचीवांकीभागासरिखी भागीलोहनेघणीकूटीसरीखी  
नाशिकाच्छेजेपिशाचनीवलीके हवू' केरोसयकीआगतआवेच्छे उपजेच्छेधम्मधमंत प्रत्रलपणेकरी धमधमंतशब्दप्रते' करतोएहवोमा

सिकायस्यसतयातं रोषादागतो धमधसंतति प्रवतवाधमवेचशद्दं कुर्वाणोमारुतो वायुनिष्ठु रोनिर्वरः खरपरुपोत्यं तकर्कशशु  
 धिरयोरंघ्रयोर्बलतत्तया तदेवंविधमवभुग्नंचक्रंनसिका पुटंयस्यसतयातं इहचपदानामन्यथानिपातः प्राकृतत्वादितिघाताचपु  
 षादिवधाय घाटाभ्यावामस्रकावयवविशेषाभ्याउङ्कटं विकरालंरचित मतएवभीषणंमुख्यस्यसतयातं ऊर्द्धं मुखेकर्णं शष्क ल्यौकर्णावय  
 वीययोस्तौ तथातौचमहातिदीर्घाणिविकृतानि लोमानिययोस्तौ तथातौचसंखालगन्ति शङ्खवन्तौच शङ्खयोरद्विप्रत्यासन्नावयवविशे

हंउर्द्धसुहकस्यसकुलिय महंतविगयलोमसंखालगलंवंत चलियकस्यं पिंगलदिप्यं तलोयगंभिउडित

रुतवायरोनिट्टुरखरफरसघगुं काठिणभ्रूसिरपोलाच्छिद्रवेच्छे जेहने विषेतेहवो उभगगभवभग्नवाकोवेनासिकानापुटच्छे जेपिशाचनोत  
 यावलीकेहवोच्छे घातायपुरुषादिकनावधभणी अयवामाथानाअवयवविशेष वेघाटाउं चानीचातेणे वेघाटेकरी उन्नडउङ्कटविकरा  
 लरइयरचितरच्योच्छे कीधोच्छे एकारणयकीभीसणवीहामणोसुखच्छे जेपिशाचनोएहवाप्रतेवलीके तापिशाचउर्द्धसुखाउं चासुखी  
 ऊभीवेकानानीयाकुलीच्छे जेकानानीवलीतेकानकेहवाच्छे महंतमोटांलांवाविगयविकृतानिभू डावाका एहवालोमरूवाडाच्छेजेवेऊ

घयोःसंलग्नौसंमहाद्वित्ये के लंबमानौचप्रलंबौवलिनौ चललन्तौकरणौयस्य सतथातंपिङ्गलेकपिलेदीप्यमानेभास्वरे लोचनेयस्यसतथा तंभ्रुकुटिःकोपकृतो भ्रूविकारः सैवतडिद्विद्युद्यस्मिन्सतथा तद्विधंपाठान्तरेणभ्रुकुटितंघत भ्रुकुटिललाटंयस्यसतथातंनरशिरोमा लयापरिणद्धंवेदितंचिह्नं पिशाचनेतुर्ग्रहसतथातंअथवानरशिरोमालयात्परिणद्धं परिणहनंतदेवचिह्नंयस्यसतथातंचिचित्रैव

डियणिडालंणरसिरजाल परिणद्धंविद्धंविचित्तं गोणससुब्रह्मपरिकरं अत्रहोलंतपुष्पयंतसप्प

काननासंखालगसंखक०संखवंतआंखिने घण्टुकडाअथयवविशेषानेविषेआलग्नलागाछे विलगाछे लंबतलांआप्रलंबएहवाचलितचाल तावेकानछे जेतालपिशाचनाएहवाप्रते वलीकेहवोछेपिंगलपीलाकपीलादिष्यंत दीपतातेजवंतवेलोचननेलछे जेपिशाचनावली केहवूछे भिउडिभ्रुकुटिकहतां कोपे करीकीधोभ्रू भ्रूमहनोजेविकारतेहिजरूपजेतेतडितवीजलीछे जेहनेविषेतेहवू निलाडछेजेपि शाचनोवलीकेहवोछेनरसिरमनुष्यनामाथानी मालाडू करीपरिणद्धंवीद्योछेचिह्नपिशाचनीध्वजाजेपिशाचने अथवानरमनुष्यमा थानीकोपरीनीमालाडू करी जेपरिणद्धजेविस्तारवोव्यापवोतेहिज चिह्नछेजेपिशाचनोएहवोप्रते वलीकेहवूछेविचित्रधणेप्रकारे

ह्रविधैर्गीनसैः सरीसृपविशेषैः सुवद्भुः परिकरः सन्नाहोयेनसतथातं अत्रहोलंतति अवत्रोलग्रंतोडोलाग्रमानाः पुष्पुयातत्तिपूक्त्वं  
 न्तोयेसर्पावृश्चिकाः गोधाउं दुरानदुरानकुलाः सरटाश्चनैर्विरचिताविचित्राविविधरूपवतीवैकव्यके गोत्तरासंगेननर्कटबंधेनस्कन्धलम्ब  
 मानमावतयावामालिकामालाग्रस्यसतथातं भोगः फणः सकरोरौद्रोद्योस्तौ तथातौत्रदक्षिणसर्पाचतौ धमधमायमानौचताविवलम्बमा

विच्छु, यगोहंडुं दिरणुल सरडधिरद्रयविचित्रवियथ्यमालियागं भोगकुरकरहसप्रधमधमंतलवंत

करीगेनसकहतासरीरूपसर्प्यविशेषतेणैकरी सुवद्भुधगुंवाध्योक्तें परिकरसन्नाहकवच जिणेतालपिशाचैएहवाप्रते वलीकेहवोक्तें अत्र  
 होलक० अवघोलताअरहापरहाडोलाग्रमानकृता पुष्पुयायंतक० फूलारशब्दकारता जेसर्प्यवैक्कूगोहंडुं दरनउलसरटा कहताकाकीडा  
 सांडातेणैकरी विरद्रयविशेषैकरीरचीं विचित्रविचित्रविविधरूपवती वेयत्यकहतासुकटबंधउत्तरासंगे करी खांधखंभाऊपरिलंबाय  
 मानपणैकरीलांबी एहवीमालिकामालाक्तें जेतालपिशाचने एहवातालपिशाचप्रते वलीकेहवोक्तेभोगक० सर्प्यनोशरीरकहीयेतेफणा  
 सहितसकूरुद्रसहितक्ते वेसर्प्यजेहनेविषेएहवावेतेकालासापकोपेकरी धमधमायमानकृतातेहिजलंबायमान लांबाकर्णपूरकानना

नौकर्णपरोकर्णभरणविशेषौ यस्य सतथातं मार्जारशृगालौ लगितौ नियोजितौ स्तन्वयोर्धेनसतथातं दीप्तं दीप्तस्वरं यथा भवत्येवं षु  
 ग्धयंतति घूकारशब्दकुर्वाणो यो घूकः कौशिकः सकृतो विहितो कुं भलतिशेष्वरकः शिरसियेन सतथातं घण्टानारवं शब्दस्तेन भीमो यः  
 सतथा सचासौ भयङ्करश्चेति तं कातरजनानाहृदयं स्तो टयति यः सतथा दीप्तमद्दृहासं घण्टारवेण भीमादिविशेषणनिशिष्टं विनिमुं चंतं

कण्ठपूर्वमञ्जारसियालल इयखंधं दित्तस्वरघुघुयंतघुघुयंतघुघुयंतघुघुयंत भलसिरंधं टरवेण भीमभयं करं कायरज  
 णहिययफोडणं दित्तमद्दृहासविणिसुयंतं वसारुहिरपूयं समलमल्लिण पोच्चडतणुं उतासणयं वि

आभरणच्छेजे पिशाचने एहवाप्रते वलीतेके हवोच्छेमाजार्विलाडो अने सियालते वेड्डं लागच्छेयाप्याच्छे वैसास्याच्छे खंधवेड्डं खांधाने वि  
 पे जेणे पिशाचे वलीतेके दित्तदीपतो मोटो आकरो स्वरसादजिमड्डं एणे प्रकारे जघुघुयुत घूकारशब्दकरतो जे घूकते की धोच्छे सुभलं  
 कं गोश्वरकसेहरो शिरसिमाथाने विषे जेणे पिशाचे एहवा प्रते वलीधंटानारव शब्दतेणे करी वीहामणो जे शब्दते भं कर भयनो करण  
 चारयेते प्रते ते गद्दके हवोच्छे कातरकायर एहवा जनलोकाना हृदयप्रते फोडतोच्छे जे पिशाच एहवा प्रते वलीतेके हवोच्छे दित्तदीपतो

वसाधिरपूयमाससलैर्मलिना पौञ्जलतिविलीनाचंतनुः शरीरयस्यसतथातंउत्वासनकं विशालवचसंचप्रतीते पेच्छं तन्नि प्रेक्ष्यमा  
 गादृश्यमानाअभिन्नाअखंडानखाच्च नखराच्चमुखंचनयनेच कर्णौचयस्यांसातथा सचासौवरव्याघ्रस्य चित्राकर्तुंराक्षतिचचर्सेतिसा  
 तथासैवनिवसनंपरिधानंचस्यसतथातं सरसंरुधिरप्रधानंचयज्ञलचर्मतद्विततं विस्वारितंचलतत्तथा तदेवंविधंजसविद्यंति उच्चित्तंजर्घी

सालवच्छं पेच्छं ताभिस्सुणहसुहणयणकस्वरवर्गधचित्त कितीणियंसणंसरसरुहिरगंस्यचस्मवितत  
 जसवियत्राङ्गजुयलंताहिथखरफरुसअसिणद्धित्तअणिहुअसुभअप्पियअक्कंतवग्गूहियतज्जयंतंप्रासं

आकरोअटाव्यहास्यद्वासोघंटाद्यब्द भीमादिविशेषेणविशिष्टसहितम्कतोच्छे वलीकेहवोच्छेवसानसाधिरलोही पूयप्ररुभेचोमांसम  
 लतणैकरीमलिनामेलूच्छं पौञ्जलकहताविलीनाघणोखरज्जोनीप्योच्छे तनुशरीरजेपिशाचनोएहवाप्रते वलीकेहवोच्छेघणुंलासकरतो  
 छेएहवाप्रते विशालपिङ्गलोवज्जहीयोच्छेजेह्नो वलीतेके०पेच्छंतप्रेक्ष्यमाणादेखताएहवा अभिन्नाअभिन्नअखंडनखच्छे अखंडसुखदी  
 सेच्छे अखंडनयनेतदीसेच्छे अखंडवेकानदीसेच्छे जेचामडीनिविषे एहवीवरप्रधानवाघनीचिलीकावरीजे कितीकतिःचामडीचयते

द्वयं वाङ्मयुगलं येन सतयातं ताभिश्चतयाविधाभिः परपरषष्ठाश्रतिकर्कशाः अस्त्रिगधाः स्नेहविहीनाः दीप्ताज्वलंत्यद्भवोपतापहेतुत्वात् अ  
 निटाश्चभिलाषाविषयभृताः अशुभाः स्वरूपेषुअप्रियाः अप्रीतिकारत्वेन अकांताश्च विनष्टरत्वेनयावाचस्त्राभिः तस्मान्कुर्वीणं तस्मात्वं  
 चपथ्यन्तिस्त्रापुनश्चालपिशाचरूपं एज्जसागुंतिनावंप्रत्यागच्छं तंपथ्यन्ति समतुरंगेमाणेति आस्त्रिष्यन्तः स्त्रान्दः कान्तिः केयः षड्रः प्रतीतः

तितंततालपिसायखुवं एज्जसागुं पासइइत्ता भौयासंजायभया अस्त्रयस्त्रकायं समतुरंगेमाणाश्च वज्जइइ

द्विजनिसवसुनंपहिरवानोवस्त्रच्छे जेपिशाचनें एहवाप्रतें वल्लित्के० सरस्वंधिरप्रधानतत्कालनासरसवथा लोहीसहितजेगजचर्महा  
 यीनोवासडोतेविस्त्रास्योच्छे जेहनेविषे तेषमएहवोजसवियडं चो कौधोच्छे वाङ्मयुगलजेणे पिशाचे एहवापिशाचप्रते तेहवीखरफर  
 सखरपरुपाअतिवगुं कर्कयकठिनअसिण्डुनेहरहित लूखीदित्तदीप्ताज्वलतीवलता सरिखीतापनाहेतुपणायकी अग्निदृश्रनिष्टअत्र  
 द्वाभअगुभपांडुस्त्ररूपेकरी अप्रियअप्रीतिनिकरवापणेंकरी अकांतकांतमनोरमनर्ही भूंडास्वरपणेंकरी एहवीजेवांणीतेणीइं करी  
 व्यापारीयांप्रते तस्त्रातासुपामताप्रतें करतो तस्त्रोनसाडतोतर्जतोतर्ज नाकरतो एहवातालपिशाचप्रते देखेतेव्यापारी वलीतेताल

शिवो महादेवः वैश्रसणो यज्ञनायकः नागो भवनपतिविशेषः भूतयज्ञाव्यन्तरभेदाः आर्वाः प्रशान्तरूपाः दुर्गाः कोट्टिक्रियासैवमहिषारू  
ढरूपापूजाभ्युपगमपूर्वकारिणामार्थनानि उपयाचितान्युच्यन्ते उपयाचित्वं तोविदधतस्तिष्ठं तिस्रोति अहंनकवर्जानामियमिति कर्त्त

दाणयखंदाणयरुहसिववेससणगागणं भूयाणयजक्वाणयअज्जकोट्टिकिरियाणयवह्णिणउवाइयस

पिशाणोरूपनात्रावाहणप्रते आधतोछतो देखीने तेव्यापारी भीताः वीहताछताघणुं भयजपनाछताभयपांस्याछता सां होसां हिकाया  
देहप्रतेसगलाएकएकमाहे' पेसतावलगताछता १ एहवा देवतानेमानणाइच्छणाकरं' जोएविघ्नयकीछूटस्यातोघणाइ' द्रानी पूजाकर  
वीसाने कीर्तिकस्वामिनीपूजाकरवीसाने रुद्रदेवतानीपूजासाने शिवमहादेवनीपूजासाने वैश्रसणकुवेरदत्तनीपूजासाने' नागभव  
नपतीदेवतानीपूजासाने भूतव्यं तरदेवतानीपूजासाने घणायज्व्यं तरदेवतानीपूजासाने घणीआर्याक' प्रशंतरूपशतिनीकरणहा  
रीदुर्गादेवीनीपूजासाने कोट्टिक्रियाकहतातेहिजदेवी दुर्गाभइ' साजपरचढी देवीयानीपूजाकरवीसाने इत्यादिकवणामानणापूज  
णानाउपायनासयसईकडा उपायकरताछताचिठं तिक' रहेछे' अरहंनकवरजीवीजासगलावाहणना व्यापारीयानीकरणिकहीहि



याइण्डवाइममाणचिद्धं तितएणसेअरहणएसमणेवासएतं दिव्वंपिसायह्वं एज्जमाणं पासइइत्ता  
 अभीएअतत्थेअचल्लिएअसंभंतेअणाल्लेअणुव्विग्गेअभिण्णसुहरागणयणवणेअदीणविमणमाणसेप्पो  
 यवाहणस्सएगदेसंसिबत्थंतेणंभूसिंपमज्जइइत्ता इणंइण्णायइइत्ता करयलजावत्तिकइ, एवंवयासौणमो

वेअरहन्तकनीकर्त्तव्यताप्रतेकहेछे तिवारपच्छीतेअरहन्तकअमणोपासकसाधुनीसेवानो करणारआवकतेदिव्यदेवतासंबंधीपिशाचनो  
 रूपआवतोछतोदेखेदेखीने अभीतः लिगारमात्रवीहतोनथी लगारमात्रवासवासपांस्योनहीं लिगारचल्योनहीं हाल्योनहीं लगार  
 मात्र आकुलव्याकुलययोनहीं लिगारमात्रसंज्ञांतययोनहीं लिगारमात्रउद्देशेद्वनपांस्यो लिगारमात्रभेदपांस्यो नथीविगाद्योन  
 हींमुखनोरागलिगारमात्रभेदपांस्योनही विगाद्योनही नयननेत्रनोवर्णआखिनोवर्ण दीनदयामणो आमणदूमणोनययो विमण  
 माठोमननकीधी अरहन्तकआवकेंपोतप्रवहणवाहणना एकदेशएकप्रदेशनेविषे एकखूणानेविषेजई वस्त्रकपडेकरीवाहणनीभूमिप्र  
 तेप्रसार्जं प्रसार्जीनिपूंजीने यानकठामप्रतेवेठावैसेवैठो पण्वेहायजोडीकरीने इणं प्रकारेकहतोइहो नमस्कारइहोअणभणीधं४

व्यतीक्ताऽधुना अहंनकस्यतामाह तएणमित्यादिअप्पत्थियपत्थियत्ति अप्रार्थितंचत्के नापिन प्रार्थितेतत्प्रार्थयत्तिस्सयः सतथातदामन्न

त्युणं अरिहंताणंजावठाणंसंपत्ताणं जइणंअहंएतोउवसग्गाओसुं चामितोमेकप्पइप्रारित्तएअहस्सुं जइणं  
अहंएतोउवसग्गाओणसुं चामितोमेतहापच्चक्खाएयव्वं तिकइ, सागारभत्तं पच्चक्खाइ तएणंसेपिसायरू  
वेजेणेवअरहस्सएसमणेवासाएतेणेवउवागच्छइत्ताअरहस्सगसमणेवासयंएवंवयासीहंभोअरहस्सगा

इं द्रानीकीधीपूजानेयोग्य अतिशय३४वंततेभणी तांजांसिद्धिरूप मोक्षनोथानकपास्याच्छे तेभणीइहांताइं सगलोपाठनमोत्युणानो  
कहीनेइमअरहन्नकआवकअभिग्रहकरतोऊवो जोऊं एआउपसर्गयकीसूं काउं तोमुजनेकल्पे काउसगपारिवाभणी अथवाजोऊं ए  
आउपसर्गयकीनसूं कावूं तोसुभनेतथाविधतेहवो पच्चक्खाणकारिवोकल्पे इमकहीने सागारआगारसहितमातपांणी पचखेएतले  
सागारीअणसणकीधो तिवारपच्छीतेपिशाचनोरूप जिहांअरहन्नकआवकच्छेते तिहांआवेआवीने अरहन्नकआवकप्रते इमकहतोऊ  
ओतेपिशाचनोरूप हंभोअरेअरहन्नकअपत्थियक्कं अणप्रार्थीनोप्रार्थकवांछक्कजेकेणेप्रार्थीयेनहीं वाळीयेनहीं एहवोसरणतेपत्थि

गंपाठान्तरेणअप्रस्थितःसन् यःप्रस्थितइवमुन्मुखुं रित्यर्थः सतथोच्यतेतदामन्त्रणंहेअप्रस्थितवाचकरणात् दुरंतंपंतलखणत्तिदुरंता  
निदुष्टपर्वन्तानिप्रांतान्यपसदानिलक्षणानियस्यसतथातस्यामन्त्रणंहीणपुणचाउद्दसी इत्तिहीनाअसमग्रापुण्यपविताचतुर्दगीतित्यर्थ  
स्यजन्मनिसतथा चतुर्दशीजातोहिक्विलभाग्यवान्भवतीति आकोशेतद्भावोदर्थितइतिसिद्धिरिध्रीकित्तिवज्जियत्तिप्रतीतंतवगीलब्ध  
एत्यादितवशीलव्रतान्यगुव्रतानिगुणानिविरमगानि रागादिविरतिप्रकाराः प्रत्याख्यानानिनमस्कारसहित्तादीनिपौषधोप  
वासोऽष्टम्यादिषुपर्वदिनेषूपवसनमाहारशरीरसत्कार ब्रह्मथापकपरिवर्जनमित्यर्थःएतेपाद्वंद्वःचालित्तएत्तिभंगकांतरगृहीतान्भङ्ग

अप्रथिपत्थियाजावपरिवज्जिया णोखलुकम्पइ तवसौलव्यगुणवेरमण पञ्चकवाराणपोसहोववासाइ

यकहतांप्राथेके वांछेजेतेतेहनोआमंतणकरिये बोलावीयेहेअप्रार्थितप्रार्थितअथवा पाठांतरेअप्रथियपत्थियाक० अणमरतोयतो  
जेमरवाभणीमरणवांछतोजेतेहनो आमंतणकरियेहेअप्रस्थितप्रस्थित हेअरहन्नकजावयज्दनाग्रहणकरवायकी दुरंतंपंतलखण  
त्तिकहतांदुरंतदुष्टुपंधंतदोहिखोअंतके एहवाप्रांतानिक०भूडोनीं चोलक्षण्णे जेहनोतेहनोआमंतणकरीये हीणपुण्णचाउद्दसाहीण

कान्तरेणकर्तुं लोभयितुमेतानेवं परिपालयाम्यु तोज्जाम्भीति क्षोभविषयात्कर्तुं खंडयितुं देशतः भक्तुं सर्वतः उज्जितुं देशतः स्या देशविर

चालित्तएवा एवं क्वो भित्तएवा खंडित्तएवा भंजित्तएवा उज्जित्तएवा परि चत्तएवा तंजइरं तुमं सीलव्व

ओष्ठी उष्णीपूरी नही एहवीपुण्यापनित्रकारणी च उद्दसिति थिच्छे जेहना जल्लने विषे ते हना आसंलग्गसंपूर्ण च उद्दसिना दिवसने विषे जन्म  
 ऊइं ते भाग्यवंत ऊईं वावत् श्रीयो भालक्ष्मी धितिकी र्त्तितेणे करी वर्जितरहितच्छे हे अर हन्तकने इति निषेधे खलु निचयनकल्पे तवतु भने  
 शीलत्रतक० पाचअणुन्नतधूलप्राणातिपातादिगुणाः कहतां गुणद्रतनि णवेरमणक० रागादिविरतिना प्रकारपञ्चखाण कहतां नवकार  
 कहीपोसहजचरीपौषधोपवास आठमिच उद्दसिप्रसुखचारपर्वतिथिने विषे पोसहसहितउपवासनोपञ्चखाण आहारनोवर्जवोशरी  
 रसत्कारन्नह्यव्यापारनोवर्जवोएहवा ताहरात्रतपञ्चखाणाप्रते चालित्तएक० भागातरकारीग्रह्यालीधा भागातरै करिवाभणी चलाविवा  
 भणीइरणे प्रकारे एतलाजन्नतऊं पालुं हिवेतजोएहवा लोभना पमाटिवाना विषयप्रते करिवाभणी देशयकी खंडाविवाभणी सर्वयकी भं  
 जाविवाभणी सगली देशविरतिने तजाववे कंडाववे करी परित्यजवाभणी समकितने कंडाविवाभणी तेकारणयकी जोतुं शीलत्रतादि

तेस्त्यागेनपरित्यक्तं सस्यक्तस्यापित्यागतइति दोहिंश्रंगुलियाहिंतिश्रंगुठक्तञ्च नीस्थ्यांश्रयवातञ्च नीमध्यमाश्यामिति सत्तद्वतलप्यमा  
णमेत्ताद्रुं तितलोहस्तसालाभिधानोवातिदीर्घोष्टच्चविशेषः सएवप्रमाणंमानंतलप्रमाणं सप्तौवासप्तौटानि तलप्रमाणांनिपरिमा  
णंयेषांतेसप्तौटतलप्रमाणमात्रास्तान् गगनभागान्यावदितिगम्यते उडुढं वेहासत्ति ऊर्ध्वं विहावसि गगनेउब्बिहामिस्तिनयामिजे  
शंतुसंतियेनत्वं अदृदुहद्वसहेति अर्त्तस्यथानविशेषस्ययो दुहदृत्तिदुर्घटः दुःस्यगोदुर्निरोधोवशः पारतंतंतेनहृतः पीडितः अर्त्तदु

यणपरिस्त्रयसितोमेअहंपोयवहणंदोहिंश्रंगुलीहिंशिगृहामिस्ता सत्तद्वतलप्यमाणमेत्ताद्रुं उडुं वेहा  
संउब्बिहामिश्रंतोजलं सिण्वोलेमि जेणंतुमं अदृदुहद्वसहे अकालेचेवजो वियाश्रोववरोविज्ज

सगलाश्रावकनावतांप्रतेनहौंत्यजेनहौंम्बुकेतोतुजनेऊं एभापोतप्रवहणवाहणप्रतेवेअंगुलीएकअंगूठोअनेएकतर्जनीनीश्रांगुलीअनेमध्य  
माश्रांगुलीएणीवेऊं श्रांगुलीइं करीगिण्हामिकहतांग्रऊं कुंलेउं कुंउपाडुं कुं सत्तद्वतलकहतांसातश्राठहाथ अथवातलताडहृच्चविशेष  
धणुं चोलांश्रोतेहिजप्रमाणमानंछेतेतलप्रमाणकहीयेसातश्राठताडप्रमाणपरिमाणहेजिहानोएतलेसातश्राठताडपरिमाणमात्रउ

र्षटवशार्त्तः किमुक्तं भवति समाधिप्राप्तः ववरो विज्जसिति व्यपरोपयिष्यसे अपेतो भविष्यसीत्यर्थः चालित्तएत्तिइहचलनमन्यथाभवत्

सितएणंसेअरहसए समणोवासएतं देवं मणसा चैव एवं वयासीअहसं देवाणुप्पियाअरहसएणामंस  
मणोवासएअभिगयजीवाजीवे णोखलुअहंसक्काकेणई देवेणवादाणवेणवाजावनिगंथाओपावयणा

इदं कर्हतां उंचावेहायसंकहता आकाशनाभागनेविषे उव्विहासिकहतालेजाउं पछें समुद्रनापांणीसांहे हेठोवोबूळुं ऊं जेणे कारणेतुं अट्टकं आर्त्तध्याननो दुहट्टकं दुर्घटदुःखेनिरोधवसट्टकं परवसपणोतेणेंकरी पीछोछतो असमाधिपांस्योछतो अकालनेविषे चैवनिच्चयसहित जीवितव्यथकीववरोविज्जसिकं मरणपभेसिजोताहराव्रतनहीं मूकेतोइमकच्छो तालपिशाचे तिवारपछीते अरहन्नकअमणोपासकआवक तेतालपिशाचदेवताप्रते सनेकरीचेवनिच्चय इणप्रकारे आगलिकहिस्थे तिमकहतोह्हाओ अहोदेवानुप्रिय हेतालपिशाचदेव अहंकहतां ऊं अरहन्नकावकच्छुं जीवअजीवादिनवतत्वनो अभिगतजाणंछुं नोनहीं खलुनिच्चयअहं ऊं सकासमर्थ कोई देवताज्योतिषी वावेमानिकदेवतांई दानवभवनपतिदेवता यावत् निग्रंथप्रवचनसिद्धांतयकी चलावि

कथंखोभित्तएत्ति लोभवितुं संशयोत्पादनतः अथविपरिणामित्तएत्ति विपरिणामयितुं विपरीताध्यवसायोत्पादनतः इतिसंतेइत्या

ओचालित्तएवाखोभित्तएवा विपरिणामित्तएवा तुमणं जासइत्तंकरेहीत्तिकइ, अभीएजावअभिण्ण  
सुहरागणयणवणे अद्वैणविमणमाणसेणिलेणिएणप्रंदे तुसिणीएअम्मज्जाणोवगएविहरइत्तएणंसे

वाभणीअन्यथाभावकुभावपणोकरिवाभणी किमच्चोभनापमाडवाभणी संगयना उपजाविवाभणी समर्थनज्जइं भूंडापरिणामना  
करिवाभणी विपरीतमनना अथवसायनाउपजाववाभणी समर्थनज्जइ एतलेतुं माहराधर्मयकी चूकाविवाभणी समर्थनज्जइं ताह  
राजिअद्वावांछाज्जइतेतुं कर एतलेताहरीजेइच्छाहइं जेकरिवोज्जइं तेतुं करइमकहीने अवीहच्छतो यावत्तुं भे दपांस्योनयी सुखनो  
रागरंगविणसाओनयी सुखनयणवे नेत्वांनोवणं कोधाकुलराताययानहीं अदीनपणोएहवो विमणपाडुओ मननयी जेअरहन्न  
कनोएहवोमनसाहि निच्चलअचलज्जं तोकृतो हायपगअणफरकावतो अणहलावतोतुसिणीएअणनोल्थोक्तो धर्मध्यानसहितकृतोवि  
चरेच्छं तिवारपच्छीतेदेवतासंबंधीप्रधानपिशाचनोरूप अरहन्नकआवकप्रते वेवारतीनवार इमकहतोइओ अरेअरहन्नकतुं एधर्म

दिव्येपिसायरूवेअरहस्रगंसभणोवासयंदोच्चं पितच्चंपि एवंवयासौहंभोअरहस्रगाजावधम्मज्जाणोवग  
एविहरइतएणसे दिव्वेपिसायरूवेअरहस्रगंसभणोवासयंदोच्चं पितच्चंपि एवंवयासौहंभो  
रागंआसुरत्तंतंपोयवहणंदोहिं अंगुलियाहिं गिरहइत्ता सत्तइतलजावअरहस्रगं एवंवयासौहंभो  
अरहस्रगाअपत्थियपत्थिया णोखलुकप्पइतवसौलव्वयगुणवेरभणतहेवजावधम्मज्जाणोवगएविहर

प्रतेनहौंरू'केइमकह्यो यावत्तोहीपिणधर्मम्यानसहितछतो विचरे छेरहेछेतिवारेतेदिव्यप्रधानदेवता संवंधीपिशाचनोरूपअरह  
न्नकआवकप्रतेधर्मम्यानसहितप्रते देखेदेखीनिवलिष्टतरअतिषणोक्रोधा कुलक्रोधिमधमधमतोछतोपिशाच तेवाहणप्रतेवेआंगुलीइं करी  
एकअंगूठीएकअंगूठानापासानी तर्जनीआगुलीअथवातर्जनीआगुली अनेमध्यमामोटीआगुलीएणीवेज्जं आगुलीयेकरीग्रहेग्रहीने  
सातआठताडपरिमाणमात्र आकाशनाभागप्रतेउंचोउपाडी आकाशनेविषलेइजाइलेई उंचोकरीनेअरहन्नकआवकप्रते इमकह  
तोइओ अरेअरहन्नकअप्राथ्यांनो अणवांध्यानोप्रार्थकवांछकजेकेणे वांछियेनहींएहवोभरणवांछेजेतुं खलुनिचयणोकप्ये नक



दौघावल्करणात् तंतेपरितंतेइतिद्रष्टव्यं ततश्चातःशातोवा मनसातातःकाथेनखेदवान् परितांतःसर्वतःखिन्नःनिर्विषःतस्मादुपसर्गं

इतएणंसेपिसायरूवेअरहण्णगंजाहेणोसंचाएइण्णगंथाओचालित्तएवाताहे संतेजावणिग्गिस्सिस्से तंपोयव  
हणंसण्णियंजलस्सउवरिंइवेइरत्ता तंदिब्बंपिसायरूवंपडिसाहरइदिब्बंवेवखूवंविउब्बइअंतलिकवपडिव

ल्ले तुभनेशीलव्रतपांचअणुव्रत त्रिणगुणव्रतवेरमणारागादिविरतिना प्रकारउपवाससहितपोसुचनापञ्चकृष्णकरी तिमजयावत्घ  
मंध्यानसहितधर्मंध्यानसंयुक्त एह्वोच्छतोविचरेक्खेरहेच्छे तिवारेतेपिशाचरूपदेवता अरहन्कश्चावकप्रतेजिवारे समर्थनइइ निगंयप्र  
वचनयकी अन्यथावीजाभावपणोकरिवाभणी खोभयमाडिवाभणीसंगयनाउपजाविवायकी विपरीतमननाअध्वयसायनाउपजाविवा  
यकीसमर्थनइवे तिवारेआंतयाकीमनेकरीसंतेक० काथायेकरीखेदवंतयथो परिसंतेक० सर्वयानिविष याकोछतोतेउपसर्गनाकरवा  
यकीनिवत्तरीरह्योच्छतो तेवाहणप्रतेथोडिरसमुद्रनापांणीने ऊपरथापेंथापीने तेदिव्यप्रधानदेवतासंबंधीपिशाचनो रूपवेत्तिक्यरूपते  
प्रतेप्रतिसाहरेसंहरिनिपाच्छोकरिने दिव्यप्रधानउत्तमरूडोदेवतानो रूपविकुर्वेकरिनीने उंचोआकाशनेदिवे प्रतिपन्नपडिवज्योर

करणादुपरतः लङ्ङेत्यादि तल्लब्धात्पार्जनतः प्राप्तात्प्राप्ते रभिसमत्वागतासस्यगार्थेवनतः आद्क्वड्ङत्यादिआख्यातिसामान्येनभा

स्ये सखिंखिख्यंजावपरिहिए अरहस्युगंसमणोवासयं एवंवयासीहंभोअरहस्युगा धस्योसिखंणंतुमंदे  
वाणुप्पियाजावजौवियफ्ले जस्यणंतवणिगंधेप्रावयणे इमेयाखुवेप्रडिवत्तीजझापत्ता अभिसमस्युगा  
याएवंखलुदेवाणुप्पिया सङ्केदेविंदेवरायासोहन्मेकप्पे सोहन्मावडिंसएविमारे सभाएसुहम्माए

ह्योच्छतोषूषरीयानिषमषमशब्दसहितच्छतो यावत्तुत्तमशृंगारआभरण अलंकारपदिह्योच्छतो अरहन्कअमणोपासकआवकप्रते इम  
कहतोड्ङओ अहोअरहन्कतु धन्यच्छेहे देवानुप्रियहे देववस्त्रभयावत्भलोताहरोजीवितव्यनोफलसफल जेतुक्कने निग्रंथप्रवचननेविषे  
एहवीप्रतिपत्तिसेवालाधी उपार्जनयकीपामीसेवा तेनिग्रंथप्रवचननेविषे भलीपरेसेविवायकी इणेप्रकारेखलुनिश्चयहे देवानुप्रिय  
शकदेवेद्रदेवतामांहेराजा सोधर्मनामाप्रथमपहिला देवलोकनेविषेसौधर्मावतंसकनामा विमाननेविषे सुधर्मासभानेविषे वैठोच्छतो  
षणादेवदेवीनासम्हमांहिरह्योच्छतो मोटे गठंशब्देकरीआद्क्वड्ङक० सामान्यप्रकारेकहेभाषे विशेषयकीवाहेइणे प्रकारेखलुनिश्च

षतेविशेषतएतदेवद्वयंक्रमेण पर्यायशब्दाभ्यामुच्यते प्रज्ञापयतिप्ररूपयतिदेवेणवादाणवेणवाइत्यादाविदंद्रष्टव्यमपरं किन्नरेणवाकि  
पुरिस्त्रैणवा महोरगेणवागंधेणवन्ति तत्रदेवोवैमानिकोज्योतिष्कोवा दानवोभयनपतिःशेषाःव्यंतरभेदाः नोसद्दृष्टासीत्यादिनश्रद्धे

बहूणंदेवाणंसंज्ञकगण महयासहै गत्राद्बहूद्रु एवंखलुजंबूद्द्वीवेर् भारहेवासेचंप्राणयरीएत्ररह  
खएसमणोवासएअभिगतय जीवाजीवेणोखलुसक्काकिण्णइदेवेणवाइणिगंथाओप्रावयणाओचालितए  
वाजावपरिणाभित्तएवातएणंअहंदेवाणुप्यियासक्कस्वदेविंदस्सएयमठुंणोसद्दृष्टासिणोरोवयामितएणं

यजंबूद्वीपनामाद्वीपनेविपे' भरतचेत्वेनेविपेचंपानामानगरीनेविपे' अरहन्नकयमणोपासकत्रावक अभिगतजाख्यात्रेजीवद्यजीवादि  
नवतत्वजेशेणहवोअरहन्नकत्रावकछे' निश्चेकरीनसकेषर्भयकीचूकाविवाभणी समर्थनहुवेकोइदेवतावैमानिक अथवाज्योतिषीदेव  
तादानवभवनपतिदेवताकिन्नरादिसर्वव्यंतरनाभे द निश्रंथयकीप्रवचनसिद्धातयकी चलाविवाभणीनीजाभावपणो करिवाभणीसोभ  
नाकरिवाभणीसंशयनाउपजाविवाभणी सूंलोमनकरिवाभणीविपरीत अथवसायनाउपजाविवाभणी समर्थनहुवेणहवोइंद्रेकस्यो

प्रत्ययनकरोमि नोपत्तियामितत्वप्रीतिकं प्रीतिनकरोति नोरोचयामिअस्माकमर्थ्यं वंभूतागुण प्राप्तिर्भवेन्नरुचिर्विषयीकरोमीतिपि  
यधन्मेत्तिधर्म्मप्रियोदृढधर्म्मा आपद्यपिधर्म्मादिविचलः यावत्करणात्दृष्ट्यादिपदानिदृष्ट्यानि तत्रदृष्ट्दितिगुणर्द्धिः द्युतिरांतरंतेजःय

समद्रमेयाखूवेअभत्थिएजावससुप्पज्जित्यागच्छामिणं अहंअरहस्ययस्ससमणोवासयस्सअंतियंप्रा  
उभभवामिजाणामितावअहंअरहस्यगंकिंपियधर्म्मणेपियधर्म्मसेसौलव्वयगुणकिंचालेतिजावपरिच्चय

तिवारिं ऊं हे देवानुप्रिय हे अरहन्तक शक्र देवे द्रुसुधर्मे द्रुना एअर्थ एवचनप्रते नसदृऊं प्रतीतनकरुं अमनेपिण एहवौगुणनी प्राप्ति होय  
याओइसरुचिनकरुं रोचिवूं नहौं तिवारे सुम्भने एहवो आत्माने विषे र ह्योअध्ववसायचिंतामयअणप्रार्थी मनमां हिरह्यो मनोगतभाव  
जपनोजेजाउं ऊं अरहन्तकअमणोपासकआवकनेसमीपे प्रगटथाउं पळेजागुंजोउं ऊं प्रथमपहिलां अरहन्तकआवकप्रते स्युंधर्म्मप्रिय  
वस्रभळेकेधर्म्मप्रियवस्रभनयो दृढधर्म्मिंळेआपदाकएऊं तेछतेपिणधर्म्मथकी अविचलऊद्रं एहवोळे शीलवत अणुवतादिगुणथकीस्युंचले  
यावत्छाडेवानच्छाडेइसकरीने इणे प्रकारे विचारुं विचारीने अधिज्ञानप्रतेहं प्रजुंजुं प्रजुंजुं प्रदेवानुप्रिय अरहन्तकतुम्भप्रते

शः ख्यातिः बलं शरीरं वीर्यं जीवप्रभवं पुरुषपाकारो भिमानविशेषः पराक्रमः स एव निष्पादितस्त्वविषयः लब्धादिपदानितयैव उच्यते, क्वं विचर

द्रुणोपरि च यत्ति कद्रु, एवं संपेहसि स्ताञ्चो हिं प्रलुं जामि देवाणुष्पियाञ्चो हि णा आभो एमि उत्तरपुर  
च्छिन्नं दि सौभागं उत्तरपुरच्छिवे उव्वियं समुघातिता एलक्किट्टाए जावजेणे वलवणसमुद्दे जेणे व देवाण  
प्पिएतेणे वलवागच्छामि देवाणुष्पियाणं उवसगं करेमि णोचे वणं देवाणुष्पिया भीयावातं जणुं सक्के  
देविं दे देवराया एवं वयति सच्चैरणं ए समद्धे तं दिट्टे णं देवाणुष्पियाणं द्रुडु जे जे सैव ले वीरिए पुरिसक्कारपरक्क

अवधिज्ञाने करी जो उ' देखुं ऊ' देखीने उत्तरदिशि अने पूर्वदिशि नाभागविचें एतले ईशानकृणानाभागप्रतेजईने उत्तरवे क्रियरूपकरं  
करीने ते गीइ' उतक्कथी देवतानी गतिइ' करी यावत् जिहा लवणसमुद्रं जिहां हे देवानु प्रियतुं छें तिहांडुं आवुं आवीने तुमने उपसर्गप्रते  
करं परं लिगारमात्र अहो देवानु प्रियतुमे वीहनानहौं वासपां स्थानहौं ते कारणयकी जे यक देवे द्रुद्रुणे प्रकारिकहे छे ते संत्यसाचो एअर्थ  
ते दीठो अहो देवानु प्रियतुमारो इड्ढीक' गुणनी च्छिद्रुति अंतरते जयशबल गरीरसंबंधी वीर्यजीवथकी जपनो पुरुषाकारअभिमानवि

मेलइ पत्तेअभिसमखागएतंक्वामेसिणं देवाणुप्पियाखामेसुमरि हंतुणं देवाणुप्पियाणं भुज्जो र जावणो  
 एवं करणयाएत्तिकइ, पंजलिउडेप्रायवडिए एयमइ वियणएणं भुज्जो र खामेइअरखगस्सडुवेकुं डलजुग  
 लंदलयइ जामेवदिसिंपाउभ्भए तामेवदिसिंपडिगएतएणंसेअरहस्सएसमणोवासएणिरवसगगेत्तिक  
 इ, पडिसंपारेइतएणंअरहस्सगपामोकवाजाववाणियगादक्खिणणुकुलेणंवाएणंजेणवगंभीरप्रोयप्रइ

शेषपराक्रमतेहिज अभिमानथकीजपनोलाधोउपार्जनथकी पास्योतेहनेपामिवाथकीभलीपर धर्मनेसेविवाथकीतेड्डं खाम्, कुंअहो  
 देवाभुप्रियहेअन्नक तुं खामजेतुं योग्येहे देवाभुप्रियतुं भनेवारवारवली र थावत्इमउपसर्गनेअणकरवेकरी एतलेइमनहीं करं इम  
 काहीनेप्रांजलिवेहाथजोडी पगानेविषेपडोळितोएउपसर्गलक्षण अर्थप्रयोजनप्रतेविनयकरीवारंवारखामे पछेअरहन्नकआवकनेकुं ड  
 लनाभुगलजोडलादेवे पछेजेदिसिथकीप्रगटथयोआव्योडतो तेणीजदिशिइ पंकोवलिगयो तिवारपक्कीतेअरहन्नकआवक निरुपस  
 र्गउपसर्गरहितथईने प्रतिमाअभिग्रहविशेषकाउसगप्रते पारेतिवारपक्कीअरहन्नकप्रमुखआदिदेई सगलावाहणमां हिलावाणीया

णेतेणैवउवागच्छइत्तापोयंइवेइत्तासगडीसागडंसज्जेइत्तागणिसंच४सगडिसंकामेइसगडीसाग  
 डंजेवे'तिजेणेवसिहलारायहाणीतेणेवउवागच्छइत्तासिहलाएरायहाणीएवहिया अगुज्जाणं  
 सिसगडीसागडिमोएइतएणंअरहखुगेसमणोवासएतंसहत्थंविउलंजावरायारिहंपाऊडंकुं डलजुय  
 लंगिणहइत्तासिहलाएरायहाणीएअणुप्पविसइत्ता जेणेवकुं भएरायतिणेवउवागच्छइत्ताकार

व्यापारी दक्षिणातुक्कलदक्षिणदिशिनिवाचरेकरी तेवाहणजिहांगंभीरपोतपाटणहे तिहांभावेभावीनेनांगरनांखी प्रवहणप्रतेलंवा  
 वे'थोभावेथोभावीनिराखे गाडीगाडानासम्बूहप्रतेसज्जकरे तेगणिसादि४प्रकारनाक्रयाणाप्रते गाडीगाडानासम्बूहभरीनेसंक्रमावे  
 चलावे पक्केगाडीगाडाप्रतेजोतरे जिहांमिथिलाराजधानीनगरीहे तिहांलेईभावेलेईभावीने मिथिलानामराजधानीनगरीइ'वा  
 हिरअग्रनामाउद्याबवनखंडनेविषे' गाडीगाडानासम्बूहप्रते उतारेउतारीनेतियारेअरहम्बक अमणोपासकआवकतेमोटोषणीवड्ड  
 मूल्यविपुलविस्तीर्णएहवो यावत्त्राजानेअर्हयोग्यएहवोभेटणो एककुं डलनोजोडोग्रहेलीयेतेलेइने मिथलाराजधानीनगरीमाहिप्रवे

यलजावकट्टु, तंमहत्थंरायारिहंपाहुडंदिब्बं कुं डलजुयलंचपुरओड्डवेइतएणंसि कुं भएरायतिंसि संजत्त  
गाणंजावपडिच्छइत्तामस्सिंविदेहरायवरकस्यं सहाविइत्तातंदिब्बं कुं डलजुयलंमस्सीएनिदेहरायव  
रकस्यगाएपिणइइत्तापडिसज्जेइतएणंसि कुं भएरायतिअरहस्यगपामोक्खेजाववाणियएविउलेणं  
वत्थगंधमस्सालंकारेणंजावउत्सुक्कं वियरेइरायमग्गेसोगाढे यआवासेवियरइपडिसज्जेइत्तातएणं

शकरं करीने जिहांकुं भराजाच्छेतिहवेज्जं कुं डललेइआवीने वेज्जं हायजोडी करीने तेमोदोअर्थप्रयोजनच्छेराजाने आपिवायोग्यए  
हवोभेटणोदेवतासंबंधी अनवलीकुं डलएकनोजोडलोकुं भराजानेअगलिथापेसूं के तिवारपच्छीतेकुं भराजातेवाहणनाव्यापारीया  
नोभेटणोअनेवेकुं डलतेप्रते अंगीकारकरे करीने मस्सीविदेहराजवरकन्याकुमरीप्रते तं डेवतासंबंधी कुं डलजुगलवे  
कुं डलप्रते मस्सीनामाविदेहमिथलानगरीनो देशतेहनोकुं भराजातेहनीवरप्रधानकन्या वेटीकुमरीनेपहिरावे पच्छेतेकुमरीप्रतेवि  
सज्जधरेमोकलेमोकलीने तिवारपच्छीतेकुं भराजा तेअरहन्नकअमणोपासकप्रमुखआदिदेइ बीजासगलावाहणनाव्यापारीयाप्रते वि



अरहस्यगसंजत्तगावाणियगाजेणिवरायमग्गेमोगाढेआवासेतिणेवउवागच्छइत्ताभंडगववहरणंकरे  
 तिप्रडिभंडेगिरहइत्तासगडीसागडंभरेति जेणेवगंभीरपोयपट्टणे तेणेवउवागच्छइत्तापोयवहणंस  
 ज्जेइभंडंसंकासेइदक्खिणाणुकुलेणंवाएणंजेणेवचंपाणयरीतेणेवउवागच्छइत्तापोयप्रयट्टाणेतेणेवपो  
 यलंवेइत्तासगडीसज्जे इतंगणिसं४सगडीसंकासेइजावमहत्थंपाड्डंदिब्बंकुंडलजुयलंगिरहइत्ता

पुलघणेंवख्रगंधफूलअलंकारआभरण आपीनेसत्कारीनेसन्मानीनें यावत्दाणप्रतेम्हंकेम्हंकीनें राजमार्गे व्यापारराजमार्गे विचरे  
 ओटाउतरवानाआवासप्रतेआपेआपीनें प्रतिविसर्जेमोकलेतिवारपच्छीअरहन्वक प्रमुखवाहणनाव्यापारी जिहाराजमार्गेनेमध्यवि  
 चालेमोटाउतरवनिआवासदीघाच्छे तिहांआवेआवीनेअ्यारप्रकारना क्रयाणाअथवहारव्यापारकरे सगलीवेचेचीकरीने वलीतिहां  
 थीत्रीजाक्रयाणांप्रतें लीयेलेईने गाडीगाडानासम्हभरिभरीने जोतरेजोतरीनेजिहांगंभीरपोतपाटणच्छे तिहांअवेआवीनेवाहण  
 प्रतेसज्जकरे पछेतेप्रवहणमाहिपछेनांगरच्छोडीवाहण दक्षिणासुकुलभलावायरानेयोगेचालो जिहांचंपानगरीच्छे तिहांआवेआ

इत्ति सुक्ताभावमनुजानातीत्यर्थः; गामागरेत्यादाविदं द्रष्टव्यं नगरखेडकब्जसडं वदेण सुहृदपणनिगसन्निवेशादिति तत्र गामो जनपदा

जेणे वचं दृच्छा ए अंगरायातेणे वडवागच्छ ए रत्तातं महत्थं कुं डलजुयलं च उवणे इतएणं चं दृच्छा ए अंगरायातं  
दिव्वं महत्थं च कुं डलजुयलं प्रडिच्छ इ रत्ताते अरहसुगपामो कखे एवं वयासी तु भरणं देवाणि प्रिया बहू णिणा

वीनेवा हणने राखवानां ठामच्छे' तिहांनां गरनां खीवाहणप्रतेराखे वाहणनागरीने तिहायी गाडीगाडासज्जकरे करीने तेगणिमादि  
व्यापारनाक्रयाणागाडासाहिभरीने गाडाचलावेपच्छे' गाडाच्छेडीने' यावत्सो टो वड्डमूल्यएहवो भेटणोवलीदिव्यप्रधानदेवतासंबंधी  
कुं डलयुगलवे कुं डलप्रतेलीयेलेइने जिहांचं दृच्छायनामा अंगदेशनो राजाच्छे' तिहांआवेआवीने तेमोटुं भेटणो अने देवतासंबंधी कुं  
लवे आगलिम्ब' के तिवारिचं दृच्छायनामा अंगदेशनो राजा तेदिव्यप्रधानसो टो प्रयोजनवंत कुं डलयुगलवे कुं डलप्रते प्रतीच्छे' अंगीकार  
करे राखीने ते अरहन्वकप्रसुखआदि देईसगलावाहणना व्यापारीयाप्रतेइणे प्रकारेपूछतोऊवो तुमेअहो देवानुप्रियाओअहोव्यापारी  
ओषणागामदेशे करीवीं व्योआकररूपसोनानी ऊपजीवानी खानिनाथानकनगरकररहितखेटक' धूलिनागढसहितनगरकर्वटभू

ध्यासितः आकरोहिरखाद्युत्पत्तिस्थानंनगरंकरविरहितंखेटंधूलीप्राकारं कर्बटंकुनगरंमंडवंदूरवर्त्तिसन्निवेशांतरं द्रोणमुग्धंजलप

मागरजावआहिंडहलवणसमुद्दं च अभिक्खणं२पोयवहणेहिंडगाहिहतंअत्थियाहिंभेकेइ कहिंविअच्छे  
 रएदिइपुव्वे तएणंतेअरहणगपामोक्खा चंदच्छायंअंगरायंएवंवयासो एवंखलुसामीअग्हेइ हेवचंप्राए  
 णयरीएअरहणगपामोक्खावह वेंसंजत्ताणावावाणियगा परिवसामोतएणं अग्हेअण्ण याकयाइंग

डोनगरमंडवक० षणीधरतीताईसन्निवेशांतरद्वेषमुख कहतांजलनोमार्गयलनोमार्गतेणेसहित पत्तनकहतांपाणीनोपंययलनो  
 पंयतेवेळं मध्येएकमार्गसहितनिगमक० व्यापारीएअधिष्ठोळे सन्निवेशक० कटकलसकरादिकनेरहियाना आवासएहवाधानकांप्रते  
 आहिंडहभमोक्कोजाओओ वलीलवणसमुद्रप्रतें वारंवारवांरणेकरीअवगाओओचढोछोतेकारणयकी भे भवतांतुमेकोईकांइअच्छेरो  
 दृष्टिपूर्वके एतलेकिहांईकिसोइतुमे अचरिजप्रथमपहिलादीठोळे एहवूं राजाइं पृच्छो तिवारे तेअरहन्नकप्रमुखसगलावाहणव्यापा  
 रीचंद्रच्छायनामाअंगदेशनाराजाप्रते इमकहताळवाइसखलुनिचेंहेस्वामिन् अमेएहिचंपानगरीयकी अरहन्नकप्रमुखआदिदेई

यस्थलपथयुक्तं निगमोवणिग्जनाधिष्ठितः सन्निवेशः कटकादीनामावासः देवकसृगावेल्यादाविदं दृश्यं असुरकस्रावानागकस्रावाजकव

शिमंचधृतह्वेवअह्रीणंअतिरित्तं जावकुं भगसरस्योडवणेमोतएणंसेकुं भएरायांसल्लीएविदेहरायवर  
कस्राएतंदिब्बं कुं डल जुयलंपिणइ इइत्ताप्रडिविसज्जे इत्तएणंसामीअग्हेहिं कुं भगरायभवणंसिमल्ली  
एविदेहरायवरकस्राए अच्छरेएदिइ एत्तोखल अस्साकावितारिसियादेवकसृगा जावजारसियाणं

षणासांयात्तिकपर देशभणी जावावाक्कतावाहणनाव्यापारीवाणीयावसाच्छारहाच्छां तिवारपच्छीअमेएकदासमे' गणिमादिच्यारप्रका  
रनाक्रियाणालेईने मिथलानगरीगयाडता तिसजतुग्हेनेदीधोतिमकाई ओच्छेनहीभेटणोअधिको एहवोकुं भराजानेभेटणोअने  
कुं डलआपिअसेमित्या तिवारे'तेकुं भराजा मल्लीविदेहमिथिलानगरीना देशनोराजाकुं भराजातेहनीवरप्रधानकन्याच्छे' तेदिव्य  
प्रधानदेवतानोदीधोएककुं डलनोयुगल पहिरावेपहिरावीने पाछाधरेसोकले तिवारे' हेसामी अमेकुं भराजानाधरनेविषे' मल्लीविदे  
हमिथलानगरीनादेशनोराजातेहनी वरप्रधानकन्यापुत्रीनोअचरिजदीठो एकन्याथकीखलुनिअ अन्नाअनेरीबीजीकोई पिणतेक

मल्लीविदेहवरकणा तएणं चंदच्छाएराया अरहणपामोक्खे सक्कारेइसन्नाणेइरत्ता उमुक्कं वियरइ  
 पडिसज्जे इतएणं चंदच्छाएराया वाणियगणियहासे दूयंसद्दवेइरत्ता जावजइवियणंसासयंर  
 ज्जसुक्कातएणंसेइएहइउइ पडिसुणेइजेणेवसएगेहे जेणेवचाउअंटेआसरहेदुखुडे जावपहारैरत्यगम

न्यासरिखीकोइनहीं देवकन्याअसुरनीकन्यानागदेवतानीकन्यागंधर्वदेवनीकन्यापिण एहिजसरिखीनयीएहवीस  
 स्त्रीविदेहमिथिलानगरीनादेशनोराजातेहनीवरप्रधानकन्यापुत्रीकेतेसरिखीकोइनयीएअचरिजदीठोतिवारैतेसांभलीनेचंद्रच्छाव  
 राजाअरहन्नकप्रमुखसगलावाहणना व्यापारीयांप्रतेसत्कारकरे वस्त्रादिकदीधासन्मान्यावचनेकरी सत्कारकरीनेसजमानीनेते  
 दांणम् केदाणलीयेनहीं पछे सगलानिधरेभोक्खेसीन्वदीये तिवारपछीचंद्रच्छायराजा व्यापारीनेधचनेकरीजनितउपजाव्योकेस  
 स्त्रीकुमरीउपररागस्त्रे हजेहने तेकारणयकीदूतप्रतेतेडावेतेडावीने राजाकहेजावयइनाग्रहणयकी सगलोपाठपहिलादूतनीपरै  
 जांणवोजाओतेकन्यापोतानेखरूपे करी अनोपमचरितपणे करी जिजालगी राज्यनोसुक्कमुक्कामूल्यके जेकन्यानोराज्यनेप्रापवेकरी

णाएरुतेणं कालेणं तेषां समएणं कुणालाणां मंजणवए होत्था तत्थणं सावत्थीणां मंणयरी होत्था तत्थणं कुणाला  
 हिवईणां मंराया होत्था तस्सणं रुप्पिस्सधूया धारिणी ए देवी एअत्तया सुवाळुणां मंदा रिया होत्था सुकुमाला  
 सुख्वाखुवेणय जोव्वणेणय लावसेणय उक्किट्टा उक्किट्टा सरी राजायाया वि होत्था तीसेणं सुवाळुदा रिया एअ

एतले एकन्यानिमित्तपोतानो राव्य देवो इमकहीने तुं मागजे एहवुं कच्छी राजा इं तिवारपछे तेदूतचंद्रच्छाच राजा इं इमपूर्वोक्तप्रकारे  
 काच्यो छतो हर्षसंतोषपां स्यो छतो ते राजानो वचनअंगीकारकरे अंगीकार करीने जिहांपोतानो षरछे जिहां च्यार षंटानो षोडानो रथछे  
 तिहांदूतआवीने च्यार षंटाना षोडारथप्रते चढे चढीने यावत्पहिला दूतनीपरि परिवारसहितचंपानगरी सांहेयई नीकलेनी कलीने  
 जावाभणी एवी जो दूतऊआ तेकालने विषे तेसमयने विषे कुणालानामजनपददेशऊवो तिहांकुणालादेशसाहे सावत्थीनामान  
 गरीहतीऊई तिहांसावत्थीनगरीसाहे रूपीनामा कुणालादेशनो स्वामी रूपीनामा राजाऊं तोऊओ तेरूपी राजानी वेठीपुत्री  
 धारिणी रांणीनी आत्मजअंगजात सुवाळुनामा दारिकापुत्रीऊतीऊई सुकुमालखूं हालाहायपगछे जेहनासु रूपभली रूपवतीछे

एयाचाउत्सासिय मज्जणएजाएयाविहोत्यातएणसेहूपीकुणालाहिवद्द सुवाहूदारियाएचउत्सासि  
यमज्जणयंउवद्धियंजाणइरत्ता कोडुं विपुरिसेसद्दविइरत्ता एवंवयासीएवंखलुदेवाणुप्पियासुवाहूए  
दारियाएकसुं चाउमासिय मज्जणएभविस्सद्द तंतुभेणंरायमग्गमोगाढंसि पुणत्तमंडवंसिजलयथ

रूपे' करी' दौवने करी लावखे करी उल्कृष्टी उल्कृष्टी अतिवणो उल्कृष्टी यरीरवंतसो भाग्यवती उद्दद्द ते सुवाहू पुतीनो एकदा प्रणावे  
चारमासनो मज्जनस्त्रान अथवा मज्जनजलक्रीडा उत्पद्यविशेष चिद्धं मासे करेछे ते उत्पद्यवत्ततो ह्यओ तिवारि ते रूपी कुणाला देश  
नो अधिपति ठाकुररूपी राजा तेहनी सुवाहू दारिकापुलीछे' तेहनी चारमासनो मज्जनजलक्रीडानो उत्पद्यमहोत्पद्यविशेष उप  
स्थितयाव्याप्रते जाणें जाणीने' कोटं विक्रयादेशकारी पुणपांप्रते' तेडावे तेडावीने' इणें प्रकारे' कहतो ह्यओ इमनिचे' हे देवाह  
प्रियसुवाहू कुमरीनो काले चारमासनो मज्जनजलक्रीडानो उत्पद्यमहोत्पद्यस्ये' ते कारणयकी तुमे राजसार्गने' विषे' मोटाचो ह  
टामां हि फूलनामांडवाने' विषे' पांणीनानीपनायलनानीपना एहवादेशाह्वं पंचवर्णना मालामणीहितकारी यामाल्यकुमुमफुल

लयदसद्वस्वसम्लंसाहरह जावसिरिदामगंडंओलयंति तएणंसेरुप्पीकुणालाहिवद्द सुवस्वगारसेरिणं  
सद्दवेद्दत्ता एवंवयासीखिप्पामेवभोदेवाणुप्पियारायसगमोगाढंसिपुप्फमंडवंसिणाणाविहपंच  
वस्सेहिंतंदुलेहिं णययंआलिहहतस्सणंबहुमज्झदेसभाएप्रदुयंरएह जावपच्चप्पिणंतितएणंसेरुप्पी  
कुणालाहिवद्देहत्थिखंधवरगए सकोरंटमसुदामेणंछत्तेणंधारिज्जमाणेणं सेयवरचामराहिंडुद्दुव्व

तेप्रते'साहरोआणो यावत्शोभावतीमालानासमूह एतलेओदामदडाप्रते'तेपुरुषरचेतिवारतेरूपी कुणालादेशनोअधिपति ठाकु  
रसोनारानी ओणिप्रतेतेडावेतेडावीने' इमकहतोह्ओ चिप्रसेवतावलोएवनिञ्चे'अहोदेवानुप्रियसोनारोतुमे राजमार्गनाउषा  
डा मोटाचोवटामाहि फूलनासांडवानेविषे' नानाप्रकारना पांचवर्णनाचाउलेकरीनगरप्रते'आलेखो तेहनावह्ममध्यदेशभागने'  
विषे' पाटवाजोटाप्रते रचोपछे' तिमजतेआदेशकारीपुरुषकरे' करीने'राजाने'सू'पेतिवारते रूपीकुणालादेशनो घणीठाकु  
वरप्रधानहाथीनाखांधा ऊपरचढोछतो प्रधानकोरंटफूलनीजाति तेहनाफूलमालानाकेहडानेविषे' शोभाभणीदीजीयेछे' मसु



माणीहिंचाडरंगिणीएसेणाएमहयाभडचडगरअंते उरपरियालसद्धिसंपरिउडेसुवाह्मं दारियंपुर  
 ओकट्ट, जेणेवरायमगेजेणेवपुष्कमंडवेतेणेवउवागच्छईरत्ताहत्थिखंधाओपञ्चेरुहइरत्तापुष्कमंडवे  
 अणुप्पविसईरत्ता सीहासणवरगएपुरत्याभिसुहेसखिसखे तएणंताओअंतेउरियाओसुवाह्मदारि  
 यंपट्टंसिदुण्हंतिसीयापौएहिंकललेहिंग्हावेद्वरसब्बालंकारविभूसिदंकरेद्वरत्तापिउणोपायंवदिओउव

राममालाभणी हितकारीयाजे फूलनीदाममालातेणेकरी जेछत्रतेणेघरीजतेछते खेतधउलावेप्रधानवेचामरतेणे वींजीतो चाउ  
 रंगिणीच्यारप्रकारनी सेनाहाथीघोडारथपायकेकरी वणेप्रकारेभटसुभटनाचटकरविस्तारवंत जेपरिवारघनेअंतःपुरअंतैउरस्त्री  
 ना परिवारसंवाहेपरिवखोऊतो सुवाह्मपुत्रीनेआगलिकरीने जिहांमोटोराजमार्गछे जिहाफूलनीमांडयोछे तिहांआवेआवीने  
 हाथीनाबाधायाकीहेठोजतरजेतरीने फूलनामांडवासाहेप्रवेशकरेप्रवेशकरीने वरप्रधानसींहासणजपरिचढयोछतो पूर्वदिशिसा  
 सुहोरूडीपरवेठोछे तिवारेतेअंतैउरीराजानीराणीयो सुवाह्मपुत्रीप्रतेवाजोटेनेविषे वैसारेखेतधउलारूपानापीतपीलासोना

कक्षावा गंधव्वकक्षावा रायकक्षावेत्तिवाणियजणियहासेत्तिनैगसोत्पादित मस्त्रिविषयादुरागइत्यर्थः भिसियाउत्तिआसना नितिव

णेइतएणंसुवाहूदारिया जेणेवसूप्पीराया तेणेवउवागच्छइइत्ता पायगगहणंकरेइ तएणंसेसूप्पीरा  
यासुवाहूदारियं अंकिणिवेसेइ सुवाहूएदारियाएरूवेणयजोव्वणेणय लावसुं णयविम्हएवरिसधरं  
सह्विवेइइत्ताएवंवयासीतुम्हेणं देवाणुप्पियामसदोच्चैरणंबहूणिगामागरणिहाणिएणपुब्बिंपविसेह

नाकलसतेपाणीइंभरी अंधोलिकरावेस्त्रानकरावीनें सगलाआभरणपहिरावीविभूषित सोभायमानप्रतें करेकरीने पच्छेपितानाप  
गप्रतें वादियाभणीसोकलेसूं केराणीयां तिवारे तेसुवाहूनामापुत्ती जिहंरूपीराजाच्छे तिहाआविआवीनें पगानाग्रहणप्रतेकरेरा  
जानेपगेपडे तिवारे तेरूपीराजा सुवाहूदारिकापुत्तीप्रते अंकखोलाने विषंथापेसारे सुवाहूकुमरीनें रूपं करी यौवने  
करीलावण्ये करी धणुंघरीरनीसोभादेखीने यावत्विस्त्रयअचरिजपास्योच्छेता राजावर्षधरखोजाखुसराप्रते तेडावेतेडावीने  
इमकहतोहूओतुमेहे देवानुप्रिय माहरे दूतपणंकरीषणागमआगरनगरमाहिधराप्रते आनुपूर्वीइं अनुक्रमे प्रवेशकरोछोतेजिम

तं अत्रिथयाद्रुतेकस्वरसोवाइसरस्ववाकहिंविपरिसएमज्जणएदिद्वुपुडे जारिसएइमीसेसुवाहुदरि  
याएमज्जणएतएणंसेवरसधरेरुप्पिं रायंकरयलजावएवंवयासौएवंखलुसामीअहंअसुयाकथाइं तुभमे  
दोच्चैणंमिहिलंगएतत्थणंमएकुं भगस्सरखोधूयाएपभावेइदेवीएअत्तयाएमल्लीएविदेहरायवरकसए  
मज्जणएदिद्वे तस्वणंमज्जणगस्वरुत्तीसेसुवाहुदरियाएमज्जणएसयसहस्सं पिकलंणअग्घेइतएणंसेरु

अस्तिच्छं तुभेकोई राजानी पुत्तीनोवा अथवाइं खरधनवंतनी पुत्तीनो किहंईएसरिखोएहवो मज्जनमहोत्सवदीठोच्छं प्रथमपच्छिलोजे हवी  
एआसुवाहकुमरीनोस्नानोजलक्रीडानोउत्सवच्छं तेहवोतिवारेएहवोराजाइं पूथ्यापच्छीतेवर्षधरखोजोरूपीराजाप्रतें वेहायजो  
डिकरिइमकहतोहओइमनिच्चैहेस्वामीहुं एकदाप्रस्तावें तुमारें दूतपणानोकार्यकरवें करीमिथलानगरीप्रतेगयोहुतोतिहंमे कुं भ  
राजानी पुत्तीनोप्रभावती देवीनीआत्मजापुत्तीनोमल्लीविदेहमिथलानगरीनादेशेनोराजाकुं भराजातेहनीवरप्रधानकन्यापुत्तीनोजे  
हवोमज्जनजलक्रीडानोउत्सवदीठोच्छं तेमज्जनजलक्रीडानाउत्सवस्नानने आगलिआसुवाहकुमरीनोस्नाननोउत्सवलाखमीकलालाख

प्रीरायावरिसधरस्वअंतियंएवमडुं सोच्चाणिसन्मतहेवमज्जणगजणियहासिद्रुयंसहावेइत्ताएवंवया  
 सौजावजेणेवमिहिलाणयरी तेणेवप्रहारेत्यगमणाएइतेणंकाक्षेणंतेणंसमएणंकासीणासंजणवएहो  
 त्यातत्यणंवाणारसौणसंणयरीहोत्यातत्यणंसंखेणासंकासीरायाहोत्यातएणंतीसेमल्लीएविदेहरा  
 यवरकणाएअस्सयाकयाइं तस्सदिब्बस्सकुं डलजुयलस्स संधीविसंधडिएयाविहोत्या तएणंसेकुं भएरा

माभागप्रते अर्धाइं नहींपामेनहौंपोसाइं नहीं तेआगलिएकिसाईहिसावसांन्हनहौंतिवारपछीतेरूपीराजावर्षधरखोजानेयासेएपू  
 वीक्तअर्थप्रदेाजनप्रते सांभलीने हीयामांहेअवधारीने तिमजमज्जननीवार्ताइं करीजनितजपनोछेहासप्रमोदअनुरागल्ले हरगजे  
 रूपीराजानेतेकारणथीद्रुतप्रते तेडावे तेडावीनेइसपूर्वोक्तप्रकारे पहिलाद्रुतनीपरं नीकलेनीकलीनेजिहांमिथलानगरीछे तिहां  
 पधारतोह्मअेजावाभणीएवीजोइद्रुतड्डवा तेकालतेसमयेनेविषे कासीनामाजनपदेयह्मतो तिहांवाणारसीनामानगरीहुंतीतिहां  
 शंखनामाकासीदेशनाराजाहंतो तिवारे तेमल्लीकुमरीनो विदेहमिथलानगरीनादेशनोराजा कुंभराजातेहनीवस्सप्रथीमकुंभीपुत्री

या सुवस्वगारसेणीं सह विद्मत्ता एवं वयासीतुभ्यं देवाणुष्पिया इमस्स दिवस्स कुं डलजुयलस्स संधी  
 संघाडेहतएणंसा सुवस्वगारसेणी एयमइं तहत्तिप्रडिभुणेइतं दिव्वं कुं डलजुयलं गिण्हेइत्ता जियेव सुव  
 स्वगारभिसियातेणेव उवागच्छं चित्ता सुवस्वगारभिसिया सुणिवेसेइत्तं हिंआए हिंयजावपरि

तेह नो एकदासनें ते देवतासंबंधी उत्तमप्रधानकुं डलजुगलनी सांघिसंघटितच्छूटीह्मैएतले कुं डलसांघियकीच्छूटात्रलगायाताह  
 वातेकारण्यकीतेकुं भराजा सोनारानीअग्निप्रतेतेडावेतेडावीने इमकइतोह्मओतुमेअहेइदेवानुप्रियाओ आदेवतासंबंधीकुं डलजु  
 गलनीसांघिसंधाडोतुहे जोडो तिवारे ते सोनारानीअग्नि एअर्थप्रतेतहत्तिकरीअंगीकारकरे करीने ते देवतासंबंधीकुं डलजुगलवेहं  
 कुं डलप्रतें लीयेलेइनें जिच्चं सोनाघडवानी भिसियाअहिरिण्हेअसनहेजेऊपरसूं कीनें हयोडिकरीषाटषडेहेतिहां आवेआवीने ते  
 सोनारसोनाघडवानी भिसियाअसनअहीरिण्हे विपेवेसेऊपरकुं डलवेहंसूं केवणेआयउपायें करीवणीमुद्धिनाभेदे करीयावत्परि  
 णामवरावरकरवावाहेसज्जकरवासाघिवावाहेपिणतेद्रव्य देवतासंबंधीयाकुं डलजुगलनीसांघिप्रतें उडवाभणीजोडवाभणीवरावरिमे

णामेमाणाद्दृच्छंति तस्मिदिद्वकुं डलजुयलस्ससंधि णोसंचाएत्तिघडीत्तएतएणंसासुवस्सगारसेणेजेणे  
 वकुं भरायातेणेवउवागच्छइत्ता करयलजावद्धावेत्ता एवंवयासीएवंखलु सामीअज्जतुम्हेसद्दविह  
 रत्ताजावसंधिसंधाडेत्ता एयभाणत्तियंपच्चप्रिणहत्तएणंअह्हेदिव्वंकुं डलजुयलं गिरहामोजेणेवसुवण  
 गारअसियाओ जावणोसंचाएमोसंधडित्तएतएणंअम्हेसामीएयस्सकुं डलजुयलस्सअस्सं सरिसयंकुं

लनीसांधिसेलवाभणी नाइत्तिनिषेधेतेसोनारसांधिघडिवाभणी समर्थनहइं चेवनिश्चयंवाक्यालंकारितिवारितेसोनारानीअणिजि  
 हांकुं भराजाच्छंतिहांआवेतिहांआवीने वेहाथजोडीकरीपगेलागीराजाप्रते वधावीने इमकहताह्मवासेनारानीअणि इमपूर्वीत्तप्र  
 कारे खलुनिश्चयहेस्वामिन् आजतुम्हे अम्हानेतडाव्यातेडावीने यावत्कुं डलवेह्मनीसांधिप्रतंसंधाडीने एमाहरीआज्ञाकरीने पाछी  
 सुजनेतुमेसूंपोजेस्वामीकार्यकीधोच्छं एहवीआज्ञादीधीतेकारणथकी दिव्वदेवतासंबंधीकुं डलयुगलप्रतंलीधोलेइने जिहांसोनारानी  
 घाटघडवानीअहिरणच्छंतिहांआव्याषणाइं उपायकखाअसेषणी कलाकेलवीतोहीपिणकुं डलानी सांधिघडिवाभणीसांधिसेलवाभ

लियंभिउडिंनिडालेसाहट्टु, त्तित्रिवलीकांवलितयोपेतांम्, कुटिंम्भुविकारंसंस्कृत्योपनीयेतिकेणंतुम्भे कलयाणंभवहत्तिकेयूयंकलादा

डलजुयलंबडेमोतएणसेकुं भएराया तीसेसुवणगारसेणोए अंतिएयमड्डं सोच्चाणिसम्मआसुरत्ते ४  
तिविलियंभि उडिंणिडालेसाहट्टु, एवंवयासीसेकेसणंतुम्भेकलायाणं भवहजेणंतुम्भेद्रमस्सदिव्वस्सकुं

णीसमर्थनहीं छांसांधिजोडावे'नहीं' तेकारणथकीअमेहेस्वामिन् एदेवतासंबंधीकुं डलयुगलने' जोडेएकुं डलने' वरावर अनेरोधी  
जोएसरिखोकुं डलनोजोडलोघडांधडीने' आपीथे' तिवारेतेकुं भराजा तेसोनारानीअणिनसमीपनेविपे एकुं डलानाअर्थप्रतेसंभ  
लीने' हीयामांहअवधारीने क्रोधिकरीधमधमाथोक्ततो त्रिवलिकावलित्तिणित्तिणलींटी रूपरेच्चात्तिणसच्चित्तभिउडिंम्भुकुटीभमुहना  
विकारप्रते' निलाडनेविपेकरीने इमकहतोद्धयो सोनाराप्रते' तेस्युं कुणतुम्भे कलादसोनारमांहेच्छो किंवानथीनिर्विज्ञानपणाय  
कीअथवाकुणकोइतुमेसोनाराना पुत्तादिकथकीअनेरावीजाच्छेते सांधिजांणतानथीजेणंकारणेतुमे आएदेवतासंबंधीकुं डलयुग  
लनीसांधिप्रते' घडिवाभणीजोडिवाभणी समर्थनहींहेच्छेसं धिमेलीसकतानहीं छो' तेकारणथकीतेसोनारांप्रते' कुं भराजादेयथ

नां सुवर्षं कारणं मध्ये भवथ न केपीत्यर्थो निर्विज्ञानत्वात् अथवा केयूयं सुवर्षं कारणं पुलाद्यन्यतमा भवथ अथवा केयूयं कलादानकेपीत्यर्थो

डं लजुयलस्रणोसंचाएहसंधिसंधाडित्तएतएणंतेसुवस्सगारेणिव्विसिए आणवेइतएणंतेसुवस्सगाराडुं  
भगेणंरस्साणिव्विसियाआणत्तासमाणाजेणेवसयाइंइगेहाइंतेणेवउवागच्छइंत्ता सभंडमत्तउवग  
रणंमाथाएमिहिलाएरायहाणीए मउभंमउभ्भेणंणिकखमंतिइत्ताविदेहस्सजणवयस्समउभंमउभ्भेणंणि  
कखमंतिइत्ता जेणेवकासीजणवए जेणेववाणारसीएणयरीएतेणेवउवागच्छइंत्ताअगुज्जाणंसिसग

कीवाहिरकाढे' पोतानीआज्ञाथीअलगकरे' तिवारे' तेसोनारासगलाई कुंभराजाईदेश्यकीवाहिरकाढाछता आज्ञावाहिरकी  
धाछताजिहांआपआपणारपोतानाअरुंछे तिहाआवेआवीने' पोतानाघरनीआथिसीरातिभांडमाव उपगरणमावसर्वलेईने' पोता  
नापरिवारसहितमिथिलाराजधानीनगरीने'साहिथईनेनीसरेनीसरीने'विदेहनामाजनपददेशमांहिथईने' नीकलेनीकलीनेजिहां  
वाणारसीनगरींछे तिहांआवेतिहांआवीने अग्रउद्यानवनखंडनेविषे' गाडीगाडानासम्हसू'केछोडेसू'कीने पछे'तेसोनारसगला



छीसागडंमोएद्रत्तामहत्थंजावपाहुडंगिगहंतिवाणारसौएणयरीएमज्भंमज्भंजैणैवसंखेकासीरा  
 यातेणैवउवागच्छइकरयलजावबद्धावेद्रत्तापाहुडंपुरओठावेद्रत्तासंखरायंएवंवयासीअम्हेसामी  
 मिहिलाओणयरीओ कुं भएणंरखाणिविसियाआणत्तासमाणाइहंहव्वमागयातंद्रच्छामिणंसामी  
 तुभंवाहुच्छायाएपरिगहिया णिभयाणीरुव्विग्गा सुहंसुहेणंपरिवसियं तएणंसंखेकासीराया

मोटाप्रयोजननिसित्तराजानेयोग्य बड्ढल्लएहवोभिटणोलिइने वाणारसीनगरीनेमाहियईने जिहंसंखनामाकासीदेशनोराजाके  
 तिहंआवेआवीने वेहायजोडीमायानिविषे अंजलिकरे वधावे वधावीने शंखराजानेआगलिभेटणोथापेसू के सू कीनेशंखराजाप्र  
 तेइसकहताहुआसोनार अमेहेस्वामिन्मिधिलानगरीयकी कुं भराजाइ देशयकीवाहिरकाट्टा आजावाहिरकीधाळता इहंतता  
 वलाआव्याळा तेकारणयकीइच्छामिअमेवांछुंहेस्वामी तुमारीवाहुच्छायाये तुमारीहुत्तछायायेसंपूर्णपेणैकरेप्रत्याराल्याळतानि  
 भयभयरहितकृता उद्वेगरहितसुखे समाधिइं तुमारानगरे वसिवाभणीवांछुंहुंइसकहे तिवारे कासीदेशनोशंखराजा तेसगलासो

ते सुवस्त्रगारे एवं वयासी विस्त्रं तुभ्ये देवाणुप्रिया कुं भएणंरखाणि विसिया आणत्ता तएणंसे सुवस्त्रगा  
 रासंखंरायं एवं वयासी एवं खलु हेसासी कुं भगस्त्ररखो धूयाए प्रभावई ए देवीए अत्तया ए सस्त्री ए वि देहरा  
 यवरकणाए कुं डलजुयलस्स संधि विसंधडिच्चए तएणंसे कुं भएराया सुवस्त्रगारसे णिंसहा विइत्ताजा

नाराप्रते इमकहतोऊओ किम तुमे अहो देवानुप्रियाओ कुं भराजाइं पोतानागामनगरदेशयकी तुमारं ताईवाहिरकाट्यातेकार  
 णकहो इमपूछ्यो राजाइं तिवारं ते सोनारसगलाशंखराजाप्रते इमकहताडवाइमनिच्चं हेस्वामीकुं भराजानीवेटीना प्रभावतीरां  
 णीनी आत्मजाअंगजाति ते हसस्त्री कुमरीना वि देहमियलानगरीना देशनोराजा कुं भतेहनीवरप्रधानकन्याना कुं डलयुगलेवेकुं डल  
 कांननापहिरवानातेवेकुं डलनीसंधिछूटी साधिजखडीतिवारं ते कुं भराजा सोनारानीअणिप्रते तडावेतेडावीने तेवेकुं डलसंधि  
 जोडवाआयाअमेलीधा घणाईउपायकीधापिणसांधिमिलेनहीं संधिजडवानोकांसकीधुं धिणसंधिमिलेनहीं तिवारं देशयकीवाहि  
 रकीधातेएणेकारणे हेस्वामी अरुहे कुं भराजाइं एणेकारणे करी पोतानादेशगामनगरयकी वाहिरकीधाआजादीधी पक्केअरुहे इहां

वणिव्विसिया आणेत्ता तंए एणंकारेणंसामी अरुहेकुं भएणंरणा णिव्विसिया आणत्ता तएणंसेसंखे  
 राया तेसुवणगारे एवंवयासो केरिसियाणं देवाणुप्पिया कुं भगस्सरणो वूयापभावईदेवीअत्तया  
 मल्लीविदेहरायवरकस्सा तएणंतेसुवणगारासंखरायं एवंवयासोणोखलुसामी अखाकावितारिसि  
 यादेवकस्सावा गंधव्वकस्सावा जावजारिसियाणं विदेहरायवरकस्सा तएणंसेसंखरायाकुं डलजुचल

आव्याइमसगलोहत्तांतसांभल्यो तिवारपक्खीतिसंखराजा तेसोनाराप्रते' इमकहतोह्अकेहवीछं हेदेवानुप्रियोअहोसोनारोकहो  
 कुं भराजानीवेठी प्रभावतीराणीनीआलजाअंगजाति मल्लीकुमरीविदेहमियलानगरीना देशनोकुं भराजातेहनीवरप्रधानकन्यच्छं  
 तिवारे'तेसोनारसगलासंखराजाप्रते' इमकहताह्अखलुनिचयसच्चित्तनथी हेस्वामीअन्नाअनेरीनीजीकोईतेहवी तेसरिखीनवी  
 देवकन्यापिणएहवीनऊइं गंधवनीकन्यापिणएहवीनऊइं यावत्जेहवीछं मल्लीविदेहमियलानगरीना देशनोराजाकुं भराजातेह  
 नीवरप्रधानकन्याछं तेहवीस्त्रीकोईनथी एहवोसोनारंकच्छोतिसांभल्यो तिवारपक्खीतिसंखराजाकुं डलयुगलेकरी जनिजपनोहेरा

जणियहासो जायविहए दूयंसद्दवेद्दत्ता जावपहारित्यगमणाए४ तेषंकालिणंतेणंसमएणं कुरुज  
णवएहोत्था तत्थणं कुरुजणवए हत्थिणाउरेणयरेहोत्था तत्थणं अदिणसत्तूणासंरायाहोत्था जाव  
विहरइ तत्थणंमिहिलाए रायहाणीए कुं भगस्सरसो पुत्तोपभावइएदेवीए अत्तएसल्लीए विदेहरा  
यवरक्खाए अणमगजाए मल्लदिस्सए णांसंकुमारि जावजुवरायाविहोत्था तएणं मल्लदिस्सएकुमारि

गस्से हजेहने अचरिजपास्योच्चतोशंखराजा दूतप्रते तेडावेतेडावीनि मोकलेपहिलादूतनीपरं सर्वजाणिवोतिमजतिहांथी नीवली  
नेमियलानगरीभणीपधारतोच्चओ एचोयोदूतः४ हिवेपांचसोदूततेकालतेसमयनेविषे कुरदेशुत्तोच्चओ तिहंकुरदेशनेविषे इधि  
णाउरनगरहंतोहवो तिहांअदीनशतनामारजाहंतोहओ तेसुखे समाधिंराज्यकरतोच्चतोविचरेच्चे तिहांमिथिलाराजधानीनग  
रनेविषे कुं भराजानोपुतच्चे प्रभावतीराणीनोआमजअंगजातच्चे मल्लीकुमरीनेविदेहमियलानगरीना देशनाराजानीवरप्रधानक  
त्यानेपाच्चे जन्मपास्योच्चंमल्लीनेपठेजखोच्चे मल्लदिन्ननामाकुमरवहत्तरक लावंतयौवनपास्योच्चतो सुवराजाहंतोहओतिवारपच्छीम

णमित्यलंकारिशेषं छुगसं'हावभावविलास विव्योयकलि एहिं तिहावभावादयः सामान्ये नस्त्रीचेष्टाविशेषाविशेषः पुनरयं हावोमुखविका

अणयाकयाद्' कोडु'वियपुरिसेसहाविद्गता एवंवयासौगच्छहणं तुभमेसमपमद्वणं'सि एगंसहं  
चित्तसमंकरेह अणेगजावपञ्चप्यिणं'ति तएणं'सेमल्लदिणे चित्तगरसिणिं'सहावेद्गता एवंवयासौ  
तुम्हेण'देवाणुप्यिया चित्तसमंहावभावविलास विव्योयं कलि एहिं रूवेहिं चित्तेह जावपञ्चप्यिणह

सदिन्नकुमर एकदाप्रस्तावे' कोटं'विकआदेशकारीपुरुषांप्रते तेडावेतेडावीनेद्मकहतोद्दओ जाओतुम्हेसाहरापमद्वणंसिक'घरना  
वनखंडनेविषं' एतलेवरनेपूठेवनखंडछे' तिहांमोटीएकचित्तामनीसभाप्रते'करी अनेकघणाप्रकारनायांभासहित चित्तशालाकरी  
नेपाछाआवीनेसमर्षे'सू'पे तिवारपछीतेमल्लदिन्नकुमर चीतारानीअणिप्रते'तेडावे'तेडावीनेद्मकहतोद्दओ तुम्हेअहोदेवाडुप्रिया  
ओअहोचीतारोचित्तामनौ सभाचित्तशालाप्रते हावभावादिकसामान्यप्रकारे'स्त्रीयांनीचेष्टाविशेष हावतेमुखनोविकारभावतेचित्त  
यकीजपनोविकार विलासतेनेलयकी जपनोविकार विभ्रमतेमसुहयकीजपनो विकारमसुहचलावणातेणैभावेकरी सहितरूप

रः स्याद्भावश्चित्तसमुद्भवः विलासोनेतजो ज्ञेयो विभ्रमोऽत्र समुद्भव इति ? अन्यत्वेवं विलासमाहुः स्थानासनगमनानां हस्तश्चूनेतकर्मणां चैव उत्पद्यते विशेषो यः स्थितो सौ विलासः स्यात् विव्वोकचलक्षणं चेदं दृष्टानामर्थानां प्राप्तावभिमान गर्भसंभूतः स्त्रीशामनादरद्वयते विव्वोकोनामविज्ञेयः त्वलिया उचित्त्वलिकावालमथ्यश्चित्तलेखनकूर्चिकाः तदणुरूवंति दृष्टद्विपदाद्यु चित्तमाकारमिति अंते उरपरिवारेत्ति अं

तएणं साच्चित्तगरसेणोतहत्तिपडिसुणेइत्तजिणेवसथाइं गिहाइं तेणेवउवागच्छइत्ता त्वलियाउव

विशेषः यतः हावोसुखविकारः स्याद्भावश्चित्तसमुद्भवः विलासोनेतजो ज्ञेयो विभ्रमोऽत्र समुद्भवः ? विलासनोवीजोभेदकहे क्वे विलासक० स्त्रीनाठाम् ? आसनरगमनं हाथनीचेष्टा ४ भसुहचेष्टा ५ नैतचेष्टा ६ एहवाकामानीचेष्टा ७ जेते विलासकहीये यतः स्थानासनगमनानां हस्तश्चूनेतकर्मणां चैव उत्पद्यते विशेषः स्थितो सौ विलासस्यत् विव्वोकक० वावही स्त्रीयानी प्राप्तिङ्गते क्वेते अभिमानजो गर्भअहंकारजपनोच्छतो स्त्रीयाने अनानादरकरवोते विव्वोकनामजांणवो एहवी स्त्रीनाहावभावस्त्रीयांनाविलासस्त्रीयाने अपमानवोतेणे करीकलितसहित एहवैरूपे करीचीतरो एहवाचित्तामकरीपक्खोअमनेच्छुं पोइअच्चादीधीतिवारपच्छीते चीतारानी अंणितहत्ति

स्वरयागिणहृद्दत्ताजिणेष्वचित्तसभातिणेष्वत्रणुपविसद्दत्ताभूमिभागेविहत्तिभूमिसज्जे इच्चित्तसभंहा  
वभावजावचित्तेउपयत्ताविहोत्था तएणं एगं चित्तगरस्सइमेया ख्वेचित्तगरलद्धीलद्धापत्ताअभिसस  
खागथा जस्सणं दुप्पयस्सवाचउप्पयस्सवा अप्पयस्सवा एगदेसमविपासइतस्सणं देसाणुसारेणं तयाणु

करीअंगीकारकरे अंगीकारकरीने जिहांपोतानाघरच्छे तिहांअवेआवीने त्खलिकाक० बालमय चित्तामलिखवानी अलिखवानीकूं  
चीजजूआवानालिखवाना लीधालेइनेजिहांचित्तसभाच्छे तिहांकेडाकेडेप्रवेशकरेप्रवेशकरीनेसांहीसांहीभूमिनाभागदेशप्रतेविहचे  
विहचीअपेभूमिघरनी भीतिप्रतेसज्जकरेकरीने चित्तसभाजेहवीकोकशास्त्रमांहे चोरासीभोगासनलज्जणकहीच्छे तेहवीचित्तसभा  
प्रतेहावभाव विलासविक्वोकलज्जणीपुण्णनीरामतिनी चेटानारूपचीतरवाभणी प्रयत्नउद्यमवंतथाताहया एतलेचित्तामकरवा  
सावधानथयातिवारतेचीतारामाहिण्णकीतारानेएहवाचित्तामकरवानीलअिलाधीच्छेपानीत्तेसंपूर्ण पूरीलअिआवीच्छेतेकेहवीजेह  
नोदुपट्मनुष्यने बेपगवंतनेअथवाचोपट्गायभे सप्रमुखाने अथवाअपट्पगरहितजेजीवसर्प्यादिकतेहनाएकदेशलिगारेकयरीरनाअव

रूपं विविक्षेत् त एणं सेचित्तगरदारणसहो ए विदेहराजवरकषाए जवणं तरियाएजाखंतरेणप्रायं गु  
 ङं पासइ त एणं तस्सचित्तगरस्स इक्षेयाखवेसंयंखलुसंमसहो ए विदेराजवरकषाए प्रायं गुडाणुसारेण  
 सरिसजावगुणेवेयंखवंशिव्वत्तएणं संपेहेइत्ता भूमिभागंसज्जे इहत्तासहो ए विदेहराजवरकषाए

यवप्रतेदेखे' तेहनो लिगारेकशरीरना अवयवने देखवाने अर्थते हवोतेसरिखोसंपूर्णरूपप्रतेनीपजावेचीतरे एहवीखविष्णुमीछे तिवारे  
 तेचीतारानीवालक सस्त्रीकुमरी विदेहाभियलानगरीना देशनारा जानीवरप्रधानकन्याना परीयचिनाअंतरनेविषे जालीयांतरे  
 करीपगनाअंगूठाप्रतेदेखे तिवारेतेचीताराने एहवोभावजयनोजेअथ भलुंरुडोखलुनिचे सुअने एमस्त्रीना विदेहाभियलानगरीना  
 देशनाराजानीवरप्रधान कन्यातेहनापगना अंगूठानेअलुसारिकरी परिपूर्णसहोसरिखोरूपनालावयवनाथीवननागुणअथौदार्दिगां  
 भीर्यादिगुणेशहित एहवारूपनीयजाविवाभणीभलुं इणंप्रकारेचीतवे चींतवीनेतेरूपकरवा निमित्तभूमिभागप्रते सज्जकरेकरीनेम  
 स्त्रीकुमरीनाविदेहाभियलानगरीना देशनाराजानीवर प्रधानकन्यानापगना अंगूठानेअनुसारिकरी जेहवीकुमरीनोसंपूर्णरूपरूढ



पायंगुहाणुसारेणं जावणिव्वत्तेद्द तएणं साच्चित्तगरसेणी चित्तसभंजावहावभावचिच्चेद्दत्ता जेणेव  
 मल्लदिखे कुमारे तेणेवउवागच्छद्दत्ता जावएयमाणत्तियंपच्चप्पिणं तितएणं मल्लदिखेचिच्चगरसेणिं  
 सक्कारिद्दसस्साणेद्दत्ता विउलंजीवियारिहंपीयदाणंदलयद्दत्ता पडिविसज्जेद्दत्तातएणं सेमल्लदि  
 खे कुमारे अण्णयाकयाएह्हाए अंतोउरपरिवारसद्धिसंपरिउडे अम्मघाद्दएसद्धिं जेणेवचित्तसभातेणेवउ

छेतेहवोजनीपजावेतिवारतेचिक्करचीतारानीअणिचित्तसभाप्रतेहावभावसगलास्त्रीनातथासर्वचोरासीभोगासनस्त्रीपुरुषनीचेष्टा  
 नारामतिनारूपनीपजावेचीतरीनिपूरीकीधांपछीतेसगलीचीतारानीअणि जिहांमल्लदिन्नकुमरत्तेतिहांआवेअवीनेकहेहेस्वामीतु  
 मारीआज्ञाअमेकीधीछेतेआज्ञाप्रतेपाछीसूंपांछांइमतेणे कच्चोतिवारपछीतेमल्लदिन्नकुमरचीतारानीअणिप्रतेसत्कारेवस्त्रादिकआ  
 पेसन्धानेसत्कारेनेसन्धानीवज्जमानदेइनेविपुलघणोविस्तीर्णजीवितव्यनेयोग्यआउखोभोगवेतिहांतांइखातांदेतांखरचतांपच्छचेहवो  
 प्रीतिहर्षप्रमोदनदीयेंदेइनेतेसगलाचीताराप्रतेविषुसर्जेआज्ञापेघरे मोकलेतिवारपछीतेमल्लदिन्नकुमरस्नानकरीनेअंतःपुररां

तःपुरचपरिवारश्चअन्तः पुरलक्षणःपरिवारोयः सतथाताभ्यांतेनवासंपरिहतः लज्जितोव्रीडितोव्यर्द्धइत्येते तयोपिपर्यायशब्दालज्जा

वागच्छइत्ताचिह्नसभंअणुप्रविसंतिइत्ताहावभावविलासविव्यक्तलियाइंरूवाइं प्रासमाणेजेणैवम  
स्त्रीएविदेहरायत्रकस्याएतयाणुरूवेणिव्वत्तिएतेणैवप्रहारेत्यगमणाएतएणंसेमसुद्धिदिखे कुमारेमस्त्री  
एविदेहरायत्रकस्याएतयाणुरूवंणिव्वत्तियंप्रासइत्ताइसेयारूवेअज्जत्थिएजावससुप्रज्जित्थाएसणं

णीलोकअनेवली परिवारअथवाअंतःपुरलक्षणजे परिवारके तेसंघाते परिवस्योच्छतोतथावलीअम्भधा यिदूधधवराविवानीमातासंघा  
तेजिहाचिह्नसभाचीतरीसभाकेतिहांआवेतिहांआवीनेचिह्नसभाप्रते प्रवेशकरेप्रवेशकरीनेहावमुखनाविकारभावमननीइच्छाविला  
सनेतनाविआारविव्योक्कवालही स्त्रीनेभर्तारनवोलावेस्त्रीपुरुषनीचेष्टारूपचोरासीआसनभोगनातेणैसहितएहवा जेरूपतेप्रतेजोतो  
च्छतोरूपदेखतोजिहा मस्त्रीकुमारीनोरूप विदेहमिथलानगरीनादेशनाराजावरप्रधानकन्यानोरूप तेमस्त्रीकुमारीनारूपनेआकारे  
सरिखोरूपएहवोरूपचीतस्योक्केनीपजाव्योक्के तिहांजावाभणीपधारतोऊओ मसुद्धिन्नकुमरतिवारैतेतिहां मसुद्धिन्नकुमरमस्त्रीविदे

प्रकर्षाभिधानयोक्ताः लज्जिणज्जाएत्तिलज्जतेयस्याः सालज्जनीयापामोक्खं तिउत्तरं आच्चेपस्यपरिहारइत्यर्थः हीलंतीत्यादिहीलयं

किंमल्लीविदेहरायत्तिकट्टु, लज्जिणविलिए विड्डुसणियं प्रच्चोसक्कइ तएणं तंमल्लदिणं कुमारं अम्म  
धाइसणियं प्रच्चोसक्कंतंपासित्ता एवंवयासीकियं तुमंपुत्ता लज्जिणविलिएविड्डुसणियं प्रच्चोसक्कइ

हामियिलानगरीनादेशना राजानीवरप्रधालकन्यानोरूपतेमल्लीकुमरीरूपने आकारेकरीसरिण्णोरूपचीतस्योदेखेदेखीनितिहारहे  
रहीनेएहवोअधिथोरह्योजेभावचिंतामयअणप्रार्थीअणवांछ्यो मनसाहेरह्योएहवोभावउपजेण्डं मल्लीकुमरीविदेहामियिलानगरी  
नादेशनाराजानीवर प्रधानकन्यापुत्रीवैठीछे इमजांणीनेलाज्योत्रीडालज्जावंतययोविड्डुवणुंलज्जावंतययोएत्तिणयइएकार्थीलज्जा  
धणीभणीकह्याक्खेइमधणुंलाजवंतकत्तो मउडिइं मोडिइं पाछाउसरेपाछोवलेतिवारितेमल्लदिन्नकुमारप्रतेअम्मधायमोडोरपाछाउस  
रतापाछावलताप्रतेदेखीने इमकहतीह्मईकिमतुं हेपुत्तलाजपांस्योत्रीडालाजधणीपांस्योविड्डुव्यदंधणीलाजपांस्योक्कतोमउडेरपाछो  
वलेकिमतुं पाछोउसरेक्खेइमकह्यो तिवारितेमल्लदिन्नकुमार अंबधायप्रते इमकहतीह्मओ जुगतोएहेमातमाहरीज्येथा वडीवहिनहे

तएणं सेसल्लदिखे अस्मधाइ एवंवयासी जुत्तणं अस्मोममजेडाएभगिणीए गुरुदेवभूयाएलज्जणिज्जा  
 एममच्चित्तसभंअणुप्पविसित्तए तएणं साअस्मधाइ मल्लदिखं कुमारं एवंवयासीणोखलुपुत्ताएसाम  
 ल्हीएसणं मल्लीए विदेहरायवरकखाएचित्तगरेणं तयाणुखवेणिव्वित्तिए तएणं मल्लदिखे कुमारेअस्म  
 धाइएयमइंसेच्चाणिसस्मआसुरत्तएवंवयासी केसणं भोचित्तगरएअप्रत्थियपत्थिएजावपरिवज्जिए

गुरुदेवसरिखीनेलाजथकी जेयकीतेलज्जापांमिवायोग्य एहवीमल्लीवैहनमाहरीचित्तसभाप्रते प्रवेशकरवाभणीजुगतो इमकुमरेका  
 ह्योतिवारेंतेअवधाधि मल्लदिन्नकुमारप्रते इमकहतीऊई खलुनिश्चयहेपुत्रएमल्लीनहींएमल्लीविदेहामिथिलानगरीनादेशनाराजा  
 नीवरप्रधानकन्यानीचीताराना पुर्वेंतेमल्लीनारूपनेआकारेरूपचीतस्योछे नीपजाव्योछेतिवारपच्छीमल्लदिन्नकुमारअस्मधाधिसमीप  
 नेविषेएपूर्वोक्तार्थप्रतेसांभलीने हीयानेविषेअवधारीनेघणुंक्रोधाकुलथयोछतोइमकहतोह्मओकुणकेहोरेचीतारेनीचअणवांघ्यामर  
 णनोवांछणहारतटी चउदसिनोजथ्यो सोभालक्ष्मीलज्जाइंवर्जित रहितएहवोअरेनीचचीतारोकुणके जेणेमममाहरीवडीबहिन

जेणं भमजेडाएभगणीए गुरुदेवथभूयाए जावणिव्वत्तिए तंचित्तगरवज्झंआणावेइतएणं साचिच्चगर  
 सेणीइमीसेकहाएलइडासमाणा जेणेवमसुद्धिणे कुमारे तेणेवउवागच्छइइत्ता करयलपरिगगहियं  
 जाववद्धावेत्ताएवंवयासी एवंखलुसामी तस्सचित्तगरस्सइमेयाखूवाचित्तगरलद्धीलद्धापत्ताअभिसम

नोगुरुदेवसरिपीतुं माहरीचित्तसभामां हि रूपाचीतस्योच्छेते चीतारप्रतेतेडाधिनेलेईजाओ रासभजपरचढावीनेवधममिप्रतेलेइनेव  
 धोमारोइमत्रह्यो तेवातसगलीसांभल्यापच्छीते चीतारानीअे णिएहवीकथावात्तानाअर्थसमाचारपांमीलहीच्छतीजिहामसुद्धिचकुमां  
 रच्छेतिहाअवेतिहांअवीने वेहायजोडीअंजलिकरी माथेंचढावीने इमकहतीऊइ तेचीतारानीअे णि इमनिचे हे  
 खाभिनुहेमहाराज तेचीतारानेएहवी चितरवानीलब्धिलहीछे पांमीछेंरूडीपरेआवीछे जेहनोजेहवोदुपदमनुयभालनो गाइभेंस  
 प्रमुखनोसर्पादिपगरहितनो रुपलेयमावदेखेतेहवूं रूपनीपजावेछे तेकारणथकीहेखाभीहेमहाराजतुसेएहचीताराप्रतेवधमारवा  
 नीआज्ञाप्रतेआपोसांएतलेमरा बोमाजीवयकी चूकाबोसातेकारणथकीतुमेहेखाभीतेचीतारानिमरणमारवाथकीअनेरोबीजोतवा

शागयाजस्यगुणदुप्रयस्यवा जावणिवत्तेद्रुतंमाणंसामीतुभ्मिचित्तगरं वज्रभ्रं आणवेहतंतुभ्मेणं सामीतस्य  
चित्तगरस्यअणं तथागुरुवंदंनिव्वत्तेहतएणंसेसल्लदिश्ये कुमारे तस्खचित्तगरस्यअंगुठुं संडासगंच्छिं  
दाविद्रुतओनिव्वसियंआणवेद्रुतएणंसेचित्तगरस्यदारएमल्लदिश्ये णंकुमारिणंणिव्विसएआणत्तेसभं ड  
सत्तोवगरणमायाएमिहिलाओणयरीओणिक्खमद्रुत्ताविदेहजणवयंसज्झंमउभ्भंशंजेणेवकु रुजणव  
एहत्यिणालिरेणयरेजेणेवअदीणसत्तुरायतेणेवलवागच्छद्रुत्ता भंडणिक्खे वंकरे इद्रुत्ताचित्तफलदं

गुरुवंतेमरणसरिषोसरणवरार एहवांदडप्रतेनीपजावो अपराधविनामारोसां एहवोसांभल्पापच्छीतेमल्लदिन्नकुमार तेचीतारा  
नोअंगूठानोसंडासोच्छेदावीने क्कपावीने तिवारपच्छीदेशगंम नगरयत्तीवाहिरकाठे तिवारपच्छीतेचीतारोमल्ल दिन्नकुमारं देशयकी  
वाहिरकाठे आज्ञादीधेच्छतें पोतानाभांडामात्रउपगरणमात्रलेइनेमिथिलानगरीयकीनीकलेनीकलीनेविदेहदेशमाहिथइनेजिह्वा  
कुशनामादेशके जिह्वाहथिणालरनामानगरकेजिह्वाअदीनशतुराजाच्छेतिह्वाआवेतिह्वाअवीनेभांडमात्रउपगरणमात्रठामिइं सं क

सज्जेद्रत्तामस्त्रीएविदेहरायवरकणाएपायंशुद्धाणुसारेणखुवंणिव्वत्तेद्रकक्खंतरंसिलुभइत्तामहत्थं  
 पाहुडंगिएहेइहत्थिणालरंणयत्तंसज्जंमज्जेणंजेणोवअदीएसत्तूरायातेणेवउवागच्छइत्तातंकारथल  
 जाववइविइपाहुडंउवणेइएवंवयासीएवंखलु अहंसामीमिहिलाओकुं भगस्सरणोपुत्तंरंपभविइएदे  
 वीएअत्तएणंमस्सुदिणंशंकुमारंणंणिव्विसिएआणत्तेसमाणेइहंहव्वमाणंएतंइच्छामिणंसामीतुभंवा

वाप्रतेकरंमूकीकरीनेचिवामनाफलकपाटीयांप्रतेसज्जकरेसज्जकरीनेमस्त्रीविदेहराजवरकन्यानापगनाअंगूठानेअनुसारेकरीमस्त्रीकु  
 मरीनारूपप्रतेपाटीआजपरचीतरं नीपजावेचीतरंनेकांखवाहमांदिढांकीराखेढांकीराखीनेमोटाप्रयोजननिमित्तत्रहसल्यराजा  
 नेयोग्यएह्वंभेटणो ग्रहेलीथेलेइनेहथिणाउरनामानगरमांदिथईने जिहांअदीनयत्तू राजाछे तिहांअवेयावीने भेटणोराजाने  
 आगलिध्वंकेसूंकीनेइसकहतोवीनतीकरतोहुहोइमनिअहेस्वामीहुं मिथिलानगरीथकीकुं भराजानेपुत्तं प्रभावतीरांणीनेअंगजाते  
 मसदिन्नकुमारं वादिरकाढोआआदीवोक्तोइहांउतापलोआव्योक्तुंतेकारणथीहुंइंहुंकुंवांहुंकुंहेस्वामीतुमारीवाहुच्छायाथे

ऊच्छयाएपरिगृह्णन्निजवपरिवसितएतएणसेअदीणसत्तूरायातंचित्तगरदारयं एवंवयासीकिसं तु  
 संदेवाणुप्पियामल्लदिसेणं कुमारेणंणिब्बसिएआणत्तएणंसेचित्तगरे अदीणसत्तूरायं एवंवयासीएवं  
 खंलुसासीमल्लदिसे कुमारेअणयाकयाइं चित्तगरसेणं सहावेइइत्ता एवंवयासीएवंखलुतुभभेणं दे  
 वाणुप्पियाममंचित्तसभंतं चेषवसव्वंभाणियव्वं जविममसंडासयंछिंदावेइइत्ताणिब्बिसयंआणवेइएवं

तुमारीवाहेसंपूर्णपणेश्चोच्छतो हस्तिनागपुरवसिवाभणीरह्निवाभणी तिवारेतेअदीनशतू नामेराजाहे तेचीतारानाबालकप्रतेइम  
 कहतोऊअत्रोकिमतुमे हेदेवानुप्रिय हेचित्तकरबालक मल्लदिन्नकुमारेदेशयकी वाहिरकीधोदेशवटेवोदीधेच्छतेइहां आव्योके इमप  
 छ्योतिवारपच्छीचीतारोअदीनशतूराजाप्रते इमकहतोऊअत्रोइमनिचे हेस्वामीहेमहाराजमल्लदिन्नकुमरएकदाप्रस्तावे चीतारानीअ  
 णिप्रतेतेडावेतेडावीने इमआदेशदेतोऊअत्रो इमकोकयास्वमाहिकहीके चोरासीभोगासन स्त्रीपुरुषनीचेष्टा विशेषसहितनि  
 चे तुमेहेदेवानुप्रियोमाहरीचित्तसभाप्रते चीनरोपछेअसेचीतरीतेसगलूं पाच्छलिययूंके तिमकहिबूंयावत्माहरा अंगठानासां



खलुसामीमह्मदियेणं कुमारेणं गिण्विसएआणत्तेतएणं अदीणसत्तूरायातंचित्तगरं एवंवयासीसेके  
 रसिएणं देवाणुप्पियातुमेमल्लीएतहाखुवेणव्वत्तिएतएणंसेचित्तगरदारएककलंतराओचिच्चफल्यंणी  
 येइअदीणसत्तूसखउवणेइएवंवयासीएसणंसासीमल्लीएवि० तयाणुखुवस्सकेइआगारभावपडोयारेणिव्व  
 त्तिएणोखलुसक्काकिणइदेवेणवादाणवेणवाजावगंधव्वेणवाजावमल्लीएविदेहरायवरकणाएतयाणुखुवे

डसांप्रतेच्छेदावेच्छेदावीनेगामनगरदेशयकी बाहिरकाढवानी आजाप्रते दीयेगाहिरकाढे तिहाताई कच्चिवू तेइमनिश्चेइस्वामी  
 मस्रदिन्नकुमारि देशयकी बाहिरकाढो आजादीधिच्छते इहां आव्योत्तुं तेइमचीतारेसगलीवात कहीतेसांभलीतितारेअदीन  
 यतुराजाइ तेचीताराप्रते' इमकहतोऊओ तेकेहवो हेदेवानुप्रिय हे चित्तकरतुमेंत्वयाते' मल्लीकु मरीनोतेहवोरूपनीपजाव्यो  
 ऊं तोइमपूछो तिवारपच्छी तेचीतारानोदारकपुत्र कदांतरयकी काखमांहियकीचिक्वामनीपाटीया प्रते' काढिकाढीने अदीनयत्तू  
 राजाने आगलिखंकेम्बूकीने इमकहतोहवो हे स्वामीमल्लीकुमरीना विदेहराजानीवरकन्याना अंगठानेदेखीने तेमल्लीकुम

शिवत्तिएतएणंअदीणसत्तूरायापडिक्खजणियहासोदूयंसद्दवेइत्ताएवंवयासीतहेवजावपहारेत्थ  
 गमणाएधू तेणंकालिणंतेणंसमएणं पंचालजणवएसु कंप्पिस्सपुरेणांमंणयरेहोत्था तत्थणंजियसत्तूणा  
 संरायाहोत्था पंचालाहिवई तस्सणंजियसत्तूस्सरसो धारिणीपामोक्खंदेविसहस्रं उरोहेहोत्थात

रीनारूपने सरीखारूपना केतलाएक भाकारनाभावना प्रतिविवप्रतिरूपनीप जाविवाभणीखलु निचे सक्कासमर्थनहवे कु  
 णकोई देवतावेमानिकज्यातिषीदान वभवनपतिदेवता मल्लीकुमरीनाविदेहवरप्रधान कन्यानाअंगूठानेदेखीनेते मल्लीकुमरी  
 नारूपनेसरिषोरूपनीपजा विवाभणीसमर्थनइइं एहवोरूप तिवारेअदीनयत्तू राजामल्लीकुमरीनाप्रति विवे करीजनितक० उपजा  
 व्योक्तेहासप्रमोदस्नेहजेराजानेएहवोक्खतोद्रुतप्रतेतेडावेतेडावीनेइमकहतोह्म ओतिमजपहिलाद्रुतनीपरं पधारतोह्मओजावाभणी  
 पांचमोद्रुतऊओधु हिवेक्खडाद्रुतनो अधिकारकहेक्के तेकालनेविषे पंचालनामाजनपदेशनेविषे कांपिल्यपुरना  
 मानगरह्वोतिहांजितयत्तूनामाराजाह्वतोऊवोपंचालदेशनोअधिपतिठाकुरक्खेतेजितयत्तूराजानेधारणीराणीप्रमुखराणीनाहजार

त्यशुंमिहिलाएरायहाणीए चोक्खाणांमंपरिब्वा इयापरिवसइरिउब्वेया जजुब्वेयाजावपरिणिडि  
 एयाविहोत्यातएणं साचोक्खापरिब्वाइयां मिहिलाएरायहाणीए वज्जणंराईसरसत्थवाहपभिईणं  
 पुरओदाणधम्मं चसोयंचधम्मं चतित्याभिसेयं आधवेमाणीपणवेमाणी पखवेमाणीउवदंसेमाणी  
 विहरइतएणंसाचोखापरिब्वाइयाअणयाकथाइं तिदंदंचकुडियंचजावधाउरत्ताओयगिरहईरत्ता  
 परिब्वायगावसहाओपडि णिक्खमइरत्तापविरलपरिब्वाइयासद्धिसंपरिवुडामिहिलंरायहाणिंम

अंतःपुरअंतःपुरज्जवो तिहामियलाराजधानीनेविषे चोखानामापरित्राजकासन्यासिणीवसेछेरहे छेअजुवदनीजाणछे ययुवदनी  
 जाणछे यावतसगलीविद्वानीजाणछे ब्राह्मणनाशास्त्रनेविषेनिपुणछेतेकारणयकी तेचोखापरित्राजकासन्यासिणी मिथिलाराजधा  
 नीमांछि वह्मघणाराजाईश्वरधनवंत तिहायावत्सार्थवाहप्रभृतिक० प्रमुखानेआगलि दानधर्मप्रतेवलीशौचपवित्तधर्मप्रतेतीर्थनाअ  
 भिषेकस्नानकरवाप्रते आधवतीछतीकहतीछती प्ररूपतीछतीउपदेयदेतीछतीविचरेछे तिवारेतेचोखापरित्राजका सन्यासिणीएक

उभयसंज्ञकेण जेणेवकुं भगस्वरस्यो भवणे जेणेवसह्यी विदेहरायवरकस्या तेषेवलुवागच्छद्द्रुत्ता उदयप्र  
 रिष्टोसियद्वभोविरिप्रवत्यथातेमिसियाणिसीयद्द्रुत्तामह्यीएवि० पुरओदाणधसं चजावविहरइतएणं  
 सह्यीवि० चोक्त्वापरिव्वायंएवयासीतुभेणं चोक्त्वं किंमूलएधक्षेपयत्तेतएणंसापरिव्वाइयामह्यीवि०  
 एवंवयासीअरुहाणं देवाणुपिण सोयमूलधसं प्रणवेमि जसं अरुहं किंचिअसुईभवद्रुतसं उदएणयम

दाप्रस्तावे त्रिणदंडप्रतकुं डिकाप्रते यावत्गेरूधाते रंग्यावस्त्रसगलासन्यासीना उपगरणलेइने परित्राजकासंन्यासिणीवसतिआअ  
 मयकीनीकलेनीकलीने थोडीसंन्यासिणीना परिवारसंघाते परिवरीछती मिथिलाराजधानीनगरीमाहिचइनेजिहांजुं भरांजानो  
 भवनघरछेजिहांकन्यानोअंतेउरछे जिहासह्यीविदेहराजानीवर प्रधानकन्यावेठीछेतिहांआवेतिहांआवीने उदकपांणीनाफुसारा  
 छांटाछटोराधरती ऊपरडाभऊपरपांथरी तेआसनऊपरवैसेवेसीनेमह्यीविदेहराजानीवरप्रधान कन्यानेआगलिदानधर्मशोचधर्म  
 तीर्थनेपांणीइं स्नानकारिवोएहवाधर्मनी प्ररूपणाकरतीविचरेछे तिवारेमह्यीविदेहदेशना राजानीवरप्रधानकन्या जोखापरिब्रा

द्वियाएजावअविग्घेणं संगंगच्छामोतएणंमल्लीवि० चोक्खं परिव्वाइयं एवंवयासीचोक्खासेजहाणाम  
 एकैइपुरिसेत्तहिरकयं वत्थंत्तहिरेणचेवधोवेज्जाअत्थिणं चोक्खातस्सत्तहिरकयवत्थस्सत्तहिरेणंचेव  
 धोवमाणस्सकाइसोहीणोइएण्डे समड्डे एवासेवचोक्खातुभ्भेणंपाणाइवाएणंजावमिच्छादंसणसल्लेणं

जिकाप्रते इमकहतीइइतुमारहेचोखेस्या मूलधर्मकाह्योत्ते तिवारेतेचोखापरित्राजिका संन्यासिणी मल्लीकुमरीप्रते इमकहतीइइ  
 हेमल्लीकुमरिहेदेवानुप्रिये अमारेष्वक्के शौचमूलधर्मं प्ररूपुं कुंजेअमारिकांई अशुचिअपवित्त्तइं तेउदकपांणीयेकरीमाटीइं करी  
 धोइपवितकरीयेएशौचमूलधर्मसे वतांआचरतांअविघ्ने करीविघ्नरहितपणेकरी उतावल्लोखर्गदेवलोकप्रते अक्के जावुं कुं इमचोखासं  
 न्यासिणीइं धर्मकाह्योतिवारिमल्लीविदेह राजानीपुत्तीवलीचोखा परित्राजिकाप्रते इमकहतीइइ हेचोखापरित्राजकेतेयथानामको  
 मलामंत्रणेकोइएकपुरुष लोहीयेकरीअखोखरखोवस्सलूगडो लोहीयेरधिरजघोइजेतोवस्सच्छे हेचोखेपरित्राजकेतेलोहीइं खरखा  
 लगडनिर्धरेलोहीइं जकरीचेवनिचे संहितधोताच्छतानेकांईसोधिनिर्मलउजलोथाइं इमकह्योतिवारिचोखाकहेअर्थसमर्थनहींके

णत्थिकाइसोहीजहावतस्स रुहिरकयवत्थस्स रुहिरेणचेव धोवमाणस्सतएणंसाचोक्खापरिव्वाइया  
मल्लीविदेहरायवरकखाए एवंवुत्तासमाणसंक्रियावितिगिच्छियाभेयसमावखाकलुससमा  
वखाजायाविहोत्थामल्लीएविदेहरायवरकखाएणोसंचाएइकिंचिविप्रामोक्खमा इक्खत्तएतुसिणी

दूणें हटातेकरीकहेचोखेप्रिब्राजके तुमारिप्राणातिपाते करी यावत्तिमथ्यात्वदर्शनसत्यपथंतअद्वारपापस्थानकनेसेववेकरी नहीछे  
काईआठेकर्मांनीसोधिनिर्मलताजिमतेरुधिरलोहीखरआलूगडानेवलीलोहीजमाहेलोहीइ करीघोताछतानेवखजजलोमलरहि  
तनथाइंतिमप्राणातिपातादिअद्वारपापयानकनेसेववेकरीजीवनिर्मलनथाइं देवलोकादिकनी भलीगतिनजाइं इममल्लीकुमरीइं क  
ह्योतिवारपछीतेचोखापरिब्राजकासंन्यासिणीमल्लीकुमरीइं विदेहदेशनाराजानीवरप्रधानकन्यानेइणं प्रकारेजुगतिकहीछतीसंदेह  
वंतथातीऊईआकांदावंतथातीऊईवणुंजसंदेहवंतथातीऊईभेदपामतीहूईकलुषणोपामतीहूईमल्लीनेविदेहामिथिलानगरीनादेश  
नाराजानीवरप्रधानकन्यानेकहिवाभणीचोखासमर्थनऊईकांइएकलिगारमालपामोक्खकंपाछोउत्तरकहिवाभणीपूछ्याअर्थनाआले

तिजात्याद्युद्ग्रहणतः निन्दंतिमनसाकुल्यंति विभ्रंसंतिपरस्परस्याग्रतःतदोपकीर्त्तनेनगर्हंतितत्त्वमजमेवहेरुयालंति विक्रोपयंतिमुखम  
 कटिकाअसूत्रयाखमुखकताः कुर्वन्तिवग्वाडिया उत्तिउपहासार्थी रुतविशेषाःकुसलोदंतंति कुगलवार्त्ता अगडददुरेसिबन्तिक्वप

यासंचिद्वृत्तएगंतंचोक्त्वं परिव्वाइयंमल्लीएविदेहरायवरकषाए बहुओदासीचेडीओहीलंतिशिंदं  
 तिखिंसंतिगरिहंतिअप्ये गइयाहेरुयालेतिअप्ये गइयासुहमक्कडियाओकरिंतिअप्ये गइयावग्वाडो  
 याओकरे इअप्ये गइयातज्जेमाणीओकरिंतिअप्ये गइयातालेमाणीओकरिंतिअप्ये गइयाणिच्छुंभं

पनोपरिवारकहिवाभणीसमर्थनज्जवं तिवारेअणवोलीवेसिरहीपाछोउत्तर देइसकेनहीतिवारेतेचोखापरिवाजकाप्रतेमल्लीविदेहदे  
 यनीराजानीकुमरीवणीदासीओहीलेजातिनाउवाडवायकीमनेकरीनिंदेपरआगिल्यानेआगिलयकीतेसंन्यासिणीनादोषनेकीर्त्तने  
 करीगरहेतेहनेसमज्जेएकेकेतलीदासीओहेरुयालेतिविगोवेक्केतलीएकदासीमुखमक्कटिकाक०रीसे'करीपोतानासुखमुंहडावांका  
 करेछेसुहमचकोडिकहेछेएकेकेतलीएकदासीओवग्वाडियाओक०उपहासार्थहासाकरवानेअर्थेशब्दविशेषकरेक्केकेकेतलीएकदा

तितरणंसाचोऋवाअक्षीएवि० दासचेडीयाहिंजावगिरिहिज्जसाणीहीलिज्जसाणीशिंदिज्जसाणीआ  
 सुरत्ताजावमिसिमिसिमाणासक्षीएविदेहरायवरकखाए प्रलसजावज्जइभिसियंगिरहइअंतिलराओ  
 पडिणिकवइमिहिलाओरायहाणीओशिणगच्छइरत्ता परिवाइयासंपरिवुडाजेणेवंपंचालजखवएजे  
 शेवकांपिप्तपुरेणयरेतेणेवडवागच्छइरत्ताकांपिप्तपुरेवडुशंराइसरजावप्रह्वेसाणीविहरइतरणंसेजि

सीओआगुलीयेकरैतर्जनाकरेकेकेतलीएकदासीओताडनाकरेकेकेतलीएकदासीओगलोआलीवाहिरकादेछेतिवारैतेचोखापरिजा  
 जिकामक्षीविदेहदेशराजानीप्रधानकन्यानीदासीयेकरीयावतुगर्हपामीछतीहीलनापामीछतीनिंदापामीछतीवशुंकोधवंतथईछतीया  
 वत्मिसिसमानधिगधियायमानथईछतीमक्षीनेविदेहदेशनाराजानीवरप्रधानकन्याकुमरीनेजपरघणाप्रदेशधरतीछतीपोतानाआ  
 सनप्रतेग्रहेलीयेलेइनेकन्यानाअंतैउरथकीनीकलेनीकलीनेमिथिलानामानगरीराजधानीमाहिथकीवाहिरनीकलेनीकलीनेपरिवा  
 जिकासंन्यासिणीयांनापरिवारसंधातेपरिवरीछतीजिहांपंचालनामाजनपददेशेजिहांकांपिल्यपुरनगरहेतिहांआवेतिहांआवीने



यसत्तूरायाअणयाकयाद् अंतैउरपरियालसद्धिसंपरिवुडे एवंजावविहरइतएणंसाचोक्खापरिब्बा  
 इयासंपरिवुडाजेणेवसियसत्तूस्वरणोभवणे जेणेवजियसत्तूरायातेणेवउवागच्छइत्ताजियसत्तूरायं  
 जएणंविजएणंविइत्तातएणंजियसत्तूरायाचोक्खंपरिब्बायंएज्जमाणंपासइत्तासीहासणाओअ

कांपिल्यपुरनगरमाहिघणाराराजाईखरसार्थवाहप्रसुखानिआगलिदानधर्मगौचधर्मतीर्थनेविपेस्नानकरिवोएहवाधर्मप्रतेप्ररूपतीछती  
 विचरेछेतिवारपच्छीतेजितयत्तराजाएकदासमेअंतेउरराणीनापरिवारसंघातेपरिवख्योछतोइणेप्रकारेविचरेछेतिवारपच्छीतेचोखापरि  
 त्राजिकासंन्यासिणीपोतानापरिवारसंघातेपरिवरीछतीजिहांजितयत्तराजानोभवनघरआवासअंजिहांजितयत्तराजाबैठोछेतिहांआ  
 वेआवीनेराजानावरमांहिप्रवेशकरेकारीनेजितयत्तराजाप्रतेपोतानादेशनेविषेजयडवोविजयपरदेशनेविषेडवोएहवाजयविजयशब्दे  
 करीआशीवीददेइनेवधवंधवीनितिवारैतेजितयत्तराजाचोखापरिब्राजकाप्रतेआवतीछतीदेखेदेखीनेसिंहासनयकीअठेजठीनेचो  
 खापरिब्राजकाप्रतेसत्कारकरेवस्त्रादिकदेइनेसम्मानवडमानदेइनेआसण वेसणोमंडावीविसिवानीनिमंतणाकरेतिवारैतेचोखापरि

भुङ्क्ते इत्ता चोक्त्वं परिब्वाइयं सकारे इत्सस्माणे इत्ता आसणेण उवणिमंते इ तएणंसाचे क्खापरिब्वा  
 इयाउदगपरिफोसियाए जावभिसियाएणि विसइत्ताजियसत्त सुखोरज्जेय जावअंतैउरेयकुसलो  
 दंतंमुच्छइत्ता तएणंसाचोक्त्वापरिब्वाइयाजियसत्त सुखा पुरओदाणधम्मं चजावविहरइत्तएणंसे  
 जियसत्तूराया अप्पणोउरोहंसिजावविग्गएचोक्त्वं परिब्वाइयं एवंवयासीतुभंचणं देवाणुच्छियावइ

राजकासंन्यासिणीपाणीनाच्छांटा देईडाभपाथरीयावत्भिसियाएआसननेविषे वैसेवसीनेचोखापरिब्वाजकाजितशत्रु राजानाराज्य  
 नेविषे वावत्अंतैउरपयंतसघलाकुशल क्षेमनाओदंतसमाचारप्रतेपूक्के पूक्कीने तिवारेतेचोखापरिब्वाजिकासंन्यासिणी जितशत्रूरा  
 जानिआगलिदानधर्मशौचधर्मप्रते प्ररूपतीच्छतीविचरेक्के तिवारेतेजितशत्रूराजा आपणोपोतानाअंतैउरनेविषे राणीयांनेजपरि  
 मोहपांमीरह्योअचरिजपांस्योच्छतो चोखापरिब्वाजकाप्रते इत्सपूक्कतोइवोतु हे देवानुप्रिये हेपरिब्वाजकेषणागामआकारनगरया  
 वत्सन्निवेशपयंतहीडेक्के परिस्मरणकरेक्के घणाराजानाईश्वरनाधरमांहे प्रवेशकरेक्के जाइक्के तिहास्त्रीयांतैकोई राजानोआसरि

शिगामागरणगर नावआहिंडिहिवळणं राईसरगिहाइं अणुप्पविसंति तंअत्थीयाइं तेकस्खविरखो  
 वाजावणरिसिए उरोहेदिइयुब्बेजारिसएणंइमेमउरोहे तएणंसाचोकवापरिब्बाइयाजियरुत्तूरायं  
 एवंवयासौ ईसिंअवहसियंकरेइइत्ता सरिसएणंतुमं देवाणुप्पियातस्वअगडदह, रसकिसणं देवाणुप्पिए  
 सेअगडदह, रेजियसत्तूसैजहाणा मएअगडदह, रेसियासंणंतथजाए तत्थेवमुहु अणमगडंवातडागं

खोएहवोअंतेउरप्रथमपहिलादीठोछे जेहवोमाहरोअंतेउरछे इमराजाइं पृच्छोतिवारे तेचोखापरिवाजकाजितयत्तूराजाप्रते ईसिल  
 गारेकथोडोसोहासप्रते करे इमकहतीइईसरिखोतु छे हे देवाणुप्रियहे महाराजतेअगडकूआनादहरडे डकानोसरिखोदं छे राजा  
 पछेछेकू णहे देवाणुप्रियतेकूआनोडेडकोइमपृच्छोतिवारे परिवाजकाकहे हेजितयत्तूतेजिमनामकोमलामंतणेएककोइएकअगडकू  
 आनोडेडकोसियाउइं तेडेडकोतिहाकूआमांहिजातऊपनोछे तिहाकूआमांहिइह्णपांम्योछे तेडेडकोअनेरावीजाकूआप्रते वाअथवात  
 लावप्रतेवाट्टहप्रते सरोवरप्रतेसागरसमुद्रप्रतेअण देखतोछतोतेडेडकोमांनेजाणे चेबनिअंअयंएहिजकूओछेएहिजतलावएहिजद्रहए

वादहंवासरंवासागरंवाअपासमाणिसखइअयंचेवअगडंवाजावसागरंवा तएणंतंकुवंअखे समुहएदह, रे  
 हव्वसागएतएणंसेकुवदह, रंतंसमुहदह, रंएवंवयासौसेकेसणं तुमंदेवाणुप्पियाकत्ते वाइहहव्वसांगएत  
 एणंसेसमुहदह, रंतंकुवदह, रंएवंवयासौएवंखलुदेवाणुप्पिया अहंसमुहएदह, रेतएणंसेकुवदह, रंतंस  
 मुहयंदह, रंएवंवयासौकेमहालएणंदेवाणुप्पियासेसमुह तएणंसेसमुहएदह, रंतंकुवदह, रंएवंवयासौ

हिसरोवरएहिजसमुदुच्छेवीजोकोइनथी तिवारे तेषुआमहिअनेरोवीजो समुद्रसंबंधीडे डकोउतावलोआगतआव्योच्छे तिवारे ते  
 क्खानोडेडकोतेसमुद्रसंबंधीडे डकाप्रते इमकहतोऊओतेकोणतु हेदेवानुप्रिय हेदुईरमंडुककिहायकी इहांउतावलोआव्योच्छे ति  
 वारपच्छीतेसमुद्रसंबंधीडे डको तेषुआमांहिलाडे डकाप्रते इमकहतोहओइणेप्रकारे खलुनिश्चयहेदेवानुप्रिय हेकूपमंडूकडंसमु  
 द्रसंबंधीडेडकोछुंसमुद्रमांहियकीआव्योच्छुं तिवारे तेवलतोतेषुआनोडे डको तेसमुद्रसंबंधीडे डकाप्रते इमकहतोऊओकेवडोएक  
 मोटोच्छेतेसमुद्रहेदेवानुप्रिय हेसमुद्रडे डकतिवारे तेवलतोसमुद्रसंबंधीडे डको तेषुआनाडे डकाप्रते इमकहतोऊओघणुंमोटोस

सिमहालएणं देवाणु प्पियाससुहे तएणंसेकुवदह, रेपाएणंलीहंकहुइ एवंवयासीएवंचएमहालएणं देवाणु  
 प्पियासेससुहे णोद्रणइ समइ महालएणंसेससुहे तएणंसेकुवदह, रेपुरच्छिमिस्त्राओतीराओउप्फुडित्ता  
 णंगच्छइरत्ताएवंवयासीएवमहालएणं देवाणु प्पियासेससुहे णोद्रणइसमइ तहेवएवाएवामेव तुमंपिजिय  
 सत्तूरायाअस्सेसिंबुणंरईसरतलवरजावसत्थवाहप्पमिईणंभजिंवाभगणंवाधूयंवासुएहंवाइत्थियंवा

सुद्रुक्के हे देवानुप्रियहे कूपमंडूक तिवारे ते कूआनोड डकोपगे करी लीहलीगटीकाढी करी देखाडे जेणे प्रकारे एवडोमोटो तेस सुद्रु  
 क्के हे देवानुप्रियहेस सुद्रुमंडूक तिवारे तेस सुद्रुडे डकोकहे एअर्थसमर्थन ऊवे एवडोनथी धणुंमोटोस सुद्रुक्के तिवारे ते कूआनोड डको  
 पूर्वादिशिनतीरतटथकीआषो उच्छले जाइ उच्छलीपडीजईने इमकहतोऊवोआवडोतेमोटो सुद्रुक्के हे देवानुप्रियतेस सुद्रुददु रकहे  
 एअर्थसमर्थन हींषणुंजमोटोक्के तिमजइस कूआनाडे डकासरिखी तुं पियक्के हे जितशत्रुमहाराज अनैराधणाराजा ईश्वरतलवर  
 यावत्सार्थवाहप्रमुखांनी भार्याप्रते वहिनप्रते वेटीप्रते वडुप्रते स्त्रीप्रते अणदेखतोछतो जाणंक्के जेहयोमाहरो अंतःपुरअंतेउरक्के

अपासमाणेजाणइजारिसएणंसमचेवणंउरोहेतारिसएणो अस्सत्तंएवंखलुजियसत्तूराया मिहिलाए  
 णयरोएकुभगस्सरखोधूयापमात्रइएदेवीएअत्तयासस्त्रीणांसंविदेहरायवरकस्सारुवेणयजोव्वणेणयजाव  
 णोखलुअस्साकाई देवकस्सावाजारिसिया मस्त्रीएविदेहरायवरकस्साए विच्छस्सविप्रायंगुडुस्स इमेत  
 वउरोहेसयसहस्संतिंसंपिकलंणअग्घइत्तिकइ, जामेवदिसिंपाउभयूयातामेवदिसिंपडिगयातएणंजियस

तेहवोनथीअनेरावीजाने अंतेउरएहोनथीएहवोअहंकारप्रतेकरेके तिवारेचोखाकहेइणे प्रकारे निच्चयसहित हेजितशत्रूरा  
 जासंभलिमिथिलानगरीनेविषे कुंभराजानीपुत्रीप्रभावतीरांणीनी आलजाअंगजातिके मस्त्रीनामाविदेहदेशनाराजानीप्रधां  
 नकन्यारूपेकरीलावण्येकरी यौवनेकरीअधिकीके यावत्तेसरिखीखलुनिच्चयअनेरीबीजीकोइदेवकन्या पिणनड्डवेजेहवीमस्त्रीकु  
 मरीके मस्त्रीनाविदेहदेशनाराजानीवरप्रधानकन्याकुमरीना केद्याकायापगनाअंगठानानखने बरावरपिणएताहरोअंतःपुरअंते  
 उरलाखमीकलानाअंशमालपिण अग्घईनहींलाखमीकलाप्रते पिणपामेनहींइमकहीने जेणदिशियकीप्रगटयईआवीडंतीचो

त्त रायापरिव्वाद्वाद्याएअंते जणियहासिदूयंसद्दावेद्दत्ता जावपहारेत्यगमणाएइतएणंजियसत्तपूपा  
 मे, क्खाणंछरहंरार्द्रिणंदूया जेणेवमिहिलाएणयरी तेणेवपहारेत्यगमणाए तएणंछप्पियदुयगजे  
 येवमिहिलाएणयरीतेणेवउवागच्छद्दत्ता मिहिलाएणयरीए अणुज्जाणंसिपत्तेयंद्द खंधावारणिवे  
 संकरेतिंमिहिलंरायहाणिं अणुप्पविसंतिजेणेवकुंभएरायातेणेवउवागच्छद्दत्तापत्तेयंपत्तेयंकरय

खासंन्यासिणी तेणीजदिशिपाक्कीवलीनें गई तिवारेजितयत्तराजाचोषापरिब्राजकाना समीपयकीमस्त्रीकुमरीनीवात्तीसंभलिवे  
 करीजपनेछे हर्षप्रमोदस्सेहरागजेराजाने तेकारणयकीदूतप्रते तेडावेतेडावीनें जिमपहिलादूतनें आजाआपीछे तिमआजा  
 आपे छेदोदूतपधारतोह्छओ जावाभणीएछ्छादूतनोअधिकारजांणवो तिवारेजितयत्तराजाप्रमुखना छराजानादूतजिहांमिथिला  
 नगरीछे तिहां जावाभणीपधारताड्ढवा तिवारेछप्रियमित्तराजानाछए दूतजिहांमिथिलानगरीछे तिहांआवेद्यावीनें मिथिलान  
 गरीनाअग्रनामाउद्यानवनखंडनेविषे प्रत्ये कजुदारअलगार आपआपणमेले खंधावारकटकनानिवे सऊताराप्रते करे करीनें पछे

लसाणं साणं राईणं वयणाइं णिवेदेइतएणं कुं भएरायातेसिंदुयाणं अंतिएयमइं सोच्चाआसुरत्तेजा  
वतिवलिं भिउडिं णिडालिसाहइ, एवं वयासीणदेसिणं अहंतुभंमस्सिविदेहरायवरकणत्तिकइ, तत्य  
णंछप्पिएदुए असक्कारिय असम्माणियअवदारे णंणिच्छु भावेइ तएणंतेजियसत्तपूमोक्खवाणंछ  
णंहराईणंदुयाकुं भएणंरखा असक्कारियाअसम्माणिया अवदारेणंणिच्छु भावियासमाणजेणवस

छद्रूतमिथिलाराजधानीप्रते प्रवेशकरे प्रवेशकरीने जिहांकुं भराजाछे तिहांआवे तिहांआवीने प्रत्येकरजुदारुछए द्रूतवेहाथजोडी  
माथेचढावीकुं भराजाने आपआपयापोतारनाराजानावचनसगलाकहे मस्त्रीप्रते मागे तिवारे कुं भराजातेछए द्रूतानासमीपथ  
कीसमकाले एअर्थप्रयोजनप्रते संभलीने घणुंकोधाकुलययोछतो यावत्तिवलीविणरेखारूपलीटीनिलाडप्रते चढावीने इमकहतो  
ऊओनहींदेउं नहींपरणवुंउं तुहाने मस्त्रीकुमरीविदेहदेशनाराजानीकन्या कुमरीप्रते इमकहीने तिहांछएमितवस्त्रभद्रूतांप्रते  
असल्कारीनेअणआदरदेइने अणमांन्याछताघरनीपाछलीवारे करी गलोथादेवरावीबाहिरकाढे तिवारेतेजितपत्नूराजाप्रसुखां



याश्च जणत्रयाजिणेष्वसयाद्देशगराद्देशेवसयाश्चरायाणोतेणैवउवागच्छद्देशता करयलएवंवयासीए  
 वंखलुसामीअग्हेजियसत्तपामोक्खाणंछएहंराईणंदूयाजमगंसमगंचेवजेणेवमिहिलाजावअवदारेणं  
 णिच्छुभाविद्देशंसासामीकुंभएराया मल्लीविदेहरायवरकणंसाणंदेशंइणंअमडुंणिवेयंतितए

नाकराजानादूत कुंभराजाद्देशसत्तास्त्राअदरदीधाच्छता अणसान्याच्छताअपद्वारघरमाहिली पाच्छिलीवारीइं करीवाहिर  
 ठेलीकाढाच्छताजिहां आपआअणापोतानाजनपददेशे जेहांआपआपणापोतानानगरके जेहांआपआपणापोतानाराजाके  
 तिहांदूतआवे तिहांदूतआवीने वेहायजोडीकरीमाथे चढावीइसकहताइया आपआपणाराजाने आगलि इमपूर्वोक्तप्रकारे ख  
 लुनिचे हेस्वामिन् अग्हे जितशत्रूराजाप्रसुखाना कराराजानादूतसमकाले ज एकठाचेवनिचे सहितजिहां मिथिलानगरीके तिहां  
 आवीने मल्लीकुमरीमांगीछए दूतसमकाले तिवारे राजाद्देशं क्रोधकरीनां नहीवारीइं करी वाहिरठेलीकाढातेकारणथकीनदीये न  
 आपिपरणवे नहीं हेस्वामिन्कुंभराजामल्लीकुमरीविदेहदेशनाराजानी प्रधानवरप्रधानकन्याप्रते पोतानाआपआपणाराजाने

मंडूकोभवेत् जमगसमर्गतिरुगपत् जत्तं गिरिहत्तएत्ति यात्वांविग्रहार्थिगमनं ग्रहोतुमादातुं विधातुमित्यर्थः बलवाच्यंतिबलव्याप्तंसे

शंतेजियसत्त पूप्सोक्खाह्मिप्रयरायाणो तेसिंदुयाणंअंतिएएयमड्डं सोच्चाआसुरत्ता अस्समस्सडुयं  
संपेसणंकरिंतिएवंवयासो एवंखलुदेवाणुप्पिया अरुहंछरुंहराईणंदुया जमगसमर्गंचेवणिच्छूटातं  
सेयंखलुदेवाणुप्पियाकुं भगस्सरखोजत्तं गिरिहत्तएत्तिकट्टु, अस्समस्सएयमड्डं पडिसुरेइतएणंजियस

आगलिपूर्वोक्तार्थप्रयोजनप्रतें छएट्टुनकहंतिवारं तेजितयत्तुप्रमुखआदिदेईं छएप्रियवक्त्रभस्मितराजा तेच्छूतानासमीपनेविषे  
एपूर्वोक्तार्थसमाचारसाभलीनें वणुंकोषे करीधमधमायमानच्छता अन्योन्यमाहोमाहेछएराजादूतनें संपेसणं मोकलवाकरं एतलें ए  
कएकनें माहिदूतमोकलीकरी इणे प्रकारेविचारकरताड्ढआ इमपूर्वोक्तप्रकारे खलुनिश्चयहेदेवानुप्रियो आपणाह्मएराजानादूतमि  
थिलानगरीनिविषे एकदिवससंघातेपड्डंतापह्मेतेदूताने कुं भराजाइअपमानीइं करी सगलाने समकालेचेवनिश्चेवारीइं करीका  
ट्टातेकारणथकी अयभलुंआपणनें खलुनिश्चे अहोदेवानुप्रियोअहोराजानो कुं भराजाजपरयात्वाकटककारीजाइबूतिकट्टु कुं भराजाने

त्तूपामोक्त्वा एहायाससुद्धवद्वा हत्थिखंधवरगयासकोरं टमसुद्धदामेणं जावसेयवरचामराहिंसहयाह  
 यगयरहवरजोहकलियाए चाउरंगिणीए सेणाएसद्धिसंपरिउडा सव्विड्डीएजावरवेणंसएहिंसणगरे  
 हिंतोजावणिगच्छंतिरत्ता एगयत्रोमिलयंतिजेणेवमिहिलाणयरीतेणेवपहारेत्यगमणाएतएणं कुं

कटककरीग्रहिवामणीपकडवाभणी एकएकनें मां होमां हिटूतमोकलीकरी एहवाअर्थप्रते अंगीकारकरे करीनें तिवारपच्छीजितयत्तुप्र  
 सुवच्छएराजाअंधील्यान्हायाकवचसन्नाहटोपपहिरी सन्नुद्धवद्धययाच्छतावरप्रधानहाथीनाखांधाऊपरचट्टाकृतासकोरिंटवृत्तनाफूल  
 मालाभणीहितकारी भलाजिकुसुमफूलअनें दाममालातेणेकारी सहितकेच्छतखेतधउलावरप्रधानवालना चामरतेणे करीवीजीजिता  
 छतामोटाघणाघोडाहाथीरथवरप्रधानयोध सुभटपालीयारतेणे करीसहित एहवाच्यारप्रकारनीसेना कटकसंघातें भलीपरें परिव  
 खाच्छताआपआपणी सगलीअद्धिइंकारी यावत्घणेआडंबरकारीवाजितनें संबंदकारी आपआपणापोतानार नगरयकीतांलग्छएरा  
 जानीसरेनीसरीनें एकठाछएराजामिले एकठामिलीनें जिहांमिथिलानगरीछे तिहांजावाभणीपघारताऊआ तिवारे कुं भरा

भएरायाइमीसिकहाएलद्धडेसमाणेबलवालयंसहावेइरता एवंवयासौखिप्पामेवभोदेवाणुप्पियाह  
 यगयरहवरजावसेखंसखाहेहजावपच्चप्पिणंति तएणंकुंभरायागहाए सखड्वबड्ढेजावहत्थिखंधवरग  
 ए सकोरंटमल्लदामेणंछत्तेणंधारिज्जमाणेणसेयवरचामराहिंसहयामिहिलंरायहाणिंमउभंसउभके  
 णंणिगच्छइ विदेहंजणवयंसउभंमंजणे वदेसयंतेणेवउवागच्छइरताखंधावारणिवेसंकरिंति

जाएहवीकथावात्तीनाअर्थसमाचारलह्यो पास्योछतोकुंभराजा बलकटकनाथ्यापारवंत कटकसेनाप्रतेसज्जकरे एहवासेनानाअधि  
 पतिसेनानीपुण्यप्रतेतेडविंतेडवीने इमकहताज्जआच्चिप्रमेव उतावलाजभोदेवानुप्रिय घोडाहाथीरथप्रधानमुभट्ठचारप्रकारनी  
 सेनाप्रतेतुं सज्जकरिपछेसेनानीचारप्रकारनाकटकप्रतेसज्जकरीपाछोकार्यकरीआवीसूंपे तिवारेकुंभराजाअंधोल्पोसन्नद्धथयो  
 यावत्हाथीनाखाधाजपरिचढो कोरंटट्टन्नानाफूलनीजातिमालाहितकारी भलाजेकुसुमफूलअनें दाममाला तेणं करीसहितछत्त  
 धरीते छत्ते खेतधोलविवामरवीजवे करी घणेआडंबर करी मिथिलाराजधानीमाहिथइने नीकलेनीकलीने विदेहदेशने विषेमां

न्यथापारवंतं संपलग्नेत्यत्रयोद्धु मितिशेषः ह्यमसह्यपवरवीरघाद्व्यविवडियचिंघद्वयपडागंतिहतःसैन्यस्यहतत्वात् सथितोमानस्य  
निर्मथनात्प्रवरावीरभटाघातिता विनाशितायस्यसतथा विपतिताच्चिक्कध्वजाच्चिक्क भूतगरुडसिंघवरारहकध्वजादयःपताकाश्चहसि

एणंजियसत्तूपामोक्खाछप्पियरायाणोपडिवालेमाणे जुञ्जसज्जे पडिचिद्वइतएणंजियसत्तूपामोक्खा  
छप्पियरायाणोजेणैवकुं भएराया तेणैवलवागच्छइत्ता कुं भएणंरणासद्धिं संपलग्नेजायाविहोत्था  
तएणंजियसत्तूपामोक्खा छप्पियरायाणो कुं भयंरायंहय सह्यपवरवीरघाद्विवडियचिंघद्वयपडाग

हियईनें जिहादेशनीसंधिच्छें तिहाआवे तिहांआवीनें कटकनाउताराप्रतें करेछे रादेइनें कटकनाउताराकरीनें तिवारे जित  
यत्तु प्रमुखआदिदेई छप्रियवल्लभराजानप्रतें वाटजोतोच्छतो कुं भराजा युद्धकरिवाभणीसावधानययोरहे छे तिवारे जितयत्तु प्रसु  
खआदिदेई छएप्रियमित्तराजाजिहाकुं भराजाछे तिहांआवे तिहांआवीनें कुं भराजासंघाते युद्धकरवाभणी प्रवर्त्तताउत्तमायुद्धप्र  
तें करताहआ तिवारे संग्रामकरताजितयत्तु प्रमुखछप्रियमित्तराजाकुं भराजाने हतहण्योकोकटकने हणिवामारिवापणायकीकुं भरा

नासुपरिवर्त्तित्यः प्रबलपरबलप्रयुक्तानेकतीक्ष्णचुरप्रहारप्रहरेणदंडादिच्छेदनाद्यसतथाततःपदचतुष्कास्यकर्मधारयोऽथवाहृतमथि  
तावाहयमथितावाद्यमर्दिताः प्रवरवीरायस्यघातिताश्चसत्योविपतितश्चिह्नञ्जपताकायस्य सतथातंदिशोदिशंति दिशोदिशिसर्वत

किच्छ्रप्पणोवगयदिसिंपडिसेहंति तएणं सेकुं भएराया जियसत्तूपामोक्खाच्छिंरारिंहिंहयमहिद्य

जाने मंहियमथ्योमानअहंकारनाघणुं मथवाथकीप्रचुरप्रधानवीर सुभटघात्याविनासाच्छं तेकुं भराजानातथात्रिवडियहेठीपाडीच्छं  
चिंधद्वयक चिह्नभूतगण्डसिंहवराहप्रमुखना आकारच्छंजेधजादिकने विषे एहवीधजाहेठीपाडीच्छं पडागक नान्हीधजापताकावो  
डाहाथीयाने ऊपरऊइतेपताकाकहीये किच्छ्रणे कष्टे करीपरअनेराअगिलाराजाननाकटकनाम्बू क्वाजेअनेक प्रकारनातीखाधा  
रालाजेचुरप्रभागविशेषनाप्रहारनासम्बूह तेणैकरीदंडादिकनाच्छेदवाथकी पताकाधजाहेठीपाडीच्छं तेकुं भराजानी तेकारणथकीव  
णेकष्टे दुःखे करीदिशोदिशियकी पडिसेहंतिक संग्रामथकीनिराकरताच्छता कुं भराजाने कटकने तिवारपच्छी तेकुं भराजानितथलु  
प्रसुखआदिदेई छएराजाइ हय्योमथ्योयावत्संग्रामथकीनिवर्त्थी निराकस्योच्छतोसामर्थ्यताइ रहितथत्रो निर्वैलययोवीर्यपराक्रमर

पामोक्त्वाणं ऋणंरार्इणंछिद्वाणियविवराणियमस्माणिय अलभमाणेबहृहिं आणहिय उवाणहि  
यउप्पत्तियाहिं ४ बुद्धीहिंपरिणामेमाणेइ किंचिविआंबाउवायंवा अलभमाणे उहयमणसंकप्पे  
जावज्जियायइइमचणंमल्ली विदेहरायवरकखारहाया जावबहृहिंबुज्जाहिं संपरिउडाजेणेवकुं  
भएराया तेणे वउवागच्छइइत्ता कुं भगसरसो पायगहणं करिंति तएणं कुं भएरायामस्सिं विदे

हांनाजितशत प्रमुखआदिदेई छएराजाननाच्छिद्रविवरमस्सं अणलहितोअणपामतोछतो षणेआयेकरीषणेउपादें करी औत्पाति  
कीबुद्धिआदिदेईच्यारप्रकारनीबुद्धिइं करी बुद्धिपरिणामतोषणाप्रकारनीबुद्धिकेलवतोछतो कांइआयउपायअणलहतोअणपां  
सतोछतोययोजपनोचिंतातुरमननोसंकल्पविकल्प यावत्आर्त्तध्यानध्यावतोछतोरहेके एहवेसमये एमल्लीकुमरी विदेहदेशनारा  
जानीवरप्रधानकन्याकुमरीअंबोलीकरी शृंगारपहिरीयावत् षणीकूबडीदासीआदिदेई दासीइं करीमलीपरेपरिवरीछती जिहां  
कुं भराजाच्छेतिहाआवेतिहाआवीनें कुं भराजानापादग्रहणप्रतें करे एतलेकुं भराजानेपेलागेपेपेडे तिवारेकुं भराजामल्लीकुम

हरायवरकखोणो आढाद्रणोपरियाणति तुसिणीएसंचिद्रुंति तएणं मल्ली विदेहरायवरकखाकुं  
 भंगंरायं एवंवयासी तुभ्रंणं ताओअखयाकयाद्रं ममंएज्जमाणं जावणिवेसेह किणं तुभ्रंअज्जलहय  
 जावज्जिकयायह तएणं कुं भएरायामल्लिं विदेहरायवरकखं एवंवयासी एवंखलुपुत्तातवकज्जं जियस  
 त्त्तू प्रामोक्खं हिंछं हिंरार्दि हिंदुयासंपेहिया तेणंमएअसक्कारियाजावणिच्छूटा तएणं तेजियसत्तू रा

रीविदेहदेशनी राजानीवरप्रधानकन्याप्रते' आदरदीये' नहींमानदीये' नहीं आवीजाणें नहींतथाओलखें नहीं अणवो ल्यो छतोकुं भ  
 राजाबेसीरह्योछे तिवारे' मल्लीविदेहदेशनाराजानीकन्यापुत्री कुं भराजाप्रते' इमपूछतीइई तुम्हे हेतातहेपिताजीसदाईसुभ्रप्रते  
 आवतीदेखतातिवारे' ततकालबोलावता यावत्खोले' बेसारता किमस्याभणीतुम्हे आजचिंतातुरधणों दीसोछोअतार्थानध्याओको  
 चीतवोछोसुभ्रने' आवीपिणजाणतानथीतेसुं, इमपूछ्योतिवारपच्छीकुं भराजा मल्लीविदेहदेशनाराजानी वरप्रधानकन्याकुमरीप्रते  
 इमकहतोज्जओ इमपूर्वोक्तप्रकारे' खलुनिचें हेपुतितुभ्रने' परणवानेकाजेजितयत्त प्रसुख्छएराजाएछटूतमोकल्याज्जतासुभ्रभणीतेछटू



थातेसिंदुयाणं अतिणयमडुं सोच्चापरिकुवियासमाणा मिहिलारायहाणिं णिस्संचारंजावच्चिडुं  
 तितणं अहं पुत्ता तेसिंजियसत्तूपामोक्खाणं छण्हंराइणं अंतराणिअलममाणेजावज्जियामितए  
 णंसामस्सीवि० कुं भयंरायंएवंवयासीमाणंतुभेताओ उहयमणसंकप्पाजावज्जियाहत्तुभेणंताओते

तनेमे असल्कारीअणमांनीवाहिरकाढावारीइं करी तिवारे तेजितशत्तू प्रमुखछएराजा तेदूतनासमीपने विषेदूताना अपमान्या  
 नासमाचारसांभलीने षणुंकोप्याषणुंक्रोधवंतथयाच्छता मिथिलाराजधानीनगरीप्रते गढनीपोलिकरीगढनीवारीयेकरीपेसिवोतेणे  
 रहितजिमड्डइं तिमकरीतथागढनेजपरजावाभणी आविवानामार्गतेणेरहितजिमड्डइं तिमकरीच्चारदिशिच्चारविदिशिनैविषेन  
 गरीप्रते रूंधीवींटीनेरह्याछे तेकारणकीडं हेपुलितेजितशत्तू प्रमुखआदिदेई छएराजाननाअंतराजिद्र अणलहितोअणपामतो  
 छतोबुद्धिनेआयउपायकटकनेभाजिवाभणी विचाररूपथाउं कुंजेकिणैआयउपायेकरीए छएराजाभाजेइमकच्चो तिवारे तेमस्सीकुम  
 रीविदेहदेशनाराजानी प्रधानकन्याकुं भराजाप्रते इमकहतीह्णई माणंमकारिस्योतुम्हे हेतातजौ चिंतामनसुं संकल्पविकल्पचातं

णसंस्थितिप्रविरलामनुध्यामार्गीदिषु यस्मिन्संध्याकालसमयेसतयातस्मिन् रात्रिसमयद्वत्यध्याहारः तथानिशातेषु गृहेषुप्रतिनिःश्रान्तावाश्रान्तायस्मिन्मनुध्याइतीह द्रष्टव्यं सतयातल अथवासंध्याकालसमयेसति तथातलैवयःप्रविरलोमनुधयोमानुषजनोमागेषुभवति

सिंजियसत्तूपासोक्त्वाणं छरुहंरार्द्रिणं पत्तेयंरहसिण्णदुयंसंपेसणंकरेह एगमेगंएवंवयहृतवदेसिम  
स्त्रिंविदेहरायवर कणंतिकट्ट, संभक्ताकालसमर्थसि पविरलमणूं संसिणिसंतप्रडिणिसंतसिपत्तेयं

ध्यानयावत्तैतवोमांध्यावोमां तुम्हे हेतातजीतेजितशत्रु प्रमुखश्चादिदेइने छएराजाननेप्रत्ये क? जुदारएकराजाछाना दूतानेभोक्त्वावाप्रतें करोएकरमांहोमांहिनजांणूं तिममोक्कलोजजुओएकराजाप्रते इमकहिंरावज्योदूतपासंतुक्ने परणादस्यंमस्त्रीविदेहदे शनाराजानीप्रधानकन्याकुमरीप्रते इमकहीनेसंध्याकालसांभक्तासमयनेविषे थोडामनुथमार्गने विषेहीडे जेसाभ्कनासमयनेविषेथानिसांतेषुक० धरानेविषे विआमकीधक्केजेहने विषे मनुथलोकेएहवोसांभ्कसमयडतेछते सगबालोक्कापआपणेधरेगयेडते छते प्रत्येकरजुदारमिथिलानगरीप्रतेप्रवेशकरावज्योतिहांगभंघरमांहि जजुओविसारज्योपक्केमिथिलानगरी

मिहिलं रायहाणिं अणुप्यवेसेह गरभधर एसु अणुप्यवेसेह मिहिला एरायहाणी एटुवाराइं पिहेहरो  
 हासज्जे चिद्वेह तएणं कुंभ एराया एवतं चेव जावपवेसेतिरो हासज्जे चिद्वेह तएणं तिजयसत्त प्रामो  
 क्खाच्छप्यिरायाणो कल्लं पाउभूया जावजलंति जालंतिरेहिं कणगमयं मत्थयच्छिड्डुं पलमप्यलपिहाणं  
 पडिसं पासंति एसणं मल्ली विदेहरायवर कणत्तिकट्टु, मल्ली एविदेहं रूवेणयजोव्वणेणयलावसे णयमु

नादरवाजा देवरावज्यो देवरावीनें रोधना लिंगोलागो फ्रिणचो किसज्जकरी रहिज्याइम मल्ली कुमरी नीसी खसांभलीनें तिवारे कुंभरा  
 जाइणं प्रकारेति मज्जुतमोकली जूज्जायावत् गर्भधर मां हि प्रवेशकरावें करावीनें रोधगोलागो फ्रिणनालिचोउफेर सुभटनीचोकीरा  
 खीनरहे तिवारेतेजितशलू प्रमुखआदिदेई कएमितराजानकालिख्यं प्रगटययां पच्छी ख्यं जग्यां पच्छीयावत् ज्वलंत देदीप्यमान ख्यं जग्यं  
 छतें जालांतरे करीजालीइं करी कनकमय सोनामय एहवी वलीकेहवी छेमाथाने विषे छिद्रसहिततेजपरिपद्मशतपत्रकमल उत्पलनी  
 लोत्पलकमलतिहांनो पिधानं कणासहित एहवी सोनानी प्रतिमा प्रतिविंबप्रते कएराजा देखेजुदार रद्या एमल्ली कुमरी विदेहदेशना

च्छियागिद्वाजावअज्जोवखा अणमिसाएदिद्वीएपेहमाणेचिद्धंति तएणंसामस्तीवि० एहायाजावपाय  
 छित्तासव्वालंकारविभूसिया बद्धहिंखुज्जाहिंजादपरिकलिया जेणेवजालघरएडेणेदवणगरुपडि  
 सेतीणेवउवागच्छइरत्ता तीसेऋणगजावपडिमाए मत्थयाओतंपउमंअवणेइतअणंगंधेणिद्वावइरेज

राजानीवरप्रधानऋन्यावेठीक्खंत्तिकट्ट, इमजाणीनें मस्तीविदेहदेशनाराजानी वरप्रधानकन्यानें रूपेकरी वौवनें करीलावण्ये करीष  
 णुंसौभाग्यवतीदेखीनें सुख्खीणामोहपांस्यागट्ठययाच्छता यावत्क्खएराजानदेखिवाजोविवाना अथ्यवसायरूपथयाच्छता मेघोन्मे षर  
 हितट्टिइं करी देखताजोताथकारहेक्के तिवारपक्कीतिमस्तीविदेहदेशनाराजानी वरप्रधानकन्याकुमरोन्हाइ अंभोलकरीआभरण  
 अलंकारपरिहरीतिलकरीसोभायमानं मसीनातिलककरीद्विट्टिदोषप्रायच्छित्तनिमित्त सवलासोलशृंगारनाअलंकारपरिहरी करीविभू  
 षितसोभायमानथईक्खती घणीकुवजादासीआदिदेई घणीदासीइं करीसहितपरिवरीक्खती जिहाजालघरहेंजालीनोषरहें जिहांक  
 नकसीनानीप्रतिमाहें तिहाआवीतिहाआवीनें तेपोतानारूपसरिखीसोनानीजे प्रतिमाप्रतिबिंबतेहनामाथानाच्छिद्रथकी तेसोपां

हाणामएअहिमडेतिवा जावअसुभतराएचेव तएणतेजियसत्तूपामोक्खा तेणअसुभेणंगंधेणअभिभू  
यासमाणसएहिंउत्तरिज्जे हिंआसाइ पिहेइ पिहेत्तापरसुहाचिइति तएणसामह्वीवि०तेसिंजि  
यसत्तूपामोक्खे छप्पियरायाणो एवंवयासीकिण्तुभमेदेवाणुप्पिया सएहिंउत्तरिज्जे हिंजावपरसु

खडीनाकमलनाढांकणाप्रतेपाछोकरेअलगोकरेतिवारेंतेप्रतिमामांहिथकीएहवंगंधप्रतेनीसरेधाइइउडेतेगंधकेहवोक्केतेयथाजिमना  
मसप्यंनकलेवरगाइनोकलेवरउंदरानाकलेवरनागंधथकीयावत्अशुभतरघणुंजपाडूओभूडोगंधविस्तस्योसगलं धरमध्येव्याप्योतिवा  
रेतेजितशत्रूप्रमुखआदिदेईतेणअशुभगंधकरीपराभव्यापीद्यादोहिलाथयाछतापोतानेआपआपणेउत्तरीयवस्त्रेकरीओढवानाफाली  
यानाछेहडानीपाटलीकरीमुखनाकप्रतेढांकेढांकीनेपराळ्मुखउपराठाथईबैठातिवारेंतेमह्वीकुमरीविदेहदेशनाराजानीप्रधानक  
न्यातेजितशत्रूप्रमुखआदिदेईने छएराजाप्रते इमकहतीऊईकिमस्याभणीकुणकारणथकीतुम्हेअहोदेवानुप्रियोपोतानेआपआपणे  
उत्तरासणजपरओढवानेवस्त्रेकरीमुखनाकप्रतेढांकीनेउपराठाथईबैठाछोइमकुमरीइंकस्योतिवारेंतेजितशत्रूप्रमुखछएराजानम

तत्रनिशांतेषुप्रतिनिःश्रान्तेइत्यर्थः जइतावेत्यादि यद्वितावदस्याहार पिंडस्थायंपरिणामः अस्यपुनरीदारिकशरीरस्यकीदृशोभवि

हाचिद्वृहत्तएणंजियसत्तूपामोकखा मल्लीविदेह० एवंवयासौएवंखलुदेवाणुप्पिया अमहेइमेणंअसुभेणं  
गंधेणंअभिभूयाममाणसएहिंजावचिक्कामोतएणंमल्लीविदेह० जियसत्तूपामोक्खे एवंवयासौएवंख  
लुजइतावदेवाणुप्पिया इमौसेकणगमयाएजावपडिमाए कल्लाकल्लिंताओमणुष्णाओ असणुएगमे

स्त्रीविदेहदेशनाराजानीवरप्रधानकन्याप्रते' इमकहताड्डआइमपूर्वोक्तप्रकारे' खलुनिश्चेहेदेवानुप्रियेहेकुमरि अरुहे इणंअशुभपाडु  
येगंधेकरीपरामव्यापीड्राळ्ळ्या पीतानेआपआपणेओदवानिस्खेकरी सुखनाकटांकीने'बेठाळुंइमकच्छो तिवारपच्छीमल्लीविदेहदेश  
नाराजानीकन्यापुत्रीजितशत्रुसुखएराजानप्रते' इमकहतीऊईइणंप्रकारे' खलुनिश्चे जइजातावप्रथमपहिलो अहोदेवानुप्रियोए  
आकवकमयसोनानीप्रतिमानामाथानाच्छिद्रने' विषे दिनदिनप्रते' तेमनोज्ञअसनादिचारप्रकारनाआहार एकएकपिंडकोलीयोधा  
लतांछतांएआहारनापिंडनोएहवो अशुभपाडुओपुत्रलनोएपरिणामदुर्गंधरूपयथोतो आवलीओदारिकशरीरनोकेहवो गंधऊस्येते

स्यतीतिसंबंधः इह घकिमंग पुणत्तियत्क्वचिद्दृश्यते ततः इमस्सपुणत्तिपठनीयंवाचनांतरे तथा दर्शनात् कस्सा कस्सिंति प्रतिदिनं खेलासवे  
 त्यादिखेलं निष्ठीवनंतदाश्रवति चरतीती खेलाश्रवंतस्य एवं शेषाख्यपि पदानिनवरं वातं वमनं पित्तं दोषविशेषः शुक्रं सप्तमो धातुः शोणित  
 मातं वंसामान्येन वारधिरं पयं परिपक्वंत देवदु रूपौ विरूपावतुत्खासनिःखासौ यस्य तत्तथा तस्य दुरूपेण मूलकैण प्रतिकेन वा शुभगंधवतापु

गेपिंडेपक्खिवेमाणे इमेयारुवे अ सुभेपोगलपरिणामे इमस्सपुण्डरा लियस्ससरीरस्स खेलासवस्सवं  
 तासवस्सपित्तासवस्स सुक्कासवस्ससोणियासवस्स पूयासवस्सदुषयज्जसास णीसासस्स क्यमुत्तपूइयपु

औदारिकशरीरकेहवोच्छे खेलक० मुखमांहिलोषलबोधकते आश्रवेच्छे खरेच्छे भरेच्छे ते खेलाश्रवकक्षीयं तेहनो गंधकेहवो गंधज्जस्ये वांतवम  
 नप्रते खरेच्छे तेहनो केहवो गंधज्जस्ये पित्तदोषविशेषपित्तोडां प्रते भरेच्छे ते शरीरने शुक्रसातमो धातुच्छे तेहनो केहवो गंधहस्ये शोणितर  
 धिरते आश्रवेच्छे भरेच्छे ते औदारिकशरीरनो केहवो गंधहोस्ये प्रयक० पाकोषधिरपरुते भरेच्छे तेहनो दुरूपो विरूपपाडू आउत्तखासनि  
 श्वाससासोसासच्छे जेशरीरनो तेहनो केहवो परिणामहोस्ये तथा दुरूपपाडू वै मूलं परुइ अशुभपाडू इ गंधं करी एहवेपु रीषेमले करी

रीषेणपूर्णे यत्तत्तथातस्य तथाशठनमंगुल्यादेः कुष्ठादिनापतनंकेदनं वासादेर्विष्वं सनंचक्षयएते धर्माः स्वभावायस्यतत्तथातस्यसख्या  
हसज्जतसङ्गं कुरतस्वहरज्यत रागंकुरतगिज्जहृद्यतगृद्धिं प्राप्रभोगेष्वऽटश्लिच्छयां कुरतमुज्जहसुह्यतमोहंतदोषदर्शनेमूढत्वंकुरत

रीसस्वपुस्यस्व सदणप्रडणविद्धं सण जावधस्वस्वकेरिसए परिणसेभविस्वइ तमाणं तुभमे देवाणपि  
यामाणुस्यएकामभोगेसु सज्जहरज्ज हगिज्जहसुज्जह अज्जोववज्जहएवंखलु देवाणुप्पियाअरुहेइ

परिपूर्णमस्योहेजेशरीरतेहनोकेहबोहोस्ये तथासडनआंगुलीयादिकनोकोठादिरोगे करी सडीकोहीने षड्विकेकेकेदनंवाह्रस्वादि  
वानोविष्वंसचयहेएतेधर्मस्वभावहे जेशरीरनोतेहनोकेहबोपरिणामहोस्ये एगुणसहजे स्वभावे औदारिकनोहेतोएमनोस्त्रआहारए  
कार्यने दीधातेपुज्जलनापरिणामकेहवाह्रस्ये तकारणयकीमाइतिनिषेधे तुम्हे अहोदेवानुप्रियो मनुष्यसंबंधीयाकासभोगने विषे संग  
करोछोतेमकरो रागप्रते मकरोपास्याभोगने विषे गृद्धिअटसिअसंतोषमकरो तेहनादोषदेखिवाने विषे मोहमूढपणोकरोछोतेम  
करोतेअणपास्याकामभोगने विषे पामिवाभणीतेएकाग्रतापणोमकरो इमआगलिकहिसेतेणेप्रकारं खलुनिश्चं सामलोअहोदेवानु



श्रोतञ्चेभवगहणे अवरविदेह्ववासे सलिलावद्रविजए वीथसोगाएरायहाणीए महव्वलपामोकखास  
त्तपियवालवयं सयारायाणोहोत्था सहजाययाजावपव्वइया तएणं अहंदेवाणुण्णिया इमेणंकारणे  
णं इत्थीणाभगोयंकम्मं शिव्वत्तेमि जइणं तुभ्भेचउत्थंउवसंपज्जित्ताणंविहरह तएणं अहंछक्केउवसं

प्रियोआपणाआवत्तमानभवयकी लीजाभवग्रहणपाच्छिलावीजाभवने विषे अपरविदेहपश्चिममहाविदेहक्षेत्रनेविषे सलिलावतीविज  
यने विषे वीतशोकानामाराजधानीनगरीने विषे महाबलप्रमुखआदिदेई सातेआपणप्रियप्रीतावाल्हाबालमिलराजा नज्जतातेके  
हवासार्थेजनम्याज्जंता सातेजणेआपेसायेदीच्चावीधी तिवारे ज्जं महाबलअहोदेवानुप्रियो इणेकारणेकरीस्त्रीनामगोलउपजावूनी  
पजावूंआपणेपरठएहवोकीधोऊं तोजेआपण एकतपकरिस्सेतिवारे ज्जं अधिकफलठकुराईवांछतो जिवारे तुम्हे छएसधुचोथभक्तएक  
उपवासनोतपञ्चंगीकारकरी विचरोप्रवत्तोतिवारे ज्जं छट्टउपवासवेअंगीकारकरीने विचरं प्रवत्तुं तुम्हारीपरठथकी चूकीज्जं मायाइ  
अधिकोतपकरी विचरतो ज्जवो शेषथाकते तिमजसगलुंपाच्छलिकस्योछे तिमजजाणिवोतिहांमायाइ करी स्त्रीनामगोलकर्मउपजावूनी

अज्मोववञ्कहअथ्यु पयद्युञ्चं तदप्राप्तप्रापणायाथ्यु पपत्तिं तदेकाग्रतालचण्डुरतकिंचतयंगगाहाकिमितिप्रश्ने थइति वाक्यालंकारित कत्

पञ्जिताणं विहरामिसेसंतहेवसब्बंतएणं तुभे देवाणुप्पियाकालमासेकालं किञ्चाजयंते विसाणे देवत्ता  
एउववसातत्थणं तुभेणं देवाणुप्पियादिसूणाइवत्तीससागरोवसाइं द्विइप्रसुत्तातएणंतुभेताओ देवलो  
गाओअणं तरंचयंचइत्ता इहेवजंबूहीविइमारहेवासिसाइं २ रज्जाइं उवसंपज्जित्ताणं विहरहतएणं  
अहं देवाणुप्पियाताओ देवलोगाओ आऊकंखएणं द्विइकखएणं जावदारियत्ताएपयाया किंचतयंपभइं

तिवारपक्की तुम्हे छएसधुअहो देवानुप्रियो अने हं कालकरिवासाने विषे देवतापणे जपनातिहा तुम्हे छए देवताअहो देवानुप्रियो  
देशेजंणीवतीसपागरोपमनी आउखानीथितिकेतलाएक देवतानीकहीछे तिहा तुम्हे देशेजणीवतीससागरोपमनी आउखानीथि  
तिइं जपनातिवारपक्की तुम्हे छए देवतातेजयंतविमानयकी आतरारहितचयशरीरच्छाडीने आंतरारहितच्यवनकरीने एहिजजंबू  
हीपनामाहीपनेविषे आपआपणापोनानाराज्यप्रते अंगीकारकरीने भोगवताकृताविचरोछो तिवारेहं अहो देवानुप्रियो तेजंतवि

तत्पृष्ठं विस्मृतं जति यत्थ इति वाक्यालंकारे तदा तस्मिन्काले भो इत्यामन्त्रणे जयंत प्रवरे जयंता अभिधाने प्रवरे अबुत्तरविमाने बुच्छति  
 उषिता निवासं कृतवंतः समयनिमग्नं मनसा निवृद्धसंकेतं यथा प्रतिबोधनीयावयंपरस्परैरेति समकनिबद्धावा रुहितैर्यी लपात्ताजाति  
 सा देवाः अनुत्तरसुराः संतः तंति तदेवतावा देवसंबंधिनौ संस्मरतजाति जन्मययमिति जावभागहृद्योपायरासोत्ति मगधदेशसंबंधिनं

जंचतयाभोजयंत प्रवरं मि बुच्छासमयणि वृद्धदेवातंसंभरहजाइ१ तएणंतेसिंजियसत्तपूअोक्खाणं  
 छहंरायाणं मल्ली एविदेह० अंति एएयमद्वुः सोच्चाणिस्समसुभेणंपरिणासेणंपसत्येणं अज्जभवसाणेणं

मानयकी देवतासंबंधी आउखानोचयकरी देवतासंबंधी भवनंचयकरी देवतासंबंधी धितिनंचयकरी यावत्पुत्रीपणंबेटीपणे जणीज  
 नमपांसीगाथा किमिति प्रश्नेति वाक्यालंकारे तयंतत्ते जंजेथेति वाक्यालंकारे तयातेकालने विषे भो इति आमंत्रणे जयंतनामा प्रवरप्रधा  
 नअनुत्तरविमानने विषे वस्थारह्यासमयनिवृद्धक० मनं करी निवृद्धबांध्योकी धोजे संकेतजिमति मच्छे प्रतिबोधवामा होमां हि अथवासम  
 कनिवृद्धं क० संघाते करी जेग्रहीलाधीजाति जन्मअवतारप्रते तुम्हे संभारो इमकच्छो कुमरीइं तंते हि जदेवतासंबंधिनीजाति जन्मअवता

लेसाहिंविभुञ्जमाणीहिं तथावरणिज्जाणं कस्माणं ईहापूहजावसंखिजाईसरणं समुप्रस्ये एयमड्डं  
सम्मं अभिसमागच्छइ तएणं मल्लीअरहाजियसत्तूपामोक्खा छप्रियरायाणोसमुप्रस्यजाई सरणं  
जाणित्तागभधराणं दाराइं विहाडावेइतएणं जियसत्तूपामोक्खा जेणं वमल्लीअरहातिणे वडुवा

रप्रतें तुभेसंभारोइमकह्योकुमरीइं तिवारंतेजितशत्रुप्रसुखआदिदेइनें छएराजाननें मल्लीविदेहदेशनाराजानी प्रधानकन्याकुम  
रीनाममीपनें विषे एपवोक्तअर्थप्रतें सांभलीनें हीया सांहिअवधारीनें भुभभलें परिणामेकरीप्रशस्तभलें अथवसायेकरी विद्युद्धनि  
मलीउजलीलेश्याइं करी तेजातिस्वरणनें आवरवानाढां किवाना जेकर्मतेहानिं जेइकरी ईहापूहप्रसुखनीविचारणाकरतानेछएरा  
जाननें जातिस्वरणज्ञानऊपनो तिवारंएसल्लीकुमरीनोकह्योजेपाछिलाभवनो संबंधसगलोएअर्थप्रयोजनप्रतें भलीपरछएराजाजां  
णोतिवारंतेमल्लीअरिहंतजितशत्रुप्रसुख छप्रियवस्तुभराजाननें ऊपनोजातिस्वरणज्ञानएहवाजातिस्वरणथया जांणीनेगभधरमां  
हिंलाछगभधरनावारणाउषाडे तिवारपल्लीजितशत्रुप्रसुखछएराजान जिहामल्लीनाथअरिहंतछे तिहांआवे तिवारंतेजितशत्रुप्रसु

गच्छंति तएणं ते जियसत्तूपामोक्खा छप्पियवालवयंसाएगओ अभिसमसागयायाविहोत्था तएणं  
 मल्लीअरहा ते जियसत्तूपामोक्खा छप्पियरायाणे एवंवयासी एवंखलु देवाणुप्पिया अहं संसारभयु  
 व्विग्गाजावपव्वयासि तंतुभेणं देवाणुप्पिया किं वसेह किं ते हि यसामत्थे तएणं जियरुत्तूपामो  
 क्खा छं० मस्सिंअरहं एवंवयासी जइणं तुभे देवाणुप्पिया संसारभयजावपव्वावेह अमहाणं देवाणुप्पि

खआदिदेइनें छप्पियवस्सभवालमित्तएकठामलीपरं आवीयाताड्ढआएकठामिलताड्ढआ तिवारे मल्लीकुमरीअरिहंत तेजितशतू प्र  
 मुखआदिदेइं छएप्पियवस्सभराजानप्रते इणंप्रकारे कहतीड्ढइमनिच्चं हे देवानुप्रियोअहोराजानोड्ढं संसारनाभययकीउद्वेगपा  
 मीकुंतेकारणयकी यावत्दीच्चातेउं कुंतेकारणयकी तुम्हे अहो देवानुप्रियोसुंकरस्यो स्युं वसस्योरहि स्यो गट्टहस्यवावासमध्ये तुमारारासा  
 मर्थस्युं कुं तुमाराभावकेहवाछें इममल्लीकुमरीइं पूछ्यो तिवारे जितशतू प्रमुखएराजानमित्त मल्लीअरिहंतप्रते इमवलतावाहताड्ढ  
 आजो तुम्हे हे देवानुप्रिये संसारनाभययकीउद्वेगपाम्याच्छता यावत्दीच्चा लीयोच्छोतोअम्हानिं हे देवानुप्रिये कुणअनेरोबीजोआलंभ

याकेअस्सेआलंबणेवाकेआहारेवाकेअस्सेपडिवंधेवाजहचेवणं देवाणुप्पिया तुम्हेअरुहंइओत  
 च्चेअवेगहणे बडुखुक्कजेसुयसेठीप्रमाण जावधम्मधुराहोत्या तहचेवणं देवाणुप्पिया इरिहंप्रजा  
 वअविस्सह अरुहेप्रियणं देवाणुप्पिया संसारभयउल्लिग्णा जावभीया जम्मएसरणं देवाणुप्पिया  
 णं सद्धिं सुं डेअवित्ताजावपव्वयासो तएणं सस्सी अरहाजियसत्तूपामोक्खं एवंअथासीजइणं तुम्भेसं

णअवलंबनहइं कुणवीजोआधारउइं कुणवीजोप्रतिबंधहइं जिसचेवनिचं हे देवानुप्रियेतुमेअमारे च्यावत्तं मानअवयकीपाछिलाभव  
 नातीजाभवग्रहणनेविषे घणाकामकाने विषेमेठीप्रमाणभूतयावत्धर्मधोरीयाताउवादीचामाहे तिअजचेवनिचं सहितहे देवानु  
 प्रिये हे स्वामिन् हिबडाआभवने विषेपिणधर्मधोरी तुम्हे यास्येतिकारणयकीअग्हेपिण हे देवानुप्रिये हे स्वामिनी संसारनाअवयकीउद्वेग  
 पास्याछायावत्वीहनाजन्मसरणयकीतिकारणयकी हे देवानुप्रियेतुम्हसंवाते सुं डयईने यावत्दीबालेउं छं इअकच्चोतिवारपच्छीसस्सी  
 अरिहंततेजितयत्प्रमुखछएराजानप्रते इअकहतीहईजोतुम्हे संसारनाअवयकीउद्वेगपाक्याछतायावत्सुअसंधातेतुम्हे दीबालीयो

सारभयउन्निगाजावमएसदिं पव्वयाविहतंगच्छहणं तुभेदेवाणुप्पियासएहिंरज्जे हिंजेइयुत्ते रज्जे  
 इविहपुरिससहस्सवाहिणीं सीयंदुरुहममअंतियं पाउअवहतएणं तेजियसत्तू पामोक्खामिस्सिस्सअ  
 रहओएयमडुं पडिसुणंति तएणं भल्लीअरहाजियसत्तू पामोक्खाछएहं रायाणं गहायजेणं वडुं अए  
 राया तेणे वलुवागच्छइत्ता कुं भगस्सरखोपाएसुपाडिटएणं कुं भएरायातेजियसत्तू वि

छोतोजाओतुम्हे अहोदेवानुप्रियोअहोमित्तो पोतानेअपआपणेराज्येवडापुत्तनेराज्येनेविषेथापोयापीनें हजारपुरुषेवहिचे चलावि  
 चे उपाडीयें हजारपुरुषवाहिनी एहवीशिविकापालखीप्रते चढो बैसोवैसीनें साहरे पासें आवीप्रगटथाओआवो इमकह्योतिवार  
 पछीतेजितयत्तू प्रमुखएराजान मल्लीकुमरीअरिहंतनाएअर्थप्रते सांभलीने अंगीकारकरे तिवारपछीमल्लीकुमरीअरिहंतजितयत्तू  
 प्रमुखएराजानग्रहायतेडीलेइनें जिहांकुं भराजाहेतिहांआवे तिहांआवीनें कुं भराजानापगाने विषेपायेलगडे कएराजानमि  
 लाप्रते तिवारे कुं भराजा तेजितयत्तू प्रमुखएराजानप्रते विपुलघरे अथनपानखानिस्सादिमचारिं आहारे करीफूलेवखे गंधेमा

पुलेणं असणं प्राणं खाइसंसाइसं पुण मवत्थगंधमह्वालंकारिणं सक्कारिंति सस्माणं तिजावपडि विसज्जे इ  
 तएणं ते जियसत्त पूअओक्खवाकुं भएणं रखा विसज्जियासमाणा जेणे वसाइं इरज्जाइं जेणे वणगराइं तेणे  
 वउदागच्छइत्ता सयाइं इरज्जाइं उवसं पज्जित्ताणं विहरंति तएणं मल्लीअरहासं वच्छरावसाणेण  
 क्वमिस्सामिस्सिमणं संपहारेइतेणं कालेणं तेणं समएणं सक्खस्रारुणं चलइ तएणं सक्केदे विंदे देवराथा

लाभणीहितकारी जेजुसुमफूलअलंकार आभरणतेणे करीसत्कारकरे सन्धाने सत्कारीने सन्धानीने छएराजानप्रते विसर्जेमोकले  
 सीखदीये तिवारे तेजितशत्रुप्रमुखछएराजान कुं भराजाइं आज्ञादीधाकृता जिहायोताना आपणाआपणाराज्यके जिहांपोताना  
 नगरके तिहांआवे तिहाआवीने पोताना आपआपणाराज्यप्रते अंगीकारकरीने विचरेके तिवारपक्षीमल्लीअरिहंतसंवत्सरीवर  
 सीदाननाअवसरने विषेवरसीदानदीधा पक्षीगृहस्थावासमाहिथीनीकलखूं दीखालेखूं एहवोमनमाहे धरे श्रीमस्त्रिनाथहिंवेते  
 कालने विषेतेसमयने विषे शक्रसुधर्मे द्रुनोआसनसिंहासनचाले चाले तिवारे शक्रसुधर्मे द्रुदेवतानो इंदुदेवतानो राजाआसण



आसणं च लियं पासइत्तां ओहिंपउं जंतिइत्तामल्लिं अरहं ओहिणां आभोएइत्ताइमेयारुवेअब्भत्थि  
 एसमुप्पज्जित्थाएवंखलुजंबूद्धीविइं भारहेवासेमिहिलाए रायाहाणीएकुं भगस्सरस्यो मल्लीअरहाणि  
 कवमिस्सामित्तिसरणं पहारेइ तंजियमेयं तीयपच्चुप्पस्समसागयाणं सक्काणं अरहं ताणं भगवंताणं णिव्व  
 मणेणं इमेयारुवेअत्थसंपयाणं इलइत्तएतं जहातिखे वयकोडिसया अट्टावीसंचहो तिकोडीओअसि

चल्योहाल्ये देखे देखीनें देखीनें सौधमें द्रअवधिज्ञानप्रतें प्रयुं जे प्रयुं जीनें मल्लीकुमरी अरिहंतपुतें अवधिज्ञाने करी जोइ देखे देखीनें  
 इमएहवोपोतानाआत्माने विषे रच्छो एहवोमनमाहि संकल्पजपजे इमखलुनिचे जंबूद्धीपनामाहीपने विषे भरतचेलने विषे मिथि  
 लानामाराजधानीनगरीने विषे कुं भराजानीपुलीमल्लीकुमरी अरिहंतस्वामी संसारमां हिथीनीसरीदिच्चालेवानोमनकरेछे तेकार  
 णथक्रीजीतआचारछे अतीतपूर्वे हआपृत्य तन्नवर्तनानकाले वर्तताअनागतआग, मीकाले होखे एहवाजेथक्रसुधमें द्रतेहानोएआ  
 चारछे जे अरिहंत भगवंतसंपूर्ण ज्ञानवंते दीच्चालेवानाअवसरने विषे एहवीएतलीअर्थद्रव्यनीसंपदादेवाभणी सगलासुधमे द्रनोआ

यंचसयसहस्साइं दारुणदलयंतिअरहाणं१ एवंसंपेहेइरत्ता विसमणंदिवंसद्दवेइरत्ता एवंखलुदेवाणु  
 प्पियाजंबूहीविइभारहेवासे जावअसीइं चसयसहस्साइं दलइत्तए तंगच्छहणंदेवाणुप्पियाजंबूही  
 वेइभारहेवासेमिहिलाएरायहाणीए कुं भगस्सभवणंसि इमेयाखुवे अत्थसंपयाणंसाहराहिखिप्पा

चारुहे तेकेतलोतेकहेछे त्रिणसयकोडिसोनानी जपरअठयासीकोडिउइइं सोनानी जपरवलीअस्सीलाखसोनइयाएतले सोनानोदा  
 नआपे दीये अरिहंतभणी१ इमइं द्रुचौतवे चौतवीने सुधमं द्रुवैअमणकुवेरदेवताधनदनामाइं द्रुनोभंडारीदेवतातेप्रुते तेडावे तेडा  
 वीने इमनिचे हेदेवानुप्रियहेकुवेरदेव जंबूद्वीपनामाद्वीपने विषे भरतक्षेत्रने विषे जेतीयंकरदीक्षालीये तेहभणी त्रिणसे को डि  
 जपरवलीअथासीकोडिवली जपरअस्सीलाखएतले सोनोदेवाभणीकल्पे तंतेकारणयकीगच्छहजाओ तुम्हेहेदेवानुप्रियजंबूद्वीपना  
 माद्वीपमाहे भरतक्षेत्रने विषे मिथिलाराजधानीनगरीने विषे कुंभराजानाभवनघरने विषे एतलाप्रुमाणअर्थद्रव्यनीसंपदासाहरो  
 घरभरो क्षिप्रुमेवउतावलीजमाहरीएआज्ञाकरीने पाछीखूंपोसुभने इमसुधमं द्रुं कक्षो तिवारपछीतेवेअमणकुवेरदेवता अकसुध

मेव एयमाणत्तियं पञ्चपिण्यणिह तएणं सेवेसमणे देवेसक्के णं देवि देणं देवरणे णं एवं बुत्तेसममाणे हइ तु डुके कर  
 यलजावपडिसुणे इत्ता जंभए देवेसद्दा विइत्ता एवं वयासी गच्छहणं तुभमे देवाणुप्पियाजंबू द्वीवं  
 भारहं वासं मिहिलं रायहाणिं कुं भगस्सरणे भवणं सित्तिस्सिक्कोडिसया अट्टासी इं चकोडिओ असिइं  
 चसयसहस्सांइं अयमेयाखुवं अत्थसंपयाणं साहर ममएयमाणत्तियं पञ्चपिण्यणह तएणं तीजं भगा

मं देवताना इंद्रे देवताने राजा इ इमकच्छो छतो हर्षसंतोषपास्यो छतो करतलवे हाथजोडी करीमायाने विषे अंजली करी तहत्तिक  
 री अंगीकार करे धनदजृभक देवतापृते तेडावे तेडावीने धनद इणे प्रकारे कहतो छुओ गच्छहजाओ तुम्हे अहो देवावुपियोजंबू द्वी  
 पने विषे भरतक्षेत्रमाहिमिधिलाराजधानी नगरीपृते कुं भराजाना भवनघरने विषे त्रिणसे कोडिसोनानी ऊपरवली अट्टासी  
 कोडिसोनानी वली अस्त्रीलाखसोनइयापूराएतलामान अर्थद्रव्यनी संपदा इंधरभरोधनद देवकहे माहरी एआज्ञाप्रते करीने सुभ  
 ने पाछीसू पोइमधनद देवता इंकह्यो तिवारपच्छीते तिरियजुं भगदेवता वैअमणधनद देवे कस्योतहत्तिकरी अंगीकार करीने तिरिय

देवावेसमणेणंजावसुखे ताउत्तरपुरिच्छिभंसिभागंअवक्कमंतिजावउत्तरवेउव्वियाइं ह्वाइं विउव्वइइ  
 ताताएउक्किइएजाववीइवयमाणेणेवजंबूहीविइभारहेवासेजेणेवमिहिलारायहाणी जेणेवकुं भगस्सर  
 खोभवणेतेणेवउवागच्छइइत्ताकुं भगस्सरखोभवणंसिखिकोडिसयाजावसाहरंतिइत्ता जेणेववेसमणे  
 देवेतेणेवउवागच्छइइत्ताकरयलजावपच्चप्पिण्णंतितएणंसेवेसमणे देवेजेणेवसंक्के देविं देदेवरायातिणेवउ

जुं भगदेवताउत्तरदिशिअनें पूर्वदिशिनाभागविचे एतले ईशानकूणे आवे आवीनें यावतुत्तरवेक्रियरूपमांहिउत्तरप्रधानवेक्रियरू  
 पनीविकुर्वणाकरे विकुर्वीनें तेणीदेवतासंबंधिनीउत्कृष्टीगतिइं करी यावतुमार्गव्यतिक्रमताखूं कताच्छता जिहांजंबू हीपनामाहीप  
 नें विषे जिहांभरतचेतछे जिहांमिथिलाराजधानीछे जिहांकुं भराजानोभवनघरछे तिहांतिरिचजूं भगदेवताआवे आवीनें कुं भरा  
 जानाभवनघरनें विषे तिणसें कोडिवलीअथासीकोडिवली अस्सीलाखपूराएतलाप्रमाणे सोनानी वृष्टिकरे घरमांहिभरें घरभरीनें प  
 छेतिरिचजूं भगदेवता तिहांआवे तिहांआवीनें करतलवेहाथजोडीमार्थे चढावीनें इमकहेजेतुम्हे स्वामीआज्ञादीधीऊं तीते करीनें पा

प्रातराशं प्राभातिकं भोजनकालं यावत्प्रहरद्वयादिकमित्यर्थः बहूणमित्यादिसनाथेभ्यः सस्वामिकेभ्यः अनाथेभ्योरंकेभ्यः पंथियाणांति  
पंथानंनित्यङ्गच्छन्तीतिपंथास्ताएवपांथिकास्तेभ्यः पथियाणांतिपथिगच्छन्तीतिपथिकास्तेभ्यः प्रहितेभ्योवकेनापिक्वचित्प्रेषितेभ्यः इत्य  
र्थःकरोद्याकपालेनचरंतीति कापालिकास्तेभ्यःक्वचित्काओहियाणांति पाठस्तत्रकाचोभारोद्वहनंतस्य कोटीभागःकाचकोटीतयायेच

वागच्छद्दत्ताकारयलजावपच्चप्पितरणं मल्लीअरहाकस्त्राकस्त्रिंजावमागहओपायरासोत्तिबहुणंस  
णाहाणयअणाहाणयपंथियाणयप्रहियाणयकप्पडियाणयएगमेगंहिरसुकोडिअट्टयंत्रणू

छीसूंपुंतिवारपच्छीतेवेअमणधनदेवता जिहंशक्रसुधर्मं द्रुदेवतानोद्द्रुद्धेदेवतानोराजाच्छेतिहंश्रावेतिहंश्रावीने हाथजोडी  
नेंकेहेजेतुमेंआज्ञादीधीऊंतीतेकरीछेहिवेतुमनेपाच्छीसूंपुंतिवारपच्छीमस्त्रिनाथअरिहंतदिनप्रतेंयावत्मगधदेशसंबंधीपा  
यरासीक०प्रातराशेप्रभातकालना भोजनजिमवानाकालतांद्देएतलेपहिवादेप्रहरतांद्देवेप्रहरतांद्दानअपेंबहुवघणासनाथपोता  
नास्वामीसहितलोकच्छेतेसनाथलोकधणीयातालोकभणी दानदियेअनाथस्वामीधणीरहितअनाथरांक लोकभणीदानदीयेंपंथामा

रंति काचकोटिकासोम्यः कर्पटैश्चरंति कार्पटिकाः कापटिकावाकपटचारिणस्तेभ्यः एगमेगंहत्यामासंति वाचनान्तरिदृश्यते तलहस्तेन  
हिरण्यस्यामर्थः परामर्थोग्रहोहस्तामर्थः तत्परिमाणुं हिरण्यमपिसएवोच्यते अतस्तमेकैकमेकैकस्मै ददातिस्म प्राधिकं चैतत्स्मभाव्यते  
वरवरियाघोसिज्जइ किमिच्छिंयंदिज्जइवज्जविहीयंतिवचनात् अतएवएगाहिरस्सकोडीत्याद्यपिशक्रार्पितहिरण्यदान प्रमाणमेवयतो  
ऽन्यदपिस्वकीयधनधान्यादिगतदानं संभवतीतितत्यतत्यत्तिअवांतरपुरादौदेशेदेशेऽङ्गाटकादौतद्धितं तलतलमहापथपथादीनां

णाइ'सयसहस्साइ' इमेयारुवं अत्यसंपयाणंदलयइतएणंकुं भएरायामिहिलाएरायहाणीएतत्यइतहिंइ

गंप्रते'निरंतरसदाजाइच्छं वाटे'जातांआवीमागे'तेपंधिकलोकभणी पथिमार्गने'विषेजाइच्छंतेपंधिक अथवापहियक्र०केणेककिहांदे  
प्रहितमोकल्याजे लोकतेभणीदानअपे कपाले'करीचरे'आचरे'जोगीसन्यासीप्रमुख लोकतेभणीअपेतथाकापडीकपटचारी तथाअ  
नेराइ'भारवाहकलोकप्रते'अपे प्रभातयकीमांडीने' मगधदेशनाभोजनवेला प्रथमपहिलावेपोहरतांइ'एकेकादिवसनेविषे' एकेकको  
डिएककोडिसोनेइयानीअने'ऊपरअन्यनपूरा आठलाखपूराएतलोदानअपे' दिनदिनप्रते'एकम्हठीमांहे' आवे'तेतलुंजएकभणी

भागेभागेअतिबहुपुस्थानेष्विति तात्पर्यार्थमिति महानसशालारसवती गृह्याणि दिक्षु भयन्त वेद्यणत्तिदत्तं वितीर्णं श्रुतभक्तलक्षणं द्रव्यभो

देसेरबहुश्रीमहाणससालाश्रोकरेद्रुतत्थणंबहवेमणुयादिषु भद्रभक्तवेद्यणाविपुलं अरण्यं ४ उवक्वडिंतिजे  
जहाआगच्छंति तंपंथियावापहियावाकरोडियावाकप्रडियावा पासंडत्यावातस्यतहा आसत्यस्यवीस

अपि तीर्थं करदेवनाहायनोदानभव्यजीवहुद्रतेलीये सोनईयानी एककोडिजपरआठलाखपूरा एतलाप्रमाणदिनप्रते वरसदि  
वसताईमस्त्रिनाथअर्थनीसंपदादीये आपे तिवारपछीवलीतिकुं भराजा मिथिलाराजधानीनगरीने विषे तत्परक० अवांतरवीजा  
पुरादिकाने विषे देशेक० त्रिखूणादिमार्गीदिकने विषे तिहांतिहांसोटाराजमार्गीदिकानाभाग भागने विषे अतिघणायानकाने विषे  
महानसालाक० रसवतीभोजननीपजाविवानी शालाकरेशत्रूकारमंडावे तिहांशत्रूकारने विषे बहूघणामनुजलोकदिन्नदत्तदीधो  
श्रुतिभातलक्षणद्रव्यभोजनस्वरूप चेतन्यमूल्यजेभणीतेमनुष्यलोकअपेच्छे भरीअन्ननोमूल्यएतले धानवेचालेई विपुलघणोअन्नपाणी  
खादिमखादिमन्थारप्रकारना आहारप्रते नीपजावे रंधावे रसवतीनीपजावे सेवकपुरुषपेच्छे जिमजेअवेच्छेतेकेहाकेहातेअनुक्रमेक

जनस्वरूपं वेतनं च्छल्यं येभ्यस्ते तत्रापसं डत्यत्तिलिङ्गिनः सव्वकामगुणियन्ति सर्वे कामगुणा अभिलषणीयपर्यायाः रूपरसगंधस्पर्शलज्जाणाः सन्ति सञ्जाता वायवतत्वर्वकामगुणिकं सर्वकामगुणितत्त्वाकः किमी सुतीत्येवमिच्छानुसारेण यद्दीयते तत्किमी श्रितं वज्जभ्यः अभरणेभ्यः सनाथेभ्य इत्यादि पूर्ववत्सूरासूरीयन्ति वाचनान्तरे दृश्यते तत्र भोजनेऽयञ्चसूरो भंक्ता च यथेष्टमित्येवयापरिवेषणक्रियासाम्भूरिकापु

त्यस्सयसुहासणवर्गयस्सतं विपुलं असण्ठपरिभा एमाणापरिवेसेमाणा विहरं तित एणं मिहिला एरायहा  
गौ एसिं भ्राडगतिगवज्जजणो अण्णमस्यस्सेवमाइक्खं ति एवं खलु देवाणुप्पियाकुं भगस्सरखो भवणं सि सव्वकाम

हेच्छेपंथमार्गप्रते' सदानिरतरचालेच्छेते लोक पथिमार्गने' विषेचालेच्छेअथवाकेणेककोइएकलेवानिमित्त मोकल्याच्छेकरोटिकाकपाले' करीचालेच्छे तथाकापडीकपटं करीचाले' कपटचारी पाखंडीविषधारी गृहस्थतेहने' स्वस्थकारी वीसामो देईने' वरप्रधानभलासुखासन सुखकारी आसनजपरवेसारीने' तेविपुलघणोअन्नपांणीखादिमखादिम च्यारप्रकारनोआहारतेप्रते' परिभागविहचीआपतच्छता परीसताच्छताविचरेच्छे रहेच्छेतेकुं भराजानासेवक तिवारे' मिथिलानामाराजधानीनगरीने' विषे' सिंघोडाफलने' आकारविबुधामार्ग



टापुटिकादीनामिवावसमासः तयाम्पूरिकायात्तीयार्थे च हस्तुत्वनिर्देशे द्वितीयाद्रष्टव्येति वरविरियागाहावरस्येष्टार्थस्य वरगुणग्रहणं  
वरविरिकावरं वरणुतेत्येवं संशब्दसम्बरविरिकेति भावः सुरासुरैर्देवदानवनेन्द्रे च महितायेति तथा तेषां सारस्वयगाहासारस्वताः ।

गुणियं किमिच्छियं विउलं असंख्यं स मणाय जावपरिविसज्जइवरविरियाधोसिज्जइकिमिच्छियं  
दिज्ज एव इविहोयं सुरअसुरदेवदाणवणरिंदमहिद्याणणिकवमणेत्तएणं मल्लीअरहासंवच्छेरेणंतिस्सिक्को

यावत् मोटाराजमार्गने विषे रक्षाकृता घणालोकाअन्योन्यमाहोमाहिजथोकडेर एकठामिलीने एणं प्रकारे कहेच्छेइणे खलुनिच्चं अ  
हो देवानुप्रियो कुं भराजाना भवनघरने विषे सव्वकामगुणियकं सगलाकामगुणा वांछ्यापदार्थनापर्यायरूपरसंगंधफरिसलच्चणच्छे  
जे हने विषे ते सर्वकामगुणितकहीये कुणस्युं इच्छेच्छे एहवीइच्छाने असुरे करी जेदीजीयेच्छे घणाप्रकारनोदान सुरवेमानिकदेव  
ताअसुरभवनपतीज्योतिषी देवता दाणवयं तरदेवतानरे दानरे द्रव्यकवर्त्तिप्रमुखराजातिणे करी महितपूज्याच्छे तीर्थं कर देवतिहांना  
दीक्षालेवानाअवसरने विषे दानआपीयेच्छे तिवारे मल्लीअरिहंतवरसदिवसे करी त्रिणकोडिसे वलीअपरअद्यासीकोडिऊइ वली

डिसया अद्वासीद् च होतिकाडो अत्रो असौद् च सयसहस्साद् इमेयारूवं अत्यसंप्रयोगं दलद्रुताणिक्वमामि  
 माणंप्रधारितितेणं कालिणं तेणं समणं लो गंति या देवावं भलो एकप्रेरि ड्के विमाणपत्थडे स एहिं र्विमाराणे हिं  
 स एहिं प्रासायवडिस एहिं पत्तेयं च उहिं सामाणियसाहसि हिं ति स्थिपरिसाहिं सत्तहिं अणि एहिं सत्त  
 एहिं अणियाहि वई हिं सोलसहिं आथरक्व देवसाहस्सीहि अखे हि यवड्कहिं लो गंति एहिं देवे हिं सद्धिं

जपरअस्वीलाखएतलामानप्रमाणअर्थद्रव्यनीसंपदा देइने सुधमे द्रे अपाव्योड्कते सोनानादाननोप्रमाणमानतेहि जतेतलोदाननो  
 प्रमाणदीधो देइने दीक्षाले उच्छं एहवो मनकरे मस्त्रिनाथतिवारे तेकालने विषे तेसमयने विषे नवलोकानिक देवतापांचमात्रह्यनामा  
 देवलोकने विषे लीजापाथडाने विषे कृष्णराजी विमानच्छे ते कृष्णराजी नारिष्ठनामा लीजापाथडाने विषे पोताना अपाप्रपणा  
 विमानप्रासादावतंसकविमानमां हिरह्याकृता प्रत्ये कजजूअचारहजारसामानिक देवतासंघाते त्रिणपरिषदासंघाते सातकटक  
 संघाते सातकटकना अधिपति ठाकुरस्वामी तिहांसंघाते सोलहजारआलरचक देवतासंघाते तथाअनेराबीजाघणालोकांतिक देव

आदित्यारवक्रयोश्चक्रुणाश्च४ गर्ह तोयाश्च५ तुषिता० अत्रव्यावाधा० आग्नेयाश्चेत्यष्टौ कृष्णराज्यावकाशांतरस्य विमानाटकवासिनोरि

संपरिबुडामहयाहयणइगौयवर्द्धय जावरवेणंभुं जमाणाविहरंतितंजहासारस्वय१ साइच्चा२ वरुहौ  
इवारुणाय४ गर्हतोयाय५ तुसियाय६ अत्रव्वावाहा० अग्निच्चाटचेवरिड्वाय८ गाहा१ तएणंतेसिलोगंति  
याणं देवाणंपत्तेयं२ आसणाइं चर्लंतितहेवजावअहंतांशंणिक्वममाणंसेबो हणंकरित्तएत्तितंगच्छा

तासंघाते भलीपरं परिवक्ष्याच्छता घणेमोटे शब्दे करी हयानाटिकगीतवाजिनने शब्दे करी देवतासंबंधीयाभोगभोगवताछताविच  
रे'छे'तेकहेछेसारस्वतलोकांतिकदेवता१ आदित्यनामा लोकांतिकर वरुहोनामालोकांतिक३ वरुणनामालोकांतिकदेवता४ गर्ह तोय  
नामालोकांतिकदेवता५ तुषितानामालोकांतिकदेवता६ अत्रव्यावाधानामालोकांतिकदेवता० आग्नेयानामालोकांतिकदेवता८ चव  
निश्चे'रिष्टानामालोकांतिकदेवता८ तिवारे'तेनवलोकांतिकदेवताना प्रत्येकजुदाजुदाआसनचले'हल्ले' तिवारे'अवधिज्ञानप्रयुंजी  
मस्तिनाथअरिहंतनोदीप्त्तिलेवानाअवसरजांणीने संबोधनप्रतिबोधवाप्रते'करिवाभणीआचरे'छे' तंतेकारणथकीजावांअम्हेपि

मोणं अरुहे विमल्लिख अरुह आसंबो हणं करे मित्तिकट्टु, एवं संपे हेइइत्ता उत्तरपुरच्छिमंदि सीभागं विउ  
व्वियससुग्घाणं समोहणंति संखेज्जाइ जोयणाइं एवं जहाजं भगाजावजेणेव मिहिलारायहाणी  
जेणेवकुं भगस्सरसो भवणेजेणेवमल्ली अरुहातेणेवउवागच्छइत्ता अंतलिक्खपडिवस्सासिखिखणि  
याइं जाववत्थाइं पवरपरिहिया करयलताहिं इट्ठाहिं जाव एवं वयासी बुउभाहिं भगवं लो गणाहा

यमस्सिनाथ अरिहंतनें संबोधनकरं इमकहीनें इणं प्रकारं चीतवे चीतवीनें नवलोकातिकदेवताउत्तरअनें पूर्वदिशिनभागे एतले  
ईशानकूणप्रते जइनें वैक्रियससुद्धाते करीसोलजातिनारत्तनापुत्तललेइनें वैक्रियथरीरकरीसंख्यातायोजनां प्रतें सुं कताकृताइमजिम  
तिरियजुं भकदेवताआव्याकें कल्पसूत्रमध्येतिमआवे यावत्तु जिहांमिथिलाराजधानीकें जिहांकुं भराजानो भवनघरकें जिहांमस्सिना  
थअरिहंतकें तिहांआवे तिहांआवीनें आकाशनें विषे रच्छाकृतापणेघूघरीपहिरीकें तेधमधमथब्दकरताकृतायावत्तुत्तमप्रधानआभ  
रणशृंगारअलंकारप्रधानवस्त्रपद्दियाकृतावेहाथजोडीनें तेहवीइष्टवस्त्रभवांणीयकरीइमकहताइअबुभिर हेमगवन्हेलोकनाथेतुं

पवत्तेहिधम्मतिथ्यं जीवाणंहियसुहंणिस्सेयसकरं चभविस्सइत्तिकट्टु, दोच्चंपितच्चंपिएवंवयंतिमस्सिअ  
रहंवट्टइणंसइत्ताजामेवदिसिंप्राउभूयातामेवदिसिंपडिगयातएणंसल्ली अरहातिहिंलोगंतिएहिं  
देवेहिंसंबोहिहएसमाणे जेणेव अस्मापियरोतेणेवउवागच्छइत्ता करयलइच्छामिणंअम्मयाओतुम्भे  
हिंअभ्भणुस्साएसमाणेसुं डेभविताजावप्रव्वित्तएअहासुहं देवाणुप्पियामा पडिवंधंकरे हतएणंकुं भए  
रायाकोडुं वियपुरिसेसइत्ता एवंवयासोखिप्पामेवअट्टसहस्सजावभोसेज्जाणंतिअस्सुंचमहत्थं

प्रयत्तीविधर्मतीर्थप्रते' जेधर्मतीर्थकेहवोच्छे' जीवाणंभव्यजीवाने' हितकारीसुखकारीतथानिःश्रेयसकारीमोक्षमार्गनोकरणहारहोस्ये'  
इमकहीने' वेवार' त्रिणवार' इमकहे' नवलोकांतिकदेवताकहीने' मल्लीअरी' हंतकुंव' दनाकरे' नमस्कारकरे' करीने' जि' सदि' सथी' आ' व्या' ऊ' ता  
ति' णि' ज' दि' सी' पा' छ' ग' या' ति' व' अ' र' प' छी' म' स्सी' कु' म' री' अ' रि' हं' त' ते' णे' लो' कां' ति' क' दे' व' ता' इ' प्र' ति' बो' ध' दी' धो' छ' तो' जि' हां' मा' ता' पि' ता' छे' ति' हां' आ' वे' ति  
हां' आ' वी' ने' वे' हा' थ' जो' डी' करी' ने' ऊ' वां' कुं' छुं' अ' हो' मा' ता' पि' ता' ओ' तु' ग्हा' री' आ' चा' दी' धी' छ' ती' मुं' ड' थ' इ' ने' या' व' त्' दी' चा' ले' वा' भ' णी' वां' कुं' छुं' इ' म' क' ह्यो

जावतिथ्यराभिसेयं लवङ्गावित्तिणकालेण तैणंसमएणं चमरेअसुरिंदेजावअच्युपज्जवसाणाआ  
 गथातएणंसेसक्केआभिओगिणदेवेसद्दविद्दत्ता एवंवथासौखिप्पामेवअद्दसहस्ससेवखियाणंकलसा  
 णंजावअस्सं चतंविउलंउवड्डवेह जावउवड्डवेइतेविकलसातं चैवकलसेअणुप्पविट्ठा तएणंसेसक्केदेविं..

तिवारे'मातापिताकहे'यथासुखंजिमसुखुद्धहे'हे देवानुप्रियेइहंप्रतिबंधतुमकरितिवारे'कुंभराजाकौटं विकअदेशकारीपुरुषाप्रतेते  
 डावे'तेडावीने'इमकहतोह्मओच्चिप्रमेवउतावखाएकहजारआठसोनानाकलसएकहजारआठरूपानाकलसकुंभइसत्तावानाकलसमा  
 टीनाकलसइत्यादिआठप्रकारनाकलसभाणोह्म'कोवलीअनेवीजोसहत्थंमोटोतीर्थकरेनेअभिषेककरवानिमित्तंथापोतेतिमजकरीथापे  
 तेकालेनेविषेतेसमयेनेविषेचमरे'द्रअसुरनिकायना देवतानोइ'द्रचमरे'द्रआदिदेइयावत्सु धर्मे'द्रअच्युते'द्रलंगेसगलाचोसठे'द्रआव्याओ  
 मल्लीकुमरीनोदीच्यामहोत्वकरिवाभणीतिवारे'तेशकसुधर्मे'द्रआभियोगीअदेशकारीदेवताप्रतेतेडावे'तेडावीने'इणंप्रकारेकहतोउ  
 ओच्चिप्रउतावलाजतुह्मे'एकहजारअने'आठसोनानाकलसइमरूपानावांवानामाटीनाइसआठप्रकारना कलसएकहजारअने'आठ

देदेवरायामल्लिं अरहंसीहासणंसि पुरच्छाभिसुहंणिवेसेद् अट्टसहस्रेणसोवस्थियाणं कलसाणंजा  
वअभिसिंचित्तिएणंसल्लिसभगवओ अभिसेयंवट्टमाणे अप्पे गट्टयादेवा मिहिलंच सग्भिंतरवा  
हिरियंजावसब्बओ समंतासंपरिधावंति तएणसेकुंभएराया दोच्चंपिउत्तरावक्कभणं जावसब्बालं

कलससगलाद्दं मिलीआठहजारअनें ऊपरचोसठकलसजांणिवातेकलसांप्रतें वलीअनेरोपिणषणुंआणीनें थापोसज्जकरोद्दमद्दं द्रे  
कत्थोपेक्कें तेआभियोगीदेवतातेदेवतानाकलसआठसहअअनें ६४ तेहिजचेवनिच्चैसहितकुंभराजानाकलसामांहिपट्टातिमकरीयापे  
सूंकेंतिवारे तेयकसोधसें द्रदेवतानोद्दं देवतानोद्दं देवतानोराजामल्लीकुमरीअरिहंतप्रतें सींहासननें विषेपूर्वदिशिसन्मुखवेसारें एकहजार  
अनें आठसोनानाकलसआदिदेईआठहजारअनें चोसठिकलसेकरीतीर्थनें पांणीद्दं करीयावत्तअभिषेककरेसींचैतिवारे मल्लीकुमरी  
भगवंतनोअभिषेकप्रतेवत्ताच्छताकेतवाएकदेवतामिथिलानगरीमांहिगढमांहिलोअनें गढवाहिरलोकचरोकाठेकेतलाएकदेवताभू  
मिच्छांटेकेतलाद्दकफूलनीट्टिकरें यावत्केतवाएकदेवतासब्बओसगलीदिशिनें विषे समंतासगलीदिशिनें विषे अरहापरहाधाद्दके दो

कारविभूसिचंकरेद्रुता कोडु विचयुरिसेसहावेद्रुताएवंवयासीखिप्यामेवभो देवाणुप्यिथामणोरमंसी  
 यंचवद्ववेहतेवितहेवउवद्ववे तितएणंसक्के देविंदेवरायाआभिओगेदेवेखिप्यामेवअणेगखंभजावसीयंचव  
 द्ववेहजावतेविसीयांतंचेवसीयंअणुअविडातएणंसक्कीअरहा सीहासणाओअभुदु इद्रुताजेणेवमणोरमा

उच्छंतिवारपच्छीतेकुंभराजा बीजीवारउत्तरदिशिजईस्नानकरावेपेच्छं मस्यौकुमरीअरिहंतप्रते सगलाआभरणपहिरावीअलंकार  
 पहिरावीसोभायमानकरे करीने कौट विकसेवकपुरपांप्रते तेडावे तेडावीने इणं प्रकारं कहतोडुओ चिप्रमेवउतावलाजतुहे भो  
 देवानुप्रियोमनोरमानामा शिविकापालखीप्रते सज्जकरीने थापोलावोइमराजाइकह्योतेसेवक तिमजमनोरमापालखीसज्जकरी  
 आणीनेथापे तिवारपच्छीशकसुधमे इद्रुदेवतानो राजाअभिओगीसेवकदेवताप्रते तेडावेतेडावीने इमकहतोडुओचिप्रमे  
 वउतावलाजतुहेअहोदेवानुप्रियोअनेकवषायांभानासहस्ररतनेकारिजडितघणाशृंगारसहितएहवीपालखीप्रतेविकुर्वीनेआणीनेथा  
 पोयावत्तेआभिवोगीदेवतापालखीसज्जकरेसज्जकरीने आणेआणीनेथापे तेदेवतासंबंधीपालखीमनोरमातेमाहिपेठीकुंभराजा



सीया तेणवउवागच्छइत्तामणोरमंसीयंदुरुहइत्तासीहासणवरगणपुरच्छाभिमुहेसस्त्रिसणेतएणं  
कुंभएरायाअट्टारसेणिअसेणीओसहावेइत्ताएवंवयासीतुम्हेणंदेवाणुपिथाएहायाकयवलिकम्माजावस  
ब्बालंकारविभूसियामस्त्रिस्वसीयंपरिवहहजावपरिवहंति तएणंसक्केदेविंदेवरायामणोरसाएदकिवणि

नीकरावीतेभणी प्रथमदेवताउपाडे तिवारपक्खीमक्खीकुमरी अरिहंतसिंहासनयक्कीजठंजठीने जिह्मनोर मापालचीछंतिहा  
आवेतिहांआवीने मनोरमापालखीप्रते चठेचठीने सिंहासनऊपरपूर्वदिशिसन्मुखपूर्वदिशिसासुहोभलीपरं वेठीतिवारपक्खीकु  
भराजाअट्टारअणिकुंभारलोहारप्रमुख अट्टारअणिप्रते तेडावेतेडावीने इमकहतोहओतुम्हे अहोदेवानुप्रियस्तानकरिअंधो  
लीनेपरमपवित्थईने भलावस्वपहिरी सगलाआभरणअलंकारपहिरी अलंकयासोभायमानछतामक्खीनीपालखीप्रते उपाडो  
इमराजाइआजादीधा पक्खीजेतलेतेपालखीप्रते हाथदेइवहेउपाडे तिवारेतत्काले जयक्रसोधमेद्रदेवतानोइद्रदेवतानोराजा  
मनोरमापालखीनीदक्षिणाजीमणापासानी ऊपरलीवाहांप्रतेग्रहेलीयेउपाडे ईशानेद्रमनोरमापालखीनीडावापासानीऊप

एाचेतिरिटाख्यविमानप्रसूटवासिनः क्वचिद्दशविधाएतेव्याख्यायन्ते अस्माभिसुस्थानागानुसारेणैव सहिभिहितान्द्रुमकुवेहिति  
रोमांचितैःचलचवलकुं डलधरत्ति चलाचतेचपलकुं डलधराश्चेतिविग्रहः सच्छंदविउव्वियाभरणधारित्तिसखच्छन्दाश्चेतिविकुर्विताभ

श्लेणंउवरिल्लंवाहंगेएहइईसाणेउत्तरिल्लंरवाहंगेएहइचमरेदाहिणिश्लंउवरिल्लंहेड्डिल्लंवलीउत्तरिल्लंअथ  
सेसादेवानहारिहंसणोरमंपरिवहइपुव्विउखित्तामाणुसेहिसाहइरोमकुवेहंपच्छावहंतिसीयंअसु  
रिंदसुरिंदणागिंदा१ चलचवलकुं डलधरासच्छंदवेउव्वियाभरणधारीदेविंददाणविंदावहंतिसीयं

रलीवाहांप्रतेग्रहेउपाडे चमरेद्रुमनोरमापालखीनी जिमणापासानीवाहेठिलीवाहाप्रते उपाडेवखीद्रुमनोरमापालखीनी  
डावापासानीहेठिलीवाहांप्रतेउपाडे अवशेषवीजासगलादेवता यथावीग्यजिमयोग्यऊइंतिममनोरमा पाखखीप्रतेवहेउपाडे  
गाथापुव्विंप्रथमपहिला मनुष्येउपाडीसातेपालखीपळे तत्कालदेवताउपाडेपालखीए देवताएदेवतानीथित्ते तेदेवताक्मिवहे  
तेकहेछेधगुंहषं करीरोमाचितययाळेपळेवहेउपाडे शिविकाप्रतेअसुरेद्रुचमरेद्रुसुरेद्रुसौधमेद्रुप्रसुखसंगं

रणधारिणश्च स्वच्छन्दे नवास्वाभिप्रायेण, विकुर्वितान्याभरणानि धारयन्तीतिविग्रहः. जहाजमालिखन्तिभगवत्यांयथाजमालेःनिः  
क्रमणंतयेहवाच्यमिहैव यथाश्लेषकुमारस्य नवरंचामरधारितरुखादिषु शक्रेशानादीन्द्रप्रवेशतद्दृष्टविशेषः आसियञ्चम्बिं तरावासवि

जिण्डस्वर्गाहातएणंमस्त्रिस्त्ररहोमणोरमंसीयं दुष्टसइमेअदृष्टमंगलगापुरओअहाणुपुक्वीएएवं  
विणिगमोजहाजमालीसतयाणंतरंमस्त्रिस्त्ररहओणिक्वममाणस्त्रप्रगेइथादेवामिहिलंआ

लादेवतापालखीवहे' । तेदेवताकेहवाहे' चलऊताकृताचपलदेदीपमानभलकलताकु' डलनाधरणहारके' बलीतेदेवताकेहवाहे' स  
च्छंदपोताने' छादे'पोताने'अभिप्राये'करी'किकुर्व्या'किंआभरणतेप्रतेशरेकेपंहरके' एहवादेवे'द्रसोधमे'द्रादिदानवे'द्रभवनपतिनाइ'  
द्रवहे'उपाडे' शिविकापालखीजिनेद्रदेवनीतेप्रते' रएवेगाथाजांणवीतिवारपछीमस्त्रीअरिहंतने' मनोरमाशिविकापालखीप्रते'चढी  
कारिने'इमेएप्रत्यचआठमंगलआलेख्याके' तेआठमंगलीकपुरतः आगलियकीअहादुपबींद्र'अनुक्रमे' केडाकेडिंद्र'चाले' एधितिके'  
इणे'प्रकारे'निगमसरिखीआलावोके' भगवतीसूत्रने'विषे'जिमजमालीनो निःक्रमणनीसरवोदीक्षानो उत्सवकच्चोके' तिमकहिबो

हिगावा इति अयेगइया देवामिहिलं रायहाशिं अविं तरवाहिरियं संमज्जियसंमइसुइरत्यंतरावणवीहि यं करेति अयेगइया देवामं  
 चाइसं चकलियं करेतीत्यादिमेघकुमार निःक्रमणोक्तनगरवर्णकस्य तथा अये गइया देवाहिरसएवं सुवसुवसुवासंवांसिंसु एवं रयणव  
 यरपुष्पमसुचुसुआभरणवासंवांसिंसु इत्यादेर्वर्षसहस्रस्य तथा अये गइया देवाहिरसुविहिभाइसु एवं सुवसुवसुचुसुविहिभाइसु इत्या  
 दिविधिससूहस्य तीर्थजन्माभिषेकोक्तस्य संग्रहार्थं याः क्वचित् गाथाः सन्ति ता अनुश्रित्य सूत्रमध्ये यं यावदये गइया देवा आधावतिप

सिय अभिभंतरवासंविहिगाहाजावपरिधावंतितरणंमल्ली अरहाजिणेवसहस्रं ववणेउज्जाणेजेणेव

परं इहां एतलो विशेषेच्छे' दीक्षालेवानो समयेच्छे' इहां मल्ली अरिहंतनो निःक्रमणतेभणी मल्ली अरिसंतनो नामकहिबो तथाजमालीमेघ  
 कुमारप्रसुखानादीक्षालेवाना अवसरने' विषे' पालखीमध्ये चामरधारीतरुणीस्त्री आदिकपासे' वैसेच्छेतिमइहां नही' इहां सौधमे' इइ  
 यानादिइ' इप्रवेशकरे' चामरधारीवेसे' केतलाएकदेवता मिथिलानगरीप्रते' पूजीप्रमार्जीपांणी' इ' कांटे' ठामिठामिफूलनीवटिकरे'  
 नगरीने' मांहिले' भागे' इमयावत्केतलाएकदेवता अरहापरहाजाइच्छे' आवेच्छेतिवारपक्कीमल्ली अरिहंतजिहांसहस्रां वनामा उद्यानके'

असोगवरपायवेतेखेवउवागच्छइइत्ता सीयाओपञ्चोरुहंतिइत्तास०त०आभरणांलंकारंप्रभावईपडि  
 च्छइतएणंमल्लीअरहासयमेवंपंचमुद्वियंलयंकरेइइत्तातएणंसक्केदेविदेदेवरयामल्लिख अरहओकेसे  
 पडिच्छइखीरोदगसमुद्देपक्खिवइतएणंमल्लीअरहाणमोत्थुणंसिद्धाणंतिअइह, सामाद्रयंचारित्तंपडिव  
 ज्जइजंसमयंचणंमल्लीअरिहाचारित्तंपडिवज्जइइत्ता तंसमयंचणंदेवाणुमाणुसाणयणिरघोसेसुडिय

जिहांअशोकवरपादपहच्छेतिहांआवेतिहाअवीनें मनोरमापालवीथकीकतरैकतरिनें पोतें आभरणअलंकारउत्तारैतिवारप  
 क्रिआभरणअलंकारप्रतें प्रभावतीमाताखोलासांहिग्रहे' लीयंतिवारपछीमल्लीअरिहंतपोतेंजपोतानीमेले' पांचमू' डीलोचप्रतें करे' क  
 रीनेंतिवारै' शक्रसोधर्म' इइवतानोइ' इदेवतानोराजा मल्लीअरिहंतभगवंतनाकेशवालप्रते' ग्रहे' लीये' पछे' लीरससुद्रमंहितेके  
 शप्रत्तेपे' धाले' नांछे' तिवारै' तेलोचकस्यांपछीमल्लीअरिहंत नमस्कारकरे' कुणभणीनमस्कारहोअनंतासिद्धांभणीनमस्कारकरीनें  
 करेमिसामाइयंइत्यादिअसामाथकचारितप्रतें पडिवज्जे' अंगीकारकरे' उच्चरे' जेणंसमये' मल्लीअरिहंतचारितप्रतें पडिवज्जे' उच्चरे'

रिधावन्तीत्येतदेवासानसित्यर्थः इदं च राजप्रकृत्यादौ द्रष्टव्यमिति निलकृत्तिनिलुक्कोऽन्तर्हितइत्यर्थः सुदृशस्वएकारसोपकवेर्गातिशु

शिणयिगीयवाइयिणिवोसियसक्कस्वनयणसंदेशेण्णिलुक्के या विहृत्याजंसमयं चणंसक्ती अरहासाभा  
इयचरित्तंप्रडिचखेतंसंमयंचणंसं ह्लिस्वअरहअओमाणुसधम्माओउत्तरिएअणप्रज्जवणणेससुअखे मक्की  
अरहाजेसेहेअंताणंदोअेमासेचउत्थेपकवे पोससुइ तस्सणंपोससुइस्व एकारसोपकवे णंपुव्वण्हकालस

तेणुंसमये देवतानावलीमनुष्यानावोलिवाना निर्वाषयब्दकोलाहलुक्कते छते वलीलुटितवाजिलनानिर्नादशब्दुक्कते तथागीत  
वाजिलनिर्वाषयब्दुक्कते छते यत्तसौधमे द्रुनावचनने सदेशे कहिवे करीसुधमे द्रुं चोहायकरीनिलुक्क  
क० निर्वाषकहे क्खानाराखे सामाथकनोपाठ ऊचरे तिवारे जेसमयनेविषे मक्की सामाथकचारिलपडिवज्योअचखोतेसमयने विषे  
मक्की अरिहंतने मनुष्यनाधर्मथकी दीचालीधापक्कीतत्काल उत्तरप्रधानमनःपर्यवज्ञानचोयोऽजपवोमक्की अरिहंतजेते हेसंतकी भाषा  
मासनोत्रीजोमास चोयोपखवाडोपोषशुदिउज्जुआलोपच्च तेपोससुइपोसनामासनो शुद्धउज्जुआलोपच्च तेहने जइयारसतिथिदि

अप्यस्यया एकादशी तिथिस्तत्र तदेवैणमित्यलङ्कारेनायकुमारति ज्ञाता इच्छा कुवंशविशेषभूताः तेषां कुमाराराज्यार्हाज्ञातकुमारः।

मयंसि अहमेणं भत्तेणं अप्याण एणं अस्मिणी एक्वत्तेणं जोग सुवाग एणं तिहिं इत्थी स एहिं अभिभं तरिया ए  
परिसा एतिहिं पुरसस एहिं बाहिरिया एपरिसा एसद्धिं सुडेम वित्ता प्रव्व इ एमस्मिं अरहं इमे अट्टुणायडु  
मारा अणुप्रव्वयंसि तं जहाणं देयं १ णं दिमित्तेयं २ सुमित्तं वलमित्तं ४ भाणुमौत्तेयपू अमरवई ६ अमरसे

सते दिवशशोपचकः अर्द्धं ते हने विषेणं वाक्यालंकारे पूर्वाङ्गकालसमयपहिलादोषहरनाशमयने विषे अट्टमभक्ततीनउपवासकरीपा  
णीरहितचोविचारकरी अश्विनीनामांनच्चलसंघाते चंद्रमानोवोगअव्यं क्कते त्रिणसे स्त्रीयानि अयंतरमाहिब्रीपरिषदानीएतले  
माहिब्रीपरिषदानीत्रिणसे स्त्रीयांसंघाते त्रिणसे पुंशपनीवाहिरलीपरषदानाएतले त्रिणसे स्त्रीयाने त्रिणसे पुंशपांसंघाते सुड  
यईनेदीचालीधो मल्लीअरिहंतने साधे एअठकुमारदीचालेताळ्ळा तेकेहवाक्केनायकुमाराज्ञाताक इच्छाकुवंशविशेषने विषे  
कपनाजेराजातेहानाकुमारराज्यने योग्यंता तेहनानामकहेक्केनंदनामाकुमार १ नंदिमित्तकुमार २ इमित्तकुमार ३ बलमित्तकु

तस्मै वदिवसस्सुष्वावरणहकालसमयसिद्धिं यत्तदिवसेदीक्षां जग्राह तस्यैवपौषमासशुद्धौ कादयीलक्षणस्य प्रत्यपराह्णकालसमयेपश्चि  
मेभागेद्भ्रमेवावश्यके पूर्वोक्तेमार्गशीर्षे च अयतेयदाहतेवीसाएणाणं उप्पसंजिणवराणपुष्करहत्तितथामगसिरसुद्धएक्कारसीएमस्त्रिस्त्र

णे० महसेणेऽचेवअष्टमए१तएणंतेभवणवद्द४ मस्त्रिस्त्रअरहस्त्रिणक्वमणमहिमंकरे० तिजणेवणं दीस  
रेअट्टाहियंकरेद्द२त्ता मडिगयातएणंमस्त्रिअरहाजं चैव दिवसेपुष्करएतस्सेवयदिवसस्सुष्वावरणहका

मार४भातुमित्तकुमार५ अमरपतिकुमार६अमरसेनकुमार७ महसेनकुमार८चेवनिश्चे एअठकुमारनानामजाणिवा१तिवारपक्खी  
तेवलीभवनपतिव्यंतरज्योतिषीवेमानिकचारनिकायनादेवता मस्त्रिनाथअरिहंतनोनीसरवानोदीक्षानोमहिमाकरे० दीक्षानोमहो  
त्ववकरीने० जिहानं दीसरद्वीपच्छे० तिहाअविआवीने० अट्टाईमहोत्ववकरे० अट्टाईमहोत्ववकरीने० पोताने० ठामे० गयातिवारपक्खीमस्त्रीअरि  
हंतजेदिवसने० विषे० दीक्षाप्रते० लीधीतेहिजपोसमासेने० विषे० उजुआलीइयारसनादिवसनापाच्छिलादोपोहरनासमयएतले० छेहलाभा  
गने० विषे० अशोकवरप्रधानपादपट्टचने० हेठलि पृथवीशिलापट्टने० विषे० भलीपरे० आसनवरप्रधानवेठाच्छताने० मस्त्रीअरिहंतने० शुभम





विशेषग्रहणं सामान्यग्रहणं चेत्यर्थः अट्टाहिवामहिमंति अष्टानामङ्गसमाहारोऽष्टाष्टं तदस्त्रियस्यां महिमायां सामष्टाहिक्राद्दृष्टं च

साणं दीसरेजामेवदिसिंपाउभूया तामेवदिसिंपडिगया कुं भएविणिगच्छद्दस्ता तएणंतेअवससू  
 पामोक्खाछप्पियरायाणो जेड्डुपुत्तेरज्जेड्ढावेत्ता पुरिससहस्रवाहणीओ दुखुढासब्बिड्ढोए जावरवेणं  
 जेणेवमल्लीअरहाजावपज्जुवासंति तएणंमल्लीअरिहातीसिमहद्द महालियाएकुं भस्सरखोतेसिंचञ्चि

हितपणायकीपनिमनाचंद्रमानीपदे' एहवोवरप्रधानकैवलज्ञानदर्शनजपनो तेकालने'विषे'तेसमयने'विषे'सगलाईसुधमे'द्रादि  
 चोसट्टिइ'द्राना आसनसिंहासनचाले'हाले'तिवारे'अवधिज्ञानप्रजंजीतिहां आव्याधर्मदेशनासांभलीने'आठादिवसामोसमाहा  
 रसम्बहतेअष्टाहिककहीये'तेआठदिवसछे'जेमहिमाउत्सवने'विषे'तेअठाहि'महिमानंदीसरह्दीपने'विषे'करे'करीने'जेदिशियकी  
 प्रगटथयाआव्याज्जंता तेणीजदिशिद्रं पाछावलीगया पछे'प्रभातथवापच्छीकुंभराजामिथिलानगरीमाहि'थईने'नीसरे'नीसरीने'  
 आवे'तिवारपच्छीतेजितशत्रुप्रसुच छएमित्तराजानज्येष्टवडापुत्रप्रते'राज्यने'विषे'धापीने'हजारपुरषववाहिनीपालखीएचढ्याछता

यसत्तपामोक्त्वा धर्मपरिकहेद् परिसाजामेवदिसिंपडिगया तामेवदिसिंपडिगया कुंभएरायासम  
 णोवासएजाएपडिगए पभाईयसमणोवासियाजाया पडिगयातएणंजियसत्तपू पामोक्त्वाछप्रियरा  
 याणोधम्मंसोच्चाआलित्तेणंभंतेजावपब्बइयाजावचोइसपुब्बिणेअणंतेजावकेवलिसिद्धातएणंमल्लीअर  
 हासहसंबवणाओउज्जाणाओ पडिणिक्वमइरत्ता बहियाजणवयविहारंविहरेइ मल्लिस्सणंअर

सगलीअद्विइं करी धणेवाजित्तेने शब्दं करी जिहामल्लीनाथअरिहंतके तिहांभावीने भगवंतनीसेवापर्यु पासनासेवाकरे तिवारे  
 मल्लीअरिहंततेमोटीसभापरिषदाने कुंभराजाने वलीतेजितयत्तप्रमुखएराजाने धर्मोपदेशप्रते कहे तेधर्मदेशनासांभलीने प  
 रिषदाजिणदिशियकीआवीकती तेणीजिदिशिंपाच्छीवलीगई तिहांकुंभराजाअमणोपासकआवकथयो यद्दने धरेगयोप्रभावतीपिण  
 आविकार्थईअमणोपासिकार्थईपके धरेगईतिवारपच्छीजितयत्तप्रमुखए मिलराजानधर्मप्रते सांभलीने एसंसारआलिप्तथईरह्यो  
 केहेभगवन् यावत्दीब्बालीधी पके चउदपरवनजांणथया अनंतविषयेनाअनंतपणायको यावत्केवलीथईने सिद्धामोक्षपडुता

हो किं सुयपामोक्त्वा अट्टावीसंगणअट्टावीसंगणहरा होत्या मत्तिसखणं अरहत्रो चत्तालीसं सअणसा  
हस्सीओउक्कोसियाओवंधुमतीपामोक्त्वाओपणपखं अज्जियासाहस्सीओउक्कोसियाअज्जिया होत्या  
सत्तिसखणं अरहत्रोसावयाणं एगासयसाहस्सी ओचुलसौदं चसहस्साओउक्कोसियासावयाणं सं प्रया हो  
त्यामत्तिसखणं अरहत्रोसावियाणं तिस्सियसाहस्सीओपणं चसहस्सासंपया होत्यामत्तिसखणं अरह

तिवारे मत्तिसनाथअरिहंतसहस्सांननामाओद्वानवंनखंडयकीनीकले नीकलीनेवाहिरजनपदकहतां देधमांहे विहारप्रतेकरे मत्तिसना  
थअरिहंतने किं षुकाप्रसुखआदिदेईअट्टावीसरदगच्छवारदगणधरडताऊआमत्तिसनाथअरिहंतने च्यालीसहजारसाधुचारित्रीयां  
नीउत्कृष्टीसंपदाहईवंधुमतीसाधवीप्रसुखपंचावनहजारआर्थिकासाधवीयांनीउत्कृष्टीसाधवीयांनीसंपदाहईमत्तिसनाथअरिहंतनेआ  
वकाग्लखाजपरचोरासी८४हजारउत्कृष्टाआवकहआमत्तिसनाथअरिहंतने आविकातीनइलाखअनेपांसठिईइहजारआविकानीसे  
पदाहतीऊईमत्तिसनाथअरिहंतने छसे चउदपूर्वनाजाणथया वीससे दोहजारअवधिज्ञानीहआवतीससेकेवलज्ञानीहवापांलीससे

व्युत्पत्तिमात्रं प्रवृत्तिस्तुल्यहिमात्मात्रएवेति दिवसस्यमध्येतद्वयंननिश्चयतइति बुविहाश्रंतकडभूमिति अंतकरोभवान्तकरानिर्वी  
 शायानिखेवाभूमिः कालोऽन्तकरभूमिः जयन्तकरभूमिति इहयुगानिकालमानविशेषासानिच क्रमवर्तीनितत्साधस्यार्थिकमव

ओष्टसथा चउदसध्रुव्वीशं वीससथाओहिणाणीं वत्तीससथाकेवलणाणीं प्रणती ससथावेडवि  
 याणंअट्टसथामणप्रज्जवणाणीं चउदससथावाइंणीवीससथाअणुत्त रोषवाइंथाणंमल्लिसणंअरह  
 ओडुविहाश्रंतगडभूमौहोत्था तंजहाजुंगंतकरभूमौ परिथायंतकरभूमौयजाववीसतिमाओपुरिस

वेक्रियलब्धिनाधणीह्रआथाठसे मनःपर्जवज्ञानीह्रआचउदसेवादीह्रआवीससेसाधुअनुत्तरविमानसर्वार्थसिद्धविमानवासीमांहिकप  
 नाएकावतारीजयनामस्तिनाथअरिहंतने वेडं प्रकारेअंतरक० भवसंसारनाअंतनाकरणहारामोक्षनाजाणहारा तेषांनीभूमिक०  
 कालतेअंतरभूमिकहीथे तेषेडं प्रकारेह्रतीह्रइ तेषांवेडेयुगकालमानविशेषतेअनुक्रमवर्तीजे गुरुशिव्यप्रशिष्यादिपुरुषतेयुगकहीथे  
 तेषे गुरुशिव्यप्रशिष्यादिपुरुषेप्रकरीप्रमितप्रमाणनीजेअंतकरभूमिकालतेयुगांतरभूमिकहीथेएपहिलोप्रकारपरियायक० पर्यायमस्तिना

र्त्तिनो गुरुशिष्यप्रशिष्यादिरूपाः पुरुषास्तेपियुगानितैः प्रमितान्तकरभूमिः परियायंतकरभूमौतिपर्यायतीर्थंकरस्यकेवलित्वकालस्त  
मात्रित्यान्तकरभूमिर्थासातथातल जातेत्यादिइहपञ्चमौद्वितीयाथैद्रष्टव्या ततोयावद्विंशतितमंपुरुष एवंयुगंपुरुषयुगंविंशतिशिष्यं  
यावदित्यर्थः युगांतकरभूमिर्मस्त्रिजिनस्याभवत्सस्त्रिजिनादारस्य तत्तीर्थैर्विंशतितमंपुरुषंयावत्साधवःसिद्धास्ततःपरंसिद्धिगमनव्यवच्छे  
दोऽभूदितिहृदयं दुवासपरियाएत्तिद्विवर्षपर्याये केवलिपर्यायापेक्षयाभवतिजिनेसति अंतमकार्षीत्भवांतमकरोत्ततीर्थेसाधुर्नासत्का

जुगाञ्चोजुगंतकरभूमौ दुवासपरियाएत्तिसकासौ सस्त्रीयंअरहापणवीसं धणूणिउड्डुंउच्चत्तेणं

यतीर्थंकरदेवनेंकेवलीपणानोकालतेप्रतेञ्चाञ्चिनेंभवनाअंतकेहनौकरणहारीभूमिक्वेजेतेबीजोभेदवावत्वीसपुरुषयुगवीसपाटतांई  
युगांतरभूमिहृद्मस्त्रिनाथनेंएतलेमस्त्रिनाथमोक्षपहतांयकीञ्चारंभीनें तेमस्त्रिनाथतीर्थनेविषेवीसपाटतांईसाधुसीधातिवारपष्ठी  
सिद्धिजावानामार्गविच्छेदञ्चोदुवासपरियाएकं मस्त्रिनाथनेंकेवलज्ञानऊपनांपष्ठी देवरसनाकेवलीनापर्यायनीअपेक्षायेंकरी  
भगवंतविद्यमानऊतंऊते अंतकरताऊआएतलेमस्त्रिनाथनेंकेवलज्ञानऊपनापष्ठीबीजेवरसें मोक्षमार्गवहितोऊओमस्त्रीनाथञ्च

वखे णंप्रियंगुसमेसमचउरंसंठाणसंठिए वज्जरिसहणारायसंघयणे मज्झदेसेसुहंसुहेणंविहरित्ता  
जेणेवसस्मेयपव्वएतेणेवउवागच्छइत्तासस्मे यसेलसिहरेपाओवगमणपडिवखे मल्लीणंअरहाएगंवा  
ससयंआगारवासमज्जे पणपखवाससहस्साइं वाससयंऊणाइं केवलिपरियागंपाउणित्ता पखपणं  
वाससहस्साइं सव्वाउयंपालइत्ता जेसेगिम्हाणं पढसेमासे दोच्चेपक्खे चेत्तसुइ तसणं चेत्तसुइस्स

रिहंतपचवीसधनुषउंचोउंचपणेकरी देहमानवणे करीप्रियंगुनावरणेसरिखोनीलवणे समचोरंसंस्थाने संस्थित्ते वज्जकषभना  
राचसंघयणत्ते मध्यदेशमाहि सुखे समाधिइं विचरीने जिहासस्मेतपर्वतत्ते तिहाआवे आवीने समेत पर्वतनाशिखरने विषे पादो  
पोपगमनअणसणकीधो मल्लीनाथअरिहंतएकसोवरसटहस्थावासमाहिरह्या पंचावनसहस्रवरसएकसोवरसे ऊणा एतले चउपन्न  
हजारअने नवसे वरसकेवलज्ञाननो पर्यायपालीने पंचावनहजारनुं सगलंआउखोपरिपूर्णपालीने जेतेशीष्कालनोप्रथममासवी  
जोपच्चैत्वमासनोशुद्धउज्जालोपच्च तैत्वमासनाउज्जालापच्चनी चोधीनापच्चदिवसने विषे भरणीनच्चत्वसंघाते चंद्रमानोयोगआ

चिद्दपीतिदुमासपरिणत्तिक्रचित्क्वचिच्चउमासपरियाए इतिदृश्यतेवगधारियपाणिन्तिप्रलं विसभुजंजहाजंबू द्वीवपसृत्तीएत्तीयथा जंबूद्वीपप्रज्ञप्त्यांऋषभस्य निर्वाणमहिमोक्तस्तथेहमस्तिजिनस्य वाच्यद्वत्यर्थःसचैवमर्थतःयत्रसमयेमस्त्रिरहृक्कालगतो व्यतिक्रान्तःसमुद्रवा तःछिन्नजातिजराभरणबंधनःसिद्धः तत्रसमयेयक्रश्चलितासनःसप्रयुक्तावधिज्ञातजिननिर्वाणः सपरिवारःसमेतथैलशिखरेऽवततारत

चउत्थीपक्वेषंभरणीणक्वत्तेणं अइरत्तकालसमथं सिपंचहिंअज्जियासएहिं अभिंतरियाएपरि साएंपंचहिंअणगारसएहिंवाहिरियापरिसाएमासिएणंभत्तेणंअप्राणएणं वग्धारियपाणीखीणेवेय णिज्जे आउएणामगोएसिद्धे एवंपरिणिव्वाणमहिमा भाणियव्वाजहजंबूद्वीवपसृत्तीएणंदीसरेअद्वा

ये छते आधीरातिनाकालसमयने विषे मथरातिनासमयने विषे पांचसयसाधवीयांनीअथंतरिकामांहिली परिषदासंवाते सहि तपांचसयसाधुचारितीयांनीवाहिरली परिषदासहितमासभक्ते मासदिवसनीसलेखणाकरी पाणीरहितचोविहारकरीने वग्धारि यक० प्रलंबतलांवापाणिहाथेके वेदनीयकर्मआधुःकर्मगोत्वकर्मनामकर्म एचारकर्मने क्षयअभावउत्ते छते सिद्धयथासुक्तिपुहता



तोऽसौ विमानानिरानं दोऽशुपूर्णनयनो जिनसरीरकं त्रिःप्रदक्षिणीकृत्य अनतिदूरासन्ने नमस्यन्पथुं पासेस्त्र एवं सर्व्वेषु विवेमानिका  
 द्योदेवजाः ततः शक्रो देवैर्नन्दनवनात् अनायितगोशीर्षेसरस दारुभिर्विहितचितितयः क्षीरसमुद्रादानीतक्षीरोदकेन जिनदेहं स्नाप  
 यामास गोशीर्षे चन्दनेनाबुलिलेप हंसलक्षणसाटकं निवासयामास सर्वालंकारविभूसितं चकार शेषा देवागणधरानगारशरीरकाण्ये  
 वं चक्रुः शक्रस्ततो देवैस्त्रिभुवः शिविकाः कारयामास तत्रैकत्वासौ जिनशरीरमारोपयामास महद्भयं चचितस्थाने नीत्वा चित्तीकायां  
 स्थापयामास शेषा देवागणधरान गारशरीराणि हयोः शिविकयोरारोप्य चित्तयोः स्थापयामासुः ततः शक्रादेशादग्निकुमारा देवास्त्रि  
 सुष्वपि चित्तेष्वग्निकायं विकृते वायुकुमारास्तु वायुकायं शेष देवश्च कालागुरुप्रवरकुं दुरुक्ततुरुक्कधूपान् द्रुतमधुचक्रुः भाग्यशः प्रचिच्चिपुः  
 ततो मांसादिषु दग्धेषु मेघकुमारा देवाः क्षीरोदकेन चित्तीर्निर्वापयामासुः ततः शक्रो भगवतो दक्षिणमुपरितनं अस्थिजग्राह ईशानश्च वा  
 मं चमरोऽधखानंदक्षिणं बलिर्वामं शेषायथाहं मंगोपांगानि गृह्णीतवन्तः ततस्तीर्थंकरादिचित्तिचित्तिषु महासू पान् चक्रुः परिनिरवाण  
 महिमानं च ततः शक्रो नदीश्वरे गत्वा पूर्वस्त्रिन्नं जनकपर्वते जिनायतनमहिमानं चकारः तस्त्रो कपालास्तु चत्वारश्चतुर्षु पूर्वां जनपाश्व  
 र्त्तिषु दधिसुखपर्वतेषु सिद्धायतनमहिमानं चक्रु रेवमीशान उत्तरस्त्रिं सत्त्रो कपालास्त्याश्वर्त्तिदधिसुखेषु चमरो दक्षिणं जनकेत

स्रोकपालैस्त्रयैवयलिःपश्चिमे' जनकेतस्त्रोकपालास्तथैव ततःशक्रःस्वकीयेविमानेगत्वा सुधर्मसभासध्यव्यवस्थितमाणवकाभिधानस्तंभव  
त्तिष्ठत्तसमुद्रकानधतीयेसिंहासनेनिवेश्य तन्मध्यवर्त्ति जिनअस्थिन्यपुजन्मस्त्रिजिनअस्थिच प्राक्षिपदेवसर्वेदेवाइति एवमित्यादिनि  
गमनमिहचज्ञाते यद्यपिदृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोजनासूत्रेण नदर्शितातथापिदृष्टव्या अन्यथाज्ञातत्वात्तुपपत्तेः साचकिलैवंउगतवसंज

हियमहिमाओपडिगयाओएवंखलुजंबूसमणेणं भगवथा महावीरेणंजावसंपत्तेणंअट्टमस्सणाथउभ  
यणस्सअथमहुं प्रसत्ते त्तिवेमिहउगतवसंयसंवओपिगिठुफलसाहगस्सविजयस्सधम्मविसएविसुहुमा

दूशंप्रकारे' निर्वाणनीसहिमाजाणवीचो सडिइं द्रुआवीनें निर्वाणनोमहोत्सवकरे' जिमजंबूदीवपन्नत्ती सूत्रमाहे' श्रीऋषभदेवतो  
निर्वाणमहोत्सवकीधोक्के' तिसकरे'कारीनें नंदीसरद्वीपनेविषे जईनें अट्टाईमहोत्सवकारीने' भवनपतिज्योतिगीव्यंतरवे मानिकचोस  
डिइं द्रुआपअपनेठाभेगयापळं ता इस्सपूर्वीत्तप्रकारे' खलुनिचे' ह्वेजंबूअमणभगवंतसंपूर्णठजुराईवंते' श्रीमहावीरदेवे' आठमाज्ञा  
तानाअध्ययननो एअर्थकह्योक्के' जेहवोसुभनें कह्योक्के' तेहवोजअर्थकळं कळं तुभप्रते' हिवे' दृष्टांतकहे' क्के' उग्रउत्कटतपसंयसंवंतप्रक

सवउपगिहृफलसाहगस्त्रविजयस्त्र धम्मविसएडुविडुहुमाविहोइमाया अणत्थाय ? जहमस्त्रिस्त्रमहाबलभवंमितित्ययरनामबंधेवितववि  
सयथोवमायाजायाजुवइत्तिहेउत्ति अट्टमच्चातविवरणं समाप्तिमिति अथनवमं विव्रियते अस्य च पूर्वेषु सहायमभिसम्बन्धः पूर्वत्वमाया  
तोऽनर्थउक्तइहउ भोगेष्वविरतिमतोनर्थो विरतिमतिमतच्चार्योभिधीयत इत्येवंसम्बन्धः सुखं सुगमनवरं निरालंबरणेति निःकारणेन

विहोइमायाअणत्थाय ? जहमस्त्रिस्त्रमहाबलं भवंमितित्ययरणामबंधेवितवविसएत्थोवमायाजायाजु  
वइत्तिहेउत्तिइमस्त्रीणायवभयणं अट्टमंसम्म त्तंजइणंभंतेसमरणं भगवयामहाविरणंजावसंपत्तेणं

एउत्कृष्टामोक्षनाफलनोसाधकसाधणहारो एहवायतीनें साधुनेंधर्माने विषे पिणसुहमायोडिइं पिणउइं मायाकपटअनर्थ ? भणी  
यथाजिममस्त्रीकुमरीनें महाबलनाभवनविषे तीर्थंकरनामकर्म बंधउत्ते क्खते तपने विषे पिणयोडीमायायईच्छती सुवतिस्त्रीकर्मवां  
धवानो कारणनीपनोतिम मायासहिततपनकरिवो २ इहांआठमोमस्त्रिनोच्चाताध्ययनसंपरण्ययोट हिवे आठमोअध्ययनकल्याप  
छीनवमोअध्ययनकहीयेछे एनवमाअध्ययनसंवाते एसंबंधआठमाअध्ययनमांहे सर्वमायावंतने अनर्थनोफलकह्यो इहांनवमाअध्य

अङ्गमस्सणायञ्जयणस्स अथमङ्गे प्रसृत्ते णवमस्सणंभंते णायञ्जयणस्ससमणं णं भगवयामहावीरेणं  
जावसंपत्ते णंकेअङ्गेप्रसृत्ते एवंखलुजंबू तेणंकालिणंतेणंसमणं चंपाणासंणयरीहोत्था तीसेणं चंपाएण  
यरीएकोणिएणासंरायाहोत्था तत्थणं चंपाएणयरीएवहियाउत्तरपुरच्छिमेदिसीभाएएत्थणंपुण्णमहं  
णासंवेइएहोत्था तत्थणंसायंदीणासंसत्थवा हेपरिवसइअङ्गे तस्सणंभद्दाणासंभारियातीसेणंभद्दाएभा

चनने विषे भोगने विषे अविरतिवंतने अनर्थनोफलअने वली विरतिवंतने अर्थकहीयेछे जोभंतेहेभगवन् अमणभगवंतश्रीमहा  
वीरदेवे तालगियावत् सोक्षप्रज्जते आठमाज्ञातानाअध्ययननो एपूर्वीक्तअर्थकह्यो तेसांभल्यो हिवे नवमानोहेभगवन् ज्ञातानाअध्य  
यननोअमणतपस्वीइ भगवंते संपूर्णज्ञानवंते श्रीमहावीरदेवे क्कणअर्थस्योअर्थकह्योछे हिवे सुधर्मास्वामीकहे इमआगलिकहि  
स्ये तिसखलुनिचे हेजंबूतेकालने विषे तेसमयनेविषे चंपानामानगरीऊं तीह्दं तेचंपानगरीने विषे कोणिकनासे राजाऊं तो  
तिहाचंपानगरीने विषे बाहिरईशानक्कणिनाभागने विषे पूर्णभद्रनामाचैत्ययत्तनो देहरोऊं तो तेचंपानगरीनेविषे माकंदीना

रियाएअत्तया दुवेसत्यवाहदारयाहोत्यातंजहाजिणपालिएयजिणरक्खिएयतएणंतेसिंसागंदियदा  
 रगाणंअण्णयाकयाइं एगओसहियाणं इमेयाखुवेमिहोकहाससुह्लावे समुप्पज्जित्था एवंखलुअ  
 न्हैलवणंससुहंपोयवहणेणं एक्कारसवाराओउगाढासव्वत्थवियणंलद्धा कयकज्जाअणहस्समग्गा  
 पुणंरविणियथपरं हव्वमागयातंसेयं खलुअरुहंदेवाणुप्पिया दुवालसमंपिलवणंससुहंपोयवहणेणं

मासार्थवाहवसेच्छे, महाच्छद्विवंतच्छे' तेमाकंदीसार्थवाहनें भद्रानामाभार्या स्त्रीतेभद्राभार्याना आत्माथकीजपना बेसार्थवाहनादा  
 रकपुलकता एकजिनपालिकनामापुल? बीजोजिनरचितनामापुत्रर तिवारे'तेमाकंदीसार्थवाहनापुत्राने' एकदासमथे' एकठामि  
 ल्याने' एकठाययाने' एहवोमिथःसांहोमांहिकथावार्त्तीनोससुह्लाप ऊपजेकथावार्त्तीकरिवाप्रते' एवंइणंप्रकारे'खलुनिच्च' आपणाल  
 वणंससुद्रप्रते' प्रवहणवाहणे' करी इय्यारवारअवगाह्याचढया सगलीवारसगलाअर्थपास्यालाधा सगलाकामकार्यकरी अनवनिर्वि  
 षपणे'कुशलत्तेमे' समग्रसंपरणंअर्थलेइने' पुनरपिवलीनिजपोतानाधरप्रते' उतावलाआव्या तेकारणयकीखलुनिच्च' अयभलोआपण

उगाहित्तएत्तिकइ, अस्मसस्वएयमइंपडिसुणेइरुत्ताजेणे वअस्मापियरोतेणेवउवागच्छइउवागच्छ  
इत्ताएवंवयासीएवंखलुअम्हे अस्मयाओएकारस वारातंचेवजावणियधरं हव्वसागयातंइच्छामोणं  
अस्मयाओतुभेहिं अम्भणुखायासमाणा दुवालसंलवणसमुहं पोयवहणेणं उगाहित्तए तएणं ते  
सागंदियदारए अस्मापियरोएवंवयासी इमेभोजायाअज्जगपज्जगजावपरियाएत्तए तंअणुहोहता

हेदेवातुप्रिय वारमीवारलवणसमुद्रप्रते वाहणेंकरी अवगाह्याभणीचढवाभणी इमविचारीकरीनें मांहोमांहिबेऊंभाईएअथ  
प्रतेअंगीकारकरेंकरीनें जिहांमातापिताछे तिहांअवे तिहांअवीनें इमकहताह्वा इमपूर्वोक्तप्रकारेनिच्च अम्हे अहोमाता  
पिताओ इयारवारसमुद्रसवलाकामकाजकरी कुशलचेमकल्याणे पोतानाधरप्रते उतावलाअव्या तेकारणथकीअम्हे इक्कुं  
वांक्कुं अहोमातापिताओ तुमारीआज्ञापांभ्याकृता वारमीवारलवणसमुद्रप्रते वाहणेंकरी अवगाह्याभणीचढवाभणीतिवारि  
तेमाकंदीसार्थवाहनावालकांप्रते मातापिताइमकहताह्वा अहोजातोपुत्तोअतिधन आजापडअजानोवडाना वडानोषणाप्रि

वजायाविउलेमाणुस्सएइड्डीसक्कारसमुदए किंभोसपच्चवाएणं गिरालंबणेणंलवणससुहोत्तारेणंएवंल  
 खुपुत्ताद्रूवालसंमिजत्ता सोवसग्गायाभवद्द तंमाणंतुभेदुवेपुत्ताद्रूवाल संमिलवणससुहंजावउगाह्हे  
 हमाहंतुभंसरीरस्सवावत्तीभविस्सद्द तएणंमाणंदियदारगा अस्मापियरोदोच्चंपित्तच्चंपिएवंवयासीए

यांनोउपान्योच्छे तेषनविह्वचीभागकरिवाभणी आपतोहिपिणधनघणुंजक्के तेषनप्रते त्तुमेभोगवो तावप्रथमपहिलां हेजातोपुत्तो  
 तेषनविपुलघणाममुष्यसंबंधीयाभोगनेंविषे षणीच्चद्विनासल्लारनाससुदायससूहृत्तेच्छतेस्युं अहोपुत्तोतेससुद्रप्रत्यपायकएनोसं  
 भवज्जतेच्छते अणुराखिवाभणी आलंबनीयवस्तुरहितपणेकरी निरालंबननिःकारणकारणविना लवणससुद्रनोजतरवोचढवोते  
 काईनहीवाहू इणेकारणेनिच्चंसहित हेपुत्तोवारमीवारनेंविषे याल्वाप्रयाणससुद्रमध्येथई जाइवंपरदेशभणी तेउपसर्गविधानस  
 हितज्जइं तेकारणथकीतुह्वेवेज्जं पुत्तवारमीवारमीवेला लवणससुद्रप्रतेंतांलगि यावत्तमच्चवगाहोचढोसां जोससुद्रंजाओतोम  
 हउपुत्तुग्गाराथरीरेनें व्यावृत्तिसमाधितेमाटिसजाओ उपसर्गहोस्येइसमातापिताइंक्कह्यो तिवारपक्कीजिनप्रालजिनरचितमावां

बंखलुअम्हेअक्षयाओ एकारसवारालवणससुद्धं उगाहित्तएतएणं तेसागंदियदारए अस्मापियरो  
जाहेणोसंचाएत्तिवडुहिं आववणाहियप्रखवणाहिय आववित्तएवाप्रखवित्तएवा ताहेअकामयाए  
चेवएयमडुं अणुजाणित्ता तएणंतेसागंदियदारया अस्मापिजिहिं अभणुसायासमाणागणिसंचध

दीपुत्तसातापिताप्रते' वेवारलिवणवार इसजकहताह्मआइमवणेप्रकारेखलुनिचे अम्हेवेळं भाईअहोमातापिताओ इग्यारवारलवण  
समुद्रप्रतेअवगाह्योजइआव्या इमवारंवारकहिवाप्रघत्थी तिवारपछीतेसाकंदी सार्थवाहनादारकपुत्तप्रते' सातापिताकहिवाभणी  
जाहेजिवारे' समर्थनऊइं घणीएआख्यापनाभिःसामान्यकी वचननेकहिवे' करीप्रज्ञापनाभिःविशेषयकी वचननेकहिवे' करीसामा  
न्यप्रकारयकीवचनने' कहिवे' करी विशेषयकीकहिवाअर्थी समर्थनऊइं कहिणसंनने' तिवारे' अकामनाइं अणवांछनाइं करीचेव  
निचे'सहितमनने' अणगमते' जएअर्थप्रते' अनुज्ञादीवे'अज्ञादीये' आपेतिवारे' तेसाकंदीसार्थवाहनादारकपुत्तवेहं भाइसातापिता  
इं'अज्ञादीघाह्तानालिरसोपारीजेगखोह्तो वेचाइं'जेसेरपालीअथवामाने' करीसपावीये' पारि



प्रत्यपायसंभवेवात्पाणायलं वनीयवस्तुवज्जि तेन कालियावायएत्तिकालिकावातः प्रतिकूलवायुः आङ्गिज्जमाणीत्यादि आधुयमाना

रिसं चमेज्जं च प्रारिच्छेज्जं च जहाअरहणगस जावलवणसमुद्दं च बद्धिंजोयणसयाइं उगाढा  
 तएणंतेसिमागंदियदारगाणं अणेगाइं जोयणसयाइं उगाढाणंसमणाणं उप्पाइयसयाइं अणेगाइं  
 पाउभभूयाइं तंजहाअकालिगज्जियंअकालिविज्जुयं जावयणियसइं कालियवाएजावतत्थसमुत्थिएत  
 एणंसणावातेणंकालियवाएणं आङ्गिज्जभाणीइं संचालिज्जमाणीइं संखोभिज्जमाणीइं सलिलति

च्छे द्यवस्त्रमणिप्रमुखएहवाचारप्रकारना क्रियाणाप्रते लेइने जिमअरहन्वसेठिनीपरे तिमवाहणक्रियाणेभरीने लवणसमुद्दमांहे  
 घणायोजनानाशतसईकडागयातिवारे तेमाकंदीसार्थवाहनापुत्रअनेकघणायोजनानासे कडासमुद्दमांहे अषगाहताजाताछताने ल  
 वणसमुद्दमांहे उत्यातनाशतसइकडा अनेकघणाप्रगटथयाजपनातेकेहातेकहेछे अकालवर्षीकालविनागर्जितगाजवो अकालवर्षी  
 कालविनावीजलीनोयावो अकालवर्षीकालविनास्त्रिनितशब्दघणुं उं डोमोटोक्रूराजनोशब्दययो कालिकावातप्रतिकूलभूं डोवायरो

कंपमानाविद्रवमुपगतेतिसम्बन्धः संचाल्यमानास्थानात्स्थानान्तरनयनेन संक्षोभ्यमानाअधोनिमज्जनतः तद्गतलोकिक्षोभोत्पादाद्वा  
सलिलतीक्ष्णवेगैरतिवर्त्यमाना आक्रम्यमाणानुकुट्टिमैकरतलेनाहतोयःसतथा सद्भवतेद्रुसएत्तिकंडुकसूतैव तलैवप्रदेशेधःपतन्तीबाधो  
गच्छन्तीउत्पतन्तीचोर्द्ध्वंयाती तथोत्पतन्तीवधरणीतलात्सिद्धविद्याविद्याधरकन्यका तथाअधःपतीतन्तीव गगनतलाद्गुञ्जटविद्यावि

क्खवेगेहिंअणियट्टिज्जसाणी२ कोट्टिमकरयलाहएविवतिद्रुसएतत्येवउवयमाणी२उप्पयमाणीविवध

यावत्समुद्रमाहिज्जयोवाचरो आंधीरूपजपनो तिवारिंतेनावातेणेकालिकाप्रतिप्रतिकूलवाचराने वायवेकरी आधूयमानाकंपा  
यमानयातीच्छती संचाल्यमानाएकठामथकी बीजाथानकनेविषे जावेपामिवेकरी संक्षोभ्यमानाखोभनापांसीच्छती हेठिबूडिवाय  
कीतिनावासध्येरच्छा लेकनेक्षोभनाजपजवायकी सलिलपांणीनातिक्खतीच्छतीखाजे वेगवालिवोतेणे पांणीनेतीखेवेगेकरीअनि  
यट्टिज्जसाणी२ अतिवर्त्यमानाआक्रमीचापीच्छती एतलेजपरपांणीइंभराणीच्छती नावाधरतीइंजाइं जिमकुट्टिमबाधोभमिनेविषे  
करतलेनक०ह यनेतलेकरी आहतवणुं हख्योताडोजते तिद्रुसक० दडोतेजिमइहांजउं चोज्जलीने हेठोपडेतिमतेदडानीपरे

द्याधरकन्यकात्थाविपलायमानिवभयाद्भावन्तीव महागरुडवेगविलासिता भुजगकन्यकाधावन्तीवमहाजनस्यरसितशब्देनवितस्ता

रणियलाओसिद्धविज्जाहरकखगाउप्ययमाणीविवगगणतलाओभट्टविज्जाविज्जाहरकखगाविपला  
यमाणीविवमहागरुलवेगवित्तासियाभुय गवरकखाधावमाणीविवमहाजणरसियसहवित्याद्वाणभ

नावातिहांजनेप्रदेशनेविषेउवयमाणीअवपतंतिहेठीजाइछेउछलीनेउंचीजाइछेवलीहेठीजाइछेस्युंउंचीउछलीधरणीत  
लष्टयवीनातलायकीसिद्धनिःपन्नविद्याधरनीकन्यकापुलीउंचीउत्पतीहेठीजतरेंतिसतेविद्याधरनीपुलीनीपरंनावालुंचीउत्पतीहे  
ठीपडेछेजस्युंवलीतिनावाकेहवीथाइछेगगनतलआकाशयकीहेठीपडेजिसअष्टविद्याअष्टयइचूकीपूरीविद्यानारुधवायकीविद्या  
धरनीकन्यकापुलीविपलायमानिवभययकीअरहीपरहोनासतीदोडतीजहोइस्युंएतलेअधूरीविद्यावंतीविद्याधरनीपुलीआकाशय  
कीउत्पतीअरहीपरहीदोडतीहेठीपडेतिमनावाथाइछेसमुद्रमाहेअरहीपरहीडोलेछेवलीकेहवीथाइछेनावामहामोटागरुडपंखी  
नावेगयकीविशेषेकरीलासितावासतीनासतीभुजकनीवरप्रधानकन्यानगकुमारदेवतानीप्रधानपुलीधावंतीदोडतीजहोइस्युंति

स्यान्म्रष्टाश्रखिशोरीनिर्गुं जन्तीव अथ्यक्तशब्दं कुर्वतीव अवनमन्तीव वा गुरुजनेष्टापरधापित्वाद्युपलब्धव्यलीकासुजनकुलकन्यकाकुलीनेति भावः तथा घूर्णतीव वेदनयाथरथरायमाणेव वीचीप्रहारशतताडिताहिस्त्रीवेदनया घूर्णतीत्येवमुपमानं द्रष्टव्यं गलितलं वनेव आलं वनादूर्ध्वष्टेव गगनतलादाकाशात्प्रतितेति गम्यते यथा स्त्रीण्यन्धनं फलाद्याकाशपतितेति एवं सापीति कश्चित्तु गलितलस्वन इत्ये

द्वात्रासकीसोरीणिर्गुं जमाणौविवगुरुजणदिङ्गावराहसुजणकुलकस्त्रगाधुम्भमाणौविववीचीप्रहारसय

मतेनागकुमरनीकन्यासरिखी नावाससुद्रमांहे अरहीपरहीदोडेके वलीनावाकेहवीके महाजनवणामनुष्यनारसितकोलाहलनाशब्दतेणे शब्दे करी वित्तडानाठीथानकथकीछूटी आसकिसोरीघोडौ तिमनिर्गुं जतीव अथ्यक्तसमभाङ्गनहीं एहवाशब्दकरतीजहोइस्युं नावाएहवाघोडीनासरिखा शब्दकरतीके वलीनावाकेहवीयातीके गुरुजनमोटे वडेरिलोकदीठी अपराधकरतीमातापितादिश्रीलंभादीधीछती सुजनकुलनीकन्याउत्तमकुलनी जपनीकन्यापुत्रीजिम घूर्णतीवधूमती वेदनाङ्करीघरघरायमानशब्दकरतीके नावाधुमधुमतीउरहीपरहीफिरैके वीचिकस्रोलनाप्रहारशतसोगसे ताडीछतीनिचें सहितताडीछती स्त्रीमारीस्त्रीवेदनाङ्करीघमतीर

तावदेवदृश्यते तत्रलंब्यंतइतिलम्बनानगरास्तेमलितायस्यांसातथा तथारुदन्तीवकैःकृत्याह सखिलभिन्नाधिग्रन्थयस्ते चते विष्यद्भूमा  
 णत्तिविप्रकिरन्तश्च सखिलंब्यन्तइतिसमासस्तएव स्य लाशुपातासैर्नवधूपरतभट्टका तथाविलपन्तीवकीदृशीकृत्याह परचक्ररा

तालियागलियलंब्यणाविव गगणतलाओरोयमाणीविव सखिलगंड्विविष्यद्भू रमाणघोरंसुप्राए  
 हिंणवबहुउवरयभक्त याविलंब्यमाणीविव परचक्ररायाभिरोहियापरम महाभयाभिडुयामहा

हे अलंब्यन्तइतथाइ तेल्लीसरिखीवेदनाइ जकरीषुमतीजहे स्युंलंब्यावीये तेलंबनालंबायमान लांबानागरतेगलितगत्याहे लडा  
 हे जेनावाने विषे तिवारे अलंब्यन्तइतथाइ गगनतलात् आकाशयकीरोतीजनावाहोइस्युं केशे स्यं करीने कुणरुइ तैकहेहेस  
 खिलभिन्नाक० सखिलपांणीइ करीभीनीजगंठिगंठितेविष्यद्भूमाणं कहतापाणीप्रते चरेहे सूंकेहेभरेहे तेषांणीनाकणीयारूप  
 मोटाअंशुपातअंशुतेणं करी रोतीसरिखीजदीसेहे नावाजिमनववहनपरणीवहु उवरयभुत्तुयाक० उपरतत्यजीछाडीपरिचरीभ  
 रतारेंडतीछती जिमविलापकरतीरहेहे तिमभरतारे छाडीनवीवहुनीपरें नावाविलापकरतीसरिखीदीसें वलीकेहवीकुणसरि

जेनापरसैन्यनृपतिनाभिरोधितारुर्वतः कृतनिरोधायासातथा परममहाभयाभिद्रुता महापुरवरीवतयाक्षणिकस्थिरत्वसाधस्यार्थित्  
 ध्यायन्तीवकीदृशीकेत्याह कपटेनवेषाद्यन्यथात्वेन यच्छ्रुतेनप्रयोगः परप्रतारणव्यापारः तेनयुक्तायासातथायोगपरिब्राजिकारुमा  
 धिप्रधानव्रतिनीविशेषः तथाअधोगमनसाधस्यार्थित् तद्गतजननिःश्वाससाधस्यार्थिद्वानिःश्वसन्तीव कीदृशीकेत्याह महाकान्तारविनि

पुरवरीज्ज्ञायमाणी विवकवडछेोमणपडग जुत्ताजोगपरिव्वाइ थाणीसंसमाणीविव महाकंतार

खीनावाथातीछे' तेकहेछे परचक्ररायापरअनेरापारवाकडजने राजाइ' अभिरोहियाकहतां सषलीदिशोदिशिकीधीछे' निरोधरू'  
 धीजेतनगरीपरसडल्कृष्टी महाघणुंभये' करी अभिद्रुतपीडीगराभवी महासोटीप्रधाननगरी जिमहूइ' तिमथाइ' तथाक्षणिकमात्र  
 थिरनिचलरहिवापणायकी ध्यातीध्यानकरतीजहूइस्युं' नावाकोंणकेहवीध्यानकरे' तेकहेछेकवडछेोमणकपटे' मूलगावेशथकीअन्य  
 थापीनावेशने' करी वापणेकरीजेछ्छकपटतेणे' करीप्रयोगक० परअनेराने' छेतरिवानोव्यापारतेणे' करी जुत्तासहित्छे' जेतजोगपरि  
 दाजिज्ञासमाधिप्रधानव्रतिनीसंन्यासिणीविशेष तिमणीसंसमाणीवक० नीसासाम्' कतीजहोइस्युं' हेठीजावानासरिखापणायकीए

गतापरिआन्ताचयासातथा परिणतवयाः विगतवैवना अस्मायत्तिअंबापुत्रजन्मवती एवंभताहिस्त्रीअमप्रचुराभवति ततश्चात्यर्थनिः  
 श्वसतीत्येवं साविशेषितेतितातज्ञतजनविषादवोगात् शोचन्तीवकीदृशीकेवेत्याह तपश्चरणं स्वर्गसंभवभोगजातंतस्यज्वीणपरिभो  
 गोयस्याः सातथा च्यवनकाले देववरवधूः अथवाउप्ययमाणीविवेत्यादाविव शब्दस्यान्यत्रयोगादुत्पतन्ती नौः केवसिद्धिविद्याविद्याधरक

विशिण्णयपरिस्संतापरिणयवया अस्मयासोयमाणीविव तवचरणस्त्रीणपरिभोगा चवयणकालदेवव

तले तेनावाभाहे रद्या जेलोकतेहानानीसासानाम् कवाथकीनावाजनीसासाम् कतीहोइस्युं वलीनावाकेहवीछे कुणनीपरं याती  
 छेतेकहेछेसहाकांतारमोटी कातारभयंकरभयकारिणीअटवीनेविषेनीकलीछतीपरिस्सं ताकहताथाकीछेजेतेसमाधिप्रधानसन्वासि  
 णीतिमनावाथकीछे तथापरिणतवयासु विगतयोवनाथौवनवयरहितगरढीबूढी एहवीअस्मयाक पुत्रनीमातापुत्रघणाजणतीमा  
 तासिथल्लशरीरवं तथाइ एहवीगरढीस्त्रीघणाअमखेदवतीइइ तेकारणथकीघणुं जनीसासाम् केइणं प्रकारंतेनावापिणयातीछेते  
 नावाभाहिनेलोकनाविषादनायोगथकी शोचतीजयोक्करतीछेसुं नावातेकेहवी कुणशोचनाकरंतेकहेछेतवचरणतपउपवासम

न्यकेवेत्यादिव्याख्येयमिति तथासंचूर्णितानिकाष्ठानि कूर्वरंचतुण्डंयस्याःसातथा तथाभग्नामेढीसकण्ठफलकाधारभूतकाष्ठरूपाय  
 स्याःसातथासोडितोभग्नः सहसाश्चकस्मात्सहस्रं गारोहणेन निरालम्बनतांगत्वाच्छूलावितानंकोवक्रपरिमर्शोजलविजलस्यर्शोयस्याः  
 सातथाततःकर्मधारयः अथवाशूलावितश्चाचरितशूलारूपश्च कुटितपरिकरत्वात् शूलान्द्रुत्तिपाठे तु शूलायमानोत्रं कश्चक्रःपरिमा

रवज्जसं चूर्णियकडुकुवरभग्नमेढिमोडियसहस्रमालासूलाद्रयवंकपरिमासाद्गलहंतरतडतडितफुट्टं

ह्यचर्यादिश्चाचरवूं तेहनोफल देवतायावुं तेतपनाफल देवताभोगनोच्चीणश्चययोक्तें परवारंवारभोगविवोजे देवांगनानेच्यवनकाल  
 च्यविवानाकालनें विषे देवतानीवरप्रधानवह्ण देवागनाशोचकरे तिमनावाशोचतीक्ष्णं चूर्णयथाक्तेकाष्टलाकडापाथीयाक्ष्वरतुं डखुष  
 जेनावाना तथाभग्नाभागीक्षे मेढीसगलापाठीयाने आधारभूतलाकडारूपमेढी जेनावानीतयामोडियमोडितभागेक्षे सहस्राश्च  
 कस्मात्त्रयवासहस्रक० हजारनीसंख्याइं लोकाने आधारश्चाश्रयभूतएहवोमालमालोजपरलोभागलोकने आधारभूतडागलोजे  
 नावानोतथाशूलोवितेकहता शूलिजपरिचट्टाव्यापुचषनी परिपर्वतशिखरजपरिचट्टवेकरी आलंवनरहितनिरालंवनपणाप्रते पां



सोत्तिनौगतकाष्ठविशेषोनाविकप्रसिद्धो यस्यांसातथा तथाफलकांतरेषु संघटितफलकविवरेषु तटायमानासुयाविषधनिंविधानाः  
 स्फुटन्तोविषटमानाःसन्धयोमीलनानियस्यांसातथा विगलं त्योलोहकीलिकायस्याःसातथा ततःकर्मधारयः तथासर्वाङ्गैःसर्वाथैर्वि  
 जृम्भिताविवृतांगतायासातथा तथापरिश्रितारज्जवः फलकसंघातमद्वारिकायस्याःसातथा अतएवविशरन्ति विशेष्यमाणांसर्वा

तसंधिविमलंतलोहकीलियासब्बंगवियंभियापरिसडियरज्जुविसरंतसव्वगत्ताआमसह्मगभूयाअक्रय

तसंधिविमलंतलोहकीलियासब्बंगवियंभियापरिसडियरज्जुविसरंतसव्वगत्ताआमसह्मगभूयाअक्रय  
 मीनेसूलीनीपरिवंकवांकोपरिमासाक लवणसमुद्रनापांणीनोफरिसच्छे जेनावाइतथाफलकांतरासांध्याजोछा पाटीयानाविवरच्छि  
 द्राने'विषे तडतडितक०तटतटायमानतटतटशब्दप्रते' करताकृताफुटता फाटताछे सांधिनामिलनअलगाथातांछे जेनावाने'विषे त  
 याविगलंताविशेषधकीगलताछे लोहनाखीलोजेनावाने'विषे' तथासब्बंगसगलोअवयवेकरी विसंभियाविजृ'भिताक० सोकलीविरली  
 यातीछेजेनावानातथापरिसडियधणुं'सड'छे' रज्जुरासडीपाटिआजोडिवांनी दोरडीजेनावाने'विषे' एकारणयकी विसरंतक० स  
 डीछेपडीछे सब्बगत्ताक०सगलागतपाटीयाजेनावाना आमककाचीमाटीनामसह्मकमालासरावलासरिखीनावाथई पांणीने'संयोगे

शियात्वाणियस्याःसातथा ततःकर्मधारयःआमकमस्रकभता अपक्षशरावकल्पाजलसंपर्केज्जणेन विलयनात् तथाअद्वैततपुस्याजनमनो रथइवचिंत्यमाना कथमियमेतामापदं निस्तरिष्यतीत्येवं विकल्पमानागुर्वीगुरका आपदःसकारकाआपदःसकाशाद्दुःसमुद्धरणीय त्वात्निःपुण्यजनेनापिस्वोमनोरथइव कथमयंपूरयिष्यतइत्येवं चिंत्यमानोदुर्निर्वहत्वाद्गुरुरेवभवतीतेनोपसृजति तथाहाहाकृतेन हाहाकारेणकणधाराणा निर्यामकाणानाविकानां कैवर्त्तानावाणिजजनाना कर्मकराणाचप्रतीतानां विलपितंविस्वापोयस्याः

पुस्यजणमणोरहोविवचिंतिज्जमाणौ गुरुइहाहाकथकसंधारणावियवाणियगंजणकस्रकारविलवि

करीज्जणमात्वेविलयथावाथकी तथाअद्वैतपुण्यजमनोरथेवचिंत्यमाना अणकीधापुन्यनापुण्यरहितलोकना मनोरथनोपरिचिंतवती छेनावाकिमएआपदाप्रतें निस्तरस्येण्इवीविकल्पनासंकल्पविकल्पकरिति गुरुगुर्वीमोटीआपदायकी दुःखेकरीउद्धरवापणाय कीपुण्यरहितलोकने पोतानोमनोरथकिमपूरास्ये एहवंचैतविवुंतेदुःखेकरीनिर्वाहपणायकी मोटीजआपदाऊई हाहाकारशब्दने करवेकरीकर्णधारकहतांनिर्यामकनाह् आनामाह्ठीनावाणिजजनककहतां वाणीयाव्यापारीलोकानोकस्रगरकहतांवाहणमाहि

सातथा तथानानाविधैरत्नैः पर्यै च्छभाडैः संपूर्णाशासातथारोयमाणेहिंति सशब्दमशूणिविसुचत्सु कंदमाणेहिंतिशोकात्महाध्व  
निमंचत्सु शोचत्सु मनसाखिद्यमानेषु तिष्णमाणेहिंतिभयात्प्रखेदलालादितपत्सु चरत्सु विलपत्सु चार्त्तजल्पसु एवमहत्त्रंतोजलगयं

थाणाणाविहरयणपस्यसंपुणवहुहिंपुरिससएहिंरोयमाणेहिंकंदमाणेहिंसोयमाणेहिंतिष्णमाणेहिं  
विलवमाणेहिंएगंमहं अंतोजलगयंगिरिसिहरमासायद्रत्ता संभगकुवतोरणामोडियज्जयदंडाबल

उचनीचक्रामनाकरणहारानाविलपित कहतां विलापछे जेतैनावाने विषे एहवीथईछे तथानानाविधघणाअनेकप्रकारनारयणरत  
नपस्यक० क्रियाणोतेणेरतने क्रियाणेकरीसंपूर्णभरीछे जेतैनावाएहवीघणापुरुषने सईकडेरोयमाणेहिंकहतां शब्दसहितअंखूं मुख  
तेह तेछते शोकथकीमोटाशब्दप्रते सूंकतेछते आकंदकरेछे सोचतामनने करीखेदपाम्याहता भयथकीपरसेवळलालादिपडतेखरते  
छते विलपकरते आर्त्तखरवोलतेछते अरेबापअरेमातदूत्यादिविलापकरतेछते एकमोटोअंतोजलगयंक० लवणससुद्रनापाणिमां  
धिरत्सुं एहवोगिरिसिहरंक० पर्वतनोसिखरशृंगतेप्रते वाहणआसाद्यअथडीनेअडीने संभगाभागोकूवक्षूआथाभोजेक्षूआथाभाने

तिजलान्तर्गतं गिरिशिखरमासाद्य संभगः रूपकः कूपकस्तंभोयत्वसितपटोनिवध्यते तोरणानिचयस्यांसातथा तथामोडिताध्वजदण्डाय  
स्याः सातथातथावलकानादीर्घदापरूपाणां शतानिखंडितानिचस्यांसातथाअथवावलशतैर्वलयाकारखण्डशतैः खण्डितायासातथाकार

यसयखंडियाकरकरस्सतत्येवविह्वंउवगयातएणं ताएणावाएभिज्जमाणीएएतेत्रहवेपुरिसाविपुलप  
शियभंडमायाएअंतोजलंसिण्जामियाविहोत्यातएणंतेमागंदियदारगाच्छेयादक्खापत्तट्टाकुसला

विषेधउल्लोसढलूगडानोवांधीयेच्छे तेभागोवलीतोरणभागाच्छे जेनावाने विषे तथामोडितामरडांणीच्छे ध्वजानादंडेजेनावानेविषे  
एहवीनावाथई बलकहतांमोटालावालाकडानांशतसई कडांगमेखंडययाच्छेजेनावाने विषे करकरस्सं करकरकडकडाटएहवाशब्दप्र  
तें करतीच्छतीतयेव तिहांजसुद्रने विषे विह्वं विलत्रविनासपामी तिवारितेनावाप्रते भोजतीवडतीविनाशपामतीकतीतिषयापुरि  
षविपुलवणाप्रणितभांडरतनक्रियायासगलीवस्तुसहित लवणससुद्रमांहिवडताऊआ तिवारेवेऊं माकंदीनादारकपुलते केहवाछे  
च्छेकचतुरछेदद्वडाहाछे सगलाअर्यपास्याछे कुसलषण्डाहाछे मेघाविबुद्धिवंतपंडितछे निपुणषणुंचतुरडाहासिल्यविन्ननिकरी

करस्मत्तिकरकरेति शब्दं विदधानातत्वेव जलधौविद्रुवंविलयंमुपगतिति पौयवहणसंपराएस्तुत्ति संपरायःसंग्रामःतद्वद्यानिभीषणानि

मेहावीण्डुणसिप्रोवगयाबहुसुप्रोयवहणसंपराएसुकयकरणालद्वाविजयाअमूहा अमूट्टहत्याएणं  
महंफलखंडंआसाएलिजेसिंचणंप्रएसंसिपोयवहणेविवरणेतेसिंचणंप्रएसंसिणंगंसंहंरयणदोवेणामंदी  
वेहोत्याअणेगाइंजोयणाइं जोयणाइं परिक्खे वेणं णाणादुमसंडमंडि

सहितंवेवलीतेकेहवाक्केघणीवारवाहणचढी वाहणवहिवानोजेसंपरायकहतासंग्रामतेहनी परिवीहामणाक्के वाहननांकार्यतिहाने  
विषेकीधाक्केकरणकार्यजणे एहवावाहणमांहिलासंग्रामने विषे भखापाम्थाक्के विजयअमूट्टमूर्खनहीक्के हाथनीकलानेविषेमूर्खनघी  
डाहाएहवादखकलावंतमाकंदीनापुत्र एकमोटाफलकखंडघाटीयानाखंडकटकाप्रते पामेपासीनेलेइले जेप्रदेशनेविषे तेवाहणवि  
खरुंक्खेवडोक्के तेप्रदेशनेविषेएकमोटोरतनद्वीपनासाद्वीपउत्तोज्झो तेरतनद्वीपकेहवोक्के अनेकघणायोजनक्के धायामलांबपणीवि  
खंभपहुलपणीतेणेकरीसहितक्के वलीतेरतनद्वीपकेहवोक्के अनेकघणायोजननीपरिघतेणेकरीसहितक्के वलीतेरतनद्वीपकेहवोक्केना

ओदेसेसस्त्रिषोऽष्टासाद्दृष्टिरिञ्जेऽभिखुवेपिडिखुवे तस्त्रणं वहु मज्ज्मदेसभाएएत्थणं मंहं एणेपासा  
 यवडिंस एहोत्था अभमुग्गयमूसिण्जेअभिखुवेपासाद्दृष्टिरिञ्जेअभिखुवेपिडिखुवे तत्थणं पा  
 सायवडिंस एरयणदीवदेवयाणं परिवसद्दपावाचंडारुद्दासाहसिया तस्त्रणं पासायवडिंसयस्स

नाप्रकारनाषणाप्रकारनाद्रुमवृक्षनाखंडतेणेकरीसंडितदेशप्रदेशे सश्रीकसोभावंतके वणुं देखिवायोग्ये तेरतनद्वीपनाव  
 ऊवणामध्यदेशभागनेविषे इहांमोटो एकप्रासादावतंसकधरहं तो अभ्युद्गतप्रगटउजलो उच्छित्तउंचोतालगिजा सश्रीकरूडो रू  
 पवंततेजवंतघणुं देखिवाजोवायोग्ये देखिताछतामनप्रसन्नथाई एहवोप्रसादावंतसकदेखिवायोग्ये अभिरूपप्रतिरूपप्रतिवैवदी  
 सेत्तेतिहातेप्रसादावंतंसकने विषे रतनद्वीपदेवतारयणादेवीनादेवतादेवंगनावसेछे तेकेहवीछेपावापापणीछे चंडाघणुं पापणीछे  
 रौद्राभवकारणीछेचुद्रानीचके साहसिकधैरवंतसाहसीकणीछे एहवीछेतेप्रासादावतंसकधरने विषे च्यारचिंऊं दिसिने विषेवनखे  
 डकच्छाछेतेकेहवाछेअणुकालाछे कणुकालीनीलीआभाकांतिछविवंतकेतिवारपच्छीमाकांदीनापुत्रजिनपालजिनरक्खितवेऊं भाईते

चत्तारिचउद्दिसिं वणसंडापणत्ताकिण्हाभासातएणंतेमागंदियदारगतेणंप्रलयखंडेणंपुव  
 उभ्रमाणादरयणदीवितेणंसंबूढायाविहोत्थातएणं तेमागंदियदारगाथाहंलहइत्तामुहुत्तंतरंआसा  
 संतिफलगखंडं विसव्जेइत्तारयणदीवंउत्तरेइत्ताफलाणंसगणगविसणंकरे त्तिफलाणिआहारेइत्  
 ताणालिएरणंसगणगविसणंकरेइत्ताणालिएराइंफोडंतिणालिएरतिक्खेणं अण्णमसुस्सगत्ताइं अग्गं

खेपाटीयानेखंडेकरी वलगारतरताच्छतारतनद्वीपनेविषे तेणंपाटीयाने खंडेकरीवलगातरता आवताह्वातिवारितेमाकंदीनापुत्र  
 जिनपालजिनरक्खित थाहतागप्रते लहेतागप्रते लह्हीने सुहत्तांतरमुहत्तां मावसासतांथाईसंताथाईने पाटीयानाखंडप्रतेविसजे  
 सूंकेसूंकीनेपरिहरीने रतनद्वीपप्रते जतरने फलानामांगवांनीगवेषणाफलांनीगवेषणाकरेकरीने तेफलप्रते आहार  
 करे नालीयरांनीमांगवांनीगवेषणाकरे करीने तेनालीयरांप्रते फोडेभाजे भांजीने नालीयरमांदिथीतिलकाढे तेनालियरनेतेले  
 करीअन्योन्ये मांहेमांदिहालशरीरप्रते अग्गंमर्दनचोपडणकरे करीने पुष्करिणीवाविप्रते अवगाहेप्रवेशकरे अवगाहीने जल

गेद्रपोक्वरिणीओगाहेद्रत्ताजलमज्जगंकरेद्रत्ता जावपच्चुत्तरंतिपुढविसिलापट्टयंसिणिसीयंतिर  
 त्ताआसत्यावीसत्यासुहासणवरगया चंप्राणगरंअस्मापिउणंआपुच्छणंचलवणससुहोतारंचकालि  
 यथायससुत्थणंच प्रोयवहणविवत्तिंच फलहखंडस्सआसायणंच रयणदीबुत्तारंचअणुच्चिंतेनारार  
 उहयमणसंकप्पा जावज्झियाथद्रतएणंसारयणदीवदेवयातंमार्गंदियदारंगंओहिणाआभोएद्रत्ता

मज्जनअंधोलकरे करीनें तालगिजांवाहिरनीसरेनीसरीनें पृथवीसिलापट्टनें विषेवेसेवेसीनें सांसतावीसामोलीयोसुखे समाधिंभ  
 लीपरिआसनें वरप्रधानवेठाकतावेज्जभाइचंपानगरीप्रते संभारेअनेमातापितानेपुच्छीनें वाहणमांहिचढ्यातेसंभारेअने लवणससुद्र  
 मांहिवाहणचाल्योतेसंभारे कालिकावातससुद्रमांहिजपनी वाहणउच्छल्योभागोससुद्रमांहिवूडो तेसगलीवार्त्तासंभारे पाटीयाना  
 खंडनेपासीनेपाटीयेवलगीतरतार रतनद्वीपआवीजतस्याइत्यादिसप्तलीवातकरेवैठार हिवेसुंकरस्येएहबुंचिवताकता आर्त्तिंचिं  
 तारूपजपनाकंधेघणाप्रकारनासंकल्प एहबुंचिवताआतारहेच्छं तिवारिते हनेतेरतनद्वीपनीवासीरतनद्वीपनीदेवतादेवंगनतेमाकं



पोतवहनकार्यीणिता नितयोच्यंते तेषु देवताविशेषणानि विजयचौरविशेषणवद्भ्रमनीयानि असिफलगवगहृत्ति खड्गफलकाभ्यां व्य

असिफलगवगहृत्यासखड्गवद्भासत्तइतालप्यमाणं उड्डु वेहासं उप्ययइत्ता ताएउक्किट्टाएजावदेवगईए  
वीईवथमाणौरेजेणवमाणंदियदारएतेणेवउवागच्छइत्ताआसुरत्तातेमाणंदियदारएखरफरुसणिड्डु,  
रवयणेहिंएवंवयासौहंभोमाणंदियदारयाजइणंतुभमेमएसद्धिविउलाइं भोगभोगाइं भुंजमाणविह

दीनापुत्रजिनपालजिनरक्खितप्रते अविधिज्ञानेकरीदेखेदेखीने असिफलक० तरवारफलगक० खेडोएणे वेडं एकारीव्यग्रहाथजेरतन  
द्वीपदेवांगना एतलेहाथमांछितरवारखेडोलेइने सन्नद्धवद्वयइएहवी सातआठताडप्रमाणपरिमात्रमात्र आकासनाभागतांइं उंची  
आकाशने विषे उतपतीने विषे उतपतीने एतले सातआठताडजेवडोजं चो रूपविकुर्वीने आकासे उंची उतपती तेणीइं उतकष्टीइं  
चंडाचपला देवतानी गतिकरी व्यतीक्रमती चालती छती जिहामाकंदीपुलवैठळे तिहां आवे तिहां आवीने क्रीधकारी घणुं क्रोधाकुल  
रीसकरीने तेमाकंदीनापुलाप्रते घणुं कठिनकठोरनिठुरबचनेकरी इमकहती ऊइ हंभोअरेरेमाकंदीपुलो जोतुहेसुभसाथे विपुल

श्रीहस्तौयस्याःसातथा रत्तगंडमंसुयाइंति रत्तौरंजितौगंडौचैस्त्वानि रत्तगंडानितानिस्मत्प्रू णिष्कृचकेशाथयोस्ते रत्तगंडस्म शुकैकेमा  
उयाहिंउवसोहियाहिंति इहमाउयाओ उतरोमाणिंसंभाब्यंते अथवामाउयासख्योमातरोवाताभिः उपशोभितेसमारचितकेशत्वा

रहतोतेअथिजौविद्यं अहस्यंनुभेमएसद्धिविडलाइंशोविहरहतोभेइसेणैणीलुप्पलगवलगुलियजा  
वखरधारैणंअसिणारत्तगंडमंसुयाइं माउयाइंउवसोभियाइंतालफलाणीवसौसाइं एगंतिपाडेमि

विस्तीर्णवषणाभोगकरिवाभोगविवाजोप्यते भोगप्रतेभोगवताछता विचरोरहो तोतेतुन्हानेच्छे जीवितजीविवुंछे अथवातुह्हे सुभक्त  
संघातेविपुलवषणाभोगभोगवताछता नहौंविचरोभोगनहौंभोगवो तोभेतुन्हाराइसेणंइंणं नीलाउत्पल्लुजमलसरिखीगवलकामावा  
भंसनामौंगसरिखीगुलीना वर्णसरिखीखुरधारैण छरपलानीधारसरिखीतीखी धारवंतएहवी असिणाक० खड्गतरवारिकरीरक्त  
रंग्याछेराताकीधाछेवेऊं गंडकपोलस्थल जेणैसूख्खदाढिनाकेशजेवेऊं जणाना माउयाक० उपिल्याहोठरोमकेशअथवामाउयाइं  
क०सहेलीतयामातेणीएउपशोभितकहतांसमा भलाचारनीपजाव्याकेशपणादिकेकरी उपजावीछे शोभाअथवासहेलीएभलानि

दिनाजनितयोभे उपशोधितेवानिर्म्सं लीकृते शिरसीमस्तकेच्छित्वेतिवाक्यशेषः जसुं देवाणुष्पिण्डत्वादिचक्रं च न प्रेष्याणामपि प्रेथ्यं देवा  
 बुप्रियावद्विष्यति उपदेक्ष्यति यदुतायमारुध्यः तस्मिन्निवस्यति आस्तांभवत्याश्चाज्ञावश्यविधेयतयादेशः उषपातः श्वेवावचननियमपूर्व  
 कश्चादेशएवनिर्देशकार्याणि प्रतिग्रन्थे कृतैयन्वियमार्थसुत्तरमेतेषां समाहारद्वंद्वः तत्रअथवाचहेवानां प्रियावद्विष्यतितस्मिन्निवस्यति

तएणंतेमागंदियदारया रयणदीवेदेवयाएअंतिएयमडुंसोच्चो णिसम्मभीयासंजायमयाकरयलजा  
 वएवंवयासौजस्यं देवाणुष्पिया वइस्सइतस्स आणउववायवयण णिइसेचिड्विस्वामोतएणंसारयण

सलकीधाच्छे ससुकमाथातेताडनाटक्षणाफलनी परिमाथाच्छेदीने एकांतिअलगानांखसुंजोमाहरोकह्योनकरोतो इमकसुंतिवारप  
 खीतेमाकंदीनापुत्रजिनपालजिनरक्खितवेज्जंभाइरतनदीवदेवतानासमीपने विषेणुपूर्वोक्तअर्थप्रयोजनप्रते संभलीने हीयामांहिअ  
 वधारीने वीहनाच्छताभयपास्याच्छता हाथजोडीनेइमकहताज्जआजसुंजेकाइदासनादासनो कामकरिबुंहेदेवानुप्रियाकहस्ये उप  
 देससुंइअथवाजेएआराधवायोग्यकामच्छे तस्सआणाक० तेहनोकामवेगलो रहो अन्हं तुम्हारीआज्ञाअवस्यनिश्चयकरि वापणेक

दीवदेवयतिमागंदियदारएगिरहइत्ता जेणेवप्रासायवडिसए तेणेवउवागच्छइरत्ताअसुभपोगला  
 वहारंकरेइ सुहपुगलपक्खेवंकरेइ तओपच्छातेहिसद्धिं विउलाइ भोगभोगाइ भुंजमाणौविहर  
 इकल्लाकल्लिंचअमथफलाइ उवणेति तएणंसारयणदौवदेवया सकवयणसंसेणं सुट्टिएणंलवणाहि

रीउववावयणक० सेवानावचननु नियमपूर्वकहिवं इमनिदेशक० कामकार्यकरीपाछं वलीप्रश्नकीधेच्छते जेनिरंतरतिहांनोउत्तरज  
 वावदेवोअणवोल्यारहिवुं नहीं एतले जेदेवतानीप्रियाकहिस्ये तिहांताहरीआज्ञाकारीछतारहिस्युं एतलेजिमकहिस्योतिसकर  
 स्याइममाकंदीपुलेकह्युं तिवारपछीरतनद्वीपनी रयणादेवीतेमाकंदीनापुलाप्रते ग्रहेग्रहीनेजिहांप्रासादावतंसकवरछे तिहांआवे  
 आवीनें माकंदीपुत्रनाशरीरमांहिथी असुभपाडुआपुजलानोअपहारनाशकरे पाडुआपुजलवाहिरकरीनें शुभभलाउत्तमरपुज  
 लनाप्रचेपकरे एतले भलापुजलयरीरमाहिलिकरीनें तिवारपछीरतनद्वीपदेवांगनाते जिनपालजिनरचितवेड भाईयांसंघा  
 तेविपुलघणाभोग भोगवतीछतीविचरेछे दिनदिनप्रतिइ प्रभातिप्रभातिप्रते अस्तफलप्रते आणीआपे तेवेड भाइ आहारकरेति

आदिरूपेस्थास्यामः वर्तिष्यामइति अमयफलाद् इति अन्वतोपमफलानि सक्रवयणसंदेशंति शक्रवचनंचासौसंदेशश्च भाषकांतरेण  
 देयांतरस्यस्यभणनं शक्रवचनसंदेशः तेनअशुचिकमपवित्वं समुद्रस्याशुद्धिमालकारकंपलाहीतिप्रक्रमः पृतिकंजीर्यंतयाकुथितप्रायंहु

वदृणालवणसमुद्देतिसत्तसुत्तो अणुपरियद्वियवेद् जंकिंचितत्यतणंवापत्तंवा कष्टंवाकयवरंवांअ  
 सुद्रं पूद्रयंद्दुरभिगंधमचोक्त्वं तं सव्वंआहुण्णीयति सत्तसुत्तोएगंतंपाडेयव्वंतिकट्टु, णिउत्तातएणंसा

वारपक्खीकेतलाएकदिवसगयापक्खी तेरतनहीपदेवांगनासक्रवयणकं शक्रसुधमं द्रनोवचनतेसंदेशकं संदेशोभाषांतरेकरीदेशांत  
 रनें विषे रच्छुं तेहसुं कहिवो तेशक्रवचनसंदेशकहिथे एतलेसुधमं द्रनें वचनेआदेशं करी सुस्थितदेवताइं लवणसमुद्रनें अधिपति  
 अधिष्ठायकतेणं आदेशदीधुं छे जेलवणसमुद्रतिसत्तसुत्तोएकविसवारफरिवो तिहांलवणसमुद्रप्रतें एकवौसवारफरीनें जेकांईतिहां  
 समुद्रमांहिटणाहुद्द वाअथवापानडाहुद्द वाअथवाकाएलाकडाहुद्द कचरोहुद्दवाअथवा असुचिकंअसुचिअपवितसमुद्रनें असु  
 द्विमालनो करणहारं पानडादिपूद्रयंपृतिकलूनापणं कच्छुं, दुरभिगंधक पाडूआगंधवंतएतलेसुं कच्छुं छे अचोक्त्वंकहतांअशुद्धअप

रभिगंधदुष्टगंधकिमुक्तं भवति अचोच्चमशुद्धं तिसत्तखुत्तोत्तित्तिभिर्गुणिताः सप्तत्रिसप्तत्रिसप्तवारस्त्रिसप्तकालः एकविंशतिवारानि

रथणदीवदेवयतिमागंदिथदारए एवंवयासीएवंखलु अहंदेवाणुप्पिया सक्कवयणेण सुद्वियतं चेवजा  
वणियुत्तांतजावअहंदेवाणुप्पिया लवणसमुद्धं जावपाडेसि तावतुभेइहे वप्पासायवडिसएसुहंसु

विलजेद्धतेसगलुं आऊणियरक० घंघोलीनें हलावीरनें वाहिरकाढीएकवीसवारसमुद्रसोधीनें कचरादिसगलों एकांतअलरुं  
नाखिवो इमकहीनें सुम्भनें आदेशदीघोछे सुस्थितदेवताई तेकारणथकीरतनद्वीपदेवतादेवांगनां तेमाकंदीनापुवाप्रतें इम  
सीखामणदेतीऊई एवंइणे प्रकारे खलुनिश्च अहंऊ हे देवानुप्रियोसुधर्मे द्रने वचने कहिवे करी सुस्थितनामादेवतां इ लवणसमुद्र  
सोधिवानी आजादीघोछे जेठुं एकवीसवारलवणसमुद्रसोधि एहवीआजादीघोछे तेकारणथकीजिहांताईऊ देवानुप्रियोलवणस  
मुद्रसोधीकचरादि एकवीसवार अलगानां खिवाभणीजाउ कुं लवणसमुद्रसुद्धकरिवाभणीचालं कुं जिहांलगीसमुद्रसुद्धकरीनाउं ति  
हांलगितुम्हेवेऊ जणाइहांजप्रासादावतंसकधरनें विषे सुखे समाधिसंपूर्णक्रीडाकरताछतारहिज्यो जोतुम्हे एअवसरनें विषे एवि

त्यर्थः एयं सितं रं सिति एतस्मिन्नवसरे विरहे वा उव्विगत्ति उद्विग्नौ उद्वेगवंतौ उपि त्यत्ति भीतौ पाठांतरेण उत्सु तौ भीतावेव उत्सु यत्ति उत्सु ककौ च स्वत्वमागमं प्रति तत्पणं दोल उद्व्यादि तत्र पौरुष्ये वनखंडे द्वौ ऋतुकालविशेषौ सदास्वाधीना वस्त्रित्वेन स्वायत्तौ तज्जन्यानां वनस्य प्रति विशेषपुष्पादीनां सद्भावात्तद्यथा प्राष्ट वर्षी रात्रश्च आषाढश्रावणौ भाद्रपदाश्लेषजौ चेत्यर्थः अनयोरेव रूपकालंकारेण वर्ण

हेणं अभिरसमाणा चिद्वृहजद्रं तु भे एयं सितं रं सिति उव्विगा उत्सु या वा उप्पु या वा भवेज्जा हताणं तु भे पुरत्यिमिह वणसंडगच्छे ज्जा हतत्यणं दोल उत्सु या सा हीणा तं जहा पा उसेय वा सारं चेत्यतत्थ कंदलसि

रहने विषे उद्वेगवंतया औ उत्सुक उता वलाया औ अमने आविवा प्रते उत्पलबीहो बीहवंतया औ बीहवंतया औ तो तुम्हे परवदिशि नावनखंडप्रते जाज्यो तिहांपूरवदिशि नावनखंडने विषे दोऋतुकालविशेषसदा सर्वदा स्वाधीनछतापणे पोताने आधीनछे तेवेळं ऋतुना उपनावनस्यति विशेषना फूलां दिकानि छता पणायकी तेजिमवेळं ऋतुकहेछे पाउसप्राष्टऋतुश्चासाढश्रावणर एवेळं मास नोकालवासारत्तावर्षीकालऋतुना भाद्रवो आसोवेळं मासनोकाल एवेळं ऋतुनो ज रूपकालंकारे करी वर्णवाभणी गाथाये कहेछे

नागीतिकाद्वयं तल्यञ्चोद्गत्यादि तलैवपूर्ववनखंडेनान्यतौदीर्घे पश्चिमेवेत्यर्थः कंदलानिच प्रत्यग्रलताःसिलिंध्राश्च भूमिस्रोटाःत्रल्ये त्वा  
 ऊःकंदलप्रधानाःसिलिंध्राः दृक्चविशेषाःयेप्राट्षिपुष्यंति सितकुसुमाच्चभवंतितेएव कुसुमिताः संतोदंतायस्य धवलत्वसावस्थ्यात्सुजां  
 दलसिलिंध्रदंतः इहचसिलिंध्राणां कुसुमितत्वविशेषणसामर्थ्याद्द्व्याख्यातं कुसुमाभावेतेषां प्राट्षोन्वत्वापिकालातरेसंभवादितितया  
 निउरोत्तिट्त्वविशेषः तस्ययानिवरपुष्पाणि तान्ये वपीवरःस्यूलःकरोयस्यसतया तथाकुटजार्जुननीपानि तान्ये वसुरमिगंधिदानंस

### सिलिंध्रदंतोत्तिउरंवपुष्पकपीवरकरो कुडयञ्जुणीवसुरभिदाणेपाऊसऊऊगयवरोसाहीणोऽतत्थयसु

तल्यतिहांजपूर्वदिशिनावनखंडने विषे कंदलक० तल्कालनीनीपनी लतासिलिंध्रक० भूमिफोडावलि हेडाछत्वाकारअथवाकंदल० प्र  
 धानसिलंध्रदृक्चविशेषसंदेशराट्त्वजेसंदेशराट्त्व आसादश्चावणमासनें विषे फूलेच्छे तेधोलाफूलवंतऊइ तेसंदेशराजफूल्याछतादंता  
 दंतूसलच्छजेप्राट्त्वकृतुकाल रूपीयाहाथीनांधोलापणानि सरिखापणायकीतेकंदसिलंध्रदंतकहीयेतथानिउरदृक्चविशेषतेदृक्चन० जे  
 रप्रधानफूलतेफूलरूपीया जपीवरजाडुमोटोकरसुंडादंडच्छेप्राट्त्वकृतुकालरूपहाथीनोतथाकुटजअर्जुननीपदृक्चविशेषतेदृक्चन० जे



दजलंयस्यसतथाप्राट्क्वतुरेवगजवरः प्राट्क्वतुगजवरःखाधीनद्वह्यिलिंघ्रादिवनस्य तीनाकालांतराकृतकुसुमानांसदाकुसुमिता  
नांभावादात्मवशोऽस्तीतिभावः १ तथातलैववनखंडेसुरगोपाद्द्रुगोपकाभिधानारक्तवर्षीः कीटास्त्रएवमणयःपद्मारागादयःतैर्विचित्रः  
कर्णुरोयःसतथातथा दद्वृरकुलरसितं मंडूकसम्हरटितं तदेवोक्त्वररवोनिष्कर्ष शब्दोयलसतथा तथात्रहिंणहृ'देनशिखंडिसम्बहेन  
परिणद्धानिपरिगतानिशिखराणि क्वतुपक्षेष्टसम्बन्धीनि पर्वतपक्षेकृटानियलसतथा वर्षीरालक्वतुरेवपर्वतइतिविग्रहःखाधीनः

### रगोपमणिविचित्तेदद्वृरकुलरसियुक्त्वररवोवरहिंणविंदपरिणद्घसिहरोवासारत्तज्जपव्वओसा

फलतरूपजसुरभिगंधदान मदगोपाणीकरेक्केजेहाथीने एहवोपाउसकजप्राट क्वतुकालरूपगजवरप्रधानहाथी खाधीनक्केइहां  
सिलिंघ्रादिवनस्य तीथानेकालांतरेकरी अणकीधाफूलानेहोवांथकी आपणने वसवत्तीक्केप्रथमप्राट क्वतुवर्षं नप्रथमऽक्षरायसंप्रण  
तथावर्षाकालक्वतुपर्वततेहि जपर्वदिथिना वनखंडनेविषे सुरगोपद्द्रुगोपनामारातेवर्षे किडातेहिज रूपमणिपद्मारागादिम  
णितेणेकरी विचित्ताकारेक्के वर्षीरालक्वतुपर्वत तथादद्वृरकुलरसितक० खंडकानुंसुहनुंरटितबोल्बुंतेहिजरूपउक्त्वर

हीणात्तत्पुत्रं तु भवेदेवाणुष्मिन्वावहु सुवावी सुयजावसरपंतिया सुयवहु सुअत्रालीयघर ए सुयजावकु सुमघर ए  
सुयसुहं सुहेणं अभिरसमाणात् विहरेज्जाहजद्रं तु भेतत्थ उव्विग्गा उ सुया उ पुया भवेज्जाहताणं तु भमेउत्त

वो निररुग्गानो शच्छे जेवर्षात्तु रूपपर्वतने विषे तथावरहिणुविंदक. सोरने समुहे करी पणिद्धव्याप्याच्छे शिखरजे पर्वतने विषे ऋतुप  
चेद्यत्तसवं धीपर्वतपत्ते कृट्टिशिखरच्छे पर्वतने विषे एहवावर्षाकाल ऋतु रूपजपर्वतस्वाधीनच्छेपोताने स्वाधीनघर्मां नातिहां होवायकी इति  
द्वितीयगाथा चरार्थसंपूर्णं तिहांतुम्हे हे देवानुप्रयो घणीवा विने विषे घणीवेलिनाघरने विषे तालगिजां एकसरोवरयकी पाणीनी कली  
धीजासरतलावसां हिज्जते सरोवरनी पालिनी अग्निने विषे वलीतां लगिजा कुसुमघरफूलानाघरने विषे सुखे समाधिद् भलीपरिरमता  
क्रीडाविनोदकरताकृता विचरज्योप्रवत्तज्यो क्रीडाकरज्यो वलीजोतुम्हे तिहांतुम्हे विषे उद्देगवंतयावोतो उत्तु कळं  
तावलायाओयम्हाराआवावाप्रते वाटजोवोतया तिहांवी हकंतयाओतो तिहांतुम्हे उत्तरदिषिवनखंडप्रते जाज्योतिहां उत्तरदिशिनो  
वनखंडने विषे वेत्तुनाकालसदासर्वदास्वाधीनत्त तापणे करीपोताने आधीनच्छे ते वेत्तुत्तुनानी पनां वनस्पतिविशेषनां फुलादि

स्वायत्तसङ्घर्माणां सर्वदा तत्र भावादिति ? वावीसु इत्यादि प्रथमाध्ययनवत् सरउय हेमंतोयत्तिकार्त्तिकमार्गशीर्षौषमाघौ चेत्यर्थः इहा  
पिगीतिका द्वयं तल्ल इत्यादि तत्रैवसनोवक्त्रप्रधानोवनस्यति विशेषः सप्तपर्णः सप्तच्छदः तयोः पुष्पाणि सन् सप्तपर्णानि तान्येव ककुदं स्नान्ध  
देशविशेषो यस्य स तथा नीलोत्पलपद्मनलिनानि जलजकुसुमविशेषास्नान्येव षड्गेयस्य स तथा सारसाश्चक्रवाकाश्चपत्रिविशेषास्त्रोषार

रिङ्गं वणसंडं गच्छेज्जाह तत्थणंदोऊऊसाहीणातं० सरदोय हेमंतोयतत्थ उरणसत्तवस्यकञ्चोहोणी  
लुप्पलपउमणलिसिंगोसारसचक्रवायरसियघोसोसरञ्चोगोवईसयासाहीणोतत्थयसियकुं दधवल

कानेच्छतापणायकी लेवेहृत्तुकहेच्छे शरत्तत्तुकालकार्त्तिक ? मार्गशिरवेळं मास हेमंतत्तुकालपोसमाहएविल्डं मासनीकालइहं  
पणियाथाक० तत्थतिहाउत्तरदिशिनानवनखंडने विषे जसनक० वल्कलप्रधानवनस्यतीविशेष सत्तवस्यसप्तपर्णं च विशेषतेवेळं नाफल  
तेहिजरूपककुदखाधानोदेशविशेषेच्छे जेशरदकालरूपवलधनी तथानीलोत्पलकमलपउमपद्मकमलनलिनकमल एसर्वपाणीयकीनीप  
नाकमलफूलविशेषतेहिजरूपसिंगसौंगडावेच्छे जेशरत्कालरूपीयावलदनी एहवोशरत्कालरूपवलदके तयावलीतेत्तुवलदकेहवो

त्रियंतिरतंतदेवधोषो नर्दितं चस्यसतथा शरद्वतुरेवगोपतिः गवेन्द्रः शरद्वतुगोपतिः स्वाधीनस्तथैव तत्रचवनखंडेसितानिधानिकुन्दानि  
कुन्दाभिधानवनस्यतिकुसुमानितान्येव धवलीज्योत्स्नाचन्द्रिकायस्यसतथा पाठांतरेसितकुंदविमलजोएहोत्तिस्यष्टं कुसुमितोयोलो  
भवनखंडः सएवमंडलतलं विवंचयस्यसतथा तुषारं हिमंतत्प्रधानायाचदकधारा विंदुप्रवाहास्ताएवपीवराः स्थूलाः कराः किरणायस्यसत

जोहो कुसुमितलो द्ववणसंडमंडलतलो तुसारदगधारपीवरुकोरो हेमंतऊऊससीसयासाहीणोऽत

छे सारसचक्रवाकपंखीया तेहानारसिच शब्दतेहिजरूपधोषशब्दत्वाववउंछे जेसरकालरूपवलदनुं एहवोशरत्कालरूपजगोपति  
गायानोपतिस्वामीसांडवलद सदासर्वदास्वाधीनछे इतिप्रथमगाथाद्वरार्थसंपूर्णः शरत्कालवर्णनं तिहाउत्तरदिशिनानवनखंडने  
विषेसितधोलाजेकुंदनामावनस्यतिनाफूल तेहिजरूपधवलाधोलीज्योरत्ना चंद्रिकाचंद्रमानीकातिछे जेहेमंतऋतुरूपचंद्रमानी  
कातितेहेमंतऋतुरूपचंद्रमाकेहवोछे कुसुमितफूलवंतफूल्यो जेलोध्रलोदरनोवनखंडतेहिजरूपमंडलतलमाडलोविवंछे जेहेमंतऋ  
तुरूपचंद्रमानी तथावलीहेमंतऋतुरूपचंद्रमाकेहवोछे तुसारतुषारहिमतेप्रधानमयजेदगधारा पांणीनीधारापांणीनाविंदुआ

था हेमंतऋतुरेवशशी चन्द्रइतिविग्रहः स्वाधीनस्तथैव २ वसंतेगिन्हे यत्तिफाल्गुनचैत्रवैशाखज्येष्ठीचेत्यर्थः तत्पञ्चदश्यादिगीतिकाद्

त्यणंतुभेदेवाणुप्प्रया वावीसुयविहरिज्जाह जद्रणंतुभेतत्थविउव्विगावा जावउसुयावाभवेज्जाह  
ताणंतुभेअवरिख्वणसंडगच्छेज्जाहतत्थणंदोउऊसाहीणांतंजहावसंतैयगिग्हेयतत्थओसहकार

नाप्रवाहतेहिजरूपीपीवरमोटाजाडाकरकिरणछे' जेहेमंतऋतुरूपचंद्रमाना एहवोहेमंतऋतुकालरूपीयो शशीक०चंद्रमासदासर्व  
दासदैवस्वाधीनछे' तिमजपर्वलीपरिंद्रतिहेमंतऋतुवर्णनद्वितीयगाथाचरार्थःसंपूर्णः २ तिहांउत्तरदिशिनावनखंडने' विषंतुम्हे हे  
देवानुप्रियोरमताक्रीडाकरताबननीशोभाजोता घणीवाविने' विषे' घणीवेलिनावरने' विषे' घणीसरोवरनीअग्निने' विषे' सुखेसमा  
घिक्रीडाकरताछतारहिज्यो अने' जोतुम्हे उत्तरदिशिना वनखंडने' विषे' उद्वेगवंतथाओसुहावे' नहीं वीहोउतावलाउल्कंठितअमा  
राआविवानीवाटजोवाऊतावला याओतिहां सातापामोनहीं तोतुम्हे पछिमदिशिनावनखंडप्रते' जाज्यो तिहांपछिमदिशिनावन  
खंडने' विषे' ऋतुनोकालसदैवस्वाधीनछताप्रणे' करी पीताने' आधीनवशवर्तीछे' तेवेह्' ऋतुनानीपनावनस्यतीविशेषनांफुलांदिवा

यंतवैवसहकाराणिचूतपुष्पाणितान्ये वचारुहारोयस्यसतथा किंशुकानिपलासस्यकुसुमानि कर्णिकाराणिकर्णिकारस्यश्लोकानिवा  
अशोकस्यतान्ये वसुकुटंकिरीटंयस्यसतथा उच्छ्रितंउन्नतंतिलकत्रकुलानि तिलकबकुलकुसुमानितान्ये वातप्रतंछत्वंयस्यसतथा वसन्त ऋ  
तुर्नरपतिःखाधीनःप्रतीतं । तत्रचपाटलाशिरीषाणि पाटलाशिरीषकुसुमानितान्ये वसलिलं यत्सतथामल्लिकाविचकिलौवासन्ति

चारुहारोकिंसुयकणियारासोगमउडो असियतिलगवडलालावत्तोवसंतउज्जरवईसाहीणोतत्य

नें छतापणाश्रकी तेजिमश्रुकमेकहेछे' वसंतऋतुतेहनामासफ्फागुणचैतएवैऊं सासनोकालि०श्रीश्रुऋतुतेहनामासफ्फागुणचैतएवै  
हंमासनोकाल इहांपणिवैऊं गाथाकहेछे' तिहापछिमदिशिनानवनखंडनें विषे जसहकारआंवानाफूलआंवानीभाजरतेहिजरूपचा  
श्मनोहरसहकारे' जेवसंतऋतुरूपराजाने' तेवसंतऋतुरूपराजाकेहवाछे' किंशुकपलासहचनाफूलनी अशोकहचनाफूलनोतेहिज  
रूपसुकुटमउडछे' जेवसंतऋतुरूपराजानोतथाउसियउच्छ्रितजं चोतिलकहचनाफूलवकुलहचनाफूलतेहिजरूपआतप्रतंछत्वेजवसं  
तऋतुकालरूपराजाने एहवोवसंतऋतुरूपनरयतिराजानाखाधीनछे' प्योताने' आधीनछे' इतिवसंतऋतुप्रथमगार्थः चपुनःवली

कालेताविशेषःतत्कु सुमानिमस्त्रिकावासंतिकानि तान्ये वधवलसितावेलाजलदृष्टिर्यस्यसतथा शीतलःसुरभिश्चयोनिनिलोवायुःसंप्वसृक  
रचरितंयत्तसतथाइहचानिलशब्दस्यअकारलोपःप्राकृतत्वात् अरसं रसं अलावुयंलावुयमित्यादिवत् ग्रीष्मःतुसागरःस्वाधीनइतिउ

यपाडलसिरीससलिलो मस्त्रियावासंतियधवलवेलो सीयलसुरभिश्चणिलमयरचरिय गिरुहऊऊ  
सागरोसाहीणो२ तत्थयंंबहुसुजाबविहरिजा जईयंतुभदेवायुष्यिया तत्थविउव्विगाउसुयाभवे

तिहांपक्किमदिशिने'विषे' ग्रीष्मकालःतु रूपससुद्रुक्के' तिहांपाडलद्वनाफूलतेहिज रूपसलिलपाणीके' जेग्रीष्मःतु रूपससुद्रुने' विषे'  
तथामस्त्रिकामालतीदृक्त्रविशेष वासंतिकालताविशेषतेहना फूलतेहिज रूपिणीधोलाधोलीवेलीपाणीनीदृद्विके' जेग्रीष्मःतु कालरूप  
ससुद्रुनीतथाशीतलताडुं' सुरभिसुगंधजेअनिलवायुरोतेहिज रूपमकरमत्वनोचरितचालिवुं'के' जेग्रीष्मःतु रूपससुद्रुने' विषे'एहवोग्री  
ष्मकालःतु रूपसागररससुद्रुस्वाधीनपोताने' वसवर्तीक्केइनिग्रीष्मःतु वर्णनद्वितीयगाथार्थसंपूर्णः'रतुम्हेधणीयाविवेलिनाधरफूलनवर  
तिहाने'विषे' सुखेसमाधिंरमतोक्तीडाकारताकृताविरज्योप्रवर्त्तज्यो जोतुम्हे हे देवानुप्रियोतिहाउद्वेगपामोसुहाइं नहीउतावलाया

गविषे इत्यादिउग्रदुर्जरत्वादिषु वस्यसउग्रविषः, एयं सर्वत्रनवरंचंडं भाटितिव्यापकत्वात् पाठांतरेतुभोगविषइति तत्रभोगः शरीरंस ए वविषयस्येतिघोरंपरंपरयापुरुषसहस्रस्यापिघातकत्वात् महत्तुजंबूद्वीपप्रमाणशरीरस्यापि विषतयाभावनात्काथान् शरीराणिशेषाही नामतिक्नातोतिक्नायः अतएवमहाकावः जहातेयनिसंगेत्ति शेषविशेषणानियथा गोशालकचरितेतथेहाध्येतथ्यानीत्यर्थः तानिचैता

ज्जाह तत्रोतुभमेजेणेवघासायवडिंस ए तेणेवउवागच्छे ज्जाह समंपडिवालेमाणाचिद्वे ज्जाहमाणं तुभदेवाणुप्पिया दक्खिणिल्लंवण संडगच्छे ज्जाह तत्थणंसहं एणेउगगविसि चंडविसेमहाघोरवि

ओअत्ताराआविवानीवाटजोतारहोभयपामोतोतिहायकीपाछावलीनें तुम्हे जिहां प्रासादावतंसकवरच्छेतिहांआविज्योआवीनेमाहरीवाटजोताछतासुक्कनेसंभारताछतारहिज्योवेसीनेपणिहेतुम्हेदेवानुप्रियोदच्चिणदिशिनावनखण्डप्रतंसतजाज्योएतलेसर्वथादच्चिणदिशिप्रतें जाज्योमास्यामाटितिहादच्चिणदिशिनावनखण्डनेविषमहामोटोएकउगगविसेआकरं दुःखेदोहिलुंजरवापणायकीविषकेजेसर्पनु'तेउग्रविषकहीयेएहवोसर्पंरहेछेवलीतेकेहवोकेतेसर्पकेहवोकेखातापच्छीचंडउतावलोविषपामवायकीचंडविषकेजेहनुघोरविष



निमसि महिषसूसाकालगेमपीच महिषश्चक्षुषाचस्वर्णादितापनभाजनविशेष इनिहं द्वएताएवकालकोयःसतथा नयणविसरोसपुखी  
 नयनविषेणदृष्टिविषेणरोषेणचपूर्णद्वित्यर्थः अंजणपुंजनिगरप्यगसे कज्जलपुंजानानिकरद्वप्रकाशतेयःसतथा रत्तये जमलजुयल  
 पंचलंतजीहेयमलंसहवर्त्तियुगलंहयं चंचलंचयथाभवत्येवं चंचलंत्योरतिचपस्योर्जिह्वयोर्चस्यसतथा धरणिजलवेणिभूधरणीतलस्येवे

सिमहाविसेन्द्रकाए महाकाएमसि महिससूसाकालए शयणविसरोसपुखे अंजणपुंजणियरप्य

नोधणीछेपरंपराइं करीहजारपुरषनाघातपणाथकीवलीमहामोटोविषछेजेसर्पनोमोटाजंबूद्वीपप्रमाणशरीरनेविषेपणेकरीथावाप्रणा  
 थकीव्यापवापणाथकीवलीबीजासगलासर्पानाकायशरीरदेहप्रतंअतिक्रांतउल्लंघ्योछेतेअतिक्रायकहीयेसगलासर्प्यांथकीमोटोकायछेश  
 रीरछेजेसर्पनोवलितेकेहवामसिमहिसभद्रं सोमूसासोनारनेसोनातपाविवानोठामविषेएहनावर्णसरिखोकोलोछेजेसर्पवली० नयन  
 विषेनेवानेविषेकरीवलीरोसेकरीपूर्णभस्योछेजेसर्पवलीतेकेह० अंजनपुंजकाजलपुंजठगलातिहांनोनिकरसमूहसरिखोप्रकासतेजछे  
 जेसर्पनोवलीतेकेहवोछेरातीवेआखेजेसर्पनीवलीतेकेहवोछेजमलसंघातंसहवर्त्तियुगलजोडलुं चंचलंतअतिषणुं चपलवेजीभछेतेसर्प

गिभूतोवनिताशिरसः केशवन्धविशेष इवयः कण्ठालदीपैत्वस्यपञ्चाङ्गागत्वादिसाधस्यीत्थतथा उक्कडफुडकुडिलजटु लककखडविगडफ  
डाडोवकरणादकखे उक्कटोबलवतान्ये नाध्वंसनीयत्वात् स्फुटोऽव्यक्तः प्रथमविहितत्वात्कटिलसत्स्वरूपत्वात्जटुलः स्तन्धदेशेकेसरि  
णामिवाहीनाकेसरसङ्गावात्कर्कशोनिष्ठुरोबलवत्वात् विकलञ्चविस्रीर्शोयः स्फुटाटोपः फणारंभः तत्कारणेदत्तोयः सतथा लोहागरधम्मा

थासेरत्तत्ये जमलजुयल चंचलचलंतजीहे धरशियलवेण्णिभूए उक्कडफुडकुडिल जडुलककखडविद्य  
डफुडाडोवकरणदक्खे लोहागारधम्म माणधमधमंतषोसो अणागलियचंडतिव्वरोसो समुहत्तरिज

नीवलीतेकेहवोहेधरणीतलभूमिनेवैणीभूतवैणीदंडसरिखोहेस्त्रीनामाथानोवैणीदंडसरिखोहेजेसर्पकालोलांबोसूहालोहेपाछिल्या  
भागपणादिक्केकरीखाईपणाथकीवलीतेकेह० उल्क'टबलवंतहेअनेरे' अध्वंसनीयअणमारिवापणाथकीफुटप्रकटउद्यमनाकरिवापणा  
थकीकुटिलवांकोहेतेहनास्वरूपपणाथकीजटुलजटाहेखांधानेभागनेविषेसीहनीपरिकेसरासर्पानेकेसरांनछता पणाथकीकरकाड  
कठिननिठुरहेवलवंतपणाथकीवियडविस्रीर्शपड्डलोफुटस्फुटप्रगटफणारंसंभफणानोसम्बहतेकरवानेविषेदञ्जडाहोहेजेसर्पवली० लो

माणधमधमंतघोसेलोहाकारेध्मायमानसग्निनाताप्यमानंलोहमितिगस्यतेतस्येव धमधमायमानोधमधमेतिवर्णव्यक्तिमिवोत्पादयन्  
 घोषःशब्दीयस्यसतया अणगलियचंडतिव्वरोसे अनर्गलितोनिवारोनकलितोवाप्रमेयचंडस्त्रीव्रोत्यर्थं तीब्रोरोषोयस्यसतथेतिष्ठुमुहंतु  
 रियचवलंधमंतध्वनोमुखंश्वमुखं तस्यै वाचरणंश्वमुखिकाकौलियकस्यै वभषणंलंव्रितचपलमति चटु, लतयाधमन्शब्दयन् शब्द कुर्वन्चि

**चवलंधमंतं दिष्टीविसेसर्प्यं परिवसद्दुमाणं तुभेसरीगस्र वावत्तिभविस्सद्द तेमागंदियदारएदोच्चंपि**

हनोआकरउपजावानोथानकलो हारनीकउतेतेहनेविषे धम्मभाणाध्मायमानधमीतो अगनिद्वं करीतपाव्युं लोहतेहनीपरिधमध  
 मायमानधमधमएहवाशब्दनें प्रकटउपजावतोजहोइस्युं एहवो घोषशब्दसादच्छे जेसर्प्यंनोएहबोच्छे तथाबलीतेकेहबोच्छे अंतर्गलितअ  
 निवारितअनाकलनीय अप्रमेयचंडआकरोतिब्रघणुं कठिनरोसच्छे जेसर्प्यंनोसमुहंकं. षूनि कूतिरांतुं सुखतेहनीप्रिआचरणच्छे एत  
 लें कूतिरानीपरिवोलिबुं तेखमुखिकाकूतिरीकहीयेतेश्वमुखिका कूतिरीनाशब्दप्रतें तुरीयचवलंकहतां षणुं उताषलुं पणेंकरीधमं  
 तधमधमन्शब्दप्रतें करतोच्छे जेसर्प्यं एहवोदृष्टीविषसर्प्यं वसेच्छे रहेच्छे मानिषेधितिहांतुम्हाराशरीरनें अवाधामहोस्थोएतलेतिहांजास्थो

त्ययःसद् वृत्तिसुखलक्षणफलवृत्तता स्मृतिं वास्वरणमतिव्याकुलचित्ततया नलभतेस्मृतिंचित्तरमणं धिद् वृत्तिधृतिचित्तस्वास्थमि  
 तच्चंपि एवं वयद्भूत्तवेडिव्ययसमुग्याएणं समोहणइतां एडक्किडा एजावलवणससुद्दं तिसत्तक्खुत्तोअणु  
 परिचयेपयत्तायाविहोत्था तएणंतेभागं दियदोरयात्तओसुद्धत्तंतरस्वपासायवडिंसए सद्दं वारतिवा  
 धिद्दं वाअलभमाणा अस्समणं एवंवयासी एवंखलुदेवाणुप्पिया रयणदीवदेवयाअम्हेएवंवयासीए  
 तोतेसर्पखास्ये तेसाटेतिहासर्वथाजाज्ज्योमां सती तेसाकांदीनापुलजिनरक्खितजिनपालवेळं प्रते वेवारतीनवारइणेप्रकारे कहेकही  
 ने तेरतनहीपदेवता वेकीयससुद्दधातकरेएतले वेक्किचशरीरविकुरवे विकुर्वीने तेणीइ उत्तच्छीइ देवतासंवंधिगतिं करीजाइतांल  
 गिजांलअणससुद्दप्रते तिकखुत्तोतिणसातां परिअमणकरिवाप्रवत्तींइइ एतलेलवणससुद्दप्रते सोधवाउद्यमकरतींइइ तिवारपक्कीते  
 मांकांहीनापुत तिहायकी देवीगयांपक्कीसुद्धत्तांतर दोषडीमात्तनेसमेप्रासाहावतंसक देवीनाघनेविषे रहितासुखलक्षणफलवणप  
 णाप्रते रतिरमवुंक्कीडाकरवुंधृतिचित्तनो स्वस्थपणुअणलइताअणपामताअ्यता अन्येन्निवेळं जणामांहीमांहि इमकइताह्मआविचार

वंखलुअहंसकवयणसंदेसेणं सुद्विएणलवणाहिबइणजाववावत्तीभविस्सइ तंसेयंखलुअरुहंदेवाणुअि  
यापुरत्थिमिह्वं वणसंडंगमित्तएअणमससप्रडिसुणे तिजेणेवपुरच्छिमिह्वे वणसंडेतेणेवउगागच्छइ  
इत्तातत्थणंवावीसुय जावअालीघरएसुय जावविहरं तितएणंतेमागंदियदाराया तत्थिविसइं वाजाव

करताडअएवंइणप्रकारे' खलुनिचेअहोदेवानुप्रियो रतनहीपदेवताआपणवेडुं भाईप्रते' इमसीखदेतीऊइएवंइमपूर्वोक्तप्रकारे' ऊं  
रतनहीपदेवांगनाशक्रसुधर्म' इना वचनने' आदेशेअज्ञाइं करी सुस्थितदेवतालवणससुद्रनो अधिष्टायकदेवतातिणे' लवणससुद्रप्रते  
सोधिवानी आज्ञादीधीके ऊं जाउंछुं तुह्मे इहांउद्वे गवंतथाओतो पूर्वउत्तरपच्छिमदिशिना वनखंडप्रते' जाज्योपणिदक्षिणदिशि  
जाज्योमांतिहांतुम्हाराशरीरनेवाधाहोस्ये' तेमाटिंजाज्योमांएह्वीसीखामणदेईचालीके तेकारणथकीअयभलुंनिचे आपणंअहोदे  
वानुप्रियो पूरवदिशिनावनखंडप्रते' जईजोवाभणीप्रवत्तीय' एह्वोमाहोमाहिवेडुं भाईविचारकरेविचारकरीने' जिहापूरवदिशि  
नोवनखंडके तिहांअवेअवीनेतिहांवाविनेविषेवेलिनाघरनेविषेफूलनाघरनेविषेसरोवरानीअणिनेविषेखुखिसमाधिंरमताक्रीडाक

अलभमाणा जेणेवत्तरिक्षे वणसंडे तेणेवत्तवागच्छइत्ता तत्थणंवावीसुयजावआलीघरसुय जाव  
 विहरंति तएणंति मागंदिद्यदारगा तत्थविसइं वाजावअलभमाणा जेणेवत्तरिक्षे वणसंडे तेणेवत्तवा  
 गच्छइत्ता तत्थणंवावीसुय जावआलीघरएसुयविहरंति तएणंते मागंदिद्यदारगा तत्थणंक्सइं वा

रताळता विचरेच्छे प्रवत्तेच्छे तिवारपक्कीतेमाकंदीनापुत्रवेळुं भाई तिहापूरवदिशिनानवनखंडनेविषे रहितासुखनाफलप्रते रसिवुंचित्त  
 नुं स्वस्थपणुं अणपामता अणलहिताळता तिहाथकीनीसरीने जिहाउत्तरदिशिनो वनखंडच्छे तिहांआविअवीने तिहांवाविनेविषेवेलि  
 नाघरनेविषेफूलनाघरनेविषे सरोवरानीअेणनेविषेसुखे समाधिंरमताक्रीडाविनोदकरताळताविचरेप्रवत्तेच्छे तिवारपक्कीतेमाकंदी  
 नापुत्रवेळुं भाई तिहापूरवदिशिनानवनखंडनेविषे रहितासुखनाफलप्रते रसिवुं चित्तनुं स्वस्थपणुं अणपामता अणलहिताळता तिहांअ  
 कीनीसरे जिहाउत्तरदिशिनोवनखंडच्छे तिहांआविअवीने तिहांपणवाविनेविषे वाडीनेविषेवेलिनाघरनेविषे फूलनाघरनेविषेसरो  
 वरांनीअेणनेविषेरमता क्रीडाविनोदकरताळता तिवारपक्कीतेमाकंदीनापुत्र तिहांवनखंडनेविषेरहिताळता सुखनाफलप्रते रसि

जावजेणेवपञ्चत्यिमिस्त्रे वणसंभेतेरेवउवागच्छइत्ताजावविहरंति तएणंतेमागंदि यदारगातत्यविस  
इंवाजावअलभमाणाअणमणं एवंवयासौएवंखलुअरुहेदेवाणुप्रियारयणदीवदेवयासक्कवयणसंदेसेणं  
सुद्धिएणंलवणाहिवइणाजावमाणंतु भेसरीरस्सवावत्तीभविस्सइतंभविद्यब्बं एत्थकारणेणं तंसेयंखलु

वाप्रते'चित्तनास्वस्थपणाप्रने' अणपामताच्छतातिहायकीनीसरीने' जिहापच्छिभदिशिनोवनखंडच्छे तिहाअविअवीनेवावडीयादि  
कनेविषेविनोदकरताछतारहेच्छे तिवाएंतेमाकंदीनापुत्रतिदासाता सुखरमिबुं चत्तनु' स्वस्थपणुतेप्रते' अणपामताच्छतातिहारहिता  
छतामाहोमाहिइमविचारकरताह्वा जेइमपूर्वोक्तप्रकारे' खलुनिचेअपणवेहने' हेभाई हेदेवानुप्रियोरतनद्वीप देवतादेवागनास  
क्रसुधमे' इनावचनने' आदेशे'आज्ञाइ'कारी सुस्थितनामादेवतालवणसंसुद्रसोधिवानी आज्ञादीधीच्छेतेभणीहुंजाउंछुं तुम्हे इहाउद्वेग  
पामोतो पूर्वउत्तरपच्छिमदिशिनावनछंडनेविषे जाज्योपिणदंजणदिशिनावनखंडनेविषे जाज्योमांतिहाइष्टिविषसर्पेच्छे तेमाटे तुम्हा  
राशरीरनेअवाधापीडाहोस्ये एतले' दचिणदिशे'सर्वथाजाज्योमां' इमजेवारंवारकहीने' आपणने' वास्योच्छीये तेकारणथकीहोइवुं

तिआसयाइंतिआस्येसुखेपिहिंतिन्तिपिधत्तःस्यगततःआवतणंतिववस्थानंस्त्रलाइयगंतिम्बूलिकाभिन्नं कलुणाइंतिकरुणाजनक

अरुहंदक्विविण्लं वणसंडंगमित्तएत्तिकट्टु, अस्समस्सएयमडुंपडिसुणंति जेणेवदक्विविण्लेवणसंडेते  
 णेवप्रहारेत्यगमणाए तओरणंगंधेणिज्जाए सेजहाणामएअहिमडेतिवा जावअणिट्टतराएतएणंतेमा  
 गंदियदारयातेणं असुभेणुंघेणं अभिभूयासमाणासएहिंउत्तरिज्जेहिं आसाइंपिहेइत्ता जेणे

इहांकाईएककारणययोक्केपरंस्त्रीनावचननु'केहवुं'वेसास तेकारणयकीअेयभलुंखलुनिच्चे सहितआपणनेदक्षिणदिशिना वनखंड  
 नेजावाभणीप्रवर्त्तीये तोभलुंइमकहीने' अन्योन्यमांहेमाहिएपूर्वोक्तअर्थप्रयोजनप्रते' अंगीकारकरेअंगीकारकरीने जिहांदक्षिणदि  
 शिनोवनखंडक्केतिहापधारिवाभणीमनकरताऊआएतलेदक्षिणदिशिजावाभणीमनकरताऊआतिवारितेदक्षिणदिशियकीगंधनिजी  
 तप्रगटथयोउपनो तेकेहवोक्केगंधतेययानामजिस नामकोमलामंत्रणेअहिमडेतिवासर्पनांमडागानामडामडातेहनोजेहवो  
 अशुभगंधहईतेगंधयकीअनिष्टतरघणुं पाडूयोगंधक्के तिवारितेमाकंदीनापुत्रजिनपालजिनरक्खितवेह्णंभाईतेणेअशुभपाडूयेगंधेकरी



त्वात्कट्टाङ्गं तिकाष्टं दुःखं तत्र भवत्वात् विस्वराङ्गं तिविरूपशब्दस्वरूपत्वात् वचनानीति गम्यते कृजंतमव्यक्तं शब्दावमानं का कंदएत्ति

वदक्विणिल्ले वणसंडेतेणेवउवागयातत्यणंमहंणंआयतणंपासंतिअट्टियरासिसयसंकुलंभीमदरिस  
णिल्लं एकंचणंतत्यसूलाइयंपुरिसं कलुणाइं कट्टाइं विस्वराइं कुब्बमाणंपासइत्ताभीयाजावसंजा

अभिभूतपराभव्यापीड्या पोतानेनापआपणे उत्तरीयवस्त्रेउपरिओढवानेवस्त्रे करीआसाइकं सुखांप्रतेपि० ढांकिढांकीने जिहांदच्चि  
णदिशिनोवनखंडच्छे तिहवेज्जं भाईआव्या तिहांसोटोएकआयतणं क० वधयांनक जीवमारवानोठामतेवधयांनकप्रते' देखेतेकेहवुं छे  
अस्थिकराशिहाडानासस्सह ढगलानासइकडातेणेकरीसंकुलभस्योछे जेयांनकवलीतेकेहवुं छे भीमरौद्रभयकारीदर्शनीयं देखिवाजो  
व्यजेयानकनुएक तिहांसूलीइं पोयोसूलीबींध्योएहवोपुरुषप्रते' देखीकरणादयाउपजवापणाथकीदयामणोछेकष्टदुःखतेहनाउपज  
वापणाथकी दुःखीयोविस्वराइविरूपवोलवानास्वरूपपणाथकीविरूपवचनकूवमाणं कृजंतअप्रकटशब्दकरतो एहवाएकपुरुषप्रते' देखे  
देखीनेवीहनावाठासासपास्थाच्छता जिहांतेसूलीउपरिरह्योछे सूलीयेपरोयोबींध्योएकपुरुषछे तिहाआवेआवीनेतेसूलीइं परोया

यमथाजेणेवसेसुलाविएपुरिसेतेणेव लुवागच्छइइत्ता तंसूलाइयं पुरिसंएवंवथासीएसणंदेवाणुष्पिया  
 कस्वायतणेतुमंचणंकेकअोवाइहं हव्वभागएकीणेवाइसेथाखुवेआवइं पातिएतणंसेसूलाइएपुरिसेमाणं  
 दिद्यदारएएवंवथासीएसणंदेवाणुष्पियारयणदीवदेवथाआययणेअहणं देवाणुष्पिया जंबुदीवाओरभा  
 रहाओवासाओकाकांदिद्यए आसिवाणियएविउलं पणियभंडगमायाए पौयवहणेणं लवणससुइंउ

पुरुषप्रतें इमपूछताइआ वेज्जं भाईहे देवानुप्रियएसणं० एकेहवुं वधस्थानकच्छे मारिवातुयानकच्छे चपुनःवलीतुं कुणच्छे किहांयकी  
 इहांउतावलोआव्योच्छे किस्सिकामेआव्योच्छे केणेकुणेएहवीआपदाकष्टप्रतें पाओपमाओच्छे इमवेज्जं भाईएपूच्छो तिवारिपच्छीतेसू  
 लीइं परोयोपुरुष तेसाकंदीनापुत्ताप्रतें इमउत्तरदेतोइओ हे देवानुप्रियोरतनद्वीपदेवांगनानो वधयांनकच्छे इहांपुरुषानेमारिच्छे अ  
 हं० उं हे देवानुप्रियो जंबूद्वीपनासाद्वीपयकी भरतजेत्तयकीआव्योच्छं काकंदीनामानगरीनेविषे ऊपनोऊं तो वाणीयोव्यापारी  
 ऊं तोविपुलघणुं पणितभांडवस्तु क्रियाणाप्रतेलेईनें वाहणेकरी लवणससुद्रप्रतें चढो समुद्रमाचाल्योतिहा उतपातऊपनोवांह

यातएणं अहंपोयवहणविवत्तीए णिवुट्टु भंडसारे एणंफलगखंडं आसाएमि तएणं अहंउवुज्जमा  
 णारयणदीवं तेणंसंबूढो तएणंसारयणदीवदेवया ममंओहिणापासइत्ता मसंगिण्हंतिमएसद्धिं  
 विउलाइं भोगभोगाइं भूजमाणीविहरइ तएणंसारयणदीवदेवया अण्णयाकयाइं अहालज्जयंसि  
 अवरहंसिपरिकुवियासमाणी मसंएयाख्वं आवइयंप्राविंति तंणज्जइणंदेवाणुप्पियातुभंपिइमेसिं

एनें जोखमउपनोवाहणभागो तिवारिंज्जवाहणमांहिथी वुडिवालागोसगलुं भांडसारप्रधानवस्तुवूडो तिवारेहं एकपाठीयाना  
 खंडकटाप्रतें पामोलेइतेणेषाटीयाने खंडेवलगोतिवारिज्जं तरतोपाटीयेबलगो रतनद्वीपछे तिवहांआव्योतेणेषाटीयेवलगोरति  
 हायाहतागपाय्यापाटीउं सूंकीनें रतनद्वीपेउतया तिवारितेरनद्वीपदेवता देवांगना सुभ्रप्रतें अवधिज्ञानें करी देखेदेखीनेसुभ्र  
 पाये आवेआवीनेसुभ्रप्रतें लीधोलेइनेसुभ्रसंघातें विपुलविस्तीर्णघणा भोगभोगविवायोग्यएहवाभोगभोगवतीछतीविचरती प्रवर्ततीहइ  
 तिवारपच्छीतेरतनद्वीपदेवता एकदासमेएकदाप्रक्षारिं जेणेतेंणेषाटीकाइ एकअपराधज्जेतेतेदेवीकोपीछतीसुभ्र

सरीरगाणकामस्ये आवद्भयभविस्सद् तएणंतिमागंदियदारया तस्ससूलाइयगस्सपुरसस्स अंतिएएय  
 मडं सोच्चाणिसम्मवलियतरंभीया जावसंजायभयासूलाइयं पुरिसंएवंवयासीकहणं देवाणुप्पिया  
 अरुहेरयणदीवदेवया एहत्थाओसाहत्थियिण्णित्यरेज्जामो तएणंसेसूलाइएपुरिसे तेषागंदिएदारए

प्रतें आएहवीआपद कटप्रते पमाड्यो तेकारणयकीनजाणीये हे देवानुप्रियोतुम्हाराआशरीरने पणिकुणकेहवीइं आपदाकटउस्ये  
 एहवुं उं मानुं छुं जाणुं छुं एतलें माहरीपरिं तुम्हाराशरीरने कटहोस्ये एहवुं काहुं तिवारपच्छीतेजिनपालजिनरक्खित माकंदीना  
 पुत्रतेस्सलीइं परोयास्सलीउपरिरह्या पुरुषनासमीपनेविषेएपूर्वोक्तअर्थप्रतें साभलीनेहीयासाहिअवधारीने वलिष्टतरषणुं जवीहना  
 ताठावासपास्याऊपनाभवच्छता भयपाभ्याच्छतास्सलीउपरिरह्यापुरुषप्रतें वेहंभाईइसपूछताइआ हे देवानुप्रियहेपुरुषअहणुं किम  
 अरुहेरतवहीपदेवीनाहाययकी किमच्छुटिस्युं हिवेतुम्हेअमनें रतनहीपदेवीना हत्थाओहाययकीसाहत्थियं योतानें हायेंकरीनिस्ता  
 रवोउह्वरवोइसपूछ्योवेज्जंभाईए तिवारितेस्सलीउपरिरह्योपुरुष तेषाकंदीनापुत्राप्रतें इसकहतोसीखदेतोइओ हे देवानुप्रियोहेउ

काकां दीनगरीतङ्गवः उदाएत्तिउपथातः उपागतः अहालङ्गसर्गसिन्ति यथा प्रकारे लघुस्वरूपे उद्दिष्टत्तिअमावास्याआगयसमएत्तिआ

एवंवयासीएसर्गं देवाणुप्पिया पुरिच्छिमिह्ले वणसंडे सेलगसजक्खवायथणेसेलएणामं आसह  
 वधारीजक्खे परिवसइ तएणंसेलएजक्खे चाउइसइसुद्दिइपुणमासिणीसुआगयसमएपत्तसमएसह  
 याइसइहंणं एवंवयासीकंतरायामि कंपालयामितंगच्छणंतुभेदेवाणुप्पिया पुरिच्छिमिह्लं वणसंडं  
 जेणेवसेलगसजक्खसमहरिहंपुण्णच्चणियंकरेह जक्खपायवडियापंजलिओ डाविणएणंपज्जुवास

तमपुरषोएसर्गंआ प्रत्यक्षपूरवदिथिनोवनखंडछे तिहासेलकनामायत्तनुं व्यंतरनुं यच्चायतनदेहरंथानच्छे तेदेहरामां हिसेलक  
 नामायत्तआसरूपधारी धोड़ानारूपधारीयत्तवसेछेरहेछे तिहातिसेलकयत्तः चउदिथिआठमिउद्दिष्टा कहताअमावस्यापूरुष्मिमापू  
 निमएच्यारतिथिनादिवसनेविषे आसन्नीभतढ कडोअवसरच्छे जेयत्तनोवलीसात्तातपास्योछे अवसरजेयत्तनुं तिवारे तेमोटेशब्दे क  
 रीइमकहेछे सेलकयत्त कुणप्रते उं ताए उइरू कुणप्रते हंपालुंइमबोले तेकारणयकीजाओतुम्हे देवानुप्रियोपूरवदिथिनुं वनखंड

सन्नीभूतोऽवत्सरोयस्यसद्दृत्यर्थः प्राप्तस्तुसाक्षाद्देवहत्याउत्तिहस्ताद्भवः तद्गृहणप्रयत्नात् साहस्यं तिस्रहस्तेनसिंगारेहिंतिहृङ्गारो

माणाचिद्वृहजाहिणंसेसेलएजकखे आगयसमएप्रत्तसमएएवंवएज्जाकंतारथाभिकंपालयाथासिताहे  
 तुभमेवयहअग्नेतारयाहिअग्नेहेपालयाहि सेलएजकखे परंरयणदीवदेवयाओ हत्याओसाहल्यिणि  
 थ्यारेज्जा अणहभेणयाणामि इमेसंसरीरगाणंकामखे आवइभविस्वइतएणं तेमागंदियदारया

जिहांछे तिहाजइनें सेलकयच्चनें महरिहंषणुयोग्य एहवीफलनीअर्चापूजाकरोतुम्हे पूजाकरीनें पछेसेलकयच्चनेंपगेलागोपगेपडो  
 प्रांजलहाथजोडी विनयकरीपर्युपासनासेवाकरताछता रहिज्योतिहविसेरीरहिनें जिहाजिवारेसेलकयच्चव्यं तरआविवानो ठूकडो  
 अवसरछे जेयच्चनोसाक्षातपहं तो पास्योथयोछे अक्सरजेयच्चनुं तेयच्चइमकहेवोलिकुणप्रतेहंताकं उद्धरं कुणप्रतेहं पालुं इमकहे  
 तिवारेतुम्हे इमकहिजो अग्ने वेहंनेतुं तारिउद्धरि अहो वेहंनेतुं पालिहेस्वामिन् इमकहिजोतिवारेसेलकयच्चपरं घणुं रतन  
 द्वीपदेवी नाहायथकी सेलकयच्चसाहल्यिपोताने हाथेकरीनिस्वारस्ये पारउतारस्ये इमकरस्योतोइहाथीनीसरस्यो अन्यथाभेतुम्हा

तस्ससूलाद्रयस्सपुरिसस्सञ्चंति ए एयमट्टं सोच्चाणिसम्मसिग्घं चंडं चवलंतु रियचेइयंजेणेवपुरिच्छिमि  
 ल्लेवणसंडेजेणेवपोक्खरिणी तेणेवउवागच्छइत्ता पोक्खरिणिण्डगाहिइत्ता जलमज्जणंकरेइत्ता  
 जाइं तत्थउप्पलाइं जावगिण्हंतित्ता जेणेवसेलगस्सजक्खञ्ज जक्खायणेतेणेवउवागच्छइत्ता आ  
 लाइएप्रणामंकरिंति महरिहंपुफ्फञ्चणियंकरिंति जक्खाप्पायत्रडिया सुस्सूसमाणाणमंसमाणाजा

नेहंनजाणुं आएहवाशरीरनें कुणआपदाकटहस्ये एहवुं हंजाणुं छुं मातुं छुं एदेवीमहापापिणीं छे इमकच्चुं तिवारितेमाकंदीना  
 पुत्रवालकतेस्सलीउपररह्यापुरुषना अंतिकसमीपनेविषेएपूर्वोक्तअर्थवार्त्ताप्रतें सांभलीनेहीयांमाहिअवधारीनें तिहाथीउतावलाचं  
 डरोद्रचपलवरितवणुं उतावला एहवीगतिकरीजिहंपूरवदिशिनो वनखंडछे जिहंपुष्करिणिवाविच्छे तिहांआव्याअवीनेपोष्करि  
 णीवाविप्रतें अवगाहेप्रवेशकरेप्रवेशकरीने जलमज्जनकरेकरीने जेतिहांवाविमांहिउत्पलकमलछे तेकमलग्रहेलियेलेइनेजिहां  
 सेलकयत्तनोयत्तायतनदेहरं छे तिहाआव्याअवीने सेलकयत्तजोइदेखेदेखीने प्रणामकरेप्रणामकरीने मोदीघणुं योग्यपुफ्फूल

वपञ्ज, वासंतितएणसेसिलएजक्खे आगयसमएप्रत्तसमए एवंवयासीकंतारयासिकंपालयासि तएण  
 नेसागंदियदारयाउट्टाएउट्टेइ करयलजावकट्टु, एवंवयासीअरुहेतारयाहि अरुहेपालयाहितएणसे  
 सेलएजक्खे तंसागंदियदारयं एवंवयासीएवंखलुदेवाणुप्पिया तुभमेसएसद्धिलवणससुद्धं मउभंमउभे  
 णंवीइवयमाणं सारयणदीवदेवयापावाचंडा रुद्धाक्खु, हासाहसिया वड्डहिंखरएहिहयमउएहि

नीअर्चापूजाप्रतें करेकरीने सेलकयच्चनें पगेपद्यापगेर ह्याच्छता सुअषाकरताच्छतानमस्कारकरताच्छता तालगिजांसेवाकरेच्छे तेहवे  
 तिवारितेसेलकयच्चआविवानो ठूकडोअवसरच्छेजेयच्चनोसाच्चात्अवसरआव्योच्छेसमयच्छे तिहांतेयच्चइमकहतोऊओ कुणप्रतें ताएं उ  
 द्दरं कुणप्रतें हं पालुंइमवोलतोऊवो तिवारितेसांकंदीनापुत्रउद्याउभायथा उठीउभायइनेवेऊं हायजोडीमाथेचढावीकरीनें इमक  
 च्छताऊआअम्हेवेऊं भाईनेतुं तारिउड्डरि अम्हनेतुं पालिराखिइमकह्युंवेह्मंभाइएतिवारिवलतुं सेलकयच्च तेसांकंदीनापुत्रजिनपाल  
 जिनरक्खितप्रतें इमसीखदेतोहओएवंइमआगलिकहिस्ये सीखदेस्येतिणप्रकारे खलुनिच्चे हेदेवानुप्रियोतुम्हेसुअसंवाते कवणस



भैः कामो लोचकैः कर्णैः सायैव उपसर्गैः रुद्रवैर्वचनचेष्टाविशेषरूपैः अवयवखयहअपेक्षय सएसच्चिं हसियाणि इत्यादि इहक्तप्रत्ययो

यत्रणुलोमेहियपडिलेमेहिय सिंगारेहियकलुणेहिय उवसगोहियउवसगं करेहिंति तंजइणं तुभे  
देवाणुप्यियारयणीवदेवयाए एयमठुं आढाहवापरियाणहवा अवक्खएहवातोभे अहंपिड्डाओवि

सुद्रमां हिथईने व्यतीकमताजाताछताने तेरतनद्वीपदेवीपापिणी चंडालिनीचरोद्रीक्षुद्रणीसां हसीकयीषणखरकठोरकठिनवचनेक  
रीषणैः सुकुमालवचनेकरी षणैः अतुलोमसुखकारीमनगमतेवचनेकरी प्रतिशूलअसुखकारीमनने अणगसतेवचनेकरी षुंगारना  
रससहितकंदर्पनाउपजावणहारा एहवावचनतेणेकरीकरणदयानवचन तेणेकरीने इत्यादिषणावचनकहीने पाछवलीलारआव  
स्ये दोडीने षणांमीठारवचनकहिने तुम्हने उपद्रवकरिस्थेतेमाटेजोतुम्हने हे देवातुभियो रतनद्वीप देवता देवीने एपूर्वोक्तावचननाअथ  
अते चादरदीयोआदरस्यो जोषणुं विषे षयीजांणस्यो सांछसुं जोस्यो आत्तेपकरस्यो वलतुं मनकरस्यो देवीऊपरितोभोभवता तुम्हांनेह  
पुठिवांसांथकीधूणीधंधोली पेसवीनांखसुं अमवाजोतुम्हने रतनद्वीपदेवीना वचनरस्याहस्याविनोदकीधाभोगभव्या एवचननाअ

ऊर्णामिअहसं तुभमेरयणदीवदेवयाए एयमइंणोआटाहणोपरियाणह णोअवयक्खहतोभेरयणदो  
वदेवयाहत्याओसाहत्थिणत्थारवामि तएणंतेसागंदियदारया सेलगंजक्खं एवंवयासीजखं देवाणु  
प्पियावइसंतितस्सणंउवायवयणणिइसे चिडिस्सामोतएणंसेलएजक्खे उत्तरपुरिच्छिमंदिसीभागं  
अवक्कमइत्ता वेउव्वियससुग्घाएणं समोहसइत्ता संखेज्जाइं जोयणइं दंडंणिसरइदोच्चंपि तच्चं

धप्रयोजनप्रते' जोनहीं आदरोनहीं मानोनहीं जाणो देवीसाहसुनहीं जोवो देवीनावचननो आक्षेपनहीं करो सर्वथा ते मनमानहीं  
धरो जो तुम्होंने रतनही पनी देवीना हाथयकी पोताने' हाथिइं करी निखारं छुंपारि उतारं' ह्' इमसे लकय च्चे सीखदी नीति वारिव  
लतुं ते माकंदीनादारकपुत्र सेलकय जप्रते' इमकहता उवाजेणे प्रकारे' हे देवानुप्रियतुम्हें कहि स्यो तुमे तिम करि स्यो तुम्हें तुम्हारी ताहरी  
सेवाकारी वचननी आजाकारी अमेरहि स्युं इमकह्युं तिवारपछी सेलकय च्च ईशानकूणिना भागदेशप्रते' जाई जईने' वेकीयससुग्घाते'  
करी वेकियथरीरकरे उत्तरवेकियरूप करीने' संख्याता योजनताई' दंडप्रते' करे एतले' आत्मानाप्रदेसदंडाकारे' दंडरूपमोटा रूपविस्त्ता

पिवेउच्चियससुग्धाएणंसमोहसुद्भ्रत्ताएगंसहंआसख्वंविउव्वद्भ्रत्ता तेसागंदियएदारए एवंवयासी  
हंभोसागंदिआआरुहणंदेवाणुप्पिया मसपिट्ठिंसितएणं तेसागंदियदारया हृदुड्ढासेलगससप्रणा  
संकरेद्भ्रत्ता सेलगसपिट्ठिं दुख्ढातएणंसेसेलएजकवे तेसागंदियदारएदुख्ढे जाणित्तासत्तइतालप  
माणसेत्ता उडुंवेहासंउप्पयद्भ्रत्ता ताएउक्किडाएतुरियाए दिव्वयाएदिव्वगइए लवणससुद्धं मउभंम

देवीजीवारलीजीवार वेकियरूपवेक्रीयससुदघातें करी उत्तरवेकियरूपकरेउत्तरवेक्रीयरूपवीकुर्वीने एकमोटोषोडानोरूपविकुर्वेविकु  
र्वीनेतेसाकंदीनापुलांप्रते इमकहतोहृओहंभोसाकंदीपुलोआरुहोचढो हेदेवानुप्रियोमाहरीपीठवांसानेविषे चढोइमकह्युं तिवारि  
तेसाकंदीनादारकपुल हर्षसंतोषपाय्याकृता सेलकयच्चनें प्रणामकरे प्रणामकरीने शेलकयच्चष्टिवांसाप्रते चढ्या तिवारपच्छीतेसेल  
यच्चतेसाकंदीनापुलांप्रते वांसाउपरिचढ्या जाणीनेसातआठताउप्रमाणमात्र उ चोआकाशनेविषेउतपतेउडे उछीने उछलीनेतेणी  
इंतेहवीइ उक्कृष्टीइ वणुउतावलीदिव्यप्रधानदेवतासंबवीएहवीदेवतांनीगतिं करीलवणससुद्भ्रमांहियईने अिहांजंबुहीपनामादीप

जन्मे णं जेणेव जंबुद्वीवेऽ जेणेवभारहेवासे जेणेव चंपाण्यरीतिरेवपहारित्यगमणाएतएणंसारयणदोवदेव  
 यालवणसमुद्दंति सत्तखुत्तोअणुपरियदुइजंतत्यतणवापत्तंवाजावएणं तेपडेइजेणेवपासायवडिंसएते  
 णेवउत्रागच्छइइरततिमागं दियदारयापासायवडिंसए अपासमाणोऽजेणेवपुरिच्छिमिस्सेवणसुंडेजाव  
 सब्वओसमंतामग्गणवेसणंकरेइइरत्तातएणंतेसिंमागं दियदारगाणंकत्थइसुइं वाऽअलभमाणोऽजे

नेविषेजिहांभरतत्तेवच्छे जिहांचंपानगरीच्छेतिहांतिणिइंदिसें पधारवाभणीजावाभणीमनकरताह्वा विणेंजणातेचात्यापच्छीते  
 रतनद्वीपदेवतालवणसमुद्रप्रते' एकवीसवारपरिभ्रमणकरेएकवीसवारफिरीरसोधि जेकाईतिहांसमुद्रमांहित्वाणंउइ पत्वपानडाक  
 चरोतेसर्वअपवितवस्तुउद्धरीलेईने एकांतेअलगानाखेजिहाप्रासादावतंसकवरच्छे तिहांआवीतिहांआवीने तेमाकंदीनापुत्रजिनपा  
 लजिनरक्खितवेह्णं प्रते' प्रासादावतंसकवरनेविषे अणदेखतीच्छनीजिहांपरवदिशिनोवनखंडच्छेतिहांजईवनखंडनेविषे तालगिसगलि  
 दिशि विदिशिपयंतचउफेरजावाभणी गवेषणाकरेएतलेसगलोवनखंडजोइकरीने' ठामिरजोयापिणतिहांते माकंदीनापुतांनीकि

णेवउत्तरिह्येवणसंडेएवंचेवपच्चत्थिमिह्ले विजावअपासमाणी ओहिपडंजइ२त्तातेमागंदिथदारए  
 सेलएणंसद्विलवणसमुहंसउभंसउभोणंवीइवयमाणेपासइ२त्ताआसुरत्ता४असिखेडगंगिरहइ२त्तास  
 त्तइतालप्पमाणसेत्ताजावउप्पयइ२त्ताताएउक्किडाएजावजेणेवमाणंदिथदारयातेणेवउवागच्छइ२  
 त्ताएवंवयासौहंभोमाणंदिथदारयाअप्पत्थियपत्थियाकिसुंतुभेजाणहमभंविप्पजहायसेलएणं

हांईश्रुतिमात्रवात्तांमात्रअणलहतीअणपामतीछतीजिहांउत्तरदिशिनोवनखंडेत्तिहांजोयापिणलाधानहीइणंप्रकारंचेवनिच्च  
 पच्छिमदिशिजोयासगलेचोउफेरजोयातिहापणिअणदेखतीछतीदेवीअवधिज्ञानप्रतेतेमाकंदीनापुत्ताप्रतेतेसेलकयत्तसंघातेलव  
 णससुट्टमांहियइनेलवणससुट्टमांहियईनेजाताप्रतेदेखेदेखीनेघणुकोषाकुलयईछतीतरवारिखेडुंएवेडुंग्रहेलियेलेइनेसातआठता  
 डप्रमाणउंचीआकाशनेविषेउतपतेउतपतीनेउडीनेतेणीतेहवीइउत्कृष्टीचपलाचंडादेवतासंबंधीगतिकरीजिहांमाकंदीनापुत्त  
 ससुट्टमध्येइलेजायछेतिहांआवेआवीनेइणंप्रकारेआगलिकहिस्सेतिभंक्कहतीऊइहंभोअरेरेमाकंदीपुत्तोअप्रार्थानाप्रार्थणहारोअ

अवश्ये शांसद्धिं लवणसमुद्दं सउभंसउभेणं वीईवयसाणातं एवसविगएजइणं तुभेससंअवकव्वहतोभेअ  
 त्थियजीवियंअहसुं शोवयकव्वहतोभेइसेण्णीलुअलगवलजावसिसाइं प्राडेसितएणंतेसागंदियइार  
 चारयणदौवदेवयाए अंतिएएयसडुंसोच्चा णिससत्ताअभियाअतत्याअणुव्विग्गाअकव्वु भियाअसंसंअंतर  
 यणदौवदेवयाए एयसडुं शोअटाटति शोपरियाणंतिशावयकव्वंति आणाठाचसाणा अप्रारिअवकव्व

णावांख्यामरणवांछणहारोस्युं, तुह्णे जाणोछोजेसुअप्रतें विप्रजहायक० परिहरीने सेलकचक्षसंघातेलवण समुद्रमांहियईनेजावो  
 छोतोइणंप्रकारेजातेगयेच्छते जोतुह्णे सुअप्रतें अपेबाकारस्योवांछस्यो तोतुह्णेजीवितव्यजीविवुं छेअन्यथाजोभाहणं कहणुनहौंकारो  
 तोतुह्णारामाथाइणेनीलाकमलसरिखी भइंसानासौंगडासरखीए हवीकालितरवारि तेणेकरीभायाछेदीनेएकातिपाडुंछुं नाखुंछुं  
 इमकह्यंतिवारितेसाकदीना पुलरतनद्वीपदेवीजा समीपनेविषे एपूर्वीकअर्थप्रतें साभलीने हीयामांहिअवधारीने अवीहताछताअ  
 तासपास्याछताअणउद्देगवंतथयाछता अखोभनापाय्याछता असंआतथयाछतावलतो रतनद्वीपदेवीनावचननाएअर्थप्रतें आदरेन

यमाणासिलएणं जक्वएणं सद्धिं लवणससुहं मज्जंमज्जेणं वीतीवयंति तएणंसारयणदीवदेवया  
 तैमागंदियदारया जाहेणोसंचाएद्र बज्जहिंपडिलोमेहिय उवसग्गेहिय चालित्तएवाखोभित्तए  
 विहोत्या हंभोमागंदियदारयाजद्रगं तुभोहंदिवाणुप्पिया मएसद्धिं हसियाणियरसियाणियल  
 हींचित्तधरेनहीं जाणेनहींसाहोजोवेनहीं पाळोत्तरदीधोनहीं अणादरेताळताअणओलखितसरखीयद्रजांणी साहसुंअणजो  
 ताळतासेलकयबसंघाते लवणससुद्रमांहियईने जायळेचालेळेतिवारितेरतनहीपदेवी तेमाकंदीनापुत्रजिवारे'बोलेनहीं आदरदीये  
 नहींसाहोजोवेनहीं घणाप्रतिकूलचसुखकारीमने' अणगमताएहवाउपसर्गउपद्रवनावचनेणेकरी घलावाभणीखोभयमाडिवा  
 भणीमननोपरिणामपलटवाविवाभणी समर्थनऊइतिवारिवलीमधुरमीठेवचनेकरी अंगाररससहितवचनेतेणेकरी करुणादयाम  
 यावचनेतेणेकरी उपसर्गउपद्रववचनेचेष्टातेणेकरी एहवेवचनेकरीउपसर्गउपद्रवकारिवाभणी प्रवर्ततीउद्यमकारतीबोलतीइईहंभो

भावेतस्यचोपाधिभेदेनभेदस्य विवक्षणाह ऊवचनमन्यथायद्यु वास्यांमयासाह्वं हसितं चेत्यादिवाच्यं स्यात् तथारतानिचाच्चादिभिः  
ललितानिचर्द्देषितानिलीलात्राकीलियाणियत्ति जलांदोलकक्रीडादिभिः हिंडितानिचवनादिषुविहृतानि मोहितानिचनिध्वनानि

लियाणिय कौलियाणियहिंडियाणिय मोहियाणियताह्रिणं तुभेसव्वाह्वं अगणेभाणामसंविष्यज  
हायसेलणयसद्धिं लवणसमुहं मज्जंमज्जेणं वीह्वयहतणं सारयणदीवदेवया जिणरक्खयस्स  
मणंओहिणाआभोएह्व आभोएत्ताएवंवयासौ णिच्चंपियणंअहंजिणपोलियस्स अणिट्ठाणिच्चं ममजि

अरेसाकंदीनापुवोजोतुह्वे वेह्वं जणाहे देवानुप्रियोसुक्कसंघातेहस्या ह्योरतभोगभोगव्यापांचेह्वं द्वियकरी अथवासारपासेकरी रतक्री  
डाकरताच्छताप्रवर्त्तताललितमनोवांछितक्रीडाक्रीडीहौचोलेकरीपाणीमाहे क्रीडाकरवेकरीहौच्याच्छोवचनादिकनेविषेहौद्याच्छोविच  
खाच्छोमोहनाआलिंगनदेताचूवता तेसर्वविनोदक्रीडाविसारीनेतुह्वे सुक्कप्रते विप्रजहायच्छांडीने खेलकयचसंघातेखवणसमुद्रमांहि  
यईनेजाओच्छोएह्ववाउलंभादीया तोपियणवोल्यानहौं तिवारितेरतनह्वीपनीदेवी जिनरक्खतनुं मनअवधिज्जाने करी जोइजोइने



एतच्चवाक्यं काकाव्याख्येयं ततउपालंभः प्रतीयते तएणंसारणदीवेत्यादिस्त्रुतं वाचनांतरे रूपकविशेषद्वयं अंतिकरोतितथाहि सापव

णपालिएअणित्ठे णिच्चं पियणं समजिणरक्खिएइइके णिच्चं पियणं अहंजिणरक्खियस्सइइपापु णिच्चं  
पियणं समंजिणरक्खिएइइकेपु जइणंसमंजिणपालए रोयमाणीकंदमाणी सोयमाणी विलवमाणीजा.  
वणेवियक्खइं किणं तुमंजिणरक्खिया समंरोयमाणीजावणावयक्खासि तएणं सारयणदीवदेवया

इमकहतीऊइ नित्यनिरंतरहंजिनपालितने अनिष्टअवस्रभहंतीअने नित्यनिरंतर सुभने जिनपालितअनिष्टअवस्रभहं तोअने नि  
त्यनिरंतरहं पिणजिणरक्खितने इष्टवस्रभहंतीअने नित्यनिरंतर सुभने जिनरक्खितइष्टवस्रभवाहोहं तोअने नित्यनिरंतरसुभ  
ने जिनरक्खितइष्टवस्रभवाबहोहं तो जेभणीसुभने जिनपालित रोतीछतीकंदआक्रंदकरतीछती शोककरतीछती विलापकरतीछ  
तीआवुछं पणिराखतोनथी दुक्खकरतोनथीतेभणी किमत्तं श्यामाटितुं हेजिनरक्खित सुभने रोतीआक्रंदकरतीशोककरतीविला  
पकरतीएहवीसुभप्रतेत्तं राखतोनथी जेऊं रोतीरऊं तिवारिइमकहीतेरतनद्वीपदेवतादेवीओहिणा अवधिज्ञानेकारीजिनरक्खित

ररयणदीवस्त्रदेवयाओहिणाओजिणरक्खियस्सणाऊणवहनिमित्तंउवरिंसाइदिदारगाणदोएहंपि इत्येकांदोसकलियासललियंणा  
 णाविहचुखवासमीसियंदिब्बंघाणमणनिब्बइकारं सव्वोउयसुरहिक्कुसुमवुट्टिकरंपसुं चमाणीइति द्वितीयंएवमन्यान्यपिपरिभावनीया  
 निपद्यबंधिवनानुकारादिनिपातानापदपूरणार्थाना निद्वेशोनघटतेपरिमितानिच छंदःशास्त्राणीतिअर्थस्ववंसादेवताजिनरद्धि  
 तयज्ञात्वाभावमिति शेषोवधनिमित्तं तस्यैववचनमिदंब्रवीतिस्रोतिसम्बन्धः दोसकलियत्तिद्वेषयुक्ता सललियंतिस्सलीलयथाभवतीत्य  
 र्थःचुण्णवासत्तिचूर्णलक्षणवासाः चूर्णवासासौमित्रावासातथा तादिव्याघ्राणमनोनिवृत्तिकरीं सर्वतुं कानासुरभीणांचकुसुमानांया

ओहिणाजिणरक्खियस्स मणंणाऊणवहणिमित्तं उवरिंसागंदिद्य दारगाणं दोएहंपि दोसकलि  
 यासललियंणाणाविहचुखवाससमीसियंदिब्बं घाणमणणिव्वुइकरं सव्वओयसुरभिक्कुसुमवुट्टिपसुं च

तुंमनएतलेजिनरक्खितनोभाव जाणीनेवधनिमत्तमारवानिमत्त तेऊपरकूडमाडेतेमाकंदीनापुलावेऊंनेएतलेवधनिमत्ततेजिनर  
 क्खिततुंजत्रचनइमकहतीऊइ दोसद्वेषनेवचनेकरीकलितासहित लीलासहितजिमऊइतिमथइदेवीनानाविधवणाप्रकारनाचूर्णे

दृष्टिः सा तथाताः प्रसुचंती तथा नानामणिकनकरलानां सखन्धीनि घण्टिकाश्च किंकण्यश्चतुद्रघण्टिकाः नपूरोचप्रतीतीमेखलाचरस  
नाएतस्रञ्चणानियानिभूषणानि तेषाथारवस्तेनइतिरूपकाद्द्विदिसाञ्चोविदिसाञ्चोपरयंती वयणमिणंवेद्दयत्ति दिशोविदिशश्चपरयं  
तीवचनःमिदं वक्ष्यमाणं ब्रवीति सा देवतासकलुमत्ति सहकलुषेनपापेनवर्त्तते यासातथेतिततीयंहेहोल हेवसुलहेगोलएतानिचपदा

## माणीश्याणामणिकणगरयधंठिय खिखणिएउरमेहल भूसणरवेणं दिसाञ्चो विदिसाञ्चो पूरयं

रूपजेवासावासतेणेकरीमिअच्छे जेतेदृष्टिप्रते तथादिव्यं दिव्यप्रधानदृष्टिच्छे वलीतेकेहवीदृष्टिच्छे प्राणनासिकाश्चनें मनवेऊं नेनिदृष्टि  
सुखनीकरणहारीच्छे वलीतेकेहवीच्छे सब्वओयसगली ऋतुना नीपनांसुरभिगंधएहवाजेकुसुमफूल तेहानीजेदृष्टिवरसवोतेदृष्टिप्रते  
प्रसूचतीसूंकतीछतीदेवीबोले नानाप्रकारनामणिचंद्रकांतादि कनकसुवर्णरथणरत्नकर्कतनादि मणिसुवर्णरतनांनीघंटिकाघांट  
खिखिणीनांन्हीघाटधूपरीनपुरवेऊंने उरकटिमेखलाएजेसर्वभूषणआभरणतेहानी दिशिदिशिदिसोदिसिपूरती पूरतीछतीबय  
णवचनएआगलिकहिच्छे तेवचनकहेच्छेतेदेवीकेहवीच्छे सकलुखाकलुषपापसंधातेवतेच्छे प्रवर्त्तेजेतेदेवीएतलेमीठे सुकुमालधष

निनानादेशापेक्षयापुष्पाद्यामंलगवचनानि गौरवकुत्वादिगर्भाणिवर्त्तते होलङ्कतिदशैकालिके होलङ्कतिदृश्यते तथानाथयोगक्षेमकारिन्द्वितयसंभरञ्चितइतिवाप्रियप्रसक्तः रसगर्भः कांतकमनीयस्वाभिका अधिपतेनिर्घृणनिर्दयसंज्ञायां वियोगदुःस्यायामपरित्यागात्निवृत्तिश्चगवसरञ्ज अशुरतायाममाऽकांडएवत्यागादित्यङ्घ्रिखत्ति स्यानः कठिनः मदीयात्यंतानुमूलचरिताद्रवीकृत्यहृ

तीवयणभिरुंनयतिसांसकपुसाइ होलवसुलागोलाणाहृदई याप्रियरथणव्रंतसामिणिविणवणि  
च्छक्त्थिसिणिक्रियाअकयणुयसिठिलभावणिसुज्जलुक्खअकलुणजिण रक्खियसुज्जाहिथरक्खगणुणउ

नेकरीबोलेपिणअंतरंगद्वेषसहित हिवेदेवीगीरवअनेदीणावचनकहेहे होलक्षेवसुलहेगोल एपदनानाप्रकारनादेशनी अपेक्षाइं करीवणीयांदिकने बोलावानावचनजाणिवा एवचनआदरसहितनिंदासहितछेते हेनाथयोगक्षेमकारिन् हेदयितस्त्रीनावालहाहे वसुभहेरक्खितहेप्रियहेप्रसक्तं हेरसणहेभर्तांरहेकांतहेस्वामिक हेनिर्घृणनिर्दयदयारहितसंज्ञे हसहितवियोगरूपदरिद्रदुस्थदौर्भाग्यनेंविपेरहीएहवीसुभनें कांडवाथकी निर्दयथायच्छेणिएक हेअवसरनाअजांणसंज्ञे हवंत अराणिणीसुभनें अप्रस्तावनेविषेच्छांडवाथ

दयत्वात्निःकृपममदुःखितायाऽप्रतीकारात् अद्वतन्नमदीयोपकारोऽस्थानपेक्षणात् शिथिलभावेऽकस्मात् समसोचनात्तन्निर्लेज्जप्रति  
पन्नत्यागात्सूत्रासे हकार्याकरणात् अकण्ठे हेजिनरक्षितसमहृदयरक्षक वियोगदुःखेनशतघास्तु टतो हृदयस्थतायकपुनर्भसखीक  
रणतइत्यर्थः इतिचतुर्थेनऊनेवयुज्यसेअहंसिएकाकिलनाथास्रवांघांतवचलनोपपातकारिकांपादखैवाविधादिनीसुक्कितुमधन्यामिति  
इहचसमानार्थनिकशब्दोपादानेपिन पुनरुक्तादोषः संश्रमाभिहितत्वात् यदाहवक्ताहर्षभयादिभिरादिप्रसनाः स्तुवंस्तथानिन्दन्त्यत्पदं

जुञ्जसिएक्षियंअणाहंअबंधवंतुञ्जचलणलववायकारियंलुञ्जिउमहमधस्यंशुणसंकरहंतुमेविद्रुणा

कीतुहेसैहरहितकांथाओत्थिण हेस्थानकठिनकांथाओमाहरो षण्णुप्रसन्नचरितआचरणेवीभूतविद्यस्यो विरलुटीलुंपांणीरूपकी  
धीच्छेहियापणायकीणिक्रिय हेनिःक्रियःक्रियारहितकांथाओ सुकदुःखणीने' अप्रतीतकारयकी अकयण्यहेअद्वतन्नमाहरांकीघाल  
पकारनाअणजाणवाथकी सिढीलभावसेअधिरभावअकस्मात्सुभनेम् किवाथकीसिथिलभावहेअस्थिरभावअकस्मात्सुभने' सूं कीया  
थकीकांस्कीदुःखदीयोनिस्तज्जलाजरहितअंगीकारकीधी सुभने' त्यजवाथकीलुचहेरक्षस्त्रे हकार्यना अणकरवाथकीकलुणहेअकुर

मसकधद्रूत्र्यात्तत्पु नष्टं नदोषायेति ? अहं हेगुणसंकरगुणसमुदायरूपहंइति अकारलोपदर्शनाद्दहमितिदृश्यं त्वयाविहीनानसम  
 र्थाजीवितुं क्षणमपीतिपंचमं तथाद्रूमस्त्वत्तिअस्यपुनः अनेकेयेक्षषामत्स्याःमकाराग्राहाः विविधश्वापदाच्चजलचरचूद्रसत्वरूपास्त्रिषो  
 यानिगतानिपासाकुलगटहमाकीर्णगेहं क्षषादीनांवासदानित्यंकुलगटहमित्यर्थः सतथातस्येत्यर्थः रत्नाकारस्यसमुद्रस्यमध्ये

णसमत्थाजीविचं खणंपिधू द्रूमस्त्वत्त्रिगणैकसमगर्विविह सावयसयाउलधरस्स रथणायरस्समज्जे

गादयारहितकाइयाओ जिनरक्खियहेजिनरक्खितहेमसहृदयरच्चकवियोगरूपदुःखिकरीसर्वप्रकारे' फाटतामाहराहीयानाराखण  
 चारारवलीसुक्कनेत्रंगीकारकरो वलीकहेक्केनऊनैवयुज्यतेतुक्कने' योग्ययुक्तनहींजिएकेलीएकाकिनी अनाथांनाथरहितअवांधवांधवर  
 चितताहरापगनीखिवानीकरणहारी एहवीसुक्कप्रते' चच्चितुं त्यजवाभणी तुक्कने' योग्यनहींअधन्याधन्यरहित पुन्यरहितएहवीप्रते  
 हेगुणसंकरेगुणनासम्बहहेजिनरक्खित अहंऊ' तुमतुक्कविनासमर्थनहिछुं जीविवाभणीक्षणमात्र लगारमात्रद्रूमस्त्वत्त्रोतुपुनःवलीद्र  
 मस्सअस्यक० आसमुद्रने' मांहिअनेक अनेकषणांजिअक्षमाच्छिलामगरमच्छग्राह विषेषमाच्छिलाविविधषणाप्रकारना स्वापदजलचर

आत्मानं वहेमिति चिन्मितवभवतः पुरतो ग्रतः तथा एहिनिवर्त्तस्वजद्भ्रसिन्धियद्भवतिकुपितः क्षमस्वैकापराधं त्वमेद्भ्रतिषष्ठं तुष्कयत्तित  
वचविगतं घनं विमेषं विमलं च यच्छ्रसि मंडलं तस्यैवाकारो तस्य अथाचसहयद्वर्त्तते तत्तथा पाठांतरेण विगतघनविमलशशिमंडलेनोप

अप्राणां वहेमि तुष्कपुराओ एहिणियत्ताहिजद्भ्रसि कुविओ खमाहि एक्कावराहंसे ६ तुष्कयविगय  
घणविमल ससिमंडलागारस्सिरीयं सारयणवकमलकुमुदकुवलय विमलदलणिकर ससिभणयण

नान्हांजीवरूपजीवमय तेजीवांनाजेसतसेकडा तेजीवानोआकुलघरभस्योच्छेघरजे तेसमुद्रअथवाआसमुद्रनुं अनेकघणीजेमाच्छिला  
दिकानोसदासर्वदानित्यनिरंतरकुलगृहनि तेरलागरसमुद्रमांहिमाहराआत्माप्रते'वहेमिऊं हगुंछुं तुष्कपुरओताहरेपुरतःआगलि  
तेकारणयकी एहिणियत्ताहिपाछोवलितुं जोतुं कोयोछेकोपचढोछेतोतुं खमाहिखमिसेमममाहराएकअपराधप्रते' एच्छोयदितु  
ज्कयत्तपुनःवलीतवताहरणं विगतघनसेघरहितविमलनिर्मलएहनुं जेशयीचंद्रमानुमंडलमांडलनोतेहनु सरिखोआकारेजेसुखनुव  
लीओसोभासहितजेसुखछे एतले'ताहरणं वणुं निर्मलमलरहित चंद्रमानामांडलासरिखुं सश्रीक सोभासंहितसुखेजेताहरणं तथाशर

मायस्यसञ्जीकंचयत्तत्तथाशारदं शरत्कालसंभवंचनवंप्रत्यग्रं कमलं सूर्यत्रोध्द्यं कुसुदंचंद्रवोध्यं कुवलयंचनीलोत्पलंतेषांयोदलनिकरःद  
लदं तत्सहशेनितराभासइति निभेवनयनेयत्ततथा पाठांतरेणशारदनवकमलकुसुदेचते विसुकुलेचविक्रसितेशेषंतयैव वदनंसुखं प्र  
तीतंवाक्यविशेषःपिपासागतायाः सुखदर्शनजलपानेच्छयाचायातायासांवागतायाः प्राप्तायाःकस्यामेममञ्ज्ञाभिलाषः किंकर्त्तप्रैपि

वयणंपिपासागथाए सद्भासेपेच्छिञ्जे अवलोपहिताद्रुममंणाह जातेपेच्छामिवयणकमलं७ ए

दशरत्कालनुऊपनुं नीपनुं नीपनुं जेनवोतत्कालनुं एह्वुं कमलविकासीकमलवली कुसुदंचंद्रविकासीकमलवलीकुवलयनीलोत्पलक  
मलतेसगलाकमलानोजेदलनिकरपांखडीयांनासम्बूहतेहानोसरिखानिभघणुं सोभायमाननयननेत्रके जिनरक्खितनेविषेएतलेकम  
लनीपांखडीविकसीसरिखी सोभायमाननेत्रके ताहराहेजिनरक्खितवदनसुखंचंद्रमासरिखुंके पिपासागयाएसुखेदेखिवारूपपां  
शीपीयानीइच्छावांछाइं आवीपज्जतीएहवीमेसुभने अद्वावांछाअभिलाषपिच्छोजोवाभणी आवीनेजेपदपूर्वानिमत्तनिपातजाणि  
वोएतलें ताहरासुखदेखिवारूपपाणी पीयानीवांछाईआवी सुंभनेवाछारूपजोवाभणी आवीसुभनेअवलोकयतुं जोता तावत्प्रथम



तुमवलोकयितुं येद्विपादपूरणेनिपातः अवलोकयितावदितिवाद्भूतः अस्यांदिशिमानाथजाइतियेनयावदितिवातेतवप्र  
 द्यवदनकमलमितिरूपकं ७ एवंसप्रणयानिसखे हानीवसरलानि सुखवगस्याभिधेवानिमधुराणिचभाषयाकोमलानिचयानितानि  
 तथाकरणानिकरणोत्पादकत्वात् वचनानिजल्पन्तीसापापा क्रियामार्गतःपृष्ठतःसमन्वेति समनुगच्छतिपापहृदयेति ८ ततोसौ

वंसप्रणयसरंलमज्जराइ पुणोरकुलुणाइं वयणाइजंपमाणीसा पावामगत्रोसमंणेइप्रावहिययाट

पहिलुंतेकारणयकी इओइतःआदिशिनैविवे समसुभ्रप्रते साहसुं जोईहेनाथ हेजिनरक्खितजेणेकारणे तैतवताहरं ऊं जोउं वद  
 नसुखकमलसुखरूपकमलएतले सुभ्रसाहसुजोनिमऊं ताहरं सुखजोउं एवंइमपूर्वोक्तप्रकारेविनयकरी सप्रणयसखे हानीपरिसने  
 हसरिखांसरलसुखकारी मधुरमीठीभाषाइं करी कोमलसुकमालजेवचनछे एहवावचनपुनः रवलीरवारंवारकरूणा दयामणादया  
 नाउपजाविवापयाथकीएहवा वचनांप्रते जंपमाणीजल्पतीवोलतीवोलेछे सातेदेवीकेहवीछे यावापापिणीछेयापिणीक्रियाइं सहि  
 तऊं तीछतीमगत्रोपाच्छिलयकी समंणेइक०पूठेकेडाकेडिअवेछेपापकारी हृदयहियुं छेकठिनछे जेदेवीनोतिवारपछीतेअसौएजिन

जिनरक्षितचलमनाः अभ्युपपसाञ्चलितचेताः अवयवकृद्भृतिसंज्ञः किंभतः संजातद्विगुणरागः पूर्वकालापेक्षया क्वास्यांरत्नद्वीपदेवता  
वांकेनकैचेत्याह तेनचपूर्वोक्तौ नभूषणरवेणकार्णसुखोमनोहरचयस्तेनतैश्चपूर्ववर्णितैः सप्रणयसरलमधुरभणितैस्तथा तस्यादेवतायाः  
सुंदरंचत्खनजघनवदनकरचरणनयनानां लावण्यं स्पृहणीयत्वंतत्ररूपंच शरीरसुंदरत्वंचयौवनंताण्यं तेषावाञ्छीः संपत्त्यातया

तएणसे जिणरक्खिएचलमाणो तेणयभूसणरवेणंकास्य सुहमणहरंणंतेहिउ सअणयसरलमउरभ  
णिएहिंसंजायविउणराए रयणदीवस्खदीवयाएतीसे सुंदरवणजहणवयणकारचरण णयणलावण्यरू

रक्खितचलमनाचलितः चेताः चित्तचल्योच्छेत्तोसाहसुंजोतोच्छे क्केण्येक्करीचलितमनययोचपुनःवलीतिणपूर्वं पाच्छलिकह्याजेभूषणया  
भरणतिहांनिरवण्ढनादे'कारी सगवचनचल्युंतेनादकेहवुंछे कणसुहकानाने सुखकारीछे वलीमनोहरमनोरमजेछे नादतेणेकारी  
तेपूर्ववर्णव्यावलीतेसप्रणयसनेहसहित सरलसुखकारीमधुरमीठासुकोकल वचनभणितभयांक्काह्यांतेणेवचनेकारी चलितमनययोति  
जिनरक्खितकेहवोथयोछे संजातजपनोछेविमणोरगरतनद्वीपदेवीरतनद्वीपनीदेवांगनानेविषे तेरतनद्वीपनीदेवीनाजिसुंदरमनोर

तांचदियां देवसंबंधिनीं स्वरन्धितिसंबंधः तथा सरभसानिसहर्षाणि यान्युपगूहितानि आलिंगितानि तानितथा विव्कीकाः स्त्री चेष्टाविशेषाः विलसितानि चनेत्रविकारलक्षणानि च तानितथा हसितानी वार्द्ध हसितादीनि सकटाक्षाः सापांगदर्शनादृष्टयश्चायलोकितानिनिः

वज्रुव्वणलवसिर्चिचदिब्बंसरभसउवगूहियाद्रं विव्वोयविलसियाणियविहसि यसकडक्खदिट्टिणिस्स

मस्तनच्छेते देवीतुं जेभलुं जघनमुत्तपपुटयांनकपेडूहे ठिलुं थानिकच्छेते देवीतुं चंद्रमासरिखुंवदनच्छे सुखच्छेकरहायचरणप्लानयनने त्वतेहानी तथा लावण्यपगुंवलीरूपशरीरतुं सुंदरपगुंजुवण्यधौवनतरुणपणुं तेहानीजे श्रीसोभालक्ष्मीतिप्रते एहवी दिव्वदेखतासंबंध नीशोभाप्रते संभारतोच्छतो तथा सरभसक० हर्षसहितजे उपगूहितक० आलिंगनना देवांतिप्रते संभारतोच्छतो तथा विव्वोक्काक्० स्त्रीनी चेष्टाविशेषविलसितानिक० नेत्रनाविकारते देवीनासंभारतोच्छतो चपुनः वलीविहसीयकहतां सुखलामरकलाकरी अर्द्धोहस्युंसकड क्खदिट्टिसकटाक्षसहित विकारवंतआखिनेच्छे हडेकरीआंखिमांरी देखिदिट्टि दृष्टिजोडूवुंनिसस्खियनिसासुं सुं किवुं मैथुनसेवायकी ऊपनानिसासामलियमलितानिक० पुरुषानेवांछ्वाधोग्यस्त्रीनीजे विश्रामणाविसामणउवल्लियउवल्लित क्रीडाविनोदविसेठियस्थि

श्वसितानिचकामक्रीडायाःसमुद्भवानि मलितानिचपुरुषाभिलाषणीययोषिदंगमर्दनानिच पाठांतरैणमणितानिछरतकूजितानि  
उपबलितानिचक्रीडितविशेषरूपाणि पाठांतरैणललितानिर्द्वैष्टितानि क्रीडितानिवास्थितानिच स्वभवनेषुलक्ष्यं गार्सनानिदिषुवा  
अवस्थानानिगमनानिच हंसगत्याचक्रमणानि प्रणयखेदितानिच प्रणयरोषणानिप्रसादितानिच कोपप्रसादनानीतिहं वस्तानिच  
स्मरन्चिंतयन् रागमोहितमतिः अवश्यात्मनद्भृतिगम्यते कर्मवशं कर्मपारतंत्यं गतोऽसतया पाठांतरैकर्मवशात् वेगेनमोहस्यनडि

सियमलियउवलियवियगमणप्रणयखिञ्जियपासाईयाथिसरस्राणैरागमोहिय मईअवसेकम्मवस

तक०पोतानाधरनेविषे अथवादेवीनाखीलानात्रासननें विषे रहितावेसतागमणहंसनीगतिकरीचालिवूं प्रणयखिञ्जियप्रणयस  
नेहयकी खेदजपनोतिवारिपगेलागवुं ममतुंपसाइयाणीक० कोपक्रोधप्रसादनकोप उतारिवानीनीतिते सर्वसंभारीस्मरतोसंभा  
रतोछतोजिनरखित तथादेवीनें रागेंस्त्रे हें करीमोहितमोहीछेमोहयामीछेमतिबुद्धिं जेजिनरखितनीअवसेक० पोतानोआत्माव  
सनहीछेजेकुमरनीतथाकर्मनेवसेकर्मनेपरवसपणुं गतः प्रास्योछेजेतेजिनरखितअवयकखड्क० साहसुं जोइमार्गतपाच्छियकीतेदेवीआ

तोविडंवितीयःसकर्मवशवेगनटितः अवयवखड्गत्तिअवेक्षते निरीक्षतेस्वमार्गतः पृष्ठतोवलोकयति तामागच्छंतीमित्यर्थःसविलियंति  
 सव्रीडंसलज्जमित्यर्थः मञ्चु गलत्यल्लणोस्त्रियमइंति सृत्यु नायमाराक्षसेनगलत्यल्ल्णाहखेन गलग्रहणरूपातयानोदितास्वदेशगमनवैसु  
 ख्यंनयमपुरीगमनाभिसुखीकृतामतिर्यस्यसतथातं अवेक्खमाणंतयैवयत्तस्तुशैलकोज्ञात्वाशब्दैः उब्बिहइत्तिउब्बिजहातिउब्बं क्षिपति

गएअवयवखइमगगओसविलियं तएणंजिणरक्खियासमुप्पस्यकलुणभावंमञ्चुगलत्यल्लणोस्त्रियमइंअव  
 यक्खतंतहैवजक्खेसेलए ओहिण्णाजाणिएणसणियंउब्बिहइंरुणियगपिड्ढाहिहिविगयसडुं तएणंसारय

वतीप्रते' व्रीडालज्जासहितजिमऊइतिम देवीप्रतेदेखे' तिवारिंजिनरक्खितनें उपनोकरणादयानोभावएतलेदेवीउपरिदयाउपनीते  
 जाणेकेमञ्चु सृत्युयमराक्षसनें गलत्यलक० हायेंकरीगलानो ग्रहिवोतेणीइं'नोदिताकहता पोतानादेशनें जावाभणी अपुरावापणेंक  
 रीयमराजानीनगरीनें जावाभणीसन्नु खसांहमीकीधीक्खेमतिवुब्बिजेजिनरक्खितनीएहवाजिनरक्खितदेखताजोताप्रतेतयैवतिमज  
 यत्तसेलकअधिज्ञानंकरी जांणीनेंधीरेरकरी उं'चोलियेउ'चोलिईने सेलकयत्तपोतानावांसायकीविगतअइअद्वावांकारहितकृतोहे

तद्देवसन्निध्यं तत्प्रद्वयं वाचनात्तरेणोपलभ्यते निजकष्टात्शरीरावयवविशेषात् विगद्यसत्यंतिविगतस्वास्थ्यं प्रपाठांतरे तु विगतो  
अद्वोचक्षः सेलकडूति उवयंतंति अवपतंतं सरसवह्निस्सन्ति सरसमभिभानरसोपेतं वधितो हतो यः स तथा तस्य अंगमंगदं तिथरीराव

एदीवदेवयाणिस्संसाकलुणं जिणरं विखयं सकलुसासेलगपिष्ठा हि उवयंतंदासेमडसितिजंपसाणी अप्प  
तंसागरसलिलं गिणहयवाहा हिंआरसंतं उडुं उव्विहदूअं बरतले उवयसां चं डलगेणपिडिच्छिता  
णी लुप्पलगवलअयसिप्पगासेणंअसिवरेणंखंडाखंडिकरें तितत्थविविलवमाणंतस्सयसरिसवहियस्स

ठोनाखिवाप्रवत्थो तिवारितेरतनद्वीपदेवी निस्संसानिर्दयदयारहितच्छतीकरुणादयासहितएहवाजिनरक्खितप्रते कलुषपापेसहि  
तच्छेएहवीपापिणीरतनद्वीपदेवी सेलकयच्छनापृष्ठात् वांसायकीहेठापडताजिनरक्खितप्रते देवीकहेहेदासदासडातुं सुओ म्बतुं म्ब  
ओएहवीकठोरभाषावोलतीच्छती रतनद्वीपदेवीअप्राप्तं पास्योनहींच्छे सागरसमुद्रनोसलिलपाणी एहवाजिनरक्खितप्रतेग्रहीनिवाऊ  
हायेकरीअरेपडोरइमकरतोअरराटसब्दप्रतेकरतोएहवाप्रते उंचोआकाशनेविषेउच्छाले उच्छालीने वली हेठापडताप्रते मंडलाग्रतर

यवान्जक्वित्तवर्तिं उत्क्षिप्तजर्द्धुमाकाशेच्छिप्तोभूमिपट्टादिषु निवेशितोश्रोत्रलिदेवतानामुपहारः सतथातं चतुर्दशिकरोतिसादे

घेत्तूणं अंगमंगाद्रसस्त्रिहराद्रं उक्वित्तबलं च छद्दिसिकरेद्रसा मंजलिपहडाएवामेवसमणालसोजो अ  
रुहं गिणगं थाणवा अरुहं गिणगं थीणवा अति ए प्रव्वइ ए समाणे पुणरविमाणुस्स ए कामभो ए आसायइ पत्थ

वारिकरीच्छे दीनेनीलाउत्पलकमलगवलकमा योभंसानोसौंगगुलीअलसीनां फूलएहांनीसरिखोप्रकाशते जवंतकालुं छेतरवारिख  
ल्लनोतेणं खल्लं करी असितरवारिसां हिवरप्रधान खल्लतेणं खल्लं करी खंडो खंडकटाप्रते करे तिहां अपि निच्चयविलापकरताप्रते तस्सय  
धपुनः वलीतेहने सरसअभिमाननारससहित वधितवथो हण्योजे ए हवाजिनरक्खितनाग्रहीनेलेइने अंगमंगाद्रक० अंगोपांगशरीर  
नीअवयवाप्रते रुधिरलोहीसहितएहवासरीरनाअवयवांप्रते उक्खित्तउ चोआकाशने विषेनांखो भूमिपाटलादिकनेविषेनथीथाप्यो  
जेवलिदेवतांनोपूजालक्षणावलितेजिनरक्खितएतलेज चोजं चोआकाशनेविषेनांखीतेजिनरक्खितनाशरीरनाअवयवांप्रते चउददिशि  
च्यारदिशिनेविषे वलिपूजाप्रतेकरे तेदेवतादेवीअंजलिहाथजोडीप्रहृष्टासंतोषाणीच्छती इमजिनरक्खितहृष्टांतनी परिसाधुसाधवी

वतापंजलिस्तिष्ठतांजलिः प्रहृष्टातोषवती एवसेवेत्यादिनिगमनं आसयद्भक्तिप्राप्तानाश्रयतिभजते अप्राप्तान् प्रार्थयते च द्विमंतया चते  
 स्मृहयति च प्रार्थित एव पद्यहंशीमान् भोगान् मे ददाति तदा साधु भवतीत्येवं रूपांस्तृहां करोति अभिलषति हृष्टा हृष्टे पुत्रशब्दादिषु भोगेच्छां  
 करोतीत्यर्थः अत्रार्थे छलितं गाहा छलितोर्ध्वं सितो नर्थं प्राप्तः अवकांच न्पञ्चाङ्गागमवलोक्तयन् जिनरचित एति वच्यमाणं एष हृष्टां तानु

यद्दृपी हेद्दृ अभिलसद्दृ सेणंद्दृ हभवे चैव वङ्गुं समणारुं ४ जाय संसारं अणुपरियद्दृ सिद्दृ जहावसे जिणर

ने हृष्टा तसु धर्मा कहे अहो अमणो भाऊ खावं तो जे अन्हारो निग्रंथ साधु चारि तीयो साधवी आचार्याना समीपने विषे दिक्षाली धो छतो वली  
 वी जीवार मनुष्य संबंधीया काम भोगां प्रतें पास्या भोगां प्रतें भोगे सेवे अण पास्या भोगां प्रतें ऋद्धि वं त गृहस्थ प्रतें प्रार्थेया चे भागे अण प्रार्थी  
 अण सामा यो छ तो जो एलच्छी वंत गृहस्थ सुभने पांचइं द्वियना भोगा प्रतें दिये अपे तो भलुं एहवीस्यु हावां छा प्रतें करे अ भिलषती दीठी  
 अण दोठी शब्दादि भोगनी इच्छा करे ते साधु साध्वी आवर्त्तमानं भवने विषे चैव निश्चय ब्रह्मघणा साधु साध्वी आवक आविका प्रमुख सगलाने हे  
 लनीय निंदनीय हे लानीं दवा योग ऊवे तथा वली ते साधु साध्वी नरक तिथं च देव ए चार गति मां हि संसार माहिं परि अमण कारस्ये अमिस्ये



वादोदार्थान्तिकाख्वे वंद्यस्वादेवंतस्मात् प्रवचनसारे चारित्वेलब्धेसतीतिगम्यते निरवकांक्षेणपरित्यक्तभोगान् प्रतिनिरपेक्ष्यानिश्चयिभि  
लाषवताभवितव्यमिति। भोगेगाहाचारित्वं प्रतिपद्यापिभोगानवकाक्षतः परंतिसंसारसागरेषोरेजिनरक्षितवत् दूतरेतुतरंतिजिन

क्विएछलिओअवयक्खंतोशिरावयक्खोगओअद्विउधे शंतरुहापवयणसारेशिरावयक्खेणभविद्यव्वं।  
भोगंअवयक्खंताप्रडंतिंसारसायरेषोरेभोगेहिंशिरवयक्खत्तरंतिंसारकंत्तारंशतएणंसारयणदी

जिमतेमाकांदीनोपुलञिनरखित इहांगाथाछलितव्वं सधयो अनर्थप्रतें पास्योरतनद्वीपदेवी साहसुं प्राच्छबिजोतोच्छतो तथानिरवकां  
क्षःपाच्छोअणजोतोक्ततोतेदेवीनेविषे निस्सुं हवांछारहितछतोगतपोतानाठामप्रतें पच्छं तोगयोजिनपालितमाकांदीनोपुल अविघ्ने वि  
धनरहितनिर्विघ्ने करीएदृष्टातकह्यो वलीइणंप्रकारे दृष्टातकहेछेजेकारणथकीइमतमहातेकारणथकी प्रवचनसिद्धांतमांहिसारप्रधान  
चारित्वलीधेछे शब्दादिकनाभोगांप्रतें अथावांछवेकरीनिरापेक्षपणंकरीथाइवुं। होइवुं गाथासाधुसाध्वीचारित्वप्रतें पडिबज्जीनें अं  
गीकारकरीनेशब्दादिकनाभोगांप्रतें वाछतासाधुसाध्वीपडेसंसाररूपसागरसमुद्रनेविषे जिनरक्खितनीपरिंघोरवीहांमणोसमुद्रति

वदेवयाजेशेवजिणप्राणिण तेणेषुउवागच्छइत्तावज्जहिं अणुलोमेषिहियपडिलोमेषिहियखरेहियमज्जए  
हियसिंगारेहियकलुणेहियउवसग्गेहियजाहिंशेसंचाएतिचालित्तएवाखोअित्तएवाविप्परीत्तएवा  
ताहेसंतांतताप्रिरितंताणिव्विष्सासमाणीजासेवदिसिंपाउभ्भूया ताभेवदिसिंपडिगयातएणंसेसेलएज

द्वानेविपेतयाजेत्ताधुसाधवीदित्ताप्रते' लेइने' भोगप्रते' अणवाक्यताअभिलाष अणकारताच्छतातरेनिस्तरं संसाररूपकांताररौद्रसमुद्र  
अथवाअटवीप्रते' जिनपालितनीपरिरत्तिवारपच्छी तेरतनद्वीपदेवीजिहाजिनपालितच्छेतिहाअ्यावीतिहाअ्यावीनिषण्ये अनुलोमसुखका  
रीमनगमतेवचनेकरी पडिलोमप्रतिकूलअसुखकारी मननेअणगमतेवचनेकरी खरकठोरकठिनवचनेकरी घणेइदुसुकुमालवचनेक  
रीशृंगारनाकंदर्मना ऊपजावणहारतेणेषचनेकरी कारुणादयानादयामणावचनतेणैकरी उपसर्गउपद्रववचननीचेष्टाविशेषनीव  
चनतेणैकरीइत्यादिघणावचन कहीनेउपद्रवकल्यापणिजिवारि समर्थनऊइंचलाविवाभणी खोभनापमाडिवाभणीसमर्थनऊइभुं  
डोमनकरिवाभणी विपरीतमनकरवानसकीतिवारिआतायाकीमनेकरीतंताकायाइं करी खेदवंतथइपरितंतासर्वथा निर्व्वसुधणुंथा

कखेजिएपालिएणंसद्धिं लवणसमुद्दं सज्जं सज्जोणं वीरुवयइ जेणेव चंपाएणयरीएतेणेव उवागच्छइ रत्ता  
 चंपाएणयरीएअणुज्जणंसिजिएणपालियंपट्टाओउयारिइ रत्ताएवंवयासीएसणं देवाणुप्पियाचंपाणय  
 रीदीसइत्तिकइ, जिणपालियंआपुच्छइजामेवदिसिंपाउभूयातामेवदिसिंपडिगयातएणंजिएपालिए  
 चंपंअणुप्पविसंतिजेणेवसएगिहेजेणेवअस्मापियरोतेणेव उवागच्छइ रत्ताअस्मापिऊणंरोयमाणेजाव

कीछतीपाछलीवलीनें जेणीदिशियकीप्रकटयइ आवीऊंतीतेणीदिशिं गइ तिवारपछीतेसेलकयच्च जिनपालितसंघातेलवणसमुद्र  
 मांदिथईयइने ज्जाइकेव्यतिकमेके जिहांचंपानामानगरीके तिहांआवेआवीनेअग्रनामा उद्यानवनखंडनेविषे जिनपालितप्रतें पूठि  
 थकीउतारें ऊतारीने इमकहतोह्अओसेलकयच्च एआहेदेवानुप्रियहेजिनपालित चंपानगरीप्रत्यक्षदीसेके इमकहीनेजिनपालि  
 तप्रतें पूछेपूछीने जेणीदिशियकीसेलकयच्च आब्योह्ंतीतेणीजदिशिं पाछेवलीगयोतिवारपछीजिनपालित चंपानगरीमांहिप्रवेशक  
 रेकरीनेजिहांपोतानोघरके जिहांपोतानामातापिताके तिहांआवेआवीनेमातापिताने रोतांछतांतांलगिजांविलापकरताछताजि

विलम्बमाणेजिणरक्खियंवावत्तिंणिवेएइ तएणंजिणपालिएअस्मापियरोमित्तणाइजावपरिजणेणंसद्धिं  
 रोयमाणाइं वज्जइं लोइयाइं मयकिच्चाइं करेइइत्ता कालेणंविगयसोयाजायातएणंजिणपालियं  
 अण्णयाकयाइं सुहासणवरगयं अस्मापियरोएवंवयासौकहखं पुत्ताजिणरक्खिएकालगएतएणंसेजि  
 णपालिएअस्मापिज्जणंलवणससुहोत्तारंच कालियवायससुत्थणंचप्रोयवहणविवत्तिंचफलहखंडंआ

नरक्खितनीमरवानीवार्त्ताप्रतें पूक्खेपक्खेजिनरक्खितनीवार्त्ताकहेतिवारिपक्खीजिनपालितमातापितासंघातेमित्तज्ञातिस्वजनदासदा  
 स्त्रीसंघातेमिलीनेरोताइआवणालौकिकस्यत्युनाकार्यकरेकरीने कालप्रस्ताविअनुक्रमेविगतशोकरहितथया सह्रतिवारपक्खीजिनपा  
 लितएकदासमे सुखासणिवरप्रधानवेठाप्रतें मातापिताइमक्कहताज्जअकिमहेपुवजिनरक्खित कालपास्थोमरणपास्थोतिवारपक्खी  
 तेजिनपालितमातापिताने आगलि लवणससुइइमांहिचट्टावलीलवणससुइइमांहि कालिकावातनुं ससुत्थणजतपात जपनुं तेकहेवा  
 हगभागानोसमाचार संबंधसहितकहे पाटीयानाखंडप्रतेपामीनेपाटीवलगीनेरतनद्वीपजइजतस्थापेक्खे रतनद्वीपदेवीइ वेहंग्रह्या

साथणं चरयणहीवोत्तात् चरयणदीवदेवयागिरुहणं च भोगपरिभूयं च सूलाद्रपुरिसदंसणं च सेलगज  
 क्वआरुहणं चरयणदीवदेवयाउवसर्गं च जिणरक्खयस्सवित्तिं च लवणसमुद्दत्तरणं च पागमणं च सेल  
 गजक्वआपुच्छणं च जहाभूयमवितहमसंदिडं परिक्कहेइतएणं सेजिणपालिए जावविपुलाइं भोगभोगाइं  
 भूंजमाणाविहरइतेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवंसहावीरेजावजेणं च पाणयरीजिणेवपुसुभहे चैइए

भोगभोगव्यावसरसती ख्लीजपरपुरुषदीठोतेसर्वकह्युं खेलकयच्चजपरिचढ्याचंपानगरीप्रते चाल्यारतनहीपदेवीनाकीधाउपसर्ग  
 प्रतेंसगलाकह्यावली जिनरक्खितनोवित्तिमरणययो खंडकह्युं ख्लीये परीयोवलवाकलकीधोलवणं समुद्रनुं जतरिवुं चंपानग  
 रीनावनखंडसाहिआविवुं खेलकयच्चनुं पूच्छिवुं एतलेसेलकमुक्कनेपूच्छिने पोतानेठामिगयोयथाभूतं जेणप्रकारे जिमथयोडं तो  
 तिमजअवितयसाचुं कह्युं असं देहसं देहरहितकहे मातापितानेआगलि हिवेतिवारपच्छीजिनपालितकेतला एकदिनगयापच्छी  
 शोकरहितययाच्छतो समुव्यसंबंधीयाविपुलविस्तीर्णं भोगभोगविवायोग्यभोग भोगवतोक्कतोविचरेछे तेकालतेसमयनेविषे अमणतपस्वी

तेरेवसन्नोसदेप्रतिसाखिण्वायाकूण्णोविरायाखिण्वायोजिण्णपालिएधम्मं सोच्चापव्वइएक्कारसंगविज्जसा  
सिएण्णभत्तेण्णजावसोहम्मैकफ्फे देवत्ताएउववणे दोसागरोवसाइ' ठिईप्रसत्ता ताओण्णजावमहाविदेहेवासि  
सिञ्चिक्कहिंति एवामेव सणाउसो जावसाणुस्सएकासभोएणोपुणरविआसाइ जाववीईवइस्सइजहासिजिण

भगवंतसहावीरतालगिजा जिहाचंपानगरीछे जिहापूण्णभद्रचेत्यदेहरोछे जिहाससोसख्यो जतख्यो परिषदानीकलीकूणिकराजापि  
गानगरमाहियकीवांदिवाभणीनीकल्यो जिनपालितधर्मप्रते' सासलीने दिव्यालीधीइयारअंगनो विहुजाणययोभासमत्ते करीअणस  
गकरीकालकरीने सौधर्मत्रायदेवलोकनेविसे देवतापण्णे देवताजपनो दोसागरोपमनीआजखानीस्थितिकहीछे तिहादोसागरोपम  
नाआउखानीस्थितिइं जपनो तेसौधर्मादेवलोकधीचवीनेमहाविदेहचेवनेविषेसीभस्ये सोचजास्ये इमजिनपालितनीपरिअहोअ  
अणोआउखवंतोसाधुसाध्वीआवकयाविकाओ जेमनुष्यसंधीयाकासभोगनेविषे वलीपाट्टाआशवादे' नहीं भोगवेनहीं तेसाधुसाध्वी  
संसाररूपसागरसमुद्रप्रते' तरीणंपारजास्ये सो चपऊचस्ये जिसजिनपालित संसारसमुद्रतस्योएवंइणंप्रकारं खलुनिचे' हेजंबूअम

पालितवत्सुद्रमिति र शेषं सूत्रसिद्धं इह विशेषोपनयनसेवं वर्णयति व्याख्यातारः जहरयणदीवदेवीतहद्वत्यं अवि रईमहापावाजहला भथीवणिघातहसुहकामा इहं जीवार जहते हि भी एहिं दिट्टो आघायमंडले पुरिसो संसारदुक्खभीया पासंति तहेवधम्मकं इं जहते ण

पालि एवं खलु जंबुसमणेण भगवया महावीरेण जावसंपत्ते णंणवमस्स णाय ज्जकयणस्स अयमइ प्रसूत्ते त्ति वेमि जहरयणदीवदेवीतहद्वत्यं अवि रईमहापावाजहला भथीवणिघातहसुहकामा इहं जीवा जहते हिं भी एहि दिट्टो आघायमंडले पुरिसो संसारदुक्खभीया पावंति तहेवधम्मकं इं जहते णं तेषिं कहिं या देवी दुक्खा णकारं णं

णभगवंतं श्रीमहावीरदेवे नवमाज्ञाताना अथ्यननो ए अर्थकह्यो सुभने ते मं तु भने ते हवो जकह्यो एहवो सुधर्मा जंबू प्रते अर्थसंपूर्णं कहे हि वे विशेषयकी एहवो उपनयदृष्टांतकहे छे जिमरतनद्वीपदेवी नीतिमइहां अवि रति महापापिणी जाणिवी जिमलाभार्थी वाणि या व्यापारी तिमसुखना अभिलाषी इ हा संसारी जीव जाणिवा जिमते णे वी हने माकं दीने पुत्रे दीठो बधमारि वाना मंडलने विशेषे एकपुरूषसूली जपररह्यो पुरूष संसारना दुःखदेखीने पासे तिमजधर्म कथा प्रते रजिमते णे पुत्रेषु ते वेहं भाइने कही कथावा

तेसिंक्वियादेवीदुक्खाणकारणंधोरं तत्तोच्चियनित्यारोसेलगजक्खञ्जानन्नत्तो४ तहधम्मकहोभव्वाणसाहएदिट्ठअविरइसहावोसयल  
दुहहेउभअविमयाविरयंतिजीवाणं५ सत्ताणंदुहत्ताणंसरणंजरणंजिणंदप्रसुत्तं आणंदरूवनिब्बाणसाहणंतहयदेसेइई जहतेसिं

धोरंतत्तुच्चियणित्यारोसेलगजक्खञ्जोणसुत्तो३ इहधम्मकहाभव्वाणसाहएदिट्ठअविरइसहावोसयलदुह  
हेउभयाविसयाविरइत्तिजीवाणं४ सत्ताणंदुहत्ताणंधम्मंसरणं जिणंदप्रसुत्तंआणंदरूवणिब्बाणसाहणंत  
हयदेसेइइजहतेसिंतरियव्वो एइससुद्धोतहेवसंसारोजहतेसिसिगिहगमणंणिब्बाणगमोतहाइत्थइजह

र्त्तादेवीना दुःखसुकारणधोररौद्रच्छे ततःतेकारणयकी उचितयोग्यच्छे निच्चेनिस्सारिच्छे पारिउतरिबुंछे सेलकयन्ननत्तोतेसेलक  
यच्चविनापारिउतारिवानोवीजो उपायकोईनयीइइहाधर्मनीकयावार्त्तानो कहणहारभव्यजीवनोसाधक एतलेधर्मनीकयाकहिवीते  
भव्यजीवानेउपगारच्छे अनदीठोअविरतिनोखभाववेज्जंभाइवें तेअविरतिसकलसमस्तसगला दुःखनीहेतुभूतच्छे विषयकीविरत्या  
निवर्त्त्यानयीएहवाजीवनि४ सत्वप्राणीदुःखंआर्त्तपिड्याएहवाजीवानिधमंतेसरणच्छेतेधर्मकेहवोच्छेजिनेद्रतीर्थंकारदेवनोकह्योच्छेतेधर्मव



तरियब्योऽदृशसुहोतहेवसंसारो जहते'सिसगिहगअणंनिव्वाणगमोतहाएत्थ० जहसेलगपिष्ठाओ भट्टोदेवीइमाहिधमईओसावयस

सेलगसपिडंतेसिंभव्वाणतह इहंचरणंजहदेवीवासोहो तज्जचुओपाविओणिहणं० तहअविरईएणडि  
ओचरणचुओदुक्खसावथाइंखो णिवडइअपारसंसारसायरेदारूणसरूवेट जहदेवीएअक्खोहोपत्तो

लीकेहवोछे आणंदहर्षप्रसोदरूपनिर्वाणमोच्च तेहनोसाधकसाधणहारुत्ते तथाचित्तमधर्मदेखाडेप्ररूपेध्रजिमतेजिनपालितनेताखो  
पारपमाओ बहुरौद्रवीहामणोसमुद्र तिमजसंसारसमुद्रतारे जिमतेजिमपालितने पोतानाघरनेविषेजाइवुं पडुचवुं तिमइहंधर्मते  
निर्वाणगमनमोच्चलगेपडुचाडेई जिमतेखेलगनीष्टवांसानीपूठिचडिडुं तेवेडुं भाइनुं तिमतेभव्यजीवानेइहंचरणचारित्तजांणिवो  
जिमरतनहीपदेवीमोच्चोमोहपास्योछतो देवीसाहसुं जोधुं'तेकारणथकीच्यु तचवोपओ सोलगनावांसाथकीतिवारे पांस्योनिधनम  
रणजिनरक्खित० तिमअविरत्तिकरीनओपीओजीव चरणचारित्तथकीच्यु तचव्योपओछतोइःखरूपस्वापद जिवेकरीआकीणव्याप्यो  
भखोएहवाअपारावार संसाररूपसागरसमुद्रनेविषे पडेतेजिनरक्खितनीपरि संसाररूपसमुद्रतेकेहवोछेदारूणस्वरूपवणुं विहाम

हस्यपउरंभिसाचरे पाविश्रोणिहृणं ७ तत्रअविरह एनडिउं चरणचुञ्चो दुक्खसावयाइसो निवडइअपार संसारेसाथरेदाकणसरू  
 वो ८ जहदेवीएअक्खोहोपत्ता सट्ठाणजीवियसुहाइं तहचरणडिञ्चो साइअक्खोहो जाइनिव्वाणंति ९ नवसंज्ञातविवरणंस  
 माप्पमिति अथदशसंविच्चियतेअस्यचायंपर्वेणसहसस्वन्धः अनंतराअथनेऽविरतिवशवर्त्य वसवर्त्तिनोरनर्थेतरावुक्ता विहृतुगुणहा

सट्ठाणजिसुहाइतहचरणडिञ्चो साइअक्खोहो जाइणिव्वाणं ९ एवसंअज्जकयणं सस्सत्तं ९ जइणंभंतेसम  
 णेणंभगयासहवीरेणंजावसंपत्तेणं एवमस्सणायज्जकयणस्स अयमइपस्सत्तेदसमस्सणंभंतेणायज्जकयणस्सस

शोछेदजिमरतनहीपदेवीइं अखोस्योअणखोभाणोछतो जिनपालितपास्योपोतानोथानकअनें जीवितव्यनासुखपांस्यो तिमचरणचा  
 रितनेविपेथिरनिचलरहोछतो साधुचारितियोचारितमांहि अखोभाणोछतो जाइपड्डं चे निव्वीणमोच्चप्रते ९ एनवमाअध्ययननो  
 लेसमातअर्थसंपूर्णयथोहिवेदससुं अध्ययनकहेछे एदसमाअध्ययननोपाच्छिला नवमाअध्ययनसंघातेएसंबंध एनवमाअध्ययननेविषेवि  
 रतिअविरतिउपरि संबंधकह्योविरतिवंतअर्थपासेअविरतिवंतअनर्थपासेइहादशमाअध्ययननेविषे गुणहृद्विअनेंहानिउपरिप्रमादी

निवृद्धिलक्षणवन्नर्याप्रमाद्यप्रमादिनोरभिधीयेते इत्येवंसंबन्धमिदं सर्वं सुगमंनवरंजीवानांद्रव्यतो नंतत्वेन प्रदेशतश्चप्रत्येकमसंख्या

संख्येणंभगवयामहावीरेणंजावसंपत्तेणंकिंअङ्केप्रसृत्ते एवंखलुजंबूतेणंकालिणंतेणंसमएणंरायहिहेणंसंख्येण  
यरेहोत्यातत्खणंरायगिहेणयरे सेणिएणंसंरायाहोत्या तस्खणंरायगिहस्खणयस्ख बहिद्याउत्तरपुरि  
च्छिमेदिसौभाए एत्थणं गुणसेलएणंसं चेइएहोत्या तेणंकालिणंतेणंसमएणं समणेभगवंमहावीरेपुव्वाणु

अप्रमादीनोसंबन्धकहेच्छे जंबूपूच्छेसुधर्माप्रतेयदिजोभंतेहे भगवन्अमणभगवंतश्रीमहावीरदेवे नवमाज्ञातानाअध्ययननोए पूर्वोक्त  
अर्थकक्षोतेमेतुमारसुख्यकी सांभल्योहिवेदसमाज्ञातानाअध्ययननो अर्थअमणभगवंतश्रीमहावीरदेवेस्यो अर्थप्रख्योच्छेकक्षोच्छेते  
कहोहिवेसुधर्मास्वामीकहेच्छे इमअगलिकहिस्थे तिमखलुनिश्चेजंबू तेकालतेसमयनेविषेराजगृहिनामानगरहृतोऊच्यो तिहारा  
जगृहनामानगरनेविषे अणिकनामारजाऊतोऊच्यो तेराजगृहनगरवाहिरइशानकूणिनाभागनेविषे इहागुणशेलकनामाचैत्य  
देहणंऊतुं तेकालतेसमयनेविषे अमणभगवंतश्रीमहावीरदेव पूर्वसुपूर्वीइ विचरतोविहारकरतो ग्रामानुग्रामप्रते व्यतिक्रमतोम्ह

तत्र देवनेनावस्थितपरिमाणत्वात् वृद्धं ते गुणैः हीयंते च तेरेव अन्तरनिर्देशत्वेन हानिमेवतावदाहये जहेत्यादिप्रमाणिहाएत्तिप्रमाणिधायापे

पुत्रिचं चरन्नायेगामाणुगामं दूइज्जामाणे सुहंसुहेषुं विहरमाणे जेणेवगुणसिलएचेईएतेणेवससोसहुं परि  
 सांखिगया सेणियोविराधांखिगन्त्रोधम्भं सोच्चाप्रिसापाडिगचातएणंगोयसेससणं भगवंसहविवीरं एवं  
 वधासौकहस्यं भंते जीवावहुं तिवाहार्यांतिवागोयसासिजहायासएवहुसपकसस्यप्रडिवयाचं देयुस्सिमा

वातोब्रतो सुखे'समाधिंविचरतोब्रतो जिह्वागुणसेलीयनासाचैत्वदेहखंके तिजात्रावीससोसखाजतया परिषदावादिवाभणीनगर  
 माह्वयकीनीसरी अणिकराजाणिववादिवाभणी नीकल्दोषयात्राडंवरसहितगवो तिहावर्षप्रते'सागलीने गरिषदापाच्छीवलिनई  
 तिवारपच्छीगोतमद्द्रभूति अणभगवंतन्नीसहावीरदेवप्रते' दूसपूछतोह्मोक्सिहेभगवन्जीवानेद्रव्ययर्क, अंतंतचनंतगणेकरीत्र  
 नेवलीप्रदेशकीप्रत्येकजुआसंख्यात प्रदेशपणेकरीरहिवाना परिमाणपणायकी गुणेंकरीवाषेष्टदिपामेअमे' लिन्दलीवगुणे तरीही  
 नयाइधिणयाइहिने भगवंतकहेहे'पोतमते जिमदृष्टतनासकोसलामंत्रणे वहुलअंधारापखवाडानीपाडेलानी सं'रमाहीणप्र'पु

क्षयर्थेन शुक्लतालचरणेन सौस्थतया सुखदर्शनीयतया खिग्धतया रूक्षतवाकां त्याकमनीयतया दीक्षादीपनेन वस्तुप्रकाशनेनेत्यर्थः जुत्तीए  
त्तियुक्त्या आकाससंयोगेन खंडेन हिमंडलेनाल्पतरमाकारसंयुतेन पुनर्यावत्सुपूर्णेनेति छायायाजलादीप्रतिबिंबलक्षणयाशोभयावाप्रभया  
षाच न्नमनसमयेद्यूतिस्फुरणतया श्रोत्राएत्ति शोजसादाहापनयनादिस्वकार्यकरणशक्त्या लेश्चयाकिरणरूपया संडनेन च ततया चांत्यादि

चंद्रप्रणिहाय हीणे वस्त्रेण हीणे सोमया एहीणे णिद्धया एहीणे एवं दित्ती एजूत्ती एछाया एप्रभाए  
श्रोत्राएलेखा एमंडलेणंतयाणंतरंचणं बीयाचंद्रोपाडिवयंचंद्रं प्रणिहाय हीणतराएवस्त्रेणं जावमंडलेणं

निमनाचंद्रमाप्रते प्रणिधाय विचारीने अपेक्षार्थे करीने हीणहीणोथाइ वरणे करीहीनयाइ सौस्थपणे सुखे देखिवायोग्यपणे करी  
हीनहीणोथाइ स्निग्धचीगटपणे करी हीणोथाइ इमदीप्त करी वस्तुं बुं प्रकाशपणे करी हीणोथाइ  
युक्तिं करी आकासने संयोगे करी खाडिमंडले करी थोडो आकाशजोइ वली जिहां लगी संपूर्ण करी न ऊर्द्धेति हां लगी हीणोथाइ च्छया  
इं करी पाणी आदिकने विषे प्रतिबिंबपणे हीनथाइ प्रभाषे करी जगवानासमयने विषे जेद्युतिनी दिष्टे करी हीणथाइ ओजसावले करी


तथाणंतरं चणंतद्रयाचंदेवैद्रयाचंदंपणिहायहीणतराएवखेणं जावमंडलेणं एवं खलुएएणं कमेणंपरि  
हायमाणेरेजावअभावसाचंदेचाउद्दिसिचंदं पणिहायणहोवखेणं जावणहोमंडलेणं एवामेवसमणाउ

हीनदाघटालवादिकनेविषे पोतानाकार्यकरवानीशक्तिं करीहीनथाई लेस्याइं किरणेंकरीहीणोथाइ मांडलोवाटलारूपतेणेकरी  
चंद्रमाहीणोथाई तिवारपछीअंधारापखवाडानी पडिवानाचंद्रमाप्रते अंधारापखवाडानीपडिवानाचंद्रमाप्रते अपेचाकरीविचा  
रीने अतिशयस्युंघणुंहीणपणेंवणेंकरी तालगीजामंडलमांडलोवाटलारूपपणेंकरी घणुंहीणथाइतिहांलगी कहिबोपाठतिवारपछी  
अंधारापथवाडानी तीजनोचंद्रमाअंधारापखवाडानी बीजनाचंद्रमाप्रते विचारीने घणोहीनपणेंकरीनेथाइ वणें करीघणुंहीन  
थाईतांलगीजामांडलोवाटलारूपतेणेहीणथाइ एमपूर्वोक्तप्रकारेंकरी निचेएणेप्रकारे क्रमे अनुक्रमेकरी घणुंवणेंकरीकलाइं करीही  
णोथातोळतो तालगिजांअभावसनोचंद्रमा अंधारीचउदसनाचंद्रमाप्रते विचारीनेअपेचाइकरीनेअभावसनोचंद्रमानाठोवणें करी  
तांलगिजांअभावस्थानोचंद्रमानाठो मांडलेकरीसर्वथादीसेनही इमचंद्रमानोपरिचतीने अपेपमाअहो अमणोआजखावंतोजेअम्हा

गुणहानिचक्रशीलसंसर्गाद्गुरुणासपर्युपासनात्प्रतिदिनं प्रमादपदाखेवनात्तथाविधचारित्वावरणकर्मोदयाच्चभवतीतिगुणदृष्टिस्त्वैत

. सोजोअरुहंशिष्णंघोवाशिष्णंघीवाजावप्रव्वइएसमाणेहीणेखंतीएएवंसुत्तीएशुत्तीएअज्जवेणंमद्देवेणंला  
घवेणंसञ्जेणंतवेणंधियाएअक्किंचयाएवंभचेरवासेणंतयाणंतरंचणंहीणतराएखंतीएजावहीणतरा  
वंभचेरवासिणंएवंखलुएएणंकमेणं परिहायमाणेइणइखंतीए जावणइवंभचेरवासिणंसेजहावासुक्क

रानिग्रंथसाधुनिग्रंथीसाधवी तालगिजादिच्छालीधीछती हीणोथाइच्छमादिगुणनीहानिथाइ इमसुत्तानिर्लोभतापणुं हीणथाइगु  
प्तिं करीहीणथाइअर्जवखरलपणेहीणथाइमादेवसुकुमालपणेकरीहीणथाइलाघवपणेकरीहीणथाइनपेकरीहीणथाइबुद्धिं करीकि  
याइं करीहीणथाइअक्किंचननिग्रंथपणेकरीहीणथाइइप्रह्लचयें करीहीणथाइइतिवारपछीअतिसचसुंघणुं हीणतरच्चमाइं करीतांलगि  
जाधणुं हीनतरपणेकरीप्रह्लचयें करीहीणथाइइमपूर्वोक्तप्रकारनीपरिंखलुनिचेइणेप्रकारे कमेअबुक्कमे करीसगलाचारिलनागुणच्च  
यपामतांपांसताजाइंचंद्रमानीपरिंनाठीजमाइं करीतांलगिजांसगलागुणप्रह्लचयथकीअष्टथाइसगलासुखथकीजिवचुकेच्चमादिगुण



द्विपदवैया एवं चहीयमानानां जीवानां नरांस्तितस्य निर्वीणसुखस्यावाप्तिरित्यनर्थः आह च चंदोषकालपञ्च परिहाएपएपमाय

पक्षस्य पडिवया चंदे असावासा चंदं पण्डित्याय अहिएवण्ये णं जावअहिएमंडलेणंतयाणंतरं चणं विया चंदो  
पाडिवया चंदे पण्डित्याय अहिएवण्ये णं जावअहिएवण्ये एणं खलु एणं कसेणं परि वडु गारु २

नीचाणिया ईशजसीलीयाना संसर्गयत्की भलागुरुनीअणसेवाकरिवाथकी दिनदिनप्रते प्रसाहपदनासेवाथकी तथाविधिचारित्वावर  
अत्तमना उदयकी हीयसांनचयपामतां जीवां निवाधामोक्षना सुखनीप्राप्तिनद्धवे तेजिमज्जेणं प्रकारे मुक्ताउज्ज्वालापखवाडानीपडि  
वानोचंदं प्राहद्विपामे असावस्थानाचंद्रमाप्रते अपेक्षाकारी अटकली विचारीने उज्ज्वालीपडिवानोचंद्रमा अधिकपण्येकारीयाभेता  
लगिजापणुं गाडली करिपधेद्विपामे तिवारपणी उज्ज्वालीजीवनोचंद्रमा उज्ज्वालीपडिवानाचंद्रमाप्रते विचारीने अपेक्षाने क  
रीने जीवनोचंद्रमापधिततरधणुं ज यणे करीद्विपामे तांलगिजाअधिकतरधणुं ज मंडलसांडलोषटलारूपतेशे करी दद्विपामेया  
धेद्विपामे चंद्रमाप्रकारे करी कनेअनुक्रमे करी चंद्रमाद्विपामतो रधणुं वाधतोवाधतोतांलगिजापनिमनो चंद्रमाद्विपामे उज्ज्वा



परोतओउगुषरविगुषरनिरंगणोविनइच्छिद्यंत्तइत्ति गुणैर्वर्द्धमानानांतुवांछितार्थावाप्ते रथेइतिविशेषयोजनापुनरेवंजहचंदोतहसा

जावपुष्टिकाचंदेचाऊदसिचंदंप्रणिहायपडिपुखे संहलेणंएवामेवसमणालसोजा  
वपव्वइएसमाणेअहिएखंतौएजावंबंभचेरवासेणंतयाणंतरंचणं अहियराएखंतौएजावंबंभचेरवासेणं  
एवंखलुएएणंकमेणं परिवडुमाणेइ जावपडिपुखे बंभचेरवासेणं एवंखलुजीवावडुइवाहायंतितवाएवं

लीघउदसिनाचंद्रमानी अपेक्षाइं करीप्रतिपूर्णसंपूर्णवर्णैकरीदृष्टिपामेतांलगिजांकलाइं सोभाइं करीप्रतिपूर्णमांडलेकरीदृष्टिपामेइ  
सचंद्रमानीपरिसाधुनें ओपमा अहोअमणोआउखावंतो जेअन्हारासाधुसाध्वीदीक्षाधीकृता अधिककत्वमाने गुणैकरीवाधेतांल  
गिजांधणुं अधिकवत्त्वचर्यनेगुणैकरीवाधे तिवारपच्छीअतिसयस्युं अधिकतरघणुं जखंतौत्वमाने गुणैकरीवाधे तांलगिजांसाधुसाध्वी  
ब्रह्मचर्यनेगुणैकरीवाधे इणैप्रकारे खलुनिच्चे सहितएणैप्रकारेक्रमे अतुकमेचारिवनेगुणैकरी दृष्टिपामतोक्ततोतांलगिजां प्रतिपूर्ण  
ब्रह्मचर्यनेगुणैकरी दृष्टिपामेगुणैकरीवधतादृष्टिपामता जीवानेवांध्याअर्थनीप्राप्तिउवे इणैप्रकारे खलुनिच्चेसहितजीवगुणैकरीवाधे

हराज्वरोहोजहातहपमाओ वखाइगुणगणोजहतहाखमाइसमणधम्मो? पुणोविप्रइदिणंजहहायंतोसव्वहासमीनस्से तहपुखचरि

खलुजंबूसमणेषुभगवयासहावीरेणंजावसंपत्तेणंदसमस्सणायउभयणस्सअथमइ पस्सत्तेत्तिवेमिजहचं  
दोतहसाज्जराज्जवरोहोजहातहपमाओवखाइगुणगणोजहतहाक्खमाइसमणधम्मो? पुणोविप्रइदिणं  
जहहायंतोसव्वहाससीणासो तहपुखचरित्तोविज्जंजुसीलसंसग्गिमाइहिंइजणियपमाओसाज्जहायं

गुणेकरीचानिपामेजीव इमपूर्वोक्तप्रकारे खलुनिच्चे हेजंबूअमणभगवंतमहावीरदेवे' ज्ञातानादसमाअध्ययननोए अर्थकह्योसुअप्र  
ते' इ' पिणतिमतुअप्रते' कळ' कुं' दृष्टातकहेछेजिम इहाचंद्रमातिमसाधु जाणियाजिमचंद्रमानेराज्जनो विरोधकलानोचांपवु' ति  
मसाधुनेप्रमादजाणिवो चंद्रमानिवर्ण्यआदिगुणनागणसम्बह जिमतिमसाधुनेचमादिदसप्रकार यतीनोधर्मजाणिवो? पूर्णप्रतिपू  
र्णपूर्णेसंपूर्णप्रतिदिनंदिनरप्रते' जहजिमहीणअथपामेगुणेकरी हीणोथाइसर्वथासगलीकलायकी शयीचंद्रमानोनासथाइराज्जने  
संसर्गे' करी' तिमपूर्णसंपूर्णचारित्ववंतपणिज्ज निच्चे विणसेचारित्वकी भट्ठथाइकुसीलीयानीसंसर्गआदिकेकरी कुसीलनीसंगतिक

तो विच्छुद्धी लसं सग्निमाद्भिर्हि रजशियपलभा उसाह्महायंतो पद्भदिशं खसाद्भिर्हि जायद्ब्रह्मचरित्तोत्तुदुक्खाद्दं पावाद्दं ३ हीरगुणो वि  
 ल्लहो जं सुहगुणजो ह्मजशियसंवेगो पुण्यसूरुवो जायद्दु विवद्भमाणो ससहरोक्व ४ दशसंज्ञातविवरणं समाप्तमिति चैश्लादशमं विवियने  
 अस्य च पूर्वो गसहायं संबंधः पूर्वो च प्रमाद्यप्रमादिनो गुणानिष्टद्विलक्षणवर्णार्थो बुक्ता विहृतुमागीराधनविराधनाभ्यामुच्ये ते इति शं

तो पद्भदिशं खसाद्भिर्हि जायद्ब्रह्मचरित्तोत्तुदुक्खाद्दं पावेद्भ्रह्मचरित्तोत्तुदुक्खाद्दं पावेद्भ्रह्मचरित्तोत्तुदुक्खाद्दं पावेद्भ्रह्मचरित्तोत्तुदुक्खाद्दं  
 जशियसंवेगो पुण्यसूरुवो जायद्दु चिवद्भुमाणो ससहरोक्व ४ दशसंज्ञातविवरणं समाप्तं १० जद्भ्रह्मचरित्तोत्तुदुक्खाद्दं

री रजनितापनोच्छेप्रमाद्दजे हने एहवो साधुहीयसागहीनपांसतो छतो प्रतिदिनदीनरप्रतं चमादिगुणे करी सहित याद्भ्रह्मचरित्तोत्तुदुक्खाद्दं  
 तरहितल्लह्म तिवादे दुःखप्रतं पासेते साधु रतथावली हीनगुणगुणरहितपणिल्लं ईने यद्भ्रह्मचरित्तोत्तुदुक्खाद्दं गुणरहितल्लह्म हगुणसदगुण भला गुणनाजो  
 गसंयोगादिकायकी जनितजधनो संवेगवैराग्यजे हने एहवो जीवपुन्यस्वरूपपुन्यरूपया ये जिमटद्विपामतो वाधतो शशीधरचंद्भलाते हनी  
 कालानीपरिं एतलेचंद्भ्रमाराद्धनी संगतिस्त्वं के वाधे तिमजीवकृशीलीयानी संगति स्त्वं की भलागुणनी संयोगयकी संवेगजपजे ज्ञाताजी

भगवथासहावीरिणंजावसंपत्तेशं दुसस्रस्वणायज्जयस्व अयमद्वे प्रसृत्ते एक्कारस्वणंभंतिणायज्जयणस्वसमणेशंभ  
 गवथासहावीरिणंजावसंपत्तेशंकि अद्वे प्रसृत्ते एवंखलुजंबूतेणं कालिणं तेशंसमणेशं रायगिहिणारुंणयरे होत्थात  
 त्यणं रायगिहिणयरेसेणिएणां राया होत्थातस्वणं रायगिहस्वणयस्ववहिद्यालत्तरपुरच्छिसेदिसीभाएत्थ  
 णं गुणसिलएणां च ईए होत्थातेशं कालिणं तेशंसमणेशं भगवंसहावीरिपुव्वाणुभुं च रभा रेजावगुणसि

दससोअध्ययनसंपूर्णवयो जंनपूहेजोहिभगवन्हेसुधर्मस्वामी अमणभगवंतश्रीमहावीरदेवे' दसमाज्ञातानाअध्ययननो एअर्थकह्यो  
 प्ररूप्योतेमे' तुहारासुखयक्ती साभत्योहिवे' भंते हे भगवन्द्ग्यारमाज्ञाताना अध्ययननोअर्थअमणभगवंत श्रीमहावीरदेवे' स्योअर्थ  
 केहयोअर्थकह्यो प्ररूप्योक्ते हिवेसुधर्मास्वामीकहेइसआगलिकहीस्ये निचचे हेजंनूतेकालतेसमयनेविषे राजटहनानामनगरकृतोति  
 हाराजटहनगरनेविषे अेणिकनामारजाकृतो तेराजटहनगरने विषे बाहिरइशानकूणिनाभागनेविषे इहागुणसेलीयोनामाचे  
 त्यदेहइ' हतो तेकालतेसमयनेविषे अमणभगवंतश्रीमहावीरदेव पूर्वानुपूर्वीइ' अनुक्रमे' चालतोछतो ग्रामानुग्रामप्रते' सू' कतोछतो

लएचैईएतेणैवसमोसङ्घेरायपरिसाणिगओधम्मोक्कहीओपरिसापडिगयातएणंगोयमेसमणंभगवंसहा  
वीरंएवंवयासीकहखभंतेजीवा आराहगावविराहगाभवन्ति गोयमासेजहाणामएगंसिसमुद्दकूलंसि  
दावह्वाणामंएकव्वापखत्ताकिएहाजावणिउरंबभूयापुत्तियापुण्णियाहरियरेरिज्जमाणेसिरीए

विहारकरतोच्छतो चउदहजारसाधुच्छलीसहजारसाध्वां सहितपरिवस्योच्छतो जिहांगुणसेलीयोचैत्यदेहणंछे तिहांआवीनेसमोस  
स्याजतस्या ओणिकराजानीकल्योपरिषदानीसरी भगवंतओमहावीरदेवे धर्मकच्चोधर्मदेसनासांभलीने परषदापाक्कीवलीनेगई  
तिवारपक्कीगोतंस्वामी अमणभगवंतओमहावीरदेवप्रते इमआगलिकहिस्थे तिमपूच्छतोउओकिमकेणेप्रकारे हेभगवन् जीवाज्ज्ञान  
दसैनचारिवादिमोच्चनामार्गना आराधकउद्दअथवाज्ज्ञान दसैनचारिवादिमोच्चमार्गनाविराधकमथाइमपूच्छोहिवे भगवंतकहे  
हेगोतम सांभलितेयथादृष्टांतते जिमनामकोमलामंतणेएकप्रदेसनाससुद्धनामूलतटनेविषेदावद्रवानामाधणाएच्छप्ररूप्याहेकह्याहे  
तेकेहवाहेक्षणकालेवर्णंछे तांसागिजांनिकुरंबभतथयाहे निकुरंबभतथयाहे वणुंफूल्याहेवणुंफूल्याहे फूलफलहरितनीलांसुंदरदृचा

बंधमिदं सर्वं सुगमं नवरं आराधकाज्ञानादिभोज्यस्य विराधका अपितस्यैव जयाणमित्यादिद्वीविष्णुगद्वेष्याद्वीपसंभवार्द्धपत्युरो  
 धाताः मनाक्सन्ने हवाता इत्यर्थः पूर्वदिक्संबंधिनो वापथ्यावातावनस्यतीसामान्ये नहितावायवः पश्चाद्वातावामंदाः शनैः संचारिणः म  
 हावाताः उद्दुवाताः वांति तदा अर्धे गइयत्ति अर्धे के केचनापि सोका इत्यर्थः जसृत्तिजीर्णा इव जीर्णाः क्रोडः पत्वादिशटनंतद्योगात्ते

अर्द्धवर्त्तवसोभेमाणाचिह्नंति जयाणंदीविष्णुगर्दिसिपुरेवाया पत्यावायामंदावाया महावायावायं  
 तितयाणं वहेदावहृवाषक्खापत्तिया जावचिह्नंति अर्धे गइयादावहृवाषक्खा जूस्राजभोडापरिस

नाफलफूलरूपराज्यरूपणीश्रीलक्ष्मीकरीश्रीतीव्रधनुंरजसोभायमानच्छतारहेच्छेजिवारे' द्वीपसंबंधीयाद्वीपनाजपनाइषत् पुरोधाता  
 शगारेक स्नेहसहितवायुराश्रयवा पूर्वदिक्संबंधीयावायुरा पथ्यकारीषायुरावनस्यतीने' सामान्येकरीहितकारीवायुराश्रयवापिच्छ  
 स्वावातयसीमंदाः थोडिराथोडिरासंचरेच्छेवायुरामहावाताः उद्दुवायुराएहवावायुराश्रयतिवारिद्दुषणा दावद्रवाटच्चः पत्वंतफूलवं  
 तयथाच्छतासुखेसमाधिरहेच्छे तिथारिकेतलाएकदावद्रवाटच्चः जूनासरिखाजूनापानडादिकचुं शडबुतेहनायोगथकी भोजकहिद्ये

पिफोडाः अतएवपरिश्रिताटितानिकानिचित्कानिचिच्च पांडूनिपत्राणिपुष्पफलानिच तेषां तितथागुष्कृत्तक इवक्त्वायंतस्त्रिष्टं तित्तृत्ये ष  
दृष्टांतोयोजनात्सर्वं एवासेवेत्यादिअस्यउत्थियाणंति अन्ययुथिकानांतीर्थान्तरावाणा कपिलादीनामित्यर्थः दुर्वचादीनुपसर्गान्नी

डियंपंडुप्रत्तपुष्पफलासुकृत्कलाओविवमिलायसाणाश्चिद्वृंति एवासेवसमणालसोजोअरुहंरिगगं  
थोवाशिगगंथीवाजावप्रव्वईएसमाणेवज्जुगंसमशिगगंवल्लुगंसावथाणंवल्लुगंसावियाणं  
सम्भंसहइजावअहियासइवज्जुगंअस्यउत्थियाणंवल्लुगंशिगगंहत्याणंथोसम्भंसहइजावणोअहियासेइए

एकारणथकी केतलाएकवृत्तपरिसडितघणुं सद्याक्केतलाएकवृत्तनांपाडुपीला पानडाफलफलथयाक्केवृत्तना तथासुकावृत्तसरि  
खासूलावृत्तनीपरिं मिलायमानकूमलाणाक्कतारहेक्के रहेक्केइसवृत्तनीपरिसाधुनेंओषमाइम इणेंप्रकारे'अहोअमणोआउखावंतो  
जेअरुहाराणिग्रंधसाधु निग्रंधसाधवीदिवालीवेक्कते घणासाधुसाधवीआवकआविकाना वचनसहेखमेतांलगिजा चतुर्विधसंधनु'वो  
ल्यंअहियासे तथावलीघणांअन्यतीर्थां'तरीयनां अन्यदर्शनीयकपिलादिअन्यदर्शनीयनांदुर्वचनादिउपसर्गाप्रते' सोनोसम्यक्सहेतेभ

सम्यक् गृह्यत इति ए स र्णंति एवं भूत एष पुरुषो देश विराधको ज्ञानादि मोक्षमार्गस्य इयमलविकल्पचतुष्टये पि भावनायथा दावद्रवष्टवस

स र्णं म ए पुरि से दे स वि रा हि प्र स र्त्ते स म र्णा उ से ज या र्णं सा सु ह ग ई सिं पुरे वा या प्र थ्या वा या मं दा वा या म हा वा या वा यं ति त या र्णं व हे दा व ह्वा र्क खानू ख भो डा जा वि म ला य मा णा चि द्दं ति अ ष्ये दा व ह्वा र्क वा प त्ति या पु णि फ या फ लि या जा व उ व से भे मा णा र्चि द्दं ति ए वा मे व स म र्णा उ से जो अ रू हं णि गं धो वा णि गं धी

लीपरि सहे नही अन्यदर्शनीयगृहस्थनाहुर्वचनादिसहे नही कपिलादिअन्यदर्शनीयनातेहनागृहस्थनाहुर्वचनादिवचननाउपसर्गप्रते अहियासहे नही जे एहवो ए पुरुषज्ञानादिमोक्षमार्गनो देश विराधकमे क ह्यं प्ररूथो छे ए पहिलो एक भेद जां णि वो तथा अ हो अ म णो जि वा रे समुद्रसंंधीया समुद्रनाजपनालगारिकखे हसहितवायुरापाक्खिलावायुराअथवापथ्यवायुरामंदरवाइवायुरा महाउहं डवायुरा एहंवा वायुरावाइतिवारिंघणादावद्रवाष्टजूनारिखा जूनाथयच्छेपानडादिकचुं शडिवुंतेकारणयकीषणुंसद्यांछे केतलाएकपांडुरामाने डांफूलफलथयाछे जेष्टचनास्त्रकांणारिखामिलायमानथयाछतारहे छेतथाकेतलाएकदावद्रवष्टचपलवंतमानडावंतफूल्याफूल्यांछताता



सूहः स्वभावतोद्दीपवायुभिः बद्धतरदेशैः स्वसंपदः सन्धिमनुभवति देशेनचासन्धिं समुद्रवायुभिश्चदेशे रसन्धिं देशेनचसन्धिं २ उभयेषांचवायूनामभावे सन्ध्याभावश्च सुभयसङ्गावेच सर्वतः सन्धिं ४ एवंक्रमेणसाधुः कुतीर्थिकगृहस्थानां दुर्वचनादीन्यसंहमानाः क्षांतिप्रधानस्यज्ञानादिमोक्षमार्गस्यदेशतोविराधनाकरोति अमणादीनांबद्धमानविषयाणां दुर्वचनादिद्वयमणेन बद्धतरदेशानामारारधनायां अमणादिदुर्वचनानांत्वसहने कुतीर्थिकानासहजेदेशानाविराधनेन देशतएवारारधनांकरोति २ उभयेषामसंहमानोविराधनायां

वापञ्चद्रएसमाणे बहूणंअणुत्थियगिहत्थायंसम्सं सहद्रुबहुणंसमयाणं योसम्सं सहद्रु ४ एसणंसए

लगिजांघणूंजसोभायमान उपद्रवरहितथयाकृता निर्विघ्नपणेरेहेकेसमुद्रनावायरा पराभवीसकेनहीद्रमसाधुने औपमात्रहोअमणा उसोजेअम्हाराणिग्रंथसाधुनिग्रंथी साधवीदिक्षाणीघांछतां अन्यतीर्थीकपिलादिकनातथा अन्यदर्सनीयनागृहस्थना दुर्वचनादिबोलवानाउपसर्गप्रते भलीपरिसहे खमे अहियासे तथाघणांसाधुसाध्वीआवकआविकानां दुर्वचनादिवचननाउपसर्गप्रते कूडीपरिभलीपरिसहेनहींखमेनही अहियासेनहींजेएहवोजपुषपज्ञानादि मोक्षमार्गनोदेशथकीआराधकमेकद्वो प्रकृत्योक्तेहेगौतमएवी

पुरिसेदेसाराहएपणत्तेसमणाउसोजयाणंणेदीविव्वगारोसासुद्दगार्हिसिं पुरेवायापत्थावायाजावसहा  
वायावार्यंतितयाणंसव्वेदावद्दवारुक्खाज्जुख्खोडाएवामेवसमणाउसोजावपव्वद्दएसमाणेवज्जणंसमणारणं  
४वज्जणंअणउत्थियगिहत्थाणंणोसम्मंसहद्दएसणंसएपुरिसेसव्वविराहएपणत्तेसमणाउसोजयाणंदीविव्व

जोभेदजाणिवोतथावलीअहोअमणोजिवारे' द्वीपसंबंधीयाद्वीपनाउपनान ऊवेत्तमुद्दनाऊपनावायुराने' लगारेकयोडार स्सेहसहित  
वायुरापअिलावायुरापथ्यवायुरा थोडास्वायुराएहवावायुरावाजेतिवारिसर्वसगलादावद्दवाटच्चजूनासरिखाजूनापानडादिकसुंसडि  
वोएणंप्रकारे' साधुनें ओपमाअहोअमणोअहोआउखावंतोजेअहारासाधुसाध्वीदिच्वालीधोक्कतो घणासाधुसाध्वीआवकआविकानां  
दुमर्चनादिवचननाउपसर्गप्रते' घणाअन्यतीर्थतरीयकपिलादिसंन्यासीनामतनागटहस्थनां दुर्वचनादिवचनवोलवानाउपसर्गप्रते' भ  
लीपरिसहेनहो' खमेनहो' अहियाखेनहो' जेहवोपुरुषच्छेतेपुरुषपन्नानादिसोचनाना मार्गनोसर्व्वयकीविराधकसे' काद्यो हेगोतमएवीजोभे  
दजाणिवोअहोअमणो अहोआऊखावंतोजिवारे' द्वीपनाउपनाद्वीपसंबंधीयासमुद्दनाऊपना लगारेकस्सेहसहितवायु

गाविसामुद्रगाविर्द्रिसिंपत्थावायाजाववायंतितयाणं सव्वेदावद्दवास्वक्वाप्रत्तियाजावच्चिद्वृत्ति एवाभिवसम  
 णाउसोजोअमहंणिगंगंधोवाणिगंगंधीणवापव्वद्वएसमाणेबहुणंसममाणंठुबहुणंअसुत्थियथिगिहत्थाणंसम्मं  
 सहद्वएसणंसएपुरिसेसव्वाराहएपसत्ते एवंखलुगोयमाजीवाआराहगाविराहगावाभवंति एवंखलुजंबूस  
 मणेणंभगवयामहावीरेणंजावसंपत्तेणं एक्कारसमस्सणायउक्कयणस्सअथमद्वे पसत्ते त्तिबेमिजहदावद्वत

रापथ्यकारी वायुरामंदवायुराउडहं डवायुराएहवा वायुरावाद्दवाजेतिवारिं सगलादावद्दवा दंक्षपानडावंतफूलपानवंतथयाक्कतासुखे सं  
 मीधिंरहेक्के इमइणेप्रकारे संसाधुनेउपमाअहोअमणोअहोआउखावंतोजेअन्हारासाधुसाववी दीक्षालीधोच्छतोषणासाधुसाधवीआवक  
 आविकाना दुर्वचनादिवचननाबोलसहेअहियासेषणाअन्यतीर्थतरीयगृहस्थनादुर्वचनादि वंचननाबोलनाउपसर्गंप्रते भलीपरिस  
 हेखमैअहियासेजेएहवोजपुरुषतेज्ञानादिमोक्षनामार्गनो सवथकीआराधिकमेकह्योक्केप्ररूप्योक्केएचोथोभेदजाणिवुइमपूर्वोक्तप्रकारे  
 खलुनिचेजीव ज्ञानादिमोक्षमार्गनाआराधककृतेज्ञानादिमोक्षमार्गनाविराधकइमपूर्वोक्तप्रकारे खलुनिचे हेजंबअमणभगवंतअमीम

सर्वथा तस्य वर्तते ३ सहमानश्च सर्वथाराधनायामिति ४ इह पुनर्विशेषयोजनमिव वर्णयंति जहदावद्वत्तस्य गणमेवं साहज हे हृदी विव्वा  
वायात हसमणा इय सपक्ववयणा इं दुसहा इं १ जहसासुह्यवायात हस्यतित्या इकडुयवयणा इं कुसुमा इं संपथा जहसिवमगारा ह्यणा

स्वणमेवं साहज हे हृदि विगावायात हसमणा इय सपक्ववयणा इं दुसहा इं १ जहसासुह्यवायात ह  
गुहं तित्या तिकडुयवणा इं कुसुमा इं संपथा जहसिवमगारा ह्यणा तहय २ जहकुसुमा इं विणा सोसिवम

हावीरदेवं ज्ञाताना इग्यारमा अध्ययननो एअर्थसुक्तेने कह्यो ते हवोज अर्थतुक्तेने कज्जं कूहि वेददृष्टांतक हे छे जिम इं हांदा वद्रवद्वचनो वनति  
मइं हांसाधुजाणिवा तया जिम इं हां द्वीपनाऊपनावायुरावा इवा जेतिम इं हां अमणा दिअमणसाधुसाध्वी आवक आविकापोतानापचनं व  
चनदुर्वचनादिस हे अहिया सेते के हवा छे दुःसह दुःखेखमवायोग्य एहवा छे १ जिमसमुद्रनाऊपनावायुरावा इहे तिम अन्यतीर्थी कुतीर्थी नां  
अतिकडुयावचन जिम इं हां द्वीपानी फूलफलादिकनी संपदासहृष्टि ऋद्धि छे तथा तिम इं हां शिवमोक्षमार्गनी आराधना जां णिवी रजिम फूल  
फूलादिकना विनायनासज्ज इति मइं हां सिवमोक्षमार्गनी विराधनानेया जां णिवी जिम द्वीपनाऊपनावायुरानायोगहं ते छे तेषणी ऋद्धि

तहचोर जहकुसुमाद्रविणासोसिवमगगविराहशातहानिया जहदीववालजोगे बड्डइड्ढीईसियअणिड्ढी३ तहसाहम्मियवययाणामा  
राहणाभवेवड्डयाइयराणमसहणेपुण सिवमगगविराहणाथोवा४ जहजलहिवालजोगेथोविड्ढीबड्डयरायणिड्ढीओतहपरपकडकड

गगविराहणातहाणेयाजहदीववायुजोगे बड्डइड्ढीईसियअणिड्ढी३तहसाहम्मियवययाणसहणमार  
हणाभवेवड्डअइयराणमसहणे पुणसिवमगगं'विराहणाथोवा ४ जहजलहिवायुजोगेथोवड्ढीबड्डय  
राअणिड्ढीओ तहपरपकडकडमाणा आराहणमासिवहयरंपू जहउभयवालविरहसव्वातरसंप्रया

ऊईइषत्थोडी ऋद्धिनऊइ३ तिमसाधर्मिकसाहमीसाधुसाधवी आविकआविकानावचनानुं'सहिवुं' खमिवुं'ते आराधनाऊइइषणीइ  
तरअनेरावीजानावचननुं'अणसहिवुं'अणखमवुं'पुनःवलीशिवमो चमार्गनीज्ञानदर्सनचारितनीविराधनाथोडीऊइ४ जिमजलधि  
ससुद्रनाजपनावायुराजो गड्डं'तेछतेथोडी ऋद्धिनऊइ३ अनें'धणी ऋद्धिनऊइ३ तिमपरपचकुतीर्थिक अन्यदर्शनीयनादुर्वचननाबोल  
खमेऊतेछतेआराधनदेशथकीहओ बड्डतरघणुं' ५ जिमदीपनाजपनाअने ससुद्रनाजपनाउभयवाजवेऊवायराजो विरहअभावऊ

मणे आराहणामीसि व ऊर्ध्वरं प्र जहउ भयवाय विरहे सव्वातरसंपया विणदृत्ति अनिमित्तो भयमच्छेररूवे हविराहणात हयई जहउ  
भयवायजोगे सव्वसमि ड्ढी वणत्तसं जाया तहउ भयवयण सहणे सिवमगाराहणा पुण ७ तापुण समणधम्माराहण चित्तासया म हासत्तो

विणदृत्ति अणिमित्तो भयमच्छेररूवे हराहविणात हय ६ जहउ भयवायजोगे सव्वसमि ड्ढी वणत्तसं  
जाया तहउ भयवयण सहणे सिवमगाराहणा पुण ७ तापुण समणधम्माराहण चित्तो सया म हासत्तो  
सव्वेण विक्कीरं तं सहेज्जसव्वं पिपडिकूलं एक्कारसंमंणाय उभयणं सत्तं १ जइणं अंते समणेणं भगवया

तउते छ ते सगली दावड्ढवाट्ठाना ससूहनी संपदालक्ष्मी सोभा विणठे विनासपा मेति मअ निमित्तनि कारणावीना जधुसाधवी आवकाअ  
विक्काअने कुतीरिथे उ नेजपरिमच्छरकरे ते वे ऊना वचन खसे नही ते हने सर्वयकी विराधना ऊइजिमही पजाजपनाअने ससुद्रनाजप  
नाएवे हुना वायुराना योगहुते छते सगली समद्वि ऋद्विवनस्यती नहुइ मूलफलनी सगली ऋद्विहुइ तिमसाधुसाधवी आवकाअ विकानाअने  
कुतीरिथी नाएवे हुना दुर्वचनगवोलखमते सहते उते छते शिवमोक्षनामार्गनी आराधना सर्वयकी पुण्णपूरी ते साधुने उइ ७ तेकारणयकी

सर्वेणविकीरंतं स हेज्जसब्बं पिपडिकूलमिति ऽ एकादशज्ञातविवरणं समाप्तं अधुना द्वादशं विव्रियते अस्य चैवं संश्रंघो अनन्तरज्ञाते चारित्रधर्मस्य विराधकत्वमारोपकत्वं चोक्तमिह तु चारितारोपकत्वं प्रकृतिमलीभसानामपि भव्यामांसदूषणपरिजनयानां तोभवतीत्युद

महावीरेण जावसंपत्तेण एकारसमस्य णायजकयणस्य अयमद्वेपसूत्तं बारसमस्य णं भंते समस्येणं भगवयामहावीरेण जावसंपत्तेणं अङ्गी अद्वेपसूत्ते एवं खलु जंबू तीरेणं कालेणं तीरेणं समएणं चंप्राणं अंशयरी हो

पूर्णसंपूर्णं अमणधर्मसाधुनाधर्मनी आरोपनाते हने विषे चित्तके जेह नो सुदा सर्वदामहासत्वधैर्यवंतं प्राणी सर्वसर्वकारीसगलुं करतो कि याकलापकरतो सहे अहिवाये खसेसगलुं प्रतिशूलवचनते प्रते ऽ एद्दुग्यारमी ज्ञातानो अध्ययनसंपूर्णययो हिवे वारसुं अध्ययनकहे छे ए अध्ययनो एसं वंध तथा दुग्यारमा अध्ययनने विवे चारित्रधर्मनु आरोपकपणुं क ह्युं इहां वारमा अध्ययनने विषे चारित्रनु आरोपकपणुं स्वभावे स हि जे मइला एहवाभव्य जीवां नि सदगुरुनी सेवायकी निर्मलज्जइते उदकपाणीने दृष्टांते करी कहि ये छे जे पूछे यदि जो भंते हे भगवन् अमण भगवंत श्रीसहावीरदेवे दुग्यारमा ज्ञाताना अध्ययननो ए अर्थकच्चो ते मेसां भल्यो तुम्हारा सुखयकी वारमा ज्ञाता

त्यापुष्पभङ्गे चैद्रएतौसेणं चंप्राणयरीएजियसत्तूणमं रायाहोत्थातस्खणं जियसत्तूसरखो धारिणीणा  
 मं देवी होत्था अहीण सुकुमालजावसुख्वातस्खणं जियसत्तूसरणो पुत्ते धारिणी एअत्तएअदीणसत्तूणा  
 मं कुयारेजवूरायावि होत्था सुबुद्धी अमच्चैजावरज्जधूरा चिंतएसमणो वासएअभिगतजीवाजीवेतीसेणं

नाअध्ययननुअर्थहे भगवन्अमणभगवंत श्रीमहावीरदेवे' केहवोअर्थकह्योक्केतेकहोहिव सुधर्मास्वामीकहेइम आगलिकहिस्से तिम  
 निच्ये हेजंबू तेकालतेसमयनेविषे चंपानामानगरीहतीऊइ तिहाचंपानगरीने वाहिरपूर्णभद्रचैत्यदेहरुंके तेचंपानगरीनेविषेजि  
 तसतुनामाराजाऊंतो तेजितशत्रूराजाने धारणीनामाराणीहंतो तेकेहवीक्केअहीनहीणानथी पांचइंद्रियतालगिजांघणुं सुरूप  
 रूपवंतीक्के तेजितशत्रूराजानो धारणीदेवीनो आलजअंगजातक्केअदीणसतूनामाकुमरजुवराजाहंतोसुबुद्धिनामाअमात्यप्रधानहंतो  
 तांलगिजांच्यारवुद्धिनोनिधानक्के राज्यनीधुरानोचिंतक्केतथावलीअमणोपासकआवकक्केअभिगतजाण्यक्केजीवअजीवादिनवतत्वजेणे  
 एहवोसुबुद्धिक्के तेचंपानगरीने वाहिरइशानकूणिनेविषे एकफरिहोदकपरिखाखाईनु' उदकपाणीहंतोतेपरिखोदककहिचेतेफरिहो



कोदाहरणेनाभिधीयत इत्येवंसंबन्धमिदं संवसुगमंनवरं फरिहोदयत्तिपरिखायाः खातवलयस्योदकं चापीतिसमुच्चये ततश्च पादिको अर्थो भूतएवंपरिखोदकं वाभ्दित्येवं चससुच्चये इति मेथेत्यादिअत्रमेदः प्रथतीनांपटलेनसमूहेन पोच्चडं विलीनं सतकानां द्विपदादी

चंपाएणयरोएवहियाउत्तरपुरिच्छिमेणंगेफरिहोदयविहोत्यामेयवसामंसरुहिरपूयप्रडलपोच्च  
डेमयगकलेवरसंछस्ये अमणुस्ये वस्ये गंजावफ्रासेगंसेजहाणामएअहिमडे तिवागोमडेतिवाजावमयकु

दककेहवोछेमेदक० हाडमांहिलोमेदोवसान समांसरुधिरलोहीपयपाको लोहीपरुरूपतेहांनोपडलसमूह तेणेंकरीपोच्चडविलीन व्यायोछेपांशी वलीतेपरिखोदककेहवुंके द्वीपदादिचतुपदादिस्वतकसुं आनाजेकलेवर तेणेंकरीसंछन्न ढाक्योआच्छाद्योजेखा इतुं पाणी वलीअमनोज्ञपाड्योवर्णतेणेंकरीसहितके जेखाइनुं पाणीतेखाइनापांशीनो गंधएहवोछेतेजिमनामकोललामंत्रणेअहि स्वतसूं आसर्पनाकलेवरानोजेहवौगंध गाइनाभंसनाकलेवरानोजेहवो गंधहूइ तांलगिजांमयस्वतजीवरहिततथा ततकालतुं सुयुंथो डाडुगंधवंत तथाविणठवुं सोजासोफपगादिकना विकारवंतथयो तथाकिमिणक० केतलाएककमिकीडानी परिव्यायोके वर्णे क

नांकडेवरैःसंच्छन्नं यत्तत्तथा अह्यादिकडेवरविशेषणायाम् अतंजीवविमुक्तमातंसद्यत्कुथितमीषदुर्गंधमित्यर्थः तथाविनष्टमुच्छूनत्वा  
दिविकारवत्किमिणुंति कतिपयकृमिवत् व्यापन्नं चयकुन्यादिभक्षणादिभक्षणाद्बीभक्षतांगतं सद्यद्दुर्गंधुरभिगन्धं तीव्रतरदुष्टगन्धं तत्तथासुब्भिसदा

हियविणिट्टकिमिणवावस्सदुरभिगंधकिमिजालालेसंसत्ते असुइविगयवीभच्छदरसणिज्जेभवेयाख  
वेसिया योइणट्टे समट्टे एत्तोअणिट्टतरएचेव जावगंधेणंपसत्ते तएणंसेजियसत्तूराया अस्सयाकया  
इं गुहाए कयन्नलिकम्मो जाव अप्पमहग्घाभरणालंकियसरीरेवज्जहिं राईसरजावसत्थवाहपभिईहिं

रीदुर्गंधक्रमिपूरातेहनाजालसमूह तेणेकरीव्याप्युंछेसंसक्तवणेजीविसहितछे असुचिअपवित्तविगयपंखीकृतिरादि जीवनाखावायकी  
वीभच्छवीहामणुं देखिवाजीवाजोग्य दर्शनछेतलालनुं कपनुं धणुं दुर्गंधछेपाणीतेएहवोदुर्गंधपणुं पाडूयोदुर्गंधहइ इमपूख्यो  
सुधमांस्वामीकहेएपूवं दुर्गंधकच्चोतेअर्थसमर्थनहइ एदुर्गंधयकीधणुं अनिष्टतरपाडूयोगंधछे जेखार्इनापाणीनोएहवोगंधपाडू योक  
ह्योप्रख्योछे तिवारितेजितशतूराजा एकदाप्रस्तावे न्हायोअंधोल्हो वलीपूजानोकर्मकीधोषरनादेहरासरनी प्रतिमानीपूजाकी

सद्धिं भोयणमंडबंसिभोयणवेलाए सुहासणसखे विपुलं असणं४मुं जेमाणजावविहरईजिमिय  
 यभुत्तरागएजावसुइमूए तंसिविपुलंसिअसणं४ जावविहएतेबहवेई सरजावपभिईएवंवयासौअ  
 होणंदेवाणुप्पिया इमेमणुखे असणं४वखे सं उववेए जावफासिणंउववेएअस्सायणिज्जे विस्सायणिज्जे

धीतांलगिजांअल्पथोडोभारअनें मूल्खंणोएहवावंहमूल्खआभरणअलंकार तेषांअलंकृतअलंकखोसोभायसांन कौधोकेसरीरजेरा  
 जानोएहवोजेजितसतूराजा घणाराजेखरशुवराजामंतीमहामंती सार्थवाहप्रभृतिप्रमुखसंघातें भोजनजिमवानामंडवाने विधेजि  
 मवानीवेलाने विधे सुखासनभलासिंहासननें विधे वैठोछतोविपुलघणुं असनपांनखादिमखादिम च्यारप्रकारनोआहारकरतोछतो  
 बिचरेछे राजासगलापरिवारसंघातेजिम्यांपच्छी तांलगिजाघणुं चलुईपरमशुचि पवित्तथयोपणिराजातेविपुल विस्तीर्णअन्नादिद्वार  
 प्रकारनाआहारनें विधे अतिघणुं विस्मयअचरिजपास्योछतो तेघणाराजेखरसार्थवाहपर्यंतप्रतें इमकहतोडुअसोसहोदेवानुप्रियाओ  
 एआप्रत्यक्षमनोग्यअन्नपांणीखादिमखादिम च्यारप्रकारनोआहार वर्णे करीरूछातेणोसद्धित रूडे गंधेकरीरूडे फरसें करीरूडे फा

पौण्यिञ्जे दीवण्यिञ्जे सव्विंदियगायपलहायण्यिञ्जे तएणंतेवहवेराईसरजावप्पभिईओजियसत्तूरा  
 यंएवंवयासैतहेवणंसामी जणं तुअभेवयहअहोणं इमेमणुखे असणं पाणंखाइमंसाइमं वखे एंउववेए  
 जावपलहायण्यिञ्जे तएणंजियसत्तूरायासुबूद्धिअमच्चंएवंवयासैअहोणंसुबुद्धीअमच्चेइमेमणुखे असणं  
 प्राणंखाइमंसाइमं जावपलहायण्यिञ्जे तएणंसुबुद्धीअमच्चंजियसत्तूरायस्यथ एयमइणोआटाइंणो

सें करीउपपेतसच्चित्ते तिवारेतेषणाराजेखरप्रमुखआदिदेइ सार्थवाहपयंतजितशत्रूरामाप्रते इमकहताह आतिमजतेहवाजआ  
 चारकेहेस्वामीमहाराज जियेप्रकारे जियतुहे कहोकेअहोइतिआमंत्वणे हेमहाराजइमेएआमनोच्चमनोरमअन्नपाणीखादिमखा  
 दिमचारप्रकारआहाररूडोवर्णकरीसहितछेतांलगिजांघणु प्रह्लादहर्षप्रसोदउपजाविवाजोग्यकेआहारजेहवोवखाणोछोतेहवोछेजि  
 तसत्रूराजासुबुद्धिनामाअमात्यप्रधानप्रते इमकहतोहओहेसुद्धि प्रधानआमनोग्यमनोरमअन्नपाणी खादिमखादिमचारप्रकारनो  
 आहारतांलगिजांघणुंशरीरने प्रह्लादहर्षअनंदनोउपजावणहारकेइमराजाइं कस्योतिवारें सुबुद्धिप्रधानजितशत्रूराजानोएपूर्वे

परियाणाद् जावतुसिणीएसंचिद्रतएणंजियसत्तूराया सुबुद्धिअमच्चं दोच्चं पितच्चं पिएवंवयासौअहो  
 णं सुबुद्धीअमच्चं इमेमणुखे तंचेवजावप्रहयाथिज्जो तएणं सुबुद्धीअमच्चं जियसत्तूणारसादोच्चं पितच्चं  
 पिएवंवृत्ते समाणेजियसत्तूरायंएवंवयासौणीखलुसामी अहंएयंसिमणुखं सिअसणं प्राणंखाइमंसाइ  
 णंसिकेइविहएवंखलुसामी सुग्भिसद्दाविप्रोगलादुग्भिसद्दाएप्रियाणं तिदुथिसद्दाविप्रोगलासु

कह्योतिअर्थप्रते आदरेनहीजाणेनहीं तालगिजांअणबोल्थोच्छतोरहे तिवारपक्खीवलीजितशत्तू राजासुबुद्धिप्रधानप्रते बीजीवारतीजी  
 वारइमकहतोह्अोहे सुबुद्धि प्रधानअमनोअमनोरमआहार तिमजतालगिजांशरीरनेहर्षअानंदउपजाविवाजोग्यक्के इमराजाइ क  
 ह्युं तिवारपक्खी सुबुद्धिप्रधानंजितशत्तू राजानेदोवारतिणवार इमपूर्वं कह्युं एणं प्रकारं कह्युं सुबुद्धिप्रधानजितशत्तू राजाप्रते इमक  
 हतोह्अोनोनिषेखलुनिचं हेखामीह्अणोरमअन्नादिच्चारप्रकारना आहारने विषेकोइविस्खयअचरिज पामतो नधी एवं इणं प्र  
 कारे खलुनिचं हेखामी सुग्भिसद्दासुभअलाशब्दअपिनिचं भलाउत्तमपुज्जलदुष्टपाडूया सब्दपणेंकरीपरिणमेक्विकारिक दुष्टपाडूया

स्मिभसद्दत्ताएप्ररिणमंतिसूख्वा विप्रोगलादुख्वात्ताएप्ररिणमंति दुख्वाविप्रोगलासूख्वात्ताए प्ररिण  
 मंति सुस्मिभगंधाविप्रोगला दुस्मिभगंधत्ताए प्ररिणमंति दुस्मिभगंधाविप्रोगला सुस्मिभगंधत्ताएप्ररिणमं  
 तिसुरसाविप्रोगलादुरसत्ताए प्ररिणमंतिदुरसाविप्रोगलासुरसत्ताएप्ररिणमंति सुहफ्रासाविप्रोग  
 लादूरहफ्रासत्ताए प्ररिणमंतिदूरहफ्रासाविप्रोगला सुहफ्रासत्ताएप्ररिणमंति पञ्चोगयीससाप्ररिण

शब्दपुञ्जलपणि सुरस्मिभगंधशब्दपणेथइ प्ररिणमेसुरूपपणिपुञ्जलदुष्ट कुरूपभूंडारूपपणेथइ प्ररिणमेदुष्टकुरूप पाडूवाभूंडापणिपुञ्ज  
 लसुरूपरूडारूपपणेथइ प्ररिणमेक्के सुभभलांगंधपणिपुञ्जलपाडूआ गंधपणेथइ प्ररिणमेदुग्ंधपाडूआ अस्मभगंधवंत पुञ्जलसुरस्मिभं  
 धपणेथइ प्ररिणमेक्के भलारसवंतपुञ्जलपण दुष्टत्वभूंडापाडूआ रसपणेथइ प्ररिणमेक्केदुष्टपाडूआरसपुञ्जलपणिसुष्टुभलारसपणेथइ  
 रिणमेक्केसुखकारीयाफ्रिस पुञ्जलपणिसुखकारी फ्रिसपणेथइ प्ररिणमेक्केदुःखकारी आंफ्रिसपुञ्जलपणिसुखकारी फ्रिसपणेथइ  
 प्ररिणमेक्केप्रयोगजीवने व्यापारिकरी लक्ष्मिकरीवीससाक०वलीस्वभावसहजेकरीपरिणयाक०परिणयाताअवस्थांतरप्रते पास्याक्केजेते

विचिन्तुभयब्दाअपिदुब्धिसहाएत्तिदुष्टशब्दतवापञ्चोगवीससापरिणायत्तिप्रयोगेनजीवव्यापारेणविअसयाचखभावेनपरिणताअवस्थांतर  
सापन्नायेतेतथाआसखंधवरगएत्तिअश्वएवस्कांधःपुङ्गलप्रचयरूपोवरःप्रधानोऽश्वस्कांधवरोऽथवास्कांधप्रत्यासखेष्टमपिस्कांधद्वितिव्यपदिष्ट

यावियणं सामीपोगलापसत्ता तएणंसेजियसत्तूराया सुबुद्धिस्वअमच्चस्स एवमाद्रक्खमाणस्स४ एय  
मडुंणोअढाद्रणेपरियाणाइ तुसिणोएसंचिदुइ तएणंसेजियसत्तूराया अस्सयाकयांद्रएहाए जाव

एतलेरूडापुङ्गलतेभूडायाइ अने भूडातेरूडाथाई हेखामीएहवापुङ्गलकह्याछे तेहनोस्युंवखाणोछो हेमाहराजाधिराजइमप्रधा  
नकह्योतिवारितेजितशतू राजा सुबुद्धिअमात्यप्रधाननो इणंप्रकारंपाच्छिलोकह्योसुबुद्धिनो तेहने एअर्थप्रयोजनप्रते आदरेनहींमां  
नेनहींजाणेनहीं बोलेनहींहानाकहेनहीं अणवोल्पोछतोरहेतिवारपछी तेजितशतू राजाएकदा प्रसावे स्नानअंबोलकरोतांलगि  
जांसगलांआभरणपहिरीविभूषित सोभायमानथयोछतोआसक० षोडानिविषेजे जेखंधखांधपुङ्गलनोसम्बरूप वरप्रधानगतपांस्यो  
घढीअथवाखाधनेठूकडापणाथकीखंधक० वासोकहियेएतलेउत्तमघोडाउपरि चढीराजामोटाघणाभटसुभटना चटकरक० सम्बरूह

विभूत्सिएआसखंघवरगए सहयाभडचडगरआसवाहणि याणिज्जायमाणे तस्सफरि होदयस्स अद्रु  
रसामंतिणं वीइयइतएणंजियसत्तूराया तस्सफरि होदगस्सअभिभूएसमाणे सएणंउत्तरिज्जेणं आ  
सगंपिहेइएणंतंअवक्कमइइत्ता तेवहवेराईसरजावपभिइओ एवंवयासीअहोणं देवाणुप्पिया इसेफरि

असवारएतले षणासुभटनासम्भूह षोडेचढयातेणेकरीपरिवस्योच्छलो नगरमाहियकीनीसरतोच्छतो तेपरिखोदकखाईनापाणीनिपां  
सेअतिघणुं वेगलोनहींअतिघणुं दूकडुंनहीं वितिकमेछेजाइछेतिवारिजितशतू राजातेपरिखोदक खाईनापाणीनिपरामव्योपीओछ  
तोआकुलव्याकुलथयोछतो पोताने जत्तरीयउपरिओढवाने वस्से करीसुखसुहडाप्रतंढाकिमुं हडाजपरिछेहडोदेइएकपासें टलीजाइ  
एकपासेटलीजईने तेवणासहू राजेश्वरयुवराजाप्रभृतिप्रसुखआदिदेइसार्थवाहपयंतप्रते एणंप्रकारे कहतोइओ अहोदेवानुप्रियोदे  
खोयोइसेआपरिखोदकखाईनोपाणी अमनोच्चअमनोहरवणै करीछेतथापाडूयेंरसें करी पाडूयेफरसें करीछेतजिमह  
टांतसप्यं नामडाअलेवरनोजेहवो गंधज्जइतांलगिजातेसर्पादिकनाकलेवरयकीपणिषणुंअमनोच्चतरघणुंपाडू यो गंधजेखाइनापाणी



होदएअमणुखे वणेषं गंधेणंरसेणंफ्रासेणं सेजहाणामएअहिमडेइवा जावअणामतराएचेवतएणं  
तेराइसरप्पभिइए जावएवंवयासौ तहेवणंसामीजखं तुभेएवंवयह अहोणंइमेफरिहोदए अमणुखे  
वखेणं गंधेणंरसेणंफ्रासेणं सेजहाणामएअहिमडेइवा जावअमणामतराए तएणंसिजियसत्तूराया

नोइमराजाइं पाणीवखोद्यो तिवारपच्छीतेसगलाराजेखरयुवराजा प्रसुखआदिदेईसार्थवाहपयंत इमकहताडआतिमजखामीजे  
णेप्रकारे'जिमतुहे इमपूर्वोक्तप्रकारे' कहोच्छोतिमजअहोखामीएखाइनो पाणीछेअमनोज्ञपाडू योवणे' करी पाडू यो गंधे करी रसेफ  
'रसे करी छे तेजिमदृष्टांत नामकोमलामंतणे अहि सप्यादिकनाकलेवरनागं धसरिखो तांलगिजांअमणामतरअमणोहर पणे करी वणुं  
जभंडुं छे इमसगलेकह्यो तिवारपच्छी जितथलू राजासुवुद्धिप्रधानं प्रते' इमकहतोहूअोअहोसुवुद्धिप्रधानं देखुं छुं आखाईनोपाणी केहवो  
अमनोज्ञपाडू येवणे करी गंधे रसेफरसे' करी छे जेहवो तेजिमयथा दृष्टांत नामकोमलामंतणे अहि सप्यादिकनाकलेवर गंधसरिखो  
तांलगिजाअमणामतरअमनोहर पणे करी वणुं जभंडुं छे इमसगलेकह्युं तिवारपच्छी जितथलू राजासुवुद्धिप्रधानं प्रते इणंप्रकारे' व

सुबुद्धिअमच्चं एवंवयासी अहोणं सुबुद्धी इमेफरि होदए अमणुस्स वय्ये णं गंधेणं रसेणं फ्रासिणं सेजहाणा  
 मए अहिमडेतिवा जावअमणासतराए तएणं सुबुद्धीअमच्चं जावतुसिणीएसं चिट्ठइतएणं सेजियस  
 त्तूराया सुबुद्धिं अमच्चंदोच्चं पितच्चं पि एवंवयासी अहोणंतं चवतएणंसे सुबुद्धीअमच्चं जियसत्तूणा  
 रखा दोच्चं पितच्चं पि एवंवुत्ते समाणे एवंवयासी शोखलुसासी अमहं एयंसिफरि होदगंसिकेइविमह

लीकहतोहूओ अहोसुबुद्धिप्रधान देखोछो आखाईनोपाणीअमनोच्चवर्णेकरी जेहवोतेजिमयथाहष्टांत अहिमय्यादिम्वं आनाकले  
 वरजेहवापाडू अतिहनागंधयकीभुंडू जेखाइनोपाणी तिवारिसुबुद्धिप्रधान आदरेनहींमानेनहीं जितशलू राजानाकहणअण  
 बोल्थोरहेपाणीनिवखोडे पणिनहींवखाणेपणनहीं तिवारपच्छीतेजितशलू राजा सुबुद्धिप्रधानप्रते दोवारतिणवार इणेप्रकारिवली  
 कहतोऊवोअहोसुबुद्धिप्रधानए आखाईनोपाणीघणुं पाडूयोवणे गंधेरसेफरसेकरी भुंडुजछेतेपाछली कछ्योतेहवोजतिवारपच्छीते  
 सुबुद्धिप्रधानंजितशलू राजानं दोवारतिणवारएवंइमपूर्वलीपरिकछ्योछतो इणेप्रकारं जत्तरदेतोऊवो नोनिधेधेखलुनिचं हेस्वामी

मिति असम्भावबुभावणाहिति असताभावानां वस्तूनां वस्तुधर्माणां वा या उद्भावना उत्प्रेक्षणा नित्यस्तथा ताभिर्मिथ्यात्वाभिनिवेशेन च वि

एवं खलु साप्ती सुभिभसह विपोगला दुब्भिसहत्ता एपरिणमति तंचेव प्रपञ्चो गवीससापारणया विय  
 शंसाप्तीपोगलापस्यत्ता तएणंजियसत्तूराया सुबुद्धिअमच्च एवंवयासौमाणंतुमं देवाणुप्पिथाअप्पाणं  
 चपरंचतदूभयंचवहुहिय असम्भावुभावणाहिं सिच्छत्ताभिणीवियेणयबुग्गाहेमाणेबुप्पायसाणेवि

अहने एखाईनापांणीनेविषे कोईविस्वयचरिजनथी इणंप्रकारे खलनिच हेखामी सुभभलाशब्दपुद्गलदुष्टपाडूया शब्दपरणे करी  
 परिणमेच्छेपञ्चोगक० प्रयोगजीवांनेव्यापारे करी उद्यमउपक्रमे करी वीसकहतां स्वभावे जकरीपरिणताअवस्थांतरप्रते पास्याच्छेजेते  
 शब्दएतले हेखामी उद्यमेकरीवलीस्वभावे सहजेकरीरूडाने भूडायाइभूडातेरूडायाइ एहवापुद्गलकह्याच्छे तिवारपच्छीवलीजि  
 तशत्रूराजासुबुद्धिप्रधानप्रते इणंप्रकारे कहतोऊवो माइतिनिषेधेतु हेदेवानुप्रिय हेसुबुद्धिप्रधानपीतानाआत्माप्रते परअनेरा  
 बीजाप्रते तेपीतानाअने वीजावेऊप्रते षणीअच्छताअविद्यमानभाववस्तुनो स्वभावतेहानीजेउद्भावना उत्प्रेक्षणाअनाहृतसहहवो

पर्यासावभिधानेन व्युद्ग्राहयन्विविधत्वे नाधिक्ये नचग्राहयन्व्युत्पादयन्अव्युत्पन्नमतिव्युत्पन्नं कुर्वन्संतं द्रव्यादिसंतोविद्यमानान्

हराहितएणं सुबुद्धिस्त्रमच्चस्व इमेयाह्वेअत्रभक्तिथिएस सुप्रज्जित्याअहोणेजियसत्तूरायासंनैतच्चेत  
हिएअवितहेसभमूएजिणपसुत्ते भावेणोउवलभंतेतंसेयंखलुसप्तजियसत्तूस्वरसोसंताणंतच्चारं तंहिया

तेणीएकरीमिथ्यातअभिनिवेशेजकरी मिथ्यात्वक० भूटोविपरीततेहनेविषे अभिनिवेशहठअभिमानतेणे करी विविधपरणेअधिक्यपरणे  
करीव्युद्ग्रहितोच्छतो व्युत्पादतोषणुं विविधआधिक्यपरणे करी अव्युत्पन्नमतिव्युत्पन्नवुद्धिएहवोभां ठूहठकरतोच्छतो विचरमांतुं रहिमां  
इमराजाइं कच्छुं तिवारपच्छीसुबुद्धिप्रधानेने एहवोसनमांहिअध्यवसायसंकल्प विकल्पआलामाहिजपजे अहोजितशत्रूराजाच्छता  
विद्यमानतत्वरूपतत्वमार्गसहित एकारणयकीतथ्यसाचासत्य अवितायभूठानहीं सद्गतच्छताविद्यमान प्रकारे करी एहवाजिनवीत  
रागनाप्रख्यापामतो जाणतोनी राजातेकारणयकी अयभलंममसुभनें जितशत्रूराजाप्रतें छताविद्यमानं तत्वरूपतत्वनामार्ग  
एकारणयकी तथ्यसाचाफोकनहीं अवितायभूठानहीं सद्गतच्छता विद्यमानहिवडां एहवाजिनवीतरागना प्रख्याकद्धा भावतेभा

तच्चेत्तित्वरूपानेवंपर्यसुसन्विता नित्यर्थः अतएवतथ्यान् सत्यान् एतदेवव्यतिरेकेणोच्यते अविद्यया न्नविद्ययानित्यर्थः किमुक्तं भवति सद्गतानुसताप्रकारेण भूतानुजातानुसद्गतानेकार्थीचेते शब्दाः अभिगमणद्वयाएत्तिअवगमलक्षणायाअर्थीयेत्यर्थः एवमदृत्ति एवंपुद्गलानां

गुंअवितहाणंसकभूयाणंजिणप्रणत्ताणंभावाणंअभिगमणद्वयाएयमदृत्तुवायणावेत्तएएवंसंपेहेइइत्ता  
त्तिप्रतिएहिंपुरिसेहिंसद्धिंअंतरावणाओणवषडणगिरहइत्ता संभोकाकालसमर्थसिप्रविरलमणुसंसि  
णिसंतपडिणिसंतसिजेणवफरिहोइएतेणेवउवागच्छइत्ता तंफरिहोइगंगिरहावेइणवएसुषडएसुप

वाने' अभिगतजाणवानाअर्थभणी एपुद्गलाना अपरापरपरिणाम पुद्गलानो आलटपालटोथावोरूडा पुद्गलनोपरिणामथावोए  
हवाअर्थप्रयोजनप्रते' देखाडिवाभणीग्रहिराविवाभणी कल्पे तोभलोइममनमांहि चिंतवेविचारचिंतवीने प्रतीतकारीयापुरुषांसाथे  
खाईनापाणीनासार्गने' विचाले' हाटकुंभारसंबंधी तेहाटथकीनवाषडांप्रते' ग्रहेग्रहीनेलेईनेलेवरावीने' संध्याकालसांभनासमय  
नेविषे पविरलयोडामनुष्यरूतेकृते निशांतकंधरानेविषे विआमनिमत्तपाछावलीआवे ऊतेकृतेसांभनासमयनेविषे जिहांखाईनो

अपरापरलक्ष्णमर्थं उवाङ्गणावित्तएत्तिउपादापयित्तं ग्राहयित्तुमित्यर्थः अंतरावसाञ्चत्ति परिखोदकभागंतरालवर्त्ति नोहृद्धान्

क्खिवविइत्तासज्जक्खारंपक्खिवविइत्तलंछियसुद्धिएकाराविइत्तरत्तंपरिवसावेइदोच्चंपिणवएसुव  
 उएसुगालाविइत्ताणवएसुवडएसुपक्खिवविइत्तासज्जक्खारंपक्खिवविइत्तलंछियसुद्धियकारावे  
 सत्तरत्तंपरिवासावेइत्तातच्चंपिणवएसुवडएसुजविसंवसावेइत्ताएवंखलुएएणंउवाएणंअंतरा

पांणीच्छे तिहांआवेतिहांआवीने तेपरिखोदकखाइनापांणीप्रते लेवरावेलेवरावीने नवघडाकोराघडानेविषे घलाविघलावीनेसज्ज  
 क्खारंपराखघडामांहि घलाविघलावीने पच्छेघडानोमुखलंछितसुद्धित लंछनरेखारूपकारावे घडानोमुखबांधीऊपरिरेखाकारावीने  
 सातअहोराततांइरखावे रखावीने पच्छेवीजीवारनवाकोराबीजाघडानेविषे तेषांणीगलावेगलावीने नवाकोराघडानेविषे घलावे  
 घलावीने वलीराखप्रते तेषाणीमाहिघलावेघलावीने घडांमुखलंछित सुद्धितच्चिक्कअहनाणनी सुद्धारेखाकारावेकारावीनेसातअ  
 होराततांइंरखावेरखावीने तीजीवारनवाकोराबीजाघडानेविषे घलाविघलावीनेघडानोमुखसुद्धितकरावे कारावीनेसातअहोरात

कुम्भकारसम्बन्धिनइत्यर्थः सज्जखारंतिसज्जोभस्मअच्छेइत्यादि अच्छं निर्मलंपथ्यमारोग्यकरंजात्यं प्रधानमितिभावः तनुकंलघुमरुज

गलाविमाणे अंतरापक्खिविमाणे अंतरा अवसाविमाणे रसत्तसत्तएराइ दिवाइ परिवसाविइत्तात  
एणं सेफरिहोदएसत्तयंसिइ परिणममाणं सिउदगरयणे जाएयाविहोत्याअच्छे पत्येजच्चेतणुएफा  
लियवखाभेवखेणं उववेए४ आसायणिज्जं जावसव्विंदियगायपलहायणिज्जं तएणं सुबुद्धीअमच्चजेणे

ताइ रखावेरखावीने इमपूर्वोक्तप्रकारिं खलुनिश्चे एखेंउपाये उपक्रमेकरीचंतराविचाले रगलावतोरुद्धतो अंतराविचाले रराखप्रते  
थलावतोद्धतो अंतराविचाले ररखावतोद्धतो सातसातअहोरातताइघडामंहरखावेरखावीनेतिवारिफरिहोदकखाइनोपाणीसा  
तरअहोराविएतलेएकवीस अहोरातनें विषेपरिणमेच्छे सुभभलोउदकरतनपांणीरतन थातोह्योतेकेहवोच्छे अच्छं निर्मलोपथ्यथा  
रोग्यनीरोग्यकारी जात्यप्रधानतनुक० हलूओ फटिकनावरणं सरिखीआभाकांति निर्मल्लेतेहवेवर्णे करीगंधेकरीरसेकरीरुडे फरसें  
करीसहितआखादवाखावायोग्यथयो तांलगिजासगलाइं द्वियगातसरीरनें प्रलहादनीयहर्षप्रमोदपमाडवायोग्यथयोतिवारपक्कीते

वसेउदगरयणेतेशेवउवागच्छइत्ताकरयलंसिआसादेइतंउदगरयणंवखेणंगंधेणंरसेणंप्रासेणंउववे  
 यंआसायणिज्जंजावसव्विंदियगायपलहायणिज्जं जाणित्ताहइतुडेबहुहिं उदगसंभारणिज्जेहिंदव्वे  
 हिंसंभारेइत्ताजियसतुस्सरखोपाणियधरियंपुरिसंसहावेइत्ताएवंवयासीतुमस्यं देवाणुप्पियाइमंड  
 दगरयणंगिरहाहिइजियसत्तुस्सरखोभोयणवेलाएउवइवइतएणंसे जियसत्तूरायापाणियधरएपुरिसे

सुबुद्धिप्रधानजिहंतैउदकपांणीनोरतनच्छे तिहांआवेआवीने पांणीहाथनेविषेलेइ आखादेचाखेतेपांणीनारतनप्रते वणं करीगंध  
 करीरसें करीफरसें करी सहितथायप्रते आखादवापीवायोग्य तांलगिजांसगलाइ द्रियगालसरीरने प्रल्हादनीयहर्षप्रमोदपुष्टिकर  
 वायोग्यथाप्रते जांणीने हर्षसंतोषपाम्योच्छितो बल्लधणाउदकसंभारणिज्जेहिकहतां पाणीनोवांसवोवालोमोयादिक सुगंधद्रव्यतेणे  
 करीसंभूतकरेवासेवासीकरीने जितथत्तू राजानोपांणीनो धरणहारपाणीनोराखणहार पुरुषतेप्रते तेडावितेडावीने इण्येप्रकारे क  
 हतीउओप्रधानतुं हे देवानुप्रिय एआउदकपांणीमाहिरतनअनोपसपांणीतेप्रते ग्रहेत्ये लेईनेजितथत्तू राजानो जिमवांनीदिलाजि



सुबुद्धिस्स अमच्च स्स एयमइं पडिसुणेइत्तातं उदगरयणं गिरहइत्ताजि यसत्तूसरसोभोयणवेलाएउवडु  
 इतएणंसेजियसत्तूरायातं विपुलं असखणं पाणंखाइमंसाइमं आसाएमाणाविसाएमाणाजाविहरइजि  
 मियभुत्तुत्तरागएवियणं जावपरमसुइभूएतंसिउदगरयणं सिजायविहएतेबहवेराईसरजावएवंव

मवानाअवसरनेविषेतुं आपजेदेजेइमप्रधानेकच्छं, तिवारपच्छीपाणीनोधरणहार पांणीनाक्खागलानोराखणहारपुरष सुबुद्धिप्रधा  
 ननोकहणनोएवचनएप्रयोजनअंगीकारकरे अंगीकारकरीनेतेपांणीमांहे रतनअनोपमपांणीप्रतेग्रहेग्रहीनेलेइने जितयत्तूराजा  
 नाजिमवानाअवसरनेविसे तेपांणीआणीथापेसूके तिवारितेजितयत्तूराजा तेविपुलविस्तीर्णअन्नपांणी खादिमखादिमचार  
 प्रकारनाआहारप्रते आखादतोजिमतोच्छतोविखादतो विहचचीआपतोच्छतोभोजनकरतोच्छतोविचरे जीमीभोजनकीधापच्छीचलूलेइ  
 परमशुचिपवितथयो राजापछेतेउदकपाणीरतनने विषे राजाने अचरिजजपनोतेसंगला राजेखरआदिदेइसार्थवाहपयंतप्रते इम  
 कहतोऊओ अहोदेवानुप्रियोएआक्खागलामाहिलो पांणीरतनछेनिर्मलोतालगिजां सगलाइद्वियगतथरीरने अलहादनीयहर्षप्र

यासीअहोणं देवाणुप्पियाइमेउदगरयणेअच्छे जावसब्बिं दियगायपलहायणिज्जे तएणंतेबहवेराइस  
 रजावएवंवयासी तहेणंसासीजणं तुभमेवयहजावतंचेवपलहायणिज्जे तएणंजियसत्तू रायापाणिणियध  
 रयंपुरिसंसहवेइइत्ता एवंवयासीएसणं देवाणुप्पिया उदगरयणेकओआसाइए तएणंसेपाणिघर  
 एजियसत्तू रायं एवंवयासी एसणंसासीमए उदगरयणेसुबुद्धिस्रअंतियाओ आसाइए तएणंजियसत्तू

मोदपुष्टिकरवायोग्ये तिवारपक्खीतेवणारराजेश्वरआदिदेई सार्यवाहइमकहताउआ तिमजस्वामीजेणंप्रकारे जिमतुह्वेवदोच्छेक  
 होच्छेतेहवोजपाणीछे तालगिजातिमजसगलाइं द्वियसरीरनें हर्षपुष्टिकरवायोग्येतिवारि जितसत्तूराजापाणीनाधारणहारपुरु  
 षांप्रतेंतेडावेतेडावीने इणंप्रकारेपुच्छतोउओएहे देवानुप्रिय पाणीमांहिरतनवहूमूल्य <sup>१</sup> किहांथकीपास्योकिहांथकीलाधो तिवारि  
 पक्खीतेपाणीनोराखणहारोपुरुष जितसत्तू राजाप्रतें इणंप्रकारे कत्तरहेतोदूओ एस्वामीमे पाणीरतनसुबुद्धिप्रधानना समीपथकी  
 लाब्योछेआण्योछे तिवारिपक्खीजितसत्तूराजा सुबुद्धिप्रधानप्रतें तेडावेतेडावीने इमकहतोउओअहो सुबुद्धिप्रधानंउं तुभनेअनि

राया सुबुद्धि अमच्चं सहा विदत्ता एवं वयासौ अहो गं सुबुद्धी अहंतव अणिद्वे ५ जेणं तु मं मं कल्ला कल्लिं भो  
यण वेला ए इ मं उदगर यणं ण उवडु वेसित एणं तु मे देवाणु प्रिया उदगर यणे कओ उवल द्वे त एणं सुबुद्धी अम  
च्चै जिय सत्तुरायं एवं वयासौ एसणं सामीसि फरि होदए त एणं से जिय सत्तुराया सुबुद्धिं अमच्चं एवं वया  
सौ कियं कारणेणं सुबुद्धी अमच्चै एस फरि होदए त एणं सुबुद्धी अमच्चै जिय सत्तुरायं एवं वयासौ एवं खलु सा

एच्छं वा ल्हो नहीच्छं जेणे कारणेणं तु सुभ्रप्रते' दिन दिन प्रते' दिहाडी २ भोजन वेला जिमवाना अवसरने' विषे इ मं एउदकर तनपाणी तु'  
रतन आपतोनधी आणी म् कतोनयी तस्यामाटे' तकारणथकी हे देवानुप्रिय हे सुबुद्धि प्रधान उदकर तनपाणि मां हि रत्न कि हां य  
की पास्यो छे तिवारि सुबुद्धि प्रधान जित शत्रू राजा प्रते' इमकहतो हुवो एस्वामी तेपरि खोदक जे आपणें खाइना पाणी दीठो हूतुं तेखा  
इ नो पाणी छे तिवार पच्छी ते जित शत्रू राजा सुबुद्धि प्रधान प्रते' इमकहतो हुवो केणे' कारणे करीस्ये करी सुबुद्धि प्रधान एअ तेखा इ नो पाणी  
एहवो थयो छे तिवार पच्छी सुबुद्धि प्रधान जित शत्रू राजा प्रते' इमकहतो ह्वो इमपूर्वोक्त प्रकारे' खलु निचे स्वामी तुहं तिवारि सुभने' इ

मितुम्हेतइयामएवमाइक्वमाणस्व० एयमदृ० णोसद्दहतएणं समंइमेयारूवेअज्झत्थिएचिंतिएप्रत्थिएम  
 णोगएसंक्कप्पेससुज्जित्थाअहोणंजियसत्तुरायासंतेजावभावोसद्दइइणोपत्तियइणोरोचइइतितंसेयंखल  
 ममजियसत्तूसुरखोसंताणंजावसम्भूयाणं जिणप्रणत्ताणंभावाणंअभिगमणइयाएएरुइंउवायणवेत्तए  
 एवंसंपेहेइइत्ताएवंचेवजावपाणियधरियंपुरिसंसद्दावेइइत्ताएवंवयासीतुमणं देवाणुप्पियाउदगरयणंजि

मकहताहूताने' एपुद्दलनोआलटपालटवाना अर्थप्रते' तुम्हेसद्दहतामानतानडंता तिवारिसुभने' एहवोआत्माने' विषे' रह्योमनो  
 गतसंक्कल्पविकल्पजपनो अहोजितयत्तू राजाकता विद्यमानतालगिजावीतरागना कद्धाभावाप्रमते' सहहेनहीं प्रतीतकरेनहीं  
 रोचवेनहीं' तेकारणयकीअेचभलुं निचे' ममसुभनेजितयत्तू राजाने' क्खताविद्यमानतत्वमार्गरूपसाचकता जिनवीतरागनाकद्धा  
 भावने' जाणवानाअर्थभणी एपुद्दलानाआलटपालटथावाप्रते' देखाडिवाभणीग्रह्णिविवाभणीकल्पे' तेभलुं इणेप्रकारे' विचारे  
 विचारीने इमपर्वलीपरिखाइंनोपांणीचोखो निर्मलकरीवालमोथादिकनेद्रव्येकरी वासितययोपक्केपक्केगलिनोपाणिनो धरणहा

यसत्सूरस्योभोयणवेलाएलवणेहितंएणंकारणेणंसामीएससेफरिहोदएतएणंजियसत्तूरायासुबुद्धि  
 स्याअमच्चसएवमाइकवमाणस्य४एथमङ्गणोसहइत्ताअसहमाणेइअभिभंतरइगिज्जेपुरिसेस  
 द्वावेइत्ता एवंवयासीगच्छहणंतुभेदेवाणुप्पिया अंतरावणाओ णवघडएगिगहह जावउदगसंभा

धारपुरुषप्रतेतेडावेतेडावीने इमकहतोहओतुं हे देवानुप्रिय आउदकरत्नपांणीअनोपम जितशतू राजाजिमवना अवसरनेविषे  
 आप्रजेतुं देजेतेणेकारणेकरी स्वामीएतेपरिखोदकखाइनोपांणीछे इमकह्योतिवारिजितजतू राजासुबुद्धिप्रधाननें एवंइमपूर्वलीप  
 रिंकहतांहूंताने एखाईनापांणीना अर्थप्रयोजनप्रते सहेनेहीं एवातमानेनहीं एखाईनापांणीनीवातअसहहतो अणमानतो  
 क्ततोअभिंतरस्थानीयअभिंतरमध्यवर्त्तिमाहिला कामनाकरणहारप्रतीतकारी एहवापुरुषांप्रते तेडावेतेडावीनेजितशतू राजाते  
 पुरुषांप्रते इणंप्रकारिंकहतोआज्ञाआपतोऊवो जाओतुंहे दे देवानुप्रियाओ खाईनापाणीनामार्गनें विचाले हाटकुंभारसंबंधीछे  
 तेहाटयकीनवकोराषडाप्रते ग्रहोल्योजिमसुबुद्धिप्रधाननें पहिलाखाईनोपांणीलेवरावी जिमतिणिसांलगिकीधोतिमजकरोतां

मितिहृदयं च गसंभारणिज्जेहिं तित् उदकवासकैः बालकसुखादिभिः संभारयति संभृतं करोति इहाध्ययने यद्यपि सूत्रेणोपनयोनदर्शितः तथा

रणिज्जेहिं हृदव्वेहिं संभारिहेतेवितहेवसंभारेइ जियसत्तु, स्वरसो उवणेइतएणं जियसत्तु, रायातं उद  
गरयणं करयलंसि आसाएइ आसायणिज्जं जावसव्विं दियगायपएहायणिज्जं जाणित्तसुबुद्धिअम  
च्चं सहावेइत्ता एवंवयासो सुबुद्धीएएणं तुभे संतातत्था जावसम्भूया भावाकओ उवलद्धा तएणं सुबुद्धी

लगिजां उदकसंभारणिज्जेहिं पांणीनोवासवोवालमोथादिक सुगंधद्रव्यतेणे करी संभृतकरो वासोइमकच्छो राजा इं पच्छेते अग्निं तर  
नाकामनाकरणहारपुरुष तिमजखाईनोपाणीशुद्धकरे बालोमोथादिक सुगंधद्रव्ये करी वासेजलरत्नधयोपच्छेते पाणीरत्नजितशतू  
राजानिं आगलिआणीअपेच्छंके तिवारपच्छीजितशतू राजा ते उदकरत्नपांणीनारत्नप्रते' हायनीहयेलीने विषे लेईने आस्वादेचा  
खीजोविपांणीआस्वादवायोग्यपीवायोग्य तांलुगिजांसगलाइं द्वियअनें गातशरीरनें प्रच्छादनीय हर्षप्रमोदकरवायोग्यययाप्रते' जां  
णीनेजितशतू राजा सुबुद्धिप्रधानप्रते' तेइवेतेइवीनेइमकहतोइओ हे सुबुद्धिप्रधानइणं प्रकारिं ते संताच्छता विद्यमानतथा तत्वरूप

यसत्सूरखोभोयणवेलाएउवणेहितंएणंकारणंसासीएससेफरिहोदएतएणंजियसत्तूरायासुबुद्धि  
 सस्रमच्चस्रएवसाइक्वमाणस्र४एयमडुंणोसइहइत्ताअसइहमाणोइअभिंंतरइगिज्जेपुरिसेस  
 हावेइत्ता एवंवयासीगच्छहणंतुभेदेवाणुप्पिया अंतरावणाओणवघडएगिणहह जावउदगसंभा

हारपुरषप्रतेतेडावेतेडावीने इमकहतोहूओतुं हे देवानुप्रिय आउदकरत्नपांणीअनोपम जितशतू राजाजिमवाना अवरसरनेविषे  
 आपजेतुं देजेतेणेकारणेकरी स्वामीएतेपरिखोदकखाइनोपांणीछे इमकह्योतिवारिजितजतू राजासुबुद्धिप्रधाननें एवंइमपूर्वलीप  
 रिंकहतांहूताने एखाईनापांणीना अर्थप्रयोजनप्रतें सहहेनहींएवातमानेनहीं एखाईनापांणीनौवातअसइहहतो अणमानतो  
 छतोअभिं तरस्यानीयअभिं तरमध्यवर्त्तिमाहिला कामनाकरणहारप्रतीतकारी एहवापुरषांप्रतें तेडावेतेडावीनेजितशतू राजाते  
 पुरषांप्रतें इणंप्रकारे कहतोआज्ञाआपतोडवो जाओतुंहे देवानुप्रियाओ खार्इनापाणीनामार्गनें विचाले हाटकुं भारसंबंधीछे  
 तेहाटथकीनवकोराघडाप्रतें ग्रहोत्योजिमसुबुद्धिप्रधाननें पहिलाखार्इनोपांणीलेवरावी जिमविणिसातांगिकीधोतिमजकरोतां

मिति हृदयं उदगं संभारं णिज्जे हिं तित्त उदकवासकैः बालकासुस्तादिभिः संभारयति संभृतं करोति इहाध्ययने यद्यपि स्त्रैणोपनयोनदर्शितः तथा

रणिज्जे हिं हृद्वे हिं संभारिहेते वितहेव संभारे इ जियसत्तु, खरखो उवणे इतएणं जियसत्तु, रायातं उद  
गरयणं करयत्तं सि आसाए इ आसायणिज्जं जावसत्विं दियगायपएहायणिज्जं जाणित्ता सुबुद्धिं अन्न  
च्चं सद्दवे इत्ता एवं वयासी सुबुद्धी एएणं तु भे संतातत्था जावसम्भूया भावाकओ उवलद्धा तएणं सुबुद्धी

लगिजां उदकसंभारं णिज्जे हिं पांणीनोवासवोवालमोथादिका सुगंधद्रव्यतेणं करी संभृतकरो वासोदूमकच्छो राजा इ पच्छेते अग्निं तर  
नाकामनाकरणं हारायुष तिसजखाईनोपाणीशुद्धकरे बालोमोथादिकाशुगंधद्रव्ये करी वासेजलरत्नययोपच्छेते पाणीरत्नजितशत्रू  
राजाने आगलिआणीअपेसूके तिवारयच्छीजितशत्रूराजा ते उदकरत्नपांणीनारत्नप्रते हाथनीहथेलीनिविधे लेईने आखादेचा  
खीजोविपांणीआखादवायोग्यपीवायोग्य तांस्त्रिजांसगलाइ द्वियअने गालशरीरने प्रह्लादनीय हर्षप्रमोदकरवायोग्यथयाप्रते जां  
शीनेजितशत्रू राजा सुबुद्धिप्रधानं प्रते तेषां वितेडानीने इमकहतोहसो हे सुबुद्धिप्रधानं इणं प्रकारिं ते संताच्छता विद्यमानतत्यातत्वरूप



अमच्चंजियसत्तुरायं एवंवयासीएणं सामीमएसंता जावभावाजिणवयणाओडवलद्धा तएणंजिय  
सत्तूरायासुबुद्धिं अमच्चंएवंवयासौ तंइच्छामिणंदेवाणुप्पियाणं तवअंतिएजिणवयणं णिसामि  
त्तएतएणंसुबुद्धीअमच्चं जियरुत्तूसरखोविचित्तं केवलपिप्रसूत्तं चउज्जासंधम्मं परिकहेइतमाइकखे

तत्त्वनामार्गसाचाफोकनहीं भूठानहींसदभूताछता विद्यमानएहवाभावकओकृतः किहांथकीलह्यापास्या इसराजाइंपूछ्यो तिवारप  
छीसुबुद्धीप्रधानजितशत्रु राजाप्रते इणंप्रकारे उत्तरदेतोकाहतोह्वो एतेएणंप्रकारे मएच्छता विद्यमानसाचातत्वरूपमार्गसाचाफो  
कनहींभूठानहीं सदभूताछताविद्यमानएहवाभावा जिनवीतरागनाभावथकीलह्याछेपास्याछे इमप्रधानकह्यु तिवारपच्छीजितशत्रु  
राजासुबुद्धिप्रधानप्रते इणंप्रकारे पछतोह्वो तेछतासाचाभावउं इहंहुंवांहुंहुं हेदेवासुप्रियताहरासमीपनेविषे जिनवीतरा  
गनावचनप्रते सारुलवाभणीइमराजाइंकह्यु तिवारपच्छीसुबुद्धीप्रधानजितशत्रु राजाप्रते विचित्रघणाहेतुसहितकेवलीनोकह्योप्ररू  
ष्योभाष्योचारमहाव्रतनोधर्मप्रते परिपूर्णकहेइमकह्यो पछेसुबुद्धिप्रधानतेवीतरागना धर्मप्रते कहेजिमजीवभूतेतांलगिजांपांचअ

तिजहाजीववुज्झन्ति जावपंचअणुव्वयाणि तएणं जियसत्तूराया सुवुद्धिस्सअमच्चस्सअंतिएधम्मं सो  
 च्चाणिसस्सहइतुडे सुवुद्धिअमच्चंपवंवयासी सहहामिणंदेवाणुप्पिया णिणगंधंपावयणंइ जावसेजहे  
 यंतुभभवयहतंइच्छामिणं तवअंतियंपचाणुव्वइयं सत्तसिक्खवइयंजावउवसंपज्जित्ताणंविहरित्तए  
 अहासुहंदेवाणुप्पियामापडिवंधंकरेहतएणंजियसत्तूरायासुवुद्धिस्सअमच्चस्सअंतिएपंचाणुव्वइदंजा

गुब्रतच्चारशिख्याव्रतविणुगुणव्रतरूप आवकनोधमंसाभलेतिवारपच्छीजितशत्रूराजासुनुद्धिप्रधाननासमीपने विषेवीतरागनाधर्मप्र  
 तेते साभलीने हीयामाहेअवधारीनेहर्षसंतोषपाभ्योक्ततो सुनुद्धिप्रधानप्रते इमकहतोह्रवोहंसहज्जं कुं हेदेवाबुप्रियहेप्रधाननिग्रं  
 यप्रवचनसिद्धातनावचनप्रते तांलगिजातेजिमतुग्हेकहोक्खे तेकारणयकीज्जं इकुं कुं वाकुं कुं ताहरासमीपप्रते पांचअणुव्रतच्चार  
 सिख्याव्रतविणुगुणव्रतएवंसातसिख्याव्रतप्रते तालगिजांचंगीकारकरीने निचरवाभणींवाकुं कुं सुवुद्धिकहेजिमसुखज्जवेतिमकरो  
 हेदेवानुप्रियइहाप्रतिबंधमकरो विलंवप्रते मकरोइमकच्छं, तिवारिजितवत्रूराजासुनुद्धिनामा प्रधाननासमीपनेविषे पांचअणुव्रत

वदुवालसविहंगिहिधम्मं पडिवल्लइतएणंजियसत्तूरायासमणोवासएजाएअभिगयजीवाजीवेजावप  
 डिलाभेमाणेविहरइतेणं कालेणंतेणं समएणं धेराजेणेवचंप्राणयरीजिणेवपुण्हं चेइएतेणेवसमसहु  
 जियसत्तूरायासुवुद्वियणिग्गएसुवुद्वीधम्मंसेच्चजंणवरं देवाणुप्पियाजियसत्तूरायंआपुच्छामिजाव  
 पव्वयामिअहासुहं देवाणुप्पियामापडिवंधंकरेहत्तएणं सेसुवुद्वीअमच्चैजेणेवजियसत्तूराया तेणेवल्लवा

आदिदेइवारप्रकारनोआवकधम्मंतेप्रते अंगीकारकरेतिवारपच्छी जितशत्रुराजाअमणोपासक आवकव्रतधारीथयोजीवअजीवादि  
 नवतत्वनोजाणययोआठमिचवदिसिपूनिमइ चउमासानीमहाकल्याणकतिथिच्यारपर्वतिथिने विषेपोसहपालतोकरतोसाधुसाध्वीने  
 अन्नादिच्यारप्रकारनाआहारप्रते प्रतिलाभतोदेतोक्ततोविचरेक्के तेकालतेसमयनेविषे थिवरसाधुजिहंचंपानगरीक्के जिहांपू  
 र्णभद्रयत्तनोचैत्यदेहरोक्के तिहाआवीनेसमोसखा जितशत्रुराजावादिवानीकल्यो सुबुद्धिप्रधानचपुनवलीवादिवाभणी नीकल्योसुत्र  
 द्विप्रधानधर्मप्रते सांभलीनेप्रतिबूधो परंगुरुनेकहेए तलोविषेक्के हेदेवानुप्रियहेसाधोजितशत्रु राजाप्रते ऊंपूछुंतालगिजांह

गच्छद्गत्ता एवं वयासी एवं खलु सामीम एधेराणं अंति एधस्मे णि सस्मे से विथधस्मे इच्छि एपडिच्छि एत एणं अ  
हं सामी संसारमत्रो विवगो मी एजावद्दच्छामिणं तु भेहिं अमणुष्णा एसमाणे जावपव्वइत्त एत एणं जियसत्त  
राया सुवुद्धिं अमच्चं एवं वयासी इच्छामिताव देवाणुप्पिथा कइवयाइं वासाइं उरालाइं जावभूं जमाणात  
ओपच्छा एगयाओ धेराणं अंति एसुं डेम वित्ता जावपव्वइस्सामो त एणं सुबुद्धीणा अमच्चै जियसत्त सुखरसो

चारिन्नलेउं ह्नुं इमपूह्नुं गुरुकहेयया सुखं जिम सुख ऊइ तिम समाचरो हे देवानुप्रिय तिवारिते सुवुद्धिप्रधान उठीनें जिहांजितशतु  
राजावेठीछे तिहाअवेतिहां आवीने इमकहतो ह्नुओ इमपूर्वोक्तप्रकारे खलु निचे स्वामीसें थविरनासमीपने विषे धम्मं साभल्यो हीया  
मां हि च्यवधास्योति धम्मं इच्छो वांछोषणुं प्रतीच्छोषणुं वांछो तैकारणथकी ऊं स्वामी संसाररूपसमूहनाभयथकी उदवेगपास्यो ह्नुं संसार  
नाभयथकी वीह्नुं इच्छुं कुतुम्हारी अज्ञापास्यो छतो तां ल गिजां धरं कां डी दिच्चाले वाभणी वांछुं तिवारि जितशतु राजा सुबुद्धिप्रधान प्रते  
इमकहतो ह्नुओर होतुम्हे तावप्रथम हे प्रधान हे देवानुप्रिय हे सुवुद्धिप्रधान केतला एक्करसतां इ उदारप्रधान कारीया मनुष्यसं वधीया

एथमङ्कं पडिसुणे इतएणंतस्सजियसत्तूस्सरखोसुबुद्धिणासद्धिंविपुलाइं माणुस्सगाइं भोगभोगाइं जावप  
 च्चणुभवमाणस्स दुवालसत्रासाइवीइक्कं ताइं तेणं कालेणं तं सएणं थेरगमणं जियसत्तू रायाधम्मं  
 सोच्चाएवं जंणवरं देवाणुप्पिया सुबुद्धिं अमच्चं आसंतेमि जेइपुत्तं रज्जे ठवेमितएणं तुभेणं जावपव्वया

भोगभोगवताछताभोगवीने तिवारपच्छीआपणवेहं एकठा थिविरांनेपासेसुं डथइने तालगिजांदिच्चालेस्याराराजाइं इमकच्छुं तिवारि  
 सुबुद्धीप्रधानजितशत्रू राजानो कहरणनो एपूर्वोक्तार्थप्रयोजनप्रते' अंगीकारकरे' अंगीकारकरीने तिवारितेजितशत्रू राजाने' सुबु  
 द्विप्रधानसंधाते विपुलविस्तीर्णमनुष्यसंबंधीयाभोग प्रत्यनुभवअनुभवताभोगवतांथकांने वारवरसव्यतीकस्यांगयातेकालतेसमयनेनेवि  
 पेतिहांचंपानगरीछे पूर्णभद्रचेत्यदेहरं छेतिहाथिविरांनु' आविवोययोजितशत्रू राजावादिवाअव्यो धर्मप्रतेसांभलीनेइमकहतोहू  
 ओजेनवरं एतलोविशेष हे देवानुप्रियहे गुरुहंघरेजईने' सुबुद्धिप्रधानप्रते' तेडु' जेष्ठवडापुत्रप्रते' राज्यनेविषेयापुं तिवारपच्छीतुम्हा  
 रासमीपने' विषेहंदिच्चालेजं कुं इमकच्छुं तिवारिगुरुकहेजिमसुखहृदितमकरो हे देवानुप्रियतिवारिजितशत्रू राजाजिहांपोतानोष

सिअहासुहं देवाणुप्पियासाप्रडिबंघंकरेहतएणंजियसत्तूरायाजेणेरुएगिहेसुवुद्धिंअमच्चंसहावैइएवंव  
 यासीएवंखलुसएथेराणंजावपव्वयामितुअस्सुंकिंकरेसितएणंसुवुद्धिअमच्चेजियसत्तूरायंएवंवयासीजा  
 वकेअस्सेआहारेवाजावपव्वयामितंजइणं देवाणुप्पियाजावपव्वार्हिगच्छहणं देवाणुप्पियाजेइपुत्तं कुडं  
 नेट्टावेहिंसहस्सपुरिसवाहिणिसीयंदुरुहित्ताणंममअंतिएसीयाओजावपाउभभवहतएणंसेसुवुद्धिअम

रक्खेतिहंआवीने सुवुद्धिप्रधानप्रते तं डेडावेतेडावीनेइमककहतोह्मओ इमपूर्वोक्तप्रकारे खलुनिचेमे थिवरसायुनासमीपने विषेधम  
 सांभल्योहंचारित्वलेउं कुं तुं सुंकरेक्खे तिवारिसुवुद्धिप्रधान जितयत्तू राजाप्रते एणंप्रकारे ककहतोड्डवो तांलगिजांकुणअन्यवीजोअ  
 म्हारेआधारउड्डं नालगिजांऊं तुम्हारासाथेदिच्चालेजं कुं तेभणीजोहे देवानुप्रियतांलगिजातुं दिच्चाल्ये तोतुं जा हे देवानुप्रियजेष्ट  
 वडापुत्तप्रते कुटं वमाहिंवडोथापियापिने संहस्सपुरपवाहिणीहजारपुरषवाहनीसीयापालखीप्रते चढीने माहरासमीपने विषेपाल  
 खीजपरिचढयाथका प्रकटथाओआवोइमकक्योतिवारिते सुवुद्धीप्रधानपालखीउपरिवइसीप्रगटथाइआवेवडापुत्तने कुटं वमांहिंवडो

च्चेसौयाजावपाउभभवद्गतएणंजियसत्तूरायाकोडुं विय पुरिसेसद्दवेद्दत्ताएवंवयासौगच्छहणंतुम्भे देवा  
 णुप्पियाअदिणसत्तूस्सकुमारस्सरायाभिसेयं उवद्दवेहतहेवकोडुं वियपुरिसाअभिस्सिअद्दजावजियसत्तू  
 रायापव्वद्दएतएणंजियसत्तू रायरिसौएकारसअंगद्दं अहिज्जित्तबहुण्णिवासाण्णिपरियायंप्राउणित्ता  
 मासियाएसंलेहणाएंसिद्धेतएणंसुबुद्धीएकारसअंगद्दं अहिज्जित्तबहुण्णिवासाण्णिजावसिद्धेएवंखलुजंबू  
 समणेणंभगवयामहावीरेणंजावसंपत्तेणं वारसमस्सणायज्जयणस्सअयमद्दं पस्सत्तेत्तिवेमिस्सिच्छत्तमोहि

थापीने' तिवारिजितशतूराजाकोटं विक आदेशकारीपुरुषंप्रते' तेडावेतेडावीनेद्दमकहतोऊअो जाअोतुम्ह हे देवाबुप्रिवोअदीनद्य  
 लकुमारने' राज्याभिषेकप्रते' थापोअभिषेककरोतिसजकौटं विकअदीनशतू कुमारप्रते' राज्याभिषेककरेजितशतूराजादिच्चावियेति  
 वारिजितशतूराजरिषी इग्यारअंगप्रते' भणीने घणावरसलगीदिच्चापालीने' मासएकनीसंलेखणाकरी सिद्धययोमोच्चगयोतिवा  
 रिउबुद्धिरिषि इग्यारअंगप्रते' भणीनेघणावरसलगीदिच्चापालीनेसिद्धयओसुधमंस्वामिकहेच्छे एवंद्दसपूर्वीत्तप्रकारे' खलुनिच्चेहेजंबू

ये वं द्रष्टव्यः मिच्छन्तस्मो ह्यियमणापावपसत्ताविपाणोविगुणाफरिहोदगंचगुणोहवंतिवरगुरुपसायाउत्तिद्वादशज्ञातविवरणंसमाप्तं  
अथ त्रयोदशं व्याख्यायते अस्य च पूर्वेषु णसहायंसंबंधः अनंतराध्ययने संसर्गविशेषाद्गूणोत्कर्षोत्पत्तः इह तु संसर्गविशेषाभावाद्गूणापकर्षोत्पद्यते

मणापावपसत्ताविपाणोविगुणाफरिहोदगंच गुणोहवंतिवरगुरुपसायाओऽवारसमंशायज्जभयणं  
सम्पत्तं १२ जद्रूणं भति समरणे णं भगवयामहावौरिणं जावसंपत्ते रं वारस्समस्सणायज्जभयणस्सन्नयमद्वेषसुत्ते ते र

अमणतपस्वीद्वं भगवंतज्ञानवंते श्रीमहावीरदेवते वारमाज्ञाताना अध्ययननोएअर्थमुक्तने कच्चोच्छेतेहवोज अर्थजेहवोभगवंत  
नासुखयकीसांभल्योच्छेते अर्थउत्तुभ्रप्रते कच्चोच्छुं इहांवारमाअध्ययनने विषे जोपणिसूत्रमांहि दृष्टांतदेखाड्योनथी तोपणिसुवृत्ति  
ने विषेइणप्रकारि दृष्टातसेल्योच्छेते गाथासिच्छत्त मिथ्यालंकारीमोहि तथयोमोह्योच्छेस नचित्तजेहनोपापकरवाने विषे प्रसक्ततत्पर  
सावधानअपिनिचे एहवाप्राणीजीवविगुण गुणरहितच्छता परिखोदकमिबखार्इनापां गीनीपरिंजीवगुणवंत ह्यइयाइवरगुरुप्र  
धानउत्तमश्रीगुरुनाप्रसादयकी वारमोज्ञातानोअध्ययनअर्थसूत्रे संपूर्णथयो १२ हिवे तेरमोअध्ययनवखाणियेच्छे एतेरमाअध्ययन



समस्त्रणंभंतेसमरणेभगयामहारिणंजावसंपत्तेणंकेअङ्केप्रसूत्तेएवंखलुजंबूतेणंकांलेणंतेणंसमएणंरायणि  
हेणामंणयरिहेत्थातत्थणंरायणिहेणयरिसेणिएणामंरायाहोत्थातस्त्रणंरायणिहस्त्रणयरस्त्रबहियाउत्त

नोवारमाअध्ययनसंघाते एसंबंधजांशिवोवारमा अध्ययननेविषेसंसर्गनाविशेषयकी गुणनोअधिकोपयोकह्योअने' इहातेरमाअध्य  
यननेविषे संसर्गविषेधनाअभावयकी गुणांनोनासकहिये श्रीजंबूस्वामीपूछेजोभंतेहेभगवन् अमणभगवंत श्रीमहावीरदेवमोक्षप  
ऊते'सुगतिपसेश्रीवीरवर्द्धमाने' वारमाज्ञाताना अध्ययननोएपूर्वोक्त अर्थकह्योतेमे सांभल्योहिवे'तेरमाज्ञाताना अध्ययननोभंते  
हेभगवन्अमणभगवंतश्रीमहावीरदेवे' तांलगीजांमोक्षपऊते' कुणकेहवो अर्थकह्योछेतेप्रसादकरो इमपूछ्योहिवे'सुधर्मास्वामीक  
हेछेएवंइमआगलिकहिस्ये तिणप्रकारे'खलुनिश्चेहेजंबू तेकालतेसमयनेविषे राजण्टहनामानगरऊतोतेराजण्टहनगरने'विषेअंशि  
कनामाराराज्यकरतोऊओ तेराजण्टहनगरने'विषे वाहिरइसांनकूणिनांभागनेविषे इहांगुणसेलीयो नामाचेत्यदेहरऊतोतेका  
लतेसमयनेविषे अमणभगवंतश्रीमहावीरदेव चउदहजारअमणसाधुसंघाते छत्तीसहजारसाधवीसंघाते' परिवस्योछतोपूर्वानुपूर्वी

रपु रिच्छि मेदि सीभा ए एत्थ णं गु णसि ल ए णा भं चे इ ए हो त्या ते णं का ले णं ते णं स म ए णं स म णे भ ग वं स हा वी  
 रे च उ द स हिं स ज ण सा ह स्सि हिं जा व स द्वि पु व्वा णु पु व्विं च र मा णे गा मा णु गा मं दू इ ज्ज मा णे सु हं सु हे णं वि ह  
 र मा णे जे णे व रा य गि हे ण य रे जे णे व गु ण सि ल ए चे इ ए ते णे व स म्भो स इ अ हा प्र डि ख्वं उ व ण ग हं उ गि गि ह त्ता सं  
 ज मे णं त व सा अ ष्पा णं भ वि मा णे वि ह र इ ते णं का ले णं ते खं स म ए णं सो ह म्भे क म्पे द ह्दु र व डिं स ए वि मा णे

इ अनुक्रमे चः लतो विचरतो विहार करतो छतो ग्रामानुग्रामप्रते अतिक्रमतो सुं कतो छतो सुखे समाधिदं विचरतो विहार करतो छतो जि  
 हाराजगृहनगरछे जिहागुणसेलीचौचैत्यदेहरुं छे तिहाआवीनेसमोसस्थाउतत्या यथाजोग्यसाधुनें रहिवाजोग्य अवग्रहआदेसआ  
 ज्ञाप्रतें ग्रहीनें लेईनें संजसेकरीवारिभेदेतेपकरी आपणीआत्माप्रतें भावतो छतो विचरेच्छेतेकालतेसमयनेविषे सौधर्माकल्पदेवलो  
 कनेविषे ददुं रअवतंसकविमाननेविषे सुधर्मासभानेविषे ददुं रनात्मासिंहासननेविषे ददुं रनामादेवतात्थारसामान्यकसहस्रचारह  
 जारसामानिकदेवता च्यारअग्रमहिषी,पटराणीसंघाते त्रिणपरषदासंघाते दूणेप्रकारे जिभरायपसेणीसूत्रमाहि सूरीआभदेवता

इत्येव संबंधमिदं सर्वं सुगमं नवरं सूरियाभोत्तियथाराजप्रअकृतेसूरिकाभोदेवोवर्णितएवमयमपिवर्णेनीयः कियतावर्णेकेनेत्याहजावद्विवा  
इत्यादिमचायं वर्णकः तिहिंपरिसाहिंसत्तहिंअणिएहिंसत्तहिंअणियाहिर्वइहिंदत्यादिइमंचरणंकेवलअप्यंतिइमंचकेवलः परिपूर्णः सचा  
सौकल्पचखकार्यकरणसमर्थः इतिकेवलकल्पः केवलएववाकेवलकल्पत्वं आभोएमाणेइहयावल्करणादिदं दृश्यं पासइसमणं भगवं महावीर

सभाएसुहम्नाए दह, रंसिसीहासणंसिदह, रदेवेचउहिंसामाणियसाहस्सीहिंचउहिंअगमहिंसीहिं  
तिहिंपरिसाहिं एवंजहासूरियाभे जावदिब्वाइं भोगभोगाइं भुंजमाणेविहरइइमंचरणंकेवलकप्यं जं  
बूहीवं२ विउलेणंओहिणाआभोएमाणे जावणइविहंचवदंसित्तापडिगएजहा सूरियाभिभंतिन्तिभग

वर्णयोच्छे तिमएदुर्दुरदेवतानोवर्णकसंपूर्णं तिमजजाणिवोतालगिजातिदुर्दुरदेवता दिव्यप्रधानदेवतासंबंधीभोगनेयोग्यएहवाभोग  
प्रतें भोगवतोअनुभवतोच्छतोविचरेच्छे इमएआप्रत्यक्षकेवलपरिपूर्णसंपूर्णं तेएकल्पक० षोतानाकामकार्यकरवानेविषं समर्थतेकेवलक  
ल्पकहीये एहवोअवधिज्ञानआजंबूहीपप्रतें विपुलविस्तीर्णअवधिज्ञाने आभोएमाणेजोतोदेखितोच्छतो राजगृहनगरनापूर्णभद्र

मित्यादिक्रुडागारदिदृ' तोत्ति एवं चासौशेकेण्डे णंभंते एवं बुञ्जइसरीरंगंगयासरीरंगं अणुप्पविट्ठागोयमासेजहाणासएकुडागारसाला

वंगोयमेसमणंभगवंसहावीरंआयाहिणंपयाहिणंकरे इवंदइणंसंइत्ताएवंवयासौअहोणंभंतेदइ, रेदे  
वेसड्डिएइदइ, रस्सणंणंतेदेवस्ससादीव्वादेवड्डीइकहिं गयाकहिं अणुप्पविट्ठागोयसासरीरंगयासरीरं अ

नामायच्चनादेहराने' विषेरह्यो असणत्तपस्वीभगवंतञ्जानवंत श्रीमहावीरदेवप्रते' देखे तिहांआवीने' तालगिजां बवीसवइज्जाटाकनी  
रचनाप्रते' देखाडेदेखाडीने' जिमरायपसेणीमाहिस्सुरीयाभदेवता बवीसवइज्जाटाककारिगयोतिसइहंजांणिपोहिवेगोतसपूछेहेभग  
वन्भगवंतहेवीरगोतसस्वामी असणभगवंतश्रीसहावीरदेवप्रते' आदच्चिणप्रदच्चिणप्रते' करेकारीने हाथजोडीवांदेनमस्कारकरे  
वांदीनेनमस्कारकरीने इणेप्रकारेपूछतोऊवो अहोहेभगवन्दुर्' रदेवता महद्धिकमहाच्चद्धिवं तच्छे घणी चद्धिदेखाडीदुर्' रदेवताइं  
तेदुर्' रदेवतानीभंतेहेभगवन्' देवतासंबंधिनीते दिव्यप्रधानदेवतानीचद्धिकिहांगइं' किहापईठीइमपूछ्योगोतमगणधरे भगवंतकहे  
हेगोतमतेदेवतानीचद्धिशरीरमाहिगइं' तेदेवतानीचद्धिदुर्' रदेवतानाशरीरमाहिपइठी कूटसिखरने' आकारे' जेधरतेकूडागा

सिधादुहञ्चोर्वहिरंतश्चगुत्तालिक्ता साचरणत्वेनगोमयाद्यु लेपनेनचउभयतोऽगुप्तत्वमेवाहगुत्तावह्निः प्राकाराहत्तागुत्तादुवाराञ्चंतर्गुप्त  
 त्यर्थः; अथवागुप्तागुप्तहाराणां क्लिषांश्चित् स्थगितत्वात्क्लेशाच्चित् स्थगितत्वात् प्रवेशात्निवायगंभीराकिलमहद्गृहंनि  
 वातंप्रायो नभवतीत्यतश्चाह निवातगंभीरानिर्वृतविशालेत्यर्थः तीक्ष्णं कूडागारसालाए अदूरसामंते एत्यणं महं एगेजणसम्बूहे चिद्धइ  
 तएणं सेजणसम्बूहे एगंमहंअभवह्लंवावासवह् लयंवासमहावायंवाएज्जमाणं पासइप्पा सिक्तातंकूडागारसालंअंतोअणुपविसिक्तायां  
 चिद्धइसेतेणद्वेणं गीयमाएवंबुच्चइ सरीरगंगयासरीरगंअणु पविट्टत्ति असाधुदर्शनेनेतिसाधुनामदर्शनेनातएव अपयुं पासनयाअना

शुष्पविट्ठकूडागारदिङ्गंतेदह्, देणंभंतेदेवेणं सादिब्बादेवड्ढीकिष्णालद्वाकिष्णापत्ताजावअभिसमसागयाए

रकच्चिये कूडागारसालानिं इष्टातेकरीजिमसबुधनासम्बूहवाएलमेव आधीवायुनासम्बूहदेखीनें जिम सभिं रच्छिद्ररहितवरसांदि  
 पइसीरहेमबुधमावदीसेनहीं धरसांदिलातिमदेवतानी ऋद्धिदेवतानाशरीरसांदि प्रेटीअगोपयइ वलीगोतमपूछे दडुं रदेवताइं  
 हेभगवन्देवताइं तेदिय्यप्रधानदेवतासंबंधिनी किमलाधीकिमसंपूर्णपर्येपामीच्छेदेवतानीइं ऋद्धितेकहोच्चिवे श्रीमहावीरकहेच्छेइम

वंखलुगोयमा इहेवजंबूहीवेरभारहेवासेरायगिहेणासंणयरेहोत्थागुणसिलएचेइएतस्सणंरायगिह  
 स्सणयस्ससेणिएणासंरायाहोत्था तत्थणंरायगिहेणयरेणंदेणासंमणियारसेडो परिवसइअड्डिट्ते  
 जावअपरिभूए तेणंका।लेणंतेणंसमएणं अहंगोयमारयायगिहेणयरेजेणवगुणसिलएचेइएतेणेवसमो  
 सड्डेपरिसाणिगयासेणिएविरायाणिगअतएणंसंणंदमणियारसेडोइमोसेकहाएलइइसआणेएहाए

आगलिककहिस्थे तिणिएप्रकारे निचेहेगोतमएहजजंबूहीपनामाद्विपनेविषेभरतचेवनविषेराजगटहनामानगरज्जं तोगुणसेलीयोचैत्य  
 देहरंछेतेराजगटहनगरनोअणिकनामारजाज्जं तो तिहातेराजगटहनगरने विषेनंदनामामणियारसेठवसेछेतेकेहवोकेअड्डिवंतछे  
 दीप्तवंततेजवंतछे कोइंपराभवीसकेनहीएहवोनंदमणियारसेठछेतेकालतेसमयनेविषेज्जं हेगोतमराजगटहनगरनेविषे जिहांगुणसेल  
 नामाचैत्यदेहरंछे तिहाआवीनेसमोसस्यो नगरमाहियकीवादिवा भणीपरिषदानीकली अणिकपणिराजानीकल्यो तिवारेतेनंद  
 मणियारसेठएहवी भगवंतआव्यानीकथावात्तानो लह्योपास्योअर्थज्जं तोछतो स्नानअंधोलकरेपादविहारचारिं पालीयारपालोचा

प्रायविहारचारेणंजावपञ्जुवासइतएणंणंदमणियारसेट्ठीधम्मंजोच्चासमणोवासएजाएजाभेवदिसिंपा  
 उभूएताभेवदिसिंपडिगएतएणंअहंगोयमारायगिहाओपडिणक्खंतोबहियाजणवयविहा  
 रेणंविहरामितएणंसेणंदमणियारसेट्ठीअणयाकयाइंअसाहुदंसणेणय अपञ्जुवासणाएयअमणुसा

लीवाने सुभनेवादिवाभणीआव्यो तालगिजांवादीवेठोछतोमाहरी पर्युपासनासेवाकरेहे तिवारे नंदमणियारसेठि धर्मप्रते संभ  
 लीने अमणोपासकआवकथयो आवकथइने जिणदिसथकीआव्योहुंतो तेणीजदिसपाछोवलीगयो तिवारपक्कीहुं राजगृहनगरघकी  
 नीकल्योचाल्योवाहिर जनपददेशमांहि विहारकरी हुं विचरंहुं तिवारपक्की तेनंदमणियारसेठएकदासमयप्रस्तावे साधुचारि  
 लीयाने अदर्शने करी एकारणयकीसाधुचारिलीयानी अपर्युपासनासेवाइं करीसाधुने विरहेनहीं अमनोच्चापाडूइसीखामणिंक  
 रीरुडीसीखामणने अभावे करीनथी खूअषानेअभावेकरी वीतरागनावचनसाभलीवानी इच्छाने अभावे करीसस्यत्तपयवसस्यत्तना  
 परिणामविसेषकरी परिहायहीनथायवे करीएतलेसमकितनापरिणाममाठायावेकरीमिथ्यात्वनापरिणामविसेअधिकावाधिकरीमि

सेवनयाश्चननुशासनया शिञ्जायाश्चभावेनश्चमुष्णयाश्चवर्णच्छाया अभावेनसस्यक्तपदवैः सस्यक्तरूपपरिणामविशेषैरेवंमिथ्या

सणाएयश्चसूणाएयससत्तपञ्जवेहिंपरिहायसाणेहिंमिच्छत्तपञ्जवेहिंपवडुसाणेहिंमिच्छत्तंविष्य  
 डिवसेजाएयाविहोत्यातएणं गंदमणियारसेद्वीअणयाकयाइं गिहकालसमयंसिजेड्डाअलंसिमासं  
 सिअडुमभत्तंपरिगिण्हइपोसहसालाएजावविहरइतएणं गंदस्सअडुमभत्तंपरिणममाणंसितरहाए  
 छुहाएअभिभूयस्ससमाणस्सइमेयारूवेअज्झत्थिएपूधममाणंतेजावईसरपभियञ्चोर्जेसिंचणंरायगिहस्स

थ्यात्वप्रतें विशेधेकरी पतिपन्नपडिवर्जतोद्धयो नंदमणियारसेठितिवारपच्छी नंदमणियारसेठ एकदाप्रस्तावे श्रीशुकालउन्हालाकालना  
 समयनें विषेज्येष्टमासनें विषे अष्टमभक्तविण्णिउपवासग्रहेकरेकरीने पोसहशालापोसहलेवानाघरनें विषे पोसहलेईतांलगिजाविच  
 रेच्छेतिवारि नंदमणियारसेठिनें अष्टमभक्तविण्णउपवासउविहारपरिणस्ये ऊं ते क्वतेतिखाइं करीभूखे करी अभिमतव्यायोपीडो  
 गंदमणियारसेठितेहनें तेहनें एहवोआत्तामाहिथकीभावजपनो धन्यतेराजातालगिजाइं श्वरशुवराजा प्रमुखसगलाजेराजनसा



बहियाबहु ओवावी ओपोक्वरणी ओजावसर २पंतियोजत्यणं बहुजणो एहाइयपियतियपाणियंचसं  
 वहइतंसेयंखलुसमंकल्लंपाउभवाएसेणियंरायंआपुच्छित्तारायगिहस्सणयस्सबहियाउत्तरपुरिच्छि  
 सेदिसेीभाएविभभारपव्वयस्सअट्टरसामंतेवत्युपाडगरोइयंसिभूमिभागंफुजावणंदंपोकवरिणी खणावि

यवाहपयंतनीराजगटहनगरनें वाहिर घणीवावीकरावीछे घणीपुष्करिणीवाविकारावीछे तालगीजांसरोवरनीपांतिअणिकारावीछे  
 जिहांघणालोकस्नानअंधोलकरेछे पांणीपीयेछेवलीपांणीभरीवहेछे पांणीभरीजाइछेतेमाटे तेधन्यजांणिया तेकारणयकीअयभलुं  
 खलुनिअेसमंसुक्कनें कालिप्रभाति स्वरिज उग्यापछीअेणीकराजाप्रतें पुच्छीनें पुच्छीनें वाहिरउत्तरदिसिपूर्वदिसिवि  
 चेईसांणक्खिनाभागलेविषे वेभारपर्वतनुं अतिघणुंढ कडून्ही अतिघणुंवेगलुंनहीं वास्तुकयास्वनजांणसिलावटतेहनापाडगस  
 म्भहतेणेरोच्योरूडोठामदेखाओ एहवाभूमिनाभागनेविषे तांलगिजांनंदापुष्करिणीवाविचउखंडीवाविप्रतें खणाविवाभणीप्रवत्त  
 उं तोभलोइमकहीनें इणप्रकारे विचारे चैतवे चैतवीनें कालिप्रभातियथापछी पोसहप्रतें पारीनें घरे आवीनें कंतवखिकर्मघर

त्तएत्ति ऋड्, एवंसंपेहेइश्त्ताकल्लंपाउप्रोसहंपारेइश्त्ताएहाएकथवलिकभ्भेसित्तणाइजावसद्धिसंपरिबुडे  
 महत्थंजावपाऊडंराथारिहंगिएहेइश्त्ताजेणेवसेणिएराथा तेणेवउवागच्छइश्त्ताजावपाऊडंउवड्वेइ  
 श्त्ताएवंवयासीइच्छामिणंसामीतुभेहिं अभभणुखाएसमाणे रायगिहस्सणयरस्सवहियाजावखणावि  
 त्तएअहासुहंदेवाणुप्पियातएणंणंदेसेणिएणंरखाअभभणुखाएसमाणेहइतुक्के रायगिहंणयरंसज्जंम

नादेहरासरनीप्रतिमाने पूजानो कर्मकरे पूजा करीने । मित्तञ्जातिप्रमुखसगलापरिवारसंघाते । परिवस्योच्छतो नंदमणियारमोटीबड्ड  
 मूल्यप्राप्तभेटणुं राजाने योग्यएहवाभेटणो प्रतंल्ये लेइने जिहंअणिकराजाके तिहंअवेअवीने अणिकराजाने अगलिभेटणा प्रतंमू  
 केश्वंकीने इणे प्रकारे राजा प्रते । कहतो हुवोहं इकुं कुं वं कुं कुं हे स्वामी महाराज तुम्हारी आज्ञा आदेशपास्यो छतो राजगटहनगरने  
 वाहिरनंदापुष्करिणी चउखूणिवा विखणा विवाभणी प्रवत्थो एहवी आज्ञा मांगी नंदमणि आसेठितिवारे । अणिकराजा कहे यथा सुखं  
 जिम सुखहुइति मकरोहे देवानु प्रियहे नंदमणियारसेठितिवारि नंदमणियार अणिकराजाइ । आज्ञा आदेशपास्यो छतो हर्षपास्यो संतो

उभेणं शिगगच्छइत्ता वत्युपाडयरोवियंसि भूमिभागंसिणं दंपोक्वरिणिं खणावित्तुं प्रयत्ते याविहो  
 त्यातएणं साणंदापोक्वरिणीअणुपुब्बेणं क्खणभाणाइपोक्वरिणीजाएयाविहोत्याचाउक्कोणासमती  
 राअणुपुब्बं सुजायवप्पसीयलजलासंच्छणपत्तभि ससुणालावउउप्पलपउमकुसुदणखिणीसुभगसोणं

पपास्योराजटमाहियइने नीसरेनीसरीनेंवास्तुकशास्त्रना जाणसलावटनासम्बहतेणेरुचिव्यो रुडोठामदेखाडोएहवारूडाठामज  
 इभूमिनाभागनेविषे नंदापुष्करिणीवाविप्रते खणाविवाभणी प्रवर्त्ततोउद्यमकरतोहुवोतिवारिपक्खी तेनंदापुष्करणीवाविआनुपूर्वी  
 इअनुक्रमे करी खणावतारपुष्करिणीवावि पूरीयातीहुईतेकेहवीक्खे चोखुणीक्खे समीवरावरक्खे अनुक्रमे सुजातभखोनीपजाव्योक्खेव  
 प्रकोटवाविने पाच्छलिकोटकीधोक्खेसीतलताढोपाणी जेवाविनोसंक्खन्ढाक्कोक्खे पतपानडेकरी भिससुणालाकमलनीने पांखडीएक  
 रीपांणीजेवाविनो घणांउत्पलकमलपउमच्छरिजविकासी पद्मकमलकुसुदचंद्रविकासी कमलनलिणीकमलिनी विसेषसुभगकमलवि  
 सेषसोगंधिककमलविसेषपुंडरीककहतां धोलाकमलविसेषमहापुंडरीक घणुं मोटाधोलाकमलसयपत्त शतपत्तसोपांखडीनोकमल

धियपुं डरीयमहापुं डरीयसयपत्तसहस्रपत्तफुल्लकेशरोववेयापरि हत्थभमं तमत्तच्छम्पयअणेगसउण  
 गणमिडणविवियरियसद्दमहरसरणाइयापासाइयादरिसणिया अभिख्वापडिख्वातएणंसेणंदिम  
 शियारसेड्ढेणंदाएपोक्खरिणौएचउद्दिंसिचत्तारिवणसंडेरोवाविइतएणंतेवणसंडाअणुपुव्वेणंसारक्खि  
 ज्जमाणासंगोविज्जमाणा संवड्डिज्जमाणावणसंडाजायाकिण्हाजावणिउरंबभूया मत्तियापुण्णिया

सहसपत्तहजारपांखडीनाकमलए सगलाकमलफुल्ल्यांविकस्याविकासवंतथयां तेकमलांनांफूलांनांजेकेसरपरागतांरुचातेणेकरीउप  
 पेतसहितछेजेपुष्करणीवावि तिवारपछीतेनंदमणियारसेठी नंदापुष्करणीवावडीने चउफेर च्यारिदिसिने'विषे च्यारवनखंडरो  
 पावेतिवारपछीतेच्यारवनखंड अनुक्कमिभलीपरिराखतारखो खुंकरताछतागोपवतावनखंडाने पाछलिवाडिकरताछता भलीपरिह  
 ज्जपमाडतावधारताछता वनखंडथयातेकेहवाक्षणकहताकालाहरीया तालगिजांनिकुरंबभतथयामाहोमांहि मिलीनेनिकुरंबसमूह  
 रूपएकठाथयापांनडावंतथया फूलवंतथयातांलगीजां सोभावंतसोभायमानडताछता च्यारिवनखंडरहेछेतिवारपछी नंदमणिया

त्वं विशेषेण प्रतिपन्नो विप्रतिपन्नः काष्ठकर्माणि दास्य पुत्रिकादिनिर्मापणानि एवं सर्वतनवरंपुस्तं वस्त्रं चित्रं लेप्यं च प्रसिद्धं ग्रंथिमा

जावउवसोभेसाणाश्चिह्नंति तएणंणं देसणियारसेद्धी पुरिच्छिमिस्से वणसंडे एगंमहं चित्तसभंकरा  
वेइअणेगक्खं भसयसंणिविद्धं पासाइयादरसणीया अभिख्खवापडिख्खवातत्थणं बज्जणिकिरहणिय  
जावसुक्खिलाणियकडुकस्माणिय पोत्थकस्माणिय चित्तलेपगंथिमवेटिमथूरिमसंघाइमउवदंसिज्जमा

रसेठिपूरवदिशिनानवनखंडनेविषे एकमोटीचित्रामनीसभाप्रतें करावेअनेकघणंथांभानासईकडातेणेकरीसंन्निविट्टसंयुक्तसहितएह  
वीचित्तसभाकरावे तिहाघणाक्षणकालानीलाराता सुक्खिस्सखोलाएहवे रणे करीरंगीछे काष्ठकस्मं लाकडीनीपतलीनीपजावीपोत्थव  
खनीभांतिनानीपजावीवा ग्रंथिमजे ख्वेकरेगंथिमालानीपरि वेटिमकंजेउपराजपरिविटीने नीपजावीयेफूलांनीमालानीदडा  
नीपरिफूलपरवाभरवाथकीज्जइयाइ पीतलसोनानीप्रतिमानीपरिसंघातिम एचारभेदफूलनीरचनानातेणेकरी घणुं सोभायमान  
करतामाहोमांहिलोकेकरीरहे वलीतिहांघणाआसणवेसणंवाजोटपाट पाटलापाटीआंगिहीप्रमुखशय्यामांवापाटिंप्रमुखपाथरणा

नियानिस्तूत्रेणग्रथं तेमालावत्वेष्टिसानि वेष्टनतोनिष्पाद्यं ते पुष्पमालालंबसकवत्पूरिसाणि यानिपूरणतोभवंतिकनकादिप्रतिभाव  
त्वं घातिमानिसंघातनिष्पाद्यानिरथादिवत् उपदर्श्यमानानिलोकैरन्योन्यमित्यर्थः तालायरकम्भं ति प्रेक्षणककम्भं विशेषः तेगिच्छिय

णाचिद्रुति तत्थरणं बह्वङ्गिण्नासणाणीय सथणाणिय अत्युयप्रच्युयायचिद्रुतितत्थरणं बहवेण्टायजाव  
दिस्वभर्द्भत्तवेयणातालायरकम्भकरे साणाविहरंतिरायगिहविणिगगत्रोएत्यबहुजणतिसुपुव्वणत्थे  
सुआसणसयणेशुसणिसखायसंतुडोयसुयमाणोयसोहोमाणोयसुहंसुहेणंविहरइतएणं देमणियार

ओदणसहित्त्वे तिहाषणानाटिक नचावेनाचे तेहानिदीषोक्के भृतिकामना कारणहाराने पेटीयानोवेतनमूल्य तालायरकम्भप्रेष्य  
णकम्भं विशेषवृत्त्यनीकला विशेषनोकर्मकार्यकरताच्छता विचरेक्केएतलेषणाउत्सव महोत्सवकरावताच्छता विचरेराजगृहनगरमांहि  
यकीपणिनीसख्योआव्योच्छतो इहाषणोलीकतेप्रथमपहिलाथायाम् कयाजे आसणाविसणांशयनशय्यातेहानेविषे भलीपरिवेठोच्छतोसू  
तोच्छतो कयावात्तीसांभलतोच्छतो घणोसोभतोच्छतोअनेकगीतनाटिकविनोदखाल देखतोजोतोसांभलतोच्छतो घणोलोकसु खेसमाधि

सालंतिचिकित्साशालामरोगशालां वैद्याभिषग्वराःआयुर्वेदपाठकाः वैद्यपुत्रास्तत्पुत्राएव जाणुयन्तिज्ञायकाः शास्त्रानध्यायिनोपि

सेद्वीदाहिणिल्लेवणसंडेएगंसंहमहाणससालंकारावेइअणेगक्खं भजावरूवंतत्थणं बह्वेवपुरिसादिस्सुभ  
इमत्तवेणाविपुलंअसणं पाणंखाइअंसंसाइमंडदक्खंडेइबड्डणं समणसाहणअतिहिक्किविणवणीमयाणं  
परिभाएमाणाइविहरंति तएणंणंदेसणियारसेद्वीपच्चत्थिमिस्सेबणसंडेएगंसंहंतगिच्छियसालंकारा  
वइअणेगक्खंभसय तत्थणं बह्वेविज्जायवेज्जपुत्तायजाणुयायजाणुपुत्ताय कुसलाअकुसलपुत्तायदि

रहेछेएहवुंकरावे तिवारपक्खीनंदमणियारसेठी दक्षिणदिशिनानवखंडनेविषे एकमोटीमहानसशालाशतूकार सालादानदेवानी  
सालाप्रतेकरावे अनेकअणायंभानोसइकडतिणेकरी वींटीएहवीदानशालाराधिवानोघरकरावेघणुं जोवाजोग्यतिहांतेशत कारनी  
शालानेविषे वहवेघणापुरुषदिन्ददीघाछे पाभ्याछेकामकानाकरणहाराभक्तेपीयानोभूत्थएहवाघणापुरुषविपुलघणुअसनपांनखा  
दिमखादिमएच्यारप्रकारनोआहाररांधेरंधावेघणाअमणशन्यासीवाह्यणअतिथिअनाथद्वयणदरिद्रीवनीमगरांकभीखसांगीनेजीवे

शास्त्रप्रवृत्तिदर्शनेनरोगस्वरूपतः चिकित्सावेदिनःकुशलाः स्ववितर्काच्चिकित्सादिप्रवीणाः वाहियारुतिव्याधितानां विशिष्टचित्तपीडावतांशोकादिविस्तृतचित्तानामित्यर्थः अथवाविशिष्टाअधिर्यस्मात्स्वव्याधिः स्थिररोगःकुष्ठादिसद्वतांज्ञानानांक्षीणहर्षाणामश

स्वभद्रभक्तवेयणाबद्धं बाहियारुतिगिलाणाययतेइच्छं कर्षं करेभाषावि

एसगलानेरांध्याभातपांणी असणप्राणखादिसखादिसच्यारप्रकारनाआहारविहचीरआपताछतारहेइमतिहासलकारचालेछेतिवारपच्छीनंदमणियारसेठि पच्छिमदिसिनावनखंडनेविषे रोगनेदेखिवे करीरोगनासरूपथकी एकसोटीचिकित्सारोगरहितकरवानीशालाप्रतेंकरावेवणाअनेकथांभानासईकडासहितशालाकरेतिहातेचिकित्सालानेविषेणवेद्यआउखानाजांणहारारवेदनापुत्रवेदान्नायकाःशास्त्रनाभणहारारोगने चिकित्सानाजांणानापुत्ररोगभातजाणे वेद्यमांहिडाहाकुसलतेवेद्यमांहिडाहानापुत्रदीनदीधेछे स्थत्यसेवकांसनाकरणहाराने भक्तभातअन्नादिकनोवेतनोमूल्य घणाव्याधिवंतघणुंचित्तपीडावंतशोकादिककरीपीडाछे चित्तजेहनाअथवावणीआधिछे जेहथकीतेव्याधिकहीये स्थिररोगवंतकोडादिरोगवंत तिहांनेगिलाणक्षीणहर्षवंत सामर्थ्यांइंरहि





ज्ञानामित्यर्थः रोगितानां संजातव्यरज्जुधादि रोगिणां आशुघातिरोगाणां वा ओसहमित्यादि औषधमेकद्रव्यरूपं भेषजं द्रव्यसंयोगरूपं अथवा औषधमेकानेकद्रव्यरूपं भेषजं तु पथ्यं अर्ततु भोजनसातं प्रतिचारककर्म प्रतिचारकत्वं अलंकारियसभंतिनापितकर्मशांलांवीस

हरंति अथै य एत्थवह वेपु रिस एते सिं बज्जुणं वा हि याण य रो गि गि ला ण दु व्व ला ण य औ स ह भे स ज्ज भ म त्त पा णे णं प डि च्च ा रं क रे क्सा णा नि ह र ति त ए णं से णं दे स णि या र से ष्ट्वी उ त्तरि ल्ले व णं सं डे ए गं म हं अ लं का रि य स भं

तएहवाने रोगवंतथवाच्छेउपनाच्छे तावकोटादिरोगवंतएहवाने दुर्वलराकगरीवएहवाने चिकित्साविद्यच्चिद्गरोकरताच्छता विचरेच्छे अनेराइवीजालोकइहांधयापुत्रष एसगलाने व्याधिरोगीधाने औषधेकद्रव्यसुंठ्यादिभेषजद्रव्यना संयोगयकीनीपनोचूकीगोलीप्रसु खभेषजभक्तभोजनसालपाणीहलूडं तेषेकरी प्रतिचारकपणुं सेवापणुं करताच्छता विचरेच्छेतिवारपच्छीतेनंदमणियारसेठि उत्तरदि सिनावनखंडनेविषे एकमोटीअलंकारनावीनीसप्रभते करवितेकेहवीच्छेअनेकघणा थांभानासईकडातेणेकरी सहितच्छेतिहांधया अलंकारनाकर्मनाकरणहारा अनुष्यनाविवालंदमिस्यारेकरीया स्याराथ्यातेहनेदीधोच्छे मृत्यसेवककामनाकरणहाराने पेटीयोसू

कारिति अणेगक्त्वं भसयसखिविडुं जावप्रासाइयादरिसणिया अभिस्वापडिस्वातत्थ णंबहवेअलंकारिय  
 मणुसादिखभइभत्तजडुणंसमणायअणाहाणय गिलाणाणयरोगियाणयदुव्वलाणयअलंकारियकम्मं क  
 रेमाणाइविहरंतितएणं तिएणं दाएपोक्खरिणीएनहवेसणाहायअणाहायपंधियायपहियकरोडिकाय  
 तणाहाराकडाहाराअप्पे गइ यारुहायंति अप्पे गइयापाणियं पियंति अप्पे गइयापाणियंसंवहंतिअ  
 प्पे गइयागहायंति अप्पे गे गइयापासियं पियंति अप्पे गइयापाणियंसंवहंति अप्पे गइयाविसल्लिय

ल्यपच्छेतेनावीघणांअमणसंन्यासीप्रमुखनें अनायनें गिलाणनें रोगीयानें दुवलाने एहवाडुखीजीवानेअलंकारकर्म माथासुं डनाके  
 यसमारताच्छताविचरेच्छे एसगलाने मिस्यारो नंदमणियारसेठि आपेच्छेमसागतिनाकरणहारापुरुषाने तिहतिनंदापुष्करिणीवा  
 विड्डीनें यिपे घणासनायधणीयाताअनायधणीरहित पंधीलोककावडिधरी अजीवकाकरेतेलोक तणाचारनालेइआवणहारापा  
 ननाकाठइं धणानावहणहरालोक केतलाएकतिहान्हावेच्छेअंबोलकरेच्छेकेतलाएकति हांपाणिप्रते धीवेच्छे केतलाएकलोकपाणीप्रते



ज्जिएत्यादिविशिष्टस्वेदजलपरिष्कामनिद्रानुत्पिपासा तत्रजलःस्थिरोमालिन्यहेतुर्मलस्तुसएव कठिनीभूतद्रुतिराजगृहविनिर्ग  
तोपिचातवहुजनः किंतेति किंतद्यत्करोतिउच्यते जलरमणैर्जलक्रीडाभिःविविधमज्जनैः बहुप्रकारस्नानैः कदलीनांलतानांचगृहकैः  
कुसुमज्जसैरैः अनेकशकुनिगणरुतैश्चघोलनावद्भिर्मधुरैरित्यर्थः संकुलानिनयानितानि तथातेषुपुष्कारिणीवनखंडलक्षणेषुपंचसुवस्तु

सेयजल्लमल्लपरिस्समणिद्वेषुप्पिवासा सुहंसुहेणंविहरंति रायगिहविण्णिगओविततथ्यबहुजणोकिं  
तेजलरमणविविहमज्जणकयल्लियाहरयकुसुमपत्थरय अणेगसउण्णिगणरुयरिभियसंकुलेसुसुहंसु

भरीजाईछे केतलाएकलोकविसज्जियकहतां टालेछेसेयस्वेदपरसेवजल्लक० स्थिरचिरकालनामलिमपणानोकारणमलक० तेहिजम  
लकठिनभूतपरिष्कामखेदनिद्रा द्युधापिपाशा लघातरस एसर्वटालताहता विनोदकरताहतासुखे' समाधिरहेछे राजगृहनगरमां  
हिथकीविशेषेकरीनीसस्योछतोपिण तिहाषणुंलोकिकंतेकस्यंतेजेकरेछे तेकहिथेछे जलरमणपांणीनी क्रीडादिकमज्जणवधणाप्रकार  
नासनांकयल्लियाक० केलिनाअने' वलीलतानावरकुसुमपत्थरय फूलनापाथर तेणेकरीतथा अनेकवणाशकुनिगणरुतैः कहतां

हेणं अभिरममाणान् विहरति तएणंदाएपोक्खरिणीए बहजणोएहायमाणोय प्रियमाणोयपाणि  
 यंचसंवहमाणोयअस्समणं एवंवयासीधणोसिणं देवाणुप्पियाणं देमणियारसेट्ठी कयथ्येजावमम्मजी  
 वियफलेजस्सणंइमेयाह्वा णंदापोक्खरिणीचाउक्कोणा जावपडिह्वाजस्सणंपुरच्छिमिह्ले तंचेवस

पंखीयानासम्बहनाएतयद्दखरतेणेकरी रिभियकहताखरनीषोलनामधुरमीठाइपणुंतेणेकरी संकुलआकुलव्याकुलछे तेपुष्करणी  
 वाविअने च्यारवनखंडएपांचपदार्थवस्तुनेविषे सुखे संसाधिंरमताक्रीडाविनोदकरताछताविचरेछे रसताछताविचरेछे तिवारपक्की  
 णंदापुष्करिणीवाविनेविषे घणोलोकअंधोलकरतोछतो पाणीपीतोछतोपाणीप्रते भरीने वहितोलेइजातोछतोलोक अन्योअन्यमा  
 होमाहि इणेप्रकारे कहितोवार्त्ताकरतोह्मओ धन्यतुं हेदेवानुप्रियणंदमणियारसेठी कतार्थययोतुं हेनंदमणियारजन्मजीवितव्यस  
 फलताहरोथयुं जेहनीआहवीरुडीएनंदापोक्करिणी वाविचउखूणीतालगिजांप्रतिरूपपणुंजोवाजोग्यवाविछे जेहवाविनें पूरवदिसि  
 दद्विणदिसिपच्छिमदिसिउत्तरदिसिए सषलीच्यारदिशनाचारवनखंडनेविषे राजगटहमाहिथकीनीकल्योछेजिहाषणोआवीनेआ

ष्वितिप्रक्रमः संतुयद्वोत्तिथयितः साहेमाणोयत्तिप्रतिपादयन् गमञ्चित्तिपूर्वोक्तपाठः सायासोक्खं तिसातान् सातवेदनीयोदयात्सौख्यं

ब्वंचउसुविवरणसंडेसुजावरायगिहणयरविण्णगओ जत्थबहूजणोआसणेसुयसयणेसुयसस्सिसस्सेय  
 संतुयद्वोयपेच्छमाणोय साहेमाणोयसुहंसुहेणंविहरइतंधणेकयत्येकयपुस्से कयाणंलोथासुलइमाणु  
 सएजम्मज्जीवियफलेणंदस्समणियारस्स तएणंरायगिहेणयरे सिंधाडगजावबहुजणो अस्समस्सएव  
 माइक्खइ४ धस्सेणंदेवाणुप्पिया गंदेमणियारसेट्ठी सोचेवगमओजावसुहंसुहेणंविहरइतएणंसेणंदेम

सणवेसणानेविषे शय्यानेविषेवेठोक्ततो भलीपरिस्सुतोक्ततोनाटिकविनोद जोतोगीतग्यानसांभलतोक्तोकहितोक्ततो सुखे समाधेविच  
 रेच्छेरेहेच्छे तेकारणयकीकृतार्थधन्य कृतपुन्यकीधंपुन्यक्विवारेके लोकमांहोमाहेइमकहेभलुलत्थोमनुष्यसंबंधीयो जनमजीवतव्यनुं फ  
 लनंदमणीयारतुं जेणेआहवीरुडीवाविकरावीच्छेतिवारे तिंहाराजगटहनगरने विषे त्रिखुषातिवटाचउवटप्रमुखमारगनेविषेरत्थो  
 क्ततोषणेलोकांमांहोमाहिइणंप्रकारे कहेच्छेधन्यतु हेदेवासुप्रिय नंदमणियास्सेठितेहिजगमो कहतांपाच्छिलीपरिआलावोकहिबो

णियारसेद्वीवज्जणस्सञ्जातिए एयमङ्कं सोच्चारिणसम्महद्वुड्डे धाराहयकयंवगंपिव समस्सौयरोमकूवे  
 परंसायासोकखमणुभवमाणेविहरइ तएणंतस्वणंदस्समणियारसेद्विस्सअस्सयाकथाइं सरौरगंसिसो  
 लसरोगायंकापाउभभूया तंजहासासि१ खासेजरेइहाहे४कुच्चिसूलेभुभगंदरेइअरिसा७अजौरएट

तांलगिजांसुखे समाधिकरीविचरेछेरहेछे तिवारिनंदमणियारसेठि घणालोकनासमीपनेविषे एपूर्वोक्तवाविवनखंडनावर्णकप्रते  
 सांभलीने हीआमांहि अबधारीनेइर्षसंतोषपास्योछतो मेघनीधाराइं करीआहत इण्योताड्योछतो कदंबद्वयुं फूलजिमविकासपा  
 मेफूलेतेहनीपरिंसम्वस्त्रियउच्चित उंचाविकस्यांछेउलहासपास्यांछे रोमकूपरूआडारोमनाफूलजेनंदमणियारसेठना परंघणुंसा  
 तासातावेदनीय कर्मनाउदयथकीसोक्खं सुखप्रते अनुभवतोभोगवतोछतो विचरेछेनंदमणियारसेठि तिवारपक्कीतेनंदमणियारसे  
 ठिनेएकदाप्रस्तावे शरीरने विषे सोलरोगान्वरादिआतंकखूलादि एहवारोगप्रगटथाताह्वातेकेहवाछेतेजिमअनुक्रमेकहेछेसास१  
 खास२न्नरताव३ दाघज्वर४कूं खिमांहिखूलउपनो५ भगंदर६विरेचनोलागवो७आहारनोअपचिवोअजीर्णरोगट्टुड्डिनेतखूल८मूड्डे

सुखंसासेत्यादिक्लीकः प्रतीतार्थो नवरं अजीरएत्ति आहारापरिणतिः दिष्टीसुद्वसूत्रेत्ति दृष्टिशूलंनेतशूलंमृद्धं शूलंमसूत्रकमूलंअकारए  
त्तिभक्तद्वेषःअच्छिन्ने यणेत्यादिद्वेषोकातिरिक्तं कंडुत्तिखर्जुः उदरेत्तिउदरं जलोदरमित्यर्थः सत्यकोसेत्यादिशस्त्रकोशःक्षरनखरैद

दीष्टी८ सुद्वसूत्रे१० अकारए११ अच्छिन्नेवेयणा१२ कस्यवेयणा१३ कंडुय१४ उदरे१५ कोठे१६ तएणंसेणं देम  
णियारसेट्टीसोलसहिं रोयायंकेहिंअभिभूएसमाणेकोडुं नियपुरीसेसद्दावेद्वेत्ताएवंवयासौगच्छहणं  
तुभमेदेवाणुप्पिया रायगिहेणयरेसिंघाडगजावमहापहेसुमहया२सद्देणंउग्घोसेमाणा२एवंवयहएवं

सूलमसूत्रकसूल१० अन्नउपरिअक्खि अन्नविषरूपथाई११ आखिसांहिवे दनाजपनी१२ कांनसांहिवेदनाजपनी१३ शरीरनेवि  
षेखाजजपनी१४ जलोदरारोगजपनी१५ कोठरोगएहवासोलरोगसमकालिजपना१६ तिवारिंनंदमणियारसेठि रोगांतंकेकरीष  
णुं पीडोव्याप्यो कोटं विकपुरिसआदेसकारीपुरुषाप्रते' तेडावेतेडावीनेइमकहतोऊओ जाओतुग्घेहे देवाउप्रियो राजगहनगरने  
विषेतिखुणातिवटाचउवटाआदिदेई मोटाराजमार्गनापंथनेविषे मोटेसादे' करीउद्वेषणाकरताछ्छताढंटेरोषजावीनेसादपाइता

खलुदेवाणुप्रियाणंदस्वमणियारसेद्विस्वसरीरंगंसिसोलसरोगातंकापाउभयूतंजहासासेजावकोटे  
 तंजोणंदच्छइदेवाणुप्रियाविज्जोवाविज्जपुत्तोवाजाणुओवाजाणुपुत्तोवाकुसलोवाकुसलपुत्तोवाणंद  
 स्वमणियारसेद्विस्व तेसिंचणंसोलरुहंरोगाणं एगमविरोयायंकंउवसामित्तए तस्सणंणंदेमणियारते  
 विपुलंअत्थसंपयाणंदलथंतीत्तिकइ, दोच्चंपितच्चंपिघोसेह जावप्पच्चंपिणहते वितहेवजावपच्चंपि

कृताइणंप्रकारे कहोउदधोषणाकरो इणंप्रकारेखलुनिचेहेदेवानुप्रियो नंदमणियारसेठिनाशरीरनेविषे सोलरोगआतंकखलादिउ  
 पनाच्छेतेजिमसासखासआदिदेइ तालगिजांकोठपयंतसोलरोगजपना तेकारणथकीजेइच्छेवाच्छे हेदेवानुप्रियोविद्यआउखानाजांणते  
 वेद्यनापुत्रवेद्यक साख्खनाजाणवेद्यक साख्खनाजाणनापुत्र वैदमाहिक्कुसलडाहातेहना पुत्रजेकोइजाणऊइ नंदमणियारसेठि  
 तेसोलरोगमाहिलाने एकरोगप्रते पिणउपसमाविवाभणी टालवाभणीसमर्थशक्तिवंतऊइ तेवैद्यनेणंदमणियारसेठि तेविपुलवि  
 स्तीरणवणु अर्थद्रव्यनीसंपदा कद्विप्रते अपेच्छेइमकहीनिवेवार विणवारउदधोषणाकरो तालगीजांराजगटहनगरने विषे उदधोषणा



नादिभाजनंसहस्रेगतः स्थितो येषां तया एवं सर्वतनवरं शिल्पिकाः किराततिक्तकादित्वाणरूपाः प्राततपाषाणरूपावाशस्वतीक्ष्णीकर

गंतितएणं रायगिहेणयरे इमेयारूवेधोसणं सोच्चाणिसम्म बहवेवेज्जायवेज्जपुत्ताय जावकुसलपुत्ताय  
सत्यकोसुहत्थगयाय सिलियाहत्थगयाय गुलियाहत्थगयाय ओसहभेसज्जहत्थगयाय सएहिंङ्गे

करीने पाळोकांमसूंपज्यो जेअन्हं कामकीधोळेइमनंदमणियारसेठिइंकह्यो पछेतेअद्यादेशकारी पुरुषराजगृहनगरमां हिजइसगला  
मार्गने विषे उदधोगणाकरीने पाळाआवीनेसेठनेकहेजेस्वामी तुम्हारीआच्चाकीधीळे तिवारिराजगृहनगरनेविषे एहवीधोषणा  
उदूधोषणाप्रते संभलीनेहीयामाहिअधधारीने घणावैद्यतेवेदनापुलजाण जाणनापुलकुशलडाहापुल शस्त्रकोशकूरपलीनहिरणी  
आदिदेईशस्त्रवालवानुभाजन शस्त्रनीकोथलीतेछेहायनेविषेगतथिर निचललेबैदानएहवाळतासिलीकरीयातानी त्वाणारूपअथवा  
शिल्पिकाक० पिळलीपाखाणनी पाथेरीशस्त्रतीखाकरवाने अर्थे तेछेहाथनेविषेजेहात्रे घणाद्रव्यनासंयोगथकीनीपनीगोलि तेहाथ  
मांहिछेजेवइदानीओषधद्रव्यथकीनीपनु अथवा घणाद्रव्यनासंयोगथकीनीपनु भेषजद्रव्यनासंयोगथकीनीपनु तेहाथनेविषेजेवे

गार्थाः तथा रुटिकाद्रव्यसंयोगनिष्पादितगोलिकाः औषधभेषजंतयैव उव्वलणे हीत्यादि उव्वलनानि देहोपलेपनविशेषः यानि देहाद्भ्रूस्ता  
मर्थेनापनीयमानानि मलादिकमादायोद्वलंतीति उद्वर्तनानितान्ये व विशेषस्तु लोकखटिसमवसेयइति स्त्रे हपानानिद्रव्यविशेषपपक्व


हेहिंतोणिकवमइत्ता रायगिहंणयरंमज्जंमज्जेणजेवणंदस्सम गियारसेट्टिस्सगिहेतेशेवउवागच्छ  
इत्ताणंदस्समगियारसेट्टीस्ससरीरंपासंतितेसिरोयादंकारंणियागंपच्छइत्ता णंदस्समगियारस्स  
वह्णउव्वलणेहियउव्वट्टणेहिय सिणेहप्राणेहियवमणेहियविरयेयणेहियसेयणेहियअवदहणेहियअव

दांनेएहवाक्खतासएहिंरगेहेहिंतोकहतां आपआपणाषरांयकीनीसरीनें राजटहनगरमांहिथईनें जिहानंदमणियारसेठिनोषरच्छे  
तिहाअवेआवीने नंदमणियारनाशरीरप्रतें देखेजोइजोइने तेरोगआतंकसूलादिरोगनानिदान कारणनें पृच्छंपूछीनें नंदमणिया  
रसेठिने घणाउदवलनक०शरीरनेविशेषे उपलेपनचउपडणपीठीकरे जेचउपडणशरीरयकीहायाने मसलणवेकरीउरहापरहाया  
तामेलादिकप्रतेलेईनें उतररेच्छे तेउव्वलनकहिंये स्त्रेहपांनद्रव्यविशेषनेसंयोगेकरीषी आदिकनुंपावळंतेकरे औषधधादिकनेसंयोगेक

धृतादिपानानिवसन्नानिप्रसिद्धानि विरेचनान्यधोविरेकाः स्वेदनानिसप्तधान्येकादिभिः अवदहनानिदंभनानि अपस्नानानिसिंहप  
 नयनहेतुद्रव्यसंस्कृतजलेस्नानानि अनुवासनाश्चर्मयंत्रप्रयोगेणापानेन जठरेतैलप्रवेशनानिक्लृप्तकर्मणिचर्मवेष्टनप्रयोगेनशिरःप्र  
 श्चतीनांस्नेहपूरणानिगुदेवात्रर्थादिक्षेपणानिनिरूहा अनुवासनाएवकेवलंप्रकृतोविशेषः शिरोवेधानाडीवेधनानिर्धरमोक्षणा  
 नीत्यर्थःतत्क्षेपणानिलवचःक्षुरप्रादिनातनकरणानिप्रक्षेपणानि ह्रस्वानित्वचोविदारणानिशिरोवस्तयः शिरसिबद्धस्यचर्मकोशस्यसंस्कृ

### गृहाणेहिय अनुवासणेहिय वत्थिकर्मोहिय णिरूवेहिय पच्छणाहिय सिरावेहिय तप्पणाहिय

रीवमननांखिवोकरावे अधोद्वारिविरेचनरेचनदेवेकरी स्वेदनसातप्रकारानांधाननीपोटलीआदिकदेवेकरीअवदहनडांभराखानुं दे  
 वोत्तेणेकरीअपस्नानक० चीकटटालिवाना कारणभूतद्रव्यनासंयोगनेपाणीएकरी स्नानअंधोलकारावे अनुवासनाक०चामडानायं  
 तानेप्रयोगे'करीपुं'दनेविषेतेलविशेषतु'घालितुं'तेणेकरीपरंपेठनेविषेनघालेयस्त्रिकर्मक०चामडावीं'टवाने'प्रयोगे'करीमाथाआदिदे  
 दू'सगलाशरीरने'सनेहतेलतुं'पुरवोकरेअथवावस्त्रिकर्मक०पुं'दने'विषेवातिनोखेपवुं'तेकरेनिरूहक०चामडानायंतने'प्रयोगे'करीनि;



ततैलापूरलक्षणः प्रागुक्तानि वस्तिकर्माणि सामान्यानि अनुवासनानिरूहशिरोवस्तयस्तु तद्देशाः तर्पणानि स्नेहद्रव्यविशेषैः हृणानि पु  
टपाकाः कुष्ठिकानाकणिकावेष्टितानामग्निनापचना निअथवापुटपाकाः पाकविशेषनिष्पन्नां औषधविशेषाः कृष्णयोरोहिणीप्रसृतयः व

पुडपाएहिय कृष्णीहिय वल्लिहियमूलेहिय कंदेहिय पत्तेहिय पुष्पेहियफलेहिय बीएहिय सिंलि  
याहियगुलियाहिय ओसहेहिय भेसज्जेहिय आइज्जेहियइच्छंति तेसिंसोलसणहं रोयायंकाणं

केवलद्रव्यनुकीषोविशेष पुं दसांहिषालेतेकरेसिरावे धनाडीवेधलोहीकाढेतेकरेत्वं चाचामडीनें छरपलादिकेकरी तांछवोसोटा  
पाछणालुं देवेतेकरेनांकार हलुआरजपरलीचांवडीनुं विदारबुं पाछुं तेकरेसिरसिमाथानेविषे चामडानीकोयलीवाधीनें ससाख्याते  
लतेणेकरीपूराभस्याछे लवणाजेनंदमणियारसेठना वस्तिकर्ससामाव्याप्रकारिं पाछलिअर्थकस्याछेतेजांणिया तर्पणचीकटास्येहवं  
तद्रव्यनें विषे शेकरीमसिलवोचोपडबुं तेकरे पुटपाककुष्ठिककणिकनें वीटीनें अगनिकरी पचव्याअथवापुटपाकविशेषनीपनीओष  
धीविशेषतेणेकरीचोपडगीलो प्रमुखओषधीतेणेकरीमूले करीकंदादिके करी पानडादिकेकरी

सुगोणुचुवीप्रभृतयःकंदादीनिप्रसिद्धानि एतैरिच्छंति एकमपि रोगमुपशमयितुमिति निबद्धाउचित्प्रकृतिस्थितिअनुभागबंधापेक्ष

एगमविरोथायं कंडवसासित्तए णोचेवणं संचाएइ उवसासित्तएतएणं ते बहवेवेज्जाय जाह्णिणेसं  
चाएइ तेसंसोलसण्हंरोगाणं एगमविरोगांतंकडवसासित्तए ताहंसंतातंतापरितंतजावपरिगया  
तएणं णंदेमणियारसेद्धीतेहिंसोलसहिंरोथायंकेहिं अभिभूएसमाणेणंदाएयुक्वरिणीएसुच्छिएतिवि

फूले करीफलेकरीवीजेकरी किरियातानीकडू ईसिलीतेणेकरी घणाद्रव्यनीनीपनीगोलीतेणीइकरी ओषधएकद्रव्यनुं अथवाघणाद्र  
व्यनुतेकरीणेभेषजघणाद्रव्यनासंयोगनुं नीपनुवाभेषजपथ्यकारीओषधघणुआदेइयलेवायोडगुणकारीओषधकरवावांछेक्रेकरेछेप्रती  
कार तेसोलजातिनारोगन्वरादिआतंकखलादिरोगतेमांहिलानेएकपणिरोगप्रते' उपशमाविवाभणीटालिवाभणीसमर्थनऊइतेवेद  
चेवनिचेउपसमाविवाभणीटालिवाभणी तिवारेतेघणावेदेवेदनापुत्रजिवारिनऊइसमर्थतेसोलजातिमांहिलारोगंमांहिलाएकपणि  
रोगप्रते' उपसमाविवाभणीटालिवाभणीतिवारिवेद आंनथयाथाकाछताघणुंजथाकाखेदवं तथयापरितंतका० विशेषथकीखेदपास्यातां

कव्रजोणिर्हिंणवद्वा लएवद्वपएसिएअदृदुहृदुवसदृकालमासेकालंकिच्चा गंदाएपुक्वरिणीएदह,री  
 एकुच्चिंसिदह,रत्ताएउवत्रस्ते तएगंणंदेमणीयारजौवेदह,रीए गभ्माओविणिसुक्केसमाणे लभुक्कवा  
 लभाविविस्सायपरिणयमेत्ते जोव्वगुगमणुपत्ते गंदाएपोक्वरिणीए अभिरममाणेश्चिहरइत्तएणंणं  
 दाएपोक्वरिणीएवहुजणोएहायमाणोयप्राणियं पियमाणे।यप्राणियंसंवहमाणोय असुमसुस्सएव

लगीजांपाछावलीनें लद्यमरहितयकाआपआपणेषरेगयासगनावेदपुल्लतितवारपच्छीगंदमणिचारसेठितेणेसोलजातिनेरोगेकरीपीडो  
 पराभव्योक्तोनंदापुष्करिणीवाविनें विषेसूच्छर्णोसूच्छर्णोपास्योक्तोतिरिजंचनीयोनिनेविषे निवद्वाउक०प्रकृतिस्वभावस्थितिकालनो  
 मानअनुभागरसना बंधनीअपेक्षाइंआउखोवांध्यो प्रदेशनावंधनीअपेक्षाइं करी कालकरिवानामासनेविषे कालप्रतें करीनेनंदापु  
 ष्करिणीवाविनेविषे डेडकौनीकूखिनेविषे डेडकापणेअपनोअवतस्यो तिवारिनंदमणिचारनोजीवडेडकौना गर्भयकीसूंकाणोछ  
 तोजनसपास्योक्तो वालिकनोस्वभावसूक्योक्तो विज्ञानमातपरिणस्योक्तो यौवनवयप्रतं पास्योक्तो नंदापुष्करिणीवाविनें वाविनें

माद्रक्खद्रधखेणं देवाणुप्पियाणं देमणियारसेट्ठीजस्सणं इमेयाखुवाणं दापुक्खरिणीचाउक्कोणाजाव  
 पडिखुवा४ जस्सणं पुरिच्छिमिस्से वणसंडेचित्तसभा अणेगखंभसयतहेव चत्तारिसभाओ जाव  
 जम्मजीवियफले तएणं तस्सदहुरुस्सतंअभिकवणं २ बहुजणस्सअं तिएयमडुंसोच्चाणिसम्मइसेयाखु  
 वेअउभत्थिए चिंतिए प्रत्थिएमणेगए संकप्पे समुप्पज्जित्था कहिंसखे मए इमेयाखुवेसहे णिसंत

विषे क्रीडाविनोदकरतोछतो सुखेसमाधेविचरेछेरहेछे तिवारिनंदापुष्कारिणीवाविनेविषे घणालोकसनानअंधोलकरतोछतोपांणी  
 प्रतें पीवतोछतो पांणीप्रतेभरीने भलीपरिवहतोलेईजातोछतो सर्वलोकमाहोमाहिणहवी कथावात्ताकरेछेइमकहेछे धन्यपुन्यवंतदे  
 वातुप्रियनंदमणियारसेठि जेहनीएहवीरूडी नंदापुष्कारिणीवाविछे चोखुणीछेतालगिजांप्रतिरूपघणुं प्रतिरूपदेखिवायोग्यजेवा  
 विनापूरवदिशिनावनखंडनेविषेचिखसभाछेअनेकघणाथाभानासईकडातेणेवीटीसहित्तेतिमजचारिचित्तसभाकीधीछेतिमजचार  
 वनखंडछेतांलगिजांभलोपास्योजनमजीवितव्यनुं फलनंदमणियारसेठनेतिवारितेनंदमणियारसेठनोजीवजेदेडकोयोनिनेविषेअभि

पुर्वेत्तिकहु, सुभेणं परिणामेणं जावजाईसरणे समुप्यस्ये पुव्वजाइससं समागच्छइ तएणं तस्सदहुर  
 सइमेयारुवे अउभत्थिए ४ समुप्यज्जित्था एवंखलुअहं इहेवराय गिहेणयरे णं देणामं मणियारसे  
 ड्डीहोत्था अड्डे जावअपरिभूए तेणं कालेणं तेणं समएणं समणे भगवं महावीरि जावससो सड्डे तएणं  
 मएसमणस्स भगवओ महावीरस्स अंति ए पंचाणुव्वइयं सत्तिसिक्खाव्वइयं जावपडिवस्ये तएणं अहं

कखणं वारं वार घणाजनलोकनासमीघने विषे एपूर्वोक्तवाविवनखंडचित्तसभानीवात्ता सांभलीनें हीयामां हिअवधारीने तेडेडकाने  
 एहवोअध्यवसाय सकल्पविकल्पजपजे किहांकिण्डुं मानोच्छं जाणुक्क मएमे एहवोशब्दसांभल्योच्छे पूर्वइसकहीनें सुभभलेपरिणामे  
 करीभलेअध्यवसाइं करी जातिसरणज्ञानजपनोजे पाच्छिलोभवदीठोपाच्छिल्याभवनीजातिसस्य  
 क्कभलीपरिजाणेजाणीने देखेतिवारपक्कीतेडेडकाने एहवोअध्यवसायसंकल्पजपजे इणंप्रकारिं खलुनिअेअहं ऊं इहेवआहिजराजगटहन  
 गरनें विषे नंदनासामणियारसेठीड्डतो घणुं अड्डिवंतच्छे तां लगिजां कोइपराभवेन हीतेकाले तेससयने विषे अमणभगवंतमहावीरतां ल



अणयाकयाद् असा ऊदं सणेणय जावमिच्छत्तं विष्पडिवस्ये तएणं अहं अणयाकयाद् गिरुहकालस  
 मयंसिजावउवसंपज्जिताणं विहरामि एवंजहेवचिंता आपुच्छणं गंदापुक्खरिणीवणसंडासहाओ  
 तंचेवसव्वं जावणंदाएपुक्खरिणीए दह्, रीएकुच्छिंसीदह्, रत्ताए उववस्ये तंअहोणंअहंअहस्ये अकय

गीजातिहंआवीनें समोसस्योऊतस्योतिवारिमे अमणभगवंतश्चीमहावीरनासमीपनेविषेपांचअणुव्रतसातसिख्याव्रततांखगिजांपडि  
 वज्याअंगीकारक्रीधा तिवारिऊं एकदासमे असाधुनादर्शनें करीसमकितना परिणामहानिपामिवेकरीमिथ्यातनापरिणामवाधवेक  
 करीमिथ्यातप्रते पडिवज्जोमिथ्यात्वीऊं थयो तिवारिपच्छीऊं एकदासमे प्रस्तावे ग्रीष्म० उन्हालाकालनासमेने विषे त्रिणिउपवा  
 सचउविहारपचखीपोसहसालाने विषे पोसहप्रते अंगीकारकरीनेविचरंहु अहमपरिणस्योरातिनेविषे तरिखालागीइणप्रकारे  
 जिमचिंताऊपनीजेधन्यपुन्यवंत जीववावितलावकरावेहे ऊं पिणस्सूरिजउग्यापच्छीराजाने पृच्छीनंदापुक्खरिणिवाविकरावी तेवावि  
 नेपाक्खिचारवनखंडकराव्या च्चारसभाकरावी सोलजातिनोरोगऊपनोवैदेतेडावीने ओषधकीधापणि समाधिनयई तेसगलोक

त्येअकथपुस्ये णिण्णं धाओपावयणाओमद्वेण्डे परिभइते तं सियंखलुममंसयमेवपुब्बंपडिवसाइं पंचाण  
 व्वयाइं सत्तसिक्खावयाइं उवसंपज्जित्ताणं विहरित्तएवंसंपेहेइइत्तां पुब्बपडिवसाइं पंचाणुब्बयाइं  
 जावआरुहेइइत्ताइमेयारुवंअभिगहंअभिगएहइकप्पइमेजावज्जीवाएछइं छेइणंअणक्खित्तेणंतवो  
 कस्सेणंअप्पाणंभावेमाणस्सविहरित्तएछइस्सवियणंपारणं गंसिकप्पइमेणंदाएपोक्खरिणोएपरिधेरंतंतेसु

द्विवोनंदापुष्कारिणीवाविनेविषे डेडकीनी कूखिनेविषेडेडकापणेजपनो अवतस्योछेतेकारणथकीअहोडं अधन्यथयोअकृतार्थथयो  
 अकृतपुण्यपुण्यरहितथयो निग्रंथप्रवचनसिद्धांतनामार्गथकी अष्टथयोभुंडोभावषणुं सर्वथाअष्टथयोतेकारणथकीअयभलुंमसुकेनेस्व  
 यमेवपोते आपणेपूर्वे नंदमणियारनाभवनेविषे पडिवज्याअंगीकारकयाएहवापांचअणुअतसातसिख्यात्रत एवारजतप्रते अंगीका  
 रकरीनेविचरबुं प्रवत्तंबुं इणेप्रकारे चैतवेचैतवीनेपूर्वेग्रह्यापिच्छियापाच्छियांपडिवज्यांहता पांचअणुअतसातसिख्यात्रतएहिजपाच्छिला  
 भवनावारजतप्रते आरोहेचढेअंगीकारकरिअंगिकारकरीने एहवाअभिग्रहप्रते ग्रहेलीयेआजथकीकल्पेसुकेनेजावजीवलगीक्खइइरोदो

फासुएणं एहाणोदएणं उम्मइणाइं लोलियाहियवित्तिकप्पे माणस्सविहरित्तएइमेयाखुवंअभिग्गहंअ  
भिगेएहइरत्ताजावज्जीवाएछइं छइं णंजावविहरइतेणं कालेणं तेषं समएणं अहं गोदसारात्थिहह्हेणयरे  
गुणसेलएचेइएससोसइु परिखाणिग्गयातएणं णंदाएपोक्खरिणीए बड्डजणोग्गहायइयाणीयंपीयइप्रा

उपवासअंतरारहितअंतरारहितपनेकरवेकरीआपणाआत्माप्रते भावताछताने विचरवाभणीएतले आजथकीमाडीनेजावजीवल  
गीछइछइनेपारणुं करवुं छइइोउपवासनापारणाने विषे कल्पेसेसुअनेनंदा पुस्करिणीवाविनेविषे चउफेरिलोकेप्रस्थो इलाय्योडड्ड  
लोकीधोएहवो फासुकीधोअंधोलिवेकरी उन्मईनचोसईं नकरीमेलयुं उतारिवुं लोलितथयोलोडाणो अरहोपरहोएहवोनंदापुस्क  
रिणीवाविनोपाणीफाडुअनेमेल सेवालप्रमुखसर्वफासूतेयेकरी वृत्तिअजाजीविकाप्रते करताछताने सुअने विचरवाभणीकल्पेएहवा  
अभिग्रहप्रते ग्रहेलीयेडेडको जावजीवलगीछइछइनोपारणुं करेपारणेफासूपाणीआहारफासूकरतोछतो रहेछेविचरेछेतेकालतेसम  
यनेविषेड्डं हेगोतसराजण्टहनगरनेविषे गुणसेलीयोदेहरोछे तिहांसमोखोऊतस्योछे वांदिवाभणीपरिषदाआवीतिवारिइं नंदा

शियंसंव हद्र अष्टमसं आद्र क्वद्र जावसमणे भगवं महावीर इ हेवगुणसिल एचेद्र एसमोसडु तंगच्छामोणं  
 देवाणुप्पियासमणं भगवं महावीरं वं दामो ए मंसाभोजावपज्जुवासामो इ ह भवेपरभवेहिया ए सुहा ए ख  
 मा एणिस्सेसा ए अणुगामि यत्ता ए भविस्स इ त एणं तस्स दद्द, रस्स वज्जणस्स अंति ए एयसडुं सोच्चाणि सस्म अ  
 यमेयाखु वे अउक्कत्थि एससुप्पज्जित्था एवं खलु समणं भगवं महावीरं तंगच्छामिणं वं दामिणं मंसाभिजाव

पुस्करिणीवा विने विषे षणो जनलो कसनान करतो पाणी प्रते पीतो पाणी भरले ई जातो छतौ अन्योन्यमां होमां हे ए ह्वुं क हे छे जे अमण भग  
 वंत श्री महावीर देव आहि जगुण सेल कय च्च नो दे ह्वुं छे ति हा आवीनें समोसख्यो उत ख्यो ते कार ण थकी आ पण ज ई हे देवानु प्रियो अमण भग  
 वंत श्री महावीर प्रते वादि ये न मस्कार करी ये पर्यु पासना से वा भक्ति करी ये आ भव इ ह्वु लो कने विषे पर भर पर लो कने विषे हित भणी सु ख भणी  
 च्च मा भणी निः अय मो च्च ना सु ख भणी आ गा मि क्त आ व ता भवने विषे हो ख्ये ए ह्वुं मां हो मां हि क हे छे स ग लो लो क ति वा रि ते डे ड काने षणा लो  
 कना समीपने विषे महावीर आवी समोसख्या छे ए ह्वा समाचार प्रते सांभलीने हि या मा हि अ व धारीने ए ह्वुं अ ध्व व साय मन नो भाव ज प जे इ

एवंसंपेहेद्रुणंदाओपोक्खरिणीओसणियंउत्तरइत्ताजेणेवरायमगेतेणेवउयागच्छइत्ताताएउक्कि  
 डाएधुदहु, रमईएवीद्रवयमाणेजेणेवममअंतिए तेणेवप्रहारेत्यगमणाएइमंचणंसेणिएरायाभिंभासारे  
 राहाएकयकोउयजावसव्वलंकारविभूसिए हत्थिगंधवरगएसकोरंटमसुदासेणंछत्तेणं धारिज्जमाणे  
 णंसेयवरचामराहिं सहयाहयगयरहभडचडगरचाउरंगिणीएसेणाएसद्धिंसंपरिउहे ममपाववंद

णप्रकारे'निचेंअमणभगवंतओमहावीरदेवप्रतेतेकारणथकीतिहंउज्ज'जाउ'वांतुं बालगिजांएणेप्रकारे'चैतवेचैतवीनेनंदापुस्करिणी  
 वावियकीधीरे'रजतरेउतरीनेजिहारज्यव्यायोछे सूधोरजमार्गछेतिहंउडकोआवेआवीनेतेणीतेहवीउत्कष्टीइ'डेडकानैंगतिक  
 रीव्यतिकमतोचालतोछतोजिहांमाहरोसमीपसूअनें'ढूकूडोठामछेतिहंपधारिवाभणीजावाभणीमनकरतोहूओइमेएहवेओणिकरा  
 जाभिंभासारप्रधानछेजेओणिकराजाने'तेन्हायोमपीसरसवद्रोवप्रमुखनाकीधाक्केकोतुकजेणेराजाइ'तांलगिजां बज्जमूल्यवस्वपहिर  
 वाज्जवहिरखाकडाप्रमुखसगलाअलंकार तेणेकरीविभूषितसोभायमानथातोछतोहाथीनाखांघाऊपरवरप्रधानरह्योचढोछतोकोरिं

एहव्वमागच्छइ तएणंसिदह्, रेसेणियस्सरसोएणेणंआसकिसोरेणंवासपाएणंअक्कंतेसमाणेअंतण्णिग्घा  
इएकयाविहोत्यातएणंसिदह्, रेअथाभेअवलेअवीरिएअपुरिसकारपरक्कमेअधारिणज्जमिस्सिकइ, ए  
गंतमवक्कमइत्ताकरयलपरिग्गहिंयंतित्थुत्तो सिरसावत्तंसत्थएअंजलिकइ, एवंवयासीणमोत्थणंअर

टाहज्जनांमालाभणी हितकारीफूलतेहनीदाममाला तेणेसहितएह्वुंक्खलधरूीने' खेतधोलावरप्रधानचामरवेवींजाते' मोटाघोडा  
हाथीरयसुभटपायकनससूहएच्यारप्रकारनी सेनासंघातेपरिवस्थोच्छतो माहरापगवादिवाभणी ज्ञतावलोअवेक्के तिवारितेडेडकने  
अेणिकाराजाइ' एकघोडाने' बालके' जात्यवंतव्हेरे' डावेपगेकरीआक्रांतअथडाणोचंपाणोऊतोच्छतो निर्घातनक०पगने' प्रहारेकरी  
वाहिरनीकल्योछे अंतअंतआंतडोजेडेडकारु' एहवोकीघोऊअोतिवारिते डेडकोअथामसक्तिरहितथयो बलरहितथयोवीयंउद्यमर  
हितथयोपुरुषपाकारपरकमरहितथयो सर्वथावलहैंडवानोभागजीवितव्य धरवाभणीअसमर्थथयोछं' इमकहीने' एकांतअलगोजा  
इजइनेकरतलवेहं हाथजोडीतिणवारमाथाने' विषेआवर्त्तकारीमाथानेविषेअंजलीप्रतेकरीने' इणप्रकारे' कहतोहयोनमस्कारहोक्रुण

हंताणं भगवंताणं जावसंपत्ताणं णमोत्थुणं समणस्स भगवञ्चो महावीरस्स मम धम्माय रियस्स जावसंपावि  
 उकामंस्स पुब्बिंपिणं मएसमणस्स भगवञ्चो महावीरस्स जावसंपत्तेणं अंति एथूलगपाणा इवाएपच्चक्खाए  
 जावथूलएपरिगगहेपच्चक्खाए तं इथाणिं पितस्सेव अंति एसब्बं पाणा इवायं पच्चक्खामि जावसब्बं परिगगहं

भणीनथीसंसारमाहिरुहउगिवो जनमअवतारनोपामिवोजेहनें एहवाअरुहंतभणी भगवंतं ज्ञानवंतभणी तांलगिजासंपत्ताणं तां इ  
 संपूर्णपाठकहिंवोपाम्योक्के सोच्चजेणे एहवाअनंताअरिहंत तीर्थंकरदेवनीपदवीभोगवी सोच्चपडतातेअरिहंतसिद्धभणी नमस्कारउ  
 वोकीधोहिवेनमोलुणं श्रीमहावीरजीभणिकरेक्के अमणतपस्वीभगवंतं ज्ञानवंतभणी महावीरदेवभणी माहराधर्माचार्यभणी तांलगि  
 जापाठकहिंवो जासोच्चमुगतिपामिवाभणी कामअभिलाषवाक्खेजेहनें एहवाअमीमहावीरदेवभणी नमस्कारउवो पूर्विइं पणिसें अम  
 णभगवंतं श्रीमहावीरदेवनासमीपनेविषे थूलप्राणातिपात पचखोउं तोतांलगिजांथूलपरिग्रह पदंतपाचपचखोइं तां तेभणी हिवडां  
 पणिते श्रीमहावीरदेवनासमीपनेजविषे सर्वप्रणातिपातहं पचखुं छूं तांलगिजांसर्वप्राणातिपयंतपचखुं छूं सब्बं पाणा इवायं पच्चक्खा

यावद्धपएसि एत्तिप्रदेशबंधयेति अंतनिषाद् एत्तिनिर्घातितालः सन्नं पाणाद्द्वयार्थं पञ्चकखानि इत्यनेन यद्यपि सुखं ग्रहणं तथापि पितृ  
रच्चादेशविरतिरेव इहार्थगयेति तिरियाणं चारितं निवारियं अहयतोपुणोतेसिं सुखं इव ऊवाणं पि वलह्वयारोयणं समए१ नम  
ह्वयसस्वावेविचरणपरिणामसंभवोतेसिं नवऊगुणाणं पिजत्रोकेवलसंभूद्परिणामो२ इति इहयद्यपि सूत्रे उपनयो नोक्तस्तथाप्येवं द्रष्ट

पञ्चकखाएजावज्जीवाएसुखं असणं प्राणं खाइसंसाइसं पञ्चकखाएजावज्जीवाएजं पियइसंसीरं इडुं कंतं  
जावसाद्रुसंतुएयं पियणं चरिभेहिं ऊसासोहिं वोसिराभित्तिकहु, तएणंसेदहु, रेकालमासिकालं किञ्चा

मिइणेपदेशवशब्दनुं ग्रहणक्रीडुं छे तोहिपणितिरिजं चनेदेश विरतिजउदयत्रावेइहागायार कहेछे तिरियाणं चारितं नियारियं अ  
हयतोपुणो तेसिं सुखं इव हयाणं पिय मह्वयारोयणं समए१ नम ह्वयसस्वावेविचरण परिणामसंभवोतेसिं नवह्वं गुणाणं पिजत्रो  
केवलसंभूद्परिणामो२ जावजीवलगीप्राणातिपातजाव परिग्रहयंतपचखुंछुं सगलोअन्नपाणीखादिमखादिमपचखुंछुं एतलेअण  
सणउचस्यो जावजीवलगी चारआहारपचखुंछुं जेअशरीरवाहोइद्वसुभ कांतमनोरमण्डे आहारिकरीपोष्यो एहवाशरीरप्रते



जावसोहस्मे कप्रं दह, रवडिंसएविमाणे उववायसभाएदह, रदेवत्ताएउववणे एवंखलुगोयमादह, रेणं  
 देवेणंसादिव्वादेविष्ठीलद्वाइदह, रस्सणं भंतेदेवस्सकेवइयं कालं ठिईप्रसत्तागोयमाचत्तारिप्रलिओवमा  
 ईठिइप्रसत्तासेणंदह, रेदेवेआउक्खएणंभवक्खएणंठिईक्खएणंअणंतरं चयं चइत्तामहाविदेहेवासेसि

आधिअसुखफरसे इ मचींतवोएहवोएशरीर पणिचरमछेहल्या सासोसासनेविषे पणिवोसिरावु छाडुं परिहसं छुं इमकहीनेअण  
 सणकीधो तिवारपक्कीतेदुं रडेडको कालकारिवानामासनेविषे कालप्रतें करीने तांलगिजांसौधमांकल्प देवलोकनेविषे ददुं रअ  
 वंतसकविमाननेविषे उतपातउपजवानीसभानेविषे ददुं रनामादेवता पणेजपनो इण्येप्रकारेइं खलुनिचं हेगोतम ददुं रदेवताइं  
 तेदेवतासंबंधिनी प्रधानदेवतानी च्छद्विलहीछे संपूर्णपामीछे बलीगोतमपूछेभंतेहेभगवन् ददुं रदेवतानीकेतलाकालतानीथिति  
 कहीछेवलतुं भगवंतकहे हेगोतमचारपल्योपमनीआउखानीस्थिति पन्तताकहीछे सेतेददुं रदेयतादेवताना आउखानिच्चयकरीने  
 देवतानाभवनें चयकरीने देवतानाआउखानी थितिनें चयकरीनेंआंतरा रहितचयचवनकरीने अथवाचयशरीरकाडीने महर्षि

व्यः संपन्नगुणो विजयो सुसाहसं सग्निवज्जिओपायंपावद्गुणपरिहाणीदह् रजीवोव्वमणिया रीत्तिअथवा तित्ययरवंदणत्थंचलिओभावेण

चिक्कहिंतिवुज्जिक्कहिंतिजावअंतंकरिहिंति एवं खलुजंबूसमणेणं भगवयामहावीरेणं जावसंपत्तेणं ते रसम  
स्सणायज्जकयणस्सअथमद्दुपसुत्तेत्तिवेमि संपसुगुणो विजओ सुसाहसं सग्गवज्जिओपायंपावद्गुणपरि  
हाणिंदह् रजीवोव्वमणियारे ? अथवा तित्ययरवंदणत्थंचलिओभावेण पावएसग्गं जहदह् र देवेणंपत्तं वे

देहत्तेवनेविषे सीक्कस्ये सिद्धयास्येतां लगिजां अंतकरस्ये एवं इमपूर्वोक्तप्रकारे खलुनिश्चे हेजंबू अमणभगवंते श्रीमहावीरदेवे तेर  
मात्ताताअथयननोएअर्थकच्चो सुक्कप्रते जेहवुं श्रीमहावीरनामुखयकी अर्थसेधास्योक्खे तेहवोजतेहवोजअर्थतुक्कप्रते इमकडं छं खल  
मध्ये उपनयनी गाथानयीकहीतोहि वृत्तिमांहिलीउपनयनीगाथाकहेछेसंपन्नपास्याछे गुणसगलाजेणे एहवोकउपणिजेकारण  
यकी सुसाधुभलासाधुने गंसर्गेवर्जितरहितयको जीवपामेगुणनी हानिप्रते मणियारसेठि जिमडेडकानो जीवनीपरिअथवावली  
नंदमणियारसेठनो जीवडेडको तीर्थं करदेव श्रीमहावीरदेवने वांदिवाने अर्थे श्रीकस्योचाल्योभावेकरी मार्गे घोडानेपगे करीचंपाणे

पावएसगं जहददूदुरदेवेणंपत्तंवेमाणियसुरत्तंतित्रयोदशज्ञातविवरणंसमाप्तं १३ अथचतुर्दशज्ञातंवित्रियतेअस्यचावंपूर्वेणसहाभिसं  
बंधःपूर्वस्मिन्सतांगुणानांसामग्यभावेहानिरुक्ता इहतुतथाविधसामग्रीसङ्गावेगुणसंपदुपजायतइत्यभिधीयतेइत्येवंसंबंधमिदंसर्वसुगमं

माणियसुरत्तं२तेरसमंणायज्जयणंसमत्तं३जइणंभंतेसमणेणंभगवयामहावीरेणंजावसंपत्तेणंतेरसमस्य  
णायज्जयणस्य अयमडुपस्यत्तेचउदहसमस्सणंभंतेणायज्जयणस्यसमणेणंभगवयामहावीरेणं जावसंपत्तेणं

तिहां म्बुओयकोसर्गदेवलोकाप्रतेपास्यो जिमदुर्देवतांइंपास्यो वेमाणिकदेवतानेविषे सुरदेवतापणु एतलेज्जातानो तेरसोअध्य  
यनसंपूर्णययो हिवेचउदमोअध्ययननो ज्ञातानाअर्थकहीयेछे एधवदमाअध्ययननोतेरमाअध्ययनसंघाते एरुबंधतेरमाअध्ययनने  
विषेछता गुणानेगुणवंतानेसामग्रीनो अभावहृतोछतो गुणनीहानिकाही अने इहांचउदमाअध्ययननेविषे तेहवीयोग्यसामग्री  
नोसमभावहृतोछते गुणनीसंपदायाइ एरुबंधकहीयेछे जंबूखामिपूछेसुधर्माखामीप्रते जोहिभगवन्अमणे भगवंतेश्रीमहावीरदेवे  
तेरमाज्ञातानाअध्ययननोए अर्थकह्योतुहप्रते तेमे तुम्हारासुखयकीअर्थसंभल्योहिवे चउदमाज्ञातानाअध्ययननो असणभगवंत

की अट्टे पञ्चत्ते एवं खलुजंबू तीर्णं कालिणं तेषां समएणं तेषां लिपु रेणां यरे होत्या तस्सणं तेषां लिपु रस्सवहिद्या  
उत्तरपु रिच्छिमेदि सौभा एण्यणं प्रमथवणेणां भुज्जाणे होत्या तत्थणं तेषां लिपु रेणयरे कणगरहेणामं  
राया होत्या तस्सणं कणगरहस्सरथो पडमावइणामं देवी होत्या तस्सणं कणगरहस्सरथो तेषां लिपु उत्तेणा  
मं अमच्च होत्या सामंदासभेददंडे तत्थणं तेषां लिपु रेकाला देणामं मूसियारदार ए होत्या अट्टे जावअप

श्रीमहावीरदेवे कुणार्थकह्यो ते सुअप्रते कहोइमपूछ्यो हि वेसुधर्मां स्वात्मिकहे एवंइमअगलिकहीस्येति मखलुनिश्चेहेजंबू तेकालतेसमय  
नेविषे तेतलिपु रनामानगरहतीं तेततलिपु रनगरनेवाहिरउत्तरदिशिअनें पूरवदिशि विचाले एतलेइशानकूणिना भागनेविषेइहाप  
मदावननामा उद्यानवनखंडहती तिहांतेतलिपु रनगरनेविषे कनकपुरनामाराजाहंतो तेकनकरथराजाने पदमावतीनामापट  
रांणीहंती तेकनकरथराजाने तेतलिपु तनामाअमात्यप्रधानहं तो सामदासभेददंडएचिहं बो जाणछेतेप्रधानतिहां तेतलिपु रनग  
रनेविषेकलादानामे स्रषिकादारका सोनारनोपुलहं तो मोटो ऋद्धिवंतछे अणगिणी ऋद्धिनोधणीके तांलगिजांकोइपराभवीशकेनहीं

रिभूएतस्खणंमहाणमंभारियाहोत्या तस्खणंकलायस्समूसियारदारयस्स धूयाभद्दाएअत्तयापोहि  
लाणमंदारियाहोत्या रूवेणयजेवणेणय उक्किहाउक्किइसरीरा तएणंपोहिलादारिया अस्सयाक  
याइएहाया सव्वालंकारंविभूसिया चेडियाचक्कवालसद्धिंसंपरिउडा उप्पिंपासायवरगयाआगा  
सतलंगंसि कणगमएणं तिंदूसएणं कौलमाणौ विहरइइमंचणं तेयलियुत्ते अमच्चैएहाए आसखंध

एहवोछे तेकलादसोनारनें भद्रानामें भार्यास्त्रीहंती तेकलादम्बुषिकादारक सोनारनीपुत्रीविठी भद्रास्त्रीनीआलजअंगजातिछे  
पोटिलानामें दारिकापुत्रीहंतीरूपेकरी चौवनवथं करीउत्कृष्टीशरीरनी धणीआणीवणुं योग्यथइक्के तिवारपक्षीपोट्टिलादारिकावे  
टीएकदासमें नांहीअंधोलीपछेसगला आभरणअलंकारपहिरीकरी वणुं विभूषितसोभायमानथईछती चेटिकादासीअानासम्बह  
संधतेपरिवरीछती ऊपरप्रासादधरमांहिवरप्रधानरहीछती एतलें धरउपरलोपीटीणिनविषे रहीछतीआगासिभूमिकानेविषेसो  
नानें तिंदूसदडेकरीक्रीडाविनोदरमतीकरतीछती विचरेछेइमएतलें तेतल्लियुतप्रधानस्नानकरी अंधोलीवरप्रधानवोडानाखंधउप

वरगणमहथामडचडगरआसवाहणियाएणिज्जायमाणेकलायस्समूसियारदारस्यगिहसस्रद्रूरसामंतेण  
 बोईवयइतएणंतेयलिपुत्तेमूसियारदारगस्यगिहसस्रद्रूरसामंतेणवौइवयमाणेइप्रोडिलंदाखिंउपिंआ  
 गासतलंगंसिकणगमएणंतिंदूसएणंकीलमाणीपासइइत्तापोडिलाएदाखियाएरूवेणयजोव्वणेणयलावसे  
 णयजावअउक्तोववसेकोडुबियपुरिसेसइइत्ताएवंवयासीएसणं देवाणुप्पियाकस्सदारियाकिंणामधे

ररह्योवेठोच्छतो घणासुभटनासम्बहसहित अश्रुवाहनीकाकहतारिवाडीरसवाभणीघोडाखेलाविवाभणी मार्गं जातोच्छतोकलादानामे  
 सोनारनापुलना घरनेआगलिअतिघणुंवेगलुंनहींघणुं दु कडोनहींएहवोजाइक्केप्रधानतिवारितेतलिपुत्रप्रधानसोनारनापुलनाघर  
 नें आगलिवेगलोपणिनहीं दु कडोपणिनहींएहवेमारगे जातोच्छतोपोडिलावेटीप्रतें घरनीपाटणीजपरिरहीच्छतीआगासिभूमिनेवि  
 पेसोनाने दडेकारी क्रीडाकरतीच्छतीरमतीच्छतीप्रधानदेखेदेखीनेपोडिलापुत्रीने रूपेकरौवैवनवये करीउत्कष्टीशरीरे करीतालगि  
 जांअध्यवसाइजपनो पोडिलापुत्रीने जपरिरागजपनोच्छतोकोटुं बिकआदेशकारीपुरुषांप्रतें तेडावेतेडावीनेइरणेप्रकारं कहतोह्मओ

नवरंकलाएत्तिकलादोनान्नाम्बधिकारदारकइति पितृव्यपदेशेनेति अग्निं तरङ्गाणिज्जेति आग्नेतरनाम्नानित्यर्थः विचंगेदृत्तिय्यंग

ज्जातएणंकोडुं वियपुरिसेतेयलिपुत्तं एवंवयासौ एसणं सामीकलायस्समूसियारस्सद्धदाभहाएअत्त  
यापोहिल्लाणमंदारियाखूवेणयजविसरीरातएणंसेतेयलिपुत्ते आसवाहणियाओपिडिणियत्ते समाणे  
अग्निं तरङ्गाणिज्जेपुरिसेसहवेइत्ताएवंवयासौ गच्छहणं तुभेदेवाणुप्पियाक्कलायस्समूसियारस्सधू

हे देवानुप्रियोकेहनीपुत्रीच्छेसुं नामधेयच्छेनामलेवायोग्यस्युच्छेएपुत्रीनुं इमपच्छोज्जेनें तिवारितेआदेशकारीपुत्रघतेतलियुत्तप्रधानप्रते  
इमकहताह्वाएस्वामीकलादनामासोनारनीवेटीभाद्रानामाभार्यानीआलजापुत्रीच्छेपोहिल्लानामादारिकापुत्रीच्छेतेरूपेकरीचौवन  
वयें करीलावयतेगुणेकरीचणुं उत्कृष्टायरीरनी घणीआणीथईच्छेतिवारयच्छीतेतलियुत्तप्रधानअस्ववाहनिकाक०रेवाडीघोडानोदो  
डाविबुं चोगानमाहिजईतेरेवाडीयक्रीपाच्छेवल्योच्छतोअग्निं तरवर्ती मांहिलासेवकपुत्रघांप्रतेतेडावेतेडावीनेइमकहतोडुओजाओ  
तुह्णे हे देवानुप्रियो कलादनामासोनारनीधूयापुत्रीभद्रानामाभार्यानीआत्मजाअंगजातिपोहिल्लानामादारिकापुत्रीप्रतेसाहरेका

यंभद्वाएअत्तयंपोडिलं दारिचं समभारियत्ताएवरेह तएणंतेअभिभंतरट्ठाणिल्लजा पुरिसातेयलिणा  
 एवंवुत्तासमाणाहट्टुडुडुक्कयलतहत्तिजेणवक्कलायस्समूसियारस्सगिहेतेणेवुवागयातएणंसेकलाएम्भू  
 सियतेयलिपुत्तेपुरिसे एल्लमाणेपासइत्ता हट्टुडुडुआसणाओ अम्भूइइत्ता सत्तट्टुप्रयाइं अणु  
 गच्छइत्ता आसणेणं लुवणिसंते इआसत्ये वीसत्येसुहासणवरगए अभिभंतरट्ठाणिल्लजे पुरिसेएवं  
 वयासीसंदिस हणंदेवाणुप्पिया किमागमणप्पओयणं तएणंतेअभिभंतरट्ठाणिल्लजा कलायंमूसियंएवं

जेभार्यीपणेवरलागोयाचोइमकच्चुंतिवारि तेअभिं तरवत्तीपोतानामाहिलासेवक तेतलिप्रधाने इण्णेप्रकारे कच्चाहताहर्षसंतोषपा  
 स्याहतावेहायजोडीतहत्तिकरीनें तिहायकीनीकलीनें जिहाकलादनामासोनारनोषरच्छेतिहाआव्यातेअब्धिं तरस्थानीयसेवकति  
 वारितेकलादंसोनारनोपुलतेतलिपुत्रप्रधाननापुरुषाप्रतें आवताहतादेखेदेखीनेहर्षसंतोषपाभ्योहत्तोआसणवेसणायकीजठेजठी  
 नेसातआठपगसाहसोआवेआवीने आसणवेसणानेदेवेकरीनिमंतणानेतिहावेसेसाखतोधाइअसाखतोथाइवीसामोलीयेसुखा





रङ्गाणिज्जेपुरिसेएवंवयासीएसचेवदेवाणुप्रियाममसुक्केजसुं तैयलिपुत्ते ममदारियाणिमित्तेणंअणु  
 ष्णहंकरिंतितेअभिभंतरङ्गाणिज्जेपुरिसेविपुलेणंअसणंपाणंखाइमंसाइमं पुष्पवत्यजावमह्णालंकारेणं  
 सक्कारेइसम्माणेइपडिविसज्जे इतएणंकलायस्सभू सिथारदारस्सगिहाओपडिणिकखमइजेणेवतेयलिपु  
 त्तेअमच्चैतेणेवउवागच्छइत्ता तैयलिपुत्तंअमच्चंएयमङ्गुणिवेइतितएणंकलाएमूसिएअस्यथाकथाइं

पापनेंइसकहतोहओएहिजचेवनिचेसहितहे देवानुप्रियोमममाहरेसुकद्रव्यमूल्यजाणुं कुं जेतेतलिपुतप्रधानमाहरीवेटीनिमत्तेअनु  
 ग्रहंप्रतें करेकेइसकहीनें तेअभिं तरमध्यवर्त्तीस्थानीयपुरुषाप्रतें विपुलघणुं अन्नपाणीखादिमस्वादिमफूलफलवस्तमालाभणीहितका  
 री फूलमालाअलंकारआभरणदेइकरीसत्कारेवह्णमानदेइघणुआदरदेइघणुं मानीकरीविसर्जेमोकलेजाओपुन्हे अन्हे पुत्तीपरिणा  
 वस्युंतिवारपच्छीकलादानामासोनारनापुत्तनाघरथकीनीसरें नीसरीनें जिहातेतलिपुत्तप्रधानतिहाआव्यातिहाआवीनें तेतलिपुत्तअ  
 मात्यप्रधानप्रतें एपूर्वोक्तार्थकहेजेकन्याप्रतें परिणावस्येइसकहेतिवारपच्छीकलादानामासोनारनोपुत्तएकदाप्रस्ताविइं शोभनमसीति

सो हणं सतिहकरणश्रुत्तमुज्जत्तंसिपोहिलं दारियं गहायं सव्वालं कारविमूसियं सीयं दुग्गहइरत्तामि  
 त्ताणइसद्धिं संपरिवुडेसाओगिहाओपडिणक्खमइरत्ता सव्विहीएजावरवेणं तेयलिपुरंणयरंमउभं  
 मउभेणंजेणेवतेयलिस्सगिहे तेणेवउवागच्छइरत्ता पोहिलं दारियं तेयलिपुत्तस्स अमच्चस्स सयनेवभा  
 रियत्ताएदलयइ तएणंतेयलिपुत्तेपोहिलं दारियं भारियत्ताए उवणैयंपासइरत्ता हइतुडेपोहिलाए

यिजोइभलो नत्तभलुं सुइत्तंजोइतेदिवसने विषेपोहिलानामाविटोप्रते स्नानअंवलिकारावो सगलाआभरणअलंकारपहिरावीषणुं  
 सोभायमानकरी पोहिलाप्रतेशिविकापालखीप्रतेचढावेचढावीनेबेसारीनेमित्तज्ञातिप्रमुखसगलापरिवारसंवातें परिवह्योच्छतोपोता  
 नाघरयकीनीसरेनीसरीने सगलीअद्विसगलामहोत्वयसहितभेरीभंभादिनामाढोल्पं चशब्दातेहनाशब्दनिर्घोषनेसब्दकरीतेतलिपुर  
 नगरमांहियईने जिहातेतलिपुत्तप्रधाननोषरंछेतिहाआवेआवीनेपोहिलानामापुलीप्रतेतेतलिपुत्तप्रधाननेपोतेजआपणपेभार्याप  
 णेस्त्रीपणेदलयतिआपेपरिणावेकलादसोनारतिवारितेतलिपुत्तप्रधानपोहिलाकुमरीप्रते भार्यापणेस्त्रीपणेआणीआपीआवीप्रतेदेखे

सद्धिं पट्टयंदुरुहइश्ता सेवपीएहिंकलसेहिं अष्पाणंसज्जविइश्ता अग्निहोमंकारिंतिपाणिग्गह  
 णंकारिंतिपोट्टिलाएभारियाएसद्धिं मित्तणाइजावपरियणंविपुलेणं असणंपाणं खाइमंसइसेएपुए  
 जावप्रडिसज्जाइ तएणंसितेयलिपुत्तेपोट्टिलाए भारियाएअणुरत्ते अविरत्ते उरालाइ' भोगभोगाइ'  
 जावविहरइ तएणंसिक्खणवरहेराया रज्जेयरइ यवलेयवाहयेय कोसिकोटागारेय अंतैउरेयभुच्छि

देखीनेहर्षसंतोषपाच्योपोट्टिलाने संघाते पाटिलाजपरवेसेवसीनेस्वेतरूपानाघोलाकलसपीतसोवानाकलसतेणेकरीपीतानाआत्मा  
 प्रते आपणपेमज्जनअलंकारावेकरावीनेअग्निहोमकरावेकरावीनेपाणीग्रहणप्रते करेकरीनेपोट्टिलाभार्यासंघातेप्रधानतेतखिपत्वमित्त  
 ज्ञातिप्रमुखपरिजनदासदासीपयंतप्रते अखनपांनखादिसखादिसचारप्रकारगोआहारभोजनकरावीघणुं सत्कारीने सत्त्वानीने घ  
 णाफलफलत्रखअलंकारआपीकरीविषज्जेभोक्कलेआज्ञाआपेसगलानेतिवारितेतखिपुत्रप्रधानपोट्टिलाजासाभार्यास्त्रीनेविषेअणुरत्तघ  
 णुं रागीच्छितोअविरत्तघणुं सनेहसरागच्छतोनिरतरपोट्टिलास्त्रीसंघातेउदारप्रधानकारियासमुत्थने भोगविवाचोगएहवाभोगप्रते भोग

ए४ जाए पुत्ते विचंगेइ अप्पे गइयाणं हत्थं गुलियाइं च्छिं दंति अप्पे गइयाणं हत्थे अंगुट्टएणं च्छिं दंति  
अप्पे गइयाणं प्रायं गुलियाओ च्छिं दंति एवं प्राए गुट्टएणं वि एवं कम्मसकुल्लि एणं वि एवं गणासापुडाइं फालिं  
ति एवं अंगअंगाइं विचंगेइ तएणं तीसेपुत्तमावइं ए देवीए अस्सयाकथाइं पुव्वरत्तावरत्तकालसमयं सि

वितोच्छतो विचरेहेक्के तिवारपच्छीकनकरथराजाराज्यने विषे राष्ट्र देशने विषे वलकटकने विषे वेसरथयानपालखीषोडाहाथीने विषे को  
शभंडारने विषे धाननाकोठारने विषे अंतरे चरणी अने विषे सूच्छीपामीरह्योर राजाघणुं लोभीययोच्छतो पुलवेटा अवेत्ते प्रते विचंगयं  
क० कांजनाकहाथादिशरीरना अंग प्रते विगतरहितकरेहेके केतला एकपुत्तानी हाथनी अंगुली प्रते हेकेकापे केतला एकपुत्तानी हाथ  
ना अंगुठा प्रते हेकेकापे केतला एकपुत्तानी अंगुली प्रते हेकेइणं प्रकांरिके तला एकवेटांना पगं ना अंगुठा प्रते हेके इणं प्रका  
रे कांजनी शाकुली कापे कानछूटाकरे केतला एकवेटांना केतला एकवेटांना कनापुडफोडे इमपुर्वोक्त प्रकारे इमकेतला एकवेटांना अं  
गोपांग प्रते हेके देवुकशानकरे तिवारपच्छीते पद्मावती रांणीने एकदा प्रस्त्रावे मध्यरातिना समयने विषे एहवोमनमाहि अथ्यवशायमन

यतिविगतकर्णनासाहस्ताद्यङ्गान्करोतीत्यर्थः वियगेइत्तिविह्वं ततिह्विनतीत्यर्थः संरक्वमाणीयंति संरक्षंत्या आपदः संगोपयंत्याः प्र

ज्ञा०ठी०

१०७७

चल

भापा

अयमेयाह्वेअज्झत्थिएचिंति एमणोगएसंकप्पे सुसुप्पज्जित्थाएवंखलुकणगरहेरायारज्जेयजावपुत्ते  
वियंगेइजावअङ्गसंगाइ वियंगेइत्तंजईणं अहंदायंपयायामितंसेयंखलुमभंतंदारंगंकाणगरहस्सरहस्सि  
यंचेवसंरक्वमाणी एसंगोविमाणीएविहरित्तएत्तिकइ, एवंसंपेहेइत्तातेयलिपुत्तंअमच्चंसहविइत्ता

साहिरत्थं, संकल्पविकल्पजपजे इणपरिखलुनिच्चे कनकरथराजा राज्यप्रमुखनेविषेसूछांपांस्योच्छतोलोभाणोच्छतो पुत्रवेटानाहाथप  
गअगुलीच्छेदे तांलगीजाकेतलाएकवेटानाअंगोपागप्रते' छेदेच्छेकापेच्छेराज्यपामेतेमाटे तेकारणथकीजाऊं दारकवेटाप्रते' इणी  
वारजणोतोअयभलंसुक्कने' तेवालकप्रतेकनकरथराजायकी रहस्सिकछांनोकोइजजाणेतिमचेवनिच्चयभलीपरिराखतीछतीआपदाय  
कीभलीपरिगोपवतीछतीढाकवायकी, विचरुं प्रवतुं इमकरीने इणंप्रकारे' विचारेविचारीने तेतलिपुत्रप्रधानप्रते' तेडावेतेडावी  
नेइमकहतीऊइ इमपूर्विंलीपरिनिच्चे हेदेवासुप्रिय कनकरथराजाराज्यनेविषे सूछांणोलोभीयोच्छतोपुत्रांने नुकसानकरेच्छेराज्यथ

एवंवयासीएवंखलुदेवा कणगरहेराथारज्जेय जाववियंगेद्रतंजइणं अहंदेवाणुप्पियादारयंपयाया  
 मितएणंतुमंकरणरहस्सुरहस्सिययंचेव अणुपुब्बेणंसंरक्वमाणे संगोवेमाणेसंवड्डुहि तएणंसेदारएउ  
 सुक्कवालभावेजाव जोव्वणगमणुप्पत्ते तवममभिक्खामायणेभविस्सइ तएणंसेतेयलियुत्ते पडमावई  
 एदेवीएएयमड्डंपडिसुणेइत्ता पडिगएतएणंपडमावइदेवीपोट्टिलायअमच्चीसममेवगभंमंपरिवहंति

कीअथोग्यकरेत्ते तेकारणथकीजोऊं इणीवारहेदेवानुप्रिय वेटाप्रतेजणंप्रसवुंतेकारणथकीतुं कनकरथराजाथकी रहस्सिकच्छांसुं  
 चेवनिच्चे अनुक्रमेभलीपरिराखतो आपदाथकीभलीपरिगोपवतोच्छतो ढांकीराखिवाथकी वड्डपमाडस्येवधारस्ये तोतेपुलबालपणा  
 नीभावसूक्खोच्छतो तालगीजांयोवनवयप्रतेपाम्भ्याच्छतो तवसुभनेममसुभनेभिक्खामायणेक० भिक्खानापात्रसरिखोहोस्ये तोआप  
 णनेभिख्यानीपरिनिर्वाहनोकरणहारो इमकच्छुंतिवारितेतेतलिपुत्रप्रधान पदमावतीराणीनुं कइणपूब्बं कच्छुंतेवचनप्रते अंगी  
 कारकरेअंगीकारकरीहंभणीनेपोतानेघरेगयोप्रधानतिवारपच्छीपदमावतीराणीअनेपोट्टिलाअमात्यनीप्रधाननीस्त्रीवेड्डं समका

समसेवगर्भंपरिवृष्टुंति तएणंसापउमावईदेवीणवरहंमासाणंजावपियदंरुणंसुखवंदारयंपथायाजंर  
यणिंचणं पउमावईदेवी दारयंपथायातंचेवरयणिं पोट्टिलाअभञ्जीणवरहं मासाणंविणिहायमावणं  
दारियंपथायातएणं सापउमावईदेवी अम्मधाइं सहावेइरत्ता एवंवथासीगच्छहणंतुसंदेवाणंप्पिया  
अंबोतेयलिपुत्तंरहस्सिययं चेवसहावेहितएणंसाअम्मधाइं तहतिएयमइं पडिसुणेत्ति अंतैउरस्सअ

लिसंवाते'जगर्भप्रते'बहेधरे वेळुं'समकालिइ'जगर्भप्रते' वधारिइद्विपमाडेनिवारपच्छी तेपदमावतीराणीनवमासजपरि साढासा  
तदिवसगयेच्छते' प्रियवस्त्रभदर्शनच्छे जेहनुंसुखरूपभलोरूपवंत एहवुंदारकपुत्रप्रते जण्योप्रसथो जेराविनेविषेपञ्जावतीरांणी पुत्रप्रते  
जण्योतेहिजराविनेविषे पोट्टिलाप्रधाननीस्त्रीनवमासपूराकरीवेटीप्रतेप्रसवेजणेतिवारपच्छीतेपदमावतीरांणी धायप्रते'तेडावेतेडा  
वीनेइमकहतीहई जाओतुं'हे देवावुप्रियतुं'हेअंवेहेमात तेतलिपुत्रप्रते'रहस्सिककळानोचेवनिश्चेतेडीआवीइमकह्यं तिवारितेअम्म  
धायतहत्तिकरीएरांणीनावचनप्रते' अंगीकारकरेकरीनेअंतेउररहिवाना घरमाहिलीवारिकरीकळानी नीसरेनीसरीने जिहांतित



वहारेणं गिगच्छ इत्ता जेणेव ते यलिस्स गिहे जेणेव ते यलिपुत्त तेणेव उवागच्छ इत्ता करयलजाव एवं व  
यासी एवं खलु भो देवाणुप्पिया पडमावई देवीसहा वेइत एणं ते यलिपुत्त अस्स धा इ एणय मङ्क सोच्चा हइ तु डे  
अस्स धा इ एसद्धिं साओ गिहाओ गिगच्छ इत्ता अंते उरस्स अत्रव हारेणं रहस्सिययं चैव अणुप्पविसइ जे  
णेव पडमावई देवी तेणेव उवागच्छ इत्ता करयल एवं वयासी संदिं सहणं देवाणुप्पिए जंम एकाय व्वं त  
एणं पडमावई देवी ते यलिपुत्त अमच्च एवं वयासी एवं खलु कणगरहेराया जाव वियं गेइ अहं चणं देवाणु

लिपुल प्रधाननोषरके जिहांते तलिप्रधानके तिहांआवीआवीने वेहाय जोडी करी इमकहती ऊइ इणं प्रकारे खलु निच्चे भो देवा बुप्रियप  
झावती देवी तुम्हने तेडावे छेऊं तेडवाआवीकुं तिवारिते तलिपुल प्रधान अस्स धायना मुखकी एअर्थप्रतें साभलीने हर्षसंतोषपास्योच्छतो  
अस्स धायसंघाते पोताना धरथकी नीसरे नीसरीने अंतःपुर रहिवाना धरने पाछलिइ वारणे वारीइ करी रहस्सिककांनोकोई नजाणेति  
मअंतःपुरमाहिप्रवेश करीने जिहांपझावती देवी तिहांआवेआवीने वेहाय जोडी इमपूछतोऊओ आदेशद्वीकहोहे देवा बुप्रिये जेमे का

च्छादनतः भिक्खाभायशोत्तिभिच्चाभाजनमिव भिच्चाभाजनंतदस्त्राकं भिक्खोरिवनिर्वीहकारणमित्यर्थः पढमाणपोरिसीएसच्चायमि

प्रियादारगंपयायातुमंचणं देवाणुप्रियातदारगं गिणहहाहिजावतवसमभिक्खाभायणे भविस्सइत्तिकड,  
तेयलिपुत्तस्सहत्थेदल्यइतएणंतेयलिपुत्ते षडमावइएदेवीएहत्थाओ दारगं गिणहइउत्तरिज्जेणंपिहइ  
अंतैउरस्सरहस्सिययं अवाद्दारेणं गिणहइत्ताजेणवसएगिह्जेणेवपोट्टिलाभारियातिणेवउवागच्छ

मकारिवुं ऊईतेकहो तिवारिपदमावतीदेवी तेतलिपुत्तप्रधानप्रते' इमकहतीऊइइणीपरिंनिच्चं कनकरथराजाराज्यनेविषे लोभीयो  
छतोविटानाहायपगनाकप्रसुखअंगोपागप्रते' सुकसानकरेछेदेछेहंपिण हेदेवातुप्रियपुत्तप्रते' प्रसव्योजण्योछे तुं हेदेवानुप्रियतेपुत्त  
प्रते' ग्रहेल्ये तालगिजांताहरेअने' माहरे' भिख्यानाभाजनपात्सरिखो पात्तहोस्ये इमकहिने तेतलिपुत्तप्रधाननाहायनेविषेदीये  
आपेतिवारपच्छीतेतलिपुत्तप्रधान पदमावतीदेवीनाहायथकी बालकप्रते' ग्रहेलीयेलेईने उत्तरीयवस्त्रऊपरिओटावनं वस्त्रकरीढांके  
ढांकीनेअंतैउरमाहिथकी रहस्सिक्खांनोषरपाच्छलीवारिकरी नीसरेनीसरीनेजिहांपोतानोषरछे जिहांपोट्टिलाभार्याच्छेतिहांलेइ

इत्तापोद्विलं च एवं वयासी एवं खलु देवाणुष्मिथा कणगरहेराथारज्जे यजावविद्यं गेद्रु अयं चणंदार एकण  
गरहसपुत्ते पडमावइए देवीए अत्तएतस्सं तुमं देवाणुष्मि एइ संदारं गं कणगरहसरहस्सियं च वअणुपुल्ले  
णंसं रक्खाहि यसंगोवाहि य संवडु हि यतएणं एसदारए उम्मुक्कवालभा वितवयरु मयपडमाई एयअहारे  
भविस्सइत्तिकडु, पोद्विलाएपासे णिक्खवइत्तापोद्विलाओपासाओतं विण्हियायमावस्सियं दारियं गिरह

आवेल्लेईआबीने वलीपोद्विलाखीप्रते' तेतलिपुल्लइमकहत्तोऊओ इणपरिनिच्चे हे देवानुप्रिये कनकरथराजाराज्यनेविषे लोभीयो  
कतोवेठाने तुकसानकरेछे अंगोपागच्छे देछे तेकारणथकीआवालक कनकरथराजानोपलच्छे पदमावतीराणीनोआलजअंगजातच्छेते  
कारणथकीतुं हे देवानुप्रिये एप्रत्यक्षवालप्रते' कनकरथराजा थकीछानोकोइनजाणेतिम अनुक्रमे' करी भलीपरिराखतीआपदायकी  
भ, लिपरिगोपविराखि ढाकिराखवायकीभलीपरितुं वधारि मोटोकरितिवारिएवालक बालकभावम्भं कीयोवनवयपाब्धो क्ततो ताहरे  
साहरेअनेपदमावतीराणीने आधारहोस्ये इमकहोने पोद्विलानेपासे थापेम्भं केप्रधान अने पोद्विलानापासासमीपथकी दारिकाप,

इउत्तरिज्जे णंपिहेइइत्ता अं तेउरस्स अवहारेणं अणुप्पविसइइत्ता जेणवपउमावई देवीतिणेवउवागच्छ  
 इइत्ता पउमावईएदेवौए पासेइइवेइजावपडिग्गएतएणं तीसेपउमावइएदेवौए अं गपडियारियाओ  
 पउमावईदेविंविस्सिहायमावणियं चदारियंपासइइत्ता जेणवकणगरहेरायाकरयलएवंवयासीए  
 वंखलुसामीपउमावइ एमस्सियंदारियंपयाया तएणं कणगरहेरायातीसिमं ह्लेयाएदारियाएणौहरणं

तीप्रतें ग्रहेग्रहीनेलेइने ओठवानेखगडे करीढाकेढाकीने अं तेउररहिवानावरनेपाच्छलिकारणेकरीएतलेवारीयईनेप्रवेशकरेप्रवेशक  
 रीनेजिहापदमावतीदेवी तिहालेइआवेलेइआवीने तेवेटीपदमावतीदेवीने पासें थापंपासें थापीने तेतलिपुत्रप्रधानं तिमजपाच्छेव  
 लीगयोतिवारपच्छीतेपदमावतीराणीनी अंगप्रतिचारिकादासीओ पदमावतीराणीप्रतें पूरेमासेगर्भवतीमरीदारिका पुतीजणी  
 प्रतें देखेदेखीने जिहाकनकरयराजविठेके तिहांआवीनेहाइजोडीने इमकहतीऊईओइमपूर्वोक्तप्रकारिं निचेहेस्वामीपदमावती  
 राणीनेमूईवेटीप्रतें जणीके तिवारिकनकरयराजातेमूई वेटीनोनीहरणप्रतें करे मसाणेलेइजाइ घणालौकिकमं अनानाकार्यकरे

करे तिनहूँ लोइयाइं मयकिच्चाइं करेइरत्ताकालिणंविगयसोएजायातएणंसेतेयलिपुत्ते कल्लंकोडुं  
 विथपुरिसेसहविइरत्ता एवंवयसौखिप्पासेवचारगसालाएसोहणं करेहजावट्टिइवडियाजमहाणंअं  
 म्हेएसदारएकणगरहसरज्जे जाएतंहोऊणंदारए णामेणंकरणउक्कएजावअलंभोगसम्मत्थेजाएतएणं

करीनेकालप्रस्ताविंकेतलाएकदिनगयां पच्छीसोकरह्चितथयोतिवारपच्छीति तेतलिपुत्रप्रधानकालिप्रभाति आदेशकारीपरुषाप्रते ते  
 डावेतेडावीनेइमकहतोहूअओदेवानुप्रियाओतुम्हे खिप्पच्चिप्रउं तावलाजचारगंतीखानावंदीवानरह्चिवानोघरआवासप्रते शोध  
 नकरोएतलेवंदीखानोसूंको नगरसिणगारोदसदिवसनीस्थितिपतितताकरो जन्ममहोत्वकरोजन्ममहोत्वकरीने इग्यारमेदिवसि  
 अशुचिकर्मटाले पवितथाई वारमादिवसनेविषमितज्ञातिप्रमुखसगलुं कुटं षमेलीजिमाडीनेइमकहेजेकारणथकीअम्हारिएपुलवाल  
 ककनकरथराजानाराज्यनेविषे जण्योच्छेतेकारणथकीतुम्हारीसाखिकरीहओथावो एवालकनामकनकध्वजएतलेपुलनुं नामकनकध्व  
 जदीषोअनुक्रमे मोटोथयो भण्योवहुतरिकलापुरुषनी चोसट्टिकलास्त्रीनीतेहनोजाणथयो अलंसंपूर्णभोगभोगविवानेविषे समर्थथयो

सापोद्विलाअस्ययाकयाइंतेयलिपुत्तस्य अमच्चस्य अरिद्राधु जायायाविहोत्थाणेच्छइणंतेयलिपुत्तत्रम  
 च्चेपोद्विलाएणाभगोयमविसवणयाए किंपुणदरिसणंवापरिभोगंवातएणंतौसेपोद्विलाएअस्ययाकया  
 इंपुव्वएत्तावरत्तकालसमयंसिइसेयाखुवे अज्झत्थिएचिंतिएपत्थिएसणोगएंसंकथ्येससुप्पज्जित्थाएवं  
 खलुअहंतेयलिपुत्तस्य अमच्चस्यपुब्बिंइद्राधुआसिइयाणिंअरिद्राधु जायाजावणेच्छइतेयलिपुत्तत्रमच्चे

तिवारपच्छीतेपोद्विलास्त्रीएकदासले तेतलिपुत्तप्रधाननेअनिटअलखामणीअप्रियअणवाल्हीयातीहूई तेतलिप्रधानपोद्विलानोनोनाम  
 गोत्तअणसाभलित्तेकरीएतलेपोद्विलानोनामगोत्तसाभलेपणिनहींपोद्विलानानामगोत्तनीवातपणिसांभलेनहींतोवलीदेखिवाहुंसुं  
 एतलेसर्वथापोद्विलासाहसुजोइइनहींतोभोगविवोकिहाथीएतलेसर्वथाप्रधानेच्छाडी तिवारपच्छीतेपोद्विलानेएकदासलेसधरा  
 तिनका.लनासमयनेविपेएहवोसनमाहिअध्यवसायसंकल्पविकल्पऊपजेइसपूर्वोक्तप्रकारिखलुनिचेहुं तेतलिपुत्तप्रधाननेपूर्वेइष्टवत्त  
 भवावहीहुंती अनेहिंविडाअनिटअलखामणी यईकुंतालगीजाइच्छेनहींवाच्छेनहींतेतलिपुत्तप्रधानमाहरोनामपणिपूछेनहींसुअसा

समणामंजावपरिभोगंवाउहयमणसंकप्राजावज्जियायइतएणं तेयलिपुत्ते अमञ्चेपोट्टिलं उहयमण  
 संकप्यंजावज्जियायमाणंपासइत्तं, पोट्टिलं एवंवयासीमाणं तुमं देवाणुप्पिएउहयमणसंकप्ये तुमंसम  
 हाणसंसि विपुलं असणंप्राणंखाइरुं साइरुं उवक्खडविहिइत्तावज्जणं समाहणजाववणीमगाणं दे

इसुं पणि देखेनहीं तोसुअसंघातेभोगकिहाथी वारंवारभोगवेज्जपनोछेसनमाहिंसंकल्पमननोमनोरथहणारोछे एहवीछतीपोट्टिला  
 आर्त्तरीद्रध्यानमनमां असुखअसाताध्याइछे तिवारितेतलिपुत्रप्रधान पोट्टिलास्त्रीप्रते उपनोछे निवत्थींछेहणारोछेसननोउत्तमसं  
 कल्प मनमाहिंसंकल्पविकल्पकरती भूमिसाहसुं जोतीगलहत्यो देइवेठी आमणीइमणीअसाताकरती आर्त्तरीद्रध्यानचिंततीछतीप्र  
 ते देखेदेखीने पोट्टिलाप्रते तेतेतलिपुत्रप्रधान इमकहतोहुओमानिषेधे हे देवानुप्रियेपोट्टिलेत्तुं मनमाहिंसंकल्पविकल्पमकरिआ  
 र्त्तध्यानचैतविमात्तुं माहराशत्रूकारमाहरादान देवानाघरने विषे विपुलवणू अन्नपांणीखादिमखादिमनीइजाविजे घणांअन्नादि  
 राधीकरीने घणाअमणसन्यासीतापससोपीमाहणवात्तणतालगीजांवनीमगराक भिखारीएहवानेआहारपांणीखादिमखादिमदे

यमाणीयदेवाणि यविहरिहतएणंसापोद्विलातेयलिपुत्तेणंअमच्चंणंएवंनुत्तासामारीहःतुड्ढाते  
 यलिपुत्तस्सअमच्चस्सएयमइं सभंमपडिसुणेइंत्ताकल्लुक्कसिंमहाणसंसि विपुलं असणं प्राणं खाइमंसाराइमं  
 जावदवावेसाणीयविहरइ तेणं कालेणंतेणं समएणं सुव्वयाओ णामंअज्जियाओ इरिया रुद्धियाओ जा  
 वगुत्तवंभयारीणीओ बडुस्सुयाओ वडुपरिवाराओ शुव्वयागु पुव्विजेणंसेवतेयलिपुत्तेणं अरतेणं वडवाग

तीच्छतीपोतेअनेरापासेदेवरावतीच्छती विचरजेरहिजेअसाताकाईवेवेच्छेतिवारितेपोद्विलाखी तेतलिपुत्तप्रधानने इमपूव्विलीपरिक  
 हिच्छती हर्पसंतोषपामीच्छतीतेतलिपुत्त प्रधाननोक्कहणएपूर्वोक्कअर्द्धप्रयोजन दिनदिनप्रते सत्कारदानदेवानाधरने विषे विपुलघ  
 णुंअन्नादिआहार नीपनावीराधीने योगी संन्यासीपंधीलोकाब्राह्मणराक अनाथसगलाने देतीच्छतीवीजापासेदिवरावतीच्छतीविच  
 रच्छेतेकालतेसमचने विषे सुव्रतानामाआर्यिकासाध्वी ईसासमितिभाषासमितिरेखणासमितिश्चिन्नेखवणासमितिः पाचसमिति  
 त्तिणिगुप्तिपालतीतालगिजागुप्तगोपब्युच्छेत्तव्रह्मचर्यव्रह्मचारिणीस्त्रीवज्जुताच्छेवणासिद्धातशास्त्रनीभण्णहारीच्छेवणापरिवारंसहित



त्यादीयावत्करणादिदं द्रष्टव्यं वीयाएपोरिसीएभाणं क्षियाइं तइयाएपोरिसीएअतुरियमचवलमसंभंतेसुहपोत्तियं पडिलेहेइभायण  
 वयाणोपडिलेहेइभायणाणपमज्जइभायणाणिलगगाहेइ जेणेवसुव्वयाओअज्जाओतेणेवउवागच्छइसुव्वयाओअज्जाओवंदइनअंभइ  
 रत्ताएवंवयासीइच्छामोणं तुभे हिंअभणुणाए तेयलिपुरेउच्चनोयमज्जिमाइं कुलाइं घरससुयाणस्सभिक्षायरियाएअडित्तएअहासु

च्छइइत्ता अहापडिखूंउवगंहंउगिरिहत्ता संजसेणंतवसा अप्पाणंभविमाणीओविहरंति तएणं  
 तासिंसुव्वयाणंअज्जाणं एगेसंघाडएपटमाएपोरिसीए सउत्तायंकरेइ जावअडमाणीओतेयलिस्स

धणीशिथणीयांसहित पूर्वानुपूर्वीइअनुकमे विहारकरतीच्छती जिहातेतलिपुरनगरच्छे तिहाअवैआवीने यथायोग्यसाधुनें रहिवा  
 योग्यप्रतिरूप एहवाअवग्रहप्रते वनमांहि लेईनें मांगीने संयमेतेंपंकारी पौतानाआलाप्रते भावतीच्छतीओविचरेच्छेरहेच्छे तिवारिते  
 सुव्रतासाधवीयांनो एकसंघाडोदोसाधवीनोएकसंघाडो प्रथमपडिलीउवाडापोरिसिनेंविषे सिच्चायकरेविजीपोरसीनेविषंध्यानकरे  
 तीजीपोरसिनें विषे पात्तापडिलेइनेंगुरणीनीसीखलेइनें तेतलिपुरनगरनेंविषे जच्चनीचमध्यमकुलभिखानाघरानोससुदानटोलो

हं देवाणु प्यियासापडिबंभंकरे हतएणंताओअज्जाओसुव्वयाहिंअज्जाहिंअभणुसाओसमाणीओ सुव्वयाणंअज्जाणंअंतियाओपडिनि  
 कखमइरत्ताअतुरियमचवलमसंभताएगईएजुगंतरपलयणाएदिहीएपुरओरियंओहेमाणीओतेयलिपुरेणथरेउच्चनीयमज्जिमाइं कु  
 लाइंघरससुदाणस्सभिक्षायरियं अडमाणीउत्तितवग्गहेषुससुदानंभिक्षाग्गहससुदानंतस्सैग्गहससुदानायभिक्षाचर्धंभिक्षानिमित्तं

गिहंअणुपविट्ठाओतएणंसामोद्विलाताओअज्जाओएज्जमाणीओपासइरत्ताहट्टुडाआसणाओअभभूइ  
 इरत्तावंदइणमंसइरत्ता विपुलेणंअसणंप्राणं खाइमंसाइमंपडिलाभिइरत्ताएवंदयासोएवंखलुअहंअ  
 ज्जाओतेयलिपुत्तस्सं अमच्चस्सपुब्बिंइट्ठापु आसिइयाणिंअण्णिड्ढापुजावटंसणंवापरिभोगंवा तंतुभमेणं

तेभणीभिख्यानिमत्तअटतीपरिअसणकरतीछती साधवीओतितलियुत्तप्रधाननाघरमाहि पइठीओतिवारितेपोद्विलाखी तेसाधवीयां  
 प्रते' आवतीदेखेदेखीने' चर्धंसंतोषयामीछती आसणवैसणायकी उठेउठीनेवादेनमस्कारकरेवादीने' नमस्कारकरीने' विपुलघणूं  
 असनपानखादिमखादिमचारप्रकारनो आहारने' देवे' करीप्रतिलाभेप्रतिलाभीने इणेप्रकारे' पृच्छतीहई इमपूर्वोक्तप्रकारिंखलुनि

विचरणं च तं त्यः कुर्वाणाः अत्यथाद् भक्तिआयंतिदेशभाषाया भक्तिभवतीनां चुषजो एत्तिद्रव्यचूर्णानायोगः संभनादिकर्मकारीकम्पण

अज्जाओ ब्रह्मणायाओ ब्रह्मसिक्खियाओ ब्रह्मं डियाओ तुभे ब्रह्मणि गामागरजाव आहिं डे ह्व ह्वं रा  
इसरजाव गिहाद् अणुप्पविसहतं अत्थियाद् भे अज्जाओ केद्दु कहिं वित्तु षजो एवा अंतजो एवा कम्पण  
जो एवा कम्म जो एवा हियल्लुएणे वा कायल्लुएणे वा आभिओ गि एवा वसो करणे वा कोल्लय कम्मो वा भू

श्रेष्ठं अहोसाधवीओ ते तल्लिपुवप्रधानने पूब्बे इष्टवालहीज्जंती हि वडाअनिष्टयद्दुक्खं भुक्कसाहसुं जो इ नहीं देखे नहीं माहरी वा तपणि  
पूच्छे नहीं वारंवार भोगवे नहीं भोगमातपणि नहीं ते कारण थकी तुम्हे अहोसाधवीओ धणुं ज्ञाताओ जाणोओ ब्रह्मघणशास्त्रसिक्खीओ धणुं  
शास्त्रभणीओ तुम्हे धणानगरगामअगरनगरप्रसुख सगले गामनगरमाहिं हिडोओ फिरोओ धणारजाई श्वरसुवराजा प्रमुखानाव  
राप्रते प्रवेशकरोओ वेसोओ ते कारण थकी अत्थिच्छे भेतुम्हे अहो आर्याओ साधवीओ कोइ किहाकिणि द्रव्यचूर्णानो योगमंतवयोगसंभना  
दिकर्मकारी कोठादि रोगनो कारण कास्ययोगकमनीय सगलाने अभिलाषावांछाकरिवाना कारण ह्वदयोड्डापनं मंतवल्हाइं करी

जोएत्तिकुष्ठादिरोगहेतुः कम्मजोएत्तिकाम्ययोगः कमनीयताहेतुः हिद्यउड्डावणेत्तिहृदयोड्डापनंचित्ताकर्षणहेतुः कायउड्डावणेत्तिकायाकर्षणहेतुः आभिओगिएत्तिपराभिभवनहेतुः वसीकरेणेत्तिवयताहेतुः कोजयकम्मत्तिसौभाग्यनिमित्तं सपनादिभूइकम्मत्तिस

इकम्मो वाकं देमूलेच्छीवल्लीसिलियावाशुलियावाओसहेवाभेसज्जे वाउवलङ्घपुब्बेजेणं हंतयलिपुत्तस्स  
अमच्चस्सपुणरविइड्डाभूभवेज्जामितएणंताओअज्जाओपोट्टिलाएवंवुत्ताओसमाणीओ दोविकस्से ठा

आगित्त्यानाचित्तनें आकर्षणकरिवानोकारणपर अनेरानीकायानोआकर्षण आणिवानोकारणपरअनेरीने पराभवपौडाकरवानो हेतुअथवावीजाकोईआपणनें पीडाकरीनसकेएहवानोकारणसज्ज आपणकहणकरेवसीकरणकरिवानो हेतु सौभाग्यपणुंथावानि मत्तिसिनानादिककरिवानोकारण संतकरिसमारीकेलवीमंत्ते भूतिराखदेवानोकारण कंदादिमूलरोहिणीओषधी गिलोइप्रदुख नीवेलिशिलिकाऊईशिले किरियातानीप्रणाद्रव्यनीगोलीओषधएकद्रव्यनो अथवाप्रणाद्रव्यनोभेषज प्रणाद्रव्यनोओषधनो नीपनो एहवीविद्यालहीछेपामीछेपूर्वं तोकहो जेणेकारणेंहुंतेतलिपुत्तप्रधाननें वलीइष्टवाएहीथाउं इमपृच्छों तिवारपच्छीतेसाधवीओपो

इंतिपोद्विलं एवंवयासी अरुहेणं देवाणुं प्पिया समणीओणिगंधीओ जावगुत्तवंभचारिणीओओणोख  
लुकप्पइ अरुहे देवाणुं प्पिए एयप्पथारं कखे विणि सामेत्तए किमंगणुणुवदि सित्तएवा आथरियत्तए  
वा अरुहेणं तव देवाणुं प्पिए विचित्तं केवलपसुत्तं धम्मं परिकहेज्जा मोतएणं सापोद्विलाताओ अज्जाओ  
एवंवयासी इच्छामिणं अज्जाओ तुभं अंति एकेवलपसुत्तं धम्मं' णिसामित्तए तएणं ताओ अज्जाओपो

द्विलास्वीइ' इसपूविलीपरिकहीओहतीओ वेहुं कानांप्रतंढाकीने साधवीओ पोद्विलाप्रतं इसकहतीहूईओ अरुहे हे देवाणुं प्रियेपोदि  
लेअमणीओसाधवीओ निग्रंथनीओछीये तालगिजांगुप्रब्रह्मचारिणीओछीये तैकारथयकीनिश्च कलपेनहीं आचारनहींअरुहे तु  
भाने हे देवानुप्रियेहेपोद्विलेए चूर्णनायोगमंतादिप्रकारप्रतं किखेप्रकारकानेपणि सांभलिवाभणीकलपेनहीं अरुहारेओआचारसर्व  
थानहीं किंइतिप्रश्ने अंगकोमलामंतणेतो किहांथकीपुनः वलीउपदेशकहिवाभणीओअचरिवाभणीकलपेकिहांथकी अरुहे तुभनेहे देवा  
नुप्रियेहेपोद्विले केवलीनोभाष्येएहवावर्म्म प्रतं भलीपरिकहीयेछेइसकह्यं तिवारपछीतेपोद्विलातेआर्यासाधवीप्रतं इसकहतीहूई

द्विलाएविचित्तधम्मं परिक्कहेइतएणंसापोद्विलाधम्मं सोच्चाणिसम्महदुट्टाएवंवयासीसद्वहामिणंअज्जाओ  
 णिगंधंप्रावयणंपत्तिएजावसेजहेयंतुभेवयह इच्छामीणंअहंतुभमंअतिएपंचाणुव्वइयंजावगिहिधम्मंपडि  
 वज्जित्तएअहासुहं देवाणुप्पियामापडिवंधंकरेहतएणंसापोद्विलातासिंअज्जाणंअतिएपंचाणुव्वयंजावगि

उं इच्छुं वुं वाच्छुं हेआर्याओसाधवीओ तुम्हारासमीपनेविषे केवलीनोकह्योप्ररूय्योएहवाधम्मं प्रतेसांभलिवाभणीतिवारितेआर्या  
 साधवीओपोद्विलाप्रते विचित्तकेवलीनोभाय्योधमतेप्रतेकहे तिवारितेपोद्विलाकेवलीनोकह्योसाचाधमप्रते सांभलीनेहीयांसांहिअ  
 वधारीनेहर्षसंतोषपांसीकती इमकहतीइइपोद्विलाऊं साचुं सदुं कुं हेआर्याओ निग्रथप्रवचनसिद्धांतप्रतेप्रतीतकरं छुं तांलगि  
 जांरुचिबुं तेजिमतुम्हे कहोछोते इच्छुं वुं वाच्छुं कुं तुम्हारासमीपनेविषे पांचअणुव्वततीनगुणवत्तचारसिख्याव्रत एवारव्रतरूपआ  
 विकानाधम्मं प्रते पडिवज्जीवाभणी अंगीकारकरवाभणी साधवीओकहेजिमसुखदुइतिमकार तिवारपच्छीतेपोद्विलातेआर्यासाधवी  
 यांनासमीपनेविषे पाचअणुव्वतसातसिख्याव्रतएवारव्रत आवकनाधम्मं प्रते पडिवज्जेअंगीकारकरेरीनेतेआर्यासाधवीयांप्रतेवादेनम



वदत्तएएवंसंपेहेइत्ताकल्लंपाउजेशेवतेयलिपुत्तेअमच्च तेणेवउवागच्छइत्ताकरयलपरिगहिंयंएवं  
खलुदेवाणुप्पियामएसुव्वयाणं अतिएधम्मं एिसंते जावअभणुस्साएपव्वइत्तएतएणंतेयलिपुत्तेपोट्टिलं  
एवंवयासौएवंखलुतुमंदेवाणुप्पिएसुडेभवितापव्वइयासमाणीकालमासेकालं किच्चाअस्सयरेसुदेवलो

गभोगवेनहीं तेकारणयकीअेयभलुंनिच्चे सुक्कनेंसुव्रतासाधवीना आर्यानासमीपनेविषे दिच्चालेवाभणीप्रवतुं तोभलं इणेप्रका  
रेचिंतषेचिंतवीने कालिसूरजउयेच्छते जिहातेललिपुत्रप्रधानच्छे तिहाअवेअवीने हायजोडीमाथानेविषे आवत्तकरीमाथानेवि  
पेअंजलीप्रतेकरीने इणेप्रकारे खलुनिच्चे हेदेवानुप्रिय मे संसुव्रतासाधवीनासमीपनेविषे धम्मं केवलीनोभाथोसाभल्यो तेकारणयकी  
वेरागपांसीच्छुं तुमारीअाज्ञाइकरीदिच्चालेवाभणी प्रवतुं तुमेअादेशदो इमपूछोतिवारितेतलिपुत्रप्रधानं पोट्टिलास्त्रीप्रतेइणेप्रका  
रेकहतोउअोएवंइमअागलिकहिंस्ये टिमखलुनिच्चे तुं हेदेवानुप्रियेपोट्टिले सुं डयईदिच्चालीधीच्छती चारिलपालीनेकालकरिवा  
नामासनेविषे कालप्रतेकरीनेअनेरागमेतेह देवलोक्कनेविषेदेवतापणे उपजसितेकारणयकीजोतुं हेदेवानुप्रियहेपोट्टिलेसुक्कप्रते



एसुदेवत्ताएउववज्जिहिति तंजइरुंतुंभंदेवाणुप्पिएममंताओदेवलोगाओआगम्भकेवल्लिप्पस्सत्ते धम्मं  
 बोद्धेहितोअहं विसज्जेअि अहस्सं तुमंमरणसंबोद्धेसि तोणविसज्जेमि तएणंसापोट्टिला तेयल्लिपुत्त  
 स्सएयमइं पडिसुणेइ तएणंतेयल्लिपुत्ते विपुलं असरणंपाणंखाइमंसाइमंउवक्खडाविति मित्तणाइजा  
 वआमंतेइरुत्ता जावसम्भाणेइपोट्टिलं गहायंजावपु रिससहस्सवाहिणीयं डुरुहइरुत्ता मित्तणाइजाव

देवलोक्थकीइहांआवीनें केवलीनोभाषप्रोधर्मंतुं न जणावेउपदेशे तोहं विसर्जुं आदेशदेउं आपुं अथवातिहां देवलोक्थकीतुं नावे  
 तुं सुम्भनेप्रतिवोधेनहीं वीतरागनोभाषप्रोधर्मंतुं कहे तोतेतवतुम्भने विसर्जुं नहीं ऊं आदेशदेउं नहीं तिवारितेपोट्टिलास्त्री तेतलि  
 पुत्रप्रधाननोकह्यो एपूर्वोक्तअर्थप्रतंअंगीकारकरे तहत्तिकरीअंगीकारकीधो तिवारितेतलिपुत्रप्रधानं विपुलघणुं अन्नपाणी खादिम  
 स्वादिमच्यारप्रकारनो आहारं धावेरंधावीनें मिलज्जातिप्रमुखसघलापरिवारनें आमंतीनिह्ं तरीनें तेडीनें भोजनकरावीनेंचल  
 लेईपवितथयापच्छीमिलज्जातिसगलानें सत्कारीनेंसन्धानीनें घणावस्सतंबोक्कदेईने पोट्टिलास्त्रीप्रतंम्हवरावी पच्छेबड्ढमूल्यनांवस्सप

परिवृडेसव्वड्डीएजावरवेणं तेयलिपुरस्समउभंमउभेणं जेणेवसुव्वयाणंउवस्सए तेणेवउवागच्छइरत्ता  
 सीयाओपच्चोरहेइरत्ता पोडिलं पुरओकट्ट, जेणेवसुव्वयाअज्जा तेणेवउवागच्छइरत्ता वंदइममंसइर  
 त्ताएवंवयासीएवंखलुदेवाणुप्पियाममपोडिलाइड्ढाप्पएसणंसंसारभयउव्विग्गजावपव्वइत्तएपडिच्छ.

हिरवेवणाआभरणअलंकारपहिरिकरी भलासिणगारकरी हजारपुरुषवाहिनीएहवीपालखीप्रते' वेसेचढेवेसीनें मितज्ञातिप्र  
 सुखसगनेंसंघाते' परिवस्योच्छतोषणाप्रकारनीसगलीऋद्धिं करीघणावाजितनारवशब्दतेणेकरीसहित तेतलिपुरनगरमांहियइनेंजि  
 हासुत्रतासाधवीयांनो उपाअयच्छेतिहाआवेआवीनें पालखीयकीहेठेउतररेउतरीनें तेतलिपुत्रप्रधानपोडिलाप्रते' आगलिकरीने  
 जिहांसुत्रताआर्यासाध्वीच्छेतिहांआवेआवीनें वादेनमस्कारकरीनेइमकहतोह्मओतेतलिपुत्रप्रधानइमआगलिकहिस्से  
 तिमखलुनिचे हेदेवानुप्रियेहेआर्ये सुभनेंपोडिलास्त्रीषणुंवाल्हीह्मती पणिएस्त्रीजनमरणप्रमुखसंसारना भयथकीउद्वेगणीयइ  
 छेतालिजादिचालेवाभणी उद्यमवंतयइच्छेप्रतीच्छेचंगीकारकरोल्यो हेदेवानुप्रियेहेसुव्रते शिषप्रणीचेखीरूपभिल्य ॥प्रते ॐ दे० छ.

तुणं देवाणु प्पियासिस्त्रिणिभिवलं दलयासि अहासुहं देवाणु प्पियासापडिबंधंकरेहतएणंसापोट्टिलासु  
 वयाहिं अज्जाहिं एवंवुत्तासमाणी हइवुडा उत्तरपुरिच्छिमेदिसीभाएसयमेवआभरणमल्लालं कारं सु  
 यइत्तासयमेवपंचसुट्टियंलयंकरेइत्ताजेणेवसुव्वयाओ अज्जाओतेणेवलवागच्छइत्तावंदइणंसइ  
 रत्ता एवंवयासीअलित्तेणं एवंजहादेवाणंदाजावइक्कारसअंगइं बडुणियासाणिसामसुपरियायंपा

पछेगुरुणीकहे वारुजिमसुखहे देवानुप्रियेइहां प्रतिबंधविलंबमतकरोतिवारपच्छीतेपोट्टिलास्त्रीसुव्रतासाधवीनेइमपाच्छिलीपरिकहीछ  
 तीहर्षसंतोषपामीछती उत्तरदिशिनेपूरवदियिविचालेइशानकूणिनाभागनेविषेजइनेपोतेपोतानीमेलिंजपोट्टिलाआभरणफूलमा  
 याअलंकारप्रते' सू'केसू'कीनेपोतेपोतानीमेलिज पंचसुष्टीलोचप्रते'करेकरीने जिहासुव्रतासाधवीछे तिहांआवीआवीनिवादिनम  
 स्कारकरेवादीनेनमस्कारकरीने इमकहतीइइअलिप्रथइरच्छोछे कर्म'करीलीपाणेछेसंसारवलीरह्यु'छेएसंसार इणेप्रकारिंयथा  
 जिमभगवतीसुत्वमांहिदेवानंदाब्राह्मणी दिवालीधीछेतिमदिवालीधीपोट्टिलाइंपछे सामाइकआदिदेइइइयारेअंगभयावयातप

उणिक्तामासियाएसंलेहणाय अत्ताणंज्कोसित्तासट्टिभत्ताइं अणसणाइं आलोइयपडिक्कं तासमाहि  
 पत्ताकालमासेकालं किच्चा अणुत्तरदेवलोएसुदेवत्ताए उववस्सातएणंसेकणगरहेरायाअस्सयाकयाइं  
 कालधम्मूणासंजुत्ते याविहोत्यातएणंतेइसरपभिओजावणीहरणंकरेइअस्समसुं एवंवयासीएवंखलुदे

करीषणावरसलगिचारिवना पर्यायप्रतें पालेपालीने मासदिवसएकमासनीसंलेखणाइं करी आत्माप्रतें शोषवीनें साठिभक्तिअणस  
 णकरीच्छेदीने अतिचारआलोइयापयकीनिवृत्तीअलगीयइच्छती समाधिसरणपामीच्छती कालकरिवानामासनेविषे अनुत्तरसगला  
 देवलोकमाहिप्रधानं उल्लूटादेवलोकनेंविषे देवतापणेजपनीतिवारपच्छी तेकनकरथराजाएकदाससें कालधर्मे संयुक्तमरणपामतो  
 इओतिवारिते ईश्वरत्वतिप्रसुखसगलाएकठामिलीने नीहरणकरेवाहिरकाठीमसाणीभूमिलेइजाइराजानाकलेवरप्रतें तिहामां  
 हिंसगलाइमवार्त्ताकरताऊआ इमपूविंलीपरिनिच्चेहेदेवानुप्रियो अहोत्वतियोकनकरथराजा राज्यादिकनेविषेलोभीयोथयोसुखी  
 पास्योच्छनी पोतानावेटानीहायपगानीअंगुली अंगुठानाककानअंगोपागप्रतें विकृतकरीच्छेदीनेविणसाडीसूक्काके आपणहे देवा

संवाभिसंस्कृतभूतिदानं रायहीणद्वत्यादिराजाधीनो राज्ञो दूरेपिवर्तमानाराजवसवति न इत्यर्थः राज्ञाधिष्ठितास्तेन स्वयमध्यासिताः राजाधिष्ठिताः राजाधीनानि राजायत्तानि कार्याणि येषां तिवयं राजाधीनकार्याः सर्वंचसेलदृष्टाणपरियावयंति सर्वंचसेतस्य लत्तानं

वाणुष्पिया कणगरहेराथारज्जेयजावपुत्तेविद्यंगं च्छित्ता अग्नेदेवाणुष्पियाराया हीणाराया हिडिया  
 राया हीणकज्जा अयंचरणं तेयली अमच्च कणगरहस्सरसोसव्वडाणे सुसव्वभूमिवा सुलङ्घपच्चएदिस्सुवि  
 यारेसव्वकज्जवड्ढावएयावि होत्या तंसेयंखलु अग्नेहंतेयलिपुत्तं अमच्च कुमारं जाइत्तएत्तिकइ अस्सम

नुप्रियोरजाधीराजाने वेगलापणिवत्तांछंता तथापिराजावसवत्तींछंता राजाने अधिष्ठितअधिष्ठ्यांछंतिरेकारणे पोतेराजाइवेस  
 खाडं ताराजानाआधीनइंता राजाधीनानिराजाने आयत्तकार्ये जेहाने अग्ने राजाधीनकार्येइंता पणिएतलेतेतलीपुलप्रधान  
 कनकरथराजाने संगलायांनकनेविषे सगलीभूमिकाष्टवीनेविषे लाधेच्छेप्रत्ययप्रतीत दत्तदीधेच्छेविचारबंधाणा अग्नेसरीपणुंस  
 गलाकाजकामनोप्रवत्तीव कवधारणहारोहं तो तेकारणथकीअयभलुंखलुनिचे आपणने तेतलिपुलप्रधानप्रते कुमारप्रते वा

सुस्यमदृष्टिसुदेरता जेणेवतेयलिपुत्तेअमच्च तेणेवउवागच्छइरतातेयलिपुत्तअमच्च एवंवयासौ  
 एवंखलु देवाणुप्पिया कणगरहेराथारज्जेयरडेयजाववियंगेइ अम्हेदेवाणुप्पियारायाहीणाजावरा  
 याहीणकज्जा तुमंचणंदेवाणुप्पियाकणगरहस्सरखोसव्वडाणेसु जावरज्जधूरान्चिंतए तंजइणं देवाणु

चिवाभणीमागिवाभणीअलु इमकहीनेअन्योन्यमाहोमाहि एविचारपरठप्रते अंगीकारकरेअंगीकारकरीने जिहातेतलिपुलप्रधान  
 छेतिहाआव्याअवीने ततलिपुलप्रधानप्रते एणेप्रकारे कहताज्जा इमपूर्वोक्तप्रकारे खलुनिच हेदेवानुप्रियहेतेतलिपुल कनकर  
 थराजाराज्यने विषे राष्ट्रदेशनेविषेम्हूर्छापास्योच्छतो पोतानावेटानाहाथपगादिछेदीरने म् क्वाळे अम्हे चत्तीसगलाहे देवानुप्रियहे  
 प्रधानराजानावशवर्तीज्जं ताराजाइ अधिष्ठाज्जं ता राजाने आयत्तस्वाधीनकार्ये जेहानेएहवाछांअम्हे अने वलीतु हे देवाउ  
 प्रियेहेतेतलिपुलप्रधानकनकरथराजाने सगलाथानकनेविषेसगलीभूमिने विषे सगलीराज्यनीधुरानोचिंतकचिंतानोकरणहारोज्ज  
 तोतेकारणथकीजोहे देवानुप्रियहेप्रधानके कोईकुमरराजानालक्षणसहित राज्यथापवानालक्षणसहित अभिषेकराज्याभिषेककर

पिया अथि कीड कुमारे रायलक्षणसंपखे अभिसेयारि हितए णंतु मंदलाहि जाणं अरुहे महयाश्राया  
 भिसेएणं अभिसिंचामो तएणं तेयलिपुत्ते अमच्चे तेसिंदूसरपभिएणयमडुपडिसुणेइइत्ता कणगज्जक्यं  
 कुमारं एहायंसव्वालं कारविभुसियं जावसस्खिरियं करित्ता तेसिंदूसरजावलववणेइइत्ता एवंवथासोएस  
 णं देवाणुप्पिया कणगरहस्सरखोपुत्ते पडमावइए देवीए अत्तए कणगज्जए णां मं कुमारे अभिसेयारि हे

वायोग्य ऊई तोतुं दो आपिजिमअरुहे मोटे आडं वरें करी राजाने अंभिषेके करी अंभिषेक करार राजाया पाइमपूछे ते एवातसांभलीतिवा  
 रपछी ते तलिपुत्रप्रधान तेसगलाइश्वरयुवराजाप्रमुखानोवचनए पूर्विकच्छोपूछ्यो ते अर्थप्रयोजनप्रते अंगीकारकरे अंगीकार करीने ते त  
 लिपुत्रप्रधान कनकध्वजकुमरप्रते स्नानप्रते करारवि सगला आभरण अलंकार पहरावे पहिरावीने तां ल गिजां घणुं सश्रीकसोभाकारी  
 प्रते करीने तेईश्वरयुवराजाप्रमुखसगला क्षत्रियाने अपे अपीने ते तलिपुत्रप्रधान इमकहतो ऊवो क्षत्रीयां प्रते एहे देवानुप्रियोकन  
 करथराजानोपुत्रवेटोके पदमावतीराणीनो आत्मज अंगजातिके कनकध्वजकुमार राज्याभिषेकने अहं योग्यके राजाने लक्षणे करी

राथलक्वणसंप्रखे मएकणगरहस्सरखो रहस्सियंसंवड्डिए तंएदंतुभेमहयामहयाराथाभिसिएणंअ  
भिसिंचहसव्वंतेचसिंडुङ्गाणप्रारियावणियंपरिकहेइतएणंतेइसरकणगज्जक्यंकुमारं महयामहया  
राथाभिमेएणं अभिसिंचइ तएणंकणगज्जएकुमारिराथा जाएमहयाहिमवंत जाएजावरज्जंपाले  
माणेविहरइतएणंसापउमावइदेवी कणगज्जक्यंरायंसहावेइरत्ता एवंवयासोएसणंपुत्तातवरज्जेजा

संयुक्तसहितच्छेसे कनकरथराजाने रहस्सिकछानोराखीभली परिवधाखोच्छेतेकारणयकी एकनकव्वज्जकुमरप्रते त्खेमोटेआडंबर  
करिओ राजाथापिवाने अभिषेककरोअभिसींचो सव्वंचचपुनःवलीसर्वसगलुंतेकनकव्वज्जकुमरनु उट्टाणकहताउत्प  
त्तिजपजवानुकारणपारियावणियक० कालांतरतांइरहिवानीस्थिति तेहनोकारणतेपरिकहेभलीपरिकहे प्रधानतिवारपच्छीतेइ  
श्वरप्रमुखसगलाचत्तीकनकव्वज्जकुमारप्रते वणंआडंबरिकरीराजाने अभिषेकेकरी अभिसिंचेराजाथापे तिवारेकनकव्वज्जकुमररा  
जाथयो मोटोहिमवंतपर्वतसरिखोतालगीजां कनकव्वज्जराजाराज्यप्रते पालतोराखतोच्छतोविचरेच्छे तिवारपच्छीतेपदमावतीराणी



चोत्पत्तिःपरियापनाकाच कालांतरंतावत्स्थिरतरित्युत्थानपरितापनकंतत्परिकथयतीति वयंतंपडिसंसाहेत्ति विनयप्रस्तावात्ब्रजं  
तंप्रतिसंसाधयानुव्रजः अथवाचतंप्रतिसंसाधयसाधूक्तं साध्वित्येवं प्रशंसां कुर्वित्यर्थः भोगंवर्त्तनंरुद्धेणमित्यादौ हीनोयंसमप्रीत्येतिग

वअंतउरेयतुमंचतेयलिपुत्तस्य अमच्चस्सपभावेणंतेयलिपुत्तं असच्चंआटाइपरि जाणाहिसक्कारेहि  
सम्माणेहिइतंअभूमूहेहि पज्जुवासेहियवर्यंतंपडिसंसाहेहिअद्वासणेणंउवणिसंतंतेहिभोगंचसेअणुव

कनकध्वजराजाप्रते'तेडावेतेडावीने इमआगलिकहिस्थे तिमसीखदेतीऊइ हेपुतएआसर्वतुभनें राज्यनें विषे तांलगीजांअंतेउरप  
धंतसगलानेविषे सुखह्वोच्छेतुभनेतेतु'तेतलिपुल प्रधाननें प्रभावे'करी राज्यपास्योच्छेतेकारणथकी हेपुततेतलिपुलप्रधानप्रते'  
आदरदेजेषणी षणुं जाणजेओलखिजेसत्कारवस्त्रादिदेजे सन्मानदेजेतेतलिपुलप्रधाननेइत० आवताप्रते'उभोथाने पयुं पासनसे  
वाकारजेविनयनाप्रस्तावथकीतेतलिपुलवर्यंतंक० जाताप्रते' विनयकरिपडिसंसाहेत्तिक० कश्चिभलांपधारोतुं साधेवोलावजेअथवाव  
दंतंक० तेतलिपुलप्रधानबोलता वार्त्तीकरताप्रते'संसाधयभलोकह्योभलं एहवीप्रसंसाप्रते'कारिजेएतलेप्रधाननोवचनउथापजेमांतह

डुहितएणसेकणज्जएप्रउभाईएदेवीएतहत्तिपडिसुणइजावभोगंचसंवडुइतएणसेपोडिलेदेवेतेयलियु  
 त्तंअमच्चंअभिकवणंरुकीवलियणत्तं धम्मं संबोहेइरणोचैवणसेतेयलियुत्ते संबुज्जइतएणंतस्सपोडिलदेवस्स  
 इमेयाखुवे अज्जत्थिएपत्थिएच्चिंतिएमणोगएसंकप्पे ससुप्रज्जित्थाएवंखलु कणगज्जएराया तेयलियुत्तं  
 आढाइजावभोगंचसंवडुइ तएणसेतेयलियुत्ते अभिकवणंरुसंबोहिमाणेविधस्से णो संबुज्जइत्तंसिदंखलु

त्तिसाचुं कडुं कुंइमकहिजेअर्द्धासनआधेवैसण देवेकरीनिमंतणाकरिजेएतलेआधेवैसणो देजे भोगद्रव्यसेतेतलीपुत्रप्रधाननोअधिको  
 वधारजेचूअचंदनप्रमुख राणीइ इलकह्यं तिवारिकनकध्वजराजापदमावतीराणीनुवचनतहत्तिकरीपडिवजेसाचुं करीअंगीकारक  
 रेकरीनेतांलगीजाकनकध्वजराजातितलियुत्रप्रधाननोगंमद्रव्यभोगसर्ववधारैहिवेतेहवेसमेतेपोडिलादेवताइ' ज्ञानेकरीजोवेजोइने  
 तिहांआवेतिहांआवीनेतेतलियुत्रप्रधानप्रते वारंवारकेवलीनोभायोधर्मप्रते कहेप्रतिबोधेपणिलिगारमावतेतलियुत्रप्रधानंभप्रतिबूके  
 नहीतिवारितेपोडिलादेवताने एहवोआत्मानेविषेअध्ववसायमनमांहि भावएहवोजपनोइमपूर्विलोपरिखलुनिश्चे कनकध्वजराजा

ममकरणजभयंरायं तेषलिपुत्ताओविष्परिणामेत्तएत्तिकट्टु, एवंसंपेहेइइत्ताकरणजभयंतेयलिपुत्ता  
तोविष्परिणामेइतएणंतेयलिपुत्तेकल्लं गहाएजावप्रायच्छिस्तेआसखंवरगएबज्जहिंपुरुसेहिंसद्विसंप  
रिवुडेसाओगिहाओशिणगच्छइत्ताजेणवकरणकजभएरायातेणवपहारेत्यगभणाएतएणंतेयलिपुत्तं

तेतलिपुत्रप्रधानप्रते' आदरदीयेच्छेतालगिजावली भोगद्रव्यपंचतसर्वअधिकोवधारेच्छे तेकारणयकीघणांसुखनाभोगविनायकीतेतेतलि  
पुत्रप्रधानवारंवार वारंवारप्रतिबोधतोच्छतो पणिवीतरागनाधर्मने' विषे प्रतिबोधपामेनहीप्रतिबूकेनही तेकारणयकीअयभलंनि  
अे ममसुभने' कनकध्वजराजाप्रते' तेतलिपत्रयकीतेतलिपुत्रउपरिभूडोपाडूयेपरिणामकरिवाभणीप्रवर्त्ततोभलुं इमकरीनेइरणंप्रका  
रे' चिंतवेचिंतवीने पोट्टिलदेवताकनकध्वजराजाप्रते' तेतलिपुत्रप्रधानयकी भुंडु' परिणामकरेराजानो परिणाममाठोकरेतिवारि  
तेतलिपत्रप्रधानकालप्रभातययां पच्छीस्नानकीधोप्रायच्छिस्तेअसुभटांलिवानिमत्तमसिजवाराद्रोवप्रसुखकोतुककरेण्ठं गारपहिरीक  
रीवरप्रधानअश्वघोडाजपरिचढोयको घणापुरुषांसंघातेपरिवस्त्रोच्छतो पोतानाघरयकीनीसरेनीसरीने जिहांकनकध्वजराजाच्छे

अमञ्जहानहवेराइसरतलवर जावप्यभिद्रओपासेइ तेतहेवआटाथंति परियाणंतिअभूइ इसका  
 रेइसम्भाणेइ अंजलिपरिगहिहयंकरेति इड्ढाहिकंताहिंपौयाहिं मणुस्साहिंसणामाहिंछरालाहिं  
 कल्लाणाहिंसिवाहिं धस्साहिंसंगलाहिंसस्खिरियाहिं वग्गूहिंआलवभाणायायसंलवमाणायापुरओयपि  
 इओयपासओय मग्गओयसमणुगच्छंति तएणंसेतेयलिपुत्तेजेणेवकणज्झएरायातेणेवउवागच्छ  
 इतएणंसेकणज्झएरायातियलिपुत्तंअमच्चं एज्जमाणंप्रासइत्ताणेओआटाइरणो परियाणार्इणोअभू

तिहाजावाभणीमनकरतोह्वोजातोह्वयो तिवारितेतलिपुत्रप्रधान आवताप्रतें यथाजिमषणाईखरयुराजा तलवरप्रभृतिसगला  
 देखेदेखीनेतेईखरतलवरप्रमुखसगलातिमजपूर्विलीपरिआदरदीयेजाणे उभायाइवस्वादिसन्मानदीयेअंजलिवेहायजोडीअंजलिप्र  
 तें करेकारीनेईएवावही कातमनोरमआलापकरताच्छता संलापकरताच्छताआगलियकी पाछलियकीवेहंपासाथकी मार्गवाटियकी  
 भलीपरिपूच्छिजाइछे तिवारितेतलिपुत्रप्रधान जिहाकनकध्वजराजाछे तिहाओवैतिवारिते कनकध्वजराजातेतलिपुत्रप्रधानपते

दुई अणाढायमाणे अपरिथाणमाणे परसुहेणं चिदुइ तएणं सेते यलिपुत्ते अमच्चै कणगज्जकयस्सरसो अंज  
 लिकं करे इ तएणं से कणगज्जकएराया अणाटिज्जमाणो तु सिणीए परसुहेसं चिदुइ तएणं ते यलिपुत्ते अम  
 च्चै कणगज्जकयं विष्परिणयं जाणित्ताभीए जावंसं जायभएवं वयासीरुइ णं मकणगज्जकए राया हीणे  
 णं ममकणगज्जकएराया अवज्जाएणं ममकणगज्जकएराया तं णज्जइ णं ममकेणइ कुमारेणं मारेहे

आवताप्रते देखे देखीने आदरदीयेन हीं आव्यो जाणेन हीं जभो थार्दिन हीं अणआदर देतो छतो अणजाणतो छतो अणजभोथा तो छतो  
 पराज्जखजपराठोयईवेस्यो तिवारिते ते तलिपुत्रप्रधान कनकखजराजाने आगलिहायजोडी अंजलिप्रते करे तो हिपणिते कनकखज  
 राजा अणआदर देतो छतो अणबोलतो पराज्ज खजपराठोयईवेसे तिवारपछीते तलिपुत्रप्रधान कनकखजराजाप्रते भंडापरिणामपा  
 छुआथयाप्रते जाणीने बीहनोवासपास्यो छतो जपनो भयबीही कतो छतो इणं प्रकारे कहतो ह्छुओ इममनमाहिधरे रूठो राजा माहरी  
 प्रीतिकरी पाडुयो ययो सुभजपरि एकनकखजराजा हीन अधमथयो सुभजपरि कनकखजराजा अपथा तदुष्टचिंतावंत ययो सुभजपरि

स्यतेअपथ्यातोदुष्टचिंतावान् समेतिसमोपरिकनकध्वजः पाठातरिणदुर्ध्वीतोहंदुष्टचिंताविषयीकृतोहं कनकध्वजेनराज्ञातत्तस्मान्नज्ञा

त्तित्तिकहु, भौएतथ्येजावसणियं२प्रच्चोसक्रेइ२त्तातमेवआसखंधंदूरुहइ२त्तातेयलिपुरंणथरंमवभंमउभेणं  
जेणेवसएगिहेतेणेवपहारित्यगमणाएतेयलिपुत्तजेजहाईसरजादपारुंतितेहाणेआदादंतिणोपरिया  
णंतिणोअभूइएणोअंजलिकरितिइड्ढाहिंजावणोसंलवंतिणोपुरओपिड्डओयसमणुंगच्छंति तएणंते

कनकध्वजराजा अथवादुर्ध्वीतोहंदुष्टचिंतावंतकीधोऊं कनकध्वजराजायेजेकारणथकीनजाणीयेजेसुभनेकेणेकुमरणे विरूपमंडा  
मारवाने प्रकारे करी मारस्ये इमविचार करीने बीहनोछतोत्ताठोत्तासपास्योछतो तिमजतिहायकीधीरेरपाछोवलेपाछोआवीनेते  
हिजयोडानाखाधावोडाऊपरिचढेचढीने तेतलिपुरतेतलिपुरनगरमाहिथईने तेतलिपुत्वप्रधानजिहांपोतानोषरक्के तिहांपधारि  
वाजावाभणीमनकरतोऊवो तेतलिपुत्वप्रधानआवताप्रते तेहजेजिमईश्वरतलवरप्रमुख सगलादेखेतेईश्वरप्रमुख तथातिमजतेणेप्र  
कारे आदरदीयेनहीं आवतोजाणीने जभाथाईनहीं अंजलिफलनाडोडानीपरिहाथप्रते करेनहींइष्टवस्तुभवांगी

यलिपुत्ते अमच्च जेणेवसएगिहे तेणेवउवागच्छइ जावियसेतथबाहिरिया परिसाभवंतितंजहादासे  
तिवापेसेतिवाभाइल्लेतिवा सावियणंणेआटाइइजावियसे अभिंतरियापरिसाभवंतितंजहापियाइ  
वामायाइवाभज्जाइवा सुरहाइवासावियणंचणोआटाइइ तएणंसेतेयलिपुत्ते जेणेववासघरेजेणेवस

एकरीतांलगिजा संलापकरेनहींबोलावेनहीं आगलियकीपाच्छलीयकी वेळुं पासायकीमार्गे पाच्छलिचालेनहीं साहसुं पण्णिजोएनहीं  
तिवारपछीतेतलिपुत्रप्रधान जिहापोतानोघरछे तिहांआव्योतिवारिजेतेतिहांघरनीवाहिरली परखदासभावेठीछे तेकेहीपोताना  
दासगोलासगोलीनाजण्या प्रेथकामकाजवतानाकरणहारा भाईभाणेजागोती तेकोईपण्णितेलिपुत्रप्रधानने आदरदीयेनहींआ  
व्योजाणेनहींजभाथार्दनहीं पछेतिहांथकीतेतलिपुत्रआव्यो जेतेतिहाथकीअभिंतरघरसांहिली परखदासभावेठीछे तेकेहांतेजिम  
अनुक्रमेकहेछे पितादिकाप्रमुखवेठाछे मातादिमाताआदिधायप्रमुखवेठीछे भार्याखीप्रमुखवेठीछे तिहांजिहांदेटीवळुप्रमुखतेह  
पण्णिआदरेनहीं आव्योजाणतानथीउभाथाइनहीं तिवारितेतलिपुत्रप्रधान जिहावसवानोघरछे जिहापोतानीथयनीकसिज्याछेति

एसथणिज्जे तेणवउवागच्छइइत्तासथणिज्जेसिणिसीयइइत्ताएवंवयासीएवंखलुअहंसयाओगिहाओ  
 णिरागच्छामितंचेवजाव अभिभंतरियाप्रिसाणो आटाइरणोअभुक्के इतसेयंखलु मसअप्पाणंजीविया  
 ओववरोवित्तएत्तिकहु, एवंसंपेहेइइत्तातालपुटं विसंआसणंसिपिनिखवइसेयविसेणोसंकम्म इतएणंसे

हाआवेआवीने शयनीकसिज्याखाटनेविषे वेसेवेसीनेइइणेप्रकारे विचारतोऊओ इणेप्रकारे खलुनिचे इहांयकीऊं पोतानाघरथकी  
 नीकलुंजाउं किहाकिण तिमजऊं आब्योतिवारिवाहिरलीपरिखदानावेसणहारामनुब्यदासपुरुषतयातिमजअब्धिं तरमाहिलीपरि  
 पदानावेसणहाराकोइ आदरदेतानहीं कोइआब्योजाणतानथी कोइजभापणियाईनहीं तेकारणथकीअेयभलुं खलुनिचेमममाह  
 रीआत्मागतें जीवितव्यथकीचूकाविवामणी प्रवत्तुं मरुं तोइसअवधारीकरीनेइमचिंतवेचिंतनीने तालपुटतालपुटविषतें आस्यकं  
 सुखमाहिघातेतोहिपणितेनिषतालपुटसेतेतलिपुवनें आक्रमेनहींलागेनहींतिवारपछीतेतलिपुवप्रधाननीलाउत्पलकमलसरिखीवणे  
 कालीघणुतीखीधारावती एहवीअसितरवारप्रतें आपनाखांधकोटगलाने विषे उहरियापेम्बुंकेतिहाते पणितेतरवारनीधाराधार



यते केनापि कुमारेण विरूपमाणप्रकारेण मारयिष्यतीति खंधंसि उवहरद्वत्तिस्त्रंघे उपहरति विविशयतीति धाराओपह्वत्ति अत्र वदीर्णा

तेयलिपुत्ते णौलुप्पलजावअसिंखंधंसि उहरइतत्थविषयसेधाराओपह्वत्ताएणसेतेयलिपुत्तेअमच्चंउरेव  
असोगवणियातेणेवउवागच्छइत्ता पासंगीबाएबंधइत्ता रुक्खं दुग्गहइत्ता पासिरुक्खेबंधइत्ता  
अप्पाणंसुयइ तत्थविषयसेरज्जुच्छिस्सातएणसे तेयलिपुत्ते महइमहालियंसिलंगी वाएबंधइत्ताअ

अपदीर्णाकुंठीच्छंटीयइलेवेठीनहीं तिवारपच्छिवलीतेतेतलिपुत्तप्रधानतिहांथी पाच्छेवलीनेजिहाअसोकवाटिकाअसोकच्चनानव  
नीवाडीच्छेतिहांअविआवीने गलापासाप्रते'कोटनेविषेवांधीनेवृत्तप्रते'जं'चोचटेजं'चोचढीनेपाशोवृत्तनीडालाने'विषेवांधेवांधी  
नेपोतानीआत्माप्रतेहेठोलडयडतोम्भ'के एतलेडालजपरथीहेठुंम्भ'के तिहांपणितेवृत्तनीडालायकी रासडीदोरडीत्तूटीपडीतिवार  
पच्छीतेतेतलिपुत्तप्रधान मोटीघणुंभारेणिलाने'ते'कोटने'विषेवांधेवांधीने अत्याहंअस्तकहतांनिरस्तअविद्यमानं घणुंउं'उंअधस्सलं'ति  
एानरहिवासुंतलबुद्धे जेहसुं'तेअत्याहकच्चिये अथवाथाहकहतांरहिवासुं'तामतलुं'तेहना अभावअणुपामिवायकी याहरहिततेहअ

कुंतीभतेत्यर्थं अत्याहंति अस्मिन्निरस्त्रामविद्यमान मधस्त्रलंप्रतिष्ठानं यस्यततस्ताधः स्तायोवाप्रतिष्ठानं तद्भावादस्ताधं अतारंयस्यतर  
 र्णां नास्तिपुरुषःपरिमाणं चस्यतत्पौरुषेयंतन्निषेधादपौरुषेयं ततःपदत्वयस्यकर्म्मधारयोसकारौच प्राकृतत्वादतस्त्रलसद्धेयमित्यादि

त्याहमतारमपौरिसौयंसिउदयंसि अप्प्राणंसुयइतत्यविसेयाहेजाएतएणंसितेयलिपुत्ते अमच्च सुक्कंसि  
 तणकूडंसिअगणिकायंपक्खिवइत्ता अप्प्राणंसुयइतत्यविसेअगणिकाएविज्जाएतएणंतेयलिपुत्ते अ

याहकहिचेतयावली अतारंकंजेपाणीनुंतरिबुंनयी कोइतरीसकेनहीं तथावलीकेहवुंके अपोरसीयंधणापुरुषपरिमाणमानकेजे  
 पाणीनुंतेपुरुषेयंकहिचे तेपुरुषपरिमाणनाअभावयकी अपौरुषेयंकहिचेएहवायाहरहित अतारअमानमानरहित एहवाउदकपां  
 णीनेंविषे पोतानाआला तें सूंकेबोलेअंपावेतिहापणिसेतेतलिपुत्तनें याहतागयलययोतेकारणयकी तिवारपच्छीतेतलीपुत्तप्रधा  
 नसूकाटणानासमुहनेविषे अगनिक्ताय तें बालिघालीनेपोतानीदेहीभूके अगनिमाहिअंपावे तिवारितिहापणितेअगनिकाय  
 बुभाणोउत्तहाणोशीतलययो तेकारणयकीबल्योनहीं तिवारपच्छीतेतलिपुत्तप्रधान इमअगलिकहिस्थे तिमसनमाहिहिविचारतो

अद्भ्यंअसणावदंति आत्मपरलोकपुण्यपापादिक मर्थजातमतींद्रियस्या पितस्यप्रमाणवाधितत्वे नअद्धानगोचरेत् अहंपुनरेकोअद्भ्यं वदामिपुत्रादिपरिवारदुक्तस्यात्यर्थं राजसंसतस्यचपुत्रादित्वमराजसंसतत्वंच विषस्वङ्गपासकजलाग्निभिरहिंस्यत्वं चालनःप्रतिपाद

मर्चे एवंवयासी सद्भ्यंखलु भोससणावयंति सद्भ्यंखलु भोमाहणावयंति सद्भ्यंखलु, ससणामाह  
णावयंतिअहंएगोअसद्भ्यं वयामिएवंखलु, अहंसहपुत्तेहिंअपुत्तेकोमेदंसद्दिहिस्रई सहमित्तेहिंअ

ह्रवोअद्भ्यसद्दहवाभणीवोग्यखलुनिश्चय असणमहातवयंतिकहेक्के घणायतिसद्दहवायोग्यनिश्चय घणाब्राह्मणकहेक्के अद्भ्यंसद्दह  
वाभणीवोग्येक्के निश्चयअसणघणायती माहणघणाब्राह्मणकहेक्केजेजीवलोक अढाद्द्वीपपरलोकपुण्यपापादिकपदार्थनो समूहतेअती  
द्रियनेतेहनेअप्रमाणकरिवानिमित्त पाचइंद्रियनेआवाधायावापणंकरी सद्दहवाअगोचरपणायकीक्के जेएपदार्थकेणेदीठानथीअने  
यतीब्राह्मणनाकहणथी सद्दहसद्दहेक्केमानेक्के पणिवलीअहंऊं एकएकलोक्कतो अअद्भ्यंअणसद्दहवायोग्यवदामिकहंऊं तेकोद्दसद्दह  
स्येनहींमानस्ये नहीँ एवंइमपर्वोक्तकारे'निश्चेऊं पुत्रादिपरिवारसहितने' घणुंजवलीराजाने'मान्यने' एहवोऊंअपुत्रादिपणुं

यतोममद्युक्तिवाधितत्वे न जनप्रतीतेरविषयत्वेनाच्छेयत्वादिति प्रस्तुतसूत्र भावनातएणमित्यादिहंभोइत्यासंलग्नेपुरतोयतःप्रपातो

मित्तेकोमेदंसद्दहिस्सद्द एवंअत्येणंदारेणं दासेहिंपेसेहिं परिजणेणं एवंखलुतेयलिपुत्ते णंअमच्चै क  
 णगज्झएणंरसा अवज्झाएणंसमाणेणंतेयलिपुत्ते णंअमच्चै णंतालउडगेविसेआसगंसिप्रक्खत्ते सेवि  
 यणंणेसंकमइकोमेदंसद्दहिस्सद्दतेयलिपुत्ते णं अमच्चै णंणौलुप्पलजावखंधंसिअसिंउहरिएतत्थविय

राजानोअमान्यपणुं कऊं तेकुणमाहरो एकहणसद्दहस्येमानस्ये मित्तसहितने ऊं अमित्तुं एह्वुं कऊं छं तेमाहुरं कहणइदंएप्र  
 त्यच्चभोग्योतेकुणसद्दहस्ये इमपूर्वोक्तप्रकारे अर्थद्वारे करी दासदासीसहितने पेसिकामकाजवतानाकरणहारा परिवारसहितने  
 पेसेहिंअदासादिपणुं कऊं छुं एकलोक्खतोतेकुणएसद्दहस्ये इमनिच्चै तेतलिपुत्त ाधाने कनकध्वजराजाइं पाडूयोधाने करी तेक्खतेदुष्ट  
 चिंतवेक्खते करी तेतलिपुत्तप्रधानतालपुटतालपूटविषयुखनेविषे घालेक्खतेतेविषयणिणालागोनहीं विषफोकयवोएकुणमाहरोकहणसद्द  
 हस्ये कुणमानस्ये तेतेतलिपुत्तप्रधान नीलोत्पलनीलाकमलसरिखीवण्ये कालीश्यामलीएहवीतरवारि खांधागलाने विषेसू केयापे

धारापल्लाकोमेदंसद्वहिस्सइ तेयलिपुत्तेअमच्चे पासंगीवाएवंधित्ताजावरज्जुच्छिणाकोमेदंसद्वहि  
 स्सइतेयलिपुत्तेअमच्चे महालियंसिलंजाववंधित्ताअत्थाह जावउदगंसिअप्पासुक्केतत्थवियणंथाहेजा  
 एकोमेदंसद्वहिस्सइ तेयलिपुत्तेअमच्चे सुक्कंसितणकुडे अग्गीविज्झाएकोमेदंसद्वहिस्सइउहयमणसंक

तिहापणितेतरवारनीधारकुंठीचूंठीथइ गलेवइठीनहीं इमहंकहंतेमाहरोकहणकुणसद्वहस्येतेतलिपुत्रप्रधान पासोगलापासोगी  
 वाकोटनें विषेवांधीने वच्चउपरिचढीनें वच्चनीडालानें विषे रासडीवांधीनेहेठे लटक्योतिहांपणितेरासडीबूटीपडीकंठमांहिपेठीन  
 हींइमहंएकलोकहंतेकुणमाहरो कहणएसद्वहस्ये मानस्ये तेतलिपुत्रप्रधानमोटीभारे पाखाणनीशिलाप्रतेंगलानेविषे बांधीनेअथा  
 हअतारअपरिसाणोपेतएहवा उदकपाणीनें विषे आत्मादेहप्रतेसू केभंपावे तिहापणियाहयलयथयोइमऊं कहं एकलो तेमाहकं क  
 हणकुणसद्वहस्ये तेतलिपुत्रप्रधानसूकाठणानाससूहनेविषेअगनिलगाडीबलतुं करीअगनिमाहिपेठोतिहांपणिअगनिअ बहाणोता  
 दोसीतलयथोकुणमाहकं कहणएसद्वहस्ये कोईमानस्ये नहीं इमविचारताछ्छताऊपनोक्केमनमाहिअत्तं ध्यानरूपसंकल्पविकल्पऊपनो

गतष्टतोहस्तिभयंदुहउत्ति उभयतःअचक्षुःस्यर्षो धकारं मध्ये मध्यभागेयत्रवयसास्त्रहेतत्रशरात्राणानिपतन्ति ततश्चसर्वतोभयंवर्तत

प्रेजावज्जिभयायद्रुतएणसेपोद्विलेदेवेपोद्विलाखुवंविउव्वद्रुत्तातेयलिपुत्तस्स अमच्चअद्रुरसामंतेद्विच्चा  
एवंवयासौहंभोतेयलिपुत्तापुरओपवाएपिडुओहत्थिभयंदुह ओअचक्खुपासमज्जेसरणिणवरिसंति  
गामेपलित्तेरखे जिभयाद्रुखेपलित्ते गामेज्जिभयाद्रुआउसेतेयलिपुत्ताकओवयाभो तएणंतेयलिपुत्ते

छतोचिंतारूपध्यानध्यावेच्छे चिंताकरेच्छेतिवारितेपोद्विला देवता पोद्विलास्त्रीनारूपप्रते विक्रवेविक्रुर्वीने तेतलिपुत्रप्रधाननेषणुवेग  
लंनहींघणुंढकडुंनहींइसरहीने इणंप्रकारेपोद्विला देवकहतोडुओ हंभोहेतेतलिपुत्रप्रधानपुरतःआगलियकीप्रपातगतीखाडविकुवे  
पाच्छलियकीहाथीनोभयविक्रुर्वदूहओक० आगलिपाच्छलिवेहुंथकीअचक्खुनेलानोफरिसनहींछेअंधकाररूपछेअंधारामांहिहींडिछेमध्ये  
मध्यभागनेविषे जिहाअम्हे रद्दात्तातिहांगरात्राणाः घणाशरतेपडेछेआवेछे तेकारणयकीसगलीदिशियकीभयछे ग्रामअगनिकारीप  
लित्तवलेछेअने वलीसांभली अरण्यअटवीधमधमायमानंछे घणुं आकरोदाहवलेछे अरण्यअटवीअगनिकारी वलेछेगामघणुं धमध

घा०टी०

११०

सूत्र

भाषा

इत्यर्थः तथाग्रामः प्रदीप्तो अग्निना ज्वलति अरण्यं तुष्मायते अनुपशान्तिदाहं वर्त्तते अथवा ध्यायतीति ध्यायति अग्नेरविधानेन जागर्त्ती  
वेत्यर्थः अथवा अरण्यं प्रदीप्तं ग्रामो ध्मायतेन विध्यापयति एवं सर्वस्यापि भयानकत्वात् स्थानान्तरस्य चाभावादायुष्मांशे तलिपुत्रः कडत्ति  
कत्रजामः कभीतैर्गंतव्यमस्माभिरिवान्येनापि भवतीति प्रश्नः उत्तरं च भीतस्य प्रब्रज्या शरणं भवतीति गस्यते यथोक्ता शिवादीनां स्वदेश

अमर्चे पोष्टिलं एवं वयासौ भीयस्सखलुभोपवज्जा उक्कं द्वियस्ससदेसगमणं च्छु, हीयस्स अणं ति सियस्स  
पाणं अउरस्स भेसज्जं माइयस्स र्हस्सं अभिज्जु, तस्सपच्चयकरणं अद्वाणं परि संतस्स वाहणगमणं तरि

मायमानथाइक्के अगनिं करीइणं प्रकारे संगले भयानकं भयपामिवापणाथकीवीजायानकं किहां जावाना अभावथकी हेआयुष्मन् हे  
आउखावंत हे ते तलिपुत्रकओकहतां किहां वयामोकं व्रजामजाउं अग्हेवीहकरी किहाजावुं अम्हारी परिइं इमपूछोति वारि ते तलिपुत्र  
प्रधानपोष्टिलदेवताप्रते इमअगलिकहिस्से तिमऊत्तरदेतोइओ खलुनिश्चेभीतस्य क० वीहकवंतने प्रवर्जादिद्याचारित्तनुं शरणक्केभो  
देवजिमंउत्कं ठितादिपोताना देसनेविषे जावाप्रतंउत्कं ठाथाइं मनुथने तिमवीहकवंतने दिद्यानुं शरणवुभुच्चित्तमूख्याने अन्ननो  
शरणतिरिस्सांजीवाने पांणीशरणआतुरपीडावंतरोगीअने भेषजओषधशरणमायावीकपटीने छांनाते शरणअभिजुत्तस्य क० ऊ

गमनादीनितल्लुहस्वस्ति बुभुक्षितस्यसाधिनोवंचकस्य रहस्यंगुप्तत्वं शरणमिति सर्वत्रगमनीयंअभियुक्तस्य सम्पादितद्रूषणस्यप्रत्य  
 चकरणद्रूषणापोहेनप्रतीत्युत्पादनं तरीतुकामस्यनद्यादिकं सवनंतरंगंकृत्यं कार्यवस्यतत् सवनकृत्यन्तरकाण्डं परमभिवोक्तुकामस्या  
 भिभविष्यतुकामस्यसहायकृत्यं सितादिकृत्यं सहायकस्मेति अथकथंभीतस्यप्रव्रज्याशरणंभवति अतश्चतेखंतैत्यादिचांतस्यकोषनिग्र  
 हेणदान्तस्येन्द्रियनोद्भूतदत्तेन जितेन्द्रियस्यविषयेषु रागादिनिष्ठुरोद्भूः एत्तोत्तिएतेस्थोनन्तरोदितेभ्योश्रुतः प्रपातादिभ्योभयेभ्यः

उकामस्सप्रवहणंकिञ्चंपरंअभिउं जियकामस्ससहायकिञ्चंतस्सदंतस्सजियंदियस्सएत्तोएगमविणभव

पनाकीधद्रूषणनुं प्रतीतनुं करिवुं द्रूषणजपने ईहांपोहकारीद्रूषणनें टालवेकरीप्रतीतनुं उपजावुं तेशरणअध्वामार्गनेविषेपाला  
 चालवेकरीपरिआंतघणुं याकाने वाहणगाडीघोडाप्रमुखप्रवहणजपरिचठीजाइवोतेशरणतरिवाभणी कामस्यवांछितानद्यादिकप्र  
 तेसवनतरिवुं सीखविवुं तेकिञ्चंकं कृत्यकार्येजेहनें तेसरण परअनेराप्रते अमिउं जियकहतां अभिभविवापराभविवाभणीकाम  
 अभिलापवाच्छेजेहनें एहवानेसहायकिञ्चंकं सखामितादिकनुं कृत्यकार्येजे हनेतेशरणहिवेकिमनीहकवंतने दिच्चानुं शर



एकमपि भयं न भवति प्रब्रजि तस्य सामाधिकपरिणत्याशरीरादिषु निरभिष्वंगत्वात् मरणदिभयाभावादिति एवं देवेनामात्यः स्ववाचाभीतस्य प्रवक्ष्याञ्चेत्सीत्यभ्युपगमं कारयित्वा एवमुक्तं सुहृद्इत्यादि अत्र मर्थो भीतस्य प्रवक्ष्याशरणमिति यद्विप्रतिज्ञायते तदा सुष्ठु ते म

इत एणं सेपो द्विले देवे ते यलिपुत्तं अमच्चं एवं वयासी सुदुर्गुणं तु मे ते यलिपुत्ता एयमद्दुं आयाणाहि त्तिकाट्ट,

गुह्यं एकारणयकी ते कही ये क्के क्षमावंतने क्रोधने निग्रहे करी दांतने पांचइं द्रियअने मनने दमवें करी दातदस्याक्के पांचइं द्रिय छट्टो मनजेणे एहवाने दिक्षानुं शरण जीत्याक्के इं द्रियविषयने विषे रागादिस् धवा भणी एत्तो क० एसमी पवर्त्ती कक्ष्युं आगलियकी खाडहायी आदिकनाभयथकी एकपणि भयन ऊइए ः मां हिलो एकपणि भयजपजे नही दिक्षालीधीने सामाडूकपरिणतिं करी शरीरादिकने विषे निलीभताममतानारहितथकी मरणादिकनाभयनाअभावथकी सर्वथा भयनपांसे एवं इमपवूर्त्तप्रकारे देवताइं ते तलिपुत्वप्रधानपोताने वचने करी वीहताने दिक्षाले वी ते अयकल्याणते अंगीकारकरावीने इमकक्ष्यो तिवारपक्की ते पो द्विलदेवता ते तलिपुत्व प्रधानप्रते इमकक्ष्यो सुष्ठु भलुं कक्ष्युं ते हे ते तलिपुत्व एअर्थवीहताने दिक्षानुं शरणजोतुं अंगीकारकरे तो भलुं ताहखं जांशयुं भ

तं भयाभिभूतस्तु इदानीमसीति एवमर्थमजानी हि अस्तुष्ठानद्वारेण वद्व्यख प्रवज्यां विषे हीतियावत् इह षयद्यापि सूत्रे उपनयो नोक्तस्त

दोच्चं पितृच्चं पि एवं वयद् इत्ताजामेवदिसिंपाउभू एतामेवदिसिंपडिगएतएणंतस्वतेयलिपुत्तस्व अमच्च  
सुमेणंप्रिणामेणंजाईसरेससुप्पण्ये तएणंतस्वतेयलिपुत्तस्वअमच्चस्यमेयाख्वेअज्जत्थि एचिंति ए  
पत्थिएसणोगएसं रूप्ये समुप्पज्जित्याएंखलुअहंइहेवजंबूहीवेइमहाविदेहेवासेपुक्खलावईविजएणुंड

यं करीपीड्यापुरुपनें हिवेभयनहींछे एअर्थप्रयोजनप्रतें तुं जाणिक्कियातप संयमअनुष्ठानद्वारे करी आराधिदिक्षाप्रतें ग्रहितिकट्टइ  
सकरीनें सगलाभयट्टालिवेवार त्रिणवारइणे प्रकारेकहेजेणीदिशियकीप्रकटथयोआव्योहंतोपोट्टिलदेवतातेणीजदिशिंपाच्छेवलीने  
गयोपोट्टिलदेवता तिवारपच्चीतेतेतलिपुत्तप्रधाननें शुभभलें परिणामे करीजातीसमरणज्ञानऊपनोपाच्छिलःभवदीठातिवारितेतेत  
लिपुत्तप्रधाननें एहवोआत्माने विषे अणप्रार्थोचिंत्तारूपएहवोमनमाहि भावऊपजेएवं इणे प्रकारेखलुनिश्चेऊं जंबूहीपनामाहीप  
नेविषे महाविदेहवासत्तेनेविषे पुष्कलावतीनामविजयनेविषे पुंडरीकणीनामाराजधानीनगरीनेविषे महापद्मनामाराजाहं तो

रौगिणीएरायहाणीए महापलमेणामंरायाहोत्या तएणंअहं घेराणंअंतिए सुं डिभवित्ता जावचउ  
 दस्सपुब्बाइं वड्ढणिवासाणि सामस्सपरियायं पाउणित्तामासियाएसंलेहणाए सहासुक्के कप्पं देवत्ता  
 एउववस्सेतएणंअहंताओदेवलोगाओआडक्वएणंठिइक्वएणं भवक्वएणंइहेवतेयलिपुरेणयरेतेयलि  
 स्सअमच्चस्समहाएभारियाएदारगत्ताए पयायाएतंसेयंखलुममपुब्बदिट्ठाइं पंचमहब्बयाइं सयमेवउव

तिवारिऊं थिवरसाधुचारित्तीयासमीपनेविषे सुं डथइनेदिख्यालेइने सामायकअध्ययनआदिदेईचउदपरवभख्यापछे घणातपकरी  
 घणावरसलगी चारितनपर्यायदिख्याप्रते पालीनेएकमासदिवसनीसंलेखणाइं करी कालकरीने महाशुकनामाकल्पदेवलोकशुक  
 नामालोकनेविषे देवतापणेऊपनोतिवारिऊं तेसातमाशुकदेवलोकथकी देवतासंबंधीआउखाने चयकरी देवतामाहिस्थितिरहिवा  
 नीथितिनेचधे करी देवातानाभवनेचधे करी चवीनेआएहिजेततलिकपुरनगरनेविषे तेतलिनानामाप्रधाननी भद्रानामाभार्यास्त्री  
 तेहनीक्खिनेविषे पुत्रपणेजनमपास्योतेकारणथकी अयखलुनिचे ममसुक्कने पूर्विलापाक्खियाभवना दीठांएहवापांचमहाव्रतप्रते

संपञ्जिताणं विहरित्त ए एवं संपदेद्देहत्तासयमेवंपंचमहव्वयाद् आरहद्देहत्ताजेदप्रमथवणेउज्जयेजे  
वअसोगत्ररपावयवस्स अहेपुढविसिलापट्टयसि सुहणिससस्स चिंतेसाणस्स पुव्वाहियाद् सामाइया  
इं इक्कारस अंगाइचोइसपुव्वाद् सयमेव अभिससयागयाद् तएणंतेयलिपुत्तस्स अणगारस्स कुभेणं  
परिणामेणं जावतयावरणिज्जाणं कस्साणं खलवसमेणं कस्सरयविकारणकारं अपुव्वकरणं प्रविट्टस्स अणं

पोतेजपोतानीमे लिंग अंगीकारकरीने विचरवाभणीप्रवत्तुं इणंप्रकारे विचारे विचारीने स्वमेवपोते जपंचमहाजतप्रते आर  
हेचढेउचरेउचरीने जिहाप्रमदवननासाउद्यानवनखंडछे असोकवरप्रधानदृच्छेतेअथोकदत्तने हेठिपृथवीशिलापट्टेतेपृथवीसि  
लापट्टनेविषे सुखे ससाधिवेठानेदूमचिंतवता संभारतांछतानेपूर्वेपाच्छियाभवनेविषे अधितभयाएहवासामाइकअध्ययनआदिदेइ  
इग्यारेअंगचोदपूर्वताइं सगलुं भणुं हं तो स्वयमेवपोतेजभया विनाआव्या पाच्छिलाभयासाभया तिवारपछीतेतलिपुत्रअणगारसा  
धुनेशुभभले परिणामे करी तालगीजतिकेवलज्ञानआवरणना ढांकवानाजेकस्म घातिथा तेकस्माने चयकरीउपसमे करीएतले च

ते अणुत्तरेणैवाध्याएणिरावणे कसिणेपडिपुखे केवलवरणाणदंसणे समुप्यखे तएणतेयलिपुरेणयरे  
 अहासणिहिंवाणसंतरेहिंदेवेहिं देवदुं दुहीओसमाहयाओ दसद्ववखे कुसमेणिवाइए दिव्वेगीयंगंध  
 व्वणिणाएकयाएयाविहोथ्या तएणसेकणउभएराया इमिसेकहाएलद्धेसमाणे एवंवयासीएवंखलु

योपसमिकभावेकरी कर्म्म रूपजेरजपापतेहने विखेरी अलगोकरीटाखिनेएहवा तेतलिपुवसाधुनेअपूर्वकरणेप्रते पेठाने एतले अपू  
 रवकरणनामाआठमागुणठाणाथकी जपकअेणिप्रते पइठाने अनंतअंतरहितअनुत्तरसगलाज्ञानमाहि प्रधानसर्वौल्लु इनिव्याघा  
 तव्याघातरहितकओडिभीत्तिप्रमुखनेविषे निरावरणआवरणरहितकणसंपूर्णे प्रतिपूर्णएहवोकेवलनिःकेवलसखाय सहायरहितव  
 रप्रधानज्ञानदर्शनउपबुं तिवारपच्छीतेतलिपुरनगरनेविषे यथासमीपवर्त्तीघणुं दूकडारहेके एहवावागव्यंतर देवता बलीदेवदुं द  
 भिनादयजाडताछता पंचवर्णफूलनी वृष्टिकरेदिव्यप्रधान गीतग्यानगंधर्वग्यानना निनाद शब्दकरताह्वा तेकनक ध्वजराजाए  
 हवीकथावार्त्तादिख्यालीघानी सांभलीकेवलज्ञानउपबुं सांभलीने एहवोअर्थसमाचारलह्योपाय्योछतो इणेप्रकारे चिंतवतोऊओ

तेयलिअमच्चेमएअवउक्कएजावसुडेभवितापव्वइएतंगच्छामिणंतेयलिपुत्तंअणगारंवंदामिणमंसामि  
 पज्जुवासामीएयमइंविणएणंभूज्जोइखाभेइएवंसंप्रेहिइत्ताएजावचउरिंरणौएसेणाएजेणेवपमय  
 वणेउज्जाणेजेणेवतेयलिपुत्तेअणगारेतेणेवउवागच्छइत्तातेयलिपुत्तंअणगारंवंदइणमंसइएयमइं  
 विणएणंभूज्जोइखाभेइएणञ्चासणेपज्जुवासइतएणंसेतेयलिपुत्तेअणगारेकणगज्जकयस्सरखोतीसेयधम्मं

राजाइमपूर्विलेखलुनिच्चे तेतलिपुवजपरिमेअपथ्यानदुष्टचींतव्यो अपमान्योमेअदरदीधोनहों तेकारणथकीमसकलोचीसुं डय  
 द्विद्वालीधीक्के तेकारणथकीऊंजाउ तेतलिपुवअनगारसाधुप्रते वाडुंनमस्कारकणं पर्युपासनासेवाकणं एपूर्विअपमानादिके  
 करीदूहवणकीधीक्केएअर्थप्रयोजनप्रते विनयें करीवारंवारअपराधप्रते खासुंइणेप्रकारे विचारेविचारीने स्नानअंधोलिकरीतांल  
 गिजाच्यारप्रकारनीसेनासंवाते पविस्वोक्तोराजाजिहाप्रमदवनउद्यानवनखंडक्के जिहातेतलिपुवअणगारसाधुक्के तिहाअविआ  
 बीनेतेतलिपुवअनगारसाधुप्रतेवादे नमस्कारकरीवादीने नमस्कारकरीनेएहअपराधदूहवणरूपअर्थप्रचे विनयें करीवारंवारवली

परिकहेइ तएणंकणगजभाएरायातेयलिपुत्तस्स केवलिससअंतिएधम्मं सोच्चाणिसम्मपंचाणुव्वइयंसत्त  
सिक्खावइयंसदग्धम्मं पडिवज्जइसमणेवासएजाएअभिगयजीवाजीवितएणं तेयलिपुत्तेकेवलीवडुणी  
वासाणिकेवलिपरियागंपाउणित्ताजावसिइ एवंखलुजंबूसमणेणं भगवयामहावीरेणंचउइस्समस्स  
णायज्झयणस्स अयमइ पयत्तेत्तिवेमिजावणइक्खं प्रत्तामाणभंसंचपाणिणेपायंतावणधम्मांगरहं

रखामेराजाअतिघणुंवेगलुंनहौं टूकडुपणनहौंइमवेठोछतोखेवाकरेछे तिवारपच्छीतेतलीपुत्तसाधु कनकध्वजराजाने तेहनेधम्मं  
प्रतेकहेतिवारितिहां कनकध्वजराजातेतलिपुत्तनामाकेवली समीपने विषधर्मप्रते संभलीने हीयामाहिअवधारीने पांचअणुव  
तसातगिख्यावत आवकनाधर्मप्रते पडिवजेअंगीकारकरेकरीने अमणीपासकआवकथयो अभिगतजाण्याछेजीवअजीवादिनवतत्वजे  
णंकनकध्वजराजाइं एहवोआवकथयो तिवारपच्छीतेतलिपुत्तकेवली बह्वघणावरसतांइ केवलज्ञाननोपर्यायप्रते पालीने तांलगीजां  
सिद्धययो सुधर्मास्वामीकहेइणीपरिनिश्चे हेजंबअमण भगवंतस्त्रीमहावीरदेवे चउदमाज्ञाताअध्ययननोएअर्थकह्यो सुभनेतेहवो

थाये वंद्मश्च जावनदुक्खं पत्तामाणम् संचपाणिणोपायं तावनधम्मं गिरहंति भावञ्चोतेवल्लिखुत्तसमाप्तं चतुर्दशज्ञातविवरणं  
अधुनापंचदशंवित्रियते अस्यचैवंपूर्वेणसहस्रसन्धः पूर्वस्मिन्नपमाननाद्विषयत्यागः इहतुजिनोपदेशात्तत्रचसत्यर्थः प्राप्तिस्तदभावेत्

तिभावञ्चोतेयलिसुयम्बं चोद्दसंणायज्जकयणंससत्तं १४जद्रुणंभंतेसमणेणंभगवयामहावीरिणंचउद्द  
समस्वणायज्जकयणस्स अथजडुपसत्तेपस्सरसमस्सणंभंतेणायज्जकयणस्ससमणेणंभगवयामहावीरिणंकी

जअर्थउं तुभप्रतंकहं कुं हिवे इष्टातनीगायाकहेच्छेजिहांलगीदुखप्रतेपामे नहीचपुनवलीमानञ्चं सप्रते प्राणीजीवपायंपाइं नहीता  
लगीधर्म प्रते ग्रहेनहींभावयकीतेतलिपुतनीपरि १ ज्ञातानोचउदमोअध्ययनसंपूर्णययो १४ हिवेपरमोज्ञातानोअध्ययनवखाणेछेएपनर  
माअध्ययननोएचोदमाअध्ययनसंघातेसंवंधकहेपूर्वे पाछिल्याचउदमाअध्ययनने विषेअपमानयकीविषयनोत्याजिवो कह्योअने इहांप  
नरमाअध्ययनमाहिवीतरागनाउपदेशयकीवलीतिहाछताविद्यमानअर्थनीप्राप्तितेधर्मनाअभावयकीअर्थनीप्राप्तिहुइएहवोअधिकार  
कहीयेछे जंवपछेजोहेभगवन् अमणभगवंतञ्चीमहावीरदेवे चउदमाज्ञाताअध्ययननोएअर्थकह्योतेमे साभल्योहिवे पनरमाज्ञाताना



अद्वेपणत्ते एवं खलुजंबू तेणं कालेणंतेणं समएणं चंपाणामंणयरी होत्था पुस्सभद्दे चेट्टए जियसत्तूणा  
 मंरायातत्थणं चंपाएणयरीए धस्से णामंसत्थवाहे होत्था अट्टुजावअपरिभूए तीसेणं चंपाएणयरीए उ  
 त्तरपुरिच्छिमेदि सीभाए अहिच्छताणामंणयरी होत्था रिद्धत्थमियसमिद्धावस्सओतत्थणं अहिच्छता  
 एणयरीए कणगकेऊणामंराया होत्था महयावस्सओतएणंतस्स धस्सस्स सत्थवाहस्स अस्सयाकयाइं पु

अध्ययननोअमणभगवंतश्रीमहावीरदेवे स्थाअर्थकह्योक्ते ते कहो सुधर्मा स्वामी कहे इमआगलिकहिस्से तिमनिच्चे हेजंबू ते कालते समयने  
 विषे चंपानगरीहुं तीतिहांपूर्णभद्रचैत्यदेहरंछे जितयत्तू नामाराजाऊं तोतिहांते चंपानगरीने विषे धन्वीना मासार्थवाहहुं तोवणीच्छ  
 द्विनोषणीच्छे तांलगिजांअपरिभूतकोइ पराभवीसकेनहीं एहवोच्छे ते चंपानगरीने विषे उत्तरदिशिपूर्वदिशि विचालेइशानकृणनाभा  
 गने विषे अहिच्छत्वानामानगरीऊं ती केहवीच्छेच्छद्विं करीस्समितनिच्चलच्छे एकारणयकीससहद्विच्छद्विवतीच्छे वर्णकलवाइं यकीजागि  
 वोतिहाते अहिच्छत्वानगरीने विषे कनककेतुनामाराजाऊं तो मोटोहिमवंतपर्वतसरिखोच्छे राजाउवाइं सूत्वथकीवर्णकजागिबोतिहां

व्वरत्तावत्तकालसमयं सिद्धमेयाखूवे अज्झत्थिएचिंति एप्रत्थिएसणोगए संकप्पे ससुप्पज्जित्थातंसेयं  
 खलुममविउलं पणियभंडगमायाय अहिच्छत्तं शयथिंवाणिल्लाएगमित्तए एवंसंपेहेइइत्तागणिसं च  
 धरिअं चसेयज्जं चपारित्थिज्जं चउल्लिहं डंगंगिरुहइत्ता सगडिसागडिसज्जे इइत्ता सगडौसाग  
 डौभरेइइत्ता कोडुं वियपुरिसिसहावेइइत्ता एवंवयासौगच्छहणंतुभेदेवाणुप्पिया चंपाएणयरीएसिं

तेधन्नासार्थवाहने एकदासमे पूर्वरातिअपररातिएतले सथरातिनाकालसमयनेविषे एहवुं आत्मानेविषे रहुं प्राथ्योचिंता रूपमन  
 माहिरत्थोएहवोसंकल्पविकल्पजपजे तेअयभलुं खलुनिचे ममसुभने विपुलविस्तीरणपणियंक० सरसतेलवीगोलप्रमुखभांडक्रिया  
 णाप्रतेलेइने अहिच्छत्वानगरीप्रते व्यापारकरिवाजावाभणीउद्यमकणं इणंप्रकारे चिंतवेचिंतवीने नालियरसुपारीगणयोच्छतोवेचावे  
 लाकडीइंतोत्वोवेचावे जेसेरपालीअधपालीमाने करीपरिखीवेचावेमणिवस्त्रप्रमुखएचारप्रकारनाभांडक्रियाणाप्रते ग्रहेल्येलेइने  
 गाडीगाडानासमूहप्रते उज्जकरेसज्जकरीने गाडीगाडलानासमूहप्रतंभरेभरीने कोटुं विकथादेशकारीपुरुषांप्रते तेडावेतेडावीने

नर्धप्रारिभधीयते इत्येवंसम्बन्धमिदं सर्वसुगमंनवरं चरएवेत्यादितवचरकोघाटिभिन्नाचरः चीरिकोरथ्यापतितचीवरपरिधानः  
धीरोपकरणइत्यन्ये चर्मखण्डकश्मर्मा परिधानः चर्मोपकरणइतिचान्ये भिन्नोडोभिन्नाभोजीसुगतशासनस्यइत्यन्ये पांडुरागःशै

धाडगजावमहापहहेसु एवंखलुदेवाणुप्पियाधस्से सत्यवाहेविपुलं पणियंइच्छयइ अहिच्छत्तं णयारिं  
वाणिल्लाएगमित्तएतं जोणंदेवाणुप्पिया चरएवाचौरिएवाचम्मं खडिएवाभिकखु डेवापंडरगेवागोय

इणेप्रकारे कहतोहओ जाओतुम्हे हेदेवानुप्रियोसेवको चंपानगरीनेविषे त्रिखूणमार्गतिवटाचउवटामोटाराजमार्गना पंथतेहने  
विषेजईर इणे प्रकारे खलुनिश्चेहेदेवानुप्रियो हेनगरनिवासीलोको धन्नोसार्थवाहविपुलघणा प्रसिद्धतररसतेलधीगोलप्रमुखकि  
याणाप्रते लेइने वांछेअहिच्छत्वानगरीप्रते व्यापारकरिवाजावाभणीतेकारणयकीजेहनेकामकाजुवेतेआवोहेदेवानुप्रियोकेहवारने  
कहेतेकहेछे चरकवीद्धादिमतनोभिख्याचरपरलोका दिनमानेतेहवामार्गने विषे पड्यालगडांपहिरैतेहवाभिख्यारी चर्मखंडिकचा  
मडोपहिरैहीडेएहवालोकिभिख्याभोजीबौद्धादिमतमांहिरह्याएहवापाडु, रागशैवमतनासंन्यासीअथवागृहस्थशैवगोमतनागोतमक०

वः गौतमः लघुतराच्चमालावर्चितविचित्रपादपतताति शिखाकलापवत्दृषभकोपायतः कणभिचाग्राहीगोव्रतिकः गोचर्यानुकारीउक्तं चगोवीहिंसमंनिगमपदेसपाणासणाएकरेति भुंजतिजहागावीतिरिक्खभासंविभातंता १ गृहधर्मागृहस्थधर्मएवश्रेयानित्यभिसंधा चतद्यथोक्तकारीधर्म चिन्तकोधर्मसंहितापरिज्ञानवान् सभासदः अविरोद्धोविणयकारी देवाङ्गणंपराद्भृत्तीए जहवेसिंघायणसुओ एवंअस्मे विनायब्बाविरुद्धोक्रियावादी परलोकानभ्युपगमात्सर्वाद्विभ्योविरुद्धएव दृष्ट्वां पसः प्रथमसुत्पन्नत्वात्प्रा

### मेवागोभक्तिएवागिहधस्मेवागिहधस्मर्चिंतएवाअविरुद्धविरुद्धुसावगरत्तपडण्णिगंगयपभिद्रुप्रासंडत्ये

लङ्कडोअच्चमालायरीरे' चीतखालगडापहिरीवणेप्रकारे एगेपडवादिशिखामणनासम्हनी परिदृषभवलदनाकोपयकीकरणनीभि ख्यानालेण्णहाराएहवालोका गोव्रतिकगाइसंधातेचालेवे सेभोजनकरेजिसगाइकरे तिमकरेतेगोव्रतिककहिंये एहवालोकागृहधर्मा गृहस्थनोधर्मजभलोइमकहीने तेजिमकह्योतिसकरे धर्मचिंतकक०धर्मनेविषे मेलीकरीज्ञानवंतनीसभामांहिंवेसे एहवालोकातथाअ विरुद्धविनयकरे देवादिकनेयथाअविरुद्धोविणयकारी देवाङ्गणंपराएभत्तिएजहवेसियाणसुओ एवंअन्ने विनायब्बाविरुद्धअक्रिया

बोधकाले च दीक्षा प्रतिपत्तेः आवको ब्राह्मणः अन्ये तु दृष्ट्वावकः इति व्याचक्षते स च ब्राह्मण एव रक्तपटः परिव्राजको निग्रन्थः साधुः प्रभृतिग्रहणात्कपिलादिपरिग्रह इति पत्ययणंति पथ्यदंशं वलं पक्खेवंति अर्द्धं पथे त्रुटितं शं वलस्य शं वलपूरणद्रव्यप्रक्षेपकः पडियस्सत्तिवाह

वागिहत्येवाधरणं सद्धिं अहिच्छत्तिंणय रिंगच्छइ तस्सणंधरणे सत्थवाहे अच्छत्तगस्स छत्तगंदलयइ  
अणुवाहणस्सवाहणाओ दलयइ अकुं डियस्स कुं डियंदलयइ अपत्थायणस्सपत्थयणंदलयइ अपक्खे

वादीपरलोकने अणुमानवाथकीसगलावादीथकीविरुद्धजएहवातथा बुद्धदृष्टतापसप्रथमपहिला उपजवापणाथकी प्राइं बडपणनाप्रखावनेविषे दिक्षानालेवाथकीएहवातथासावगआवकवाह्मणतथारत्तपडरातागेरूनापटपट्टिरेक्खेपरिव्राजकसंन्यासीनिग्रंथजेनसाधुयतीप्रभृतिशब्दनाग्रहणथकी कपिलादिमतनारुंन्यासीएहवापाखडी गृहस्थजे कोर्द्धधन्नासार्थवाहसंघाते अहिच्छत्वानगरीप्रते जाइ तेहने धन्नीसार्थवाहक्खतरहितक्खत्तनऊइ तेहने छत्तप्रते आपेक्खे अणुंवाहणाने पगरखानऊइ तेहने उपानहपगरखा आपेक्खे जेहने कुं डिकाभाजनपात्तनइइ तेहने कुं डिकाप्रते पात्तप्रते आपेक्खे जेहने पथ्यदनकहतां वाटनो संवलखरचनइइ तेहने पथ्यदनशं वलख

नात्प्रतितस्यरोगेवापतितस्य भग्नलुगस्त्वितिवाहनात्स्वलनाद्वापतने भग्नस्यरुग्नस्यचजीर्णतांगतस्येत्यर्थः हंदिच्छिन्नामन्त्रणेनाद्द्विवि

वगस्त्वपक्वेवंदलयद् अंतरावियसेपडियस्त्वामग्नलुगस्त्वसाहिज्जंदलयद्सुहंसुहेणं अहिच्छत्तंरंप्रा  
वेदतिकद्दु, दोच्चं पित्तच्चं पि उग्धोसणंलग्नधोसेह ममएयमाणत्तियंपच्चपिए ह तएणंतेकोडंविचयपुरिसा

रचआपेक्षे जेहनें आधाअर्द्धमार्गनें विषेः शटितययात्बूशंवलनेशंवलहृद्द तेहनें शंवलखरचपूरिवोद्रव्यवाली आपेक्षेवाटिअधवि  
चालाने विषेः पडियस्त्वकहताषोडागाडागाडीप्रसुखवाहणयकी पड्यानें रोगिकरीपीद्यानें तथाभग्नलुगस्त्वक० प्रवहणयकी अथवा  
चालतायलनाआखडवायकी पडवायकीभग्नभागक्षे अंगोपांगजेहनारुगस्त्वक० वलीजनजीर्णपणाप्रतेः ययोक्षे एहवातेसाहाज्य  
प्रतेः दोक्षेआपेक्षे सुखेः समाधिनिर्दिष्टपणंकरी अहिच्छत्वानगरीप्रतेः भलीपरिपमाडस्ये पहंताकरस्येद्दमकहीनें वेवारतिणवारउ  
दूधोपणाप्रतेः उद्गोषोक्तरो माहरीएआज्ञाप्रतेः करीनें पाक्षीस्त्वोद्दमकक्ष्यो तिवारपक्षीतेआदेशकारी पुरुषतहत्तिकरीधन्नासार्थवा  
हनासमीपयकी नीकलेः नीकलीनें तिहाजईनें इणेः प्रकारेकहताहृद्द आ हंदिद्वित्तिआमंलणे अहोसाभलोतुहं सहरुभगवंतोज्ञानवंतो

जावएवंवयासीहंदिषुणंतु भगवंतो चंपाएणथरीएवत्यव्वावहवेचरगाजावपच्चप्पिणंतितएणंतिसिंकोडं  
 विथपुरिसाणंअंतिएसोच्चा चंपाएणमरीए वहवेचरगायजिणेवधखे सत्यवाहे तेणेवउवाग  
 च्छइ तएणंधखे सत्यवाहेतेसिंचरगाणय जावगिहत्याणय अच्छत्तगस्सकृतंदलयई जावपत्ययणंद  
 लइगच्छहणं तुभेदेवाणुप्पियाचंपाएणथरीएवहियाअग्गु जजाणंसिममं पडिवालैमाणां चिइहतए

चंपानगरीनें विषे वसणहारालोकोधन्नोसार्थवाहव्यापारनिमत्त अहिच्छत्वानगरीप्रते जावेक्के तेभणीघणाचरकभिख्यारीप्रमुखसग  
 लाजेअवेअहिच्छत्वानगरीप्रते तेहनें क्तवआदि देईखरचवाहनसाहाज्यआपेक्केइमउदूधोषणाकरीपाछीआवीनें धन्नानेसू पेजेअम्हे  
 उदूधोषणाकरीआव्याक्षांतिवारितेआदेशकारीपुरुषांनासमीपनेविषेएहवीउदूधोषणासंभलीनेंचंपानगरीनावसणहारारबडघणाच  
 रकभिख्याचरआदि देईताल गिजांगटहस्यपयंतसगलाजिहांवन्नोसार्थवाहक्केतिहांआवेआवीनेतिवारिधन्नोसार्थवाहतेचरकभिख्याचर  
 आदि देईतांलगीजांगटहस्यपयंतसगलानेजेहनेकत्वप्रते दीयेआपेतालगीजाजेहनें पगरखानऊइतेहनें पगरखाआपेजे

गिद्धे हिंअद्वाणेहिंतिनातिविद्यष्टेषु नातिदीर्घेष्वधसुप्रयाणकमार्गेषुवसन् शुभैरबुक्त्वैवसति गतराशौ आवासस्थानैः प्रातर्भोजनका

रां चरगायधस्येणं सत्थवाहेणं एवं बुत्तासलाणाजावचिङ्कं तितएणंधस्ये सत्थवाहेसोहणंसितिहि कररण  
 क्वत्तमुद्धत्तंसिविपुलं असणंप्राणं खाइभंसाइभंसित्तणाइआसंतैइत्ताभोयणंभोयावेइत्ताआपुच्छइ  
 इत्तासगडिसागडंजोयावेइत्ताचंपाअणयरीओणिगच्छइत्ताणाद्विविगिद्धिंअद्वाणेहिं वसमाणेइ

इनें खरचनऊईतेइनें खरचआपे आपीनेंजाओतुइहे देवाबुप्रियो चंपानगरीनें वाहिरअग्रनाभा उद्याननेविषेजईमाहरीवाट  
 जोताछताररहिन्वोचरकभिखाचरआदिदेई सगलागटहथपयंतधन्नें सार्थवाहे' इणंप्रकारे' कच्छाकृताचंपानगरीनें वाहिरअग्रउद्या  
 नवनखंडसाहिजाई धन्नासार्थवाहनीवाटजोतारहेछे तिवारपच्छीधन्तोसार्थवाहयोभनभलीतिथिभलाकरणभतानबलभलासुहृतेने  
 विषेविपुलघणुं अन्नपाणीखादिमखादिमचारप्रकारनो आहारंधावीनें मितवन्नातिप्रसुबसगलानं आमंवेनिह्वं तरेनिऊं तरीने  
 भोजनप्रते' कारवे जीमाडीनेपूछेजेअइहे चालीयेछे इस्पूछीगाडीगाडानासमूहप्रते' जोतरावेजोतवारीनें चंपानगरीथकीनीसर



सुहृद्विंशतिपायरासेहिं अंगजखल्यंमज्जभङ्गेणजेवदेसगन्तितेलेवउवागच्छइत्ता सगडीसागडं  
 मोयावेइत्तासत्थिखिवेसंकरेइत्ताकोडुं वियपुदिसेसहावेइत्ताएवंवथासीतुम्भेणदेवाणुप्पियामअस  
 त्यणिवेसंसिन्नहयाइ सहैखंडग्घोसेमाणा एवंवयहएवंखलुदेवाणुप्पियाइमौसेआगामीयाएह्छिस्सा

नीसरीने नातिविगद्धे हिंअतिवणुं लांनोषणोनेहौंएहवाभलाप्रयाण चालिवानामार्गनेविषे वसतोरहतोच्छतोथोडोइमार्गनेविषेचा  
 लतोच्छतो सुभभलावसतिरहिवानाआवासवरतेणेकरी पायरासकौं प्रभातकालनो जीमणकरीनेचाले अंगनामाजनपददेशने मां  
 हियईनेजिहांदेशअंतछेहछे तिहांआवेआवीनेगाडागाडीनासखहप्रते सुकावेजतरावेजतरावीने सायनोनिवेशजतारोकरीने  
 धन्वीसार्यवाहआदेशकारीपुरुषांप्रते तेडावेतेडावीने इणेंप्रकारे कहतोऊओ तुम्हेअहोदेवानुप्रियो माहरासायनाजतारानेवि  
 पेमाहरोसायजतस्योछे तिहामोटेरशब्देकरीमोटेर सादेकरीउदूषोषणाकरताच्छता सादपाडताच्छताइणेंप्रकारे कहिज्यो इमआग  
 लिकाहिस्येतिमखलुनिश्चे हेदेवानुप्रियोहेसायमाहिलालोकोसांभलज्यो एआआगामिकाएआगलिकालिअविच्छे अटवीतेकेहवीछे

वायाएदौहमद्वाए अडनीएबहूमज्जकदेसभाएबहवेशिंदिफलाणांरुक्वाप्रसुत्ताकिण्हा जावप्रत्तिया  
 युप्फियाफलियाहरिया रेरिल्लमाणासिरीए अइवर उवसोसेमाणाचिडुंति मणुस्सावणेणंसणुस्सा  
 फ्रासेणंजावभणुस्साछायाएतंजेणंदेवाणुप्पिया तेसिंणंदिफलानंरुक्वाणं मूलाण्णिवकंटाण्णिव तया  
 ण्णिवप्रत्ताण्णिवफलाण्णिवत्रीयाण्णिवह रियाण्णिवआहारिइच्छायाएवा वीसमइतस्सणंआवाएभ

खिन्नपातवृक्षेदीर्घलावोसोटोअध्वामार्गके एहवीअटवीनाषणामध्वनादेशभागनेविषे षण्येमध्यभागेविचाले षणानंदिफलना  
 मावृक्षकेकालानीलापानवंतययाके फूल्याकेफल्याके हरीयायद्दरुत्थाके नीलाच्छतातेरूपलक्ष्मीइं करीवणुंजवणुंशोभताच्छतासोभाय  
 मानडंताछतारहेके मनोज्ञमनोरमके वर्णे करीमनोरमके गंधेकरीरकेकरीमनोरमके फरसें करीमनोरमके छांहडीएकरीतेका  
 रणयकीजेहेदेवानुप्रियो तेनंदीफलनामावृक्षनामूलं कंदत्वचाक्कालियानडानफलवीज हरितनीलाशूपलाकुपलाएमांहिल्युंकार्ईनंदी  
 फलवृक्षनुंमूलादिआहारकरखार्ईनहीं फलवृक्षनीछाहनेविषे वीसमेवीसमीनेतेहनेखातावाह्य दीसंतुं भद्रकल्याणउड्डेतिवारप

इह भवई तत्रोपच्छापरिणमसाया २ अकालिचे वजीविद्याओ ववरोविद् तमाणं देवाणुप्पिया कोवितेसिं  
 रांदिफलाणं सुलाणिवाजावछायाएवीसमओमाणंसेवियअकालेचे वजीवीयाओ ववरोवीज्जसओ  
 तुग्भेणं देवाणुप्पियाअग्णे सिंरुक्खाणंमूलाणियजावहरियाणिय अहारेहछायासुविसमहत्तिषोसणं  
 षोसेह जावपच्चपिणंति तएणंघग्णे सत्यवाहे सगडीसगडं जोएइ २त्ता जेणेवणं दिफलारुक्खातेणेवड

छीयरीरसांहिपरिणस्यापरगस्याज्जं ताच्छता २ अकालअप्रस्तावनेंविषेचेवनिश्चेतेपुरुषस्त्रीजीवितव्यथकीज्जंथाइएतलेअकालमरणपा  
 मेतेकारणथकी माइतिनिषेधेहे देवानुप्रियोहेसाथनालोकोकोईपुरुषपथास्त्रीतेनंदीफलवचनामूलकंदफूलखोज्योमांतेनंदीफलवच  
 नीछाहनेविषेवैसस्योमातेपुरुषअकालनेंविषेचेवनिश्चेजीवितव्यथकीचूकस्योमांमरज्योमातुम्हे हे देवानुप्रियोअनेरोवीजावचनंमूलकंद  
 खालिपानडांक्ं पलफलवीजआहारज्योखाज्योतेवीजावचानीक्कांहछाहडीनेविषेवीसमज्योवैसज्योषोषोइमकहीएहवीउदधोषणाप्रते  
 करोइमकरीनेपाछोकामसुंपोइमकह्युंतिवारपच्छीतेसेवकतिमकरिसुंपेतिवारपच्छीधन्वोसार्थवाहगाडागाडीनासमूहप्रतेजोतरजेत

वागच्छद्द्रुत्तात्तिसिंशंदिफलाणं अदुरसासंतेसत्यणिवसंकरेद्द्रुत्तादोच्चंपितच्चंपिकोडुं वियपुरिसेस  
 द्वावेद्द्रुत्ताएवंवयासौतुम्भेणं देवाणुप्पिया ममसत्यणिवसंसिमहयाद् सद्देण्डग्धेसिमाणाएवंव  
 वयहएसणं देवाणुप्पिया तेणंदिफलाकिरहाजावमणुष्वाछायाए तंजोणं देवाणुप्पियाएएसिंशंदिफ  
 लाणंरुक्खाणं मूलाणवा कंदपुफतयापत्तजावआकालेचैव जीवियाओववरोवेद्द्रु तंसाणंतुम्भेजाव

रीनेंजिहानंदीफलद्वच्छेतिहाआवेआवीनेतेनंदीफलद्वचानिअतिषणुं वेगलोनहींकडोनहींसायनानिवेशउताराप्रतें करेकरीनेति  
 हावलीवेवारतिणवारआदेशकारीपुरुषाप्रतेंतेडावेतेडावीनें धन्तोसार्थवाहइणंप्रकारे तुम्हे हे देवानुप्रियोमाहरोसायउतखोच्छेतेह  
 नेंविषेजेहनेंमोटेरशब्दंकारी उदूवोपणाकरताच्छता इणंप्रकारिंकहिज्यो हे देवानुप्रियो हेसार्थमांछिलो कोतेनंदीफलद्वच्छेकृष्णका  
 लानीलाच्छे वर्णेकारीगंधेकारीरसेकारीफरखेंकारी मनोरमच्छेमनोरमच्छावाच्छे तेकारणयकीजिपुरुषस्त्रीहे देवानुप्रियो एआप्रत्यक्षनंदि  
 फलद्वचानांमूलकंदफलच्छालि पानडाफलकूपलजेआहारेखाद्द तेअकालअप्रसावनेंविषे चैवजीवितथ्यकीजूदायायच्छे सरणुपासेच्छे

वीसमहमाणं अकाले चैवजौवियाओ ववरोविज्जस्सह तेणंदेवाणुप्पिया एएसिणंदिफलाणंदु  
 रंदूरैणंपरिहरमाणा अण्णेसिंखक्खाणं मूलानिणयजाववीस महत्तिकट्ट, घोसणंपच्चप्पिणंतितत्थणंअ  
 त्ये गइयापुरिसाधस्स सत्थवाहस्स एयमडुंसइहंतिजावरोयंति एमयडुंसइहमाणातेसिंणंदिफ  
 लाणंदुरंदुरैणंपरिहरमाणार अण्णेसिंखक्खाणंमूलानिणयजाववीसमइ तेसैणंअवाएणोभइएभवइ

तेकारणथकीखाज्योमांतुहे छाहनेविषे वेसज्योमाअकालअप्रसावनेविषे चैवनिच्चै तुहे जीवितव्यथकी च्कस्योमांमरणपामज्योमा  
 तेकारणेहे देवानुप्रियो एतेबंदीफलट्ठानेदूरदूरवेगला परिहरताळांडताछता अनेराबीजाट्ठानांमूलकंदफलफल खाज्योतेट्ठ  
 नीछाहनेविषेवीसमज्योवेसज्यो इमकंहीनेषोषणाप्रतें करोतिवारपक्खीतेसेवकघोषणाकरीनेपाळाआवीनेकामकीधोकहेसूंपेतिहांके  
 तलाएकपुरुषसाथमाहिला धन्नासार्थवाहनोएवचनप्रतंसइहेमाने प्रतीतकरेरोचवेएसाचुंकहेछे एअथेप्रयोजनप्रतेसइहतासाचुंमां  
 नताछता तेनंदीफलट्ठाने दूरदूरवेगलापरिहरताछताळांडताछता तिहाअनेराबीजाट्ठाना कंदमूलफलसर्वखाइ तेबीजाट्ठवा

तत्रोपच्छापप्रिणसमाणाश्चुभरूवत्ताएभुज्जोश्प्रिणमंति एवासेवसमणाउसोजोअहंरिण्णं धोवाणिग्गं  
 धीवाजावपंचसुकामगुणेसुणोसज्जइइसेणंइहभवेचेववज्जणं समणाणं वज्जणंसमणीणं वज्जणंसावयाणं व  
 ज्जणंसमवियाणं अच्चणिज्जे परलोएणोआगच्छइजाववीइवईस्सइजहतिपुसितत्यणंअत्थेगइयापुसिसा  
 धणस्ससत्थवाहस्सएयमइं णोसइहंतिणोप्रत्तिथंतिणोरो अंतिधस्ससत्थवाहस्सएयमइं असइहसणाअप

नीश्चहनेविषे वेसेवीसामोलेतेहनेदीसतुं वाह्यभद्रकल्याणंनज्जइतितवारपच्छीतेवीजाएह्यांनान्मूलकंदादिखाधांतेहनेहेठेठेठतेपरिण  
 म्याच्छता भलारूपपणंकरीसुंदरपणंकरी वारंवारपरिणमेच्छेवारूपणे इणंप्रकारे साधुनेउपमाकहे श्रीभगवंतअहोअमणोआउखा  
 वंतोजेअहारानिग्रंथसाधुसाधवी दील्यालीधायच्छीपांचकामनागुणनेविषे सावधानज्जइउद्यमवंतथाइजेराचेनहीं तेसाधुसांधवीआ  
 भवनेविषे चैवनिचये घणासाधुसाधवीआवकआविकाने अर्चनीयपूजवाजोग्यह्इइ परलोकनेविषेदुर्गतिनजाइ एतलेतांलग्गीजांअनुक्रमे  
 व्यतिक्रमस्येभोजजास्ये जिसतेसायनापुरुषमरणपाभ्या तिहांवलीकेतलाएकसायमाहिलापुरुष धन्नासार्थवाहनाएवचनप्रतेंनस

त्तियमाणा अरो एमाणा जेणेवतेणंदिफला तेणेवउवागच्छइत्ता तेसिखंणंदिफलाणंमूलाणिउजाववीस  
 मंतितेसिखंणंआवाएभइएभवइ तअप्रच्छापारिणमसाणाइजाववरोचंतिए वाम्निवससणाउसोजोअरुहंणि  
 गं थोवाणिगं थोवा पव्वइएससाणेपंचसुकामगुणेसुसज्जइ रज्जइजावअणुपरियट्टिस्सइजहावतेपुरिसा

इहेप्रतीतनकरेरोचवेनहीं धन्नासार्थवाहनाएहवाकहणवचनप्रते अणसहहताछताअप्रतीतकरताछता अनारोचवताछताअणमांन  
 ताछता जिहातेनंदीफलवचके तिहांआवेआवीनेतेनंदीफलवचांना मूलकंदफूलफलप्रते आहारखाइजिमेतथा तेनंदीफलवचनी  
 छांइनेविषे वीसामोत्येवेसेतेहने वाह्यकरीदीसठुं छठुं भद्रकल्याणहुइतिवारपच्छी शरीरमांहिपरिणस्यापरिगस्याछता अका  
 लनेविषे जीवितव्यथकीअलगगथाइ मरणपामेइणेंदृष्टांतेकरी साधुनेओपमाश्रीभगवंतकहे अहोअमणोआउखावंतो जेअरुहारानि  
 ग्रं साधुनिग्रंथसाधवीदित्याली धांछतांपांचइ द्रियनाकामगुणने विषे सज्जसावधानथाइराचे रागंधरेतेसाधुसाध्वीपरलोकांने विषे  
 घणासाधुसाध्वीआवकआधिकानें अपूजनीकअवंदनीकज्जइ जिमतेनंदीफलवचनानामूलकंद फूलफलनाखाणहारारायुषमरणपास्या

तएणंसेधस्ये सत्यवाहेसगडीसागडंजोयावेइ२त्ताजेणेवअहिच्छत्ताणयरीतेणेवउवागच्छइ२त्ता अहि  
 छत्ताएणयरीएवहिद्या अग्गुज्जाणंसिसत्यणिवेसंकरेइ२त्तासगडीसागडंमोयावेइ तएणंसेधस्ये सत्य  
 वाहेमहत्थं रायारिहंपाऊडंगिरहइ२त्ता वज्जहिंपुरिसेहिंसडिंसंपरिउडे अहिच्छत्तं णयारिंसउभंस  
 उभेणंअणुप्रविसइ२त्ताजेणेवकणगकेऊरायातेणेवउवागच्छइ२त्ताकरयलजाववद्धावेइ२त्तातंसहत्थंइ२

तिमतिवारिवन्नासार्थवाहगाडीगाडानाससूहप्रतें जोतरावेजोतराविनेजिहाअहिच्छवानगरीच्छेतिहांआवेआवीनेअहिच्छवानगरीने  
 वाहिरअग्रनामाउद्यानवनखडनेविषे सायनानिवेसप्रतेसायना उताराप्रते करेकरीने गाडीगाडानाससूहप्रतें सूं कावेउतरावे  
 ऊतरावीनेतिवारपच्छी तेधन्तोसार्थवाहमोटुं बहुसुख्यवणुं सुं हुं छुं एहवु राजानेजोग्यएहवाभेटणाप्रतें ग्रहेलीएलेइने वषणापुरुषांसंघा  
 तेभलीपरिपरिवस्योच्छतो अहिच्छवानगरीप्रतें माहियइने प्रवेशकरेराजहारमाहिस्रवेशकरी जिहांकनककेतुराजाके तिहाआवेआ  
 वीनेवेहायजोडीराजाप्रतें वधावेवधावीने तेमोटुं बहुसुख्यवणुं सूं हधूं राजाने जोग्यएहवुं भेटणुं तेराजा आगलिसूं कतिवारितेकन



पाङ्कडं उवणे इत एणं सेक्कण गके ऊराया हइतु द्वेधणस्स सत्यवाहस्स तंमहत्थं रायारि हंपाङ्कडं जावपेडिच्छ  
 इत्ताधणं सत्यवाहं सक्कारे इत्ताधणं इत्ताधणं इत्ताधणं इत्ताधणं इत्ताधणं इत्ताधणं इत्ताधणं इत्ताधणं इत्ताधणं  
 इत्ताधणं इत्ताधणं इत्ताधणं इत्ताधणं इत्ताधणं इत्ताधणं इत्ताधणं इत्ताधणं इत्ताधणं इत्ताधणं इत्ताधणं  
 इत्ताधणं इत्ताधणं इत्ताधणं इत्ताधणं इत्ताधणं इत्ताधणं इत्ताधणं इत्ताधणं इत्ताधणं इत्ताधणं इत्ताधणं

ककेतुराजा हर्षसंतोषपाष्योच्छनो धन्नासार्थवाहनातेमोटुं बहुसुख्यघणुं स्वं हधुराजाने देवाजोग्यएहवाभेटणाप्रते अंगीकारकरेली  
 येधन्नासार्थवाहप्रते सत्कारिवस्वादिदेइसन्माने बहुमानघणुं देइने दाणस्सकेप्रतिविसर्जमोकलेतिहां जतरवानाठामघरने विषे आ  
 वीने भाडक्रियाणानाविणमयविक्रयप्रते करे करीने प्रतिभाडवीजा क्रियाणाप्रते ग्रहेलीयेलेइने सुखे समाधिकरी जिहांचपानगरीच्छे  
 तिहांचावेयावीने मित्तज्ञातिप्रसुखसगलाआवीमित्याजीमाद्यापक्खेविपुलघणामनुष्यसंबंधीयाकामभोगप्रते भोगवतोक्खतोविचरेक्खेते  
 कालतेसमयने विषे धम्मघोषनामाथेरथविरआवीसमोसस्था धन्नीसार्थवाहवांदिवाभणी नीसख्योतिहांचावीवाद्याधर्मप्रते संभली

पुत्रं कुडु वेडावेत्ताजात्रपव्वइएसामाइयाइं एक्कारसअंगाइं अहिज्जित्तावज्जणियासाणिसामाखपरि  
 यावंपाउणित्तामासियाएसलेहणाएसडिं भत्ताइं अणसणाइं हेएत्ताअशयरेसुदेवलोएसुदेवत्ताएउवव  
 खे सेणं देवेताओ देवलोगाओ. आउकवएणंभवकवएणं डिइइकवएणंअणंतरं चयं चइत्तामहाविदेहेवासि  
 सिज्जिहंतिजावसंसारं अंतंकाहिंति एवंखलुजंबूसमणेणं भगवयामहावीरेणंपखरसमसणायज्जाय

नें ज्येष्ठपुत्रवडावेटाप्रते कुटुंबमांहिवडोयापीने घरवारआपीनेतांलगीजां दिचालीधीदिचालेइनेंसामाइ अध्ययनआदिदेइइग्यारे  
 अंगप्रतेभणीनें घणावरसांताइदिच्चाचारित्वना पर्यायप्रते पालीनेंमासदिवसनीसंलेखणाइकरी साठिभातप्रते अणसणेकरोच्छेदीनें  
 अनेरागमेतेहदेवलोकनेविषे देवतापणेऊपनोते देवताते देवलोकायकी आउखानेचये करी देवतानाभवने क्षयकरी देवतानीधितिनें  
 क्षये करी आंतरारहितचयशरीरप्रते छांडीनेंमहाविदेहक्षेतनेंविषे सीभक्ष्येमोक्षजास्येसिद्धयास्ये तांलगीजांसंसारनाअंतच्छेहप्रतेक  
 रस्ये इमपूभिंलीपरिनिश्चेहेजंबूसमणेणंभगवंते श्रीमहावीरक्षेपे पनरमाज्ञातानाअध्ययननोएअर्थमुभनेकस्योच्छेजेहवोअर्थ श्रीमहावी

लैद्येत्यर्थः देसगन्तिदेशांतं इहोपनयः सूत्राभिहितएवविशेषतः पुनरेवंतंप्रतिपादयन्ति चंपाद्रवमणुयगद्रधणोव्वभयवंजिणोदएत्तर  
सेअहिच्छतानयरिसमं इहनिव्वाणंसुणेयव्वं । घोसणयाद्रवतित्थं करस्ससिवमग्गदेसणमहग्धंचरगाद्रणोव्वइत्थं सिवसुहकामाजिया

णस्सअयमद्वेपसुत्तेत्तिवेमिचंपाद्रवमणुगईधणुव्वभयवंजिणोदइक्कारसोअहिच्छताणयरिसमंइहहिण  
व्वाणंसुणेयव्वं । घोसणयाद्रवतित्थंकरस्ससिवमग्ग देसणमहग्धंचरगाद्रणोव्वइत्थंसिवसुहकामाजिया

रदेवनासुखयकीमे' सांभल्योच्छेतेहवोज्जं तुभ्रप्रते' कज्जं चंपानगरीसरिखीइहामनुष्यनी गतिजाणवीधन्नासार्थवाहनीपरिभ  
गवंतसाधुजांणिवोजिनवीतरागनोभाथ्योएकअनोपमरसजाणिवोक्रियाणारूपतेलवीगोलप्रसुखअहिच्छत्वानगरीसरिखुं इहांनिर्वाण  
मोच्चसुं सुखजांणिवुं । नगरमांहिधन्ने सार्थवाहेधोषणाकरावी तेसरिखीइहांतीर्थंकरदेवनी शिवमोच्चनामार्गनीदियनाजांणिवीते  
केहवीच्छे महार्थं वह्मभल्यच्छे चरकादिकचरकभिचारी आदिदेइगट्टहस्यपयंतनी परिइइहाशिवमोच्चनासुखना कामअभिलाषीवाच्छा  
नाकरणहारज्जवाजीवषणा २ नंदीफलट्ठनाफूलफलनीपरि इहांशिवमोच्चनोपंथमार्गपंडिवज्यो अंगीकारकीधोएहवाजीवांने

बहवे .२ नंदिफलाद्भवद्बह्वसि वपहपडिवसुगाणविसयाओ तत्राकखणाओमरणं जहतहविसएहिंसारो ३ तव्वज्जणेणजहद्दुपुरगलो

वहवेणेदिफलाद्भवद्बह्वसि वपहपडिवसुगाणविसया ओतधभवत्तणाओमरणंजहतहविसएहिंसंसा  
रो३तव्वज्जणेणजहद्दुपुरगलोविसयावज्जणेणतहापरभाणंदीणवंघणंसि वपुरगमणंसुणेयव्वं४प्रणर

पाचद्द्वियनाविषयसेववायकी सरणज्जइतेनंदिफलवत्तनाफलादिकना खावायकीतेलोकसुं सरणययो जिमतिलसाधुसाधवीविषय  
सेविवायकी अनंतासंसारसांदिभक्षे३तेनं दी फलवत्तनाफलवर्जेअणखावेकरीजिसतेसायनागुरषइष्टवांछ्यापोतानापुरनगरमांदिप  
ज्जताअट्या विषयनेवर्जेपरिहरवेकरी साधुसाधवीतिसपरमउत्तष्टाआनंदनानि वंघननोकारणहेतुधिवपुरलोच नगरनेविषेजा  
इवंपुज्जं चिवुं तेद्दहंलुणेव्वं जाणिवो४ ज्ञातानोपनरसोअध्ययनसंपूर्णययो हिवे सोलसोअध्ययनवखांणियेच्छे एसोलसाअध्ययनने  
पनरसाअध्ययनसंघातेएसंघजाणिवोपनरसाअध्ययननेविषेविषयनासेवणहारारूपूवने अन्तर्यनोफलकहोअनेद्दहंसीलसाअध्ययन  
ने विपे तेविषयपामिवाभणीनियारोकारिवो तेहनोसंघकहेच्छे जंनपुच्छेजोभंतेहे भगवन्अमणे भगवते श्रीमहावीरदेवे पनरसा

विसयवज्ज्योत्थातहापरमाण्दनिबंधण स्त्रिनपुरणसणं सुणेयक्कं ४ पंचदशंज्ञातविवरणंसमाप्तं अथषोडशं व्याख्यायते अस्यचपूर्वेषास  
हायसभिसंबंधः पूर्वत्वविषयाधिष्व'गस्यानर्थफलतोक्ताद्ग्रहणं तद्विषयनिदानस्यसोच्यते इत्येवंसंबंधमिदंसर्वसुगमंनवरं सालइयंतिशा

संभंणायज्ज्ययणंसंभत्तं १ भूजइयंभंति समणेषं भगवयामहावीरिणंप्रणुरसमस्सणायज्ज्ययणस्य अयमइ  
स्यत्ते सोलसमस्सणंभंतिणायज्ज्ययणस्यसंभणेषं भगवयामहावीरिणंके अइ प्रसत्ते एवंखलुजंबूतेणंकाले  
णंतेणंसंभणेषं चंपाणसंभणयरी होत्थातीसेणं चंपाणयरी एवहिथाउत्तरपुरिच्छिमेदिसीभाएसभूमि  
भाणिसंभज्जाणे होत्था तत्थणं चंपाणयरी एकोणिएणसंराथा होत्थामहयाहिमवंतवणुओतत्थ

ज्ञाताअध्ययननोएअर्थकह्यो प्ररूय्योतेमे'सांभल्योधाखो परिभंतेहेभगवन्सोलमाज्ञाताना अध्ययनमोअसणेंभगवंते' श्रीमहावीर  
देवे'स्योअर्थकह्योछे तुमनेतेकहोसुधर्मकहे एवंइमअगलिकहिस्ये तिमनिचेहेजंबू तेकालनेविषेतेसमयनेविषे चंपानामेनगरीहं  
तीतेचंपानगरीनेवाहिरउत्तरदिशियनेपूर्वदिशिविचालेइशानकूणिनेविषेसुभूमिभागनामे'उद्यांनवनखडहं'तोतेचंपानगरीनेविषेको

शंघंप्राणयरीएतत्रोमाहाणाभायरोपरिवसंतितंजहासोमे१ सोमदत्ते२ अष्टाजावरिउब्बे  
 य४जावसुपरिणिट्टिएयाविहोत्यातिसिणंमाहणाणंतत्रोमारियाओहोत्या तंजहाणागसिरी१भूयसि  
 री२जक्खसिरी३सुकुमालजावतेसिणं माहणाणंदुहा कंतापियामणुखाभणामाविउलेमाणुस्सएकाम  
 भोएजावविहरंति तएणंतेसिसाहणाणंअस्सयाकयाइं एगयओससुयागयाणं जावइमेयाखुवेमिहो

गिकनामाराजाहं तोसोटोहिमवंतपर्वतसरिखोवर्णकत्रीउवाइस्खलथीजाणिवोतिहांतेचंपानगरीनेविषेत्विणिब्राह्मणभाईवसेछेतेह  
 नानामअनुक्रमेकहेछे रगेमनामात्राह्मण१सोमदत्तनामात्राह्मण२सोमभूतिनामात्राह्मण३तेषणी ऋद्धिवंतऋजुर्वेदआदिदेइचारवेद  
 नाजांणछे४वीजासगलात्राह्मणनायास्वने विषे सुपरिनिटितप्रवीणऊं तातेब्राभणानेत्विणिभार्यास्त्रीओऊं तीतेजिमअनुक्रमेकहेछे  
 प्रथमभाईनीस्त्रीनानामनागत्रीजागवी१वीजाभाईनीस्त्रीभूतत्री२तीजाभाईनीस्त्रीचत्त्री३सुकमालखंडहालाहायपगछेत्विणिस्त्रीया  
 नातेवाभणानेत्विणिभाईअने वाल्हीयोछेमनोरमछे प्रेमकारणीओछे षणुं मनोरमछेतेस्त्रीयासंघाते विपुलघणामनुष्यसंबंधीयाका

कहासमुल्लाविसमुप्यज्जित्या एवं खलु देवाणुप्यिया अरुहं इमे विलघणजावसावएज्जेअलाहिजावआस  
 त्तमाओकुलवंसाओपकामं दाउं पकामंभोत्तुं पकामंपरिभाएउं तंसेयंखलुअरुहं देवाणुप्यियाअणुम  
 खसगिहेसु कल्लाकल्लिविपुलं असणंपाणंखाइसंसाइसंउवकखडावेइत्तापरिभुं जेमाणाविहरित्तएअ

सभोगभोगवताच्छताविचरेच्छेतिवारितेवांभणाने त्रिणिभाईअने एकदासमे एकठामिलीयाने एकठालगिजां एहवोमिथसां हो  
 मां हि कथावात्तानोसमुल्लापवोलिवोथाये इमथागक्किहिस्ये तिमखलुनिच्च हे देवानुप्रियो हेभाइओ आपणेइसे एअप्रत्यक्षं विपुल  
 घणुं धनधान्यसोनोरूपोमणिमाणिकजवेररतनआदि देइस्वापतेयप्रधानउत्तमद्रव्येसंपूर्णेत्तेद्रव्यकेहवोछे आसत्तमाओआमर्वादा  
 करीसातकुलवंसतांई सातपीठितांइप्रकामघणुं ज दांनदेवाभणीप्रवत्ते प्रकामघणुं जपोतेभोगविवाभणीप्रवत्ते प्रकामंघणुं जकाका  
 पीरीयासंवंधीप्रमुखने भागविहचीआपिवाभणीप्रवत्तेतोहीनीठेनहीं तेकारणकीअयभलुं निच्च आपणने हे देवानुप्रियो हेभाई  
 ओसां होमां हि आपणने एकेकाघरणे विषवारिवारेदिनदिनप्रत्ते दिहाडीर विपुलघणानवनवाअन्नपांणी खादिमखादिमचारप्रकार

स्यमस्यस्यमद्वुं पडिष्ठुणेद्रुंत्ताकक्षाकक्षिंअस्यमस्यस्यगिहेसुविपुलंअसणंप्राणं खाद्रुंसाद्रुंमंडवक्खडा  
वेद्रुंत्तापरिभुंजेमाणाविहरंतिताएणंतीसेणागसिरीएमाहणीएअस्ययाकयाद्रुं भोयणवारएजाएया  
विहोत्थातएणंसाणागसिरीविपुलं असणंप्राणंखाद्रुंसाद्रुंमंडवक्खडेद्रुंत्ताएणंमहंसालद्रुंयतित्तला

नाआहारनीपजावीनें रंधावीनें आपातिणिभाईएकठाभोजनकरताळता विचरीयेप्रवर्त्तीयेतोभलो त्रिणभाइसांहोसांहिएपरठ  
नाविचारप्रतें अंगीकारकरेअंगीकारकीने दिनदिनप्रतें निरंतरप्रभाति साहोमाहिकेडाकेडिड्र एकएकनाघरनेविषेविपुलघणुंअन्न  
पाणीखादिमस्वादिमचारप्रकारनो आहारनीपजावेनीपजावीनें रंधावीनें जीमणजिमताळताविचरेळे तिवारपछीतेनागसिरी  
वांभणीनोएकदाप्रस्ताविइं भोजनरांधिवानोवारोआवतोह्रवोतिवारितेनागसिरीवाभणीविपुलघणुं अन्नपांणीखादिमस्वादिमच्या  
रप्रकारनोआहारनीपजावेराधेराधीनेएकमोटुंशरत्कालचतुनोनीपनुं अथवासारप्रधानरसें करीचित्तसहिभस्योळेएहवुं तित्ताला  
उयंक०कडुं त्वडुंके तेकेहवुं कीधुंके वज्रघणासंभारद्रव्यजपरिघालिवानाद्रव्यहींगतेलहलिद्रुतजएलचीप्रसुखघणेद्रुव्येकरीसंयुक्तछे



उद्वयं बहुसंभारसंजुक्तं श्रेहावगाढं उवक्खडावेद्दत्ताएगंविंदुयंकरयलंसि आसाएइतंखारं कडूयं  
अखज्जं विसभयं जाणित्ता एवंवयासीधिरत्थुणं ममणागसिरीएअहसाएअप्रुसाएदुभगाए दूभगसत्ता  
एदुभगणिं वोलियाए तंजाएणंमएसालइए बहुसंभारसंभिए श्रेहावगाढे उवक्खडाए सुबहुदव्वक्ख

जेतुं वडोवलीतिके हवुं कीधुं छेणेश्रेहावगाढं क० खे हचीगटेकरीअवगाढव्याप्पुं छे एहवुं कडूवात्तं बडोरंधीनेपछे नागअतीतेकडु  
आतुं वडानां सालणानो एकविंदुवोहाथनीहयेलीनेविषेलेइने आखादेचाखेतिवारितेखारं कडूयोषणुं लाशुं अखाद्यखावायोग्य  
नहीं विषभूतविषसरिखुंथयो जांणीने नागसिरिइमकहती ऊई धिगसुहोधिकारयाओ सुभने नागसिरीने अघन्यवतीनागसिरीने  
अपुथापुखरहितमुभने दौर्भागिणीहं नागअी दुर्भगदौभागीसत्वप्राणीके जेनागसिरीने भूडाप्राणानीधणीअानी नींबनाफल  
नींबोलीनीपरिषणुं अनादरवायौग्यथइऊं दुर्भागियांदरिद्रीयांमांदिनिर्वोलिक० बोलीवडानीमुभने तेतुं वडुं जेणीइं मे नागसि  
रीइं शरत्कालच्छतुनीपनी बहुघणाद्रव्यहींगतेलप्रमुख ऊपरिवालिवानाद्रव्यतेणेकरीभस्योकेनेहसे हचीगटे करीव्याप्यं भस्युं के

रदिकं सारैणवारसेनवितंयुक्तं सारवितं तित्तालाउएत्ति कटुकतुं वकं वह्णसंभारसंजुतं बहुलिः संभारद्रव्यै कपरिच्छे प्रद्रव्यै खगेलाम्र  
भृतिभिः संयुक्तं यत्तथास्त्रे हावगाढं ले हव्यासं द्रुभगसत्ताएत्ति दुर्भगः सत्त्वः प्राणीयस्याः सातथा द्रुभगनिंबो लियाएत्ति निंबगुलिकेव  
निंबफलमिबध्यत्यनादेयत्वसाधर्स्यात् दुर्भगाणां मध्ये निंबगुलिका दुर्भगनिंबगुलिका अथवा दुर्भगानां मध्ये निर्वीलितानि मज्जितानि दु

एथणे हकखएथकए तंजद्रुणं भमजाउया औजाणिसिंति ताउणं भमसिंति सिंति तंजावतावममंजाउ  
याणजाणंति तावममसेयं एयं सालद्रयं तित्तालाउयं वहुसंभावे हकयं एगंते गोवित्तए अयं सालद्र

एहनुं राधुं छे सुट्टुभलावहुवघणाद्रव्यवस्तुजीराप्रसुखनोच्चयकीधो नेहचीगटतेलप्रसुखनोच्चयधिनासकीधो . तेजोमममाहराजाओ  
याउकहतां देवरांनीजाया भार्यास्त्रीओदेराउणीओजाणस्ये तोसुअनें खिसस्ये हेलस्ये णिंदस्ये इत्यादि तेकारणयकीजिसतिमकरी  
तिहांलगीप्रथमपहिलुं सुअनें साहरीदेराणीनजाणे तिहांलगीसुअनें अथभलुं एथरत्कालनेविसेनीपबुं उन्नमरसें भस्योह्वेतिक्तकडु  
उंआलानुतुं वडुं घणाद्रुथनीसम्बहेकरीसंरुअयं, समाद्युं चोगटसहितकीधुं छे तेएकांतनेविषे गोपविवाभणी क्कानुं राखिवाभणी

यंमङ्गरालाउयजावणेहावगाढं उवक्खडियएणवंसंपेहेइइत्ता तंसावइयंजावगोविइइत्ताअस्सं सालइयं  
 मङ्गरालाउयंउवक्खडेइइत्ततिसिंसाहणारणंएहायाणंजावसुहासणवरगयाणंतेविपुलं असणं प्राणंखा  
 इंसंसाइसंप्रिवेसइ तएणंतेसाहणजिमिथुत्तुरागयासमाणा आयंताचोक्खापरमसुइधूयासक

प्रवर्त्तुं तोभलं राखीनें अनेरुं वीजंशरलालकृतनुं नीपनुं भलेरसेभस्युं छे मधुरमीठुंअलावुं तुं बहुंघणाहींगादिद्रव्यनेसमूहेसहिततेल  
 हलिद्रजीरादिघणेचीगटेकरी व्याप्यंऊइएहवंतुं बहुं रांधिवाभणीप्रवर्त्तुतोवारू इणंप्रकारेविचारेविचारीने नागसिरीतेशरलाल  
 नुं नीपनुं कडूनुं लूवडुं घणाहींगादिघघारसहिततेलादि चीगटे सहिततुं बडू एकांतेछांनुं गोपवेराखेराखीनें अनेरुं वीजंशरला  
 लकृतनुं नीपनुं मधुरमीठुंएहवंतुवडुं राधेराधीनें तेवांभणाने अंधोलिककरावीनें तांलगीजांभलासुखकारी वरप्रधानआसनउप  
 रिवेठाकृताने विपुलवणुंचन्नपाणीखादिमखादिम चारप्रकारनोआहारपरीसे तिवारपछीतेवांभणेविणिभाइ जिम्यापरिपूर्णधा  
 याकृता चलूलेईचोखापवितथया परमवणुंसुचिपवितथयाकृता पोतानाकामकाजकरवालागा पोतानाकामकरिवाभणी सावधान

स्मसंपत्ताजायायाविहोत्या तएणंताओभाहणीउरहायाओ जावविभूसियाओतंविपुलंअसणंपाणं  
खाइसंसाइसंआहारेइस्ताजेणवसयाइं गिहाइं तेणवडवागच्छइस्तासकम्मसंपत्ताओजायाओति  
णंकालेणंतेणंसअएणं धम्मओसाणअंधेराजाववहप्रिवाराजेणवचंपाणअंणयरी जेणेवसुभूमिभागे  
उज्जणो तेणेअडवागच्छइस्ता अहापडिख्वंडगहंजावविहरंति परिसाणिगया धम्मोक्किहिओपरि

याताहआ तिवारपछीतेवभणीओखीणिखीउं न्हाहीयोक्तोओभलाउत्तज पहिरवेसष्टंगारअलंकारपहिरि विभूषितसोभाय  
मानयईओक्तोओ तेवणोविखीणंअन्नपाणीखादिमखादिम चारप्रकारनोआहारजीसेजीमीनें जिहापोतानाआपआपनारहि  
वानाघरकें तिहाआवेअ वीने पोतानाआपआपणाकासकाज कारिवाभणीसावधानयातीऊई तेकालतेसमयनें विषे धम्मं धोषनामा  
थिवरतालगीजाघणापरिवारसहितजिहाचंपानामानगरीकें जिहासुभूमिसिभागउद्यानवनखंडकें तिहाआव्याआवीनें जतस्थासाधुनें  
मागिवायोग्यएहवाअवग्रहआज्ञाप्रतें मागीलिईनें तिहाउतच्यातपसंवसें करीआलाप्रतें भावताछताविचरेकेंतिवारिचंपानगरीयकी

सापडिगया तएणं तेसिंधस्रघोसाणं धेराणं अंतेवासीधस्ररुईणामं अणगारेउरालेजावतेयलेसेसा  
 संमासेणं खममाणेविहरइ तएणं सेधस्ररुइणामंअणगारे मासखमणपारणगंसि पट्टमाएपोरिसीए  
 सजभायंकरेइवीयाइपोरिसीएजभाणं उभाएइ तईयाएपोरिसीए जहागोयमसामीतहेवओगाहेइइ  
 तातहेवधस्रघोसंधेरंआपुच्छइइत्ता जावजेणेवचंपाणयरीउच्चणीयमडिभामाइं कुलाइं जावअडमा

परिखदानीसरीवादिवाभणी नीसख्यावांद्याधस्रं काह्योधर्मोपदेशदीधो तेसांभलीने पछेपरिखदापाछीवलीगई तिवारपछीतेधर्मघोष  
 थिवरानोदिख्योधर्मचिनामा अणगारसाधुउदारप्रधानतघोरकरेछे तालगीजांसंखेपीतेजोलेस्याजेणेएहवोछतोतेसाधुमासमास  
 खमणकरतोछतोविचरेछे तिवान्तिधर्मं रुचिनामाअणगारसाधु मासखमणनापारणाने विषे प्रथमपडिलीपोरिसीनेविषे सज्जाय  
 प्रतंकरेवीजीपोरसीने विषंध्याइचिंतवेतीजीपोरसीने विषेजिमगतमस्वामीइरियावहीपडिक्कीमुहपतीपडिलेहीपालानीपडिलेह  
 णकरेछे तिसकीधीकरीनेतिसजपालाअवगाहे पावांनीभोलीलेईने तिसजआवीने धर्मघोषथिवरप्रते पूछेपूछीने तांलगीजांजिहा

खाजेणवणागसिरीए साहणीएगिहे तेणेवअणुप्पविडे तेणंसाणागसिरीधम्मरईखासं अणुगारंए  
 ल्जभाणंपासइइत्ता तस्ससालइयस्सतित्तकडुयस्स वज्जेणेहाएपडिण्डियाए हइतुडाडडाएउइइजेणेव  
 भत्तघरेतेणेवउवागच्छइइत्ता तंसालइयंतित्तकडुयं वज्जेणेहावगाढं धम्मरइस्सअणुगारस्स पडिण्णह  
 एसव्वेवणिस्सरइ तेणं धम्म रुइअणुगारे अहापज्जत्तमित्तकइ, यागसिरीगिहाओ पडिण्णिव

चंपानगरीछेतिहाचंपानगरीने विषे जं चनीचमध्यमकुलघरसांहिं अटतोपरिभ्रमणकरतोछतो जिहंनगसिरीवांभणीनोषरछे  
 तिहापेठोप्रवेशकीधो तिवारितेनागसिरीधर्मरचिनामा साधुआवतांप्रतें देखेदेखीनें तेशरदकालनुं नीपसुं तीखं, कडूबुं तुवडुं,  
 घणूंववाओछेतेहनें घणेशे हरणेकरी देवाभणी हर्षसंतोषनामीछतीथानकथकी उठेउठीनेजिहाभक्तघररां धिवानोषरछे तिहंआ  
 वीआवीनें तेशरदकालनुं नीपसुं तीखुं कडु बोधणुं चीगटे करी व्यायुं छेधर्मरचिसाधुना पडिघांपालानेविषे सगलुं जघालवेठालवे  
 तिवारिधर्मरचिसाधुकहे साहाएवयापर्याप्तपरिपूर्णसंपूर्णथयोसस्यो इमकहीनें नागसिरीवांभणीना घरथकीनीसरनी चंपा

मद्रत्ता चंपाण्यरीएमजभंसजभेणं पडिणिक्वमद्रत्ता जेणेवसुभूमिभागेउज्जाणेतरेवउवागच्छ  
 इरत्ताजेणेवधम्मघोसाथेरतरेणेवउवागच्छइरत्ता धम्मघोसस्सअटुरसामंतेइरियावहियपडिक्कमद्रत्ता  
 अखपाणं पडिलेहेइरत्ता अखपाणं करयलं सिपडिदंसे तएणं तेधम्मघोसाथेरा तस्ससालइयस्सब  
 उरणेहावगाटस्सगंधेणं अभिभूयासमाणा ताओसालइयाओणेहावगाटाओ एगंविंदुयंगहायकर

नगरीनें मध्येमांहियइने नीसरनीसरीनें जिहांसुभूमिभागउद्यानवनखंडछे तिहाअवेआवीने जिहांधर्मघोषथविरछे तिहांआ  
 वेआवीनेधर्मघोषथविरनेपासे अतिघणुंवेगलुंनहींघणुं टूकडूनहीं इणंपकारे उभोरहीइरियावही ।ते पडिकमेपडिकमीनेआलोईक  
 रीअन्नपाणीप्रते देखाडेदेखाडीने धर्मघोषस्वरिने अन्नपांणी हायने विषेलेईनेआहारदेखाडेदेखाडीने जोइने तिवारितेधर्मघो  
 षथिवरतेसरदकालनुं नीपनुं घणेंचीगटे करीव्यापुं तेतुं वडाने गंधेकरी पराभव्यापीआछतातेशरदकालनुं नीपनुं घणेंचीगठे करी  
 व्याप्योएहवातुं वडानोएकविंदुआप्रतेलेईने हायनीहयेलीने विषेलेईने चाखेचाखीने तीखुं खारुं कडूयोअखावाजोग्यअणजिमवा





दुर्वेहिद्गता अणं फासुयं एसणिज्जं असणं प्राणं खाद्भंसाद्भं पडिगाहेत्ता आहारं आहारिहितएणं  
 धम्मरुद्दअणगंरि धम्मघोसाथेराणं एवंवुत्ते समाणे धम्मघोसस्यथेरस्य अंतियाओ पडिणिक्खअद्दत्ता  
 सुभूमिभागाओउज्जाणाओ अदूरसामंतं थंडिलपडिले हेद्दत्ता तओसात्तद्दयाओ एगं बिंदुगंगहाय  
 थंडिलं सिणिसिरद्दतएणं तस्यसालतियस्यतित्तक्कडुयस्य बडुणे हावगाढस्य गंधेणं बद्धणिपिपौलि

नें विषे परिठविपरठवीनें अनेणं बीजुं फासूएखणीयनिदोषवेतालीसदो खरहितअन्नादिआहारपडिगाहीनें विहरीनें आहार  
 प्रते आहारिआहारकरिजे इमकह्युं तिवारपच्छीधर्मणचिसाधुं धर्मघोषथविरद्दणे प्रकारे कह्योक्ततो धर्मघोषथविरनासदीपथकीलीस  
 रेनीसरीनें सुभूमिभागउद्यांनवनखंडयकी अतिघणुं वेगलुं नहीं अतिघणुं टूक्कडुं नहीं एहवाअचित्तनिजोवर्हित थंडिलाप्रते पडि  
 लेहेपडिलेहीनें तेशरदकालनुं नीपनुं तुं वडुं तेक्कडुआतुं वडानो एकविंदूआटीपाप्रते लेद्दनें थंडिलाने विषेसूं कतिवारितेशरद  
 कालनो इतुनोनीपनोरसेभस्योक्खे तीखोक्कडुवोतुं वडुं घणेचीगटे करी व्याप्योतुं वडाने गंधेकरी घणीपीपलीकाकीडीनासहस्रह

गासहस्राणिप्राञ्जभुयाजाजहाणं पिपीलिकाआहारेदृतंतहाअकालेचेवजीवियाओववरोविज्जइतए  
 णंघनरुईस्सअणगारस्सइदेयाखूवेअज्जकथिए जावससुप्पज्जित्याजइतावइमस्स सालइयस्सजावएगंमि  
 विन्दुगंसिप्रक्खित्तंसिअणे गाइं पिपिलिगासहसाइं ववरोविज्जं तितंजइणं अहंएयं सालइयं थं डिल  
 सिस्सव्वं खिसिरासि तएणं वज्जणं प्राणाणं वज्जणं भूयाणं वज्जणं सत्ताणं वज्जणं जीवाणं वहकरणं भविस्सइ

जारप्रगटथया जेजीमक्कीडीआहारकरे' खाइतेविंदुआप्रते' तेतिमजक्कीडीअकालअप्रसावनेविषे' निचेजौवितव्ययकी अलगीयाई  
 मरणपासेतकालतिवारितेधर्मश्चि साधूने एहवोआत्माने' विषेरह्यो एहवोमाहिंसंकल्पविकल्पजपजे तावप्रथमपहिंलुं हिं वडांजएह  
 नेगरदकालनोनीपनो घणेवघारेभख्योत्रणेचीगटे व्याप्यो एहवातुं वडानोएकविंदुओ घरतीस्केछतेअनेकघणा पीपीलिकाकीडीआ  
 नासहस्र हजारमरणपामेछे तेकारणथकीज्जं जोएथरदकालनो नीपनोकडुउं तुं वडोनिर्जीवयं डिलनी भूमिने विषे' सगलुं परिठवुं  
 वोसिरावुं नावुं तिवारि घणाप्राणवेदियादिभूतनस्यतीमातजीव पंचेद्रीमातसत्वक० पृथवीपांणी अगनीवाउएसगलाप्राणवेद्रीयादि

भगनिंबोलिताजाउयाउत्ति देवराणांजायाभार्यीइत्यर्थः विलम्बित्यादिविलम्बव रंभ्रइवपन्नगभूतेनसर्पकल्पेन आलनाकरणभूतेन

सर्वतदलावुशरीरकोष्ठकेनप्रचिपतियथाक्लिक्विलेसर्पआलानंप्रचिपति पाश्वान्त्रसंस्पर्शन् एवमसौवदनकन्दरपाश्वान्त्रसंस्पर्शन्

तंसेयंखलुममंतंसालइयजावणेहावगाटंसयमेवआहारेत्तएतमंचेवएणंसरीरगेणुंणिज्जाउत्तिकट्ट, एवं

संपहेइरत्तामुहपत्तियंपडिलेहेइरत्ता सिसेविरिकायंपमज्जेइरत्तातंसालइयत्तकडुयंबडुणेहाव

गाटंविमिवपणुगभूणंअप्पाणंणं सव्वंसरीरकोट्टुंसिपक्खवइतएणंतससधसरइस्सतंसालइयंजावणेहा

जीवनोधधनोकरवुं होस्येथास्ये तेकारणयकीअयभलुं निचे सुक्कने तेशरदकालनं नीपलुतीखुं कडु उं तुं वडुं घणुं चीगटें करीव्या

प्पुं एहवोतुं वडुं पोतेंजआपणुं पेआहारकरिवाभणी प्रवर्तुं तोभलुं माहरेएणेशरीरें करी निर्जरोनिर्जरायाओ इमकहीनेइरणेप्रकारे

विचारेविचारीनें सुं हपत्तीप्रतें पडिलेहेपडिलेहीनें माथासद्धितसगलामांथाऊपरि कायशरीरप्रतें प्रमारजे पूंजेपूजीकरोनेंतेशर

दकालनेविषेनीपनुं तीखुं कडू वुं घणुं चीगटें करीव्यायुं एहवातुं वडाप्रतें विलनीपरिक्खिइरनीपरिपणुगभूतेनकं सप्यं सरिखेअप्पा

वगाढं आहारियस्ससमाणस्स सुद्धत्तं तरेणंपरिणममाणंसित्तीरगंसिवेचयणापाउभूय्याउज्जलाजा  
 वटुत्तहियासा तएणंधम्मरुइअणगारे अथाप्सेअवल्लेअवीरिए अपुरिसक्कारपक्कसे अधारणिज्जमिति  
 कट्टु, आथारभंडगंगंतेठवेइत्ताथंडिलंपडिलेहेइत्तादभसंधारगंसंधरेइत्ता दभसंधारगंदुरहइ

शेषं क० पोतेपोतानीमेलिं आपणपेसगलुं तेकडु उं तु वडुं, सरीररूपकोठारनें विषे धाले जिमसप्यं विलदरने विषे आत्माशरीरप्रते  
 धालिंपसवाडाप्रते अणफरसतो अणअडाडतोच्छतो विलमांहिसप्यं पेसेतिमइणेप्रकारे एधर्मरुचिसाधुस्खस्वरूप गुफानांपसवाडा  
 प्रते अणफरिसतोच्छतो आहारिं करीखविकरी तेहनाअसंचारयकी तंतु वडुं पेटरूपविलनें विषे प्रवेशकरावतोहओ एतले आहारक  
 रतोहओ तिवारितेधर्मरुचिसाधुने शरदकालनुनीपनु कडू योतु वडो वणेद्रव्ये करीसहिततेलने चीगटे करीव्याप्युं छे भय्युं छे एहवो  
 तु वडो आहारित आहारकरताहंताच्छताने कुहूर्त्तातरे करीवेघडीने आतरे शरीरमाहिपरिणस्योऊं तोच्छतो शरीरनें विषे वेदनाप्रग  
 टयईजपनीउजलीआकरी तालगीजाडुःखेधणेकटे करीअहीयासीसकिथे वेदनाखमीनाजाइएहवीजपनी तिवारपच्छीधर्मरुचिसाधु

इत्तापुरित्याभिमुहेसंपलियंकणिसस्ये करयलपरिगहियंसिरसावत्तं मत्थएअंजलिकट्टु, एवंवया  
 सीणमोत्थुणंअरुहंताणं भगवंताणं जावसंपत्ताणं णमोत्थुणंधम्मघोसाणंधेराणं समधम्मआयरियाणं

अथामउठवाविसवानीशक्तिरहितथयो वलरहितथयोवीर्यपराक्रमउद्यमरहितथयो पुरुषाकारपराक्रमरहितथयोजीवितव्यआउखाध  
 रीसकाइंनहीं चित्तक्रांपवाधूजवालागोतिवारिविचारीने आचारराखिवानाभांडपाताउपकरणवस्त्र पातएकांतपरामेलेयापिसूके  
 सूकीने थंडिलनीभूमिकापडिलेहेईपडिलेहीने डाभरोसंथारोपाथरेपाथरीने डाभनासंथाराउपरिचट्टी वेसेवेसीने पूरवदिशि  
 नेसाहसूंधइनें पालाटीवालीनें निषन्नवेठोच्छतो वेहाथजोडीकरीमाथानें विषे माथानें विषेअंजलीप्रतेकरीने इणेंप्रकारेकहतोह  
 ओनमस्कारज्जवोकुणभणी अरुहंतसंसारमांहिडगिबुं अवतारनुं पाप्मिबुं नथी एहवाअरुहंतभणी भगवंतसंपूर्णठकुराईवंततेभणी  
 तांलगीजांसंपत्ताणंपदताई सण्णुं पाठकहिबुं मोचपदपास्याक्के तेभणीप्रथमअन्नं तासिद्धभणीनमोत्थुणंकीधोहिवे पोतानागुरुभणी  
 नमोत्थुणंकरेक्के नमस्कारज्जओधर्मधोषथविरभणी साहरोधर्मोपदेशकमुक्कनें धर्मोपदेशनादेणहारातेभ

समधम्भोवएसुगारुणुव्विंपिणंमएधम्मधोसाणंथेराणंअंतिएसव्वंपाणाइवाएप्रच्चक्खाएजावज्जीवाए  
जावसव्वंपरिणग्गहेइयाणिंपिणंअहंतेसिंचेवभगवंताणंअंतियं सव्वं पाणाइवायंपच्चक्खासिजावसव्वंप  
रिणहंपच्चक्खामि जावज्जीवाएजहाखंदओजावचरिमेहिंजसासेहिंबोसिरासित्तिक्कहु, आलोइयप  
डिक्कंतिसमाहिंपत्तेकालगए तएणंतधम्मधोसाथेराधम्मरुइं अणगारंचिरगयंजाणिता समणेणिणं

णीपूर्विइं पिणमे धर्मधोपयविरनासमीपने विषे सर्वप्राणातिपातसर्वस्वपावाद सर्वअदत्तादानपरिसर्वग्रहपर्यंतच्यारिमहावतपञ्चखा  
उचस्थाळं ताजावजीवलगीप्राणातिपातआदिदेइ तालगीजापरिग्रहपर्यंतहिषडांपणिळ्ळं चैवनिचेतेधर्मधोपयविरभगवंतनासमी  
पप्रते सर्वप्राणातिपातप्रते पचखुंछुं तालगीजापरिग्रहपर्यंत पचखुंछुंजावजीवताइं भगवतीसूत्रमाहिंजिमखंदकेकीधुतालगिजां  
चरिमच्छेल्ये सासो सासेकायादेहप्रते वोसिरावुंछांडुंछुं इमकहीनेआलोईने पडिक्कंतेपापयकीनिवत्त्योछिसमाधिलपशमपास्योक्क  
तोकालकीधोतिवारपच्छीतेधर्मधोपयविर धर्मरुचिइंसाधुप्रते चिरगतंधणीवेलाताइगयाप्रतेजाणिने अमणनिग्रंअसाधुप्रते तेडावे

धे सहावेद्भक्ता एवंवयासीएवंखलुदेवाणुप्पिया धम्मरुद्रणामंअणगारे मासखमणपारणगंसिसाल  
 इयस्सजावगाढस्सणिसिरिण्डुयाए बहियाणिगएचिरगए तंगच्छहणंतुम्हेदेवाणुप्पियाधम्मरुद्रेस्स  
 अणगारस्ससव्वओससंतामगणगवेसणंकरेहतएणं तेसमणाणिगंथाजावपडिसुणेद्भक्ताधम्मधोसाणं  
 धे राणंअंतियाओपडिणिकवमद्भक्ता धम्मरुद्रस्सअणगारस्ससव्वओस संतामगणगवेसखंकरेसाणा

तेडावीने इमकहताड्ढया इणेप्रकारे निचे हे देवानुप्रियोसाधोधर्मरुचिनासा अणगारसाधुमासखमणनापारणानेविषेशरदकृतु  
 नोनीपनु कडुओतुं बडोषणेद्रव्ये करी सहितघणेचीगटे व्याप्युं विषभतथयुं एहवातुं वडाने परिठवाने अर्थे वाहिरगयोच्छेषणीवेला  
 यइछे तेकारणथकीतुम्हे हे देवानुप्रियोधर्मरुचिसाधुनी सगलीदिशिविदिशिने विषे मार्गने विषे जोवानीगवेषणाप्रते करोइमक  
 ह्युंतिवारितेअमणनिग्रं यसाधुचारितिया धर्मधोषथविरगुरुनावचनप्रते अंगीकारकरेकरीने धर्मधोषथविराना पासथकीसाधुचा  
 रिस्त्रीयानीसरेनीसरीने धर्मरुचीसाधुनीसगलीदिशिविदिशिनेविषे मार्गने विषे जोवानीगवेषणाप्रते करताजोताछताजिहानि

जेणेवथं डिद्धेतेणेवउवागच्छइइत्ता धम्मरुइस्सअणगारस्ससरीरगंणिप्पाणं णिच्चं इंजिवियाओविप्पज  
 ढंपासइइत्ता हाहाअहोअकज्जमित्तिकइ, धम्मरुइस्सअणगारस्स परिणिव्वाणवत्तियंकाउसगं  
 करिंतिधम्म रुइस्सअणगारस्स आयारभंडंगिणइइत्ताजेणेवधम्मघोसाथेरा तेणेवउवागच्छइइत्ता  
 गमणगमणंपडिक्कमइइत्ता एवंवयासीएवंखलु अरुहेतुमहंअतियाओपडिणिक्वसामो सुभूमिभाग

धीवडंढिलुंके तिहांआव्याआवीनें धर्मरचिसाधुनोशरीरप्राणरहितनिर्जीव निःचेष्टचेष्टारहित सासोसासरहित जीवितव्यथकी  
 आउखायकीअलगुंययुंजीवळांढ्याप्रतेदेखेदेखीनें हाहाअहोअरे आमोटुं अकार्यययुं इमकहीनें धर्मरचिसाधुचारिणीयानिर्वाण  
 निमित्तकालकीधानिमित्त काउसगप्रतें करेकायाप्रतें वोसिरावें काउसगकरीनें धर्मरचिसाधुचारिणीयाना आचारनांभाडपाल  
 वस्तुउपगरणप्रतें लीयेलेइनें जिहाधर्मघोषयविरहे तिहाआव्याआवीनें गमणगमणइरियावहीप्रतें पडिक्कमें पडिक्कमीनें इम  
 कइताउआधर्मघोषयविरप्रतें इणे प्रकारं खलुनिचे अरुहेतुमहारसमीपयकीनीसखाकता सुभूमिभागनामाउद्यानवनखंडनें चउ



स्वउज्ज्वाणस्वपरिप्रेरतिं धम्मरुद्रस्वअणगारस्वसब्बंजावकरेमाणा जेणेवथं छिह्ने तेणेवलवागच्छइइ  
 ताजावइहं हव्वमागया तं कालगएणं भंति धम्मरुई अणगारे इमीसिआयारभंडए तएणंते धम्मघोसाथे  
 रापुव्वगएउवओगंगच्छंति उवओगंगच्छिता समणेणिगंगं थे णिगंगं थिओयसद्दविइइत्ता एवंवयासी  
 एवंखलुअज्जोममअंतेवासी धम्मरुईणामंअणगारे प्रईयभइएजावविणीए मासंमासेणं अणिक्वत्ते

फेरसगले धर्मरचिसाधुनी सगलिदिथिविदिथिने विषे जोगानीगवेषणाकरतासगले जोताच्छताजिहायं डिह्लंछे तिहंआव्याआ  
 धीने धर्मरचिसाधुकालकीधप्रते जाणीने कालसगकरीवस्वपातालेइ इहाहव्वउतावलाआव्याक्कीयेतेकारणथकीकालकीधुहेभगव  
 न्धर्मरचिसाधुसेते धर्मरचिसाधुनाइमीएआते आचारभाडओधोवस्वपात उपगरणेलेइआव्याक्कीये तिवारिधर्मघोषथविरपूर्ममा  
 हिरह्याउपयोगप्रते प्रज्जीज्ञाने करी जोइउपयोगप्रते प्रज्जीने ज्ञाने करी जोइने अमणतपस्वीनिग्रं थसाधुसाधवीयां प्रते तेछावे  
 तेडाविनेइमकहताऊआइणे प्रकारिनिश्चेअहोआधीमाहरोशिष्यचेलोधर्मरचिनामासाधुप्रकति स्वभावभद्रकडं तोतालगीजाधणुं

खंतवोकर्मणं जावणागसिरीएमाहणीएगिहं अणुप्पविट्ठतएणंसाणागसिरीमाहणी जावणिंसिरइ  
 तएणंसेधम्मरईणासंअणगारे अहापज्जत्तमित्तिकट्ट, जावकालंअणवकंखमाणेविहरइ सेणंधम्मर  
 ईणासंअणगारेवड्डुणिवासाणि सामस्यपरियागंपाउणित्ता आलोइयपडिक्कंतेससाहिपत्ते कालमासे  
 कालंकिच्चा उडुंसेहिस्सेजावसव्वट्टसिद्धे महाविमाणेदेवत्ताए उववस्ये तत्थणंअजहस्यमणुक्कोसेणंते

धीनीतड्डं तोमासमासखमणं करी आतरारहितपणं करी एहवातपनें करिवेकरी मासखमणना पारणनें विषं गोचरीकरतोउं  
 चनीचसधसघरणे विषे प्रवेशकरतोछतोवाभणी नाघर । ते प्रवेशकीधो तिवारितेनांगसिरीवाभणी धर्मरुचिसाधुप्रते आवतो देखी  
 ने उठीने घणे रगेकरीविपरूपकडुओतुं वडुं वहिराव्योदीधोनागसिरिइं तिवारपक्खीतेधर्मरुचिनामासाधुकहे संपरणपरिपूर्णथयो  
 सस्योइमकहेनेइहाआवीने इरियावहीपडिक्कमीगोचरीआलोईआहार देखीकह्योमेएविषरूपतुं वडुं हेआहारकरजेमांतालगीजां  
 कालप्रते अणवाछतोविचरेके तेधर्मरुचिनामासाधुघणा वरसाताईआमण्यदिखाचारितना पर्यायप्रते पालीने आलोइकरीपापथ

टकचपानीयभाजनंतौहस्तयोगतौयस्याःसातथा फुट्टंतिस्तु, टितंस्तु, टितकेशसंचयत्वेनविकीर्णकेसं हडाहडंतिअत्यथंशीर्षंशिरोयस्याः  
सातथामच्चिकाचटकरेण सच्चिकासमुदायेन अम्बीयमानमार्गीमला विलंछिवस्तुमच्चिकाभिर्वैद्यतएधेतिदेहव

गथापुट्टहडाहडसीसा सच्छियाचडगरेणं अस्त्रिज्जमाणमगा जावगेहंगेहृणदेहंबलियाए वित्तिं क

गढानु'तेहलूगडानोखंडकटकेनिवसनक० परिधानपहिरवोक्के जेनागसिरीने' एतले'दांडीये'करी सांध्यालूगडानोएककटकोपहि  
रवाआयोबीजू'सर्वउदालीलीधु' खंडशरावभागुं'शरावतु' कोडीच'भागुं'भीखलेवानु' पाततांमडुं'खांडोघडोभागोगांड'योपांणीनो  
ढांमएऊं'ठामडाहायने'विषे'के जेनांगसिरीने'फुट्टक० फूटोक्केकेशवालनेसंचपणेकरी विखेराणाक्के हडाहडकहतांघणुं'सीर्षमायु  
जेनागसिरीने'लोकैमाथामांहिमाराताळता लोहीनीसरेक्के तेमोकलाकेसमांहिमाराहीरहिक्के लोहीमाखीयानेसम्बहेकरी अन्नज  
माणमगाक० गम्यमानमार्गपाळलिजातोक्के मार्गएतलेनागसिरीजाइ तिहांपाळलिमाखीनासम्बह मार्गइतेकारणथकी इणिपरि  
घाटं'जाईसहइहांकिधररप्रते' भमे'तेनागसिरी देहवलिकाक०घरनीदेहली घरनोउपराउपरिअन्ननोपिंडम्ह'कक्के जाइक्केप्राइ'

ष्ये साणीविहरइतएणंतीसेणगसिरीएमाहणीए तभभवंसिचेवसोलसरोगायंका पाउभूयातंजहा  
 सासि१खासेरजरे२दाहे३कूक्खिसूले४भदगंदरे५अरसा७जोणिसूले८जावकोटे१ईतएणंसाणागसिरी  
 माहणीरोयायंकेहिं अभिभूयासमाणी अट्टुहट्टवसडाकालभासेकालंकिच्चाछ्ठीए पुटवीएवावीसंसा  
 गरोवसेट्टिईएणुणएणुणेरइयत्ताएउववसासाणंतओअणंतरंउव्वट्टितामच्छे सुउववसातत्थणंसत्थ

मललोदीइं खरडीवस्तुमाखीएवीटीथि तेणीइं देहलीइं वकीकाइं करी तेअन्ननोपिंडलेइकरी वृत्तियाजीवकाप्रतं करतीछतीविच  
 रेरहेत्ते तिवारपच्छीतेनागसिरीवांभणीनें तभवनेविषे चेवनिच्चे सोलसरोगज्वरादिआतंकचूलादिरोग एहवासोलरोगप्रगटथया  
 ऊपनातेकोहा तेअनुक्रमेकहेच्छे सास१खासरज्वर३ दाघज्वर४ कूखिसूल५ भगंदर६विरेचनोलागिबो७ योनिमांहिसूलऊपनी८तां  
 लगिजाकोठपयंतसोलरोगऊपना१६ तिवारितेनागसिरीवाभणी सोलरोगतंकेकरीघणुं पीडीछती कालकरिवानामासनें विषे का  
 लप्रते करीनें छट्टीनरकथवीजेविषे वावीससागरोपमनी आउखानीथितिनें विषे नकरनेविषे नारकीपणेऊपनीतेनागसिरीतेन

लिमित्ये तत्थाख्यानं देहंबलिकातयाअनुसवारोनेपातिकः सत्यवक्रात्तिशस्त्रवध्याजातेतिगम्यतेदाहवक्कंतीएत्ति दाहव्य, क्, त्यादा

वज्रभादाहवक्कंतीए कालमासेकालंकिञ्चा अहेसत्तमाएपुटवीएउक्कंसेणंतेत्तीसंसागरोवमद्विईएसुणे.  
रइयत्ताएउववखासाणंतओअणंतरं उव्वट्टितादोच्चं पिमच्छेसुउववज्जइतत्थवियणं सत्थवज्जभादाहव  
क्कंतीएतेत्तीसंसागरौवमद्विईएसुणेइएसु उववज्जइसाणंतओहिंतो जावउवट्टित्ततच्चंपिमच्छे सुउ

रकथकीआंतरारहितउदवत्तीनीकलीनें माछिलीनीकूखिनेविषे' अपनीतिहांशस्त्रे' करी वधवामारवायोग्यथइ शस्त्रेमारीछतीदाघ  
नेअपजवे' करीकालमासने' विषे' कालप्रते' करीने' अधोहेठलीसातमीनरकष्टवीनेविषे' उक्क, ए' तेत्तीससागरोपमनीआउखानीयि  
तिनेविषे' नारकीपणेअपनीतेनागसिरीनोजीव तिहाथकीआंतरारहितनीसरेचवीने वीजीवारमाछलीकूखिने' विषे अजपजतिहां  
पणिवलीशस्त्रे' करीवधवामारिवायोग्यथइ शस्त्रे करीमारीछतीदाघज्वरनीअतपत्ये' करी वीजीवारहेठलीसातमीनरकष्टथवीनेविषे  
तेत्तीसंसागरोपमनी आउखानीथितिने' विषेनरकनेविषे' नारकीपणेअजतेनागसिरीनोजीवतिहांथकीचवीनें तीजीवारमच्छेनेंवि

होत्पत्याख्यहरविहाणाद् जावअदुत्तरंचेत्यत्र गोशालकाध्ययनसमानं सूत्रं ततएवंदृश्यं बद्धत्वानुनलिखितं सुकुमालकेकोमलेका

ववणातत्थ वियणंसत्यवज्जाजावकालमासेकालं किञ्चादोच्चं पिछ्छद्वाएपुटवीए उक्कोसेणंतओअणंतं उ  
 व्वडित्ताउरगेसुएवंजहागोसालो पुठविसुतहाणेयव्वं जावरयणप्पहाओसत्तसुउववणातओउव्वडि  
 त्तासणीसुउववणा तओउव्वडित्ताजाद् इमाद् खहयरविहाणाद् जावअदुत्तरंचणं खरवायरपुठवि

पंऊपनीतिहापणिवलीसखे करीवधमारवयोग्यथईशखे मारीछतीदाषनीउत्पत्ये करीकालकरिवानामासनेविषेकालकरीनेनीजीवा  
 रअद्वीनरकष्टथवीनेविपेउत्कृटीआउखानीथितिउपनी नरकनेविषेनारकीपणेउपनीतिहायकीआंतरारहितनीसरीनेचचीनेउरप  
 रिसर्पनेविपेउपनीइणंप्रकारे जिमभगवतीसूत्रमाहिगोसालानोअधिकारकस्योछे तिमजाणिवु संसारिमाहिपरिअमणनोअधिकार  
 तांलगीजांप्रथमपहिलीरतनप्रभाष्टयवीआदिदेईसातेनरकष्टथिवीचानेविसेऊपनीअवतरीतिहायकी नीसरीने चवीने सातवारअस  
 न्नीशानेविपे ऊपनीतिहायकीचवीने जेएइम खचरंपंखीयानीजातिने विषे ऊपनीभववणाभमीनेतांलगीजांअदुत्तरंचक० हवे खरक

मत्यर्थं गजतालुकसमाना गजतालुकं ह्यत्यर्थं च सुकुमालं भवतीति जुक्तं चेत्यादि युक्तं संगतं प्रत्तं ति प्राप्तं प्राप्ताकालं पालं वा गुणानामेष

काद्रुयत्ताणसु अरणे गसयसहस्रखुत्तोसाणंतओअणंतरं लुव्वहत्ताइहेवजंबूहीवेइ भारहेवासिचंप्राएण  
 वरीएसगरदत्तस्ससथवाहस्स भद्दाएभारियाए कुच्चिंसिद्धारियत्ताए पव्वाथातएणं भद्दासथवा  
 हीणवरहंमासाणंबहूपडियुसाणं जावदारियंपथायासुकुमालकोमलियगयतालुय समाणंतीसेदा

ठिनवादर पृथवीजायने विषे पृथवीपणेजपनीतिहाते पृथवीने विषे अनेकघणालाखेग सेभवकीघाधणादुखभोग व्यांइमवीजाइ  
 घणाभवकरी तेनागसिरीनेजीवइ मयांचथावरांमाहि दुखभोगवीतिहायकी आतरारहितनीसरोचवीने इमभमतांदुखभोग  
 वताखमतांकितलांइककालगथा पच्छीएहिजजंबूही पनामाहीपनेविषे भरतद्येतनेविषे चंपानामानगरौनेविषे सागरदत्तनामा  
 सार्थवाइनीभद्रानामाभार्थास्त्रीनी कुच्छिने विषे दारिकापुलीपणेजपिनी तिवारिभद्रासार्थवाही नवमासवज्जसंपूर्णेपराप्रतिपूणे  
 यइक्कते तालगीजांदारिकापुलीप्रतेजणीप्रसवी तेकेहवीक्खेसुकुमालकोमलिकाकहता अत्यर्थंघणुंजसुकुमालसुंहालुं गजतालुकसमा

रियाएणिवत्ताएवारसाहियाएअस्मापियरोइलंएयाख्वंगोणंगुणिअसंशासमधिञ्जंकरंतिजरुहा  
 णंएसादारियासुकुमालगततालुग्रसमाणांतहो उणंअरुंहइसीसिदारियाएणामधेज्जं सुकुमालिया  
 तएणंतैसिदारियाए अस्मापियरोणामधेज्जं करंति सुकुमालियत्तितएणंसासुकुमालियादारियाए  
 पंचघाईप्रिण्णाहियातंजहा खीरघाईएसज्जंणाघाईएसंडणघाईएअं कघाईएकौलावणिघाईए गिरि

नाक० हाथीनातालुआ सरिखीसुंहालीछे हाथीसुंतालुं उंघणुंजसुकमालऊइ तेहाथीनातालुआसरिखीसूहालीवेटीनें जनम  
 पाख्यापश्रीवारसोदिवसनिटत्तछते निटत्तछतेमातापिताएप्रत्यक्षएहनुं गुणथकीआव्योगुणनिःपन्न एहवोनामधेयनामकरे जेकार  
 थकीएवेटीसुकुमालवणुं सुकमालसुंहालुं हाथीसुंतालुं उंतेसरिखीसुकमालछेजेवेटीतेकारणथकीयाओहोअम्हारिएवेटीसुं नाम  
 लेवायोग्यनामधेय सुकमालिकानामथाप्यो तिवारवच्छीतेवेटीनोनामसातापितानामधेयनामलेवायोग्यसुकुमालिकाघापेतिवारपच्छीते  
 सुकुमालिजावेटीपचिधात्रिंघहोछती तेजिमग्रनुक्रमे कहेछे खीरदूधधविराविवाभणीस्नानिअंघीलिकराविवानीधाय मंडनसिण



कंदरभल्लीणाद्रवचंपगलयाणिव्वाया णिवाघायंसिजावपरिवड्डइतएणंसासुकुमालियादारियाउमकू  
 वालभावारूवेणयजोव्वणेणय लावण्येणयउक्किड्डाउक्किड्डसरीरा जायायाविहोत्था तत्थणं चंपाएणय  
 रीएजिणदत्तेणामंसत्थबाहे परिवसइअड्डे तस्सणंजिणदत्तस्सभहाभारियासुकुमाला इड्डाजावमाणु  
 स्सएकामभोगेपच्चणुभभवमाणाविहरइ तस्सणंजिणदत्तस्सपुत्तेभहाए भारियाएअत्तएसागरएणामं

गारअलंकारपहिरावेतेधाय अंकखोलाने विषे तेडे धावि क्रीडाविनोदनीकरावणहारी धायिएणीएपांचेधायें ग्रहीच्छती गिरिकंदरा  
 पर्वतनीगुफामांदिअलीनयईऊगीऊदयपामी तेहनीपरिएहवीचंपकलता चंपावृक्षनीलतानिर्वातरहीच्छती एहवानिव्याघातउपद्र  
 वरहितठामनेविषे तालगीजांढद्विपामेवाधेतिमसुकमालिकाढद्विपामे तिवारपच्छीतेसुकमालिकावेटी वाल्याभाववालपणानोस्वभा  
 वमं काणीच्छतीरूपेकरी यौवनवये करीलावण्यगुणेकरी उतृष्टपीउतृष्टशरीरनीधरणहारी सर्वांगसुंदरीधातीहई तिहांचंपान  
 गरीनेविषेजिणदत्तनामा सार्थवाहवसेछेघणं ऋद्विर्वतच्छे तेजिनदत्तसार्थवाहनी भद्राभार्थीस्वीड्डंती सुकुमालिकाछे इष्टवालहीछे

दारएसुकुमालिजावसुखे तएणसेजिणदत्ते सत्यवाहेअखयाकथाएसयाओगिहाओ प्रडिणिकवसहर  
 तासागरदत्तखसत्यनाहखअदुरसामंतेणवीईवयइइमंचणं सुकुमालियादारियारहायाचेडियासंप  
 रिवुडाउप्पिं आगासतलगंसिक्कणगमइतंदुसएणंकीलबाणीरविहरइतएणंसेजिणदत्तेसत्यवाहेसुडुआमा  
 लियंदारियंपासईरतासुकुमालियाएदारियाए खवेणयजायविभहएकोडुं वियपुरिसेसइविइरताए

तालगिजांमनुय्यसंबंधियाकामभोगप्रते' भोगवताअनुभवताछताविचरेछे तेजिणदत्तनोपुत्रे अद्रुभाभार्याखीनोअंगजातछे सागरना  
 मादारकपुत्रसुकुमालेछे हायपगजेहपुत्रनातांलगीजां सरूपसुंदराकारेचितिवारितेजिणदत्तसार्थवाह एकदाप्रखाविपोतानावरयकी  
 नीसरेनीसरीने सागरदत्तसार्थवाहनावरयकी अतिवेगलोनहींपणुं डू कडुंनहीं घरने अडतोरव्यतिकसेछेजाइछे तिवारिएहवेस  
 मे' एसुकुमालिकापुलीन्हाहीछती चेटीकादासीयांनेपरिवारेपरिवरीछती उपरउपरजं चिपीटणीने विपेचढीने सोनानेदडेकरी  
 कीडाकरतीछतीरविचरेछे तिवारपस्त्रीजिणदत्तसार्थवाह सुकुमालिकावालिकाप्रते' देखेदेखीनेसुकुमालिकावालिकाने रूपेकरी

वंवयासीएस्यं देवाणुष्यियाकस्यदा रिया किंशामधेच्छंसे तएणसेकोडुं वियधुरिसाजिणदत्तेणं सत्थवा  
हेणं एवंबुत्ताससाणाहडुडुडा कारयलजावएवंवयासी एसणं देवाणुष्यियासागरदत्तस्यसत्थवाहस्यधू  
यामह्वाएअत्तएसुकुमालियाणा अंदारियासुजुभालपणियाथाजावउक्किट्टातएणंसेजिणदत्ते सत्थवाह्हे  
तेसिंकोडुं विद्याणंअंतिए एयसपुंसोच्चाजेणेषएगिहेतेणेव उवागच्छइत्ताशहाएमित्तणाइसद्धिसंप

सौवनवये' करीलावखनेगुणेकरी उल्कृष्टीउल्कृष्टाशरीरवतीने गुणेकरीअचरिजपाम्योच्छतो आदेशकारीपुरुषांप्रते' तेडावेतेडावी  
ने' इणंप्रकारे' कहतोऊओ एहेदेवानुप्रियोएकेहनीदारिकावालिकाहेसुं नामधेयसुं नामहेसेतेकुमरीडुं तिवारप्रच्छीतेकौटुं बिज्जआदे  
शकारीपुरुषपजिणदत्तसार्थवाहे' इसपूर्विनीपरिकह्याकृता हर्षसंतोषपाम्याकृतावेहायजोडी माथाने' विषेअंजलीकरे इणेप्रकारे' कह  
ताह्अंजिणदत्तसार्थवाहने' एहेदेवानुप्रिवहेस्वामीसागरदत्त सार्थवाहनीपुतीहे' भद्रास्त्रीनीअंगजातिके सुकुमालिकानामे' दा  
रिकावालिकाहेसुकुमालसुंहालीहेहाथपजनेवालिकानारूपेलावण्ये' धौवनवये' करीउल्कृष्टीउत्कृष्टाशरीरनीधरगह्यारीतिवारितेजि

रिवृडे चंपा एणयरो एमउभं सउभे णं जेणेवसागरदत्तस्यसत्यवाहस्यगि ह्येतेणेवउवागएतएणंसेसागरदत्ते  
 सत्यवाहेजिणदत्तंसत्यवाहं एज्जमाणंपासइइत्ता आसणाओअभुइइइत्ता आसणेणंउवणिमंतेइइत्ता  
 आसत्यंओ सत्यंसुहासणवरगयंजिणदत्तंसत्यवाहं एवंवयासोभणदेवाणुप्पिया किमागसणपयोयणं  
 तएणंसेजिणदत्ते सागरदत्तंसत्यवाहं एवंवयासो एवंखलु अहं देवाणुप्पिया तवधूयंभद्दाएअत्तयंसुक्कु

जदत्तसार्थवाहतेयादेयकारीपुषपानासमीपयकीएत्रालिकाना समाचारप्रतेसाभलीने जिणेवजिहांपोतानोषरच्छे तिहाआवेआवी  
 नेस्मानकीओअंओलीकरीने मितन्यातिप्रसुखसगलापरिवारसंघाते परिवस्योक्तोचंपानगरीने माहियईने जिहांसागरदत्तसार्थवा  
 इनोषरच्छे तिहाआव्योतिवारितेसागरदत्तसार्थवाहपते आवताप्रते देखे देखीने आसणवेसगाथकीऊठेउठीने  
 वेनेनिमंतवणाकरेकरीने वारूवेसगोम्भूकेतेउपरवेसेजिणदत्तसंतोययाप्रते वीसामोलीषापक्केसुखासनभलाआसणउपरिवेठोक्कतो  
 एह्जानिणदत्तसार्थवाहपते इणेप्रकारे पूक्कतोऊयो सागरदत्तभणोक्कहो हे देवानुप्रियहेजिनदत्त तुम्हने इहांसुभतांइ आविवानो

मालियंसागरस्सभारियत्ता एवरेमिजइणंजाणह देवाणुप्पियाजुत्तंवापत्तंवा सत्ताहणिज्जंवासरिसो  
 वासंजोगोवातोदिज्जउणंसुकुमालियादात्रियासागरस्सदारगस्सतएणंदेवाणुप्पियाभणकिंदलयामोसु  
 कं सुकुमालियाएतएणंसेसागरदत्ते सत्थवाहेजिणदत्तं सत्थवाहं एवंवयासौएवंखलुदेवाणुप्पियासुकु  
 मालियादारियाएगाजायाइइअप्पु जावकिअंगणुणपासणयाएतंणोखलु अहंइच्छामिसुकुमालियाए

स्युं प्रयोजनकारणच्छेतेकहो तिवारिवलतो जिणदत्तसार्थवाह सागरदत्तसार्थवाहप्रते इमकहतोह्मओइणेप्रकारि निश्चे ऊं हे देवानु  
 प्रियताहरीपुत्रीवेटी भद्रास्त्रीनीअंगजातिपुत्री सुकुमालिकाप्रते सागर्नीभार्यापणे वरं कुं मांगुं कुं जोतुह्म जाणो हे देवानुप्रियहे  
 सागरदत्तयुगतोमिल्यो पास्याकालप्रते पास्युं गुणवंतानेएपुलपातक्के स्थावनीयप्रसंस्वाकरवायोग्य सरिखोवाह्यअभंतरनोसंयो  
 गमिल्योच्छेद्योआपो सुकमालिकापुत्रीसागरवालकपुत्रने तेकारणथकीहे देवानुप्रिय भणोकोहोस्युं आपुं ऊं कन्यानेसुल्यसुकुमालिका  
 ने तिवारपच्छीतेसागरदत्तसार्थवाहजिणदत्तसार्थवाहप्रते इमकहतोह्मओइमखलुनिश्चे हे देवानुप्रियसुकुमालिका वालिकावेटीएक

दारियाएखणमविष्मश्रोगंतजद्रुणं देवाणुष्मियासागरदारएममध्रजामाउभवद्रुतौणं श्रहंसाग  
रसदारगस्वसुकुमालियं दारियं दलयोमितएणंसेजिणदत्ते सत्यवाहिसागरदत्तेणं सत्यवाहिणं एवंवुत्ते  
समाणेजेणेवसएगिहितेणेवउवागच्छइत्ता सागरदारयंसद्दवेइत्ता एवंवयासी एवंखलुपुत्तासागर  
दत्ते सत्यवाहि समं एवंवयासी एवंखलुदेवाणुष्मिया सुकुमालियादारियाइडाप्रतंजइणंसागरएममध्र

जगीछेवाएहीछे उंवरवृक्षनाफलनीपरिदोहिलीपामीछे तालगीजाकिमितिप्रन्ने अंगकोमलामंत्रणे वलीदेखवेकारीदोहिलुंछेदर्शनजे  
पुवीरुं तेकारणयकीनिचे ऊं वाकुंछुं सुकुमालिकापुवीनीनोक्षणमातविजोगप्रते ऊं वाकुंनहींछुं एहनोवियोगनथाओइमजाणुंछुं तेका  
रणयकीहेदेवानुप्रियहेजिणदत्त सागरपुत्रमाहरेधरजमाइयईरहेतोऊं सागरवालकनें सुकुमालिकापुवीप्रते देउं आपुं इमक  
त्तं, तिवारितेजिणदत्तसार्थवाह सागरदत्तसार्थवाहे इणंप्रकारे कह्योछतो जिहापोतानोघरछेतिहांआवेआवीने सागरपुत्रप्रते ते  
डावेतेडावीने इणंप्रकारे पूच्छितोह्रवो एणंप्रकारे खलुनिचे हेपुत्रसागरदत्तसार्थवाह सुभ्रप्रते इमकहतोह्रवो इणंप्रकारे निचेदेव

जामाउएभवद्रजावदलामितएणंसेसागरएदारएजिणदत्तेणंसत्यवाह्णिणंएवंवुत्तेसमाणे तुसिणीएसंचिइइ  
 तएणंसेजिणदत्तेसत्यवाहेअस्सयाकयाइसोहणंसितिहिकरणेविपुलंअसणंप्राणंखाइकंसाइसंउवकखडा  
 वेइइत्तामित्तणाइआमंतेइइत्तासक्कारित्तासम्माणेत्तासागरंदारयंएहायंजावसव्वालंकारविभूसियंकरे  
 इइत्तापुरिसहस्सवाहिणीयंसीयंदुरहविइइत्तामित्तणाइजावपरिवुहेसव्विड्डिएसाओणिहाओणिगच्छ

देवानुप्रियसुकुमालिकापुत्रीएकजणीक्खिषणुंवालहीत्तेकारणथकीजोसागरबालकमाहरोघ्रजमाईऊइरहेतोऊंपुत्रीदेउतिवारपक्की  
 तैसागरबालकंपुत्रजिणदत्तसार्थवाहेइरणंप्रकारेकत्थोच्छतोअणबोल्थोरहेतिवारपक्कीतेजिणदत्तसार्थवाहएकदासमेरुडीसोभन  
 तिथिनेविषेरूडाकरणसुहृत्तनेविषेविपुलविस्तीर्णघणोअन्नपाणीखादिमस्वादिमचारप्रकारनोआहारनीपजावेनीपजावीनेमित्त  
 न्यातिप्रमुखसगलापरिवारनेनिऊंतरेनिऊंतरीनेजिमाडीनेचलूलेइपवित्तथयापक्कीफलफलवस्त्रदेईसत्कारिसनमानेसत्कारीने  
 सन्मानवऊदेईनेसागरबालकप्रतेअंबोलिप्रतेकराविकरावीनेतांलग्गीजांसर्वआभरणअलंकारपहिरावीविभूषितसोभायमानप्रते

इत्ताचंपाण्यरिं जेणेवसागरदत्तस्वर्गिहे तेणेवउवागच्छइत्तासीयात्रोपच्चोरहेइत्तासागरंदारयं  
सागरदत्तस्वउवणेइतएणसेसागरदत्ते सत्यवाहेविपुलंअसणंपाणंखाइसंसाइसंउवकवडाविइत्ताजा  
वसम्भाणेत्तासागरंदारयं सूकुमालियाएदारियाएसडिंपड्यंदुरुहाविइत्तासीयापीथएहिंकलसेहिंस

करेकरीने पुरुषसहस्रनाहिनीहजारपुरुषेवहीये उपाडीयेएहवीशिविकापालखीप्रते' वेसारेवेसारीनेमितज्ञातिप्रमुख सगलापरि  
वारसंघाते'परिवस्योऽतो सगलीऋद्धिकरीषणाआडंबरसहित पोतानाघरथकीनीसरेनीसरीने चंपानगरीमाह्मिथईने' जिहांसाग  
रदत्तसार्थवाहनोघरकेतिहाआवेआवीने पालखीयकीहेठोउतारेहेठोउतारीनेसागरपुतने' सागरदत्तसार्थवाहने' आपेतिवारपच्छीते  
सागरदत्तसार्थवाहविपुलविस्तीर्णवगुं अन्नपाणीग्वादिमखादिमख्यारप्रकारनोआहारंधावेरंधावीने' नीपजावेनीपजावीनेमितज्ञा  
तिप्रमुखसगलापरिवारने' तेडीने' जीभाडीने' वगुं फूलफलवस्त्रआभरणअलंकारदेईने' सागरपुत्रप्रते' सुकुमालिकापुत्रीसंघाते' पाट  
सावाजोटप्रते' वेसारेवेसारीने' श्वेतधोला रूपानाकलसपीतसोनानाकलसतेणेकरी मज्जनकरावेकरावीने होमप्रते' करविकरा



पुनः स्थावनीयं वा सहशवासहशो वासंयोगो विवाह्ययोरिति सेजहानामएअसिपत्ते इवा इत्यतयावत्करणादिदं द्रष्टव्यं करपत्ते इवा  
 खुरपत्ते इवा कलंबचीरिगापत्ते इवा सत्तिअग्नेति वा कौतग्नेति वा तोमग्नेति वा अडिमालग्ने इवा सूचिअलावएति वा विच्छु यकडे  
 इवा कइकच्छुयवासुम्ना रेति वा अञ्जी इवा जाले इवा अलाएत्ति वा सुद्धागणी इवा भवेयारूवेनोद्गण्डे समष्टे एत्तो अग्निद्वतराएचेव अकंतत

ज्जावेइइत्ताहो संकारावेइइत्तासागरदत्तं दारयं सूकुमालियाएदा रियाएपाणिं गिरहावेइइत्तातएणं  
 सागरएद्वारएसूकुमालियाएदा रियाएइसं एयाह्वं पाणिफ्रासंपडिसं वेएइसेजहाणामएअसिपत्ते इवा

वीनें सागरपुलप्रतंसूकुमालिकावाक्यानोपाणिहाथप्रतें ग्रहणकरावेग्रहणकरावीनेति वारिसागरपुलसूकुमालिकाक्यानोएप्रत्यक्षए  
 हवोपाणिहाथनोफरसलागोजाणेंतेकेहवोफरिसतेजिमनामकोमलामंतणेअसिपत्तक० खडगनीधारासरिखोफरसकरवतनीधारास  
 रिखोफरसकुरपलानीधारासरिखो वीछुनाकांटासरिखोकोचिनोजेहवोफरिसऊइभालानी अग्नीनोजेहवोफरिसअग्निनासुसुंरअ  
 गनीनाफिणमीअपांखीइं करीछांटीज्वालाइं धनसंबंधीफालतेहनासरिखोफरिसएसगलानाफरिसअग्नीअनिष्टतरवणुंपाड्योभंडोनि

राएचेवअप्पियतराएचेव अमणुसतराएचेव अमणामतराएचेवत्तितत्तासिपत्वं खड्गः करपत्वं ककचंदुरपत्वं कुरः कदंबचीरिकादीनि लो  
 कदृष्टयावशेयानि दृष्टिकंडट्टिककंठकः कपिकच्छूः खजूंकारीवनस्यतिविशेषः अंगारोविज्वलोविज्वालोग्निकणः सुसुंरोग्निकणमिअं  
 मस्रअर्चिर्धन प्रतिवद्वाज्वाला ज्वालातुइंधनच्छिन्ना अलातमुलमुकंशुद्धान्नि रयस्यिं डातर्गतोग्निरिति अकामएत्तिअकामको

जावमुसु रेइवाएत्तो अणिइतराएचेव प्राणिफासंसंवेइइ तएणंसेसागरद्वारए अकामएअवसवसेसु  
 ऊत्तमेत्तंसिचिइइ तएणंसागरदत्ते सत्यवाहे सागरस्वदागरस्व अस्मापियरोमित्तणाइ विपुलं अस  
 णंप्राणंखाइअंसाइसं पुपफवच्छजावसस्माणेत्तापडिविसज्जेइतएणंसागरद्वारए सूकुमालियाएसडिं

येहायनोफरिसच्छे तिवारितेसागरनामापुत्रअकामक० अभिलाषवांछारहितच्छतोअवसवसेक० गयोच्छेपोतानुं आलोचनपणेएतलेप  
 रिवसपगुंपाम्योक्तोम्बुहत्तमाववेघडीलगी तिहाचोरीमाहिवेठोहायनो फरसएइवोलागोहिवेपरणी उतस्योतिवारपच्छीसागरद  
 त्तसार्थवाहसागरपुत्रना मातापितामित्तज्ञातिप्रमुखसगलापरिवारप्रते' विसीर्णअन्नादिच्यारप्रकारनोआहार नीपजावोजिमाडी

निरभिलाषः अथसवस्त्रस्त्रिअपस्त्रवशा अपगतात्मातंतत्वइत्यर्थः तलिमंसिनिवज्जइत्ति तल्पे शयनीयेनिषट्थते पइवयत्तिपतिंभर्त्तारं

जेणेववासधरेतेणेवलवागच्छइरत्तासुकुमालियाएदारियाएसद्धिंतलिमंसिणिवज्जइत्तएणंसेसागरए  
 दारएसुकुमालियाएदारियाए इमंएथाखूंअंगफासंसवेइएसे जहाणामएअसिपत्ते इवाजावअमणा  
 मतराएचेवअंगफासंपच्चणुभभवमाणेविहरइत्तएणंतेसागरदारएअंगफासं असहमाणेअवसवेसेसुहु

नें चलूलेईचोखापवित्कारी तंबोलादिफूलफलवस्त्रअभरणदेईशल्कारीबड्डमानदेईनें मोकलेतिवारिसागरपुत्र सुकुमालिकाकन्या  
 संघातें जिहांवासघरच्छेतिहांअवेअवीनें सुकुमालिकावालिकासंघाते तलिमंसिक०मांचानेविषेनिज्जवेक०सूइ तिवारितेसागरपु  
 त्सुकुमालिकावालिकासंघाते एहवुंअंगनोफरिसजाणे तेजिमदृष्टानामकोमलामंतवणेज तरवारनीधारानोजेहवोफरसड्डवे ताल  
 गीजांअमणामतरघणुं पाडयूोकष्टकारीफरिसड्डवे एसगलानाफरसथकीतेसुकुमालिकानाशरीरहुं फरिसघणुं पाडयूेएहवासुकु  
 मालिकानाशरीरना फरसप्रतें अनुभोगवतोच्छतोविचरेछे तिवारितेसागरपुत्रसुकुमालिकाना शरीरनांफरसप्रतें अणसहतोअणख

व्रतयति तमेवाभिगच्छामीत्येवं नियमं करोतीति यतिव्रतापतिमसुरक्ताभर्तारं प्रति रागवतीति मारासुक्रेविकाएत्ति सार्धं ते प्राणिनो

क्षमिन्तं संचिद्वद् तएणं सागरएदारएसूकुमालियं सुहृपसुत्तं जाणित्तासूकुमालियाएदारियाएपासा  
ओउड्डेइरत्ता जेणेवसएसयणिज्जे तेणेवउवागच्छइरत्ता सयणीयंसिणिवज्जइ तएणंसूकुमालियादा  
रियातओसुज्जत्तं तरस्वपडिनुद्वासमाणीपतिवथापतिमणुरत्ता पत्तिंपासेअपासमाणीतलिमाओउड्डे  
इरत्ताजेणेवसएसयणिज्जे तेणेवउवागच्छइरत्ता सागरस्वदारगस्स पासेणुवज्जइ तएणंसेसागरएदा

मतोद्धतो परिवसपणोपास्योच्छतो म्हरत्तंमात्रवेषडीताइंरहे तिवारिसागरपुत्रसूकुमालिकाकन्याप्रते' सुखेसूतीप्रते' जांणीने'सुकुमा  
लिकाकन्यापासायकी उद्योउडीने' जिहापोतानोशयनीयय्याच्छे तिहांआब्योआवीने' सयाने'विषे सुखेतिवारिसूकुमालिकावासिका  
तिहायकीगथापश्चिवेषडीने' आतरजागीच्छती पतिभर्तारसागरतेहिजप्रते' जाउं' एहवोनि यमच्छेपतिव्रता पतिभर्तारप्रतेअसुररत्त  
रागवतीच्छे पतिभर्तारप्रते' पासाने' विषे अणदे'खतीच्छतीतलिममांचायकीजठेजटीने' जिहांपोतानोशयनीयसय्याच्छे तिहांआविभा

रएसूकुमालियाएदारियाएदोच्चं पिद्रमंद्रयाखुवं अंगफ्रासंपडिसंवेएद्रसेजहाणामएअसिपत्ते इवाजा  
 वअमणामतराएचेव अंगफ्रासंपच्चणुभभवमाणेविहरद्र तएणंसागरएदारएतंअंगफ्रासंअसहस्राणे  
 अक्राममाणेअवसवसेसुऊत्तमेत्तंसंचिद्रद्र तएणंसागरएदारएसूकुमालियंदारियं सुहपसुत्तंसुत्तंजा

वीनें सागरपुलभरतारना प्रासाने विषेजाइतिवारितेसागरपुल सुकुमालिकावालिकानोबीजीवार एप्रत्यक्षएह्वुं अंगसरीरनाफरि  
 सप्रते जाणवेदेतेजिमदृष्टांतनामकोमलामंत्रणे असिपततरवारनीधारानो जेहवोफरिसऊवेअमणामतरघणुं जपाडूयो फरिसऊद्र  
 एसगलानाफरिसयकी घणुं जपाडूयोसुकुमालिकास्त्रीनासरीरनाफरिसप्रते अनुभवतोभोगवतोछतोविचरेके त्रिवारितेसागरपुल  
 तेअंगसरीरनाफरिसप्रते असहतोछतोअणखमतोछतो स्त्रीनीअणुवांछाकारतोछतो पोताडुं वशपणुं गद्युं छे एतलेपरिवसिपणुं पा  
 स्योछतो मूर्हतंमात्वेषडीताईरहे तिवारितेसागरपुलसुकुमालिकावालिकाप्रते सुखे सुतीप्रते निद्राकीधाम्रते जाणीने सयनीय  
 मांषायकीऊठेजठीने वासघरनांवारणाप्रते उघाडे उघाडीनेमारामुक्के क० मारीयेके प्राणीने जेशालाघरने विषे तेमारामुनाक

वस्यांयालायांसामाराम्यनातस्यांसुक्तोचः समाराम्युक्तोमाराम्यद्वामरणान्मारकपुरुषाद्वासुक्तोविच्छटितः कानोवाचसःवक्रवरस्त्वितिवधूच

णितासयणिज्जाओ उङ्गे इङ्गतावासधरस्वदारंविहाडिइङ्गतामाराम्युक्तेदिवकाएजाभेवदिंसिंपाउभूमू  
एताभेवदिंसिंप्रडिगएतएणंसूकुमालियादाख्यातओसुङ्गत्तंतरस्वप्रडिबुद्वापतिवयाजावअपासमाणी  
सयणिज्जाओउङ्गेइङ्गतासागरस्वदारगस्वसव्वओसमंतामगणगविसणंकरेजाणीइ वासधरस्वदारंवि

हियेतेमारानीववधवानाथानकयकी सूकाणोछुटोजेतेप्राणीनासेतेमाराम्युक्तकहीये अथवामारकहतामरणयकीछुटोअथवामारण  
हारालोप्रीपुरुपनाहाययकीसूकाणोछुटोछतोकककागवायसजिमपोतानाथानकने विषेनासीजाइ तिमसागरपुत्रस्त्रीरूपमारवाना  
थानकयकी छुटोछतोप्राणीजीवनासीजाइ जेणीदिशियकीप्रगटययोआव्योहंतो तेणीजदिशिप्रते पाब्बोवलीगयो तिवारपच्छीसुकुमा  
लिकाणालिकातिहांयकीउठीगवापच्छीसूहत्तां तरने आतरेघडीघइने आंतरेप्रतिबुद्वाजागीतेकेहवीहेपतिभर्तांरतेहिजप्रते उंजा  
उं एहवोनियमकरेपति त्रतासतीकहीयेभर्तांरप्रते धणुं रागवतीछेएहवी सुकुमालिकासतीधणीप्रते नदेखतीछतीगयनीयशय्या

हं बियकोडुं बियद्रुभसेद्विसैणावद्र सत्यवाहप्यभिद्रुत्रोकरयलपरिगर्हिहयंदसणहं सिरसावत्तंमत्थए  
 अंजलिकद्र, जएणंविजएणंवद्वावेहिहत्ता एवंवद्याहीएवंखलुदेवाणुप्पिया कंप्पिस्सपुरेणयरेदुवयस्सर  
 खोधूयाएचुलणीएदेवीएअत्तयाए धट्टजुणकुमारस्सभगिणीए देवईएरायवरकणाए सयंवरभविस्सद्र

एकवीसवीरपुरुषनासहस्र द्वारिकानगरीमांहिवसेच्छे महासेनप्रमुखआदिदेईच्छप्पन्नबलवंतवर्गनासहस्रमस्रनीपरिवलवंतच्छेभूष्कार  
 अनेरावीजाधणा राजाईश्वरयुवराजातलवरतलारमांडवीआ जगतीआदेशकारीपुरुषद्रुभलस्त्रीवंतव्यवहारीआ सेठिनगरसे  
 ठिसेनापतिकटकनाधणीसार्थवाह अधोवाइआप्रभृतिप्रमुखआदिदेई सगलाप्रतें करतलवेहायजोडी दसनखएकठाकरीमाथानेविषे  
 आवर्त्तकरि माथाने' विषेअंजलीप्रतेकरीने' पोतानादेशमांहिजयहोपारकादेशमांहि विजयप्रतापयाओतुमारो इत्यादिवचनक  
 हीनेवधावजेवधावीने एणंप्रकारे' तुंकाहजे इणेप्रकारे' खलुनिश्चेहेदेवानुप्रियाओ सांभलोकांपिस्सपुरनगरनेविषे द्रुपदराजानीबेटी  
 नोचुलणीराणीनी आलजाअंगजातपुत्रीतेहनो धृष्टार्जुननामाकुमरनीवहिननो दीपदीनामाराराजावरकन्यानोखयंवरहोस्ये तेकार

तस्यं तु भेदूवयं रायं अशुगिरुहमाणा अकालपरिहीणा चैव कंप्पिह्यपुरेणथरिसमोसरह तएणंसेदूएकर  
 यलजावकट्ट, दुवयस्सरसोएयमट्ट विणएणंपडिसुणेइत्ता जेणिवसएगिहेतेणेव उवागच्छइत्ता कोडु वि  
 यपुरिसेसहावेइत्ता एवंवयासौखिप्पामिव भोदेवाणुप्पियाचाउघंटं आसरहंजुत्ता सेवउवट्टवेहजा  
 वउवट्टवेइत्तएणंसेदूएणहाए जावसस्सिरीएचाउघंटं आसरहंटुरुहइत्ता बह्हिं पुरिसेहिंससुइबद्ध

णथकी तुह्मेदुपदराजाप्रतेअशुग्रहकरताप्रसादकरताच्छताघणुं उतावलाउं तावलाच्छतावेगाविलंवररहिताच्छतानिचै कंप्पिल्यपुरनगरसे  
 समोसरोआवीने उतरोइसकह्यं, तिवारपच्छीतेदूतवेहायजोडीमाथाने विषे आवत्त करीमाथानेविषेअंजलीकरीने दुपदराजानाए  
 वचनप्रते विनयकरीतहत्तिकरीअंगीकारकरे अंगीकारकरीनेजिहापोतानोषरच्छे तिहांआवेआवीनेआदेशकारीपुरुषाप्रते तेडावेते  
 डावीने ईसकहतोह्मओ खिप्रमेवउताअलाजभोदेवाशुप्रियोहेसेवको च्यारघंटानाघोडानारथप्रते सुस्सेदकरीसज्जकरीने घोडाजोत  
 रीने आणीनेथापोसुं को तेसेवकतिमजच्यारिघंटानाघोडारथप्रते सज्जकरीआणीनेथापे तिवारपच्छीतेदूतसनमानकरीतांलगीजां



जावगहियाउहोपहरणेहिंसद्धिं संपरिवुडेकंपिस्तपुरंणधरं मज्झमंमज्झेणंरिग,च्छइत्ता पंचाल  
जणवयस्समज्झमंमज्झेणं जेणेवदेसप्यंते तेणेवउवागच्छइत्ता सुरद्वजणवयस्स मज्झमंमज्झेणं जेणेववा  
रवइरण्यरी तेणेवउवागच्छइत्ता वारवइंण्यरिंमज्झमंमज्झेणं अणुप्पविसइजेणेवकरहस्सवासुदेव  
स्सवाहिरियाउवट्टाणसाला तेणेवउवागच्छइत्ता चाउधंडं आसरहंठवेइत्ता रहाओपञ्चोरहेइम

बहुमूल्यवस्त्रअभरणअलंकारपहिरी सोभायमानच्छतो च्यारिंधंटानाअश्वरथप्रते चढेचढीने घणासुभटपुरुषसंघाते तेपुरुषकेहवाळे  
कवचजीवरखीसहस्रसेखीटोपप्रमुखपहिरीसन्धवइसन्नाहपहिरीलेईआयुइहथीआरप्रहरणहथी आरविशेषलेईकरीसावधानत्तेए  
हवांसुभटपुरुषासंघाते भलीपरिंपरिवस्योक्तो कांपिस्तपुरनगरमांहियईने नीसरेनीसरीने पंचालनामाजनपददेशने मांहियइने  
जिहांदेगनोप्रातच्छेहडोअंतच्छे तिहाआवेआवीनेसोरनामाजनपददेशमाहि पेठातिसोरदेशने मांहियइने जिहांद्वारिकानगरीच्छे  
तिहाआवेआवीने हारिकानगरीने माहिमाहि प्रवेशकरेप्रवेशकरीने जिहांद्वेषुनामानवमावासुदेवनीवाहिरलीविसवानीशालास

गुस्सत्रगुराप्रिरिक्खत्ते प्रायविहारचारेणं जेणेवकरहेवासुदेवे तेणेवउवागच्छइत्ता करहंवासुदे  
वंससुहृद्विजयप्रामोक्खं यदंसदसारे जाववलवगसाहसीओ करयलतंचेव जावसमोसरहतएणंसेक  
रहेवासुदेवेतस्सदूयस्सअंतिएयमडुं सोच्चाणिसम्महट्टुडे जावहियए तंदुयंसक्कारेइसम्भारेइसक्कारि

भाच्छे तिहाद्रूपदराजानोदूतआवेआवीने चारघंटानाघोडानारयवोडिवहिलिप्रते उभीराखेथापेथापीने घोडिबहिलथकीहेठोजत  
रेहेठोउतरीने मनुष्यनीवाजुराससुहतेणेकरी परिक्वत्तवीटोच्छतो पादविहारचारीपालोयईने चालतोच्छतो जिहाकृष्णवासुदे  
वच्छेतिहाआवेआवीने कृष्णवासुदेवप्रते समुद्रविजयप्रकुखआदिदेई दसदसारप्रते तालगीजा महासेनप्रमुखकृष्णन्ववन्वतंसहृदपयं  
तसगलापते ते हायजोडीकरीवधावीने इमकहतोह्र ओहेस्वामीद्रूपदराजानीवेटीनो स्वयंवरच्छेतेकारणथकी तुम्हानेते  
डवामोकल्युंछे तुम्हेकाविल्यपुरनगरनेविषे विलंवरहितआवोपधारीइमकच्छुं तिवारितेकृष्णवासुदेवतेदूतनासमीपथकी एस्समा  
चारप्रते साभलीनेहीआमाहि अवधारीने हर्षसंतोषपास्योच्छतो तालगीजाहृतहृदयघणुं हीयामाहिहर्षपास्योच्छतोतेदूतप्रते सत्का

तासम्भाणिताप्रडिवसज्जे इ तएण सेकएहेवासुदेवे कोडुं वियपुरिसे सहावेइत्ता एवंवयासीगच्छ  
 हणं तुमं देवाणुप्पिया सभाएसुहम्माए सासुदाणियंभेरितालेहिं तएण सेकोडुं वियपुरिसेकरयलजा  
 वकण्हस्स वासुदेवस्स एयमडुंपडिसुणेइत्ता जेणेवसभाएसुहम्माए सासुदाणियाभेरी तेणेवलवाग  
 च्छइत्ता सासुदाणियंभेरिंमहयाइ सहेणंतालेइ तएणंताए सासुदाणियाएभेरीए तालियाएस

रवस्त्रादिदेइवह्ममानदेइ सत्कारवस्त्रादिवस्तुदेइनें षणोआदरवह्ममानदेइनें दूतप्रते पाच्छोमोकले तिवारपच्छीतेकणवासुदेवया  
 देशकारीपुरुषाप्रते तेडावेतेडावीनें इमकहतोह्मओ जाठुं हे देवानुप्रियसभासुधर्मासभानेविषे सासुदानिकभेरिच्छेतेसासुदानिकाभे  
 रीप्रते ताडिवजाडिइमकह्युं तिवारपच्छीतेआदेशकारीपुरुषवेहायजोडीमाथानेविषेआवत्तं करीमाथाने विषेअंजलीप्रते करीनें क  
 षणवासुदेवनाएवचनप्रते अंगीकारकरेअंगीकारकरीनेजिहांसुधर्मासभानेविषेसुधर्मासभावाजित्तनीच्छेसासुदानिकानामाभेरीच्छेसा  
 सुदानिकाभेरीनोशब्दसांभलीनें सहतिहाएकठामिलेआवेआवीनें सासुदानिकाभेरीप्रते मोटे रशब्देकरीताडेवजाडेतिवारितेसासु

माणौएससुहृद्विजय प्रामोक्खादसदसारजावमहसेणपा भोक्खाओ छप्पणं चवलवगसाहसीओ  
 रहाया जावविभूसियाजहाविभवं इहिसक्कारससुदणंअप्पे गइयाहयगयगया जावअप्पे गइयापाय  
 विहारचारिणं जेणेवकएहेवासुदेवे तेणेवलवागच्छइत्ता करयलजावकरहंवासुदेवं जएणंविजएणं  
 वड्ढाविंतितएणंसेकएहेवासुदेवे कोडुं वियपुरिसेसद्दावेइत्ता एवंवयासौखिप्पासेव भोदेवाणुप्पि

दानिकाभेरीने वजाडीऊतीकतीने सकुद्रविजयप्रसुखआदिदेईदसदशारदशभार्दिवलवंतछे तांलगीजामहसेनप्रसुखआदिदेइकप्पन्न  
 वलवंतवर्गनासहस्रतांई सगलाराजानअंधीलयापछे बह्ममूल्यवस्त्रआभरणअलंकारपरिहरीकरीशोभायमानययाकृतानेहवीयापआ  
 पणीअहिसारूचद्विनें सम्भदाएकरीआडंवरकरीकितलाएकराज वीषोडाजपरिकेतलाइकरयऊपरिचट्टा केतलाएकपगेचालताछ  
 ताजिहंक्षणवासूदेवछे तिहंआव्याआवीने वेहाथजोडीमाथाने विषेअंजलीकरीने कण्णवासुदेवप्रते पोतानादेशनेविषे जयहोपा  
 रकादेशनेविषे ताहरोविजययाओ एहवावचनकहीनेवधावेतिवारितेक्षणवासुदेवआदेशकारीपुरुषांप्रते तेडावेतेडावीनेइसकहतो

याअभिसिक्कं हत्थिरयणंपडिकाम्पे हहयगयजावपच्चप्पिणंतिताए णंसिकएहेवासुदेवेजेणवसज्जणधरतेणे  
 वउवागच्छइत्ता ससुत्तजालाकुलाभिरामे जावअजणगिरि कूडसखिभंगयवरंणएवईदुखुटेइताए  
 णंसिकएहेवासुदेवे ससुद्धविजयप्रामोक्खेहिं दसयदसारेहिंजाव अणंगसेणप्रामोक्खाहिंअणेगाहिं

हृओजतावलाजतुह्हे हे देवानुप्रियोखेवको अभिषेकपाटनोहाथीसगलाहाथी आभांहिउत्तमरतनवहुमूल्येहे तेपाटहाथीप्रते सज्ज  
 करोक्खलिप्रमुखसर्वआभरणपहिरावीहाथी सिणगारोतथावीजाईहाथीघोडासज्जकरीसिणगारकरील्याव्योइसकथ्यं पछेतेखेवकति  
 मज्जकरीसिणगारीनेसुपे' तिवारपछीतेकण्णवासुदेव जिहामज्जनअंबोलिकरिवानोघरहे तिहांआवेआवीने' तेमज्जनघरकेहवोके  
 मोतीनांजालएआकुलव्याप्पुंके तेणेकरीअभिराममनोहरहे जेमज्जनघरतिहांन्हाइ भोजनकरीवहुमूल्यवस्त्रआभरणअलंकारपहि  
 रीसगलासिणगारकरी राजेस्सरप्रमुखसगलेपरिवारोपविबल्योछतो तेअंजनसिद्धिपर्वतनाक्कटशिखरसन्निभ सरिखोकालोगजवरउ  
 परनरपतिचटो तिवारपछीतेकण्णवासुदेव ससुद्धविजयप्रमुखआदिदेईदसयदसार तांलगीजांअनंगसेनागणिकाममुख्यादिदेइ



ज्जुंणुत्तलं सहदेवंदुज्जोहणंभायसथसमगं गंगियंविदुरंदोणं जयद्दहंसउणंकीवंअसत्यासंकार  
 यलजावकट्टु, तहिवजावसमोसरह तएणंसेदूएवंवयासौ जहावासुदेवेणवरंभेरि णत्थिजावजेणेवकं  
 पिल्लपुरेण्यरे तेणेवपहारित्यगमणाए२ एएणेवकमेणंतच्चंदूयं चंपंणयरिंतत्थणंतुमंकस्सुं अंगरायं

पुत्र२अर्जुं ननामापुत्र३ नकुलनामापुत्र४ सहदेवनामापुत्र५ एपांचपुत्रसहितपंडुराजापच्छेदुर्थोधनभाईसोसगलांप्रते पच्छेगांगेयकुमर  
 प्रतेविदुरकुमरप्रतेद्रोणकुमरप्रतेजयद्रथराजाप्रतेसकुनकुमरप्रतेक्लीवकुमरप्रतेएसगलांप्रतेहाथिजोडिवधावीनें इमक-  
 हीनेकहेतेणेजप्रकारेद्रौपदीनोखयंबरकेकापिस्त्रपुरपधारोसमोसरोतिवारपच्छीतेद्रूततिहाजईनेतेपांडु, राजाआदिदेईअश्वस्थामप  
 धंतसगलांप्रतेवधावीनेइमकहतोड्डञ्चो पच्छेतेसगलाकृष्णवासुदेवनीपरिनीसस्थानवरंइहाएतलो विशेषतेपांडुराजाप्रमुखसगलानेभे  
 रीनथी तेसगलातिमजचालताकृता जिहांकापिस्त्रपुरनगरके तिहांपधारिवाभणीमज्जकरताह्वाएणीजपरिक्रमेअनुक्रमेद्रुपहरा  
 जात्रीजादूतप्रते तेडावीनेमोकलेचंपानगरीप्रते तिहांजइतुं कर्णराजाप्रते अंगराजाप्रतेसालमराजाप्रते हाथजोडीवधावीने

सल्लणंदिरायं करयलतहेवजावसमोसरह३ चउत्थंदूयं सोत्तिमद्रंणयरिं तत्थणं तुमंसिसुपालंद  
 मधोससुयं पंचभाद्रसयंसपरिवुडं करयलतहेवजावसमोसरह४ पंचमंदूयंहत्थिसौसंणयरंतत्थणं  
 तुमंदमदंतरायंकरयलजावसमोसरह५ छट्ठंदूयंमज्जरिंणयरिं तत्थणं तुमंधररायाकरलजावसमो  
 सरह६ सत्तमंदूयंरायगिंहंतत्थणं तुमंसहदेवं जरासिंधुसुयंकरयलजावसमोसरह७ अट्ठमंदूयंको

कहिजे द्रोपदीकुमरीनोखयंवरामंड पच्छेतुम्हेपधारीपच्छेतेतिमजकंपिल्यपुरनगरप्रते पधारेचोथाद्रुतप्रते तेडावीने सुक्तिमतीनगरी  
 प्रते मोकलेतिहांजईने तुं शिसुपालप्रते दमघोषनापुत्रप्रते तेषांचभाईपांचसतपांचसयभाईसंघाते परिक्खाप्रते करतलवेहंहायजो  
 डीकरीनेवधावीनेविनयकरीने कहिजेद्रौपदीनोखयंवरच्छे तुम्हे पधारोपच्छेसगलातिमजचाले द्रुपदराजापांचमाद्रुतप्रते तेडावीने  
 हस्तीशीर्षनगरप्रते मोकले तिहांजइनेतुं दमधंतराजाप्रते विनयकरीने कहिजेद्रौपदीनोखयंवरच्छे तुम्हे पधारो  
 पच्छेतिमजचाले५ छट्ठाद्रुतप्रते तेडावीने मथुरानगरीप्रते मोकलेतिहांजईने तुं धरराजाप्रते करतलवेहंहायजोडीकरीने क



डिखं णयरिंतत्यणं तुमंणप्पिं भिसगसुयं करयलतहेजावसमोसरहट णवमंदूयं विराडंणयरंतत्य  
 णंतुमंकीयगंभाउसयसमगं करयलजावसमोसरहट दसमंदूयं अत्रवसेसेसुगामागरणरिसु अणेगाइ  
 रायसहस्साइ जावसमोसरह१० तएणंदूएतहेवणिगगच्छइइत्ता जेणेवगामागरणगरजावसमोस

हिजेद्रोपदीनोखयंवरच्छेत्तुमेपधरो पच्छेसाभलीने तिमजचालेई सातमाद्रुतप्रते तेडावीने कहेजातुं राजगृहीनगरीप्रते तिहाजई  
 नेतुं सहदेवप्रते जरासिंधनासुतवेटाप्रते वेहंहाथजोडीकरीवधावीने कहिजेजेद्रोपदीनो खयंवरमंडपच्छेतिहापधरोपच्छेतिमज  
 चाले० आठमाद्रुतप्रते तेडावीने कहेजातुं कोडीनामानरीप्रते तिहाजईरूपीराजाप्रते भिक्षकनापुत्रप्रते वेहाथजोडीकरीविन  
 यकरीवधावीने तिमजकहेद्रोपदीकुमरीनो खयंवरच्छेत्तुमेतिहापधरो पच्छेतिमजआडंबरसहितचालेतथानवमाद्रुतप्रते तेडावी  
 ने कहेजातुं विराडनगरप्रते तिहाजईने तुं क्रीतकराजाप्रते भाईसउसमग्रसंयुक्तसहितप्रते करतलवेळं हाथजोडीविनयकरिनेकहि  
 जेजेद्रोपदीनोखयंवरच्छे तिहांतुमे पधरोपच्छेतिमजचाले तथादशमाद्रुतप्रते तेडावीने कहतोऊओ जातुं अत्रवसेषथकतासगला

रहतएणंताइं अणेगाइं राथसहखाइं तस्सदूयस्सअंतिएयमइं सोच्चा णिसम्महदुट्टा तंदूयंसक्का  
 रेइसन्नाणेइंत्ता षड्विसंजेइतएणंतेवासुदेवपामोकवा वहवेरायसहखापत्तेयंइग्गहाया सखद्ववइ  
 हत्थिखंधवरगयाहयगयरह भडचडगरप्रहकरसएहिंइ एगरेहिंतोअभिणिग्गच्छंतिइ चाजेणे

गामआगरनगरप्रमुखानेविषे अणेकवणाराजाननासहस्सप्रते' वेहाथजोडीविनयकरीने' कह जे द्रोपदीनोखयंवरछेतुमे तिहांपधा  
 रो?०तिवारितेदूततिमजचारघंटानी घोडिवह्लिजपरिचढीषण्णापुरषांसंघाते' परिवखोछतोतिहांयीनीसरेनीसरीने तिहांगाम  
 आगरनगरछेतितिहांआवीने तिमजकहेजेद्रोपदीनोखयंवरछे तुन्हेतिहांपधारोइमसंभले तिवारितेअनेकवणाराजाननासहस्सदूत  
 नापासयकीएअर्थप्रते' सांभलीने' हीआमांहिअवधारीनेहर्षसंतोषयाभ्याछतातेदूतप्रते' वस्त्रादिदेईसत्कारिसन्माने' सत्कारीने' वह्ममां  
 नदेईनेप्रतिविसर्जमोकले तिवारपक्कीतेकणवासुदेवप्रमुखआदिदेइवणाराजाननाहजारप्रत्येक? जूआरअंधोल्याछतासन्नद्ववइसन्ना  
 हपहरीने' हाथीआंजपरिचढाछता घोडाहाथीरथसुभटपायकपालीया रचठकारप्रधानतेहनापहकरसख्खसंघाते' परिवस्त्राछता

वपंचालेजणवए तेणेवपहारेत्यगमणाए तएणंसेदुवएराया कोडुं वियपुरिसेसहावेइरता एवंवयासौ  
 गच्छहणंतुमंदेवाणुप्पिया कंप्पिस्सपुरेणयरेबहिया गंगाएमहाणईए अटूरसामंतेणंएंगमहंसयंब  
 रमंडयंकरेह अणेगखंभसय सखिविडुं लीलद्धियसालिभंजियागं जावपच्चप्पिणंति तएणंसेदुवएराया  
 कोडुं वियपुरिसेसहावेइरता एवंवयासौ खिप्पामेवभोदेवाणुप्पियावासुदेवपामोकखणंवडुणंरायसह

पोतानारअपअपणार नगरमांहियकीनीसरेनीसरीने जिहांपंचालदेशछे तिहांपधारिवाभणीमनकरताडुआ तिवारपछीतेदु  
 पदराजाकोटुं विकअदेशकारी सेवकपुरुषप्रतें तेडावितेडावीने इमकहतोडुवोजातुं हेदेवानुप्रियकांपिस्सपुरनगर बाहिरगंगा  
 नामामोटीनदीने पासं अतिघणुं वेगलूनहीं दुकडुं नहीं एतलेगंगामोटीनदीना तटऊपरिएकमोटोखयंवरमोटो मंडपप्रतें करेअने  
 कषणाथांभानासईकडांतेणेकरी सन्निविट्टसहितएहवुं करि वलीकेहवुं तेणयांभेलीलाइं क्रीडाइं करी स्थितरही एहवीसालभंजि  
 कापूतलोनीकोरणीतेप्रतें करी तांलग्गीजांएहवोखयंवरमंडपतेसेवककरीने खूंपेसमर्थेतिवारपछीवलीतेदुपदराजा आदेशकारीपु

रकोमैवकार्पीरित्येवंनिषेधकोयस्याः सातथा अक्षयाएत्तिअक्षमृति अर्घ्वन्तिअर्घःपुष्पादीनिपूजाद्रव्याणि पञ्चवत्तिपादहितं पाद्यं

स्वाणं आवासिकरेहतेविकरित्तापञ्चपिण्णं तितएणं सेदुवएरायावासु देवपामोकवाणं वज्जणं रायसहस्सा  
 णं आगमणं जायेत्तापत्तेयं ज्ञावहत्थिखंधजावसद्धिं संपरिवुडे अर्घ्वंचपज्जंचगहायसव्विड्डी एकं पिस्सुपु

ब्रह्मंते' तेडावितेडावीने' इमकहतोह्रवो चिप्रमेवउतावलाजतुम्हे हे देवानुप्रियोक्षणवासु देवप्रमुखआदिदेहे सगलाराजाननाह  
 जांरानिरहिवानिमत्त आवासप्रते' करोनीपजावो पक्केतेसेवकतिमजकरीनीपजावीने' राजानेसमपेसू' पेजेअमेआवासकीषाक्केति  
 वारितेद्रुपदराजाक्षणवासु देवप्रमुखआदिदेह घणाघणाराजाननाहजारानो आविवंआवतांजांणीने' जज्जातांलगीजांहाथीआ  
 उपरचढ्या तालगीजांएसगलासंधाते भलीपरिपरिवसुक्कतो अर्घ्वंक० फूलादिपूजाकारिवानाद्रव्यतेप्रते' पद्यं क० पगानेहितहितहित  
 कारीपगधोदूचीकटमेलादिकसु० उगटणुं पीठीआदिकते तेप्रते' ग्रहायग्रहीनेलेईने' सगली ऋद्धिं सहितकांपिस्सुप्रुरनगरथकीनीस  
 रेनीसरीने जिहातेक्षणवासु देवप्रमुखआदिदेह घणाराजाननाहजारआवेक्के तिहांसंहमोआवेआवीने' तेक्षणवासु देवप्रमुखआ

राश्रीणयराश्रीणिगच्छइत्ताजेणवतेवासुदेवपामोक्खावहवेरायसहस्सतिणेवउवागच्छइत्ताता  
 इंवासुदेवपामोक्खाइंअग्घेणयपज्जेणयसक्कारेइसम्भाणेइत्तातेसिवासुदेवपामोक्खाणं पत्तेयंअ  
 वासेवियरइतएणतेवासुदेवपामोक्खाजेणवसयाइंअवासाइतेणेवउवागच्छइत्ताहत्थिखंधाहिं  
 तोपच्चोरुहंतिपत्तेयंखंधावारणिवेसंकरेइत्तासएसुअवासेसुअणुपविसंतिसएसुअवासेसुयआ

दिदेईषणाराजाननाहजारांप्रते अर्षेणफूलादिपूजानाद्रव्ये करी पगंनोधोयणचीगटादिटालिन्नानिमत्त पीठीतेणेकरीसत्कारेछे  
 वज्जमानदीयेसत्कारीने षणोआदरवज्जमानंनदेईनें तेकण्णवासुदेवप्रसुखसगलाराजाननाहजाराने प्रत्ये करजजूअंउत्तरवानि  
 मत्तआवासघराप्रते आपेदीयेतिवारितेकण्णवासुदेवप्रसुखआदिदेई सगलाराजाननाहजारजिहांपोतानाआपआपणारअलगार  
 उत्तरवानाआवासदीघाक्खे तिहांआव्याआवीने हाथीयांनांखांधायकीहाथीजपरिथकीहेठाजतरहेठाजतरने प्रत्येकरजजूअर  
 खंधावारकटकनानिवेशप्रतेकरे कटकउतारीकरीने आपआपणआवांसाप्रते प्रवेशकरेप्रवेशकरीने पोतानाआपआपणआवांसां

सणेसुयससिस्सायसंतुड्याय बज्जहिंघव्वेहिणाडएहिच उवगिज्जमाखायर्विहरंति तएणंसेदुवए  
 रायाकांपिस्सपुरंणयरं अणुप्पविसइरत्ता विपुलंअसणंप्राणं खाइसंसाइसं उवक्खडाविइरत्ताकोडुंवि  
 यपुरिसेसइविइरत्ता एवंवयासीगच्छहणं तुभेदेवाणुप्पियाविपुलं असणं प्राणं खाइसंसाइसंसुरं च  
 सज्जं चमंसंचसिधुं चप्रसखं च सुबज्जं पुप्फवत्थगंधमत्तान्कारं च वासुदेवपामोकवाणंरायसहस्सा

नेविषेआसनसिंहासनानिविषे भलीपरिवेठाच्छताच्छता घणेगांधव्वेगीतेकरीगवरावताच्छता वलीसवइनाटकेकरी गीतग्यांनगव  
 रावतावलीसवइनाटककरावताच्छताविचरेच्छेरहेछे तिवारितेद्रुपदराजातेद्वेषणवासुदेवप्रजुख सगलाने उतारीने कांपिस्सपुरनगर  
 प्रते प्रवेशकरेप्रवेशकरीने विपुलविस्तीर्णघणाप्रकारना अन्नपांणीखादिमस्वादिम च्यारप्रकारनाआहारनीपजावेनीपजावीने आदे  
 शकारीपुरुषाप्रते तेडावितेडावीने इमकहतोऊओ जाओतुहेहेदेवापुप्रियो आविस्तीर्णघणाअन्नपांणीखादिमस्वादिम च्यारप्रका  
 रनाआहारप्रते सुरामदिराप्रते मद्यसुरानाभेदप्रते मांसप्रतेसिंधुसुरानाभेदप्रते प्रसन्नामदिरानाभेदप्रते वलीघणीफलवख

शंआवासेसुसाहरहतेविसाहरंति तएणंतेवासुदेवपामोकवा तंविपुलंअसणं पाणं खाइसंसाइमंजा  
वपसणं च आसाएमाणा४ जावविहरंतिजिमियभुत्तुरागया वियणंसमाणाआयंताचोकवा जावसु  
हासणपरगयाणं बडुहिंगंधव्वेहिय जावविहरंति तएणंसिदु, वएराया पुव्वावरएहकालसमयंसिको

गंधमाल्यगूंथ्याफूलनीमालाअलंकारप्रतेलेइनें कण्णवासुदेवप्रमुखसगलाराजानना हजारानाआवासनिविषे ऊतारानेविषेएसर्वव  
सुलेइनें साहरोसू कोपछेतेसेवकपणितिमजलेईआवीनें तिहांसाहरेसू केतिवारितेकण्णवासुदेवप्रमुख सगलाराजाननाहजारतेवि  
स्तीरणंअन्नपांणीखादिमखादिम आहारप्रतें सुरामदिरा प्रसन्नामदिराएसर्वप्रतें आखादताभोजनकरताछताविचरेछे जिम्याजि  
मीनें उद्याछताचल्लेईकरी चोखापवित्तययाछता पानएलचीप्रमुखवासलेईकरी सुखासनवरप्रधानंसिंहासनऊपरि वेठांछतांसग  
लाराजाघण्येगांधर्वगीतेकरीगांनकरावतानाटिकबत्तीसवड्डकरावतानाटकीयानचावताछताविचरेछेआपआपणाउताराने विषेगीत  
गाननाटिककरावेछे हिवे तेसगलाराजाननाजीमाद्या पछीतिवारितेद्रुपदराजा प्रथमपद्धिवावेपोरनाकालनासमयने विषे कोटुं

डुं वियपुरिसेसहविद्वत्ता एवंवयासीगच्छहणं तुभभेदेवाणुप्पिया कं पिह्लपुरंणथरं सिंघाडगतिग  
 चउक्कचच्चरमहाप्रहेसु वासुदेवपासोकवाणय रायसहस्साणं आवासेसुहत्थि खंधवरगयामहथार  
 सहैणंउग्घोसेसाणां एवंवयहएवंखलु देवाणुप्पिया कल्लंपाउप्पभाए दुवयस्सरस्सोधूयाएचुलणी  
 एदेवीएअत्तयाएधइज्जणस्सभगिणीए दोवइएरायवरकखाए सयंवरभविस्स इतंतुभभेणं देवाणुप्पि

वकआदेशकारीसेवकप्रतं तेडावेतेडावीनेइमकहतोह्मओ जाओतुह्मे हेदेवानुप्रियो कायिल्वपुरनगरप्रतं विखूणासिंघोडाफलने  
 आकारंभार्गे त्रिणिसार्गच्यारसार्गएकठामिले चाचरषणासार्गएकठामिले राजाननाआविवाजावानासार्गे तिहासार्गानेविषेजई  
 तथावलीक्षणवासुदेवप्रसुखसगलाराजानना हजारानांआवासजतारानेविषे जईतुह्मे हाथीयांउपरिचट्टाच्छता मोटरसादेकरी  
 उदघोषणाकरताच्छता इमकहिज्योइणंप्रकारे निचे निर्झारहेदेवानुप्रियोनगरनिवासीलोको तथाराजानोकालिप्रभातसूरिजउग्ये  
 छतेद्रुपदराजानीपुत्रीनो चुलणीराणीनीअंगजातपुत्रीनो धृष्टार्जुनकुमरनीबहिननोद्रोपदीनामाकन्यानोद्रुपदराजानी वरप्रधान



यादुवयं रायाणं अणुगिरहसाणाहया जावविभूसिथाहत्थिखं वरगया सकोरंटमसुदाभेणं छत्तं रां  
 धारिज्जमाणेणं सेयवरचामराहिं महयाहयगयरहभडचडगरेणं जावपरिखित्तानेणे वसयं वरे मंडवे  
 तेणे वडवागच्छइत्तापत्तेयश्णामां कि सुआसणे सुणि सीय हदुवयं रायं वरकणापडिबालेसाणाश्चिइह

कन्याकुमरी नोस्वयं वरहोस्ये तेकारणयकी तुम्हे हे देवा लुप्रियो द्रु पदराजाप्रते अनुग्रहकरता सुप्रसन्न प्रसादकरता छता पधारोपछेते अं  
 वील्या छता सगला आपआपणी अद्विसारू वस्त्राभरण अलंकार पहिरी सोभायमान यथा छता वरप्रधान हाथीज परचट्टा छता सको  
 रंटवृचनं फूलमाला भणीहितकारी अलाजे फूलअने दाममाला तेणे करी सहित छत तेणे धरीं ते छते खेतधोलां वरप्रधान बालनां चा  
 मरतेणे वीजता छता घणाघोडा हाथी रथ सुभटपालीयारयादाते हनें समूहे करी वीं व्याछता जिहां स्वयं वर मंडपछे तिहां आंब्या आवी  
 ने प्रत्ये करजजूआ पोतानानामां कित आसन वेसणामां व्याछे तेहाने विषे जईने वेसो वेशीने द्रु पदराज कन्याप्रते आविवानी वाटजोता  
 छतारहिज्यो एहवीघोषणाप्रते घोषकरोमाहरी आजाप्रते लतावली करीने पाछीसू पजे अम्हे कामकीघोछे इमकच्छुं ति वारिते आ

घोसणंधोसेहममण्यमाणत्तियंपचप्पिणह तएणंकोडुं बियपुरिसा तहेवपच्चप्पिणं तितएणंसेदुवएरा  
 चाकोडुं बियपुरिसे सहावेइत्ता एवंवयासीगच्छहणं तुभेदेवाणुप्पिया संयंवरंअंडवं आसियंसम  
 ज्जिओवलित्तं सुगंधवरगंधियंपंचवखपुफोवयारकलियं कालागुरुपवरकुं डुरुक्कतुरुक्कजावगंधवडिभू  
 यंअंचाइमंचकलियंकरेहत्तावासुदेवपामोक्खाणं वडुणंरायसहस्साणंपत्तियंणामं कियाइआसणाइ

देशकारीपुरुषतिसजकामकारीनें पाछात्रलीआवीनें राजाने संसमर्थे जेअन्हे कामकीघोछे तिवारपच्छीवलीतेद्रुपदराजाआदेशकारी  
 पुरुषांप्रते तेडावेतेडावीने इमकहतोऊओजाओतुन्हेहे देवाओप्रियो स्वयंवरमंडपप्रते पांणीएछंटावो समज्जियपूजावोकचरोकडा  
 वोपछेमाहिलीपावउवाहिरखडी एकरीघोलासुगंधप्रधान गंधद्रव्ये करीगंधितगंधवंत सुंदरकरोपांचवर्णफूलांनीपूजातेणेकरीकलि  
 तसहितप्रतेकरोएतले पंचवर्णाफूलठामि र विखेरोनाखोपछेकालागुरुकषणागर प्रवरप्रधानकुं डुरुक्कचीडगंधतुरुक्क सिलाजितलोवान  
 दशांगीधूपगंधनीवातीप्रसुखउखेवो घरांउपरिसाचावांधीतेणेकरी सहितएहवास्वयंवरमंडपप्रते करोकरीनेपछेकषणावासुदेवप्रसुख

सेयवत्प्रपञ्चु यादूरएहिइत्ता एयमाणत्तियंपञ्चप्यिणहतेवितहेवजावपञ्चप्यिणंति तएणंतिवासुदेवपा  
 मोक्खावहवेरायाणो कल्लंपाउप्यभाएणहाया जावविभूसियाहत्थिखंधवरगया सकोरंटमल्लदाभेणं  
 छत्तेणंधारिज्जमाणेणसेयवरचामराहिं उधुव्वमाणेहिंसहयाहयगयरहभउचडगरेणंसद्धिं संपरि

आदिदेइ घणासगलारांजानना हजारानाप्रत्येकरज्जूअर नामांकितनासांमाडीनामलिखी सिंहासनरचोसांडोतेसिंहासनज  
 परिधोलावखआच्छादोचाकलाउपरि वलीवखे करीढांकोएह्वासिंहासनप्रते' रचोरचीने' एमाहरीआज्ञाप्रते उतावलीकरीने' नीप  
 जावीने' पाक्कीआज्ञासू' पोपछेतेसैवकपणि तिमजसर्वकरीनीपजावीने' राजाने' आवीने' सुंपेजेअम्हे कामकीघोछे तिवारपक्कीतेह  
 षण्वाकुदेवप्रमुखसगला घणाराजाननाहाजारकालसूरिजप्रगटशहू' ऊग्येछते अंधोलिकथाछतावडुमूल्यवखआभरणअलंकारपहि  
 रीसोभायमानथयाछताहाथीआजपरिचढाछताकोरिंटाहचनानांफलमालाभणीहितकारीभलाजेकुसुमफूलअने' दाममालातेणेकरी  
 सहितजेछत्वतेधर वैकरीखेतधोलाचमरीगायनावालनाचामरे' करी ऊखेवीतेवीजीतेछते घणाघोडाहाथीरथभटसुभटपालिवारना

बुडासव्वट्टिएजावरवेणंजेणेवसयंवरारुंडवेतेणेवउवागच्छइत्तासयंवरंअणुप्पविसइत्तापत्तेयंइणा  
 मंक्किएसुअसणेसुणिसीयंतिइत्तादुवएरायवरकखापडिवालेमाणचिइत्तिएणंसेदुवरायाकल्लं प्राउ  
 प्पभाएणहायाजावविभूसिए हत्थिखंधवरगएसकोरंटमल्लदाभेणंछत्तेणं धारिज्जमाणेणंसेयवरचाम  
 रेहिंउधुअमाणेहिंसहयाहयगयजावसद्धिसंपरिउडे कंपिल्लपुरंणयरंमउभंरुउभेणंणिएगच्छइत्ताजेणे

चटकरसम्बहसंघाते परिवस्थाकृताआपआपणी सगलीच्छद्धिं करीतांलगीजाघणे आडंवरैकरीवाजितनिषनेशब्देकरी जिहांस्वयं  
 वरहेत्तिहांआव्याआवीनें स्वयंवरमंडपप्रतें प्रवेशकरेप्रवेशकरीनें प्रत्येकरजजूआरआपआपणानामाकित आपरनाआसनसिंहा  
 नमाडाच्छेतेहानेविषेवेसवतानेद्रुपदराजानीकन्यानीवाटजोताकृतारहेच्छेतिवारिपच्छीतेद्रुपदराजाआवतें कालिखुरिजउयेकृतेअंधो  
 लिक्करीवज्जम्बल्यवस्त्रआभरणअलंकारधहरी सोभायमानययोक्तो हाथीनाखंधजपरिचढयोयको कोरिटनाहचनानांफूलमालाभणी  
 हितकारीअलाजेकुसुमफूलअनें दाममालातिणेकरीसहितजेच्छव तेणेधरीतेच्छेतेस्वतधोलावरप्रधान चांमरवेतेणेकरीवीजीतेच्छेते

वसयंवरमंडवे जेणेववासुदेवपामोक्त्वा बहुवेरायवरसहस्रा तेणेवउवागच्छइत्ता तेसिवासुदेवं  
 पामोक्त्वाणं करयलजाववद्वावेइत्ता करहस्रवासुदेवस्य सेयवरचामरगहायलववीयमाणेश्चिद्वृति  
 तएणंसेदोवईरायवरकणा कल्लंपाउप्पभाए जेणेवमज्जणधरे तेणेवउवागच्छइत्ता मउजणंधरं अणु

मोटावणाघोडाहाथीरथवरप्रधानसुभटपालीआरनासमूहसंघातंपरिवस्योक्तोकांपिस्त्रपुनगरमांहियइनेनीसरेनीसरीनेजिहांस  
 यंवरमंडपेजेजिहाक्षणवासुदेवप्रमुखघणाराजाननाहजारवेठेतिहांआवेआवीनेतेक्षणवासुदेवप्रमुखघणाराजाननाहजारंप्रते  
 आगलिरहीवेऊहायजोडीमाथानेविषेआवर्तकरीअंजलिप्रते करीनें द्रुपदराजाविधावेवधावीनेक्षणवासुदेवने स्वतधोलोवरप्रधानचा  
 मरप्रतेग्रहीलेईनें बींजतोक्तोचामरप्रतें ढालतोक्तोरहेक्केतिवारिपक्कीतेद्रोपदीराजेंवरकन्या आवतेकालिस्त्रिजजग्येक्केतेजिहांमज्ज  
 नघरक्के तिहांआवीनें अंधोलिकरवानांधरप्रतें प्रवेशकरेप्रवेशकरीनें अंधोलीक्कतीकृतत्रलिकर्मघरनादेवतानीकीधींबलिकर्मप  
 जानोकर्मएहवीक्कती तथाकीधाक्केकौतुकमसितिलकसरसवद्रोवइत्यादिमंगलीकप्रायक्कित्तअसुभटालिवानिमित्तजेणीइद्रोपदीइएह

पादप्रचालनेत्वेहोद्वर्तनादि मद्यमधुप्रमन्वाख्याः सुरभेदाएवजिणपडिमाणं अञ्जणंकरेद्वृत्तिएकस्यांवाचनायासैतावदेवदृश्यतेवाचनां  
तरेतुएहायाजावसब्वालंकारविभूतिसियामञ्जणघराओपडिनिक्खमइरत्ताजेणामेवजिणघरेतेणामेवउवागच्छइरत्ताजिणघरंअणपवि  
सइरत्ताजिणपडिमाणंआलोएप्रणामंकरेइरत्तालोमहत्ययंपरासुसइरत्ताएवंजहासूरियाभोजिण पडिमाओअञ्जेइतहेवभाणियब्बं

अविसइरत्ताएहायाकयवलिक्खा कयकोऊयमंगलपायच्छित्ताडुद्धप्पाविसाइमंगल्लाइं प्रवरवत्थपरि  
हियामञ्जणघराओ पडिणिक्वमइरत्ता जेणेवजिणघरे तेणेवउवागच्छइरत्ता जिणघरं अणुअवि  
सइरत्ता जिणपडिमाणं आलोएप्रणामंकरेइरत्ता लोमहत्यगंपसंज्जइरत्ता एवंजहासूरियाभोजिण

वीच्छतीशुद्धनिर्मलां हलूआंअखंडितराजद्वारमांहि प्रवेशकरिवाचोग्यएहवांमंगलीककारी आएहवावखलूगडाप्रवरप्रधानउत्तमप्रहि  
स्याच्छेएहवीच्छतीमञ्जनघरथकीनीसरीनेजिहांजिनघरअचीवीतरागनोदेहरोच्छेतिहांअवी आवीनेजिणवीतरागनाघरदेहरा  
माहि प्रवेशकरेप्रवेशकरीनेजिनवीतरागनीप्रतिमाप्रते आलोकैजोइजोईने प्रणामनमस्कारकरेने मोरनारोमनीपुं

जावधूवंडहइत्तिइहयावल्कारणात्त्रयर्थतइदंदृश्यं लोमहसकेनजिनप्रतिमांप्रसाष्टिसुरभिरागंघोदकेनसप्तपयतिगोशीर्षचंदनेनानुलिंपति  
 वस्त्राणिनिसवति ततःपुष्पाणामाल्यानां ग्रथितानामित्यत्यर्थः गंधानाचूर्षानां वस्त्राणां आभरणानां वारोपणं करोतिस्त्रमालाकं  
 लापावलंबनंपुष्पप्रकरं तंडुलेर्दंष्ट्र्याद्यष्टसंगलकालेरचनं करोति वामंजाणुं अंचेद्वन्ति उत्चिपतीत्यर्थः दाहिणंजाणुं धरणीतलंसिनि  
 हट्टुनिहत्यस्यापयित्वेत्यर्थः तिक्वुत्तोसुद्धानं धरणीतलंसिनिवेसेद्वनिवेशयतीत्यर्थः ईसिंपञ्च स्रमइरत्ता कारयत्परिगहियंअंजलिंमत्य

पडिमाओअर्चे इ तहेवभाणियब्बं जावधूवंडहइरत्ता वामंजाणंअच्च इरत्ता दाहिणंजाणुं धरणि  
 यलंसिणिसीयइरत्ता तिक्वुत्तोसुद्धानं धरणितलंसि णिवेसेइरत्ता ईसिंपञ्च स्रमइरत्ता कारयत्तजा

जणीहाथसांहिलेईजयणासहितप्रतिमापू जेपू जीनें इमजिमजेणेप्रकारेरायपसेणीसूत्रमांहिसूरिआभदेवताजिनवीतरागनीप्रति  
 मापू जेपू जीनेतेणंजप्रकारे इहांजांणिवंसुगलुंतां लगीजांधुप्रते उखेवेउखेवीनेवामडावापगनुं जांणुं ढींचणप्रतेजं चोराखेराखी  
 नेदाहिणजिमणापगनाजांणुं ढींचणप्रते धरतीभूमिनेविषेयापेलगगडेयापीनेभूमकीनेतीनवारमाथाप्रतेधरतीभूमोनेविषेयापेअडाडेअ

एकह एवंवयासीनमोत्युणं अरहंताणं जावसंपत्ताणं वंदइणमंसइरत्ताजिणघरा ओपडिणक्खमइरत्तातलवंदतिचैत्यवंदनविधिनाप्रसि  
 द्वे ननमस्यतिपच्चात्प्रिणधानादियोगेनेतिट्टाः नचरिताबुवादवचनावेधे निसेधसाधकानि भवंतिअन्यथास्वरियाभादिदेववक्तव्यता  
 यावह्नांशस्वादिवस्तुनामर्चनंअयते इतितदपिविधेयंस्यात् किंचाविरताना प्रणिपातदंडकमात्रमपि चैत्यवंदनंसंभाव्यतेयतोवंदते

वतिकट्ट, एवंवयासीणमोत्युणं अरिहंताणं भगवंताणं आदिगराणं तित्थगराणं सयंसवुद्धाणं  
 जावठाणं संपत्ताणं वंदइणमंसइ वंदित्ताणमंसित्ताजिणघराओपडिणक्खमइरत्ता जेणेवअंतेउरे

डाडीनेइषत्तलगारिकमायुंजं चोलेइनेनमाडेनमाडीनेकरतलवेज्जं हाथजोडीमाथानेविषेअवर्तं करीमाथानेविषेअंजलिप्रतेकरीनेइ  
 मकहतीहइणमस्तारहोणंवाक्यालंकारेकुणभणी अरिहंतभणीजेणं आठकर्मरूपियावेरीजीत्याच्छेतेकेहवाच्छेभगवंतज्ज्ञानभंतएश्वर्यवंतठ  
 कुराईवंतच्छेतेभणीवलीतिकेहवाच्छेधर्मनीआदिनाकरणहाराच्छेतेभणीवलीतिकेहवाच्छेतीथेचतुर्विधसंभवअथवाप्रथमगणधरतेहनाकरण  
 हाराच्छेवलीतिकेहवाच्छेसयंवुद्धआपणीप्रतिबुद्धाच्छेकेहनाउपदेशपाखे नहीतांलगीजांठाणंसंपत्ताणंताईसंपूर्णपाठकहेजिहाथकीवलतुं



नमस्यतीतिपदद्वयस्यद्वान्तर व्याख्यानमेवसुपदर्शितं जीवाभिगमवृत्तिकृता विरतिमतामेवप्रसिद्ध चैत्यवंदनं विधिर्भवति अन्येतथाऽ  
 स्यु प्रगमपुरस्सरकायोत्सर्गसिद्धेः ततोवंदतेसामान्ये ननमस्करोति आशयद्वेः प्रीत्युत्थानरूपनमस्कारेणेतिकिंचसमणेणसावएणयत्र  
 वस्सकायव्वयंहवइजग्हाअंतोअहोनिस्सस्यतग्हाआवस्सयं नाम ? तथाजसुं समणोवा समणीवासावओवासावियावातच्चित्तल्ले सेतस्सा  
 रोउभओकालंआवस्सएचिइति तसुं लोउत्तरियए भावावस्सएत्यादिरनुयोगद्वारवचनात् . तथासस्यग्दर्शनसंपन्नः प्रवचनभक्तिमानुष  
 ङविधावश्यकनिरतः षटस्थानकयुक्तञ्चआवकोभवतित्यु मास्वातिवाचकवचनाञ्चआवकस्यषडविधावश्यकसिद्धावश्यकांतगतप्रसिद्धं चैत्य

तेणेवउवागच्छइ तएणंतं देवईरायवरकसुं अंतैउरियाओ सव्वालंकारविभूसियं करिंति किति

आविवुं नथीएहवासिद्धगतिठामथानकप्रतेपाम्याक्केमोक्षपुज्जताक्केतेभणीवां देचेत्यवंदनकरेनमस्कारकरेजयवीथरायजगुरुप्रणिधान  
 दंडककहेवां दीनेनमस्कारकरीनेजिनवीतरागनादेहरायकीवाहिरनीसरेवाहिरनीसरीने द्रोपदीजिहंअंतैउरक्केतिहंआवीतबद्रोप  
 दीराजवरकन्याकुमरीप्रते अंतैउरीथराणीयोसगलाआभरणअलंकारसिणगारकराविसोभायमानप्रते करेकिस्युं तेवरप्रधानएहवुं ने

वन्दनं सिद्धमेव भवतीति सारत्ययं तिसारथिकर्म तएणंसाकिड्ढाविएत्यादौयावकरणादेवंदृश्यं साभाविषयसं चोद्दहजणस्सज

वरपायप्रक्षणे उरजावचेडियाचक्कवालमय हरगविंदप्ररिखित्ता अंतैउराओ पडिणिलखसइरत्ता  
 जेणैववाहिरियाउवङ्गाणसाला जेणैवचाउधंठे आसरहेतेणैवउवागच्छइरत्ता किड्ढाविद्याएलेहिहया  
 एसद्धिंचाउधंठं आसरहंदुरहइ तएणंसेघट्टज्जुणेकुमारि दोवइएरायवरकण्णाए सारत्यं करेतितए  
 णंसादोवईरायवरकण्णा कंप्पिस्सं पुरंणयरं मउभंमउभंणं जेणैवसयंवरमंडवे तेणैवउवागच्छइरत्तार

उरनुं परपगेपहिरी तालगीजादासीनाससुहसंघातेविटीच्छती अंतैउरमाहिथकीनीसरेनीसरीने जिह्वांवाहिरलीवेस्सिवानीसाला  
 सभाच्छे जिह्वाच्यारधंठानोअश्वरथघोडानोरथच्छे तिहांआवेआवीनेकीडाविनोद खेलनीकरावणहारीघावितेसंघाते' लेखिकादा  
 सीतेसंघाते च्यारधंठानाघोडानारथघोडिवेलिप्रते' चढीचढीनेवेठीतिवारितेष्टष्टर्जनकुमर द्रोपदीराजवरकन्यानोसारथीनाकामर  
 यनाखेरुनाकामप्रते' करे तिवारितेद्रौपदीराजवरकन्या कापिस्सप्रपुरनगरनेमाहिथईने' जिहास्सयंवरमंडपच्छे तिहारथखेडिवाने

हंठवेइत्तारहाओपञ्चोरुहइत्ता किडुवियाएलेहियाएसद्धिं सयंवरमंडवंअणुप्पविसइत्ताकरय  
 लतेसिंवासुदेवपामोकवाणं बड्डणंरायवरसहस्साणंपणाकंकरेइ तएणंसादोवईरायवरकखाएगंम  
 हंसिरिदामगंडंकिंते पाडलमस्त्रियंचंपयजावसत्तच्छयाइहिं गंधद्विणिंसुयंतंपरमसुहफासंदरिसणि  
 ज्जंगिरुहइ तएणंसाकिडुवियासुखुवा जाववामहत्थेणंचिह्लुगंदप्पणंगहेऊणसासललियं दप्पणसं

आवेआवीनेरथप्रतेंउभोराखेराखीने रथयकीद्रोपदीहेठीउतरेहेठीउतरीने क्रीडानीकरावणहारीधायिसंघातें खयंवरमंडपप्रतेंप्रवे  
 शकरेप्रवेशकरीने वेळंहायजोडीने तेषणवासुदेवप्रसुखआदिदेई धणासगलाराजाननाहजारांप्रते प्रणामकरेतिवारिपच्छीद्रोप  
 दीराजवरकन्याएकमोटो सिरिदामनामादडाप्रते लीये किंते तेदडोकेहवोछे पाडलमालतींचंपाजावतालगीजां सप्तछददच्चनाफू  
 लादिकेकरीगूंथोछे एहवोअीसोभानोसम्बहदामफूलांनी मालातेणीएसहितजेदडोजेगंध सुगंधध्वनिम्बं कतोछतो परमउत्तथासु  
 खकारीफासफरिसहे जेहदडानोएहवाप्रते एकारणयकीधणुं देखिवाजोवायोग्येहे एहवादडाप्रते गि०लीये तिवारितेक्रीडानीक



अर्थतो विशदं वर्णतः विबुद्धं शब्दार्थदोषरहितं रिभितं स्वरघोलनाप्रकारोपेतं गंभीरं मेघशब्दवत् सुखकरं भणितं यस्याः सा  
 क्रीडापिकायाः सा तथा तां तथा मातापितरौ वंशादिकं सत्त्वमा पत्स्ववैल्लाव्यकरमध्यवसानकरं च सामर्थ्यं वलंगो वंगो तमगोत्वादिविक्रां  
 तिं विक्रमं कांतिं प्रभां पाठांतरेण कीर्तिं वा प्रख्यातिं बद्धविधागमं नानाविधयास्त्रविशारदतामिद्यत्रः सा हात्स्यं महानुभावतां कुलवंश

भणियासातेसिं सव्वेसिंपत्थिवाणं अस्मापिउणवंससत्त सामथ्यगोत्तविक्रंतिक्कंति बद्धविहत्राण  
 ममाह्वयखुवकुलसीलजाणिया कित्तणंकरेद्रुप्रठमंताववण्हिपुंगवाणं दसारवरवीरपुरिसाणं तिक्को

एहं वरिभितकं स्वरनीघोलनानाप्रकारे सहितगंभीरमेघनागाजनीपरिं गंभीरउंडुमधुरमीठुं कानाने सुखनुं करणहारं एहं वंभणि  
 तं कंभाधिबुद्धे जेक्रीडानीकरावणहारीधाविनुं सातेक्रीडानीकरावणहारीधाविते सिंसव्वेसिंतेसगलापत्थिवाणं कं पृथवीनाधणी  
 राजानना मातापितानेवंशहरिवंशादिकप्रते सत्तमं सत्वधैर्यवंतकेआपदाकष्टजपनेच्छते अतिकल्पणुं करिवुं अथवसायनुं करिवुं  
 सामर्थ्यवलवंतगोत्वगोतमादिविक्रांतविक्रमपराक्रमवंत कंतिकं कांतिपणुं कीर्त्तिख्यातिवंत बद्धविधागमनानानाविधघणाप्रकारनाशा



मध्ये वरपुंडरीकाणीव वरपुंडरीकाणियेतथातेषा चिह्नगाणुंतिदीप्यमानानातेजसा तथाबलंशारीरंवीथं जीवप्रभवंरूपंशरीर  
सौंदर्यैवन्तारण्यं गुणान्सौंदर्यादीन् लावण्यं सृहणीयं ताकीर्त्तयतिथासातथा क्रीडापिकाकीर्त्तनं करोतिस्मेति पूर्वोक्तमपि

व्वणगुणलावण्यकित्तियाकित्तणं करेइतओपुणो उगणसेणमाइणं जायवाणंजाणइयसोहगणखवकलि  
यवरेहिंवरपुरिसगंधहत्थीणं जोऊतेहोइहिययदओ तएणंसादोवइरायवरकणगा बऊणंरायस

वलीतेकेहवाछे भवसिद्धियक्र० होस्ये भावभाविनीहोवणहारीछे तेसिद्धिजेहाने तेभवसिद्धिककहिये तेभवसिद्धिकाएकावतारी  
सांहिवरप्रधानपुंडरीककमलसरिखा निर्मलाजलाछेजेतेतेहानो तेजेकरीदेदीप्यमानदीपताछे जेततेहानुबलशरीरसंधवीवी  
यवीर्यजीवयकी जपलुंरूपशरीरलुं सुंदरपणुं जाव्वनतरणपणुं गुणसौंदर्यादिधैर्यपणुं लावण्यपणुं एहवाप्रतं कीर्त्तंछेजेतेक्रीडानी  
कारावणहारीतथातेक्रीडानीकारावणहारी तेसगलालुं कीर्त्तनकरेछेतिवारपच्छीपुनःवलीक्रीडाधायउग्रसेनराजाने आदिदेई यादवां  
नेमांहिजपनोछे सौभाग्यरूपतेणेकरीकलितसहित वरप्रधानपुरुषामाहिगंधहाथी सरिखाछेतेहाने लेउग्रसेनराजादि तेहनेनिश्च

किंचिद्विशेषाभिधानावाभिहितमिति नदुष्टं समतिलमाशीति समतिक्रामंती दसद्ववस्ये खंतीह श्रीदामगंडेनपूर्वगृहीतेनेति संबंध  
नीयं क्लृप्ताकारेति कल्याणकारणं मंगलकारणमित्यर्थः इमंचयंति इतश्च कच्छु नारएत्ति एतन्नामातापसः इह क्वचिद्यावत्कारणा

हस्साणं स उक्तं उक्तेणं समतित्यमाशीत् पुव्वकयणियाणेणं जेणेवंपंचपांडवातिणेवउवा  
गच्छइत्ता तेपंचपांडवेतेणंदसद्ववस्ये णं कुसुमदामेणं आवेदियपरिवेदियकरेइत्ता एवंवयासीएएणंम  
एपंचपांडवावरिया तएणंताइं वासुदेवपामोक्वाणि बड्डणिरायसहस्साणिमहयाइ सहेणं उग्घोसे

ऊइह्दियद्वोवसुभवालाछे तिवारपच्छीतेद्रोषदीराजवरकन्यका घणाराजाननाहजारानेमाह्दियईने' तेसघलाराजानप्रते' अतिक्र  
मतीसू' कतीछती पूर्वभवपाच्छिल्याभवसुकुमालिकानाभवनंविषं कीधोनीयाणोतेणेकरीप्रेरीछती जिहायाचपांडवछेतिहांआवीआवी  
ने' तेपांचपांडवप्रते' तेणेपंचवर्णनेकुसुमफूलेकरी गूंथीजेदाममालातेणेकरी कोटिमाह्दिवौटीघणुं उपरऊपरवेदितकरे एतलेपांचपां  
डवानीकोटिमाह्दिसालाघालीकरीने' इमकहतीह्दइएपाचपांडवमे' वस्यासे' परस्यातिवारितेकणवासुदेवप्रसुखआदिदेइ घणारा



माणेऽएवंवयद् सुबरियं खलुभोदोवद् एरायवरकस्याएत्तिकद्, सयंवरसंभवाओपडिणिक्वमद्ऽत्ता  
 जेणेवसयाऽआवासेतेणेवउवागच्छंति तएणंघडुज्जुणेकुमारि पंचपंडवेदोवद् चरायवरकस्यं चाउधं  
 टं आसरहं दुएहेद्ऽत्ता कं पिप्लपुरं मज्जं मज्जं जावसयं भवणं अणुप्पविसद् तएणं दुवएराया पंचपं  
 डवेदोवद् चरायवरकस्यं पट्टे दुएहद्ऽत्ता सेयापीएहिं कलसेहिं मज्जावेद्ऽत्ता अग्निहोमं करेद्ऽत्तापं

जाननां हजारमोटं २ सब्बेयादेकरीउदूषोषणाकरताच्छता दूणेप्रकारेकहेरूडुं भलुं वस्युं निश्चेभोरजानो अहोलोकोद्रोपदीइराजव  
 रकन्याइं इमकहीने' तेसवलाराजान स्वयंवरसंभपथकीनीसरे' नीसरीने' जिहांआपआपणाजताराक्के तिहांआव्यातिवारेष्टुर्जु न  
 कुमरपांचपाडवाप्रतेचपुनःवली द्रोपदीनामाराजवरकन्याप्रते तेच्यारषटानाषोडानारथ घोडिवहिलप्रतेचढेचढीने कांघिल्यपुर  
 नगरने' मांहिथइने' जिहापोतासुं भवनवरक्के तिहाघरमांहिपैसे तिवारिद्रुपदराजापांचपांडवाप्रते द्रोपदीराजवरकन्याप्रतेपाटि  
 पाटलाउपरवेसारेविसारीने स्वेतधोलारूपानाकलसपीतसोनानाकलसतेणेकरी मज्जनसनांनकरावे अंधोलिकरावीने अग्निहोम

चरुहंपंडवारणं देवइएपाणिगहणं कारविद्वृत्तातएणंसिदुवएरायादेवईएरायवरकणाएहसंएयाह्ववं  
 प्रीइदाणं दलयइ तंजहोअडुहिरसकोडिओ जावअडुपेसएकारीओ अडुदासीवेडीओअसं चविपु  
 लंधणकणगजावटलयइ तएणंसिदुवएरायाताइ वासुदेवपामोकवाइ विपुलेणंअसणंप्राणंखाइसंसा

करेकरीनें पछेपांचपांडवाप्रतें द्रोपदीनापाणिग्रहणहाथनाग्रहणप्रतेंकरावे तिवारिद्रुपदराजाद्रोपदीराजवरकन्यानें एहवंप्रीति  
 हर्षतुं दानदीयेएतलोदायजोआपेकेतलो तेजिमअनुकलेकहेछे आठहिरएयअणघड्यालोनीकोडि आपेअठरूपानीकोडिआपे  
 तांलगीजांआठपेसणकामनीकरणहारिओदासीओ आठदासीचेटिकारूप तयावलीअनेरोपणिस्रयोधान्यधन कजकसौवर्णरूपुं  
 जवेरसारप्रधानद्रव्यआपे जिमभगवतीसूत्वमांहि वलराजकुमरनें दाइजोआप्योछे तिमसगलुंआपेद्रुपदराजा तिवारपछीतेद्रुपदरा  
 जातेकणवासुदेवप्रमुखआदिदेई सगलाराजाननाहजारप्रतें विपुलघणेअन्नपाणीखादिसखादिसआहारें करी भोजनकरावीनें भो  
 जनकीधापछीपविलययाचलूलीवा पछीवस्त्रगंधमालाफूलनीइत्यादिघणा पदार्थआपीनेंसज्जनें विसर्जेमोकले तिवारितेपांडुराजा

इसंवत्थगंधजावपडिविसज्जेइ तएणंसेपंडुराया तेसिंवासुदेवपामोकखाणं बज्जणंरथसहस्राणंकारय  
 लजावएवंवयासौ एवंखलुदेवाणुप्पिया हत्थिणाउरेणयरेपंचणहं षंडवाणंदेवइएदेवीए कल्लाणकारे  
 भविस्सइतंतुभंणंदेवाणुप्पिया मसंअणुगिण्हमाणासमोसरह तएणंतेवासुदेवपामोकखापत्तेयं  
 जावपहारेत्थगमणाए तएणंसेपंडुराया कोडुंविचयपुरिसेसइविइरत्ता एवंवयासौगच्छहणंतुभंभेदे

तेदृषणवासुदेवप्रमुखआदिदेई षणासगलाराजाननाहजाराने' आगलिवेऊ'हायजोडीमाथानेविषे आवत्तकरीमाथानेविषेअंजली  
 प्रते' करीने' इमकहतोहूअोइणंप्रकारे' खलुनिचचे हे देवासुप्रियोहत्थिणाउरनगरने' विषेयांचपांडवानोद्रोपदीराणीनोकल्याणकारीम  
 होत्वहोखे थाखे तेकारणयकीपुन्हे हे देवानुप्रियो हेराजानोसुभप्रते' अबुग्रहकरताछताविलंबरहितहंताछता हत्थिनाउरनगर  
 नेविषे आवीने' समोसरोजतरोइमकच्छं तिवारितेदृषणवासुदेवप्रमुखसगलाराजानना हजारजजूआतिहांधकी नीसरेनीसरीने  
 तिसजहत्थिनाउरभणीपधारिवाभणी मनकरतोहूअोतिवारितेपांडुराजा आदेशकारीपुरुषंप्रते तेडावेतेडावीने इमकहतोऊओ

वाणुषियाहत्थिणाउरेणयरेपंचरुहं पांडवाणंपंचप्रासायवडिसए करेहअभुग्गयमूसियवसञ्जोजा  
 वपडिखुवेतएणंते कोडुंविद्यपुरिसापडिसुणंति जावकारावेइ तएणंसेघंडुएरायापंचपंडवेहिं देवइ  
 एदेवीएसडिं हयगयरह संप्रिउडे कंमिस्सपुराञ्चोपडिणिक्वमइ जेणेवहत्थिणाउरे तेणेवडवागत  
 एणंसंपंडुराया तेसिंवाडुदेवपामोकवाणं आगमणंजाणित्ताकोडुंविद्यपुरिसिसहावेइइत्ता एवंवया

जाओतुम्हे हे देवानुप्रियो हे सेवको हथिणाउरनगरनें विषे पाचपाडवानेरहिवानिमित्तपंचप्रासादावंतसकधरधवलकरोअतिवणुंडं  
 चासातभूमियाउवाइस्सूखकी वरणकजाणिवातालगीजाप्रतिरूपदेखणहारा पुरुषांनारूपवाहिरथीदीसे एहवाधोलाघरप्रतें करो  
 तिवारितेआदेशकारीपुरुषराजानाकहणप्रतें अंगीकारकरेकरीने तेहवाजधोलासातभूमियाप्रासादकरावे तिवारितेपांडुराजापा  
 चपाडवासंघाते द्रोपदीराणीसंघाते षोडाहाथीरथपायकडुभटप्रमुख चारप्रकारनाकटकसंघातेपरिवस्थोच्छतो कापिसुप्रपुरनगरमां  
 हियकीवाहिरनीसरेनीसरीनें जिहाहहथिणाउरनगरके तिहाआवेतिवारितेपांडुराजा तेकण्णवासुदेवप्रमुखसगलाराजाननांह

सौगच्छहणंतुभेदेवाणुप्पिथा हत्थिणाउरस्सणयरस्सर्वाहया वासुदेवपामोकखाणं बज्जुणंरायसह  
 स्साणंआवासेकरेह अणेगक्खंभसयतहेवजावपच्चप्पिणंति तएणंतेवासुदेव पामोकखाबहवेरायसह  
 स्साहत्थिणाउरेणयरं तेणेवउवागच्छइतएणंसेंपंडुएराया तेवासुदेवपामोकखा जावअगएजाणित्ता

जाराजाननुं आविबुं दुकडाआवताजांणीनेंआदेशकारीपुरुषांप्रतेतेडावेतेडावीनेइमकहतोह्मओजाओतुह्म हे देवानुप्रियो हे सेव  
 कोहत्थिणाउरनगरनें वाहिर क्खणवासुदेवप्रमुखआदिदेइ घणासगलाराजानाहजाराने उतरवानाआवासउताराप्रतं करो अनेक  
 घणायांभानासईकडासहितजं ताराकरो पछेतेसेवकतेणेजप्रकारेजताराकरीनें पाछावलीआवीनें राजानें सुंपेजे कामकीधोछे  
 तिवारिपछीतेक्खणयासुदेवप्रमुखआदिदेइ घणाराजाननाहजार हत्थिणाउरनगरछे तिहांआव्यातिवारितेपांडुराजा तेक्खणवासु  
 देवप्रमुखघणासगलाराजाननाहजारआव्याप्रतें जांणीनेंहर्षसंतोषपाम्योच्छतो अंधोलिकरीघरनादेवनीपूजानो कर्मकीधोएतलेघर  
 नादेवनीपूजाकीधी पछेजिमज्जेणंप्रकारेद्रुपदराजाजतारादेतोह्मओ तिमपांडुराजासांहमोआव्यो फूलपगधोयणतिमजलेईआव्यो



याकथबलिकम्भाविपुलंअसणंप्राणंखाद्रुमंसाद्रुमं तद्देवजावविहरंति तएणंसेपंडुएराया तेषंचपंडवे  
 दोवद्रंचदेविं पट्टयंदुरुहेद्रु सेयापीएहिंकलसेहिं गृह्णविद्रुकम्पाणकरंकरेइइत्ता तैवासुदेवपामोकवे  
 बहवैरायसहस्रेविउलेणं असणंप्राणंखाद्रुमंसाद्रुमं पुण्णवत्थसक्कारेइइसम्भाणेइइत्ता जावपड्डिविसज्जेइ

ष्णवासुदेवादिसगलानिं आपे तेहानिआगलिम्बुंके तिवारितेकृष्णवासुदेवप्रमुखआदिदेइ घणाराजाअंबोल्याकृता कृतवलिकर्मघरना  
 देवतानीबलिकर्मपूजाकीधाकृता तेविपुलविस्तीर्णघणाप्रकारना अन्नादिच्यारप्रकारना आहारमद्यमांसादि सर्वआहारजीमीनेंच  
 लूलेइपवितथयाकृतातिमजगीतग्यांन नाटककरावताकृताविचरेक्रे तिवारिपक्खीतेपांडुराजातेपांचपांडवाप्रते वलीद्रोपदीराणीप्रते  
 वाजवटप्रतेवैसारीने रूपानेसोनानेकलसेकरी स्नानअंबोलिकरावेकरावीने कल्याणमंगलीकनोकामतिलकादिकनोकविोतेकरेक  
 रीने तेकृष्णवासुदेवप्रमुखआदिदेइ घणाराजाननाहजारांप्रते विपुलविस्तीर्णघणीअन्नपाणीखादिसखादिदेइने  
 सत्कारेवज्जघणुं वस्त्रादिदेइसत्कारीने घणासन्मानवज्जमानंआदरदेइने पक्खेतेकृष्णवासुदेवप्रमुखसगलानिंप्रति विसर्जेमोकलेसीख

तएणंताइं वासुदेवप्रामोक्त्वाइं वड्डइं रायाइं जावप्रडिगथाइं तएणंतिपंचपंडवादोवइएदेवीएसद्धिकक्षा  
 कक्षिं वारं वारिणंभरात्ताइं भोगभोगाइं जावविहरं तितएणंसेमंडूराथाअथाकथाइं पंचहिंपंडविहिं  
 कुंतीदेवीएदोवइएदेवीएसद्धिं अंतैउरपरियालसद्धिं संपरिवुडेसीहासणवरगथाविहरं ति इमंच

दीधीतिवारपच्छीतेक्षणवासुदेवप्रमुखआदिदेई घणाराजाननाहजारतिहायकी नीसखाचात्यातिवारपच्छेतेपांचपांडवद्रोपदीराणी  
 संघातेदिनप्रतं दिहाडीवारिवारेआपआपणेघरे उदारप्रधानकारीआभोगभोगवताछता विचरेछेरहेछे तिवारितेपांडूराजा  
 एकदासमें पांचपांडवांसंघाते वलीकुंतीराणीसंघाते द्रोपदीराणीसंघाते अंतैउरनापरिवारसंघाते भलीपरिपरिवस्योछेतोवरप्रधान  
 सिंहासनजपरिवेठाछताविचरेछे एहवेप्रस्त्वावे इहायकी कच्छुलनामातापसनारदरिषि तेकेहवोछेदरीनें करी अतिघणुंभद्रकछेवि  
 नीतछेवलीतेकेहवोछे अंतराअंतरामांहिदुष्टचित्तनोधणीछे कलेसनाकरिवापणायकी वलीतेकेहवोछेमज्जलयमध्यस्थ समतापणाम्र  
 तेंपास्योछे व्रतनाग्रहिवायकी वलीतेकेहवोछेआलीनयथाआश्रितयथा आसयाएहवापुरुपांनेसौस्थअएद्रअण वीहाभयोप्रियवत्सभ



दिदं दृश्यं दंसरणं अद्रुमद्रुमद्रुदर्शनमित्यर्थः विणीएअंतोरथकलुसिहियए अन्तरांतरादुष्टचित्तः केलीप्रियत्वादित्यर्थः सज्जत्यथो वल्लिएय माथस्थं समतामभ्युपगतोव्रत ग्रहणतद्दतिभावः अक्षीणसोमपियदंसरणेसरूवेअली नानामाअितानांसोस्थसरोद्रुप्रियंच दर्शनंयस्यसतथा अमद्रुलसगलपरिहिए अमलिनंसकलमखंडंशकलंवाखंडं वल्लवासद्गतिस्यते परिह्रितंनिवसितंयेनसुतथाकाल मियचमगुत्तरासंगरद्रुयवच्छे कालस्रगचम्यं उत्तरासंगेनरचितं वक्षसियेनसतथा दंडकमंडलुह खेजटामडडित्तसिरए जसोवद्द

गंकच्छु ह्यणारएदंसरणं अद्रुमद्रुएविणीएअंतोरथकलुसिहियए सज्जत्यथोवत्थिएयअक्षीणसोमपिय  
दंसरणेसरूवेअमद्रुलसगलपरिहिए कालमियचमगुत्तरासंगरद्रुयवच्छे दंडकमंडलुहत्थेजडामडडदि

दर्शनंकेकच्छुल्लनामातापनुं रूपके अमलनिर्मलुंसकलअखंडितआखुं अथवासकलक०खंडवल्ललहक्षनी छालिनावस्त्रनोखंडपिहिस्योछे जेणंकच्छलतापसें वलीतेकेहवोकेस्रगनाचामडानुं उत्तरासंगउत्तरासणतेणेकरीरच्युंकेकीधुंके वक्षहीयाने विषे जेणंकच्छ लता पसें दांडोकमंडलुहाथनेविषेके जेहकच्छु लनें जटानोसुकुटमोडतेणेकरी दित्तदेदीप्यमानतेजवंतशिरमाथोके जेकच्छ लतापसनो

यगणेइत्तियसुं जमेहलावागलधरे गणेविकारुद्राच्चकृतं कलाचिकाभरणसुं जमेखलासुं जमयः कटीद्वरकः वल्ककालं तरत्वक् हत्यकय कच्छभीए कच्छपिकातदुपकरणविशेषः पियगंधवेगीतप्रियः धरणिगोयरप्पहाणे आकाशगामित्वात्सं वरणवरणिउयवयणयणि लिसणी सुयसंकासणिआभिउगपसत्तिगमणियंभणी सुयवड्डुविज्जाहरी सुविस्सु यजसोइहसंवरया दिविद्यानामर्थः शब्दानुसार

त्तसिरएजसोवइयगणेत्तिय सुं जमेहलावागलधरे हत्यकयकच्छभीए पियगंधवेधरणीगोयरप्पहाणे  
संवरणावरणउवणुप्पयणिलेसोणीसुय संकासणिआभिउगपसत्ति गमणीयंभणीसुय वड्डसुवि

जनोइगलामांहिधरेके गणेविकारुद्राच्चनीमालानोकीधुंके हाथनीकलाइतुं आभरणजेणे सुं जमेखलासुं जमयकेडिनो दोरडोव ल्कलउच्चनीच्छालिनें दोरडे दोरारूपतेकडिंधद्योके जेणेनारदेहाथनेविषे कीधोके पाख्योके कच्छपिकातेताप सनोउपकरणविशेष जेणेनारदे गीतगानप्रियवसुभकेजेनारदने धरणीभूमिनें विषे हीं डवानोअगोचरप्रधानके जेहनेंएतलेधरतीनें विषे थोडोचालेके आकासगामीपणायकी संवरणीविद्याआवरणीविद्याउचायकी हेठाजतरीविद्याउत्पन्नजं चाजपाडी विद्याहेषणीविद्याहेषणीक



क्युद्धं युद्धं तु यो धयुद्धं कोलाहलोत्तुज्जनमहाध्वनिः भङ्ग्याभिलासी भंडनं पिष्टातकादिभिः बह्वसुयसमरसंपराएसुसंग्रामेष्वित्यर्थः दंस  
णारएसमंतश्चोक्लहंसदक्खिणं सदानमित्यर्थः अणुगवेसमाणे असमाहिकरेदसारवरवीरपुरिसतेलोकवलवगाणं आमंते जण भगवति

लासी वहुसुयसमरे सुयसंपराएसु दंसणरएसमंतश्चो कलहंसदक्खिणं अणुगवेसमाणे असमाहिकरे  
दसारवरवीरपुरिसते लोकवलवगाणं आमंते जणतं भगवतिंपक्कमाणिं गमणागमणदत्तं उप्पइओ .

जेनारदनें भाडुं वोलिं मरुडफ्री ठउमकारचकारनो वोलिवो तेहनो अभिलाषीछे तथावली वहुवणासमरसंग्राम संपरायसंग्रामयु  
द्धविशेषतेहनेविवे देखिवाजोवाने रतआसक्तजेनारद सगलेकलहकलेशप्रते दक्षिणादानसहितएतलेकिलेशकरतानऊई तेहनेकां  
ई एकवस्तुआपीनेकलेसकरावे एहवादानदेवासहितसगले किलेसकलहप्रते जिहांतिहांजोतोछतो माहोमाहिकलेसनाकरावाथकी  
असमाधिनीकरणहारोछेजेनारद दसारवलवंतवरप्रधानवीरप्रमुख त्रिणित्रिभुवनमाहिमहावलवंतवल्लिष्टप्रते निहंतरीने तेडीने  
तेभगवतीनामाविद्याएकमनीप्रजंजीने तेकेहवीछेआकाशगमिनीआकाशउंचाउच्छालिवालेईजावाने विषेदबडाहीछे एहवीविद्या

एकमणिं गमणागमणदत्तं उष्यद्भ्यो गगनतलमभिलंघयंतो गामागरनगरखेडकवडमडंबदोणसुहृपट्टणसंवाह सहस्रमंडियं थिमिय मेइणीयं णिअरजनपदावसुहं उलोएतो रस्मं हत्थिणपुरउवागए असंजयअविरयअप्यच्चक्खायकस्मो त्तिकट्टु, असंयतः संयसरहितत्वात्

गगणतलमहिलंघयंतो गामागरणगरखेडकवडमडंबव दोणसुहृपट्टणसंवाह सहस्रमंडियं थिमियमे  
इणीतलंसुहं उलोइतो रस्मं हत्थिणाउरंणयरं उवागए पंडुरायभवणंसिअइवेगेणं समोवयइतएणसे  
पंडुरायाकच्छु, ल्लणारयं एज्जमाणं पासइरत्ता पंचहिंपडवेहिंकुंती एयदेवी एसद्धिं आसणाओअभममु

प्रते प्रजुंजीने नारदक्कषिडं चोउतपततो उच्छंलतो गगनतल आकाशतलप्रते घणुं उल्लंघतो उल्लंघतो तेहना सहस्रतेणे करी मंडितसो भितएहवी थिमियं मेइणीयं क० निर्भयययोक्केजनपददेश एहवी वसुधाष्ठवी प्रते सुखे समाधिं अवलोकतो जोतो छतो रम्यरमणीकमनो हरएहवो हत्थिणाउरनगरच्छे तिहां आओकच्छु लनारदक्कषि पांडुराजा भवनवरने विषे अतिवेगुं ऊतावलुं आवी हेठोऊतरे आ काशयकी तिवारिते पांडुराजाकच्छु लतापसनारदक्कषिप्रते आवताप्रते देखे देखीने पांचपांडवेकुं तीराणी संघाते वेसणाथकी उ

इ इ कच्छु, क्षणारयं सत्तदुपयाइं पञ्चु गच्छइति क्वत्तो आयाहिणं प्रयाहिणं वारइइत्तावंदइणसंसइइत्ता  
 सहरिहेणं आसणं उवणिसंतेइ तएणं सेकच्छु, क्षणारए उदणपरिफोसियाएदक्षभोव रिएव्वत्थया  
 यमिसीयाएणिसीयइइत्ता पंडुरायं रज्जं यजाव अंते उरेय कुसलोदंतमुच्छइ तएणंसंपंडुएरायाहु  
 तीदेवीपंचयंपंडवाकच्छु, क्षणारयं आठंति जावप्रज्जु वासंति तएणंसादेवइदेवीकच्छु, क्षणारयं अंसंज

ठउठीने कच्छु, क्षतापसनारदप्रते' सातआठपगलासाहमोजाइ जइने' तिणिआदच्छिणाप्रदच्छिणाप्रतेकरे एतले' तिणिप्रदच्छिणापां  
 खतीयां करीने वां दे नमस्कारकरे वादीने नमस्कार करीने' घणूंयोग्य आसणं वेसणं करी निमंतणाकरे वेसणं सुं' के तिवारिते कच्छु, क्षता  
 पसना रदउदकपांणीना फुसाराख्हांटाना खी करीने' दामजपरिपाथरीने' भिसीयानामापोतानो वेसणं सुं' कीने' वेसे वेसीने' पांडुरा  
 जाप्रते' राज्यदेशकोठारं भंडार अंते उरप्रसुखसगलाने' विषे कुसलखेमना उदंतसमाचारप्रतेपूछे तिवारिते पांडुराजाकुं तीरांणीपांच  
 पांडवकच्छु, क्षतापसनारद ऋषिप्रते' आदरदीये वड्डमान देताछ्छता सेवाचा करी विनयभक्ति करिवालागा तिवारिते द्रोपदीरांणि कच्छु,



यजावलावखेणयंपंचहिंपंडवेहिं अवदङ्कासमाणीसमणो आढाडजावणोपज्जूवासइतसेयंखलममदो  
 वइएदेवोएविप्पियंकरित्तएत्तिकइ, ए वंसंपेहेइरत्तापंडुरायं आपुच्छइरत्ताउप्पयणियंविज्जं आवाहेइ  
 ताएण्णिकिइआएजावविज्जाहरगइए लवणससुइं सउभंअउक्केणं पुरत्था भिसुहेवोइवइउपयत्तेयाविहो

दरदेवेनहीं आब्योपणियाणेनहीं निवारितेकच्छु लतापसनारदनें एहवोआलामासाहिअधिद्यो चिंतामयअणप्रार्थो एहवोमनमांहिं  
 पाडुओसंकल्पविकल्पजपजे अहोआश्चर्येअरेद्रोपदीराणी रूपंकारीधौवनतरणपणंकारी लावखें करीगुणओदोयं करी पाचपा  
 उवेकरीपांचभर्त्तारिकरी गर्वितहंतीछतीघणूंमानीछती सुक्कनें आदरदेतीनथी ऊभीयातीनथी आब्योजांणतीनथी सेवाकरतीन  
 थीमाहरीतेकारणयकी अयभलुं खलुनिअेद्रोपदीराणीं विपरीतभुंडंकटपाडुं तेकरिवाभणीप्रवत्तुं इमकहीनें इमविचारिविचारी  
 नेपाडुराजाप्रतें पूछीने आजासीखमांगीने उतपतवांनीउं चाउडवानीविद्याप्रतें संभारीफोरवीनेतेणीइं उतकष्टीइं चंडाचपला  
 वेगवतीगतिविद्याधरनीगतिंइकरी लवणससुइंमांहिथईनें पूरवदिशिनंसाहसुं व्यतिक्रमवाचालवाभणी उद्यमवंतथातोऊओतेका



त्यातेणं कालेणं तं स एणं धार्द्वयसंडेदीवेपुरित्थिमइदा हिण्डुभरहवासेअमरकंकाणां मंरायहाणी  
होत्यातत्थणंअमरकंकाएरायहाणीएपउमणभेणांमंरायाहोत्यामहयाहिमवंतवसुओतस्सणंपउम  
णाभस्सरसोसत्तदेवीसयाइंउरोहेहोत्या तस्सणंपउमणभस्सरसोपुत्ते सुणाभेणांमंपुत्ते जुवराया  
विहोत्यांतणंसेपउमणभेराया अंतंउरंसिंउरोहे संपरिवुडेसिंहासणवरगएविहरइतएणंसेकच्छ

लनेविषेतेसमयने विषे धातकीखंडनामाद्वीपनेविषे पूर्वमाहिअइंदच्चिणार्धभरतत्तेवएतले मध्यदक्षणाईभरतत्तेवनेविषेअमरकं  
कानामाराजध्यानीहंती तिहांअमरकंकाराजधानीनगरीनेविषे पद्मनाभनामे राजाहंतो मोटोहिमवंतपर्वतसरिखोछे तेहनोव  
णंकउवाईथीजाणवोतेपद्मनाभराजाने सातसेंराणीयांनोअंतंउरउत्तो एतलेसातसयराणीहंती तेपद्मनाभराजानोपुलसुनाभना  
मापुलसुवराजाहंतो तिवारितेपद्मनाभराजाअंतपुरनेविषेअवरोधअंतंउरपरिवस्योच्छतो सिंहासनवरप्रधानउपरि वेठोच्छतोविचरेछ  
तिवारितेहवे कच्छुलताशसनामानारद जिहांअमरकंकाराजध्यानीनगरीछे जिहांपदमनाभराजानाभवनघरछे तिहांआविआवी

ह्यणारए जेषेव अवर्कंकारायहाणी जेषेव प्रउमणाभस्सभव शेतेणेव उव गच्छइइत्ताप्रउमणाभस्सर  
 स्योभवणं सिक्कित्तिवेगेणं समोवइएतएणं सेप्रउमणाभिराया कच्छुह्लुणारयं एज्जसाणं प्रासइइत्ताआरुणा  
 ओअभभुइइ अग्घेणं जावआसणेणं उवणिसंतंइ तएणं सेकच्छुह्लुणारएउदयपरिफोसिताएदुम्भोव  
 रिपच्चुत्थयाए भिसियाएणिसीयइ जावकुसलोदंतंआपुच्छइ तएणं सेप्रउमणाभिरायाणियउरोहे ।

नेपदमनाभराजानाभवनघरने विषे वेगोउतावलोजउतरेआवे तिवारितेपदमनाभराजा कच्छुलनारदप्रते आवतादेखेदेखीने  
 सिंहासनवैसणाथकीजठेउठीने अर्घफूलचंदनप्रसुखपूजानेद्रव्ये करी आसणवैसणुंतेणे करीनिमंतणाकरे वैसणुंमंडावैतिवारिते  
 कच्छुलतापसनारद पाणीनाक्कटोराक्कांटादेईकारिडाभजपरिपाथरीने अभिषेककारीने पीतानोवैसणोपाथरीने वैसेवैसीनेपदमना  
 भराजाप्रते राज्यदेसभंडारकोठारअंतंउरप्रसुख सुगलाने विषे कुसलखेमनासमाचारप्रते पूछे तिवारितेपदमनाभराजानिजयोता  
 नाअंतंउरने विषे विस्सयअचरिजपास्योच्छतो कच्छुलतापसनारदप्रते इमपूछतोह्योतु हेदेवानुप्रिय घणागामआगरनगरसन्ति

जायविभ्रिहकच्छुल्लणारयंएवंवयासी तुमं देवाणुप्पिया बहुणिगामाणिजावगिहाइं अणुप्पविससि  
 तंअत्थियाइं तेकहिंविदेवाणुप्पिया एरिसएउरोहेदिट्टुपुव्वेजारिसएणंसमउरोहेतएणं सेकच्छल्लणा  
 रएपउमेणं रखाएवंवुत्तेसमाणे ईसिंविहसियंकरेइइत्ता एवंवयासीसरिसेणं तुमं पउमणाभातस्सअ  
 गडइइ, रस्सकेणं देवाणुप्पियासेअगडइइ, रेएवंवयासीजहासल्लिणाएएवंखलुदेवाणुप्पियाजंबूहीवेइ

वैशंपयंतघणाराजादिकनाघरांप्रतें प्रवेशकरेछेपेछे तेकारणयकींतेकिहाइं हे देवानुप्रियेहेनारद एसरिखोअंतेउरदीठोपूर्वे  
 एतलेएमाहराअंतपुरसरिखो अंतेउरप्रथमतं दीठोके जेहवोमाहरोअंतेउरछेतेहवो तिवारिवलतुं तेकच्छलतापसनारद पद्मनाभरा  
 जाइं इमकस्त्रीछतो ईपत्तलगारेकविहसितंहासीप्रतें सुखनामडकलाप्रतेकरेकरीनें इमपाछोजत्तरेदतोइअओ सरिखें तुमंतुं हेप  
 दानाभतेकूअनाडेडकासरिखोतुं छे तिवारिवलतुं राजापूकेतेकुणहे देवानुप्रिय कूअानोडे डकोइमपूछ्यो तिवारिवलतुं नारदकहतो  
 इअओ जिमसस्तिनाअध्ययननान्यायनेविषे वखाख्यंछेतिमजांणिवो इरणेप्रकारे खलुनिचे हे देवानुप्रियहेपद्मनाभ जंबूद्वीपनामाद्वीप

भारहेवासेहत्ययाउरेणयरे दुवयस्सरणोधूयाचुलणोएदेवोएअत्तयापंडुस्सुहुरहपंचगहंपंडवारंभा  
रिया दोवईणामंदेवीह्वेणय जावउक्किहाउक्किइसरोरादोवइएदेवोएच्छिणस्सविपायंगुइस्सअचंतव  
उरोहेसयसंकलंणअग्घइत्तिकइ, पल्लभणधंरायंआपुच्छइत्ताजावपडिगएतएणंसेपडमणामेरायाक



नेविषे भरतक्षेत्रनेविषे हयिणाउरनगरनेविषे द्रुपदराजानीवेटीचुलणीरांणीनी आलजाअंगजातपुतीछे पंडु राजानीसु पावउछे  
पांचपाडवानीभार्यांछे द्रोपदीनाभार्यांछे तेरूपे करीवैवने करीगुणेकरी लावण्यनेगुणेकरी उत्कृष्टीउत्कृष्टाशरीरनीधरणहा  
रीछे तेद्रोपदीराणीनीछेद्वोकाव्योपगनो अंगूठोतेकापीजताख्याअंगूठाने एआताहरोअंतःपुर अर्धेनहीपानेनहींसोमीकलासोमो  
भागपणिएतलेद्रोपदीनारूप आगलिएल्लीओकिसाइहिसावमाहिनहींइमकहिनेपदमनाभराजापते पच्छीनेसीखळांगीने तिराज  
आन्नाशउडीनेगवो तिवारिपच्छीतेपदमनाभराजा कच्छु लतापसनारदनासमीपथक्ती द्रोपदीनारूपअते सांधलीने हीवानाहिअव  
धारीने द्रोपदीराणीनेरूपेकरीवैवनेकरी लावण्ये करीखूर्छीपांस्यो गृध्रलोलीवोथओछतो जिहंपोसहसालाछे तिहांचादिआवीने

च्छ, क्षणारयञ्जितियं एयमङ्गु सोच्चाणि सस्रदोवद्द ए देवी एरुवेयश्सुच्छि एजेणेवपोसहसाया तेणेवउवाग  
 च्छद्दत्तापोसहसालंजावतं पुंस्वसंगतियं देवं एवंवयासौ एवंखलु देवाणुष्मिया जंबूद्वीवेश् भारतहेवासेह  
 त्थिणाउरेणयरेजावसरीरातं ह्च्छामिणं देवाणुष्मियादोवद्द देविं इहहृह्वमाणीयंत एणं पुंस्वसंगति ए  
 देवेपुंसुमणाभं एवंवयासौ णोखलु देवाणुष्मिया एवंभूयंवा एयंभवंवा एयंभविस्वयं वाजस्यं दोवद्द देवीपंचपं

पोसहशालाप्रते पूंजीप्रमाजीने डाभनोसंथारोपायविलिणुपवासकरीपुर्वसंगतिपाच्छिलाभवनोमित देवतानोअ्यानध्यातोछतोरहे  
 केपछेतेपुर्वसंगति देवताप्रत्यक्षययो तिवारितेपुर्वसंगतिक देवताप्रते इमन्नाहतो ह्छओइणेप्रकारे निश्चेहे देवासुप्रियहे देवहेमितजंबूद्वीपने  
 विपेभरतक्षेत्रनेविषेहथिनाउरनगरनेविवेद्रोपदीरांणीछेरूपेकरीयौवनेकरी लावखे करीघणुं उतकृष्टाउतछष्टीशरीरनीघरणाद्वारी  
 छेतेकारणथकीऊं इच्छुं वांछुं हे देवासुप्रियद्रोपदीरांणीप्रते इहांउतावलीलाविउतावलीआणिआपितिवारिपुंस्व संगतिक देवता  
 पदसनाभराजाप्रते इमकहतो ह्छयो नो निषेधे खलु देवासुप्रियनिश्चे एपूर्वं ह्छनहीनीपनीनहीं एहिवडावतं मानवा लियार्इवोनहीं

उवेसोत्तूणंअरुणंपुरिसेणंसङ्घिउरालाहं भोगभोगाहं जावविहरिस्सइतहावियणंअहं तवपियइहाए  
 देवइदेविइहहव्वसाणासित्तिक्कट्टु, पउअणाभंआपुच्छइताएउक्किइहाएजावलवणससुहं मउअंसउअेणं  
 जेणेवहत्थिणाउरेणयरेतेणेवप्रहारेत्थगमणाएतेणंकालेणंतेणंसमएणंहत्थिणाउरेणयरेजहिड्डिक्केरा  
 यादोवइदेवोएसङ्घिउण्णिंआगासतलंसिसुहंअसुत्तेयाविहोत्थातएणंसेपुव्वसंगतिएदेवेजेरेवजुहिड्डिक्के

एहंनुआगामिवकालियाखेनहौं जेकारणयकीजोद्रोपदीदेवी पाचपाडवाप्रतेंअंकीनेंछाडीनें अनेरावीजापुरुषसंधाते उदारप्र  
 पांनकारीआमनुव्यसंधीयाक्काभभोगप्रतें भोगवतीछतीत्रिचरखेतोअपिनिचे ऊं ताहरीप्रीतिनेअर्थे द्रोपदीराणीप्रतें इहांउता  
 वलीलेइआवुंऊंइमकहीनें पदमनाभराजाप्रतें पुच्छीनेंसीखसांगीनेंतेणीउत्तृष्टी चंडाचपलाउड्डुयादेवतानीगतिकरीचालतोछतो  
 लवणसुद्रुमांहियइनें जिहांहयिणाउरनगरछे तिहांपधारिवाभणीमनकरतोहअओ तेकालतेसमयनें विषे हयिणाउरनगरनें विषे  
 बुधिठिरराजाद्रोपदीराणीसंधातें सातभूमियाआवासजपरिआकाशतल आगासीभूमिपीटणीनेविषे सुखंससाधिंसुतोऊं तोएतले



रायाजेणैवदोवईदेवीतेणैवउवागच्छइरत्तादोवईएदेवीएसोवणिंदलयइरत्तादोवइदेविंगिरुइरत्ताता  
 एउक्किडाएजावजेणैवअमरकंकाएयहाणिजेणैवपउमणाभस्सभवणेतेणैवउवागच्छइरत्ता पउमणाभ  
 स्सभवणंसिअसोगवणियाएदोवइदेविंठाने इसोवणिंअवहरइजेणैवपउमणाभेरायातेणैवउवागच्छ  
 इरत्ताएवंवयासीएसणंदेयाणुप्पियामएहत्यिणाउराओणयराओदोवईदेवी इहहव्वजाणीयातवअ

तेदिवसने'विषे' बुध्दिष्टिरराजानोवारोक्तो तिवारिते पूर्वसंगतिक्रदेवता जिहांबुध्दिष्टिरराजाछेजिहांद्रोपदीराणीछे तिहांआवेआ  
 वीने'द्रोपदीदेवीने'अवस्वापनीनिद्राप्रतेदीयेदेईने'द्रोपदीराणीप्रते'ग्रहेलीयेलेईने'तेणीउतकृष्टीदेवतानीगतिं'करीलवणससुद्रनांहिद्य  
 ईने'अमरकंका'नगरीछे जिहांपदमनाभनोभवनघरछे तिहांलेइआवेलेइआवीने पदमनाभराजानाघरने'विषे पाछलिअशोकवनिका  
 वाडीने'विषे' द्रोपदीराणीप्रते'थापेथापीने सू'कीने'अवस्वापनीनिद्राप्रते' अपहरेटालेअपहरीने जिहांपदमनाभराजाछे तिहांआ  
 वे'आवीने'देवता इमकहतोहअपदमनाभराजाप्रते' एतेहे'देवानुप्रियसे'हधियाउरनगरथकी द्रोपदीराणीइहाउतावलीकृतीआ

सोगवणियाएचिइइ अतोपरतुभंजाणसित्तिकहु, जामेवदिसिंपाउभ्भूए तामेवदिसिंपाडिगएतएणं  
सादोवइदेवीतओसुहुत्तंतरस्स पडिबुद्धासमाणैतंभवणंअसोगणियंअप्रच्चइजाणमाणौएवंवयासी  
णोखलुअरुहंइसेएपासाएणोखलुएसाअरुहंसगाअसोगवणि यातंणएज्जइणंअहंकेणइदेवेणवादाए  
वेणवाकिंखरेणवाकिंपुरिसेणवामहोरगेएवागंध्वेणवाअणस्सरखोअसोगवणियंसाहरियत्तिकहुउ

णीछे ताहरीअशोकवनिकावाडीनेविषरहेछे ईहाथकीआगलितुं जाणेतिकरी इमकहीने देवताजेणीदिशियकी प्रकटथयोहं तो  
आब्योहंतो तेणीजदिशिप्रते पाछोवलीने गयो तेपूर्वसंगतिकदेवतात्वारिपच्छी तेद्रोपदीरांणीतिहाथकी वेषडीनेआंतरजागीछति  
तेषरप्रते वलीअशोकवनिकावाडीप्रते अप्रतीतप्रते जाणतीछती तेएनहीइमजांणतीछती इमकहतीउइमनमाहि खलनिचेअम्हा  
राएपोतानाप्रासादावतंसकभरनऊइखलुनिचे एअम्हारीपोतानीअशोकवनिकावाडीनेहीछितेकारणथकीनजाणीयें ऊं केणेदेवताइं  
दानवभवनपती देवताइं किंनरदेवव्यंतर देवताइं किंपुरुषव्यंतर देवताइं अनैरावीजाराजानीं असोकवनिकावा



हयमणसंकप्राजावज्जिभयायह तएणसेपउमणामेरायाणहाए जावसव्वालंकारविभूसिए अंतैउरपरि  
 यालसद्विसंपरिउडेजेणेवअसोगवणियाजेणेवदेवईदेवीतेणेवउवागच्छइत्तादोवईदेविंउहयजावभि  
 यायसाणिंप्रासइत्ताएवंवयासौकिखं तुमं देवाणुप्पिए उहयजावज्जिभयाहि एवंपखलुतुमं देवाणुप्पिया  
 मसंपुव्वसंगइएणं देवेणं जंबू द्वीवाओभारहाओवासाओ हत्थियाउराओ ययराओ जुहिहिट्टिलस्सरसोभ

डीप्रते साहरीछुलेईआणीसू कीछेइसकहीने संकल्पविकल्पकरतिह इतिवारिपछेतेपदमनाभराजाखानअंधोलिकस्योवउमूल्यवरु  
 आभरणसगलाअलंकारपरिहरीकरीविभूसिपितसोभायमानययोक्तो अंतैउरनापरिवारसंधाते परिवस्योछेतोजिहाअसोकवनिकावाडी  
 केजिहांद्रोपदीराणीछेतिहाआवेआवीने द्रोपदीराणीप्रते शिखोयोदेईभूमिसाहमीदृष्टिकरीआत्तध्वानद्रोद्व्यानचिंताध्यातीछतीदे  
 खेदेखीनेइसकहतोऊओ किमतु हे देवानुप्रियेआर्तरोद्रध्यानध्याइछेचिंताकरेछेएणंप्रकारे खलुनिश्चेतु हे देवानुप्रियेसाहरापूर्वसंग  
 तिकदेवताइ जंबूद्वीपनासाद्वीपयकीभरतक्षेत्रयकीहयियाउरनगरयकीशुधिष्टिराजानाघरयकीसाहरीछेआणीछे तैकारणयकी

वणाञ्जोसाहरियातंसाणंतुमं देवाणुष्यियाउहयजावक्तियाहि तुमंसएसद्धिंविमुखाइं भोगभोगाइं  
 जावविहराहितएणंसादेवईदेवीपडमणमं राथंएवंवयासीएवंखलुदेवाणुष्यियाजंबूद्वीविश्वारह्वेवा  
 सेवारवइएणयरीए करहेणांमंवासुदेवमसप्यियाभाउएपरिवसइतंजइणंसे क्खणंमासाणंससकूवंणो  
 हव्वसागच्छति तएणंअहंदेवाणुष्यिया जंतुमंवर्यसितस्सआणाउवायवयण णिइसेचिद्विस्सांसित

तुं हे देवानुप्रिये आर्त्तैरौद्रध्यानचिन्ताध्याइं आचिन्तासकरिसे अणावीच्छे तुं सुअलंघातेविपुलवणा मनुष्यसंबंधीयाभोगभोगवतीच्छती  
 विचरिप्रवर्त्ति इमकक्षुंतिवारितेद्रोपदीराणी पदसनभराजाप्रते इमकहतीऊईइणंप्रकारे हे देवानुप्रियहेपदसनास जंबूद्वीपना  
 माद्वीपनेविषे भरतक्षेत्रनेविषेद्वारावतीनगरीनेविषे क्षणनामावासुदेवसाहराभरतारनोभाइवसेच्छे तकारणयज्ञीजोतेक्षणवासुदेव  
 छसासासाहिमाहरीक्षत्रकंवाहीरंप्रते माहरीशुद्धिजोवाउतावलोद्यावेनहीं तोड्डंतिवारिइं हे देवानुप्रियहेस्वाभी जेतुं कहेच्छेतेता  
 हरीआञ्जाउपायवचननानिदृशनेविषे रहिस्थुं तुमेकहिस्थोतिसकरिस्थुं इमकक्षुंतिवारितेयदसनाभराजा द्रोपदीरांणीनावचनप्रते

एणंसेप्रउमणाभेदोवईएदेवीए एयमड्डं पडिसुणेइइत्तादोवइदेविंक्खंतेउरेठवेइतएणंसादोवईदेवीछड्डं  
 छड्डेणंअणिविच्छेत्तेणं आर्यंनिलपडिअणं तवोक्खंअणं भावेमाणीविहरइतएणंसेजुहिड्डि  
 रायातओसुहत्तं तरस्सपडिबुइसमाणे दोवइ देविंपासिअपासमाणेसयणिज्जाओ उइइउड्डं तादोव  
 ईएदेवीएसव्वओसंतासुगणगवेसणंकरेइ दोवइएदेवीए कत्थइसुइं वासुइं वा प्रवत्तिंवाअलमभा

एवचनप्रते अंगीकारकरेअंगीकारकरीने द्रोपदीरांणीप्रते कन्यानाअंतेउरमांहिथापेराखे तिवारितेद्रोपदीरांणी छड्डछड्डवेवेउप  
 वासपारणि आर्यंवल्लिने ग्रहवे करी तपने करवेकरीआपणाआत्माप्रते भावतीछतीविचरेखेरहेक्केतिवारपच्छीतेयुधिष्ठिरराजाति  
 हांयकी द्रोपदीने अपहस्यापच्छीवेधडीने आंतरेजाग्योछतो द्रोपदीरांणीप्रते पासानेविषे खूतीअणदेखतोछतोशय्याथकीउठेउठी  
 नेद्रोपदीरांणीनीसगलेचउफेरदि शिविदिशने विषे मार्गनीजोयानीगवेषणाप्रते करेसगलेजोइ पणीद्रोपदीरांणीनीकिहां  
 इसांसलीयेतेश्रुतिशब्दवचनतेप्रते जूतिच्छीकादिशब्दविशेषजतेप्रते प्रवत्तिवार्त्ताकरतीप्रते अणलहितोअणपामतोछतो जिहां

धारयः कृवंति कृजं व्यावर्त्तकत्रलम्बिति भावः सुइं वृत्तिञ्चयत इति अतिः शब्दस्वाखुत्तिवृत्तिञ्चयणं लुतः क्लीकारादिः शब्दवेषयणवता प्रचु  
क्तिं वात्तां वाताप्यां याचैते इति हिवावृत्ति हता प्रदेशातरे स्थापिना नीताने वास्वस्थानं प्रापिता आक्षिप्ता आकृष्टै वेति इमाञ्चषे त्यादि

णेजेणेदपंडुराया तेणेवउवागच्छइत्ता पंडुराद्यं एवं वयासी एवं खलुता ओममं आकासतलंगं सिद्धु ह  
पसुत्तस्स प्रासाओ दोवई ए देवी एणञ्जइं केणइ देवेणवादाणवेणवा किंपुरिसेणवा किंस्वरैणवा म होर  
णेणवागंधव्वेणवा हिवावा शियावाउक्खिताइवा तंइच्छामिणंताओ देवइ ए देवी ए सब्बओ समंता

पाडु राजाके तिहासुधिदिरराजा आवेआवीने पाडु राजाप्रते इणें प्रकारे कहतोऊओ इणें प्रकारे निचे ते माहरासातभूमिया  
आवासनी आगसीपीटणीनेविषे सुक्कने सुखेसुताने निद्रामाहिमाहरा पासायकी माहराघरयकी द्रोपदीराणीने नजांणीये केणे  
देवताइ वेमानिक देवताइ दानवभवनपती देवताइ किंपुरपथ्यंतर देवताइ किंनरथ्यंतर देवताविशेषे महोरग व्यंतर देवताविशेषगं  
धर्म्म व्यंतर देवताविशेषे हरीलीधीअपहरी देशंतरनेविषे यापीनीतावीजाइठामे पङ्क चाडीपोतानाठामप्रते आकषीलीधीतांण

सगणगविसर्गंकरित्तए तएणंसंपंडुरायाकोडुं वियपुरिसेसद्दाविइरत्ता एवंवयासीगच्छहणंतुभेदेवा  
 गुप्पियाहत्थिणाउरिणयरे सिंघाडगतिगचउक्कचच्चरमहापहपहेसुमहया२ सहेणंउग्घोसेसाणा२ए  
 वंवयहएवंखलुदेवाणुप्पियाजुहिड्डिह्लस्सरंए आगासतलगंसिसुहप्पमुत्तस्सपासाओदोवइदवीणणज्ज

लौधीतेकारणथकीडं वांछुच्छुं तेद्रोपदीराणीनीसगलेचउफेरदिथिविदिथिने विषे जोवानीगवेषणाकरिवाभणीइच्छं तिवारिपल्ली  
 तेपाडुराजा आदेशकारोपुरुषप्रते तेंडावेतेडावीने इमकहतोह्मओजाओतुम्हेहेदेवाबुप्रियो हथिणाउरनगरने विषे त्रिखूणासार्ग  
 नेविषे त्रिवटानेविषेचोकनासार्गनेविषे चाचरनेविषेसोटाराजाननाजावा आविवानाहाटअणिनासार्गने विषे सोटेरशब्देवरीउहं  
 घोगणाकरताछता इमकहिज्योइमकहो इणेप्रकारे निश्चेहेदेवानुप्रियोहेलोको बुधिट्टिरराजानासातभूमिया धवलधरनीआगासी  
 पीटणीने विषेसुखेसयाधिनिद्रामाहिह्लताछताने बुधिट्टिरराजानापासाथकीह्लतीछतीद्रोपदीराणीनजाणीइं केणेदेवताविमंनवा  
 सीदेवताइंदांनवभवनपतीदेवताइं किंपुरुषथं तरदेवताइं किंनरथं तरदेवताइं महीरणनागकुमारदेवताइं देवतानागंधर्वगाथ

इकेणइदेवेणवादाणवेणवा किंपुदिसेणवाकिस्सरेणवा स होरगेणवागंधवेणवा हिवावाणियावाउ  
 क्वत्तावातंजोणंदिवाणुप्पिया दोवइएदेवीएसुत्तिं वापवत्तिं वा परिकहेइतस्सणंतेपंडूरायाविउलंअ  
 त्यसंपयाणंदलइत्तिकइ, घोसणंघोसाविहएयमाणत्तियंपच्चप्पिणह तएणंतेकोडुं वियपुणिसाजावपच्च  
 प्पिणंति तएणंसेपंडूरायादोवइएदेवीए कत्थइ सुइं वाजावअलभमाणे कुंतीदेवींसहावेइत्ताएवंव

नदेवताइं हरीप्रदेशातरनें विषे थापीच्चं कीच्छेनीतापोतानाठामप्रतें पमाडीच्छे आकर्षीलीधीताणीउदालीलीधी तेकारणथकीजेहे  
 देवानुप्रियो द्रोपदीराणीनोशब्दचनप्रतें प्रष्टत्तिवार्त्ताप्रतें कहेजेअसुकुकेठामिट्रोपदीच्छे इमकहेतेहनें तेपाडुराजा विपुलघणुंअर्थद्र  
 व्यनीसंपदालच्छीसागेतेदीयेआपे इमकहीनेघोषणापडहढंटे राप्रतें घोपावोघोषणाकरावोकरावीनेएमाहरीआज्ञाप्रतें करीनेपाछी  
 सूंपो इमकच्चं, तिवारितेआदेशकारिपुषष तिमजघोषणाकरावीनें पाछाआवीनें सुं पेजेघोषणाकरावीच्छेतिवारिपच्छीतेपांडुराजा  
 द्रोपदीराणीनो किहाकिणिसाभलीयेतेश्रुतिशब्दचनतेप्रतें छीकादिशब्दविशेषप्रतें वार्त्ताप्रतें अणपामतोछतो कुंतीराणीप्रतें



द्वाजणवएजेणेववारवदूणयरी जेणेवअगुज्जाणे तेणेवउवागच्छइस्ता हत्थिखंधाओपच्चोरुहइस्ता  
 कोडुं वियपुरिसेसद्दवेइस्ताएवंवयासीगच्छहरांतुभेदेवाणुषिययाजेणेववारवदूणयरीतेणेववारणइं  
 णयचिंअणुप्पविसहस्ता करहंवासुदेवंकरयलजावएवंवयहएवंखलुसामीतुभक्षंपिउत्त्याकुंतीदेवीह  
 त्थिणाउराओणयराओइहहव्वमागयांतुभंदंसणंखइतएणंतेकोडुं वियपुरिसेजावकहंतितएणंका

जिहांसोरठनामाजनपददेशे जिहाद्वारिकानगरीके जिहांअप्रनामाउद्यानके तिहांआवीआवीनें हाथीनाखांधायकी हेठीउतर  
 उत्तरीने आदेशकारीपुरुषांप्रते तेडावेतेडावीनेइमकहतीऊई जाओतुम्हेहेदेवानुप्रयोहेसेवको जिहांद्वारिकानगरीके तिहांज  
 इजईनें द्वारिकानगरीप्रते प्रवेशकरोप्रवेशकरीने कृष्णवासुदेवप्रतें करतलवेऊ हाथजोडीमाथानेविषे आवर्त्तकरिमाथानें विषे  
 अंजलीप्रतें करीनेइमकहिज्यो इणेंप्रकारें निर्द्वारसहितनिचं हेखामीतुम्हारापिउत्त्याकं पितानीत्रहीन तुम्हारीभआकुंतीराणी  
 हत्थिणाउरनगरयकी इहांउतावलीआवीके तुम्हारं दर्शववांकेके तुम्हारादर्शननीउत्कंठाके मिलवानीइमकह्युं तिवारि तेआदेश



गृहेवासुदेवेकोडुं विययुरिसाणं अंति ए एयमदुं सोच्चाणिसम्न हृदुतुङ्कं हत्थिखंधवरगएहयगयजाववारव  
 इरणयरी एमउभंमउभंखंजेणेवकुं तोदेवीतेणेवउवागच्छइरत्ता हत्थिखंधाओपच्चोरुहइरत्ताकुं तोएदे  
 वी एपायग्गहणंकरेइरत्ताकुं तोदेवी एसद्धिं हत्थिखंधंदूरुहइरत्तावारवइणयरिंमउभंमउभंखंजेणेवसए  
 गिहृतेणेवउवागच्छइरत्तास्यंगिहं अणुप्रविसइरणंसेकरहेवासुदेवेकुं तिंदेविंशहायं कयवलि कम्भ

कारीपुरुषतिमजजईनें कृष्णवासुदेवप्रतें कहेतिवारिकृष्णवासुदेवआदेशकारीपुरुषनासमीपनेविषे एकुं तीभूआफइआवीप्रतें सां  
 भलीनें हीयामाहेअवधारीने हर्पसंतोषपास्योक्ततो वरप्रधानहंथीजपरिचढोक्ततो हाथीषोडारथपायकथारप्रकारनीसेनासंघा  
 तेपरिवख्योक्ततो द्वारिकानगरीनें माहिथईनें जिहांकुं तीराणीके तिहांआवेआवीनें फुईदीठाएतले कृष्णवासुदेवहाथीउपरथकी  
 हेठोजतरेउतरीने कुं तीरांणीभूआनापगग्रहणकरे पगेलागेपगेलागीनें कृष्ण कुं तीरांणीसाधिहाथीनाखांधाप्रतें हाथीजपरिचढे  
 चढीने द्वारिकानगरीनें माहिथईनें जिहांपोतानोघरके तिहांआवेआवीनें पोतानाधरप्रतें प्रवेशकरेतिवारिकृष्णवासुदेवकुं ती

जिमियभुत्तुरागयंजावसुहासणवरगयंएवंवयासीसंदिसउणंपिउत्थाकिमागभणपओयणंतएणंसाकु  
 तीदेवीकरहंवासुदेवंएवंवयासीएवंखलुपुत्ताहत्थिणाउरेणयरे जुहिद्विल्लसरसोआगासतलगंसिसुह  
 प्पसुत्तस्सदोवइएदेवीएपासाओ णणज्जइकेणइअवहियावा जावउखित्तावातंइच्छामिणंपुत्तादोवइ  
 एदेवीएसगणगवेसणंकयंतएणंसेकरहे वासुदेवेकुंतीदेवींपिउत्थं एवंवयासीजंणवरंपिउत्थादोवइए

राणींप्रते अंधोलिकरावेकरावीने जिमीने जिस्थापच्छीचलुतेइ पवितथईभलासुखासन भले आसने वेठींप्रते इमपछतोहंओसंदे  
 शोकहोहेभूआजी तुम्हाणंआविवानुं तुम्हने इहालगीआविवानुं स्युं योजनस्युं कारणे तेसुभने कहोतिवारपच्छी कुंतीरांणीभूआ  
 द्दणवासुदेव ते इमकहतीज्जईइणंप्रकारे ययुं निचे हेपुत्रहत्थिणाउरनगरके शुधिठिरराजानाधवलघरना आवासनीपीटणीमा  
 लियानेविषे शुधिठिरराजाने सुखे समाधिंसूताने निद्रावंतययाने द्रोपदीराणीने पासायकीसूतीने नजाणीयेकेणेदेवतांइअपह  
 रीलीधीप्रदेशातरने विषे थापीछेपोतानाठामप्रते पमाडी आकर्षीलीधीदीसेछे तेकारणयकीइच्छुं ह्यु हेपुत्रद्रोपदीरांणीनीजोवा

देवी एकत्थद्रं सुद्रं वा जावलभामितोणं अहं पांयाला ओवा भवणा ओवा अद्भ्रभरहा ओवासमंता ओदोवद्र  
 देवि साहत्थिं उवणे मित्ति कइ, कुं ती पि उत्थं सक्कारि इ सस्माने इ रत्ता जावपडि विसज्जे इ त एणं सा कुं ती देवी  
 कए हेणं वा सुदे वेणं पडि विसज्जिया समाणी जा मे वदि सिं पा उभयूयाता मे वदि सिं पडि गया त एणं से करुहे वा

सुं गवेषणकीधुं एतले सगले जो वरावी पणिलाधी नहौं ति वारिते कणवा सु देवकुं ती राणी भू आ प्रते इ मकहतो ह्वो जे एतलो विशेष छे हे भू  
 आजी द्रोपदी राणी नो कि हां इ श्रुति शब्द वचन प्रते क्खौं कादि यद्द प्रते द्रोपदी नीवात्ती प्रते पासुत बळुं पाताल मां हि गइ ऊइ अथवा कोइ ने घ  
 री गइ हइ ति हाथकी अर्द्धभरत खे लमां हि जो वराविति हां थकी सगली दिशि विदि शिथकी जि हां होस्ये ति हां थकी द्रोपदी राणी प्रते साहत्थि  
 पोतां ने हाथी करी आंणी आपुं इ मकहौने कुं ती भू आ प्रते सत्का रे वखा दि अपे सन्मानदी ये षणी आस्वासना दी ये सत्कारीने घणा आदर दे  
 ईने कण कुं ती प्रते मोकले सीख आपे ति वारिते कुं ती राणी कणवा सु देवने मोकली छता सीख दी धी छती जेणी दि शिथकी आवी ह्णती तिणी ज  
 दिशिं पाछी वलीने गइ चाली ति वारि पछी ते कणवा सु देव आदेशकारी पुरुषां प्रते ते डावे ते डावीने इ मकहतो ह्वो जा ओतुं छे हे देवानु प्रियो

सुदेवेकोडु वियतुरिसेसद्दविद्दत्ताएवंवयासौगच्छहणंतुभेदेवाणुप्पियावारवद्दंणयरिंएवंजहांपंडुत  
 हाधोसणंघोसाविद्दत्तातेविजावपच्चप्पिणंतिपंडुस जहातएणंसेकएहेवासुदेवेअस्ययाकयाद्दंअंतोअंते  
 उरगएउरोहेजावविहरद्दइमचणंकच्छ, सुणारएजेणेवकरहस्सरसोणिहंतेणेवजावसमोवएजावणिसी

हेसेवकी द्वारिकानगरीप्रते सगले षोषणाकारावो इमपाच्छलिमपांडुराजाषोषणाकरावीछे तिमजतेणेजप्रकारे षोषणाप्रतेघोषा.  
 वोपडहवजावोवजावीने पछेतेसेवकतिहाजइषोषणाप्रते कारावीने पाछावलीआवीने कणने सूं पेपांडु राजाने जीमकच्छूं छे तिमक  
 हे तेद्रोपदीनीखवरिलावेतेहने कणवासुदेवघणोद्रव्यआपेइत्यादिवचनकहीषोषणाकीधी पछेठामिरलोकेखवरकीधीखवरिशुद्धिमा  
 ललाधीनहीं तिवारपछीतेकणवासुदेव एकदाप्रस्तावेअंतेउरगयोछतो अंतेउरस्त्रीयासंघाते रामति क्रीडाकरतोछतोविचरेछेएह  
 वे प्रस्ताविंइहांधकी एतलेकच्छु सुतापसनारद जिहांकणवादेवनोत्ररछे तिहांकणवासुदेवनाघरने विषे आकासयकीउतरं उतरी  
 नेकणनाअंतेउरमाहिजाइ तवकणआवतो देखीनेसातआठपगसाहसुं ज इजईने वेसणोमंडावेतिहायाणीछांटीडाभउपरिपाथरी

इसाकएहंवासुदेवंकुसलोदं तंपुच्छइतएणंसेकरहेवासुदेवेकच्छुंणारथंएवंवयासौतुमंणंदेवाणुप्पिया  
 बह्णिगामाणिजावअणुप्पविससितंअत्थियाइंतेकहिंविदोवईदेवीएसुइंवाजावउवलद्धातएणंसेकच्छुं  
 सएणारएकएहंवासुदेवं एंवंवयासौएवंखलुदेवाणुप्पिया अणयाकयाइं धाईसंडेदौवे पुरिच्छिमिहंदा  
 हिणडुभरहंवासं अमरकंकारायहाणिंगए तत्थणंसएपउमणभस्सरखोभवणंसि दोवईदेवीजारिसि

नें भिषीयाजपरिवेसेवेसीने क्खणवासुदेवप्रतें कुसलखेमनासमाचारप्रतें पूच्छेतिवारितेकृष्णवासुदेवकच्छुं सतापसनारदप्रतें इमक  
 हतोऊओतुं हे देवानुप्रियहेनारद ऋषे षणागामआगरनगरमडं वट्टोणसुखथलवट्टजलवट्टजाइच्छे जिहांतिहाराजासेठिमंतीप्रमु  
 खानाधरानिविषेपेसेच्छे प्रवेशकरेच्छेतेकारणयकीच्छे ते किहाइट्टोपदीरांणीने शब्दमोलतीच्छीकतीवार्त्ताकरतीप्रतें ट्टोपदीलाधीच्छेपा  
 मीच्छेखवरिइमकहीते वातसंभलीनें तिवारिपक्कीतेकच्छुं सनारद क्खणवासुदेवप्रतें इमजत्तरदेतोऊओ इणंप्रकारे खलनिश्चे हे दे  
 वानुप्रियहेक्खण एकदासमे धातकीखंडहीपनेविषे पूरवदिशिनाअर्द्धदक्षिणार्द्धभरतत्त्वेवप्रतें अमरकंकाराजधानीनगरीप्रतें गयो

यादिदृष्टुवायाविहोत्या तएणंसेकाएहेवासुदेवे कच्छु, ल्लंणारयंएवंवयासी तुभंभंचेवदेवाणुप्रियाएयंएतुव  
 कम्मं तएणंसेकच्छुल्लणारए कएहेणंवासुदेवेणंएवंवुत्तेसमाणे उप्पयणिंविज्जंआवाहेइ जामेवदिसिंपा  
 उभूएतामेवदिसिंपडिगए तएणंसेकाएहेवासुदेवे दुयंसइविइरत्ताएवंवयासी गच्छुहणं तुभंदेवाणुप्रि  
 याहत्थिणाउरण्यरं पंडुस्सरखोएयमइं णिवेएहि एवंखलुदेवाणुप्रियाधाईसंडेदोवेपुणिच्छिमइंअ

उं तोऊं तिहामे पदमनाभराजानात्रने विधे द्रोपदीराणीजहवीसरिखीस्वीमे प्रथमपहिलीदीठीऊं तीएवातसांभलीने तिवारप  
 कीतेकृष्णवासुदेव कच्छु, ल्लतापसनारदप्रते इमकहतोऊवोचेवनिश्चे सहितहेदेवानुप्रिय हेनारदक्षषेहाभाइ एतुहाराजप्रथमप  
 हिलोकामएतुहाराजकारणिजाणीइच्छे तिवारितेकच्छु, ल्लतापसनारद कृष्णवासुदेवे इमकहोच्छतो उतपतवानीजं चाजावानीउड  
 वानीविद्याप्रते संभारेफोरवेफोरवीने जेणोदिशियकीप्रकटययोऊं तो तेणीजदिशिंपाछोवलीने गयो तिवारपच्छीतेकृष्णवासुदेवदूत  
 प्रते तेडावितेडावीने इमकहतोऊओजातु हेदेवानुप्रिय हत्थिणाउरण्यरप्रते पाडु राजाइ एसमाचारनाअर्थप्रते कहिइमनिद्धी

अरकंकाएरायहाणीएप्रउमणाभस्त्रभवणंसिदोवईएदेतीएप्रवत्तीउवलद्धातंगच्छं तुं चंपंडवाचउरंगि  
 णीएसेणाएसद्धिसंपरिवुडापुरित्थिमवेयालीएसमंपडिवाल्लेमाणचिद्धं तुतएणंसेदुएजावभणद्रपडिवा  
 लेमाणचिद्धहतेविजावचिद्धंति तएणंसेकारहेवासुदेवे को.डु. वियपुरिसेसद्दावेइइत्ताएवंदयासौगच्छ

रसहितनिचे हेदेवासुप्रिय हेपांडुराजन्धातकीखंडहीपनविषे पूर्वनाअर्द्धं प्रतंदहिणार्द्धं भरतक्षेत्रने विषे अमरकंकाराजधानीनग  
 रीने विषे पदमनाभराजानाघरनेविषे द्रोपदीरांणीनीवार्त्ताखवरिपामीछे तेकारणयकीगच्छतुं जाओ पांचपांडवचारिप्रकारनीसे  
 नासंधाते परिवख्याच्छतापूर्वनापासाने विषे समुद्रनीवेलिआवेछे गंगासमुद्रभेलीथाइछेतेपूर्वदिशिनावेतालीकसमुद्रनातटने जइक  
 टकउतारिने माहरीआविवानीवाटजोताछतारहिज्यो इमकक्षीने दूतमोअल्योतिवारितेदूत तिहांजइने पांडु, राजाप्रते कहेजेपांड  
 वचारप्रकारनीसेनासंधाते परिवख्याच्छतापूर्वदिशिनावेतालीसमुद्रनेविषे जइमाहरीवाटजोताछतारहिज्यो इमदूतनासुखयकी  
 साभलीने तेषांडुराजाअने पांचपांडवतिमजजई कृष्णनीवाटजोताछतारहेछे तिवारिपक्षीतेकृष्णवासुदेव आदेशकारीपुरुषांप्रते

हणंतु भेदे वाणुष्मिया सखाहियंभेरिंतालेहतेवितालेइतएणंतौएसखाहियाएभेरीएसहं सोच्चासमुह  
 विजयपामोकवादसदसारजावच्छप्पसुं बलवगसाहस्सौ ओसस्सुद्धवा जावगहियाउहप्पहरणाअप्पे  
 गइयाहयगयाअप्पेगइयागयगया जाववगुरापरिक्खत्ता जेणेवसभासुहस्साजेणेवकरहेवासुदेवते  
 शेवउवागच्छइत्ता कारयलजाववद्वावेइ तएणंसेकरहेवासुदेवेहत्थिखंध वरगएसकोरंठमल्लुदा

तेडावेतेडावीनें इमकहतोडओजाओतुहं हे देवानुप्रियोजेहनोयब्दसामलीनें सर्वकटकसज्जथाइं एहवीसन्नाहिकानामाभेरिप्र  
 ते वजाडोपछे तेसेवक्रतिमजजइसन्नाहिकामेरीवजाडे तेसन्नाहिकानामाभेरी नाशब्दप्रतें सामलीनें समुद्रविजयप्रमुखधादिदेइद  
 सभाईइलवंतआदिदेइ तालगीजाछप्पन्नवलवंतनाहजारताई सगलायादवएकठायईनें सन्नद्धवद्धजीवरखीसन्नाहकवचआंगाटोप  
 इत्यादिकपहिरीसज्जययाछता आयुद्धहथीथारयच्चाछता प्रहरणहथीआरविशेषलीधाछता केतलाएकघोडाउपरिकेतलाएकहाथी  
 उपरिकेतलाएकरथऊपरिचढाछतातांलगीजामनुय्थनीवागुराइं मनुय्थने समूहेवौद्याछताजिहांसभासुधर्मांछेजिहांकणवासुदेवके



मेणंछत्तेणंवारिज्जमाणेणं सेयवरचामराहिंउड्डु, व्वमाणौहिंमहयाहयगयभडचडगरप्रहकरेणंबारव  
 ईएणयरौएमउभंमउभेणंणिगच्छइत्ता जेणेवपुरित्थिमवेयालीसमुद्दे तेणेवउवागच्छइत्तापंचहिंपं  
 डवेहिंसद्धिंएगओमिलंतिखंआवारणिवेसंकरेइत्ता पोसहसालंकारावेइत्तापोसहसालंअणुप्पवि  
 सइत्तासुट्ठियंदेवंमणसौकरेमाणेचिड्ढति तएणंकरहस्सवासुदेवस्स अट्टुसभत्तंसिप्रिणसमाणंससु

तिहाआव्याआवीने वेऊं हाथजोडीमाथाने' विषे' आवत्तं करीमाथाने' विषे' अंजलीप्रते' करीनेकृष्णप्रते' वधावेतिवारितेकृष्णवासुदेव  
 वरप्रधानहाथीजपरिचढोछतो कोरिंटटन्ननाफूलानीदामतेणेसहितछत्वतेणे' धरीतेछते स्वे तधोलावरप्रधानचामरेऊखेवीतेवीजी  
 तेदालीतेकरीषणा घोडाहाथीभटसुभटमांहिप्रधानएहवा सुभटनाससुहसंघातेपरिवस्योछतो द्वारिकानगरीने' माहिथईने' नीसरे  
 नीसरीनेजिहापूर्वदिशिनोवैतालीसमुद्रुके तिहांआवेआवीने पांचपाडवांसंघाते' एकठोमिलेमिलीने खंधावारकटकनोनिवेशजता  
 रोकरेकरीने' पोसहशालाप्रते' करारिकेरावीने पोसहसालामांहिप्रवेशकरेप्रवेशकरीने' सुस्थितनामादेवतासमुद्रुनो अधिष्ठायकदे

द्वियं जावन्नागत्रोभणदेवाणुष्यिया जंमएकायव्वंतएणंसेकरहे वासुदेवेसुद्वियं देवंएवंवयासौएवं  
 खलुदेवाणुष्यियादोवइदेवौजावपउमणाभस्सभवणंससाहिरियातंसं तुमंदेवाणुष्यियास्रमपंचहिंपंड  
 वेहिंसद्विंअप्पछट्टुसखरहंरहाणं लवणससुइ मग्गंविथराहिजस्संअहंअमरकंकारायहाणिंदोवइए  
 कूवंगच्छामितएणंसेसुद्विएदेवेकरहंवासुदेवं एवंवयासौकिरहंदेवाणुष्यिया जहाचेवपउमणाभस्सर

वताप्रते मनमाहिध्यानकरतोस्सरणकरतोच्छतो बैसौरहेतिवारिपच्छी कृष्णवासुदेवने अष्टमभक्तविणिउपवासपरिणस्ये ऊते त्विणि  
 उपवासपूराथयाच्छते लवणससुद्रनोअधिष्ठातासुस्थितदेवताआव्योप्रगटथयोतिवारिआवीने भणकहताकहितुं हे देवानुप्रियहेकृष्ण  
 जेमे करिवुं होयतेतिवारपच्छीकृष्णवासुदेवसुस्थितदेवताप्रते इमकहतोऊवोइणेप्रकारे खलुनिचे हे देवानुप्रियहेसुस्थितद्रोपदीदेवी  
 रांणीसुधिष्ठिरनापासाथकीलेइने पद्मनाभराजानाघरने विषे अपहरीम्ब कीछेतेकारणथकीतुं हे देवानुप्रियहेसुस्थितसुर्कने पाचनो  
 डवासंघाते आपमाहराच्छारथसहितच्छेरथानोलवणससुद्रने विषे मार्गवितरिद्ये आपि जेकारणथकीऊं अपरकंकाराजधानीप्रते

स्योपुत्रसंगतिरण्देवेणंदोवद्रजावसाहिरियातहचेवदोवद्रदेविंघायद्रसंडाओभारहाओवासाओजा  
 वहत्थिणाउरंसाहरामिउदाऊ पउमणाभंरायंसपुरवलवाहणं लवणससुहेपक्खवामितएणंसेक  
 एहेवासुदेवेसुद्धियंदेवंएववयासी साणंतुमंदेवाणुप्पिया जावसाहराह्हितुमंणंदेवाणु प्पियालवणससु


द्रोपदीनीवाहरप्रते'जाऊ' तिवारपछीतेंसुस्थितदेवता कृष्णवासुदेवप्रते'इमकहतोऊओ कुणकारणथकीस्यामाटिप्रयासकरोछोहेदे  
 वावुप्रियहेकृष्णवासुदेवं जेणे'प्रकारिंनिश्चे'वेवनिश्चेपदमनाभराजाने'पर्वसंगतिदेवतांईद्रोपदीराणीतिहलिईने'तेपदमनाभनेदी  
 धीच्छेतिमजनिश्चे'द्रोपदीराणीप्रते'हातकीखंडहीपथकीपूर्वदिशनाअर्द्धदक्षिणाद्ध'भरतचेवथकी लेइने'हथिणाउरनगरप्रते'द्रोप  
 दीदेवीने'ह्रंसाहर'लेईआवु'अथवाकहोतोवलीपदमनाभराजाप्रते'पोतानानगरसहितवलकटकनावाहन रथयानवोडाहाथीस  
 हितलत्रणसमुद्रनेविषे'प्रखेपुंघालुं'वोलुं'इमकह्यो तिवारितेकृष्णवासुदेवसुस्थितदेवताप्रते'इमकहतोह्रंओमाइतिनिषेधेहेदेवानु  
 ियतुं'द्रोपदीप्रते'तिहायकीलेईआविमानगरसहितकटककरथवेसरादिसहित पदमनाभप्रते'लवणससुद्रमाहिवालामांतु'हेदेवानु

द्वे अथ छद्मस्वरूपं हंराहाणं वितराहि स्वयमेवाहं देवद्रुपदेवो ए कुवंगच्छासित एणंसे छुट्टिए देवेक  
 रूहंवासुदेवं एवं वयासी एवं होउपंचहिंपंडवेहिंसद्धिं अप्पच्छदुस्वरुहंराहाणं लवणसमुद्दे मग्गं वित  
 रदूत एणंसे करुहेवासुदेवे चालुरंगिणीसेणं प्रडिविसज्जेइरुत्तापंचहिंपंडवेहिंसद्धिं अप्पच्छदु हेहिं  
 लवणसमुद्दे म्भं म्भं उक्खेणं वीइवयइजेणेव अमरकंका एरायहाणी एअग्गुज्जाणेते येव उवागच्छइरुत्ता

प्रियहे सुस्थित लवणसमुद्रमाहि आपमाहरारथसहितपाचपाडवानापाचरथएच्छरयाने जावामार्गप्रते वितरिआपिजिसतिहांज  
 इने स्वयमेवपोतेइजइ द्रोपदीने पाच्छलिवाहरप्रते जाउं द्रोपदीनेलेवाजाउं तिवारिते सुस्थित देवता क्खणवासुदेवप्रते इमकहतो  
 ऊओइमजवारपाचपांडवांसंघाते आपपोतानोक्खो एच्छरयाने जावानो लवणसमुद्रमाहि मार्गप्रते आपेदीये तिवारपच्छीते कृष्णा  
 सुदेवचारप्रकारनीसैनाकटकप्रते तिहांसू केराखेराखीने पांचपाडवांसंघाते पोते क्खणक्खो रथसंघाते लवणसमुद्रमाहि यद्देनेव्यति  
 कमतो चालतो छतो जिहां अमरकंकाराजधानी नगरजो अग्रनासाउद्यान वनखंडके तिहां आविअवीने रथाप्रते आपे राखेराखीने रा


रहंठावेद्दस्तादारुयंसारहिसद्दावेद्दस्ता एवंवयासिगच्छहणंलुमंदेवाणुष्विया अयत्कंकरायहा  
 णिंअणुप्यविसाहिप्रउमणभस्सरस्योवासेणंपाएणंपायपीठं अवक्कमित्ताकुंतग्गेणंलेहिं पणामेहिं  
 तातिवलिथंभिउडिंणिलाडिसाहडू आसुरुत्ते रुड्ढे कुविएचंडक्किए एवंवयाहिहंभोपडअणाहाअपत्थि  
 यप्रत्थियादुरंतपंतलक्खणाहीणपुस्यचा उहसासिरिहिरिधितिकित्तिपरिवज्जिया अज्जणभवसिक्कि

रुकनामासारथीप्रते'तेडावैतेडावीने' इमकहतोसुओजातु' हेदेवानुप्रियहेदारुकअमरकंकाराजधानीनगरीप्रते' प्रवेशकरप्रवेश  
 करीने'पदमनाभराजाने'डावैपगेकरी पादपीठप्रते'आक्रमीनेचापीने' भालानीअणीजपरिलेखवांधीनेभालानीअणीदू'करीलेख  
 प्रतेआपजेलेखआपीने' त्रिवलीत्रिणिलीटीभिउडिंमकुटीभसुहप्रते' निलाडने'विषेचढावीने घणु'क्रोधाकुलययोच्छतोएठोच्छतोकोषो  
 क्रोधवंतययोच्छतो घणु'चंद्ररौद्रकठिनक्रोधकरि इमकहिजेअरेपदमनाभअणवांछ्यानो वांछकमरणानांछकदुष्टपथंतदोहिलोअंतछेह  
 छेएहवाप्रांतनीचभू'डालक्षणेजेहनोहीणीओष्ठीअधरीएहवी पुण्यापविलकारणीचउदसतिथछेजेहनाजन्मनेविषे'श्रीलक्ष्मीअथवा



खं तुमंणयाणासिकरहस्सवा सुदेवस्सभगणिंदोवतिंदे विंद्रहं हव्वमाणीते तंएयमविगएपच्चप्पिणाहि  
 णंदोवइदे विंकएहस्सवासुदेवस्सदोवइ देवीएसणंअहवाजुज्झसज्जोणिगच्छाहि एसणंकरहेवासुदेवे  
 पंचहिंपंडवेहिंअप्पच्छइ देवइएदेवीएकवंहव्वमागएतएणंसेइारयसारहौकरहेणंवासुदेवेणंएवंवुत्तेस  
 साणेहइउडे पडिसुणेइइत्ताअमरकंकारायहाणिंअणुपविसइ जेणेवपउमणाभेरायातेणेवउवागच्छ

सोभाङ्गीलज्जाष्टतिकीत्ति तेणेकरीवजितरहितच्छे हे म्दमनाभआजतुं नहीच्छेसुं तुं नहीजांणतो कृष्णवासुदेवनीभगनिवहनिद्रोप  
 दीराणीप्रतें इहाउतावलीआणीके तेकारणयकीविलंबरहितच्छतोतुं पाळीआपिद्रोपदीराणीप्रतें कृष्णवासुदेवनेअथवापाळीआ  
 पेनहींतोयुइकरिवाभणीसद्यसावधानहोयतुं नीसरिएप्रत्यक्ष कृष्णवासुदेवपांचपाडवासंघातें आपपोतेच्छदोद्रोपदीराणीनाकिडिंवा  
 हरकरिवाप्रतें उतावलीआव्योच्छे इमकच्छांतिवारितेदारकसारथीकृष्णवासुदेवे इणे प्रकारे क ह्यं छतोहर्षसंतोषपास्योच्छतोअंगीका  
 रकरेकरीनेअमरकंकाराजधानीनगरीप्रते प्रसेयकरेकरीने जिहापदमनाभराजाके तिहांआवेआवीने वेहाथजोडीमाथाने विषे



इयमन्याअपरामहीयास्वामिनः संबंधिनीविनयप्रति पत्तिरिति वत्तं ते ससुहाणत्तिकट्टु, स्वमुखेन स्वकीयवदनेन भणित्ता आञ्जसिरा  
देशः स्वसुखाञ्जसिरिति दत्त्वा एवमभिधाय आसुरत्ते त्तिकुड्ड बलवाउएत्ति बलवाउएत्ति आभिसेक्कं तिअभिसेकमहंती

इत्ताकरयलजाववद्दविइत्ता एवंवयासिएसणं सामीमसविणयपडिवत्ती इमाअण्णामसाभिस्सससु  
हाणंत्तिकट्टु, आसुरत्ते प्रवामपाणं प्रायपीठं अक्कमइत्ता कुं तग्गं णं लेहं पणसेइत्ता जावक्कवं हव्वसा  
गएत्तणंसे प्रउमणामेरायादारुणं सारहिणा एवंवुत्ते समाणे आसुरत्ते तिवलिभिडडिं णिलाडेसाहट्टु,

आवर्त्तं करिने वधावेवधाविने इमकहे जेहे स्वामी एआमाहरा विनयनी प्रतिपत्ती सेवाछेअने इमाअन्नाएआवीजीमाहरा स्वामी संबंधि  
नी विनयनी प्रतिपत्तिच्छेते केहवी छे ससुहाणक० पोताने मुखे करीसाची कही छे आवीनती आदेश इमकहीने क्रोधाकुलरी सवंतको पवंतघ  
णुं चंडरौद्र करी डावे पगे करी पादपीठसिंहासनप्रते चापे चापीने कुं तग्गेण भालाने अणीइं करी लेखप्रते आपे आपीने कहे छणवा  
सुदेवपाचपाडवा संघाते द्रोपदीनी वारकरिवाप्रते उतावलुं आख्युं छे तिवारपछी तेपदमनाभराजा दासकसारथीइं इणे प्रजारे समा

एवं त्रयासौण्यप्रमाणमिदं अहं देवानुप्रियाकारुहस्सवासुदेवस्सदोवद् देवी एसणं अहं सयमेव जुज्भासज्जे  
 एव त्रयासौण्यप्रमाणमिदं अहं देवानुप्रियाकारुहस्सवासुदेवस्सदोवद् देवी एसणं अहं सयमेव जुज्भासज्जे  
 एव त्रयासौण्यप्रमाणमिदं अहं देवानुप्रियाकारुहस्सवासुदेवस्सदोवद् देवी एसणं अहं सयमेव जुज्भासज्जे  
 एव त्रयासौण्यप्रमाणमिदं अहं देवानुप्रियाकारुहस्सवासुदेवस्सदोवद् देवी एसणं अहं सयमेव जुज्भासज्जे

चारुहस्सदोवद् देवी एसणं अहं सयमेव जुज्भासज्जे  
 एव त्रयासौण्यप्रमाणमिदं अहं देवानुप्रियाकारुहस्सवासुदेवस्सदोवद् देवी एसणं अहं सयमेव जुज्भासज्जे  
 एव त्रयासौण्यप्रमाणमिदं अहं देवानुप्रियाकारुहस्सवासुदेवस्सदोवद् देवी एसणं अहं सयमेव जुज्भासज्जे  
 एव त्रयासौण्यप्रमाणमिदं अहं देवानुप्रियाकारुहस्सवासुदेवस्सदोवद् देवी एसणं अहं सयमेव जुज्भासज्जे



त्याभिषेक्यं सृष्टीभिषिक्तमित्यर्थः छेयाथरियउवएसमद्विगम्यणाविगम्ये हिति छेकोनिपुणोयश्चाचार्यः कलाचार्यः तस्योपदेशात्तत्पुत्रि  
 कायामतेर्बुद्धेर्याः कल्पनाविकल्पाः क्षप्रिभेदास्ते तथातैरिति दृहयावत्करणादिदृष्ट्यं सुनिउणेहिंतिउनिपुणैर्नरैः उज्जलनेवत्यह्वत्य

सौतुभहंवयणेणंजावणिच्छुभावेद्र तएणंसेपउमणभेपराया वलवाउच्यंसहावेद्रसहावेद्रत्ताएवंवया  
 सीखिप्पामेवभोदेवाणुप्पिया अभिसेक्कंहत्थिरयणं पडिप्पे हतयाणंतरं चणंहेयाथरियउवदेसमद्व

ने वेज्जं हाथजोडीमाथाने विषे आवत्तं करिमाथाने विषे अंजलीप्रते करीने कृष्णवासुदेवप्रते इमकहतोह्मओइरणेप्रकारिनिचे  
 ज्जं हेस्वामीउम्हारे वचनेकरी पदमनाभराजाने पासे अइने जिमतुम्हे कह्योज्जं तो तिमजकह्युं पछेकोधक्करीकह्युं जेज्जं युद्धकरिसुं  
 इमकह्हीने वारीये निम्नं छिने काढो तिवाएिपच्छीते पदमनाभराजावलवादुककटकनोव्यापारीकटनोअधिकारीइ विषेअभिषेककी  
 धोछेसेनानीसरिखोछे तेप्रते तेडावेतेडावीने इमकहतोज्जओच्चिप्रमेवजतावलोजभोदेवानुप्रिय अभिषेकपट्टाभिषेकप्रते अईयोग्य  
 छेमाथानेविषे एहवोचसीरतनसगलाहाथीमांहिसोढोहाथीछे तेहाथीप्रते सज्जकरील्यावो तिवारपकी अनंतरछेकनिपुणडाहोजे

परिवलितं निउज्जलनेपथ्ये न निर्मलवेषेण ह्यतिशीघ्रं परिपचितः परिगृहीतः सुसज्जं सुष्टु प्रगुणं धम्मियसन्नुद्धव  
 ह्वकवचियउप्पालियत्यकल्यवत्य वद्धगेवेज्जगवल्यवरभसणविरायंतं धर्मणिनियुक्ताधार्मिकास्तेः सन्नद्धः कृतसन्नाहोवः सधार्मिकसन्न  
 द्धः वद्धं कवचं सन्नाहविशेषोयस्य सवह्वकवचः सएववह्वकवचः अथवावर्मितः सन्नद्धोवह्वः त्वक्त्वाणवंधनात्कवचित्तच्चयः सतथाभेदच्चैतेषां  
 लोकतोऽवसेवः एकार्थाच्चैते शब्दाः सन्नद्धताप्रकर्षाभिधानायोक्ता इति तथाउत्प्रीडितागढीकृताकवाहृदवरज्जुर्वक्त्रसियस्यसतथाप्रैवे  
 यकंग्रीवाभरणं वद्धं गलेकंठेयस्यसतथा वरभूषणैर्विराजमानोयः सतथाततो धर्मितादिपदानां कर्मधारयोतस्यं अहियतेयजुत्तं सललि  
 तकणपूरविरादितं पलं वच्चोचूलसज्जयरकयंधगारं प्रलंबानिअवचूला निकटकन्यसाधोमुखशूर्चकाः यस्यसप्रलंबावचूलः मधुकरैश्च सरै

विकप्पणाविकप्पे हिंजावउवणेइतएणंसेपउमणाहेरायाससुद्धवइजावअभिसेयं हत्थिरयणंदुसहइइसा

आचार्यकलाचार्यतेहनाउपदेशयकीतेपूर्वकजेमतिबुद्धिनाविकल्पनाविकल्पयकीरच्याभेदसगलामुक्तेदकरी सज्जकरीसर्वआणीमेसा  
 गलिभूकेतिवारपक्कीतेपदमनाभराजासन्नद्धवइययोक्त्वतोअभिषेकपट्टाभिषेकनामाहाथीउपरिचढेचढीनिहाथीघोडारथपालीथारथा

र्मदजलगंधादृष्टैः कृतमन्धवारयेनसतथा ततःकर्मधारयोतस्तं वित्तपरिच्छेद्यपच्छदं चित्तोविचिलःपरिच्छेकोलघुः प्रच्छदोवस्त्रवि  
 शेषोयस्यसतथातं पहरणारणभरियजुसज्जं पहरणानां कुंभादीनामावरणानां चकंकटानां भूतोयःसतथासचतुष्टसज्जचैतिकर्म  
 धारयोतस्तं सच्छतंसच्छायंसज्जयंसप्तं पंचासेलयपरिसंख्याभिरासं पंचभिरापौडैःशेखरैः परिभंडितोतएवाभिरामश्चरस्योयः  
 सतथाश्रीसारियजमलजुलघंटं अथसारितमवलंबितंयमलंसंयुगलं द्वयोर्घण्टयोर्धतसतथा विज्जप्राणंघ्नं चकालसेहंघण्टाप्राहरणादी  
 नांउज्ज्वलत्वेनविद्य, त्कल्पत्वात् हस्तिदेहस्यवक्त्रालत्वेनमहत्वेनच मेघकल्पत्वादितिउप्यादित्युपलब्धं चक्रमसाणमिवोत्पाति  
 कपर्वतंपाठांतरेषुश्रीत्यातिकंपर्वतमिवसकल्वंति साक्षात्सत्तंतिमदवंतं गुलगुलेतंमणपवणजडूणावेगं मनःपवनजयीवेगोयस्यसतथा  
 तंभीमंसंगामिवायोगंसंग्रामिकःयोगः परिकरोयस्यसतथातंअभियेकं हस्तिरयणंपडिकप्येतिर उषणेति चिह्नमहिचयपवरविवडि

हयगयचाडरंगिणौए सेणएपरिकलिणजेणैवकरहेवासुदेवे तेणैवपहारैत्यगमणाए तएणंसेकरहेवा

रप्रकारनीसेनाइं करीसहितऊतो अतो जिहं कृष्णवासुदेवच्छेति हंपधारिवाभणीमनकरतोह ओतिवारपच्छीतेकृष्णवासुदेवपदमनाभ

सुदेवेपुत्रमणां हंरायं एल्लमाणंप्रासद्गत्तातेपंचपंडवे एवंवयासौ हंभोदारगाकिसुं तुभं प्रपुत्रमणां हेणं  
 सद्धिं जुउभेहउदाह्रुपिच्छेहहतएणं पंचपंडवाकरुहंवासुदेवं एवंवयासौ अरुहेणं सामीजुल्लभासो तुभं मेपि  
 च्छेहतएणंसेत्रं चपंडवासंखड्वद्वजावप्रहरणारहेदुश्हेइरत्ता जेएवपुत्रमणाहिरायातियेदउवागच्छ  
 इरत्ताएवंवयासौ अरुहेवापुत्रमणाहिवारायत्तिकहु, पुत्रमणाहियेणंसद्धिं संपलण्णं याविहोत्यातएणंसेप

राजाप्रते देखेदेखीनेतेपाचपाडवाप्रते इमकहतोउओ अरेवालकाओहेभाईओहेपाडुनापुलोसुं प्रथमतुम्हे पदमनाभसंघातेयुद्धक  
 रस्योभूभू स्योकहोअथवा पाच्छिथीभूभूस्योतेकहो इमकवृष्णे पूष्योतिवारितेपाचपाडवदृष्णवासुदेवप्रते इमकहताउआप्रथमपहिला  
 अन्हे हेस्वामीभूभूछुं हेस्वामीतुम्हे पच्छीभूभूज्यो इमकहोतिवारितेपाचपाडवसन्ध्वद्वयईसन्नाहकवचवकतरिपहिरिप्रहरणहथी  
 यारनारयने विषेचढेचढीने जिहापदमनाभराजाछे तिहांआव्याआवीनेइमकहताउआ अम्हाने तथावलीपदमनाभराजाने बल  
 वंतपणाथकीइहाएसंगामनेविषे अन्हेवाकिंवाएपदमनाभछे वेउं अनेवेह्म अनेएसंगामनेविषे राखणहारणं नहीछे एहवोनिअयक

यच्चिंधइयपडागेहतमथिताअत्यर्थं हताः अथवाहताः प्रहारतोमथितामानमथनात्हतमथिताः तथाप्रवराः विपतिताश्चिद्धज्जादयः प  
ताकाश्चतदन्यायेषातेतथा ततः कर्मधारयोतस्तान् यावत्करणात्किञ्चोवगयप्राणेत्तिइथ्यं कष्टगतजीवितव्यानित्यर्थः अस्हेवापउमणा

## उमणाहिरायातेपंचपंडवेखिप्रामेवहयमहियपवरविवडियचिंधइयपडागाजावदिसोदिसिंपडिसेहेद

करीनेपदमनाभराजासंघाते' बुद्धकरिवाभणीलागताड्झा तिवारितेपदमनाभराजातेपांचपांडवाप्रते' चिप्रमेवउतावलाजततका  
लाहश्यामथ्यामानअहंकारनाथणुंमथवाथकी वरप्रधानविवडीयहेठीपाडीके चिंधइयक० चिद्धभूतगरुडसिंहवाराहप्रमुखनारूपना  
आकारकेजेधजादिकनेविषे' एहवीध्वजाहेठीपाडीके पडागक० नाङ्गीधजापताकाषोडाहाथीयाने ऊपरिधजाड्झतेपताकाकहिचे  
किचच्छकहतांघणेकष्टेकरीपरअनेरा आगिल्यापदमनाभराजानकटकनाम्बू' क्या प्रजूंज्याजेघणाप्रकारनातीखांधारालाजेचरप्रवा  
णविशेषनाप्रहारनासमूहतेणेकरी दंडादिकनाछेदवाथकी पताकाधजाहेठीपाडीके पाचपांडवानीतेकारणथकीघणे' कष्टे दुःखेकरी  
दिशोदिशथकीपडिसेहंतिक० संग्रामथकीनिराकरतोके पांचपांडवाने' संग्रामथकीपाछोसाथी तिवारितेपांचपांडवपदमनाभराजा

तएणतेपंचपंडवाप्रउमणाहेणंरखा हयमहिपवरविवडिय जावपडिसेहियासमाणाअथासाअबला  
जावअधारणिज्जमित्तिकइ, जेणेवकरहेवासुदेवे तेणेवडवागच्छइ तएणंसेकरहे वासुदेवतेपंचप  
डवेएवंवयासीकहसं तुभेदेवाणुप्रिया प्रउमणाहेणंरखासद्धिं संपलग्नातएणंतेपंचपंडवाकरहंवासु

इं हखाप्रहारेकरीमय्या अहंकारनामथवायकी प्रवरप्रधानविवडीयहेठीपाडीछे चिक्कभूतागण्डसिंहवराहप्रमुखनारूपनाआ  
कारकेजेधजादिकनेविषे एहवीधजाहेठीपाडीछे नाक्कीधजावणे दुःखं करी पदमनाभराजानाकटकनाम् क्वाघणाप्रकारनातीखा  
वाणतेणेकरीदंडादिकनाकापिवायकी धजापताकाहेठीपाडीछेजेपांचपांडवानीतिकारणयकीघणेकष्टे करीदिशोदिसयकीपडिसेहि  
याकहतासंग्रामयकीनराकखाछतासामर्थ्य धैर्यरहितयथाछताअवलनिर्वलवलरहितऊं ताछता तांलगीजांपारकाकटकने धरिवाभ  
णीनिराकरिवाभणीअसक्यअसमर्थयथाछतानाठाछता इमहर्षरहितयईने नासीने जिहांछणवासुदेवके तिहाआव्यातिवारिते  
कणवासुदेवतेपाचपाडवाप्रते इमपूछितोह्मओकिमतुह्मे हेदेवानुप्रियोपदमनाभसंधाते बुद्धकरिवाभणीलागतावलगातिवारिते

भेवारायत्तिकदृ इति अस्मान्कंपद्मनाभस्ये चमलवत्वादिहसंग्रामे वयंवाभवासःपद्मनाभोत्रानोभयेषामपीहसंयुगेवाणमस्तीति क्त्वा इति  
निश्चयंविधायसंग्रलगायोद्धुमितिशेषः अन्हे नोपलमनाभेरायत्तिकदृत्ति वयमेवेहरणेजयासोनपद्मनाभोजयति यदिस्वविषयेविजय

देवंएवंवयासौए एवंखलुदेवाणुप्पियाअभेतुम्हेहिं अभणुणायसमाणा सखद्वद्वारहेतु रूढाजेशेव  
पलमणाहिरायतेणेवउवागच्छइत्ता एवंवयासौअम्हेवापलमणाहेवा जावपडिसिहेइतएणंसेकम्हे  
वासुदेवंपंचपंडवंएवंवयासौ जइणंतुभेदेवाणुप्पिया एवंवयंताअम्हेणोपलमणाहिरायत्तिकदृ पलम

पांचपांडवकृष्णवासुदेवप्रते' इमकहताह्मअइरणे प्रकारे' निचे हेदेवानुप्रियअन्हेतुम्हारिआज्ञापाभ्याकृता सन्नद्धवद्वथईसंग्रामिक  
रथजपरिचढ्याकृता जिहांपदमनाभराजाछे तिहांआवीआव्याने इमकहताह्मआ इम्हे तथापदमनाभराजाइमकहीने' पदमनाभसं  
घातेसुद्धकरिवाभणीलागा तिवारिपच्छीहयामथ्यामाखा धजाहेठीपाडीदिशोदिशियकीसंग्रामयकीनसाद्याकृता तुम्हारिपासिआ  
व्याइमसांभलीने' तिवारिते कृष्णवासुदेवपांचपांडवाप्रते' इमकहतोद्धुओजोतुम्हे हेदेवानुप्रियो इमतुम्हेकहोतो अन्हे जइहाराणसं

निश्चयं रिपुषः धेष्वऽपराजयः निश्चयं कृत्वापद्मानभिनसाद्धं वोद्धुं संप्रालगिष्यथततो नपराजयं प्राश्रयथनिश्चयसारत्वात्फलप्रप्तौ राहच

णा हिंसे सद्धिं संप्रलब्धं वा तेणं तु भेगो प्रलभसाहे हयमहिथप्रवरजावमडिसेहिथा तं पेच्छ हणं तु भेदे  
वाणुपिअत्र हंशे प्रलभसाहेणं रसासद्धिं जुडभासिरहं दुहइत्ता जेणेवम

प्राप्तनें विषे जयविजयपामोतोपदमनाभराजाजयनपद्वि एहवोनिश्चयकरीने पदमनाभराजासंघाते युद्धकरिवाभणीलागतवलगत  
तिवारिपदमनाभराजाजयप्रतें पामतो नहीं प्रहारना देवायकी हय्यामथ्यामान अहंकारनामथवासई वायकीप्रधानं अजाहेठीपाडीहि  
द्योदिथियकीनाठातेचननावलयकीनिश्चयनाप्रधानपणायकीफलनीप्राप्तिहुइयतः शुभाशुभानिसर्वाणिसत्तानिस्युक्तेकतः एकास्तु  
सनोयातितत्त्विशुद्धं जयावहं ? तथास्थात्निश्चयैकनिष्ठानाकार्यसिद्धिपरादृशां संपद्यन्तुणचित्तानाकार्यसंशीतिरेवहिदत्तेकारणयकीदे  
खोजोवोतुहे हे देगालु प्रियोहेपाचपांडवोहुं एसंग्रामनें विषेजयपामुं पणियपदमनाभराजासर्वथाजयनहीयाजे इमकहीनेपदमनाभरा  
जासंघातेशुद्धं इन्द्रनी संप्राप्रकरयप्रतें चढे चढीने जिह्वांपदगनाभराजाछे तिलात्राविआवीने खेतलोलीयोखीरपुष्पा



शुभाशुभानिसर्वाणिनिमित्तानिस्युरेकतः एकतस्तुभनोयातितद्विशुद्धंजयावहं ? तथास्मान्निश्चयैकनिष्ठानांकार्यसिद्धिःपरादृशांसं  
सयद्युष्णिचिचानाकार्यैशीतिरेवहि २ शंखविशेषणानिक्वचिदृश्यंते सेयंगोखीरहारधवलं तणसोस्त्रियसिंदुवारं कुं देंदुसन्निगासं  
तणसोस्त्रियत्तिसस्त्रिकासिंदुवारोबिर्धुं डिः निययस्त्रवलस्त्रहरिसजणगं रिउसेणविणासकरं पंचयणत्तिपंचजन्याभिधानं वेढोत्तिवे

उभणामेरायातिणेवउवागच्छइरत्ता सेयंगोखीरहारधवलंतणसोस्त्रियसीं दुवारकुदे दुसस्त्रिगासंश्रि  
ययस्त्रवलस्त्रहरिसजणगंरिउसेणविणासकरंपंचजणं संखंपरासुसइरत्तासुहवायपूरियंकरेइतएणंत

एसरीखोधवलधोलोजजलो एहवाप्रतेंतेकेहवोछे तणसोस्त्रियक०मस्त्रिकामालतीसिंदुवारक०निगुं छिदृद्यवेलिविसेषकुं ददृद्यनां  
फूलइं इचंद्रमाएहनावणंसरिखुं धोलोजजलोछे जेसंखतेप्रतें वलीसंखकेहवोछेनिजकपोतानावलकटकने हर्षप्रसोदनोजपजावण  
हारोछेजेसंखएहवाप्रतें वलीतेकेहवोछेरिउसेणरिपुवैरीना कटकने विनासनोकरणहारोछे जेसंखएहवापाचजन्यनामामंखपरासु  
सेफरसेहायमांहिलियेलेइने सुखनावायुरापूरितप्रतें करेशंखजाले तिवारितेपदमनाभराजानाकटकनो तेषंचजन्यशंखनेशब्दे

एकैकवस्तुविषयपदपद्धतिः सचेहधनुर्विषयो जन्वूनीपप्रज्ञप्तिप्रसिद्धोध्ये तय्यः तद्यथा अद्रुगगत्रवालचंद्रं दधणुसस्त्रिगासं अचिरोत्ततो  
 योत्रालचंद्रः शुक्लपक्षद्वितीयाचंद्रः तेनेद्रुधनुषाचक्रतयासन्निकासं सदृशं यत्तत्तथावरमहिंसदरिवदप्यियददठवणसिंगणरइयसारंवर  
 महिषस्यदृष्टपितस्य संजातदर्पातिशयस्ययानिदृढानि घनानिचष्टं गाणितैरचितंसारं च यत्तत्तथाउरगवरपवरगवलपवरपरज्जयभ  
 मरकुलनीलनिद्वत्तधोत्रपट्टं उरगवरोनागवरः प्रवरगवलं वरमहिषमृंगं प्रवरपरमृतोवरकोकिलोभ्रमरकुलं मधुकरनिकारो नीलीगु  
 लिकाएतानीवस्त्रिगंधं कालकातिमत् ध्मातमिवध्मातं च तेजसाज्वलत् धौतमिवधौतं च निर्मलं पृष्ठं यस्य तत्तथा निउणो विथमिसिसिसिं  
 तमणिरयगुंधं टियाजालपरिक्वत्तं निपुणेन शिल्पिना उपितानामुज्ज्वालातानामणिरत्नषण्डिकाना यज्जालं तेनपरिचिप्रं वेष्टितं च  
 तत्तथा तडितरुणकिरणतवणिज्जत्रद्वचिंधं तडिदिवविद्युदिवतरुणाः प्रत्यग्राः किरणयस्य तत्तथा तस्य तपनीयसंबंधी निवद्वानिचिक्का

स्वप्रउमणाहस्वतेणं संखसद्देणं वलतिभाएहएजावपडिसेहिण तएणं सेकरहेवासुदेवेधणुं पसुरासइवे

नादेकरीत्रलकटकनोत्तीजीभागहण्यो तालगीजादिशोदिशियकी नासीगवोकटकपदमनाभराजानो तिवारपक्की तेकणवासुदेवधनु

निलांछनानियततत्तथा दहरमलयगिरिसिहरकेसरचामरबालयद्धचंदविंबं दर्दरमलयाभिधानीयौगिरीतयोर्थांनिशिखराणितत्संबं  
धिनोयेकेसरचामरवालाः सिंहस्खंधचमरपुच्छकेशा अर्द्धचंद्राश्चतस्रक्ष्णानिचिह्नानि यत्ततत्तथाकालहरियरत्तपीयसुक्षिलमऊ  
यहारणिंसंपिनद्धजीवं कालादिवर्णायाःस्नायवः शरीरातर्वर्द्धाःताभिःसंपिनद्धाजीवाप्रत्यं चायस्यसतत्तथा जीवियंतकरणंतिशतशूणा

दोषणुं पूरेइत्ता धणुं सहं करेइत्तएणंतस्सप्रउमणाभस्स दोच्चे बलतिभाएतेणंधणुसद्देणंहयसंहियजा  
वपडिसेहिएतएणंप्रउमणाहिरायति भागवलावसेसेअथामे अबलेअवौरिएअपुरिसकारपरक्रमे

पप्रतेंपरामुखेधनुषहायसांहिलिये वस्तुविषयप्रदप्रद्वितिविच्योक्ते तेसारंगधनुषप्रतेंपूरेपूरीने धनुषशब्दंकारवकरेधनुषनीपणचव  
जाडितिवारितेपदमनाभकटकनो बीजोकटकनोबीजोभागहण्यो तेणंधनुषनेशब्देनादे'टणतकारेहणाणोमानसृष्टयथोतांलंगीजा  
कटकनाठो तिवारिपदमनाभराजा लीजाभागनोकटकअवशेषेथयाकतोरह्यो तिवारिसामर्थीइरहितथयोह्यतो बलरहितथयो  
ह्यतोवीथपराक्रमरहितह्यतो पुरुषाकारपरपराक्रमरहितथयोह्यतो कृष्णाकीधाप्रहारनेधरवाभणी निराकरिवाभणीअथक्यअस

अधारिणीञ्जमितिकह, सिग्धं तुरियं जेणेव अमरकंकाराय हाणीते णेव उवागच्छइत्ता अमरकंकाराय  
 हांणिं अणुप्रविसइत्ता दुवाराइं पिहइरोहासज्जेचिइइतएणंसेकरहेवासुदेवेजेणेव अमरकंकारायरी  
 तेणेव उवागच्छइत्तारहंठावेइत्तारहाओपञ्चोरहेइत्ताविउवियससुग्घाएणंसमोहणइएगंसहंण  
 रसौहखुवंविउव्वइत्तासहयइत्तसहंणंपायदहरंकरेइतएणंकरहेवासुदेवेणंसहयइत्तसहंणंपायदहरं

मय्ययोच्छतोनासीकरीने सिग्धउतावलोत्वरितवणुं उतावलुं नाठोच्छतो जिहांअमरकंकाराजधानीनगरीच्छे तिहाआव्योआवीनेअ  
 मरकंकाराजधानीनगरीप्रते' प्रवेशकरेप्रवेशकरीने अमरकंकाराजधानीनांवारणांपोलिढांके जडावेजडावीनेदेवरावीनेनगररो  
 होकरीरहेतिवारितेकणुवासुदेवजिहाअमरकंकारानगरीच्छेतिहांआवेअवीनेरथप्रते थापेउभोराखेजभोराखीनेकृष्णरथकीहेठोजत  
 रेजतरीनेवैकियससुदूघाते'करी उत्तरवैकियरूपविकुरवे एकमोटोनरसौहनारूपप्रते' विकुरवेपुरुषनोआकारअने' सौंहनोआका  
 रएहवारूपप्रते' विकुरवीने मोटे सद्धेकरीभूमिसंघाते पगानाददराप्रते' करेभूमिसंघातेपगाने' आस्फालियेरुठोपदघातकरे तिवा

सितिगम्यते संभग्ने त्यादिसंभग्नानि प्राकारोगोपुराणि च प्रतील्यः अट्टालकाश्च प्राकारोपरिस्थानविशेषाः चरिकाचनगरप्राकारान्तरे  
 षट्छलोमार्गः तोरणानि च यस्या सातथापर्यस्तितानि पर्यस्तीकृतानि सर्वतः चिह्नानानीत्यर्थः प्रवरभवनानि श्रीगृहाणि च भांडागाराणि

कए णं समाणेणं अमरकंकारायहाणी संभग्नपायारागोपुरट्टालयं चरियंतोरणं पलहत्थियं प्रवरभवणसि  
 रिधरासरस्वरधरणि यलेसस्मि वइयातएणं सेपउणाहिरायाअमरकंकारायहाणि संभग्नजावप्रासित्ताभि

रिक्कणवासुदेवनरसौहने रूपे भूमिसंघातेपगानोघातकीधेच्छते अमरकंकानगरीएहवीइकेहवीयइतेकहेछे संभग्नानिभागाहेप्रा  
 कारगोपुराणि गढनीपोलिक्रमाडअट्टालका कहतांगडअपरलाथानकविशेषपोलि ऊपरिलीपीठणीप्रमुखचरिकाक० नगरगढना  
 आंतरानेविषेआठहाथनोमार्गअने गढविचालानुं मार्गतोरणगढना एसर्वभागंछेअमरकंकानगरीनेविषे पलहत्थियक० एकटाकीधा  
 छेसगलीदिशियकीवाल्या प्रवरप्रधानभलाभवनघरंसिरिघर श्रीलक्ष्मीनोभांडारनांघरसर्वपाडाके जेअमरकंकानगरीनेविषेएहवीय  
 ईच्छतीअमरकंकानगरीसरसने शब्दे करी प्रसकीने घृथवीतलने विषे पडीएतले सर्वलोकपद्यांसघलावरमालपद्या सर्वलोकरोवाला

यस्यांसातथा ततःपदद्वयस्यकर्मधारयः सरसरस्वत्तिअनुकरणशब्दोयमिति उह्यपडसाडएत्ति उह्यःस्नानिनाद्गीपटशटकौउत्तरीच  
 वस्त्रपरिधानेयस्यसतथा उज्जलगवत्यनियत्येत्तिअवचूलंअधोमुहचूलंमुत्कलांचलयथाभवतीत्येवं वस्त्रं निवसितंयेनसतथा तंपवमविग

एतांसिएउव्विगणे देवविंदेविंसरणंउवेहू तएणंसादोवईदेवो पउमणाहंरायं एवंवयास्सौकिस्संतुमंदि  
 वाणुप्पिया णयाणेसिकरहस्सवासुदेवस्स उत्तमपुरिसस्खविप्पियकरेमाणेतंपवमविगएगच्छहणंतुमंदि  
 वाणुप्पियाएहए उह्यपडगसाडएचूलगवत्यणियत्य अंतित्तरपरियालसद्धिंसंपरिउडेअग्गाइवराइ

गाइमगांमसाहेहाहाकारयवोतिवारिते पदमनाभराजा अमरकंकाराजधानीनगरीप्रतेगढनीपोलिऊपरलिमेडीनगरगढविचा  
 लानोआठहायनोमार्गसगलालोकाना धरराजानाधरभंडारनाधर एसर्धप्रसकीनेपड्याक्के एहवीनगरीप्रतेदेखीने वीहनोछतोता  
 सपांस्सोछतोउदवेगपास्सोछतो द्रोपदीराणीने धरणाप्रतेउवेतिकंजइवैठो तिवारितेद्रोपदीराणीपदमनाभराजाप्रतेइमकहती  
 हइसंतु हेदेवानुप्रियहेपदमनाभ जाणतोनऊंतो कण्णवासुदेवनेविण्णुंडनाभोक्काने उत्तमपुरणनेविप्रीतभुंडापाडूआप्रते

रथणाद्रंगहाय समपुरात्रोकाङ्करहं वासुदेवंकरयलजावपायवडिएसरणंउवेहिप्रणिवदूयवच्छला  
गुंदेवाणुष्पियाउत्तमपुरिसातएणसेपउमणा हेराथा दोवईएदेवीए एयमदुं प्रडिसुयेइइत्ता गहाएजाव

करतोछतोतेकारणयकी एवंइणंप्रकारे विलंबरहितछतोवेगोजातुं हे देवानुप्रियहेपदमनाभराजा तत्कालअंधोलिकरीने उल्लूकनी  
लाभीनापांणीइंभरतापटसाटकउत्तरीयउ परिओढवानोवस्त्रअने पहिरवानोवस्त्रछे जेहनोतेकहवुंछे अचलक० अधोमुखचल  
मोकलालावाहेठालडवडाअंचलछेहडा जिमडइएहवुं वस्त्रपांणीइंभरतोनिवसितंथायुंछेजेणेएहवुं यइ परिवस्योछतोअग्रणिव  
हस्त्रल्यवराणिप्रधान एहवारतनप्रतेलेइने मुअने आगलिकरीने कृष्णवासुदेवप्रते बैहाथजोडीपगेपडीसरणाप्रते जाइप्रणपति  
तप्रणपतिकरे पगलागेमानमेलीने तेहाने वात्सल्यभक्तिनाकरणहारा हे देवानुप्रियहेपदमनाभ उत्तमपुरुषसगलाइइमकह्युंतिवा  
रितेपदमनाभराजा द्रोपदीरांणीनाएवचनप्रते अंगीकारकरेअंगीकारकरीने तत्कालअंधोलिकरीने भीतुं वस्त्रओढी तथाभीनोव  
स्त्रपहिरिहेठामोकलावस्त्रना छेहडाथापीअंतेउरसहितपरिवस्योछतो बह्मस्त्ररतनलेइने द्रोपदीने आगलिकरीने कृष्णनाथर

सरणं उववे इत्ता करयलजाव एवं वयासौ दिङ्गाणं देवाणु अथि यालुत्तमपु रिसाणं इड्डी जावपरकसेतं खामेसि  
 णं देवाणु अथिया जावखसं तुणं देवाणु अथिया जावणा हं भुज्जो एवं करणया एत्तिकट्ट, पंजलिउडे प्रायवडिएक  
 गहस्सवासु देवस्स दोवई डे विंसा हत्थि उवणे इत्त एणं सेकरहे वा देवे प्रउमणा भं रायं एवं वयासौ हं भो प्रउमणा  
 भाअप्रत्थियपत्थिया ४ किण्हं तु मंणजाणा सिमसमभगिणिं दोवइ देविं इह हव्वसाणे तं एवमविगएणत्थि तेम

णाप्रते' आवेआवीनेवेह' हायजोडीसाथाने' विषे' आवत्तकरीसाथाने' विषे' अंजलिप्रते' करीनेइमकहितोहवो पदमनाभदीठीहेदे  
 वानुप्रियहेकृष्णवासुदेव उत्तममोटापुरुषानी ऋद्धि दीठोसामर्थ्यपणुं वलीवीर्यपराक्रमपुरुषाकारपणुं' तेकारणथकीइ' खमावुं कुं' हे  
 देवानुप्रियहेकृष्णवासुदेव माहराअपराधिप्रते' तु' खमि हेदेवानुप्रियहेकृष्णजी तांलगीजाभुज्जोरवारंवारइणेप्रकारे' करीनहीकरं  
 इमज्जहीने' प्राजलिवेहायजोडीपगेपडोच्छतो कृष्णवासुदेवने' द्रोपदीराणीप्रते' मोताने' हाथे' करीने' आपिदीथे' तिवारितेकृष्णवासु  
 देवपदमनाभराजाप्रते' इणेप्रकारे' कहतोऊओ अरेपदमनाभनामअणप्राथ्यांमरणनोप्रार्थकवाक्यहारसुं' तुं नजाणेछेमाहरीवहि



एनत्थितेसमाहितोद्घ्याणिभयमत्थिति तत्तस्मादिदमपिगतेअस्मिन् कार्येनास्तिअयंपञ्चोयदुत तेतवमत्तोअभयमस्तिअवतिएगट्टियत्ति

साहितोद्घ्याणिअभयमत्थित्तिकट्टु, पउमणाभंरायंपडिविसज्जे इदोवइ देविंगिण्हइत्तारहं दुरुहेइ  
इत्ताजेणेवंपंचपांडवा तेणेवउवागच्छइत्तांपंचपांडवाणंदोवइ दे विसाहत्थिउवणेइतएणंसेकरहेवासु  
देवेपंचपंडवेहिंसद्धिंअप्पच्छइ हिंरहेहिंलवणससुहं मउभंमउभेणं जेणेव जंबूद्धीवेइजेणेवभारहेवासिते  
णेवपहारेत्यगमणाएतेणंकालेणंतेणंसमएणं धायइसंडेदीवेपुरिच्छिमइ भारहेवासेचंप्राणामंणयरी

नद्रोपदीराणीप्रते इहांजतावलोलिइआब्योच्छेतुं तेकारणयकीइणंप्रकारे अपिगतेक० एकार्येनेविषेनहींछे अथवाजेकारणयकीतेत  
वतुअने इदानींहिंवेममाहितेसुअयकीभयनहीं इमकरीने पदमनाभराजाप्रते विसर्जेसोकलेसीखआपे द्रोपदीराणीप्रतेग्रहेली  
येलेइने कृष्णवासुदेवरथउपरिचढे वेसेवेसीने जिचंपंचपांडवछेतिहांआवेआवीने कृष्णवासुदेवपांचपांडवनेद्रोपदीराणीप्रतेपोता  
नें हाथेकरिआपे तिवारपछीतेकृष्णवासुदेवपांचपांडवासंघाते आपपोतेछडोइमकएरथसंघाते लवणससुद्रमांहियईने जिहांजंबूद्धी

होत्या पुणभहे चेइएतत्यणं चंपाएणयरीए कपिलिणसंवासुदे वेरायाहोत्यामहयाहिभवंतवस्यञ्चोते  
 णं कालेणं तेणंसमएणंसुणि सुव्वएअरिहंतेचंपाएणयरीए जेणेवपुणभहे चेइएतेरेवसमोसठे कपिलेवा  
 सुदेवेधम्मं सुणेइ तएणंसेकपिलेवासुदेवेसुणि सुव्वयसअरहञ्चो धम्मं सुणेसाणेकएहसस वासुदेवससं  
 खसहं सुणेइ तएणंकपिलसवासुदेवसस इमेयाखुवेअञ्जकालिएचिंतिएप्रत्थिएमणोगएसंकप्पे समुप्प

पनामाद्वीपछे जिहाभरतचेतछे तिहां चालिवाभणीमनकरतोऊञ्चो तेकालतेसमयनेविषे धातकीखंडद्वीपने विषे पूर्वनाअर्द्धदक्षणा  
 ईभरतचेतने विषेचंपानगरीहंती तिहांपूर्णभद्रचेत्ययत्तनु देहरोछे तिहाचंपानगरीनेविषे कपिलनामावासुदेवरजाऊ'तो मोटो  
 हिमवंतपर्वतसरिखोछे तेहनोवर्णकउवाईथीजांणवो तेकालतेसमयने विषे सुनिमुत्रतअरिहंततीर्थकारदेव चंपानगरीनेविषेजिहां  
 पूर्णभद्रयत्तनोदेहरोछे तिहांआवीनं समोसखाजतखाके कपिलवासुदेवधर्म्मोपदेशसाभलेछेतिवारितेकपिलवासुदेवसुनिमुत्रतनामा  
 अरिहंतने पासे धर्मप्रते सांभलतोछतोइण्णवासुदेवनाशंखनाशब्दनादप्रते सांभले तिवारिकपिलवासुदेवने एहवुंआत्माने विषेअ

ज्जित्थाकिंमखे धाद्रसंडेदीवेभारहेवासेदोच्चै वासुदेवेससुप्पखे जस्सणंअयंसंखसह्दे मसंपिबसुहवा  
 यप्परिएवियंभवइकपिल वासुदेवेसहाद्रसुणेद्र सुणिसुव्वएअरहाकपिल वासुदेवं एवंवयासीसेणूणं  
 कपिलावासुदेवा मसअंतिएधम्मंसोच्चणिसम्मै माणस्ससंखसह्दे आकखित्ताइ मेयारुवेकिमखे जा  
 वटियभवइसेणूणंकपिलावासुदेवा अयमइसमइहंताअत्थि तंणोखलुकपिलाएयंभूदंण णएवंभव्वं

धिद्योरह्योअणप्रार्थोचिंतारूपएहवो मनमाहिंसंकल्पविकल्पज्जुण्डंस्युंमानुं धातकीखंडद्वीपदक्षिणाद्धंभरतचेतनें विषे बीजोवा  
 सुदेवज्जपनो जेहनोएशंखनोशब्दनादमाहरीपरे सुखनावायुपूख्योक्तोशब्दविसरैकेहं शंखवजाडुकुं तिमशंखवजाडे क्खे कपिलवासु  
 देवएहवाघणासंखनाशब्दप्रते संभलेतिवारिसुनिसुव्रतंअरिहंत कपिलवासुदेवप्रते इमकहतोह्दओ इरणेप्रकारे तेनगुंनिच्चै हेकपि  
 लवासुदेव माहारासमीपनेविषेधम्मंप्रते संभलताच्छताहीयामाहिअवधारताच्छताने संखनाशब्दनादप्रते आकर्णने संभलीने एहवुं  
 आत्माने विपेसंकल्पज्जपनोस्युंजाणं ऊंस्युंमानुं धातकीखंडद्वीपदक्षिणाद्धंभरतचेतने विषेविजोवासुदेव ज्जपनोजेहनाशंखनोशब्दमा

णएथंभविस्सइजस्यं एगखित्तेएगजुगेएगससएणंदुवे अरिहंतावाचक्खवहोवावलदेवावावासुदेवावाउप्य  
 जिं सुवाउप्यज्जंतिवाउप्यज्जिस्संतिवाएवंखलुक पिलावासुदेवाजंबूहोवाओभारहाओवासाओह  
 त्थिणाउराओणथराओपंपंडुस्सरस्सासुएहापंपंचंपंडवाणंभारियादोवइदेवोतवपउमणभस्सरसोपुव्वसंग  
 तिएणंदेवेणंअमरकंकणथरिंसाहरियातएणंसेकएहेवासुदेवेपंचहिंपंडवेहिंसद्धिंअप्पच्छुंछुंहरिंहेहिं

हरिपरे वजाद्यानीपरिशब्दविस्तरेच्छे तेनूनंनिचं सहीहेकपिलवासुदेव एअर्थसमर्थसाचोहच्छे तेकारणथकीनिचं नऊइहेकपिल  
 एगथं आगलिकालिंऊओनहीं हिवडांवत्तमानकालिहोइथाइनहीं आगामिकाले आवतंकाले एथास्ये नहीं जेएकबेलनेविषेएकसु  
 गनेविषेएकसमयनेविषे वेअरिहंततीर्थंकरदेवच्छेवेचक्रवर्त्तिवेलदेववेवासुदेवजपनानहीं जपजेनहींजपजस्ये नहीतिकारणथकीइणेंप्र  
 कारेखलुनिचं हेकपिलवासुदेव जंबूद्वीपनामाद्वीपथकीभरतचेतथकीहत्थिणाउरनगरथकीपांडुराजानीसुषावज्जपांचपाडवानीभा  
 र्वास्त्रीद्रोपदीरांगी ताहरापदमनाभराजाने पूर्वसंगतिकदेवताइंअमरकंकानगरीप्रते साहरीछेसाणीछेतेकारणथकीतेकथावासु

अमरकंकरायहाणिदोवईएदेवीए कूर्वंहव्वमागए तएणंतखकरहस्रवासुदेवसस पडमणभेणंरखा  
 सडिसंगामेसाणस जावअथंरुखसह तवसुहवायाइववियंभद्र तएणंसिकपिलवासुदेवे सुणीसुव्वयंअ  
 रहंवंदइणंसइत्ता एवंवयासौगच्छामिणं अहंभंतेकरहंवासुदेवं उत्तमपुरिसंप्रासामि तएणंसुणि  
 सुव्वएअरिहार्कपिलंवासुदेवं एवंवयासौणो खलुदेवाणुप्पिथा एयंभूयंवाइ जणंअरिहंतावाअरिहं

देवपांचपांडवांसंघाते आपपोतानेच्छट्टोएक्करथसंघातेपरिवस्योच्छतो अमरकंकाराजघांणीनगदीप्रते द्रोपदीराणीनीवाहरप्रते उता  
 वलोआव्योक्के तिवारितेदृषणवासुदेवनें पदमनाभराजासंघाते संग्रामप्रतेसंग्रामकरवानेधुरि संग्रामकरतोच्छतोतालगीजांएसंखश  
 द्दताहरासुखनावाजवानीपरिशंखनोनादविस्तरेक्के तुभसखिखोजकृष्णवासुदेवक्के पक्कीतेकपिलवासुदेवउठीनेंसुनिशुव्रत अरिहंतती  
 थंकरप्रतेवांदे नमस्कारकरेकरीने इमकहतोह्मञ्जीलाउं ह्मं हेभगवन्कृष्णवासुदेव उत्तममोटापुरषप्रतेदेखुं जोउं इमकह्युंतिवार  
 पक्कीसुनिशुव्रतअरिहंततीथंकर कपिलवासुदेवप्रतेइमकहतोह्मञ्जी नोनिषेधेखलुनिश्चे हेदेवानुप्रिय हेकपिलवासुदेवएपूर्वे ऊञ्चीनहीं



याद्रूपासद्रूताएवंवयासौ एसणंमससिपुरिसे उत्तमपुरिसेकण्हिवासुदेवेलवणससुहं मउभंमजंभे  
णंवीद्रवयत्तिकड पंचजणं संखं परासुसद्रूता सुहवायपूरियंकरेद्र तएणंसेकण्हिवासुदेवेकपिलस्सवा  
सुदेवस्ससंखंसहं आद्रणेद्रूता पंचजणं संखंसुहवायपूरियंकरेद्र तएणंदोविवासुदेवासंखसहं सामा  
यरिंकरेद्रतएणंसेकपिलेवासुदेवे जेणेवअमरकंकाणयरी तेणेवउवागच्छद्रूता अमरकंकरायहा

सुद्रमाहिथईनें जाईछेइमकहीने कपिलवासुदेवपंचजन्यनामासंखप्रते परासुखेफरसेहाथमाहिलीये सुखनावायुरापुरितप्रतेकरे  
एतलेशंखवजाडितिवारितेक्षणवासुदेवकपिलनामावासुदेवनाशंखनाशब्दनादप्रतेआकर्णेसांभलेसाभलीनेंक्षणपंचजन्यनामाशंखप्रते  
सुखनावायुरापुरितप्रतेकरे एतलेशंखवजाडितिवारिवेहुं वासुदेवशंखनासब्दनीसंज्ञाप्रतेकरे सामाचारीउत्तरप्रत्युत्तरमांहीमांहिक  
रेतिवारपच्छीतेकपिलवासुदेव जिहांअमरकंकानगरीछेतिहांआवेआवीने अमरकंकाराजधानीनगरीप्रते भागीतीरणपोलिगढघर  
सर्वहेठीठटीपडीछे एहवीअमरकंकानगरीप्रतेदेखेदेखीने पदमनाभराजाप्रतेइमपूछितोहूवो किमहेदेवाबुप्रियेपदमनाभएअमरकं

सिंहसंभगतोरणंजावपासइ पञ्चमणाभंरायंएवंवयासी किस्सं देवाणुप्पिथाएसा अरु रकंकाणयरीसं  
 भगगाजावसस्सिवाइया तएणंसिपञ्चमणाभेकपिलंबासुदेवं एवंवयासीएवंखलुसाकीजंहुं द्वीवाओभार  
 ओवासाओइहं हव्वमगायस्सकएहेणंवासुदेवेणंतुभभेपरिभूय अमरकंकाणयरीजावसस्सिवाइयातएणं  
 सेकपिलिवासुदेवेपञ्चमणाभस्सरणोअंतिएएयमहुंसोच्चापञ्चमणाभंरायंएवंवयासीहंभोपञ्चमणाहाअप

कानगरीभागीके तांजगीजापोलिगढमंदिरसर्वसमकालभागीनें पाडीकेनगरीतिवारपकीतेवलतुं पद्मनाभ कपिलवासुदेवप्रतं इमक  
 हतोह्वो इणंप्रकारेनिच हेस्वामी जंहुं द्वीपनामाहीपयकीभरतचेलयकी इहंजितावलाआवीनें कण्णवासुदेवं तुमनेंपराभवीनेतु  
 मनेंअणमानेनेंसुभसंघाते जंहुं करीनेंअमरकंकांनगरीभाजी गढपोलिघरसर्वपाडालूटीलगडीहेठी पाडीगढपोलिसहितइमक  
 ह्युंतिवारपकीतेकपिलवासुदेव पद्मनाभराजानासमीपनेविषे एपूर्वात्तसमाचारवात्तंप्रतेसांभलीनें पद्मनाभराजाप्रतं इमकहतो  
 उओ अरेपद्मनाभअप्राय्यानिप्राय्येणहारमरणानावां कणहारस्यं तुनधीजांणतोसुभसरिखापुरुषनें कण्णवासुदेवनें विप्रितभं डापा



त्थियप्रथियाकिसं तुमंणयाणासिममसरिसस्सपुरिसस्सकण्हस्सवासुदेवस्सविप्पियंकरेमाणेआसुरुत्ते  
जावपउमणाभंणिव्विसियंआणवेइरत्ता पउमणाभस्सपुत्तं अमरकंकाएरायहाणीए महयाइरायामि  
सेएणंअभिसिंचइरत्ताजावपडिगएतएणंसेकण्हेवासुदेवेलवणससुइस्समउभंमउभेणंवीथीवइयइरगंगंउ  
वागएतेपंचपंडवेएवंवयासौ गच्छ हणंतुभभेदेवाणुप्पिया गंगामहाणइउत्तरह जावतावअहं सुद्धियं

इआप्रतेकरतोछतो इमकहीनेक्रोधाकुलयई तालगीजापदमनाभराजाप्रते' देशवाहिरकाढे काढीने पदमनाभराजानापुत्रप्रते' अम-  
रकंकाराजधानीनगरीने विषे घणेआडंबरकरीराजाअभिषेकेकरी अभिसिंचेअभिषेककरे राज्ञनीथापनाकरेराज्यविसारीने कपि  
लवासुदेवपाछोवलीगयो तिवारितेकृष्णवासुदेवलवणससुइने सांहियई विचिइरयइने चालतोछतोव्यतिक्रमतोछतो गंगामहानदी  
नासमीप्रते' आव्योआवीने' कृष्णवासुदेवपांचपांडवाप्रते' इमकइतोछयोजाओतुम्हे हेदेवानुप्रियोहेपांडवो गंगामहानदीमोटा  
नदीप्रते' जतरोआगलियकी तालगीजाप्रथमपहिलुंऊं सुस्थितनामादेवताप्रते' लवणससुइनाअधिपतिठाकुरप्रते' सीखनांगुआचा

लवणाहिबद्रपासामि तएण्तिपंचपंडवाकरह्यैवासुदेवेण्यं एवंवृत्तासमाणा जेखेवंगंगामहाणई तेषेव  
 उवागच्छइरत्ता एगद्वियाए णावाए अगणगविसण्यं करेइरत्ता एगद्वियाए णावाए गंगंसहोणइ  
 उत्तरिंतिअसुमस्यं एवंवयासी प्रहृण्देवाणुप्रिया अणहेवासुदेवेगंगामहाणइ बाहाहिंदुत्तरित्तएउ  
 दाङ्गणोपभूत्तरित्तकहु, एगद्वियाणवसुसंतिरत्ताकरहंवासुदेवंपडिवालेमाणाचिहुंतितएणसे

सांगुतिचारहीने कृष्णसीखमागे तिवारितेपांचपांडवकृष्णवासुदेवने इमकह्योआज्ञादीधीछती जिहागंगामहानदीछेतिहांआव्या  
 झावीने एकास्थिकानावानाहीनावाङ्गडीया रूपतेनाङ्गीनावाये करी मार्गनीजावानीगवेषणाप्रतेकरेकरीने एकास्थिकानावाइ  
 नान्हीनावाइ करी गंगामहानदीप्रते अतरेजतरनीने अन्योन्यमांहीमांहिएकठामिलीने इण्येप्रकारे विचारकरताहथा पडप्रभूसम  
 थंऊइहे देवाबुप्रियोहेभाइओ कृष्णवासुदेवगंगामहानदीप्रते वाहाइ भुजाइ करीउत्तरवाभणीसमर्थऊइ अथवांगंगामहानदीप्रते  
 पोतानीवाहाइ भुजाइ करी तरनीने उत्तरिवाभणीपडप्रभू समर्थनऊइएहवोविचारकरीने एकअस्थिकानावाप्रते अलगीलेईछां

नोःभूमे' तित्तिगोपयंति आंतःखिन्नःतांतःसुरकांडकांचवान् जातःपरिजातःपरितांतः सर्वथाखिन्नएकार्थिकाश्चै ते इच्छं'तएहिंतिइ

करहेवासुदेवेसुद्वियंलवणाहिबइ'पासइ'त्ताजेणैवगंगामहाणइतेणैवलवागच्छइ'त्ता एगद्वियाएणावा  
 एसव्वओसमंतामगणगविसणंकरेइ एगद्वियंअपासमाणेएगाएवाहाएरहंसतुरंगमसारहिं'गिरहइइ  
 चाएगाएवाहांएगंगंमहाणइ' बासद्विजोयणाइअइजोयणंचविच्छिणं उत्तरिउ'पवत्तेयाविहोत्था  
 तएणसेकरहेवासुदेवेगंगाएमहाणइए बहुमज्झदेशभाएसंपत्ते समाणसेतंतंपरितंतैबइसेएजाएया

नीगोपयेढाकीराखीने' कृष्णवासुदेवप्रते' आविवानीवाटजोताकृतारहे तिवारितेक्षणवासुदेवसुस्थितनामादेवता लवणससुद्रनाअ  
 धिपतिअधिष्टायकप्रते' सीखमांगिसीखमागीने जिहागंगामहानदीछेतिहांअविआवीने एकअस्थिकानावानीसगलीदिधियकीअर  
 हीपरहीजोवानोगवेषणाप्रतंकरे एकअस्थिकानावाप्रते' अणदेखतोछतोएकेवाहाइएकेहथेकरी रथप्रते' घोडासारथीसहितरथप्रते  
 ग्रहेआलेआलीनेलेईने अनेबीजीवाहाइ'एकेहथेकरी गंगामहानदीप्रते' साढ़ावासठियोजनने' प्रवाहं विसीरणपिडलीछेएहवीमो  
 टीगंगानदीप्रते' उत्तरिवाभणोप्रवर्तंतोइओउद्यमकरतोइओ तिवारितेक्षणवासुदेवगंगामहानदीना बहुमध्यदेशभागने' पास्यो

विहोत्यातएतस्सकरुहसवासुदेवस्सइमेयारूवे अउभक्तियएजावसमुप्पवेत्था अहोणंपंचपंडवासहा  
 बलत्रगाजेहिंगंगामहाणईवासद्विजोयणाद्रं अइजोयणंचविच्छिखा बाहाहिंउत्तिणाइच्छं तएहिंणं  
 पंचहिंपंडवेहिं प्रउमणाभेरायाहयसहिजवावणोपडिसेहिएतएणंगंगदेवीकरुहस्सवा सु देवस्स इरं. इ  
 यारूवंअउभक्तियंजावजाणितायाहंवितर इ तएणंसेक गद्वेवासु देवेसुउ तंतंरं समासासेइइत्तांगंगा

पद्वतोछतोआंतयाकोवणुं थाकोपरिवांतसर्वथाथाकोएकारणयकीशरीरनेविषेपरसेवोबंधातोपरसेवोथातोहओतिवारितेछष्णवासु देव  
 नें एहवुं आत्माने विषे अधिद्योअणप्रार्थो चिंता रूपमन माहिंसंकल्पविकल्पजपजे अहोआश्चर्यंपांचपांडवधणुं बलवंतत्रलिष्टजणे  
 पांडवेगंगामहानदीवासद्वियोजन बलीजपरिआधोयोजनएतले साढावासद्वियोजनप्रवाहे करीपिडलीके एहवीगंगामहानदीवा  
 दाईं करीतरीजतया इच्छाई किवारै किं एहवाबलवंतहंता तुम्हेतोपांचेपांडवेपदमनाभराजा हख्योमय्योभाग्योनहौंधजापाडीनहौं  
 दिद्योदिशियकीनस्याद्योनहौं तिस्युं इमचिंतवे तिवारपच्छीगंगदेवीछष्णवासु देवनें एहवुं आत्माने विषेरह्योअणप्रकास्यो चिंता रूपमन

भहाण्डं वासट्टिजावउत्तरइ जेणेवंपंचपंडवातेणेवउवागच्छइरत्ता एवंवयासीअहोणंदेवाणुप्रियाम  
हाबलवगाजेहिणंतुभेहिंगंगामहाण्ड बासट्टीजावउतिण्डाइच्छं तएहिं तुभेहिंप्रउमणाहिजावणो  
पडिसेहिएतएणंतंपंचपंडवाकरहेणं वासुदेवेणं एवंवुत्तासमाणा करहंवासुदेवंएवंवयासी एवंखलुदे

सांहिलोसंकल्पविकल्पउपनोतेप्रतेंजाणीने थाहथलप्रतें वितरेंदीयेएतलेतिहागंगामहानदीमांहिथलकीधो तिवारितेकृष्णवासुदेव  
सुहृतातरवेघडीभाभेरी वीसामोलीयेवीसामोलेइथाकउतारीनें गंगामहानदीप्रतें साढीवासट्टियोजननाप्रवाहप्रतें एकेंवाहेए  
कें हाथेकरीतरीनें जतरनें जतरीनें जिहापांचपाडवछेतिहाआवेआवीने इमकहतोह्मओपाडवांप्रतें अहोअचरिजहेदेवाशुप्रियोहे  
पाडवो तुम्हे महाबलिष्टसुभयकी घणुं बलवंतदीठाजेणेतुम्हे गंगामहानदीसाढावासट्टियोजननाप्रवाइनी गंगानदीजतरीजतस्या  
इच्छाइं किवारेकिंतुम्हे एहव्रवलवतोछतोजोतुम्हे पदमनाभराजाहण्योनथीमथ्योनहीं दिशोदिशियकीनसाद्योनहीं तिहांतुम्हे व  
लफोद्योनहींतैस्युं इमकह्युं तिवारितेपांचपाडव कृष्णवासुदेवे इणेप्रकारे करी कह्यापुख्याऊतातेपांचपाडव कृष्णवासुदेवप्रतें इम

वाणुष्पिया अरुहेतुः मेहिं विसृज्जिया समाणा जेणेवगंगामहाण्ड तेणेवउवागच्छामोएगट्टियाएस  
 गणगवेसणंतंचेवजावणुमेमो तुम्हेप्रडिवालेमाणेचिद्वामोतएणसेकरहेवासुदेवेतिसिंपंचरुहंपंडवाणं  
 अंतिएयसइंसोच्चाणिसम्भ्रआसुरत्तेजावतिवलीयंजावएवंवयासीअहोणंजयाणंसएलवणससुइंडुवे

पाछोजत्तरदेताह्या इणंप्रकारेनिचेहेदेवानुप्रियहेस्वामिन् अरुहेतुम्हेइहायकीमोकल्याहता जिहागंगामहानदीछेतिहांआ  
 व्याघ्रावीने एकअस्थिकानावानीजोवानीगवेषणाप्रतेकरी एकअस्थिकानावाजपपरिवेसीने साढावासट्टियोजननाप्रवाहनीगंगाम  
 हानदीजतरने तुम्हारावलनीसामर्थ्याइ जोवानिमित्तएकाअस्थिकानावाप्रते एकांतछांनीगोपवीराखीने अरुहेतुम्हारीवाट  
 जोताहतावेठारहाछा तिवारितेक्षणवासुदेव तेषांचपांडवानासमीपनेविषे एसमाचारप्रतेसामलीने हीआमांहिअवधारीनेघणु  
 कोधवंतययोक्तो तालगीजाविवलीभसुहप्रते निलाडनेविषेचढावीनेकेहेहेअणप्रार्थानाप्रार्थकमरणनावाहक इमकहीने इमक  
 हतोहओ अरेपापीओजिवारेमे लवणससुइप्रते तेकेहवोछेवेखाखेयोजननोलावोपिऊलो एहवालवणससुइप्रते व्यतिक्रमीनेउस

जोयणसयसहस्सविच्छिखं वीइवत्तापउमणाहेणं हयमहियजावपडिसेहित्ता अमरकंकासंभग्गा  
 दोवइदवीसाहत्थिउवणीया तथाणंतुभेहिंसमसमाहप्पं णविण्णायंइयाणिंजाणिस्सत्तिकट्टु, लोहदंडं  
 परासुसइत्तापंचखहंपंडवाणंरहंचूरेइत्ताणिव्विसएआणवेइतत्थणंरहमइरणेणानंकोट्टे णिविक्केतए  
 णंसेकण्हैवासुदेवे जेणेवसएखंधावारएतेणेवउवागच्छइत्ता सएणंखधावारिणंसद्धिअभिसमखागए

धीनेपदसनाभसंधाते' जूझकरीने' हतमथितपदर्मनाभराजाप्रते' हतमथितकरीने' धजापाडीने' दिशोदिशियकीपदमनाभराजाने' न  
 साडीने' अमरकंकानगरीभाजीगढपोखितोरणधरसर्वधरपाडी द्रोपदीराणीपोताने' हाथेकरि ष्णाणीआपीतुम्हने' तिवारितुम्हे  
 माहरोमाहात्वमाहरोप्रभाववलजाख्योनहौं द्विवेतुम्हेजाणस्योइमकहीने' लोहनादंडप्रते' परासुसेहायमांङ्गिलियेलेंइने पांचपांड  
 बानांपांचरथप्रते' चूरचूर्णकरीने देशमांङ्गियकीबाहिरकाठे देशवटोदीयेकण्णआज्ञाबाहिरकख्या रथचख्यातिहांरथमईननाभे' को  
 ठोथाप्पोगढकरीनगरथाप्यो तिवारपच्छीतिकण्णवासुदेव जिहापोतानो' कटककजतस्योके तिहांआवेतिहांआवीनेपोताना' कटकसंधाते

याविहोत्यातएणसेकरहेवासुदेवेजेणववारवईणयरीतेणेवडवागच्छइइत्ताअणुम्मविसइतएणंतेपंचपंड  
 वाजेणेवहत्थिणाउरेणयरेतेणेवडागच्छइइत्ताजेणेवपंडुरायतिणेवडवागच्छइइत्ताकारयलजावएवंव  
 यासौएवंखलुताओअरुहेकरहेणंवासुदेवेणंणिव्विसियाआणत्तातएणंपंडुरायतिंपंचपंडवंएवंवयासौकह  
 णंपुत्तातुभेकरहेणंवासुदेवेणंणिव्विसियाआणत्तातएणंतेपंचपंडवापंडुरायंएवंवयासौएवंखलुताओअ

आवतोहओ तिवारपच्छीतेकण्णवासुदेव जिहांद्वारिकानगरीच्छे तिहांआवेआवीने नगरीमांहिप्रवेशकरी पोतानाघरमांहिप्रवेशक  
 रीनेसुखेसमाधिंरहेतिवारितेपांचपांडव जिहांहत्थिणाउरनगरच्छेतिहांआव्याआवीने जिहांपाडुराजाच्छेतिहांआव्याआवीनेवेहा  
 यजोडीमाथानेविषे आवत्तकरीअंजलीप्रतेकरीने इमकहताह्मआएणंप्रकारे'निश्चे हेतातजीअरुहेकण्णवासुदेवने' देशवाहिरका  
 ढाआन्नाथकी वाहिरदूरकीघाएवांतसांभलीने' तिवारपच्छीपांडुराजातिपांचपांडवाप्रते इमपूच्छितोह्मओकिमहेपुलो वरुहेकण्णवा  
 सुदेवने'देशयकीवाहिरकीघा आन्नावाहिरकस्यातेकहो तिवारपच्छीतेपांचपांडव पांडुराजाप्रते'इमकहताह्मआ इणंप्रकारे'निश्चे



रुहेअमरकंकाओपडिणियत्ता लवणससुद्धं दोस्त्रिजोयणसयसहस्राद् वीईवद्रत्तातएणंसेकरुहेवासु  
देवेअरुहंएवंवयासीगच्छहणंतुभेदेवाणुप्पिया गंगामहाणद् उत्तरेहजावचिद्रुह जावतावअरुहंएवंत  
हेवजावचिद्रामोतएणंसेकरुहेवासुदेवेसुद्धियंलवणाहिवद्रुद्धुणंतंचेव सब्बणवरंकरुहस्सचिंताणवुच्चद्द


हेतातअरुहे अमरकंकानगरीयकी पाछावलीनेंलवणससुद्धवेलाखयोजनना लवणससुद्धप्रतेव्यतिकमीनें उच्चंभीनें उतस्यातिवारि  
नेकण्णवासुदेवअरुहांप्रतें इमकहतोह्मओजाओतुअरुहे हेदेवानुप्रियोगंगामहानदीप्रतें आगलियकीउतरोउतरीनें माहरीवाटजोता  
छतारहिज्यो जिहांलगीऊं सुस्थितदेवनीसीखमांगीआवुं तिहांलगीपछेअरुहेतिमजनानाद् वेसी गंगाउतस्यापछेकण्णनुं वलजोवा  
निमित्तनावापाछीमोकलीनही नावापाछीगोपवीराखीनें अरुहेवेसीरच्या तिवारपछीतेकण्णवासुदेवसुस्थितनामादेवताप्रतें लवण  
ससुद्धनाअधिष्टायकप्रतें सीखमांगीनें कण्णवासुदेवपोतनें हाये एकेंगंगानदीउतरीनें आथातिवारिअरुहेवलदेखीनें तिमजस  
गलुंहास्यकीधोतेकच्चुं पण्णनवरंएतलोविशेषगंगानदीमाहि कण्णथाकावडवालागाएकृण्णनें चिंताउपनीतेकहीनेपांडुराजानेते

जावणिष्विसएआणवेद् तएणंपंडुरायातेपंचपंड लवेएवंवयासी दूष्टुं गंपुत्ताकयंकणहस्सवासुदेवस  
विप्पियंकरेमाणेहिं तएणंसेपंडुराया कुंतिदेविंसद्दवेद्दत्ता एवंवयासीगच्छहणंतुमं देवाणुप्पिया  
वारवद्दंणयिं कणहस्सवासुदेवस्सणिवेएहि एवंखलुदेवाणुप्पिया तुमेपंचपंडवाणं णिव्विसियाआण  
त्तातुमंचणं देवाणुप्पियादाहिणडुभरहस्ससामी तंसंदिसेतुणं देवाणुप्पियातेपंचपंडवाकयरं देसें वादि

हास्यकीधामाटिदेशयकीवाहिरकाढीद्देशवटोदीयेआज्ञावाहिरकीधा तिवारपक्खीपांडुराजातेपांचपांडवाप्रते इमकहतोऊओ  
हेपुवोदुष्टपाडूयोकीधोतुम्हे कृष्णवाहुदेवने विप्रीतपाडूउंभंडू कीधेच्छतेतिवारपक्खीतेपांडुराजा कुंतौराणीप्रतेतेडावेतेडावीने  
इमकहतोह्णओजातुं हेदेवानुप्रिय हारिकानगरीप्रते कृष्णवासुदेवने कहिजणाविद्दमनिचे हेदेवानुप्रिय तं पांचपांडवानेआज्ञावा  
हिरकीधादेशमाहियकीवाहिरकीधातुं वली हेदेवानुप्रियहेकृष्णराजाधिराज दक्षिणार्द्धभरतक्षेत्रनोस्वामीधे तेकारणयकीसंदिसे  
कहोतुम्हेहेदेवानुप्रिय तेषांचपांडवाप्रतेकृष्णकेहादेशप्रतेमोक्खोवाअथवाकेहीविदिशिप्रतेमोक

सिंवाविदिसिंवागच्छंतुणं तएणंसाकुंतौपंडुणारखा एवंवुत्तासमाणी हत्थिखंधंदुरुहइरत्ताजहा  
 हिइजावसंदिसंतुणंपिउत्था किमागमणपयोयणंतएणंसाकुंतौकरहंवासुदेवंएवंवयासीएवंखलुतुमंपु  
 तापंचपंडवाणिव्विसियाआणत्तातुमंचणंदाहिणडुभरहससजावदिसिंवागच्छंतु तएणंसेकरहेवासुदे  
 वेकुंतिदेविंएवंवयासी अप्रइवयणाणंपिउत्था उत्तमपुरिसावासुदेवाचक्कवट्टीवा बलदेवावातंग

लोकोकिहंजाइ तिवारितेकुंतौरांणीपांडुराजाप्रते इमकहीछतीचाथीऊपरचढेचढीने द्वारिकानगरीप्रतेजाई हर्षवतीछती  
 जिमकह्यंतिमआदेशमांगि तिहंगईराणीतिवारिकृष्णपूछेकहो प्रकासोहेभूआजीतुमहारआविवातुंसुं प्रवोजनकारणतिवारिते  
 कुंतीकृष्णवासुदेवप्रते इमकहतीऊइइणंप्रकारेनिच्ये हेपुलतेपांचपाडवांने आज्ञावाहिरकीधा पणितुं हेराजाधिराजदच्चिणाई  
 भरतचेतनोखाजीछे तिविणखंडमांसिगलागामनगरादिकने विषे ताहरीआणछेतेकारणयकीकहोकेहीदिशिप्रतेमोकलो  
 छोतिवारपछीतेकृष्णवासुदेवकुं तीरांणीभूआफईप्रतेइमकहतीह्मओअपूतिवचनसडीपडे नहीवचनफोकवचनथाई नहीबोल्यंतेहे



च्छं तुणंपं चपंडवादाहिणल्लं वियालिं तत्थपंडुमज्जरं णिवेसंतु ममअदिदुसेवगामवंतुत्तिकइ, कुंतिदे  
 विसक्कारेइसस्माणेइत्ता जावपडिविसल्लेइ तएणंसाकुंती जावपंडुस्स एथमइं णिवेएइतएणंपंडुराथा  
 पं चपंडवेसहावेइत्ता एवंवयासौगच्छहणंतुभमेपुत्ता दाहिणल्लं वियालिं तत्थणंतुभमेपंडुमज्जरं णि

भआजी उत्तमपुरुषवोलेतेभूठं नथाइवासुदेवचक्रवर्त्तिवज्ज देवतेकारणथकिजाओपांचपांडवदक्षिणदिशिनावेतालिकवेलाकुलससुद्रना  
 तटप्रते तिहाजईने नवीपांडुमथुरानगरीप्रते थापोवसावोतिहारहोसुभने अदृष्टयकामाहराअदृष्टसेवकथाओ तिहांजईरहोमाहरी  
 दृष्टिआगलिथीजइतिहारहोइमकहीनेकुंतीराणीभूआप्रतंसत्कारेवस्त्रादिआपेसन्धाने सत्कारेनेवज्जमानदेइनेतांलगीजामोकलेसी  
 खआपेतिवारितेकुंतीराणीतिहाथकीआवीने पांडु राजाने एअर्थप्रतेकहेजेनवीपांडु मथुरावसावीने दक्षिणदिसिनाससुद्रनातटने  
 विषेरहवुं इमकच्छुं छेतिवारिपांडु राजापांचपांडवांप्रतेतेडावितेडावीनेइमकहतोह्णओतुहे हेपुत्रोदक्षिणदिशिनावेलाकुलससुद्रनात  
 टप्रतेतिहातुहेपांडु मथुरानगरीप्रतेनिवेशोवसावोतिवारितेपांचपांडवपांडु राजानोएवचन हाथजोडीतहत्तिकहीअंगीकारकरे अं

वेसे हतएणंतेपंचपंडवापंडुस्सरखोजावतहत्तिपडिसुणेइइत्तासबलवाहणाहयगयहत्थिणाउराओण  
 यराओपडिणिवमइइत्ताजेणेवदक्खिणिल्लिवियालीतेणेवउवागच्छइइत्तापंडुमड्डरंणिवेसंतिइत्तात  
 त्यणंतेविपुलभोगसमिइसमखागयायाविहोत्थातएणंसादोवइदेवीअणयाकयाइंआवस्सत्तायायावि  
 होत्थातएणंसादोवइदेवीणव्वएहंमासाणंजावसुखुवंदारयंपायायाजावसुकुमालेणिवत्तवारसाहस्सइ

गीकारकरीनें बल ऋटकमाहनवेसररथपालखीसहितकृताषोडाहाथीरथपायकसगलापरिवारसंघातेपरिवर्याकृताहथिणाउरनगरथ  
 कीनीसरेनीसरीनें जिहंदिच्छिणवेतालीच्छेतिहंआव्याआवीनेनवीपंडुमथुरानगरीप्रतेवसावेवसावीनें तिहंपाडुमथुरानगरीमांहर  
 ह्याकृतातेपांचपंडवविपुलघणाभोगनीसमितिभोगताकृताविचरताडुआतिवारितेद्रोपदीरांणीएकदाप्रस्ताविआपन्नसत्वागर्भवती  
 यातिडुईत्तिंमारिपच्छीतिद्रोपदीरांणीनवमासपूरुतेकृतेतांलगीजांस्वरूपसुंदरएहवावालकपुत्रप्रते जणेप्रसवेतांलगीजाहाथपगसुं  
 द्हालाच्छेजेपुवनाजण्यापच्छीवारमोदिवसनिर्दृत्योपरिपूर्णथयोतिवारितेपुत्रनोएहवुंजेकारणथकीआम्हारिएपुत्रपांचपांडवानोपुत्रद्रोपदी

संप्रयाह्वंजम्हाणंअरुहं एसदारएप्रंचणहंपंडवाणं पुत्तेदेवइएअत्तएतंहीजणं अरुहंइमस्स दारण  
 स्सणामधिज्जंमंडुसेणेत्तिवावत्तिरिंक्कल।ओ जावअलंभोगसमत्थेजाए जुवरायाजावविहरइतेरंका  
 लेणंतिणंसभएणंधम्मओसाधेरास सोसट्टापारिसाण्णियाया पंडवाण्णिगयाधम्मं सोच्चा एवंतयासीजंण  
 वरंदेवाण्णिधियादेवइं देविंअपुच्छामो मंडुसेणंचकुमारंरज्जेठावेसो तओपच्छादेवाण्णिप्रयाणंअं

रांणीनोआलजअंगजातिच्छेतेकारणयकीहोथाओ अन्हारिएवालकपुवनोनोनामधेयनामपांडुसेनतिवारितेपुवनोमातापितानामधेयना  
 मपांडुसेनथापेवहोत्तरकलाभख्योतांलगीजाअलंसंपूर्णपरिपूर्णे भोगभोगविवासमर्थयथोचुराजायकोपंचे द्वियना कामभोगभोगवतो  
 छतोविचरेच्छे तेकालतेसमयनेविषे धर्मवोषयविरअवीससोसख्याजतख्या परिषदावादिवाभणीनीसरीपांड मयुरामांहियकीपाडव  
 राजापण्णिवांदवानीसख्याधम्मं प्रते संभलीने इमकहताळअजिनवरंएतलोविशेषविलंबच्छे हेदेवानुप्रियहेस्सरीद्रोपदीरांणीप्रते पूछां  
 वलीपांडुसेनकुमरप्रते राज्यनेविषेअन्हथापां तिवारपच्छीहेदेवानुप्रियतुन्हारारसमीपने विषे सुं डयईने तांलगीजांचमेदीत्ताल्यांछाइ

ति एमुं देभविता जावपव्वया मोअहासुहं देवाणुप्पिया तएणंपं चपंडवा जेणेवसएगेहे तेणेवउवागच्छ  
 इत्ता दोवइ देविं सहावेइत्ता एवंवयासी एवंखलु देवाणुप्पिए अमहेहिंथेराणं अंति एधम्मं णिसंते  
 जावपव्वया मोतुमं देवाणुप्पिए किंकरेसि तएणंसादोवइ देवीपं चपंडवे एवंवयासी जइरणं तुभमे देवाणुप्पि  
 या संसारभयुव्विगा जावपव्वज्जहममकीअणं आलंबेवा जावभविस्सइ अहंपियणं संसारभयुव्विगा

मपूच्छोतिवारिगुरुकहे जि सुखज्जइ तिमकरो हे देवानु प्रियतिवारपच्छीपां चपाडव जिहापोतानोघरच्छेतिहां आव्या आवीने द्रोपदीरांणी  
 प्रते तेडावे तेडावीने इमकहताज्जयाइणंप्रकारे निच हे देवानु प्रिये अम्वेधर्मवोधविरनासमीपने विषेधर्मप्रते साभल्यो प्रतिवोधपास्यो  
 तालगीजां अमेदि चाल्यां छांतुं हे देवानु प्रिये सुंकरेच्छेत्सुं कहेछे तिवारि वलतुं द्रोपदीरांणी पांचपाडवांप्रते इमकहती ह्इ देजो तुम्हे  
 हे देवानु प्रियो संसारनाभयकी उदवेगपास्याकता तासंतापपांस्याकता तालगीजां दी चाल्योच्छो तिवारि सुंकरे कुणअनेरो बीजो  
 आलंबअवलंबहोस्ये तालनीजां कुणआधारभूतहोस्ये अहमपिज्जं पणिसंसारनाभयजनमरणजरप्रसुख संसारनाभयथकी उद्वेगपा

देवाणुष्मि एहिंसद्धिं पञ्चदस्सामित एणंते पंचपंडवापंडुसेणस्सकुमरस्स अभिसे ओजावरायाजा एजावर  
 ज्जं पसाहेमाणे विहर इत एणंते पंचपंडवा देव ई देवी अस्स या कायाइं पडुं सेणं रायं आपुच्छ इत एणंसे पंडुसे  
 णे राया कोडुं वियपुरिसे सद्दावेइत्ता एवंवयासी खिप्पामेव भो देवाणुष्मि या णिक्खमणा भिसेयं जावल्लव  
 इवेहपुरिस्स सहस्स वाहिण्णो ओसिविया ओल्लवडुवेह जावपच्चोरुहंति जेणेवथेरा आयरिया आलित्ते णं

मीच्छं हे देवानुप्रियो तुम्हांसंघाते दिब्बालेसुंति वारपच्छीते पांचपाडव पांडुसेनकुमरनें अभिषेककरे पच्छेराजाथयोपच्छेतां लगीजां पां  
 डुसेनराजाज्यप्रतें पालतोच्छतो विचरेहे तिवारिपच्छीते पांचपाडव द्रोपदीराणी एकदासमें पाडुसेनराजाप्रतें पूछे तिवारिते पां  
 डुसेनराजा आदेशकारी पुरुषांप्रतें तेडावितेडावीनें कहेत्ति प्रमेव उतावलाज हे देवानुप्रियोनिः क्रमणा भिषेकदिख्यालेवाना अभिषेक  
 प्रतें आणीयापोलावो पच्छे हजार पुरुषवाहिनी ओपालखीओ आणीनें थापोलावो पच्छे तेसर्वकारीलावेपच्छे पालखीजपरिवेसेवेसीनें  
 घणा आडंबरसहित जिहांथिवर आचार्येहे तिहांआवीनें आभरण अलंकार उतारे ईशानकृण्णिज इमस्तकलोचकरी थविरनें कहेएसं



जावसमणजायाचोइसपुव्वाइं अहिज्जंतिबहुणियासाणियावच्छुद्धमदसमदुवालसेहिंमासइमासख  
 मणेहिं अप्पाणंभावेमाणाविहरेइतएणंसादोवइदेवीसौया ओपच्चोरुहइइत्ताजावपव्वइयासुव्वयाए  
 अज्जाएसिस्सणियत्ताएदलयइ एकारसंगइं अहिज्जइत्ता बहुणियासाणियाच्छुद्धमदसमदुवालसे  
 हिंजावविहरइतएणंतेथेराभगवंतोअसयाकथाइं पंडुमज्जराओणयराओसहसंबणाओउज्जाणाओ

सारवलीपलेवणारूपयइरह्योछे एहवोजाणीदिच्चाअहेलेउं कुं तुग्गहारिसमीपेपछेदिच्चादीधीअमणचारिणियाथयापछेसामायकअध्द  
 यनआदिदेइचउदपूरबभणेभणीनें पछेवणावरसताईच्छुद्धअट्टमदसम च्यारउपवासदुवालसपांचउपवासनेकरवेकरी मासखमणअइ  
 मासखमणप्रसुखतपेकरी आत्माप्रतें भावताछताविचरेछे तिवारितेद्रोप्रदीराणीपालखीउपरियकी हेठीजतरेजतरीनितांलगीजां  
 दिच्चादीधी सुन्नताआर्यासाधवीनाइं शिष्यणीपणेदीयेआपे पछेइग्यारअंगप्रतें भणेभणीने वणावरसताईच्छुद्धअट्टमदसमदुवालसा  
 दिवेविणियाचारउपवासमासखमण पनरउपवासतपनें करवेकरी आपणीआत्माप्रतें भावतीछतीविचरेछे तिवारपच्छीतेथिवरसूरीश्व

पडिणिक्वमद्रुता बहियाजणवयविहारविहरेद्रु तेणं कालेणं तेणंसमएणं अरहाअरिदुणेमी  
 जेणेवसुरदुजाणवए तेणेवउवागच्छद्रुता सुरदुजाणवयंसिंजमेणं तवसाअप्पाणं भावेभाणे विह  
 रइतएणं बडुजणो अस्समस्सएवमाक्खद्रु एवंखलु देवाणुप्पिया अरिहाअरिदुणेमीसुरदुजा जणव  
 एजावविहरद्रु तएणंतेजुहिद्विद्विपामोक्खा पंचअणगाराबडुजणस्सअंतिए एयमदुंसोच्चा अस्समस्सं

रभगवंतएकदासमे पांडुमथुरानगरीयकौ सहस्रांवनउद्यानवनखंडयकीनीसरेनीसरीने जनपददेशमांहिविहारप्रते करेविषरे  
 तेकालतेसमयनेविषे अरिहंतअरिष्टनेमिश्रीनेमिनाथ जिहासोरठदेशच्छेतिहांअविआवीने सोरठदेशनेविषेसंयमे करी तपेकरीआप  
 णीआत्माप्रते भावताच्छकाविचरेच्छे तिवारिषणालोकमांहोमाहिद्रुणंप्रकारे कहेवार्त्ताकरेच्छेप्ररूपेच्छे एवंद्रुणंप्रकारे निचे हेदेवानु  
 प्रियोअरिहंतअरिष्टनेमिश्रीनेमिनाथ सोरठदेशमांहितपसंजमेकरीआत्माप्रते भावतोच्छतोविचरेच्छेएहवीवातसाभलीतिवारितेयुधि  
 ष्टिरप्रमुखआदिदेई पंचेअणगारपांचिसाधुचारिणीया घणालोकनासमीपने विषे एअर्थएहवीवार्त्ताप्रते सांभलीने मांहोमाहिपांचे

सद्वावेद्भक्ता एवंवयासौ एवंखलुदेवाणुष्पिथा अरहाअरिद्वणेमि पुव्वाणुपुव्विंजावविहरइ तंसेदं  
खलुअरुहंथेराआपुच्छिताअरुहंअरिद्वणे मीवंदणाएगमित्तए अस्समणस्सएयमइं पडिसुणेइरत्ताजे  
णेवथेराभगवंतो तेणेवउवागच्छइरत्ता थेरेभगवंतेवंदइणमंसइरत्ता एवंवयासौइच्छामिणं तुभमेहिं  
अभ्भणुणायासमाणा अरुहंअरिद्वणेमिं जावगमित्तएअहासुहंदेवाणुष्पिवा तएणंतेजुहिद्विह्लुपामो

भाईसाधुचारितियाएकठामिलनें एकठामिलीनें इणंप्रकारे विचारकरताड्ढवा इणंप्रकारे निश्चेहे देवानुप्रिय अरिहंतअरिष्टनेमि  
अनीमिनाथ पूर्वीनुपरवीइंगामानुगामे विहारकरतोछतोसोरठदेशमाहिचिचरेत्ते तेकारणथकीअथभलु खलुनिश्चेआपणनें थ  
विरसूरिप्रतेपूछीने अरिहंतअरिष्टनेमिअनीनेमिनाथप्रते वादिवाप्रते जावाभणीप्रवर्त्तीथे मां होमां हि एकठाथई एपरठप्रते अंगी  
कारकरेकरीने जिहांथिवरभगवंतच्छे तिहांआवेआवीनेथिवरभगवंतप्रते वां देनमस्कारकरेनमस्कारकरीने इमपूछिताड्ढयाअरुहेवां  
कुळुं तुरहारीआज्ञापाम्याकृता अरिहंतअरिष्टनेमिनाथप्रते वांदिवाप्रते जावाभणोवांछांकाइमआज्ञामांगीतिवारे थिवरकहेजिम

कवापंचअणगारा धेरेहिंअभ्भणुसायासमाणा धेरेभगवंतैवंदइणंसइइत्ता धेराणंअंतियाओपडि  
 णिकवमइइत्ता मांसमासेणं अणिकिवत्तेणंतवोकम्मंणं गामाणुगामंदूइज्जमाणाजाव जेणेवहत्थिक  
 प्पे णयरेतेणेवउवागच्छइइत्ताहत्थिकप्पस्सवहिंयासहस्संबवणेउज्जाणे जावविहरंति तएणंतेजुहि  
 ङ्खिलवज्जाचत्तारिअणगारा मासखमणपारणएप्रटमाए पोरिसीएसज्जायंकरेइ वीयाएएवंजहागो

सुखज्जइतिमकरोहेदेवाद्युप्रियो तिवारितेयुधिष्ठिरप्रसुखआदिदेइ पांचेसाधुचारितियाधिवरेआज्ञादीधीच्छती थिवरभगवंतप्रते वांदि  
 नमस्कारकरेवादीनेनमस्कारकरीने थिवरानांसमीपथकीनीसरेनीसरीने मासमासखमणेअंतरारहितनिरंतरतपने करवे करीपू  
 र्वाद्युपूर्वीइकेडाकेडे विहारकरताच्छता गामाद्युगामप्रते अतिक्रमताउल्लंघताम्भकताकृता जिहांहस्सिकल्पनगरच्छे तिहांआव्याआ  
 वीने हस्सिकल्पनगरनेवाहिरसहस्सांव वनउद्यानवनखंडच्छेतिहांजतरीने आज्ञामांगीलेइने तपसंयमे करीआत्माप्रते भावताकृता  
 विचरेच्छेतिवारितेयुधिष्ठिरसाधुवरजीने चारसाधुचारितिया मासखमणनापारणाने विषे पहिलीपोरिसीनेविषेसिज्जायकरेवीजी

यमसामौणवरं जुहिद्विलं आपुच्छं तिजावअडमाणवज्जणसहं गिसमिद्रएवंखलुदेवाणुप्रियाअरहा  
 अरिदुणेमिउज्जंतसेलसिहरेमासिएणं भत्तेणंप्रणएणंपंचहिं छत्तीसेहिं अणगारसएहिंसद्धिं काल  
 लगएजावसव्वदुक्खप्पहीणेत्तएणं जुहिद्विल्लवज्जाचत्तारि अणगारावज्जणस अंतिएयमदुंसोच्चाह  
 त्तियकंप्पाओणयराओपिडिणिकवमद्रत्ता जेणेवसहसंबवणे उज्जाणे जेणेवजुहिद्विले अणगारेतेणेवउ

पोरसीने' विषे ध्यानकरेइणंप्रकारेजिम गोतमस्वामीपूछेतिमत्तीजी पोरसीने' विषेनवरंएतलोविशेष इहांसाधुचारितीयायुधिष्टिर  
 प्रते' पूछेपूछीने' हस्तिकल्पनगरं मां हि गोचरीभमताछता घणालोकने' वार्त्तीकरताप्रते' सांभलेइमनिश्चे हे देवानुप्रियो अरिहंतअरि  
 एनेमिअ्रीनेमिनाथ गिरनारपर्वतनाथिखरने' जपर मासदिवसे' भातपचखीअणसणकरे पांणीरहितपचखेमासएकनीसंलेखणाक  
 रीपांचसेजपरिच्छतीस अणगारसाधुचारितियासंधाने' कालकीधोतांलगजांसगलादुःखयकी सूकाणोमोक्षपङ्क' तोएहवीवार्त्तीक  
 रेच्छेतिवारियुविष्टिरसाधुवर्जितरहित च्यारसाधुचारितिया गोचरीइ' भमताछताघणालोकनासमीपने' विषे एसमाचारप्रते' सांभ

वागच्छद्भूतं भूतपाणंपञ्चकवंति गमणागमणस्वप्रडिक्रमंति ए सणमणे सणं आलो ए इ भूतपाणंपडिटं से  
इत्ता एवं वयासौ एवं खलु देवाणुष्पिया जावकालगतं सेयं खलु अरुहं देवाणुष्पिया इमं पुव्वगहिहयं भ  
त्तपाणंपरिडुवित्ता से गुञ्जंपव्वयंसखियं २ दुरुहित्तएसंलेहणाए उक्कोसुणाए उक्कोसियाणंकालं अणव

लीनें हस्ति कल्पनगरयकीनीसरेनीसरीनें जिहासहस्त्रावनउद्यानवनखंडच्छे जिहायु. धष्टिरसाधुच्छे तिहाआवेअवीनें भातअन्न  
पाणीमनस्युं पचखेयुविष्टिरनें आगलिपच्छेगमनागमनइरियावहीनें पडिक्कसेपडिकमीनें एषणाअनेषणाप्रतें गोचरीप्रतें आलोइ  
युधिष्टिरनें आगलिआलोइनें भातपाणीप्रतें देखाडेयुधिष्टिरनें भातपाणीदेखाडीनें इमकहताह्वा इमनिचेहे देवानुप्रियहेयुधि  
ष्टिरसाधोअरुहे तुम्हारीआज्ञाइंगोचरीगयाऊंता तिहानगरमां हिषणालोकनासुखयकी सांभल्योजेनेमिनायंकालकीधोतेकारण  
यकीअयभलुं निचे आपणनें हे देवानुप्रियोहेसाधो एआपूर्वेग्रह्योलीधोजेभातपाणीप्रतें परिठवीनेशेत्वं जयपर्वतप्रतें धिरेरचढवा  
भणीउद्यमकीजेतोभलो संलेखणाइं करीसोषवीनें आठकर्मांना मलटालिनें सोषव्यानें कालमरणअणवांछताच्छता विचरवाभणीप्र

कंखमाणानं विहरित्तएअस्समखस्सएथमडुंपडिसुणेइइत्ता तंपुव्वगहियंभत्तपाणंएगंतेपरिटवेइइत्तानि  
 खेवसेतुंज्जे पव्वएतेणेवउवागच्छइइत्ता सेतुज्जं पव्वयंसखियंदुएहइइत्ताजावकालं अणवकंखमाणा  
 विहरंति तएणंतेजुहिहिल्लपामोकवापंचअणगारा सामाइयंमाइयाइं चोइसपुव्वाइं अहिज्जित्ताबहू  
 णिवासाणि सामखपरियागंपाउणित्ता दोमासियाएसंलेहणाए अत्ताणंउभूसित्ताजस्सइयाकौरइरण्णा

वर्तुं साहोमाहि एविचारपरहप्रते अंगीकारकरेअंगीकारकरीने तेपूर्वं ग्रह्णो जेभातपांणीतेप्रते एकांतनेविषेपरिठवेपरिठयीनेजिहा  
 शेतुंजयपर्वतछे तिहांअव्याखावीने सेतुं जयपर्वतउपरधीरेइचढे चढीने अणसणकरीकालप्रते अणवांछताविचरेछे तिवारितेयुधि  
 छिरप्रसुखपाचेसाधुचारितिया-सामाथकअध्ययनआदिदेइ चउदपूर्व भणीने घणावरसलगी दिहाचारितनापर्यायप्रते पाणीने छ  
 मासनीसंलेखणाकरीआलाप्रते सोषवीने जेहने अर्थे कीजेछे नगनभावसुडभावचारितनोभावतेज्ञानदर्शनचारितनाअर्थप्रते आरा  
 धेआराधीने अनंतविषयपण्याथकी अनंतोअंतररहितसर्वोत्कृष्टव्याघातरहित आवरणआच्छादनरहितसंपूर्णप्रतिपूरण एहवोकेवलवर

भावि जावतमद्रुमाराह्विद्र अणंतेजावकेवलवरणाणदंसणेसमुष्मखेजावसिद्धातएणंसादेवद्र अज्जासुब्बया  
 णंअज्जियाणंअंतिएसामाइयमाइयाइ एगारस्सअंगाइ अहिज्जइत्ता बह्ज्जिवासाणि सामस्यपरिया  
 गंपाउणिताआलोइयपडिक्कंतेसमाहिपत्ता कालमासेकालं किच्चा बंभलोएकप्पे देवत्ताएउववखातत्था  
 णंअत्थेगईयाणं देवाणंदससागरोवमाइ टिइं पस्सत्तातत्थाणंदुवयस्सदेवस्सदसंसंगरोवमाइ टिइंपस्सत्ता  
 सेणंभंते दुवेदेवेतओजावमहाविदेह्वेवासेसिज्जिहंतिजावसंसारस्सअंतंकाहिंति एवंखलुजंबूसमणेणं

प्रधानज्ञानदर्शनजपनोअंतगडकेवलीयईनेसीधातिवारपच्छीतेद्रोपदीआर्थासाधवीसुब्रताआर्थिकासाधवीनासमीपनेविषे सामायकअ  
 ध्ययनआदिदेईइग्यारअंगप्रते भणोभणीने वणावरसताईआमण्यचारित्वनापर्यायप्रते पालीने आलोइपापयकीनिवर्त्तिसमाधिमरण  
 पास्य।कृताकालकरवानामासनेविषे कालप्रते करीने ब्रह्मलोककल्पब्रह्म देवलोकनेविषे देवतापणेजपनीतिहांकितलाएकदेवांनीदेव  
 तांनीदशसागरोपमनीयितिकहीच्छेतिहाद्रुपददेवतानोपणिदससागरोपमनीआउखानीयितिकहीच्छेविं भंतेहेभगवन्द्रुपददेवताति



च्छयाकयाचिदित्यर्थः वेवालीएत्तिवेलातटे इति इहापिस्त्रले उपनयोइस्यते एवंचासौद्रष्टव्यः सुब्रह्मवितवकिलेसो नियाणदोसेणदूसि  
ओसंतोनसिवायदोवतीए जहकिलउमालियाजम्मे ? अहवाअमणुसुमभत्तीए पत्तेदाणंभवेअणत्थाय जहकडुयत्तुं वदाणंनागसि

भगवयामहावीरेणं सोलसमस्सणायज्जयणस्सअयमइ पस्सत्ते तिवेमिसुबहु पितवकिलेसोणियाणदो  
सेणदूसिओसंतोनसिवायदोवतीएजहकिलसुउमालियाजम्मे ? अहवाअमणुसुमभत्तीएपत्तेदाणंभवे

हांयकीचवीने किहाउपजस्ये गुरुकहेतिहायकीचवीने महाविदेहचेलने विषेसीअस्ये मोक्षजास्ये सिद्धयास्ये संसारनाअंतच्छेहप्रते  
करस्येइरणेप्रकारे निचेहेजंबुअमणभगवंतअमीमहावीरदेवेसोलमाज्ञातानाअध्ययननोअर्थसुअप्रतेकह्योच्छेतेहवोजहुं सोलमाज्ञाताना  
अध्ययननोअर्थसुअप्रते कहुं कुं उपनयगाथाकहेक्के सुबहुपिसुअत्यर्थवहुवणोतपनोक्को शक्कीधोच्छे नियाणावांधवाने दोसें दूषणेकरी  
दूष्योच्छतो तेतपसिवकल्याणकारीपदार्थपामिवाभणी नहइं नथाइं द्रोपदीने मोक्षभणीतपनहुवो जहजयाजिमकिलसत्यसाओसुकु  
मालिकानाजन्मने विषे नियाणोकीधोतेद्रोपदीइ भोगव्यो अभक्तिइ भंडीभक्तिइ करी अमनोज्ञपाडुयोदान पातसुपातनेविषेदीधोदा

रिभवंमिदोवईएत्ति समाप्तं षोडशाध्ययनविवरणं अथसप्तदशं व्याख्यायते अस्य च पूर्व्वेण सहायसभि संबंधः इहानंतराध्ययानिनिदान कृत्स्नितदानाद्वा अनर्थउक्तइहत्वि द्वियेभ्योऽनियंनितेभ्यः सउच्यते इत्येवंसंबंधमिदं सर्वसुगमं नवरंनष्टमईएत्त चक्षत्रानस्यविषया

अणत्यायजहकडुयंतुं वदाणंणागसि रिभवंमिदोवइएत्ति सोलसमेणायज्जकयणं सन्तत्तं १६ जइणंभंते स मणंणंभगवयामहावीरिणं जावसंपत्तेणं सोलसस्यणायज्जकयणस्स अथमइ प्रसूत्ते सतरसमस्सणंभंते णा यउभयणस्स मसणेणं भगवहामहावीरिणं जावसंपत्तेणं के अइ प्रसूत्ते एवं खलु जंबू तेणं कालेणं तेणं समएणं

नअनर्थभणीउइं जिमकडूआतुं वडानोदाननागसि रिनाभवने विषेद्रोपदीने अनर्थभणीउओ २ एसोलमो ज्ञातानो अध्ययन सूत्रार्थसंप र्णययोहिवे सतरमो ज्ञातानो अध्ययन कहेक्के एसतरमा अध्ययनो सोलमा अध्ययन संघाते एसंबंधजाणिवो एसोलमा अध्ययनने विषे निया णाने वांधवे करीभू डोदानते हयकी अनर्थकह्यो इहांसतरमा अध्ययनने विषे अरू ध्याजे पांचइ द्रियते हयकी अनर्थकहेक्के जंबू पूहे भग वनअमणभगवंतअमीमहावीरमो जपडूते सोलमा ज्ञाताना अध्ययननो एअर्थकह्यो तुम्हने तेमे तुम्हारसुखयकी सांभल्यो हिवे भंते

हृत्थिसीसेणामंणयरेहोत्था वसुओतत्थणं कण्णकैऊणामंरायाहोत्था वसुओतत्थणं हृत्थिसीसेणय  
 रिवहवेसंजत्ताणावा वाणियगापरिवसंति अड्डाजाव अपरिभूयाया विहोत्था तएणतेसिसंजत्ताणा  
 वावाणियगाणं अण्णयाकयाद्दं एगओसहिथाणंजहाअरहण्णए जावलवणससुद्धं अणेगाद्दं जोयण

हे भगवन् सतरमाज्ञातानाअध्ययननो कुणअर्थस्योअर्थकह्योक्तेकहो द्विवे सुधर्मास्वामिकहे इणंप्रकारे निच्चं हेजंबूतेकालने विषे  
 तेसमयने विषे हस्तिशीर्षनामानगररुद्धतो वर्णकउववाइथीजाणिवो तिहाकनककेतुनांसे राजाऊं तो वर्णकउववाइथीजाणवोतिहां  
 वसुओतत्थणं विषे घणासंजत्ताक० प्रदेशदेशांतरने विषे जाइवू व्यापारनिमित्ततेप्रधाननावावाहणना वाणियाव्यापारीवसेछे  
 वणुं अद्विवं ताछे तालगीजाअपरिभूतकोइपरभवीसके नहीं अण्णणीलक्ष्मीनाघणीछे तिवारेतेसंजत्ताप्रदेशने विषे जाइवू व्यापा  
 रीनिमित्ततेप्रधान वाहणनाव्यापारीयाने एकदाप्रखावे एकठामिलीने जिमअरहन्नकसेठिससुद्धेचढोछतो तिमतेसगलाव्यापा  
 रीवाहणपूरीलवणससुद्रप्रते चढाअनेकवणायोजनसयसेकडां ससुद्रमांघिजाताऊआ तिवारेतेवाहणनाव्यापारीयाने घणाउ

निश्चायकत्वान्नष्टश्रुतिकोनिर्णयमकःशास्त्रेणदिगादिविवेचनकस्यकरणेअसमर्थत्वात्नष्टसंज्ञोमनसोम्नांतत्वात्किसुक्तंभवतिस्त्वढोवि

सयाद्'उगाढायाविहोत्यातएणंतेसिंजाववहुण्डिप्रदयसयाद्'जहामागंदिद्यदारगाणंजावका  
लियवाएत्थससुत्थिएतेणंकालियवाएणंआहुणियमाणी३संचालिज्जमाणीसंखोभिज्जमाणीत  
त्येवपरिभमइतएणंसेणिज्जासएण्डुमइएण्डुसुइएण्डुससुमूढदिसाभाएजाएयाविहोत्याणयाण

त्यातउपद्रवादि कनासंइकडाजपनाजिममाकंदीनापुत्तानि'उतपातजपनाथातेहवाउत्पातजपनातांलगीजां कालिकावातप्रतिकूलवा  
यरोतिहांउपनोतेणंकालिकाभूंडेवायरे'करीकंपायमानथातीकृतीउपद्रवपामीकृतीनावाएकठामयकीबीजाठामथानकने'विषेजा  
वे'पामीवे'करीहालतीडोलतीछें'खोभनापामीकृतीहेठीवूडिवायकीतेनावामांहिरह्यालोकने'खोभनाउपंजवाथीतिहाजअरही  
परहीभसेछेनावाआधीचालेनहीं'तिवारे'तेनिर्यामकवाइणनोचलावकमालिककेहवोययोतेकहेछे'नाठीछेंमतिवुद्धिजेहनीनेलआ  
खिनाज्ञानने'पोताजाणिवाअपिनिश्चयपणायकीनष्टश्रुतिनाठोछें'श्रुतिसांभलिवोजेमालिमने'एतले'मालिमने'पोताने'शास्त्रे'क

निश्चितोदियांभागोविभागोयस्य समूहदिग्भाग' कुञ्चिधारादयोथानपात्र व्यापारविशेषनियोगिनः हिरसागरेत्यादि हिरण्ययाकरा

इकथरं देसंवादिंसिंवा विदिसिंवापोय वाहणवहि एत्तिक्कडुल हयमणसंकप्पे जावञ्जियायइ तए  
 गंतेबहवे कुञ्चिधाराय कण्ठधाराय गञ्जिञ्जग एयसंजत्ताणावा बाणियगाय जेणवसेणिज्जामए

रीपूर्वादिदिशिनिर्द्धारकरी विवेचननेकरवाने' विषेअसमर्थपणायकी नाठीछेसंज्ञामनने' अंतपणायकी सूढनिश्चयरहितपूर्वादिच्या  
 रदिशिनोभागविभागछे' जेमालिमने' एहवोदिशामूढयातोऊअओ मालिमनजाणोकुणेकेहादेशप्रते' जाइछेकेहीदिशिप्रते' केहीविदि  
 शिप्रते' एपवहणवाहणवहेछे इमसूढयईकरीने' आर्त्तरीद्रुध्यान चिंतामनमाहिंसंकल्पविकल्पकरुतोछतो चिंतातुरआर्त्तरीद्रुध्यानचौ  
 तवेछेतिवारपच्छीतेषणाकुञ्चिधारक०वाहणने' विऊंपासेथाप्याछे' आवेलकलावांलाकडानाचाटूयानाहलावणहाराकर्णधारवाहण  
 मांहिलाकूआगभिज्जवाहणमांहियाप्या राख्याउ' चनीचकामनाकरणहारा सायात्राप्रदेशांतरद्वीपांतरने' विषे जावावाछितानावा  
 हणनाव्यापारीतेसर्व चिंतातुरथयाछे' एकठाथई' एकठामिलीने' जिहांतेनिर्यामकवाहणनाचलावकछे' तिहांसगलाआव्याआवीने'

तेषु लवागच्छद्गत्ता एवं अथासौ किष्कुं तु मं देवाणुष्यिया लहयमणसं कप्पे जावज्जिभयायद्द तएणंसे  
 शिज्जामएते बहवे कुच्छिधारायुः एवं वयासौ एवं खलु अहं देवाणुष्यिया एडुमद्दएजाव अवहिहत्तए  
 त्तिकद्दु, तन्नो लहयमणसं कप्पे तएणंते कखधाराय तस्सणिज्जामयस्सअत्रंति एयमडुंसोच्चाणि सस्सभौ

इमकहताहअत्रा किमतुं हे देवानुप्रियहे नियामक आर्त्तरीद्रुध्यानचिंतामनमाहि संकल्पविकल्पध्याइच्छे वौतवेच्छे तिवारे तेनिर्याम  
 कमालिमतेषणाकुच्छिधाराखलासीयाप्रते इमकहतोह्मओद्दुणं प्रकारे निचे हे देवानुप्रियोऊं नष्टमतिकथयोछुं आंखिनाअज्ञान  
 ने पोतानाविषयजोवाना अपिनिश्चयपणायकीतथानाठोश्रुतिक शास्त्रनोजाणिवोमालिमने शास्त्रे करीपूर्वादिचारदिशाने विह  
 षावीने करवाने विषे असमर्थययोछुं मनमाहि आतपणुं पास्योछुं मूढविगतथयोछे वीसस्योछे दिशानोभागविभाग जेहने एहवासु  
 ढदिशाययोछुं नजाणुं जेकेहीदिशिविदिशिप्रते वाहणवहेछेइमजाणीने तेकारणथकीमनमाहि संकल्पविकल्पजपनोछे तिवारप  
 छीतेकर्णधारानाकूच्या तेनिर्यामकवाहणनामालिमनासमीपने विषे एसमाचारप्रते संभलीने हीयामाहिअवधारीने बीहनावास

या४ गृहायाकथवलिकम्भा करथलनङ्गुणं द्राणय खंदाणयजहामस्त्रिणाए जावउवायमाणचिद्धंति  
 तएणंसे णिज्जामएतओसुहुत्तंतरस्स लद्धमईएइ अमूढदिसाभाएजाएयाविहोत्या तएणंसेणिज्जाम  
 एतेबह्वेकुच्छिधाराय एवंवयासौएवंखलुअहं देवाणुप्पिया लद्धमईएजावअमूढदिसाभाएअमृहेणंदे

पाम्याच्छता पछेदेवतानीवलिकर्मपूजाकीधीपूजाकरीने' वेळ' हाथजोडीषणाइ' इप्रते' माने' खंधकात्ति कखामीप्रते' जिम्ममस्सीना  
 यनाअध्ययनने' विषे' अरहन्नकअधिकारे' तिमव्यापारीएसांननाइच्छणामान्याथा तिमइहांपिणमाने' इमअयापापणा देवतागोत्वदे  
 वतानाथ्यानथाताच्छतारहेछे तिवारपछीतेनिर्यामकवाहणनोचलावकमालिम तिवारे' तिहंयंथक्रीविषडीने' अंतरे' लब्बिमत्तिकनेत  
 ने' ज्ञाने' करीजाणे' तथामालिमने' शास्त्रे' करीपूर्वादिदिशिविहचीने' जाणे' अमूढदिशानिअयपूर्वादिदिशांना भागविभागनोजाण  
 हारइओ दिशामूढटल्योसघलीदिशिओलखतोइओ तिवारे' तेनिर्यामकमालिमते षणाकुच्छिधारानाअप्रते' चाट्थानाहलाव  
 णारंप्रते' इमकहतोइओइणेप्रकारे' हेदेवानुप्रियो लब्बमतिकच्छुंआखिने ज्ञानेदेखिबे' करी जाणुंछुंमालिमने' शास्त्रे' करीपूर्वादि

वाणुष्यियाकालियदीवतेणसंबूटा एसणंकालियदीवे आलोकिल्लइतएणंतेकुच्छिधारायतस्सणिल्ल्या  
 मगस्स अंतिएयमइंसोच्चा हइडुडुडांपयक्खिणणुणुलेणं वाएणंजेणेवकालीयदीवतेणेववउवागच्छइ  
 उवागच्छइत्ता पोयवहणंलंवेइत्ता एगट्टियाहिंकाणियदीवंउत्तरंति तत्थणंवहवेहिरसागरेयसु

च्यारदिशिविहचोने' निर्द्धारसहितजाणूँकुं मननो आतपणोपास्योनहीँकुं वाटजाणूँकुं अमूढदिशिपूर्वादिचारदिसिनाभागविभा  
 गने' जाणुँकुं आपणहे देवानुप्रियोकालिकदीपप्रते' तेणंसार्गे' आव्याद्धांजतस्याद्धा एआप्रत्यक्षकालीदीपजोवोदेखोआव्योक्के' तिवारे'  
 तेकुच्छिधाराकूआखलासीआ तेनिर्यामकमालिमनासमीपने' विषे' एअर्थप्रते' सांभलीने' हर्षसंतोषपास्याद्धता प्रदक्षिणासुकूलमला  
 सुखकारीवायराने' वावे' करी जिहाकालीयदीपक्के' तिहंआवे' आवीने' वाहणप्रते' लंभावे' नागरे' नागरीने' एकअस्थिकानान्हीना  
 वाएकरीकालिकदीपप्रते' ऊतरेऊतरीने' तिहंषणाहिरेय्यरूपानाआगरक्के' घणीरूपानीखाण्हेतेप्रते' देखे' तिहावणसोनानाआ  
 गरक्के' सोनानीखाण्हे' तिहंषणारत्ननाआगरक्के' रतनउपजवानीभूमिक्के' तेप्रते' देखे' वणाहीरानीऊपजवानी आगरक्केखाण्हे'





असुवर्णाकरांश्चरत्नाकरांश्चतदुत्पत्तिभूमोरित्यर्थः बह्वंश्चाऽत्वाऽन्घोटकान्पृथंतेस्त्वकिंतेत्तिकिंभतान्अतोच्यते हरीत्या आद्रुषवेदोत्ति  
 आकीर्णजात्याश्वाः तेषांवेदोत्तिवर्णनावाक्यपद्धतिराकीर्णवेष्टकः सचायं हरिरेणुसोशिस्तुत्तगसकविलमज्जारपायकुक्षवोडरुसुगसाम  
 वशागोह्रमगोरंगोरपाडलागोरपावालवशायधूमवशाइकेई १ तलपत्तरिदृवशासा लीवशाथभासवशाथकेईजंपिथतिलकीडगायसोलो  
 यरिदृगायपुडपईयायकाणपट्टायेकेई २ चक्रागपट्टवशासा रसवशाथहंसवशाथकेई के इत्यश्रवशापापकतलेमेहवशाई ३ संभाणुरागसरि  
 सासुयसुहगुंजद्धरागसरिसत्यकेई एलापाडलगोरारासामलयागवलसामलापुणाकेई ४ वह्वेअणे अशिद्देसासामाकासीसरत्तपीयाञ्ज  
 तविसुद्धावियर्णं आद्रुषजाइकुलविशीयमच्छराहयवराजहोवएसकमवाहिनोविशर्णंसिक्खाविशीयविशयालं वशावगघशाधो रणन्ति

वशागरेयरयणागरेय वद्वरागरेयवहवेतत्य आसेपासंति किंते हरिरेणुसो शिसुत्तग आद्रुषवेदो

तथावलीघणातिहाश्र्वान्घोडाप्रते सद्भव्यापारीदेखे किंतेकथंभतान् केहवाछे घोडातेकहीयेछे हरीरेणुहलिद्रवर्णानीलाछे सो  
 शिसुत्तगक्र०वालांनोचामडादिकनो दोडोकडिवांधवानोतेप्राये कालोहोय तेहनावर्णसरिखाकालाछे घोडातथा आद्रुषजातिवंत

वईजईणसिक्खयगईकित्तिसणसाविउव्वहंताइं अणेगाइं आससयाइं पासत्तित्तित्तलहरिद्रेणवच्चनीलवर्षपासवः श्रोणिस्सूतकंचवालका  
 नौचस्सईदिदवरकरूपं कट्टीसूत्रं तद्धिप्रायः कालं भवति सहकपिलेन पच्चिविशेषेणयोमाज्जौरोविडालः सचतथापादकुक्कटः कुक्कटविशेषः  
 सचतथावोडं कर्पासीफलंतस्यसमुद्भकंसंपुटमभिन्नावस्थं कर्पासीफलसित्यर्थः तस्मै तिद्वंद्वसतस्तेषामिवश्यामोवर्षोयेषांतेतथाइहचसर्व  
 त्वद्वितीयार्थप्रथमाऽस्तस्नानिततथा गोधूमोधान्यविशेषस्तद्वज्जौरसंगंयेषातेतथा तथागोरीपाटलापुष्पजातिविशेषस्तद्वद्ये गौरास्तं तथा  
 तत पदद्वयस्यकर्मधारयः गोधूमगौरांगौरपाटलागौरास्तान् तथाप्रवालवर्णींश्चविद्रुमवर्णीन् अभिनवपल्लववर्णीन्वारक्तानित्यर्थः धू  
 मवर्णायत्तिधूमवर्णाश्चपाडुरानित्यर्थः केइतिकांश्चिन्नसर्वांनित्यर्थः इदंचहरीत्यतश्चारभ्यपांडुशब्दे कल्पिताइं रूपकं भवति १ तल  
 पत्राणितालाभिधानदृक्षपर्णा निरिष्टाचमदिरातद्वर्णोयेषाते तलपत्ररिष्टावर्णीस्तान् तथाशालिवर्णींश्च शुक्लानित्यर्थः भासवर्षाय  
 त्तिभस्सवर्णींश्चभाषोवा पच्चिविशेषस्तद्वर्णींश्चकाश्चिदित्यर्थः जंपियतिलकीडगायत्तियापिताः कालान्तरंप्रापितायेतिलधान्यविशेषा  
 स्तेषुयेकीटकास्तद्वद्येवर्णसाधर्म्यात्ते तथातांश्चयापिततिलकीटकांश्च सोल्योरिडुगायत्तिसावलोकांसोद्योतं येष्वेष्टकंरत्नविशेषस्तद्वद्ये  
 वर्षीसाधर्म्यात्ते सावलोकरिष्टकास्ताश्च पुंड्रपद्मयायत्ति पुंड्रनिधवलानिपदानिपादायेषां तेतथातएवपुंड्रपदिकास्तांश्च तथाकनक

पृष्ठान्काञ्चिदितिरूपकं २ चक्रागपट्टवसिन्तिचक्रकाकः पञ्चिविशेषस्तृष्टस्यै षवर्णोयेषांते तथातानुसारसवर्णोच्चहंसवर्णान्काञ्चित्  
 इतिपद्याद्धं केइत्यञ्जभवसिन्तिकाञ्चिद्वत्वाञ्जवर्णान् पक्ततलमेहवसायति पक्तःपक्तपतोयस्तलस्तालहचः सचमेवञ्चेतिविग्रहसस्येवव  
 र्णोयेषातेतथातान् पविरलमेहवसिन्तिकाचित्पाठः तथात्रहुवसाकेइत्ति बन्धवर्णान्काञ्चिन्पिं गानित्यर्थः बाहुवर्णानितिकाचिद्दृश्य  
 तेरूपकमिदं ३ तथासंभाणुरागसरिसत्ति संध्यानुरागेणसहयान्वर्णं तद्व्यर्थः सुयसुहगुंजद्धरागसरिसे इत्यकेइत्तिसुकसुखस्यगुं  
 जाद्धं स्यचप्रतीतस्य रागेणसहयोरानोयेषातेतथातान् अत्रइहकाञ्चिदित्यद्धं एलापाडलगेरिति एलापाटलापडलोवर्णं विशेषोऽथवा  
 एलाचपाटलाचेत्येलापाटले तद्वन्नोरानोयेतेतथातान् सामलयागवलसामलापुणोकेइत्तिस्थामलता त्रियंगुलतागवलंचमहिषमृंगंतह  
 ष्चरामलानुस्थामान् पुनःकाञ्चिदितिरूपकं ४ बद्धवेअस्ये यनिहे सत्तिएकवर्णेनाव्यपदेश्यानित्यर्थः अतएवाहसामाकासीसरत्तपायति  
 स्थामानुकासीसंरागद्रव्यंतदद्ये तेकासीसाखेचरक्ताचपीताञ्चयेते तथातानुशब्दानित्यर्थः अच्चं तविसुद्धावियण्णतिनिर्दोषाच्चैत्यर्थः  
 णमित्यलंकारे आहूस्वजाइकुलविणीयगवमच्छरन्ति आकीर्णानाजवादिगुणयुक्तानांसंबन्धिनी जातिकुलेयेषा तेतथातेचतेविनीता  
 अगतमत्स्यराश्चपरस्य रासहनवर्जिता निर्मसकाचेतितेथतान् हयवरत्तिहयानामखानामध्ये वरान् प्रधानानित्यर्थः जहोवदेशकम





षाहिणोविययंति यत्रोपदेशक्रममिवउपदिष्टपरिपाच्यनतिक्रमेणैव वोढुंशीलंयेषातथातानपिचणमित्यलंकारेसिक्खविणीयविणय  
 च्चिच्चियेवाग्घट्टमकपुरुषशिच्चाकरणादिविविनीतोऽवाप्तोविनयोयैस्तेतथातान् लंघणवगणघावणधोरण निवर्द्धजईणसिक्खियगइन्ति  
 लंघनंगर्त्तादीनां वल्लानंकूर्दनंधावनंवेगवज्जमनंधोरणंचतुरत्वंगतिविषयं त्वपदीमस्यै वंगभूस्यागतिविशेषः एतद्रूपाजविनीवेगवती  
 शिचि तेवशिच्चितागतिर्यैस्तेतथातान् किंतेइतिकमपरंमणसाविउव्विहंताइं तिमनसापिचेतसार्पिनकेवलंचपुषाउव्विहंताइं तिउत्पत  
 तिअणेगाइं आससयाइं तिनकेवलमखानेकैकशोपिअखयतानिपश्यंतिस्मे तिगमनिकामात्रमेतदस्यवर्णकस्यभावाथस्तु वह्नुतवोध्यइं

तएणंतेआसातेवाणियएपासंति तेषिंघअग्घायंतिभैयातत्याउव्विग्गाउव्विग्गमणा तअओअणेगाइ

घोडाकेवेढोक० तेजातिवंत घोडानावर्णनाअर्थनीपइति सालहोत्वग्रथमांहिजेहवा घोडावखांख्याकेतेहवा अनेकप्रकारनाघोडाके  
 तिषारेतेघोडाव्यापारीचांप्रतेदेखेदेखीनेतेव्यापारीधानांगप्रतेआम्रेसूंधेसूंधीनेबीहनाघोडावाठानाठा घोडाहेगपास्यापलाय  
 वंतययाउहेगचित्तवंतयथा घोडातिहांथकीतेघोडानासीनेअनेकवणायोजनतांइकूदीनेनासीगयातेमनुष्यदीठामाटेतेघोडातिहां

जोयणाइं लभमंति तेणं तथ्यपलरगोयरा पलरतणपाणियणिभयाणिरुव्विग्गासुहं सुहेरं विहरं तित  
 एणं ते संजत्ताणावावाणियगा अस्समस्सं एवंवयासीकिसं अमहेदेवाणुप्पियाअसेहिंदूमेणं वहेवेहिर  
 खागरेय सुवखागरेयत्रयरागरेयंतसिंखलुअमहं हिरस्सय सुवस्सयस्सय रयणस्सय वदूरस्सय पोयवहणं भ  
 रित्तएत्ति कट्टु अस्समस्सएयमइं पडिसुणेइं रत्ताहिरस्सय सुवस्सय रयणस्सय वय रस्सय तणस्सय कट्टु

प्रचुरघणाचरवानाखितपांमताच्छता मचुरघणाहणां चारिपांणीपांमताच्छता निर्भयथकाउद्वेगरहितच्छता सुखे समाधिद्वं विचरेच्छे  
 हेच्छे दिवारे ते प्रदेशना जावणहारवाहणनाय्यापारी एकठामिलीने मां होमां हि एहवाविचारप्रते करताह्मणा किमस्युं आपणने  
 हे देवा सुश्रियोइणे षोडे करी इणे घणा रूपांना आगरच्छे घणा सोनांना आगरच्छे घणा हीराना आगरच्छे तेका  
 रणथकी अयं कट्टु खलु निचे आपणाने रूपानो सोनानो रतननो हीरानो वाहणप्रते भरावभणी प्रवर्त्तीये तो वारूइमकहीने मां होमां  
 हि एविचारप्रते अंगीकारकरे अंगीकार करीने रूपानो सोनानो रतननो हीरानो लणाना काठलाकडाने तिहांना पांणीनो वाहण



स्वयंपाणियस्वयंपोयवहणंभरे इरुत्ताप्रथक्विण्णणुक्कुलेणंवाएणंजेणवगंभीरपोयप्रदृणेतेणेवउवागच्छ  
 इरुत्तापोयवहणंलंवेइरुत्तासगडोसागडंसज्जेइरुत्ता तंहिरसुं चजाववइरुं च एगद्वियाहिंपोयवहणाओ  
 संचारेइरुत्तासगडोसागडंजेएइ जेणेवहत्थिसीसेणयरे तेणेवउवागच्छइरुत्ता हत्थिसीस्वणयरस्सव  
 हियाअग्गुज्जाणेसत्थणि वेसंकरेइरुत्ता सगडोसागडंभोएइरुत्ता महत्थंजावपाहुडंगिरहइरुत्ताह

भरेभरीने प्रदक्षिणानुक्कुलभलासुभकारीवायुरावावे करी जिहंगंभीरपोतपाटणच्छे तिहंआवे आवीने वाहणप्रते लांवावे नांगरे  
 नांगरीने गाडलीगाडलानासमूहसज्जकरेसज्जकरीने तेरूपोसोनोरलहीरासर्वमोटा वाहणसंहियकीजतारीने एकास्थिकाना  
 के वाहणेभस्योमोटावाहणसंहियकी संचारेकाठे पछे तेनान्हीनावायकीकाठीने गाडलीगाडलाभरेभरीने पछे तेजोतरंजोत  
 रीने जिहंहस्तिशीर्षनगरच्छे तिहंआवे आवीने हस्तिशीर्षनामानगरने वाहिर प्रथमपहिलाआगलाउद्यानने सायनाउतारा  
 प्रते करे करीने गाडलीगाडलानासमूहप्रते सूंकेसूंकीने छोडीने मोटोराने योग्यवड्डहृत्यएहवा भेटणप्रते लीथे लेइने ह

त्थिसीसंणथरं अणप्पविसंतिरुत्ता जेणिवकण्णकेजराया तेणिवलुवागच्छंतिरुत्ताजावपाहुं उवणेइ  
 तएणसेकण्णकेजराया तेसिसंजत्तायावावाणियणाणंतंमहत्थंइ जावपडिच्छइरुत्ता तेसंजत्तावाणिय  
 नेएवंवयासीतुभंणंदेवाणुप्पिया गामागरजावआहिंडहलवणसमुहं अभिक्खणंइपोयवहणेणंओगा  
 हहतंअत्थियाइत्थकिइतेकिहिंविअच्छेरएदिइपुब्बेतएणंतेसंजत्तावाणियगाकण्णकेजंरायंएवंवयासी

स्तिशीर्षनगरमाहिप्रवेशकरे करीने जिहंकाकनककेतुराजाच्छेतिहंआवे आवीने तेभेटणोराने आगलिम्भके आपे तिवारे तेक  
 नककेतुराजा तेपरदेशनाजावणहारवाहणनाव्यापारीयांनो तेवज्जम्बल्यराजाने योग्यसोढो जेभेटणोतेप्रते अंगीकारकरे लेइने  
 राखीने तेपरदेशनाजावणहारा वाहणनाव्यापारीयांप्रते इणे प्रकारे पूछतोडवोरजा हेदेवानुप्रियोतुम्हे गामआगरनगरप्रमुख  
 सगले हींछो धरिम्भमणकरोछो वलीलवणसमुद्रप्रते वारंवारवाहणे करीअवगाहोछो तेकारणयकीकहोतुम्हे किहांइअचरिज  
 प्रथमदीढोछे तेकहो तिवारे तेपरदेशनाजावणहारवाहणनाव्यापारीकनककेतुराजाप्रते इमकहताहुआ इणे प्रकारे खलुनिसे

एवं खलु अम्हे देवाणुं प्रिया इहेव हत्थिसीसेणयरे परिवसामोतं चेव जावकालियदौवंतेणं रूंबूढा तत्थणं बहवे  
 हिरखागरेयजाववहवे तत्थ आसेकिंते हरिरेणुजावअणेगाइ जोयणाइ उभमं तितएणं सामीअरुहेहिंका  
 लियदौवे आसाअच्छे रएदिइ पुवेतएणं सेकरणके करायते सिंसं जत्ताणं अंति एयमइ सोच्चाते संजत्तए एवं  
 वयासौगच्छ हणंतु भेदेवाणुं प्रियाममकोडुं विद्ययुरिसेहिंसद्धिं कालियदौवाओते आसेआणे हतएणं संज

हे देवानुप्रिय हे महाराज अम्हे आहिजहस्त्रिशीर्षनगरने विषे वसांछा पछे तेसर्व पाछलीपरे तांलगीजाकालिकहीपप्रते तेजतस्याति  
 हांघणारूपासो नारतनहीरानाआगरदीठा तथावलीषणातिहांछे घोडा तेकेहवाछे नीलाहलिद्रवर्णांछे तांलगीजाअम्हारागंधप्रते  
 सूंधीने वीहनानाठाउद्देगपास्याच्छता अनेकघणायोजनलगीकूदीने नासीगयाते एस्वामीअम्हे कालिकहीपने विषे अश्लाघोडानाअच  
 रिजरूपप्रथमपहिलादीठा तिवारपछीतेकनककेतुराजा तेपरदेशनाजावणहारावाहणना व्यापारीनासमीपने विषे एअर्थप्रते सां  
 भलीने तेपरद्वीपातरनाजावणहारा वाहणनाव्यापारीयाप्रते इमकहतोह अोजओतुम्हे हे देवानुप्रियो माहराअदेशकारीपुरुषां



तिपत्तरगोधरत्तिप्रचुरवर्णनेत्वाः वीणाणएत्यादिवीणादीनातंतीसंख्यादिक्ततोविशेषः भंभाढक्काकोष्ठपुडेत्यादिकोष्ठपुटोयपद्य'तेतेकोष्ठ

त्तावाणियगाकणगकेऊरायं एवंवयासीएवंसामीत्तिआणाएविणएणंपडिसुणेइतएणंसेकणगकेऊरायाको  
 डु'वियपुरिसासहाविइरत्ताएवंवयासौगच्छहणंतुभेदेवाणुप्पियासंजत्तएहिंसड्ढिकालियदीवाओरुमआ  
 सेआणेहेतेविपडिसुणेइतएणंतेकोडु'वियपुरिसासगडीसागडसज्जेइतत्थणंबहुणंवौणाणयवसुकीणयभा  
 मरीणयकच्छभौणयभंभाणयच्छ।भासरीणयविचित्तवीणाणय असोसिंचवहुणंसोइ'दियपाडगाणंदव्वा

संघाते'कालिकद्वीपथकी षोडाप्रते'आणोलेइआवो तिवारे'तेवाहणनाव्यापारी कनककेतुराजाप्रते'इमकहताह्वा इमहांस्वामी  
 तहत्तिआच्चाइ'विनयकरी अंगोकारकरेतिवारिते कनककेतुराजाआदेशकारीपुरुषांप्रते'तेडावेतेडावीने इमकहतोडओजाओ  
 चालोतुम्हे देवानुप्रियोपरद्वीपना जावणहारारावाहणनाव्यापारीसंघाते'कालिकद्वीपथकीमाहरेकाजे षोडालेइआवोतेसेवकपणितह  
 त्तिकरीअंगीकारकरे तिवारे'तेआदेशकारीपुरुष गाडलीगाडलासज्जकरेसज्जकरीने तेगाडीगाडामंहितिहांघणाप्रकारनावीणा

पुटावावासविशेषाः तेषाञ्च इहवावत्करणादिदृश्यं पत्तपुडाणयपत्ताणितमालपत्तादीनि चोयपुडाणयचोयत्तित्वक्पुटं पत्तादिसयंतज्ञान

शंसगडौसागडंभरेइरुत्तावहुणंकिण्हाणयजावसुक्किलाणयकडुकम्भाणयगंठिसाणयजावसंधाइभाणय  
अस्सेसिंचवहुणंचक्खिदियपालुगारंदव्वाणंसगडौसागडंभरिंतिबहुणंकोइपुडाणयपत्तपुडाणयकेइ  
यपुडाणयएलापुडाणयकुं कुसंपुडाणयउसौरपुडाणयचंपगपुडाणयजावअस्सेसिंच वहुणंघाणिंदिय

दिवजितल्यो वल्लकीवाजितलोहनीतातितेवल्लकी भामरीवीणाविशेषकच्छभीवीणा तेसारदानाहाथमाहुवे भंभाढकाभेरीवाजित  
छभसरीनीवीणासोरोवायतेवाजित तथाविचितघणाप्रकारानात्रीजाइवीणादिवाजित तथावलीअनेराइंधणाओते द्वियकाननाप्र  
योगकानानिसुखकारी एहवाडूव्यानांवाजितानां गाडीगाडाभरेभरीने पच्छेघणाकालावर्णना नीलावणंरातावर्णनापीलावर्णनांधव  
लावर्णनाएहवारूपानां काठनांचीवामणरूपगूंथ्या तालगीजांसंधातिमपयंतसगरूप तथावलीअनें रावीजाइंधं घणाचक्षरिंद्रीच  
नेतनाप्रयोग्यअंखेजोवायोग्यएहवारूपना तेडूव्यतेहनांगाडीगाडाभरेभरीने पच्छेघणाकोष्ठपुटनेविषे जेपचावीयेपच्छेयंतपीलाईतेते

नंतगरपुडाणय एलापुडाणयहिरिवेरपुडाणयचंदणपुडाणयकुंमपुडाणयउसीरपुडाणयचंपकपुडाणयमरुयगपुडाणयदमगपुडाणय  
जातिपुडाणयजूहियापुडाणय मक्षियापुडाणयवासंतियापुडाणयजहियापुडाणयमक्षियापुडाणय वासंतियापुडाणय  
यकेइयापुडाणयकथरपुडाणय पाडलपुडाणयतिइहतगरादीनिगंधद्रव्याणि गार्धिकप्रसिद्धानिहरिवेरंवालकः उसीरंबीरणीमूलं  
केचित्तुपुष्पजातिविशेष लोकप्रसिद्धाः पुष्पजातयश्चप्रायोयद्यापिबहूदिनक्षमानभवंति तथाप्यु पायतःकतिपयदिनक्षमाःसंभाव्यं तेनच  
शुष्कतायामपितासांसर्ष्वथा शुभगंधाभावइतितद्रग्रहणमिहादुष्टमिति तथाबहूस्वत्तिवह्वोःखंडादेःपुष्पोत्तरा पद्मोत्तराचयर्कराभेदा

पाउगणंदव्वाणंसगडौसागडंभरितिबहुस्वखंडस्वयगुलस्वयसक्कराएयमच्छंडियाएयपुण्फुत्तरपउसुत्तर

लसुगंधकेवटोतेलमोगरोतेलजाचेलतेलसुगंध चूआचंदनअगरकपूरइत्यादिक अनेकप्रकारनावीजाघणासुगंधतेल घ्राणेंद्रप्रायोग्यना  
कनेयोग्यएहवासुगंधद्रव्यानां गाडीगाडांभरेभरीने घणाखांडनागोलनासाकरना मत्स्यंडीरातीखांडना पुष्पोत्तरपद्मोत्तएवेह  
प्रकारसाकरनाभेदना तथाअनेराइवीजाघणाजीभनास्वादनेजोम्यएहवा द्रव्यवस्तुनागडीगाडानाससूहभरे पछेंघणाकीधापूखाके

वेवकोचवाणयत्तिरुत्तपूरितपटकानांप्रावाराः प्रावरणविशेषानचतानिजीनानिमलयानि असूरकाणिवासनविशेषाः अथवा मलयानि  
मलयदेशोत्पन्नाः वस्तुविशेषाः पाठांतरेण मसगाणियत्तिमथकाकृतिमंडितावस्तुविशेषाः शिलापट्टाः मरुणशिलाः समिथस्वत्तिकशि  
ष्कायाः खलिणहियत्ति खलीनैः कविकैः उवीलणाहियत्ति अवपीडनाभिर्वधविशेषैः पाठांतरे अहिलाणे हियसुखबंधनविशेषैः पडवाण

अखे सिंचजिभिंदिपपाउगगाणंदव्वाणंसगडौसागडंभरिंतिबहुणंकोयवाणयंकंवल्लाणयप्रावरणाणय  
मलथाणयमसूराणयसितावडुाणय जावहंसगभभाणयअखे सिंचफ्रासिंदिय पाउगगाणंदव्वाणंसगडौ  
सागडंभरेइइत्तासगडौसागडंजोएइइत्ताजेणेवगंगीरपोयपट्टुणेतेणेवउवागच्छइइत्तासगडौसागडंमो

पाटाशीतकालिषणाआवे तेवखलविशेषकंवलरतनकानलावखलविशेष प्रावरणविशेषनवांवल्लमलयदेशनांवल्लविशेष मसूरधानविशेष  
नावल्लशिलापट्टसूहालावल्लविशेष हीररेसमनांवल्लतांलगीजाहंसगर्भधोला खूआलावल्लअनेकतथावली अनेरावीजाइंवल्लस्यथने  
द्वियशरीरनेसुखकारीफरस एहवावल्लनाद्रव्यनागाडीगाडाभरेभरीने गाडीगाडाजोतरजेतरने जिहंगंभीरपोतपाटणछेतिहं

एइपोयवहणंसज्जे इतेसिंउक्किडाणंसहफरिसरसरूवगंधाणंकइस्सयपाणिस्सयतंदुलाणयसमियस्सय  
 गोरसस्सयजावअखेसिंचबहुणंपोयवहणप्रउग्गाणंदव्वाणंपोयवहणंभरिंतिइक्खिणायुवूलेणंवाएणंजे  
 णेवकालियदीवे तेणेवउवागच्छंतिपोयवहणंलंवेइ ताइउक्किडाइंसहफरिसरसरूवगंधाइंएगट्टिया  
 हिंकालियदीवंउत्तारेइरत्ताजहिंरचणंतेआसाआसयंतिवासयंतवाचिइंतिवातुयइंतिवातहिंरचणं

आवेआवीने गाडीगाडलाउतारेउतारीने वाहणप्रते संज्जकरेसज्जकरीने तेउत्तदृष्टायब्दफरिसरसरूवगंधएसगली वस्तुलेईनेकाठ  
 नेपाणीने तंडुलचावलचोखाइंकणिकआटाने गोरसदहीनापालूआने तालगीजांअनेकबीजावलीषणावाहणसांहि भरिवायोग्यते  
 सगलीवस्तुने वाहणसांहिभरिने दक्षिणातुकुलपूठिनासुखकारी वायुरावावेकरीजिहंआकालकहीपछे तिहंआवे आवीनेवाहण  
 लंवावेवाहणप्रते नांगरीने तेउत्तदृष्टीसब्दफरिसरसरूवगंधपांचप्रकारनीवस्तुप्रतेकाढीनेएकअस्थिकानाङ्गीजोनावाअभरिनेएकअ  
 स्थिकानाङ्गीएनावाएकरीकालकहीपप्रते उतारेजतारीने जिहंरतेषोडावेसेसूवेउभारेके लांगयइसूवेकेतिहंरते तेठामनेविषे

तेकोडुं वियप्ररिसाताओवीणाओय अस्माणियव हूणिसोइं दियप्राउग्गाणिद्व्वाणिसमुदीरेमाणां  
 ठवेइतेसिंचणंप्रासेठावेइणिसिञ्चलाणिणफ्रंदा तुसिणैयाचिइति जत्यइतेआसाआसयंतिपु तत्यतत्यणं  
 कोडुं वियपुविसात्रहूणिकिरहूणिय कइकम्माणियजवसंघाइस्माणिय अस्माणियवहूणिचक्खिदि  
 यप्राउग्गाणिद्व्वाणिठवेइ तेसिंपरिपेरंतेपासएठवेइ णिञ्चलाणिफ्रंदातुसिणैयाचिइति जत्यइआ

तेराजानाआदेशकारीपुरुष तेवीणाआदिदेइसगलावाजित् अनेरावीजाइपिणवाजित् घणाएह्वाकानानिसुखकारी प्रयोगद्रव्यरू  
 पवाजित्प्रते' समुदीरताउदीरतावजाडताथापेयापीने तेषोडानाचउफेरपासानेविषे वीणादिसवंधथापेयापीने' तेसेवकनिञ्चलहा  
 यपगअणफ्रंकावताअणहलावताअता छानाअणवोल्याअतातेवीणादिवाजित्वाडताअतारहेअे तथावलीजिहंरतेघोडावेसेअेसू  
 वेअेउभारहेलावायाइअे, तिहांतिहांकोटुं, विकराजानाआदेशकारीपुरिस घणाकालानीलारातापीलाधोलावणंनारूपलाकडांड  
 परिआलेख्यारूपतालगीजां काठनापूतलांघणीघणुंचीतख्यासंघातिमादि रूपअनेरावीजाइघणानेलेजोवायोग्य सुखकारीनेतनेदे

सा आसयंति तत्पथं तेषु संवत्सरेषु कोऽप्युडाण्यस्येति संवत्सरेषु ज्येष्ठ्यादिभिर्यजुषोः  
 तितेति संपरिपेरंते जावचिद्वृत्तिजन्थं आसास्यंति तत्पथं गुलस्यजावत्स्येति संवत्सरेषु  
 ज्येष्ठ्यादिभिर्यजुषोः तितेति संपरिपेरंते जावचिद्वृत्तिजन्थं आसास्यंति तत्पथं गुलस्यजावत्स्येति  
 संवत्सरेषु ज्येष्ठ्यादिभिर्यजुषोः तितेति संपरिपेरंते जावचिद्वृत्तिजन्थं आसास्यंति तत्पथं गुलस्यजावत्स्येति

खिवायोग्यद्रव्यरूपनाते प्रथमापेसूकेतेषोडानाचउफेरपासाने विशेषथापेथापीने निश्चलहाथप्रअणफरकावताअणहलावताछ्छाना  
 वेसीरहेच्छेवली जिह्वंतिघोडावेसेच्छेसूवेच्छेउभारहेच्छेतिहंतिघंतिघणाकोटपुटसुगंधतेलादिक्नुनावलीअनेराद्वीजाप्राणोद्वयने  
 नाकनायोग्यसुखकारीद्रव्यनापुंजनाससूहकरेतेषोडानाचउफेरपासानेविषेसूकेवलीजिह्वंतिघोडावेसेसूवेच्छेउभारेच्छेतिहंति  
 हं गुलखाडनासाकरनावलीअनेरावीजाषणाभातचोखासौठाईनाससूहनजीभनेस्वादेने सुखकारीयोग्यद्रव्यनापुंजससूहकरे करी  
 ने विरडाखणेखणीनेगुलनापाणीनेभरेखाडनापणीनेभरेअनेरावीजाईषणापाणीनेवैरामाहिभरेभरीनेतेषोडानाचउफेरपासाप्रते

हियत्तिपटतावकंपयीणस्याधोयद्दीवतइति शेषंप्रायःप्रसिद्धमयेद्वियासंहरतानां स्वरूपसैद्वियासंवरदोषस्यचाभिधायकं गाथाकदंबकं

वेकोयवयाजावसिलावदृयाअखाणियफ्रासिदियाइं अत्युयपच्चुत्ययाइठवेइइत्ता तेसिंपरिपेरंतेणंजावचि  
इंतितएणंतेआसाजेणेवउक्किइसइफरिसरसरुवगंधा तेणेवउवागच्छइइत्ता तत्यणंअत्येगइयाआसाअ  
पुवाणंइमेसइफरिसरसरुवगंधात्तिकइ, तेसुउक्किइ सुसइफरिसरसरुवगंधिसुअसुच्छिया४तेसिंउक्किइवाणं

थापेम्बकीने तेसेवकळानावेसेतेषोडानेपासेवलीजिहांजिहांतेषोडावेसेकें सूवेकेतिहांतिहांतेसेवकषणारू' इ भस्यावखपटकाकांवल  
सिलापट्टं'हालावख अनैराईवीजाषणावखयरीरनेसुखकारीवख एहवाउत्तमलगडाउपरउपरिपाथरीने सुकेषोडानावेसिवाने  
ठामेतेसिंतेषोडानाचोफेरपासानेविषे प्रेरताकृतातेसेवकहाथपगअणहलावताछानावेसीरहेके तितारपच्छीतेषोडाचालतारजिहां  
उत्कटाशब्दफरिसररूपगंध एहवापांचप्रकारनीवस्तुम्'कीकें तिहांआव्याआवीने'तिहा केतलाएकषोडातेसर्ववस्तुदेखें एअपूर्वअ  
नोपमएप्रतच्चवीणावाजिवशब्द फरिसररूपगंधकेइमजांणीने इमकहीनेतेउत्कटाशब्दफरिसररूपगंधप्रमुख अनोपमवस्तुनेंवि



सहफरिसजावगंधाणंदूररेणं अवक्कसंतितेणंतथ्यपडरगोयरापडरतणपाणियाणिभययाणिरुवि  
ग्गासुहंसुहेणंविहरंति एवामेवसमणालसोजोअरुहंणिगंगंथोणिगंगंथीवावासहफरिसाणोसज्जइ४से  
णंदइहलोएचेववज्जणंसमणणंणंबज्जणंसमणोणंणंबज्जणंसावयाणंबज्जणंसावियाणंअच्चणिज्जेजाववीइवयइ

पेअसूच्छीणाअलोभीयाथयासूच्छींपाम्यानहीं तेउत्तकथाशब्दफरिसरसरूपगंधप्रमुखसगली वस्तुनेंदूरदूरवेगलीम्हंकेंछांडेपरिहरंते  
घोडातेवननेविषे प्रचुरघणालणचारिनाखितमांहिचरताकृता घणापांणीपीताकृता भयउपद्रवरहितकृता उहेगउपापलारहितकृता  
सुखेसमाधिइपोतानीइच्छाइ तेघोडाविचरेछेइमएणेहथातेकरीसाधुसाधवीनेओपमाकहेछेहेअमणोआउखावंतोजेअमारसा  
धुसाधवीदीचालीधाकृता शब्दगीतगाननेविषे फरसस्त्रीनाफरसनेविषे रसमीठातीखासरसआहारनेविषे स्त्रीनारूपनेविषेभला  
गंधसुगंधवस्तुनेविषे एपांचइद्रियनाभोगनेविषे जेसज्जनथाइरागनधरेसूच्छींपामेनहीं तेसाधुसाधवीइहलोकआभवनेविषे  
चेवनिचेघणासाधुसाधवीआवकआवकाने अर्चनीयपूजवायोग्यऊई तालगीजाअनुक्रमेपरभवनेविषे मोचजास्येजेविषयसेवेनहीं

तत्प्राणं अत्येगद्वया आसा जेणेवते उक्लिष्टा सह फरिसरसरुवगंधा तेणेव उवागच्छइरता ते सुउक्लिष्टे  
सुसह फरसभू सुच्छिया जावअज्भोववणा आसे विउं प्रयत्तेयाविहोत्या तएणं आसाते उक्लिष्टसहदुआ  
सेत्रमाणाते हिं वल्लहिं वूडेहियप्रासेहिय गलए सुयप्राए सुयवउभंति तएणं कोडुं विद्याते आसे गिणहंति

तयातिहावलीकेतलाद्रकषोडा जिहाते उक्लिष्टा उतमशब्दफरिसररुपगंध तिहाआव्याआवीनें ते उक्लिष्टा अनोपमशब्दफरिसरस  
रूपगंधप्रमुखनें विषे मूर्च्छीपात्याच्छता तां लगीजामोहपांस्याच्छता एहवाअध्यवसायऊपनाच्छता तेसांभलिवानीजोवानीखावानीपा  
थरवानी सुगंधलेवानी एपाचप्रकारनीवस्तु सेविवाभणीसावधानथाताह्वा तिवारे तेषोडाते उक्लिष्टा अनोपम शब्दफरिसरुपगंधप्र  
तें आसेवताच्छता भोगवताच्छता विष्टासकरताऊआतिवारे तेणे राजाने सेवकेषु कूडकपटे करी षणे पासे करीषणीवाडे वाडे करी  
षणे रासडे करी तेषोडानागलाने विषे तेषोडानापगने विषे बांधे तिवारे तेकोडुं विद्यआदेशकारीपुरुष तेषोडाप्रते ग्रहे लीये लेई  
नें नान्हीइं नावाइं इं करी वाहणमोटावाहणमाहिचढावे चढावीनें लणनें काष्टनें पांणीनें चोखाने आटाने वाहणमां हिभरे ति

एगद्वियाहिंपोयवहणेणंसंचारिइतणस्सयकइयस्सयजावभरं तितएणंसिंसजत्ताणावावाणि यगादक्खि  
 णाणुकूलैणंवाएणं जेणेवगंभीरपोयपट्टणे तेणेवउवागच्छइइत्तापोयवहणंलंवेइआसाउत्तारिइजेणेव  
 हत्थिसीसेणयरे जेणेवकरणगकिऊराया तेणेवउवागच्छइइत्ता करलजाववद्धानेइ तेआसिउवणेइ  
 तएणंसेकरणगकिऊराया तेसिंसजत्तावाणिउवागणंउसुक्कं विउरइसक्कारेइसम्भारेइ पडिविसज्जेइत

वारपच्छीपरदेसनाजावणहारा वाहणनाव्यापारीराजानासेवक दक्षिणासुक्कलपठिनासुखकारी वायुरावावेकरीजिहां गंभीरपो,  
 तपाटणच्छें तिहांआव्याआवीनें वाहणप्रतेंनांगरेलंभावेलंभावीनें तेवोडावाहणमांहियकीउतारिउतारीनें जिहांहस्तिशीर्षिन  
 गरच्छेजिहाकनककेतुराजाच्छें तिहांआव्याआवीनें वेळंहायजोडीमायानें विषेअंजलिकरीनें वधावेवधावीनें तेघोडांप्रतेंरा  
 जानेंआगलिम्भुंकें तिवारेतेकनककेतुराजा तेपरदेयनाजावणहारावाहणनाव्यापारीयानोदांणप्रतें भूंकैम्भुंकीनेंसत्कारेव  
 खादिआपेघणाआदरदीनेसत्कारीयें घणाआदरदेइनेंमोक्कलेसीखआपेघरेजाओ तिवारपच्छीतेकनककेतुराजा आदेशकारी

एणंसेकणगकेऊरायाकोडुं वियपुरिसेसहावेइरत्तासक्कारेइसम्भारेइरत्तापडिविसज्जेइतएणंसेकणगके  
 ऊरायाआससइएपुरिसेसहावेइरत्ताएवंवयासौतुभेणंदेवाणुप्पियाममआसाविणएहतएणंतेआस  
 महंगापुरिसातहत्तिप्रडिसुणंतितेआसेवज्जहिंसुहवंधेहियकखवंधेहियवालवंधेहियक  
 डगवंधेहियखलिनंघेहियप्रडियाणेहियअंकणहियवेल्पहारेहियचित्तप्पहारेहियलयाप्पहारेहि

पुरुषाप्रते तेडावेतेडावीने सत्कारे वस्त्रादिआपे घणाआदरेइने मोकले सीखआपे तिवारपच्छीतिकनकेतुराजा घोडानामईक  
 पुत्रखघोडानासीखावणहारा घोडानावसिनाकरणहारापुरुषाप्रते तेडावे तेडावीने इमकहतोऊओ तुम्हे हेदेवावुप्रियोहेअश्वम  
 ईकोमाहरावोडाने विनयसीखवोवसकरो तिवारपच्छीतेघोडानामईकपुरुष तहत्तिकहीअंगीकारकरे करीने तेकालीहीपनाघोडा  
 प्रते घणेप्रकारे करी सुहडाने वाधवे करी कानाने वाधवे करी नाकानेवंधवे करीवालकोटिनावंधन अथवावालपुंछनावंधनतेणे करी  
 कडिनावंधनवाधणातेणे करी खलिनचोकडातेणे वंधने करी पटादिभडवे करीपलहाणने हेठलिदीजीये तेणे करी आंकदागने

यकसप्पहारेहिद्यत्रिवप्पहारेहिद्यविणयं तितेआसेकणगकेजस्सरखोजवलवणेइतएणं कणगकेजरा  
 यातेआसमइएपुरिसेसक्कारेइसस्साणेइइत्ता पडिविसज्जे इतएणंतेआसाबहुहिंसुहबंधेहिद्यजावच्छि  
 वप्पहारेहिद्यत्रहुणिसारौरमाणसाइदुक्खाइं पावंतिएवासेवसमणाउसोजोअरुहं णिण्णं थोवाइपव्वइ  
 एसमाणेइइ सुसइफरिसरसख्वगंधेपुरज्जइ सज्जइसुउभइगिउभइ अवभोववज्जइसेणं इहलोएचेव

देवं करीवेलानेप्रहारेकरी वेवनीलताने प्रहारे करी लतासोटानेप्रहारेकरीसीखवे चाबखानेप्रहारेकरीसीखवे क्वीवडीने प्रहा  
 रे करीसीखवे सीखवीने तेषोडाप्रते कनककेतुराजाने आणीने आपे तिवारे कनककेतुराजातेषोडानासीखावणहारारापुरुषांप्रते  
 सत्कारीवस्त्रादिआपीषणाआदरदेईने घरेमोकले सीखआपे तिवारे तेषोडाघणेषुखबंधनेकरी तालगीजाक्वीवडीने प्रहारेकरी  
 घणाशरीरसंबंधीयामनसंबंधीया दुःखप्रते पांमे इणेप्रकारे साधुने ओपमाअहोअमणोअहोसाधो तेषोडानीपरं दुःखपामस्येजेअ  
 सारासाधुसाधवीदीक्षाणीधाच्छता इष्टवस्त्रभवात्त्वाएहवाशब्दफरिसरसरूपगंध एपाचविषयसेवाने विषे रागधरस्ये सावधानयास्ये

वाचनातरेअधिकमुपलभ्यते तत्रकलरिभियमहूरतंतीतलतालवंसककुहाभिरामे सुत्तिकलाःअत्यंतअवणहृदयहराःअव्यक्तध्वनिरूपाः  
अथवाकलावंतःपरिमाणवंतःइत्यर्थः रिभिताःस्वरबोलनाप्रकारवंतःमधुराः अवणसुखकराःयेतंतीतलतालवंशाः तेतथातत्रतंतीवी  
णातलतालाहस्ततालाः अथवातलाहस्ताःतालाःकंसिकाः वंशवेणवइहचंतलप्रादयःकलादिभिः शब्दधर्मैर्विशेषिताःशब्दकारणत्वात्ते

वज्जणंसमणाणयजावसावियाणय हीलणिज्जेजावअणुपरियट्टिस्सइकरलरिभियमहूरतंतितलताल  
वंसककुदाभिरामेसुसहेसु रज्जमाणारमंतिसोइदियवसडाए सोइदियदुइतत्तणस्स अहएत्तिउ

संभास्ये गृध्रयास्ये पाचविषयसेवाने विषे अथवसायउपजावस्ये तेसाधुसाधवीइहलोकआभवने विषे घणाअमणसाधुसाधवीआवक  
आधिकाने चारप्रकारनासंधने हीलनीचनिंदनीचहीलानिंदाकरिवायोग्यथाइ तांलगीजांपरभवने विषे च्यारगतिंसंसारनांहिप  
रिअमणकरस्ये संसारनोअंतकरीनहोसके कलाक०घणु कानचित्तने हरणहारा अप्रकटशब्दरूपअथवाकलावंत परिमाणवंतरिभित  
तस्वरनीबोलनानाप्रकारवंत मधुरभीठाकानानेसुखनाकरणहरा एहवाजेतंतीवीणातलतालानालोटा अथवातलतालोलोटातालाकां

चतेककुदाः प्रधानाः स्वरूपेणाभिरामाश्च मनोज्ञा इतिकर्मधारयो अतस्तेषु रमंति रतिं कुर्वन्तीति योगः सद्देशुरज्जमाणारमंति सोऽद्दृश्य  
 वसदृत्तिशब्देषु मनोज्ञध्वनिषु श्रोतोविषयेषु रज्यमाना रागवन्तः श्रोत्रे द्वियस्य वशेन जलेन चताः पीडिता इति विग्रहः येशब्देषु रज्यंतेत  
 त्कारणेषु तंत्रादिषु श्रोत्रिं द्वियवशाद् रमंते इति वाक्यार्थः अनेन चकार्थतः श्रोत्रे द्वियस्वरूपसुक्तं सोऽद्दृश्यदुहंतणस्त्रग्रहएत्ति उहवद्दो  
 सोदी वियरूवमसहंतो वहबंधंति रति रोपत्तोऽ कंठ्यं नवरंशाकुनि कपुरुषसंबंधी पंजरस्थति रतिः द्वीपिक उच्यते तस्य योरवस्त्रमसहमा

हएत्ति उहवद्दो सोदी विगरूवमसहंतो वहबंधंति रति रोपत्तोऽ यणजहणवयणकरचरणयणगन्धि

सीवंशवासलीएसघलानाककुहाः प्रधानभलास्वरूपे करी अभिराममनोरमएहवाशब्दने विषे रतिप्रते करेके मनोज्ञशब्दने विषे कां  
 नानाविषयने विषे रागवन्तथकाकांनने वशेवले करी च्छतपी द्वाच्छता जेशब्दादिकने विषे श्रोते द्वियनां वलयकीरमेच्छे श्रोते द्वियकांनानां  
 ने दुर्ही तपणाने कांनाने दुःखे करी दांतदमवापणुं नथी कौधुं नथी ते हने ते हजीवने अथहि वे एत्ति ओएतलादोष उहवा  
 कष्टपामे ते केहाजीवशब्दवसथकी दुःखपामे पंखीयांनाक्कालणहारापुरुषसंबंधी पैजरासां हिरह्यो जेति रति पंखी ते द्वीपकति रति कहीये

नःस्खिनलयान्निर्गतो वधंभरणंबंधंपंजरबंधनंप्राप्तइति घणजघणवयकरण नयणगव्वियविलासियगईसुत्ति खनादिषुतथा  
गर्वितानांसौभाग्यमानवतीनां स्त्रीयांयाविलसिताजातविलासाः सविकारागतयस्तासुवेत्यर्थः रूवेसुरज्जसाणारमंतिचक्खिं दिव

यवौलासियगईसुखेसु रज्जसाणारमंति चक्खिं दिवदुहुं तत्तणस्स अहएइओ

तेपौंजरामाहिलातित्तिरनोजेखशब्दवचन तेपौंजरामाहिलातित्तिरनाशब्दप्रते असहतोअणखमतोच्छतोवनमांहिलोतित्तिरपो  
तानामालायकी नीसख्योनीकल्योच्छतोवधभरणवलीबंधपौंजरानोबंधनप्रते पास्योएककानने अणबं धिवायकीर घणाखनजघनगुह्य  
यांनकवदनसुखकरहायचरणपगनयनेत्त एशरीरनाअं गोपांगनेविषे गर्वितसौभाग्यवतीमानवती एहवीस्त्रीयांनजेविलासितजप  
नाविलासविकारसहित गतिचालिवोहीडवोस्त्रीयांबुं एहवास्त्रीयांनांरूपनेविषे रमतिरतिप्रतें करेच्छे मनोरमरूपनाविषयनेत्त  
नाविषयने विषे रागवंतथयाच्छता नेत्तअंखइं द्वियने वसें वलें कारीपीड्याच्छता जेजीवरूपनेविषेरागीथाइच्छेइ चक्षुरिं द्वियएकने  
तानेइं द्वियनेदुःखे करी दमवातुं जीपवापणुंछे एतलेजेणेइं द्वियजीतिनथी तेहनें हिवे एहवोएतलोदोषदूषणकष्टपाने जेजलणंमि



षसटाप्रतीतमेवत्रक्विषं दियदुहं तत्तणस्य अहएत्तिउभवतिदोसोजलणं मिजलंतेपडइप्रयंगोअबुद्धीअ कंठ्य४ अगश्वरपवरधूवणउ  
 उयमस्राणुलेवणविहीसु गंधेसुरज्जभाणारमंतिषाणिंदियवसट्टा कंठनवरंअगश्वरः कृष्णागरुः प्रवरधुपनानि गंधसुत्तापदेशविर  
 चितानिघूपविशेषाः उलयत्तिइतौर धान्युपचितानि आर्तवशानिमाल्यानि जात्यादिकुसुमानि असुलेपनानिचञ्चीखंडकुं कुमादी

हवइदोसोजलणंमिजलंते पडइप्रयंगोअबुद्धीओ४ अगुरुवरपवरधूवणउ उयमस्राणुलेवण विहीसु  
 गंधेसुरज्जभाणारमंति षाणिंदियवसट्टाधूषाणिंदियदुहं तत्तणस्य अहएत्तिओहवइदोसोजंओसहि

अगनिजलतोलतोएहवीअगनिमांदि पडेपडीवले प्रयंगोपतंगीयोचौरिंद्रीजीवअबुद्धियकीतिमस्राधुनपडे४ प्रधानकृष्णागुरुअगरप्र  
 वरप्रधानधूपणांगंधसहितविरन्याक्के धूपविशेषउयक० इतुइतुनेविषे जेइहिपाम्यानीपनातेते इतुसंधीया मात्यजात्यादिद्रूल  
 असुलेपनवावनाचंदनकेसरप्रसुखना विलेपनाविविधप्रकारएविलेपननाप्रकारनाभेइएहवा गंधनेविषेरतिप्रते करेक्के जेजीवमनोरम  
 गंधनासिकानाविषयनेविषे रागवंतयकारमेक्के प्राणेद्रियनासिकानाएकइं द्रियनेवले करीपीड्याक्कताजेजीवगंधनेविषे राचेक्केजेजीव

निविषयएतत्प्रकारादिति ५ घाणिदियदुद्दं तत्तणस्वअहएत्ति उभवेदोसोजंओसहिगंधेणं विलाउनिद्वावइउरगोकंअ्यई तित्तकडु, य  
 कसायंसद्धरं वडुखज्जपिज्जलेज्जेसु आसायंसिउगिद्धा रंसंतिजिभिं दियवसट्टा पूर्ववन्नवरंतिक्कानिनिं वटकादीनि कटु, कानिण्डं, ग  
 वेरादीनिकषायाणि सुहादीनिआम्हानितकादिसंस्कृतानिमधुराणि खंडादीनिखाद्यानि कूरमोदकादीनिपेयानिजलमद्यदुग्धा

गंधे णं विलाओणिद्वावईउरगोई तित्तकडुयकसायंसहरं बहुखज्जपेज्जलेज्जे सु आसायंसिउगिद्धा  
 रंसंतिजिभिंदियवसट्टा ७ जिभिंदियदुद्दं तत्तणस्व अहएत्तिओहवइदोसोजंललगखित्तो फुरइ

५ प्राणेंद्रियएकनासिकानाएकइंद्रियने दुःखे दांतपणुं दमवापणुं केमोकलुंछेतेजीवनेहिवेएतलोएवडोहोइदोषकष्ट जेगंधओषधनेगंधे  
 करीविलहरथकीवाहिरनीसरे उरगसर्पपेच्छेगारुडीने वसिपडेई तीखानीवडादिककटुकआदिक कसायलासुं गदिकछासमांहिस  
 माखासकितआदिदेई मधुरमीठाखांडादिकषणाखज्जक० कूरमोदकादिकपेयपीवायोग्यपाणीमय दुग्धादिकलेयानिक० अवलेहीअंगु  
 लीएकरीचाटवारूपमधुरशिखरणीप्रमुख एहवारसआसादखाववानेविषेष्टघलोभीयालालचीछतारमेछे एकजीभनाइंद्रियनेवले क

दीनिलेह्यानिमधु शिखरिणी प्रभृतीनिआस्वादेरसे जिम्बिं दियदुदं तत्तणस्स अहएत्तिउभवद्दोसो जंगललगुपक्खित्तोफुरद्दुषलवि  
रेत्तिओमच्छोकंछानवरंगलं वडिंशंतललग्नकंठेविद्धत्वात् उत्त्विमोजलाडुद्धृतसत, कर्मधारयःसु, रतिस्यं दतेस्यलेभूतलेविरश्चिउत्ति

थलविरेश्चिओमच्छोट उउभयमाणेसुहेसुथसविभवहिययगमणिव्वुइकरेसुफ्रासेसुरज्जसांगारमं

रीपीयाच्छताजेजीवरसनेविषेराचेच्छे० जिह्वे द्रियएकजीभनाइं द्रियनेंदुःखेकारी दातपणुंदमवापणुं केजेहनें तेजीवनेंअथहिंवे एतलो  
एवडोह्दोसदोषदुषणकण्डजंगलकहता लोहनाकांटानेविषेमांसनीपेसीलगडीके तेखावाप्रवर्त्थीतिवारिगलक० वडिसलोहनोकां  
टोतेहनेंविषे लागोबलगोकंठनेविषे वौधावापणायकी ज्जालीनेपांणीमांहिथकी माच्छिलोवाहिरनांखिवाथकी फुरेफुरकेतडफडेथ  
लभूमिनेंविषे एहवाविरेश्चीओक० प्रसास्योच्छेधात्योच्छेजेमाच्छिलोतिजिमदःखपासें ट हेमंतादिच्छक्तुनेंविषे भुज्जमानभोगविवायोग्यश  
यादिकजेसुखनाकरणहारा तेहनेंविषे एहवासविभवक० ससृद्धिसहित मोटाघणाधनच्छेहितकारीस्वभावे करीसुखकारीयांअद्विवंत  
मोटालक्ष्मीवंतानेहितकारीजेधत्यच्छेजेमननेंनिटत्तिनांकरणहाराच्छेएतले मालाचंदनस्त्रीवस्त्रशय्यादिद्रव्यपदार्थने एहवाफरिसनेवि

प्रसारितः चित्तद्रव्यैः यत्प्रत्येति छन्दभयमाणसुहेसुय सविभवहियमणन्युइकरेसु फासेसुरज्जमाणारमंतिफासिंदियवसृष्टा  
 कंधनवरं ऋतुषुहेसंतादिषु भुज्यमानानिसेव्यमानानियानि सुखाकाराणितानितथातेषु सविभवानिसृष्टियुक्तानिमहाधनानीत्य  
 र्थःहितकानिप्रकृत्यनुकूलानि सविभवानांवाश्रीमतांहितकानियानितानितथा मनसोनिवृत्तिकाराणिचयानितानि तथाततःपदत्वय  
 स्यतद्वृथस्यवाकर्मधारयोऽतस्तेषु सुक्चंदनांगनावसनत्त्व्यादिषु द्रव्ये ध्वितिगम्यते फासिंदियदुई तत्तणस्वअहएत्तिउहवइदोसोजं

तिफासिंदियवसृष्टाऽ फासिंदियदुई तत्तणस्व अहएत्तिओहवइदोसो जंखणइमत्थयं कुंजरस्वलोहं

षेरागवंतयकारमेके स्वर्धनेद्रियएकसरीरदेहनाइ द्रियनेवलेकरी पीछाकृताजेजीवफरिसादिकने विषे रागीथाइकेऽस्वर्धनेद्रियएक  
 कायादेहनाएकइ द्रियने दुःखेदमवापणुंके एतलेफरिसे द्रियजीत्योनथीतेहने अथहिवेएतलोएवडोषणोऽइदोषकष्ट जेखणेंकेमाथा  
 प्रतें हाथीने लोढानोचंशुशतीखोआकारोप्रहार१० हिवेपांचइ द्रियानासंवरणं धिवानेविषे जेगुणइतेकहेकेषणुकाननेचित्तनेह  
 रणहाराम्रप्रकटयद्वरूपरिभितस्वरनी घोलनाप्रकारवंतमधुरमीठाकानने सुखनाउपजावणहाराएहवाजेतंतीवीणा तततालहाथ

खण्डमच्छद्य कुंजरखलोहंकुसोतिक्वखो भावनाप्रतीतैव अर्थेद्रियाणांसंवेरेशुणमाह कलरिभियमङ्गरतंतीतल तालवंसककुहाभि  
 रामेसुसहेसुजेनगिद्धा वसट्टमरणंतेमरइपूर्ववन्वरं इहतंलप्रादयःशब्दकारणत्वेनोपचाराच्छब्दाएवविवक्षिताःअतःशब्देष्वित्येतस्य  
 स्यविशेषणतयाख्या स्वाभाव्येनेन्द्रियपारतंत्र्यप्रकृताः पीडितावशात्ताः वशंवाविषयपारतंत्र्यप्रकृताःप्राप्तावशात्ताःतेषामरणं  
 शार्त्तमरणंवशंमरणंवानतेमरणंत्विन्नियतेच्छांदसत्वादेकवचनप्रयोगेपिबहुवचनं व्याख्यातमितिषणजघणकरचरणनयणगुण्यविला

कुसोतिक्वो१० कलरिभियमहुरतंतौतलतालवंसककुहाभिरामेसुसहेसुजेणगिद्धावसट्टमरणंणते

नातालोटाअथवातलतालोटातलाकांसीनातालवांसली एसगलावाजिनानाजेशब्दकेऽवाककुहा प्रधानकारीभलास्वरूपेकारीअभि  
 राममनोरमएहवाशब्देनविषे रतिप्रतेनथीकरताजेजीवएहवाशब्देनविषे श्रीभ्रलोभीनथीधातावसट्टमरणंकवशेनइन्द्रियनेपरवसिप  
 णंकारीकृताःकपीड्याच्छेतेवशात्ताकहिद्ये अथवावशकविषयनापरवशिपणाप्रतेऽताःकपाश्याच्छेतेजीवानो जेमरणतेवशात्तसर  
 णकहिद्येनतेमरणकतेजीवसरनहीं एतलेतेजीवंइन्द्रियनेपरवशिपणेकारीसरनहींतेवननातिरिनीपरिवं धणमरणपासेनहीं११

सियगईसुखवेसुजेनरत्तावसदृसरणं नतेसरइएवमन्यासिखोगाथाः पूर्वोक्तार्थावाच्याः उपदेशमिंद्रियाश्रितमाहसहे सुवभइयपावए

सरए११यणजहणत्रयणकरचरणगव्वियविलासियगईसुखवेसुजेणरत्तावसदृसरणंणतेसरए१२अणु  
एवरपवरवूवणउउयमह्माणुलेवणविहीसुगंधेसुजेणगिद्धा वसदृसरणंणतेसरए१३ तित्तं कडुयकसा

स्त्रीनासनस्त्रीसुं जमनसूत्र पुत्रगुह्यथानकस्त्रीसुं मुखस्त्री नाहाथ पगनेत्रएहवास्त्रीनाशरीरनाअवयवादिकनेविषं गळिं तसोभाग्यव  
तीअहंकारवतीएहवीस्त्रीआंनानेविलासितविकारसहितचालसुं स्त्रीयांसुं एहवास्त्रीयांनारूपनेविषेजेजीवरातानसमाधी१२ इंद्रिय  
नेंपरवशियेकरेपीडापास्याच्छता तेजीवानेजसरणतेसरणपामे जेनरूपनेदेखिवाजीत्योच्छे तथाअगुरुप्रधानअगरक्षणगरप्रधां  
मधुपणांगंधसहितरच्याच्छेधूपविशेष उउवक्तुक्तुनेविषं वृद्धिपास्यांनीपनातेतेक्तुसंबंधीयां माल्यफलअनूलेपनभावनाचंदनकेस  
रप्रसुखनाविलेपनाविधि एप्रकारनाभेदएहवागंधनेविषे जेजीवगदलोभीयानथीयाता वसदृक०इंद्रियांनेंपरवशियेकरे पीड्याते  
घासुसरवुं तेसरणप्रतें मरेनहीं जेणेनासिकाइंद्रियजीतीच्छेतेकुमरणेमरेनहीं१३ तित्ततीखा निवडादिक कटु कआदादिककसायला

सुशोयविसयलवगएसुतुहेणवसमणेणसयानहोळवंकांठनवरंभद्रकेषुमनोज्ञेषुपापकेष्वमनोज्ञेषुक्रमेणतुष्टेनरागवतासृष्टेनरो

यंसहुरंबल्लखल्लपेज्जलेज्जेसुआसायंसिजेणगिद्धावसट्टसरणंणतेमए२४उलभयमाणसुहेसुयसविभव  
हिययमाणणिव्वुइकरेसुफासेसुजेणगिद्धावसट्टसरणंणतेमए१५सहेसुयभइयपावएसुसोयविसयंउ

सुंगादिकखाटाळासमाहिलासमास्वामधुरमीठाखांडादिकवज्जवणांखाद्यकुरलाडूआदिकपेय्यपीवाचोय्यपांणीमयदूधादिकलेह्यंअव  
लेहीष्ठांगुलीएकरीचाटवारूपमधुप्रसुखएहवाषणांप्रकारनारसआस्वादवाखानेविषेजेजीवगटभ्रलोभीचानथीयाताइंद्रियनेपरव  
सिपणेकरीपीद्यातेजीवासुमरणतेजीवकुमरणेमरेनहीं१४हेमंतादिऋतुनेविषेभुज्जमानभोगविवायोग्यशय्यादिकसुखनाकरणहारा  
तेहनेविषेसविभवक्क०सहद्वियुक्तकट्टिसहितषणांधनहितकस्वभावेसुखनाकरणहारजेतेधनक्केमालाचंदनस्त्रीवस्त्रशय्यादिपदार्थ  
तेहनेविषेएहवाफरिसनेविषेमनोरमस्पर्शनेद्रियनेविषेजेजीवगटभ्रलोभीयायातानथीइंद्रियनेपरवसिपणेकरीपीद्यातेजीवांतुंभरण  
मरतुंतेमरणपामेहिवेपांचइंद्रियआश्रीउपदेशप्रतेकहहेक्के१५शब्दनेविषेभद्रकमनोज्ञसब्दनेविषेपावकेषुअमनोज्ञपाडूयाशब्दने

वगएसुतुङ्केणवरुङ्केणवसमणेणसयाणहोयव्वं१६रुवेसुयभद्दगपावएसु चक्खु, विसयंउवगएसुतुङ्केण  
वरुङ्केणवसमणेणसयाणहोयव्वं१७गंधेसुयभद्दयपावएसुधाणविसयसुवगएसु तुङ्केणवरुङ्केणवसमणे  
णसयाणहोइव्वं१८रसेसुयभद्दयपावएसुजिभविसय उवगएसुतुङ्केणवरुङ्केणवसमणेणसयाणहोय

विषंश्रोत्रविषयकाननाविषयसाभलिवाविषयप्रते पास्याएहवाशब्दनेविषंअनुक्रमे तुष्टेनरागवतें करीरुष्टेनरोषवतरीसें करीअमणे  
साधुनेंसदासर्वदानहोइवुं१६रूपनेविषेभद्रकमनोरसरूपनेविषेतयापावकपापकारीमूडारूपनेविषेचक्षुविषयनेतनाविषयजीवादिखि  
वाप्रते पास्याएहवानेतनारूपनेविषेरगेस्नेहेकरीरोसपणेंकरीअमणसाधुचारित्तियेंसदासर्वदानहोइवुं१७गंधनेविषेतेकेह  
वाभद्रकमनोरसगंधनेविषे पापकारीपाडूआंगंधनेविषे प्राणनासिकानाविषयप्रते उपगतपास्याक्खिएहवारूडापाडूआंगंधनेविषे राग  
पणेंस्नेहपणेंकरी रोपणेंकरीसपणेंकरी अमणसाधुचारित्तीनेंसदासर्वदानथावुंनप्रवतंतुं१८रसभद्रकमनोरसरसनेविषे तथापाप  
कपापकारीपाडूआरसनेविषे जीभनाविषयजीभनाखादप्रते पास्याएहवारसनेविषे रागपणेंस्नेहपणेंकरीरोसद्वेषणेंकरीअमणे





सातहसाहवर्षिण्यन्तु कूलकारिजगणजहसदाइअगिद्वापत्तानोपासवंधगुंआसातहविसएसुअगिद्वावज्कंतिनकम्बुणएसाऊजहसच्छं  
दविहारोआसागुंतहइहंवरसुशीणंजरमरणाइविवज्जियसायत्तागुंदनिव्वाणंजहसदाइसुगिद्वावद्वाआसातहेवविसयरवापावेति

इअगिद्वापत्ताणोपासवंधगुंआसातहविसएसुअगिद्वावज्कतिसकम्बणोसाहइजहसच्छंदविहारोआ  
सागुंतहइहंवरसुशीणंजरमरणाइविवज्जियसाइत्तागुंदणिव्वाणंइजहसदाइसुगिद्वावद्वाआसातहेह

विषेसाधुजांणिवाजिमइहाथापारीछे व्यापारीनिपरिइहंअनुकूलकारीलोकजांणिवोच्छंदानुवार्त्तिंसुप्रसन्ननोकरणहारोलोकजांणि  
वो।जिमशब्दादिपांचविषयवस्तुपदार्थनेविषे अग्टप्रअणलोभीअणुमूर्च्छापास्याच्छता नोनिषेपासनबंधनप्रतेनपद्यापासमांहिपद्या  
नहीतेषोडातिसपांचइद्वित्रयनाविषयनेविषे अग्टप्रअणलोभीयाअणुमूर्च्छापास्याच्छता वंधाइंनहींआठकर्मकारी साधुचारिबीवार  
जिमसखच्छंदविहारपोतानेछांदे अभिप्रार्थे करीविचरवं कूदीजाइतुंयथुंमनुष्यदेखीनेषोडानोनासवुंथुं तिमइहांवरप्रधानउत्तम  
सुनिसाधुनेजरानंममरणादिरहितइजिमशब्दादिकपांचपदार्थनेविसे ग्टप्रलोभीयाच्छताबंधाणा षोडातिसइहांविषयपांचइद्वि

काम्बन्धपरमासुहकारणंधोरं जहतेकालियदिवाणीया अस्त्यदुहगणंपत्ता तहधम्मपरिभ्रष्टा अधम्मपत्ताइहंजीवापवैतिकम्मनरव  
इवसयासंसारवाहियालीए आसप्यमइएहिय नेरइयाईहिंदुक्खाइंति इतिसप्तदशंज्ञातंविवरणतःसमाप्तं १७ अथाष्टादशमारभ्यते

विसयएया पावंतिकम्मबन्धंपरमासुहकारणंधोरं ४ जहतेकालियदीवाणीया अणत्थदुहगणंपत्तातह  
धम्मपरिभ्रष्टा अहंसपप्साइहंजीवापुपावंतिकम्मणरवइवसयासंसारवाहलीयालीएआसप्यमइएहिव  
णेरइयाईहिंवेदुक्खाइं ६ सतरसमंणायज्झयणं सम्मत्तं १७ जइणंभंतेसमणेषंभगवयामहावीरेणं

यनाविषयनेविषेरतआसक्तथयाकृतापामे कर्मनाबंधप्रते परमउत्कृष्टाअसुखनुं कारणे कर्मनुं बंधनतेकेहवोक्के ४ जिमतेषोडाकालि  
कवीपयकीलेइआंख्याकृता अनर्थनादुखनासम्हप्रते पास्या तिमइहंधर्मयकीपरिअष्टयवाकृता अधर्मपास्याकृताइहंजीवआख्याप्र  
पामेआठकर्मरूपनरपतिराजाने वसेपडयाकृतासंसाररूपवाहकाषोडाना फेरवानीपरिंषोडानासीखावणहारानीपरि नारकीया  
दिकानादुःखप्रते पामे तेषोडानासीखावणहारापुरुषनीपरिई ज्ञातानोसतरमोअध्ययनसंपूर्णयथो हिवे अटारमोअध्ययनवखा

तस्यचायंपूर्वेणसहाभिसंबंधः पूर्वस्त्रिनि' द्विवशवर्त्तिनामित रेतांचानर्थतरावुक्ताविहृतुलोभवश वर्त्तिनामितरेषांचतावेवोच्येतेइ

जावसंपत्तेणंसत्तरसमस्त्रणायज्जयणसस्रयमद्वेपयत्तेअटारसमस्त्रणंभतेणायज्जयणससमणेणंभग  
वयामहावीरेणंकेअद्वेपयत्तेएवंखलुजंबूतेणंकालेणंतेणं समएणंरायगिहेणुसंणयरेहोत्यावस्रओतस  
णंरायगिहस्रणयरस्रवहियाउत्तरयुरिच्छिनेदिमिभाएएत्थणंगुणसेलएणामंचेइएहोत्यावस्रओतथ ।

येछे सतरमाअध्ययनने' विषे पाचइ' द्वियनावसवर्त्तीने' अनर्थनोबंधकह्योनिर्लोभीने' शुभनोबंधकह्योइहांअटारमाअध्ययनने' विषे  
लोभनावसवर्त्तीजीवानोअने' लोभरहितजीवानोएवंऊ' नोसंबंधकहेछे जंबूपेहेभगवन्अमणभगवंतश्रीमहावीरदेवे तालगीजा  
मोक्षपद्धताश्रीमहावीरदेधे' सतरसाज्ञातानाअध्ययननोएअर्थ तुम्हनेकह्योतेमे' तुम्हारासुखयकी सांभल्योअर्थविस्तारसहितहिवे'  
हेभगवन् अटारआज्ञातानाअध्ययननो अमणभगवंतश्रीमहावीरदेवेस्योअर्थकह्योछे सुधर्मास्वानीकहेइमआगलिकहिस्ये तिमनिसे  
जंबूतेकालतेसगयनेविषे राजगृहनामानगरऊं' तो वर्णकउवाइथीजांणवोतेराजगृहनगरने' बाहिरइंशानऊणनाभागनेविषेइहां

खंघस्त्रेणासंस्थवाहिपरिवसद्भद्राभारियातस्त्रणंधस्त्रसत्यवाहस्त्रपुत्ताभद्राएअत्तयापंचसत्यवाहदा  
 रगाहोत्यातंजहाधणेध्रणपालेध्रणदेवेध्रणगेविध्रणरक्खिएपूतस्त्रणंधस्त्रसत्यवाहस्त्रधूयाभद्रा  
 एअत्तयापंचखंडपुत्ताणंअणुमगं जाइयासुसुमाणसं दारियाहोत्यासुकुमालप्राणिप्रायातस्त्रणंधस  
 स्त्रसत्यवाहस्त्रचिलाएणमंदासचेडएहोत्या अहीणंपंचिंदियसरीरेसंसोउवचिएबालकौलावणुकुस

गुणसेलकनामादेहरोऊंतो वर्णकउवाईवीजाणवो तिहोधन्वोनामासार्थवाहवसेछे तेधन्नासार्थवाहनीभद्राभार्याछे तेधन्नासार्थवाह  
 नापुलभद्रास्त्रीनाअंगजातपांचसार्थवाहहंता धनोनामाधनपालनामाधनदेवनामाधनगोपनामाधनरक्षितनामधूतेधन्नासा  
 र्थवाहनीपुत्रीछेभद्रास्त्रीनीअंगजातपुत्रीछेपांचपुतानिजपरिपाछलिपूठिइआवीछेजणीछेसुसुमानामावालिकापुत्रीऊंती तेकेहवीछे  
 सुकुमालसुकुमलहाथपगछेजेसुसुमाना तेधन्नासार्थवाहनेचिलातनामादासचेटकहंतो तेकेहवीछेअहीणहीणानथी पाचइद्रिय  
 जेहनापांचइद्रियएकरीपूरोसरीरछे जेचिलातदासमांसलोहीथेकरी उपचितवह्यपास्योछेपुष्टछे बालक्रीडाकराविवाबालकनेखे

लेयाविहेत्यासुकुमालपाणिपायातएणंचिलाएदासचेडे सुसुमाएदारियाएबालगाहेजाएयाविहो  
 त्यासुसुमंदारियंकडौएगिण्हइवड्डहिंदारएहिय दारियाहियडिंभियाहियडिंभियाहियकुमारएहिय  
 कुमारीयाहियसद्धिंअभिरसमाणेइविहरइतएणसे चिलाएदासचेडेतेसिंबहुणंदारयाणयइअप्येगइ

लाविवाने'विषे कुसलडाहोऊ'तोऊवो तिवारिचिलातदासचेडो सुसुमावालिकानोबालग्राहकखेलक्रीडारामतिनोकरावणहारोया  
 तोह्मओ सुसुमावालिकाप्रते'कडीने'विषे लीयेतेडेतीडीने घणावालपुत्रसंघाते'घणीवालिकायुत्वीयांसंघाते' बालकयकीओटे राडिं  
 भवालककहियेतेडिंभवालिकसंघाते' डिंभिकावालिकासंघाते' कुमारसंघातेकुमरीयांसंघाते' रमतोछतोखेलक्रीडारामतिकरतोछतो  
 विचरेछेतिवारिपच्छीतेचिलातदासकुमारते तेघणावालिकवालिकाने' तेघणाडिंभिकाने' तेघणाकुमरकुमरीयाने तेमांहिलाने  
 केतलांएकाने' खुसएक०कोडाकोडियांप्रते' अपहरे उदालीलीये इणेंप्रकारे' केतलांएकाना वर्त्तकलाखादिमयनागोलागोलीयां  
 प्रते' उदालीलीयेकेतलांएकानावर्त्तकलाखादिमयना गोलागोलीयांप्रते' उदालीलीयइकेतलाएकनांतिंदूसकदडाप्रते' उदालेपोतुसु

त्येवंसंबन्धमिदं सर्वं सुगमं नवरंखुल्लएत्तिकपदकविशेषान् वर्त्तकान्जत्वादिमयगोलकान् चालोडियाउत्तिषट्ठाउन्नइयाइत्तिचयोच्यतेतिदूसएत्तिकंकडुकान् पोत्तुल्लएत्तिवस्त्रमयपुत्रिका अथवापरिधानवस्त्राणिसाडोस्त्रएत्तिउत्तरीयवस्त्राणि खेज्जणाहिचत्तिखेदनाभिः

याणं खुल्लएअवहरइएवंवट्टएअंडोलीयाओत्तिदूसएपोत्तुल्लएसाडोस्त्रएअप्पेगइयाणंआभरणमसुल्लालंकारंअवहरइअप्पेगइयाआउसइएवंअवहसइणिच्छेडिइणिभच्छेएतज्जेइअप्पेत्तलिइतएणंतेबहवेदारगायइरोयमाणायपू साणंअप्पापिऊणंणिवेइतएणंतेसिंबहूणंदारगाणयइअप्पापिथरोजिणे

एकहतांलूगडानीपूतलीयोठांगला ढागलीप्रतेउदालेअथवापहिरवाना लूगडांप्रतेउदाले ऊपरिओढवानावस्त्रप्रते उदालेकेतसाएकांनांआभरणमालाअलंकारएसगलीवस्तुप्रतेउदालीभूटीलीयेकेतलाएकानि उधिकाविपाळलिजइनेइमकेतलाएकानि अपह्रास्यकरेमसकरीकरे केतलाएकानि ठगेच्छानीगांठडीच्छेडे केतलाएकानि निम्बंछे केतलाएकानि तर्जनाकरे केतलाएकानि चपेटाप्रते करे चपेटांमारैतिवारिपच्छीतेवालकवालिकाडिंभडिंभकाकुमरीनांआपआपणांईरोतांआक्रंदकरतांविवापकरताळलाआपआपणा

खेदसंस्त्रचिकाभिः वाग्भिः रुदनाभिः रुदितप्रायायाभिरुपालंभनाभिर्युक्तमेतद्रुभवादशाभितिभ्रणाहृष्टएत्तिभ्रकायप्रवर्त्तमानंतं हसोऽहो

वधस्ये सत्यवाहे तेणैवउवागच्छद्दस्ताधस्यं सत्यवाहं व हूहिं खिज्जणाहियरुं टणाहिय उवलंभणाहि  
 यखिज्जमाणाय रुं टमाणाय उवलंभमांणायधस्यसत्यव्राहस्यएयमडुं णिवेयंति तएणंसेधस्ये सत्यवा  
 हेचिलायंदासचेडयं एयमडुं भुज्जोऽ णिवारेद्रु णोचेवणंचिलाए दासचेडेउवरमद्द तएणंसेचिलाएदा

मातापिताप्रतेजदूने कहे तिवारिंतेघणायालकवालिकाडिंभिकाडिंभिका कुमरकुमरोनाआपआपणाई मातापिताजिहाधन्नोसार्थ  
 वाहक्केतिहाआवेआवीने धन्नासार्थवाहप्रते घणखेदनाउपजावणहारा एहवावचनतेणंकरी रोदनरोवा सरिखारोवावावचनेकरी  
 उपालंभओलंभादिदेवानेवचनेकरी खेदउपजावतांक्कतांक्को रूने वेगाडे रोवा सरिखाथयाक्कताओलंभादेताक्कता धन्नासार्थवाहने  
 एसमाचारनाअर्थप्रतेकहे तिवारिंतेधन्नोसार्थवाहचिलातदासचेडाप्रते एवालिकानेआसातादेवानासमाचारप्रते वारंवारकहीक  
 हीनेवारिवरजेपणिनिअयसहित चिलातदासकुमरमारतोक्कतो कोडाकोडियादि उदाबीलितोक्कतो निवर्त्तेनहीरहेनहीतिवा



सचेडेतेसिबहूणंदारगाण्यअप्पे गइयाणं खुल्लएअवहरइ जावतलिइ तएणंतेबहवेदारगाय इ रोय  
 माणायजावअस्मापिऊणं शिवेएइ तएणंतेआसुरत्ता पू जेणेवधणे सत्यवाहे तेणेवडागच्छइइत्ता  
 बह्जहिंखिज्जणाहिहयजावएयमड्डं शिवेयंतितएणंसेधणे सत्यवाहेबहुणंदारगाणंइअस्मापिऊणंअंति  
 एयमड्डं सोच्चा आसुरत्ते पू चिलायंदासचेडयं उच्चावयाहिं आउसहिंतिउड्डंसेइ शिभंच्छइइणि

रिपच्छीतेचिलातदासकुमरविशेषथकी तेघणावालिकवालिकानासगला केतलाएकानाकोडाकोडियांप्रतेउदालेछे तालगीजाचपेटा  
 दिकेताडे छेतिवारपच्छीतेघणावालिकालिकाडिं भकाडिभिकाकुमरकुमारिकासगलांरोताछताआकं दविलापकरताछतातांलगीजां  
 आपआपणाभातापिताप्रतेआवीने कहे तिवारपच्छीतेमातापिताक्रोधाकुलययाछतां पू जिहांधन्वोसार्थवाहछे तिहांआव्याआवीने  
 घणालेइकारीयावचनेकरी तालगीजाएचिलातदासकुमरना समाचारप्रतेकहे तिवारे तेघन्वोसार्थवाह घणावालिकवालिकाइदि  
 छभेदानांतेहना मातापिताने समीपने विषे एचिलातदासकुमरनासमाचारप्रते सांधलीने क्रोधाकुलकोपवंतथयोछतो चिलातदास

च्छेडिद्रतज्जे इ उच्चावयाहिंतालयाहिं तालेद्रसाओगिहाओ गिच्छुभद्र तएणसेचिलाएदासचेडे  
 साओगिहाओगिच्छूटेसमाणे रायगिहेणयर, सिंघाडगजावपहेसु देवकुलिसुय सहासुयपवासुय  
 जूयखलएसुयवेसावरएसुय पाणवरएसु सुहंसुहेणं परिवडुह तएणसेचिलाएअण्णाहिट्टिए अणिवारि

कुमरप्रते उंचनीचअसंजसवचनेकरीकहे तंसुओकानहींकीटोकानही इत्यादिवचनेकरी अक्रोशे तुं भूंडाकुलनोजपनोकुजात  
 अम्हारकुलनीलाजतेनीगमी इमकहीनेवरवाहिरकाठे निर्भत्वनघरवाहिरकाठे तजेतुं जाणेसिहेपापी असंजसवचनेकरीताड  
 नाडुं करीचपेटादिकेमारं मारीनेपोतानाघरयकीवाहिरकाठे तिवारे तेचिलातहासकुमरपोतानाघरमांहिथकीवाहिरकाठोछतो  
 राजगृहनगरने विषेतिखुणामार्गनेविषेतालगीजांभोटारजमार्गने विषे देवकुलयत्तना देहराने विषेघणालोकनेवेसवानाठामसभा  
 तेहने विषेपाणीपावानीपर्वतेहनाठामने विषेजयारीनाखलातेहने विषे मद्यपानसुरापाननाघरने विषेइत्यादि  
 कजाठामने विषे सुखे समाधिइंरह्योछतो वृद्धिपामे छेवधेके तिवारे तेचिलातदासकुमर अकार्यने विषे प्रवर्ततांप्रते वचनेकरीनि

त्वायोच्चपहरतिव्यावर्तयति तदभावादनपहर्तकः अनपघट्टकोवाचानिवारयितु मभावादनिवारकः अतएवस्वच्छंदमतिर्निरगलबुद्धिरत  
एवस्वैरप्रचारीस्वच्छंदविचारीचोज्जपसंगेत्तिचौर्यप्रसक्तः अथवाचोज्जत्तिआश्रयषुप्रसक्तइत्यर्थः विसमगिरिकडगकोलंबसन्निवेद्वृत्तिविष

एसच्छंदमईसद्वरप्ययारीमज्जप्यसंगीचोरप्यसंगीमंसप्यसंगीजुयप्यसंगीविसप्यसंगीपरदाराप्यसंगी  
जाएयाविहोत्यातएणंराथगिहस्वणथरस्वअदूरसामंतेदाहिणपुरिच्छिमेदिसिभाएएथ्यणंसीहगुहा

वारवाभणीकोईनहीं पाछोवाले तेहनाअभावथकी उन्मार्गने विषेचालताकोईवारि नही अकार्यने विषे प्रवर्तताप्रते वचनेकरीनि  
वारवाभणीकोईनहीं एकारणथकीजपोतानाअभिप्रायनी मतिबुद्धिदं चाले छे स्वेच्छाचारीपोताने अभिप्राये चाले छे एकारणथ  
कीमद्वसुरापानपीवाने विषे सामर्थ्यवंतचोरीकरवातथाचोरने विषे प्रसक्त मांसखावाने विषे प्रसक्तसामर्थ्यवंतजवटारमिवाने वि  
षे प्रसक्तसामर्थ्यवंत वेण्यासंवाते रभवाने प्रसक्त पारकीदारस्त्रीसंवातेरभवाने विषे सामर्थ्यवंतएहवोचिलातदासकुमरथातोऊओ  
तिवारिं राजगृहनगरने अतिवणेविगलोनहींषणोढूकडोनहीं समीपवर्त्तिदक्षिणदिशिचने पूर्वदिशिना मध्यभागएतले अग्निक्वणने

मोयोसौगिरिकटकस्यपर्वतनितंत्रस्यकोलंडः प्रांतस्तत्रसन्निवेशितायासातथा कोलंबोहिलोकेअवनतं वृक्षशाखाग्रमुच्यतेइहवसोपचारातःकङ्काग्रंकेकोलंबोव्याख्यातः वसोकलंकपागारपरिक्वत्तत्ति वंशीकलंकावंशजालीमयीवृत्तिः सैवप्राकारस्तेनपरिचिन्नावेष्टितायासातथापाठांतरेतुवंशीकृतप्राकारेति छिन्सेलविसमप्रवाचफरिहोवगूहेत्ति छिन्नोविभक्तोअवृथवांतरापेक्षयायःश्लक्ष्णसंबंधिनो

णामंचोरपक्षीहोत्या विससगिरिकडगकोडंबसस्त्रिविद्वावंसोकलंगपागारपरिक्वत्ता छिन्सेलग  
विसमप्रवाचफलहोवगूढाएगदुवारा अणेगखंडौविदितजणणिग्गमप्रवेसाअभिंतरपाणियासुदुल्ल

विषेसौहगुफानामे चोरपक्षीऊंतीतेकेहवीछे विषमजेएगिरिकडगकहतांपर्वतनीकडणितेहनो कलंबकहताछेहडोतिहनं विषेसन्निविष्टकहतांथापीछे तेचोरपक्षीवलीतेसिंहगुफाकेहवीछे वंसोकलंगकहतांवासली जालिमयवाडितेहिज रूपपागारकहितांगढतेणेंकरीवीटीछे वलीतेकेहवीछे छिन्नेद्योकाप्योविहच्यो अवयवातरनीअपेचाइं करी एहवोजेश्लपर्वततेहसंबंधिनीपर्वतनीजेविषमीप्रपाताकहतांगर्ताखाडितेहजरूपफलहा परिखाखाईतेणेंकरीउपगढावीटीछे सेपक्षीवलीतेकेहवीछे एकजपे सवानोजा

थेविषमाःप्रपाताः गर्तांसाएवपरिखातयोपगूढावेष्टितायासातथा एकद्वाराएकप्रवेशनिर्गमसार्गांअणुगखंडिति अनेकनख्यनरनिर्ग  
मापद्वाराविदितानामेव प्रतीतानांजनानांनिर्गमप्रवेशोयस्यां हेरिकादिभयात्सातथाअर्थंतरेपानीवंवस्याःसातथासुदुर्लभंजलंपयंते  
शुबहिःपार्श्वेषुयस्याः सातथासुबहोरपिभूवियइलसस्ति शोषव्यावर्तकस्यान्यस्यागतस्य दुःप्रध्वंसावाचनांतरेपुनरेवंपद्यते जल्यचउरं  
गवलनिउत्ताविभूवियबला हयमहियपवरवीरघाडूयनिवडिय चिंधधयपडायाकीरंतिक्ति अत्रचतुर्षांनंगानां हस्यश्वरथपदाति

भजलंपेरंता सुबहुस्रविकुवियबलस्रआगयस्र दुप्यहंसाविहोत्यातत्यगंसीहगुहाएचोरपल्लीएविज

वाआविवानोभारणोच्छे' सार्गच्छे'जेतेपल्लीने'विषे' वलीतेकेहवीच्छे' अनेकघणाखंडीकहता नासताजेममुष्यतेहाने' नीकलीजावानी  
नाङ्गीबारीच्छे' विदितकहता प्रतीतनाजनलोकानोनिर्गमनीसरवो प्रवेशकरिवोजेहने'विषे' अभ्यंतरपल्लीसांहे' पांणीच्छे'जेसिंहगु  
फाने'सांहि. वलीतेकेहवीच्छे' सुदुस्रभकहताघणुं दोहिलोजलपाणीच्छे' परंताकहतां बाहिरलापासने' विषेजेपालिने' वलीतेकेहवीच्छे'  
सुबहुस्रकहतांघणुं कोपवंतघणुं कोधवंतथईकूवियकहतां बाहिरे' आथ्योजेबलकटकतेहने' घणुं'दोहिलीभांजवाथोग्यहुं'तीऊईएतले'

लक्षणानाद्यद्वलंसासर्थं तेन नियुक्ता नितरांसंगतानियानितानितथाक्लृपिव्यववृत्ति निवर्तकसैन्यानीतिअधस्मएन्ति अधर्मेणचरती  
 त्यधार्मिकः यावत्करणात्अधम्मिद्वेअधम्मिद्वेओ अतिशयेननिर्द्धर्मानस्त्रिंशकम्मं कारित्वान् अधम्मक्खाईअधम्मं माख्यात्तुंशीलंवस्यसु  
 तथाअधम्माणुएअधर्मकर्तव्ये तुज्जातंसोदनंवख्यासौ अधर्मांतुजःअधर्मांतुगोवा अधम्मपलोईअधम्मं मेवप्रलोकयित्तुंशीलंवस्यसाव  
 धर्मप्रलोकीअधम्मपलज्जणे अधर्सेप्रायेषुकम्मंसुप्रकर्षणरज्यतइत्यधर्मप्रजनः रलयोरैक्यमित्तिहत्वारस्यस्थानेनलकारः अधर्मसीलसमु  
 दायारेअधर्मएवशीलंस्वभावः समुदाचारश्चयत्किञ्चनानुष्ठानंयस्यसतथा अधम्मैणचेववित्तिकप्पेमाणेविहरइ अधर्मैणपापेनसावद्वानु

## एणामंचोरसेणावईपरिवसइ अहम्मिएजावअहम्मकेजसमुट्टिए बड्डणगरणिग्गयजसेसूरेदटप्पहारी

पारकोधनलूटीआवे तिवारे पाच्छलिवाहरनोकटकआवे तेभाजीसकेनहीं एहवीविखमीपल्लीऊती तिहांसिंहगुफानामाचोरप  
 ल्लीनेंविषे विजयनामाचोरचोरनीसेनाकटकनो अधिपतिठाकुरवसेंकेतेकेहवोके अधर्मेकरीचालेखेजेतेचोर तालगीजांअधर्म  
 नीकेतुधजाकीधीके जेणे एहवोपापीष्टजयोके वलीतेकेहवोके बड्डघणानगरमांहियकी बाहिरनीसख्यालोकनासुखयकीनीसख्यो

छानेनैवदहनाकननिर्लाब्धनादिनाकर्मणादृष्टिं वर्त्तनंकल्पयन्कुर्वाणोविहरतिआस्तेस्म हणच्छिदंभिदवियत्तएहनविनाशयच्छिं द्विद्वि  
 धाकुम्भिदकुं तादिनाभेदविधेहीत्येवंपरानपिप्रेरयन्प्राणिनोविकृततीति हनच्छिदविकर्त्तकहेत्यादयःशब्दाःसंस्कृतेपिनविरुद्धाःअनु  
 काररूपत्वादेवां लोहीयपाणीप्राणविकर्त्तनेलोहितौरक्ततया पाषीहसौयस्यसतथाचंडेचंडःउल्कटरोषत्वात् रौद्रोनिस्त्रिंशत्वात्  
 द्रुद्रःसुद्रकर्मकारित्वात् साहस्त्रिएसाहसिकोअसमीचितकारित्वात् उक्त्वंचणवंचणमायानियडिकवडकूडसाइसंपञ्चोगवडलेउत्कञ्च  
 नसुत्कोचाभ्रखंप्रतितत्प्रतिरूपदानादिकमसद्वयवहारं कर्त्तुं प्रवृत्तस्यपार्श्ववर्त्तिविवक्षणाभयात्त्वग्नं यत्तदकरणंतदुत्कञ्चनमित्यन्येवंचनं  
 प्रतारणंमायापरवंचनबुद्धिः निष्कृतिर्वकट्याकुक्कुटादिकरणं अधिकोपचारकरणेनपरच्छलनमित्यन्ये मायाप्रच्छादनार्थमायांतर  
 कारणमित्यन्ये कपटंविषादिविपर्ययकरणं कूटंकार्षीपणतुलाव्यवस्थापत्वादीनामन्यथाकरणं साइत्तिअविस्त्रंभःएषांसंप्रयोगःप्रवर्त्तनं  
 तेनवडलःसवावडलोयस्यसतथानिस्त्रीलेअपगतशुभस्वभावः निव्वएअणुव्रतरहितः निगुणेगुणंव्रतरहितःनिष्पञ्चक्खाणपोसहोववासे  
 अविद्यलानपौश्यादिप्रत्याख्यानोअसत्पर्वदिनोपवासश्चेत्यर्थः बह्मणंदुपयचउप्ययमित्यपसुप्रविस्त्रसरीसवाणंषायाएवहाएउच्छायणया  
 एअधम्मकेअसुष्टिएत्तिप्रतीतं नवरंषातप्रहारोधोहिंसाव्यत्ययोवा उच्छादनाजातेरपिव्यवच्छेदनंतदर्थं अधर्मकेतुःपापप्रधानःकेतुः

ग्रहविशेषःसद्भवःसतथाद्विपदादिसत्वानांहिष्यायथयाकेतुग्रहःसमुद्भक्तितथायं समुत्थितइतिभावनवज्जनगरेषुनिर्गतंजनमुखा  
 निरुहंतंययःख्यातिर्यस्यसतथासूरोविक्रमीदृढप्रहारीगाढप्रहारीशब्दंलक्ष्मीद्वल्यविध्यतिथः सशब्दवेधीचौरादीन्ये कादशपदानिप्रतीता  
 निनवरंग्रंथिभेदकान्यासकान्यथाकारिणःषुर्भु रकादिनावायेग्रंथीन्छिंदंतिसंधिच्छेदकायेगृहभित्तिसंधीन्विदारयंतित्वात्रखानका

साहसिएसद्देवेहीसेणंतत्यसीहगुहाएचोरपक्ष्मीएंपंचरहंचोरसयाणंआहेवच्चंजावविहरइतएणंसेवि  
 जयतक्करेचोरसेणावईवज्जुणंचौराणयगंठिछेयाणयप्रारदारयाणयसंधिच्छेयगाणयखात्तखणगाण

एहवोययःख्यातिविजेचोरनोतेकेहवो विजयचोरनोयशधोलीइ'छे' तेकहेछेसूरवीरविजयचोरछे' दृढप्रहारीछे' आकराप्रहारनोदे  
 णकारे' साहसीकछे' अणविचास्याकामकरवापणाथी शब्दनेधीछे'तेचोर तेविजयचोरतिहांसौ'हगुफा चोर्नीपक्ष्मीनेविषे'पाचसय  
 चोरनोअधिपतिपणोस्वामीपणोकरतोछतोविचरे'छे' तिवारे'तेविजयनामातस्करचोर चोरनाकटकनोस्वामीछे' घणाचोराने'प्रेरतो  
 क्तोचोरीकरेछे' षुपुरादिके'करीजेगाठिप्रते'छेदेछे पारकीस्त्रीनीसेवानाकरणहारा परदारागमीसंधिनाछेदक जेचोरघरांनीभी



येसंधानवर्जितभित्तीःकाविदारयंति अणधारयंती ऋणव्यवहरकदेयद्रव्यंतद्येतेषाधारयंतिखंडरत्नादंडपाश्रिकाःतथाच्छिन्नाहस्तादि  
 शुभिन्नानासिथादौवाह्यदेशात् आहतादंडादिभिःततोद्वंद्वःकुडंगंवंशादिगहनंतद्वद्योदुर्गमत्वेनरत्नादर्थमाश्रयणीपत्वेनसतयानित्याणं

यराथावराहाण्य अणधारगाण्यबालघायगाण्यवीसंभवायगाण्य जूयकार।ण्यखंडरक्वाण्यत्र  
 णेसिंचवज्जुणंछिस्त्रभिस्त्रबाहिराहयाणं कुडंगेयाविहोत्या तएणंसेविजएचो रसेणावर्द्धे रायगिहस्स

तिनीसांधिप्रते विदारिंछे फाडंछे खालनाखणहारजेचोरसाधारहितभित्तिप्रते खालनाखणहार राजानाअपराधनाकर  
 णहाराराजाननाधरसांधिप्रवेशनाकरणहारा ऋणकहतांऋणव्यवहारिं देवायोग्यद्रव्यतेद्रव्यजेचोरतेहनाधरंछे एतले ऊधारद्रव्य  
 नालेणहारापाछोद्रव्यनापे तेहवानिधरेंछे बालकनाघातनाकरणहारा वीसासीनेंघातनाकरणहारातेहाने जवूटानाकराणहारा  
 तेहाने खंडरत्नकदंडपासिकअनेरात्रीजाघणानाच्छिन्नाछे द्याच्छेकाप्याच्छे हाथपगादिकने विषेभिन्नाभिन्नकीधच्छेनासिकादिकने विषे  
 बाह्यदेशयकीआहतहण्याछे दंडादिके करीतेहवाने वंशादिजालिनो गहनतेहनीपरं जेदुर्गमदुःखे जावायोग्य असाध्यएहवोऊं तो

णयरस्सदाह्णिणपुरित्थिमंजणवयंबुद्धहिंणामघाएहियणगरघाएहियबंदिगहणेहियपं  
 थकुट्टुणाहियखत्तखणेहियउवीलेमाणेइविडंसमाणेणित्थाणंणिइणंकरेमाणेविहरइतएणंसेचिलायदा  
 सचेडेरायगिहेणयरेवुद्धिं अत्थाभिसंकीहियचोराभिसं कीहियदाराभिसंकीहियधणिएहियजू  
 इकरेहियपरभभवमाणेइ रायगिहाओणयराओणिगच्छइइत्ता जेणेवसीहगुहाचोरपल्ली तेणेव

ऊओएतलेवासनीजालिंजिमसहनें आधारभूतऊइंतिमविजयचोरवांसनी जालिनीपरेंसघलाअन्यायनाकरणहाराने आधार  
 भतयईराखेकेषणानगरानेघातलूठवेकरी घणागाइवलइभंसिउंटादिकनें भालवेकरीघणालोकानेबंदिनें ग्रहणेकरीपंधसाग  
 नें कूटवेमारवेवाटघणीपाडवेकरी खालनें खणवेकरीघणालोकाने पीडाउपजावतोछतो विध्वंसकरतोमारतोछतो घणालोकां  
 नें स्थानकयकीमष्टचुकवतोछतो निठाराकरतोछतोनिह्वंसनघनरहित करतोछतोविचरेकेतेचोर तिवारेतेचिलातदासकुमरराज  
 गृहनगरनें विषे घणाअर्थद्रव्यनीसंकाइं करीकिहाईजभोरहिवादीयेनहींचोरनें मिलतोकेएहवोसंकाइं करीजभोरहिवादीयेनहीं

उवागच्छद्गता विजयंचोरसेणावद्रुवसंपञ्जित्ताणं विहरद् तएणंचिलाएदासचेडेविजयससचोर  
 सेणावद्रुसअगगअसिलडिग्गाहे जाएयाविहोत्थाजाहेवियणं सेविजएचोरसेणावद्रुगामघायंवा जाव  
 पंधकोट्टिंवाकाउंवर्यंति ताहेवियणं सेचिलाएदासचेडेसुबहुं पियकूवियबलं हयमहिजजावपडिसेहे

परस्त्रीनीसंकाइं करी जभोरहिवादीअं नहीधने करी जवूटे करी पराभवपीडापामतो छतो राजगृह नगरमाहिथकी बाहिरनीसरे  
 नीसरीनें जिहासिंहगुफानामाचोरानीपस्त्रीकें तिहाअवेअवीनें विजयचोरचोरनीसेनानोधणीस्वामीतेप्रतें अंगीकार करी  
 नें शरणोअंगीकार करीनें विचरेकें तिवारेतेचिलातदासपुत्र विजयनामाचोरनें चोरनाकटकनाधणीनें आगलिखडगत रवारनो  
 भालणहारोथयो जिवारेतेविजयचोर चोरनाकटकनोधणी गामघातगामलूटीतांलगीजा वांटापांडीवा करीनें पाछोवलीनाइं  
 तिवारेतेचिलातदासपुत्र घणोपाछिलयकीवाहरेअव्योजेवलकटकतेप्रतें हतहण्योप्रहारना देवाथकी मथितमथ्योअहंकारनामई  
 वाथकीतांलगीजा दिसोदिशियकीनसाडंवाहारप्रतें वलीअथंद्रव्यपांस्योछतोविशेषथकी तेहनाहथीआरवोडारथपास्योछतो काम

इपुणरविलङ्घेकयकज्जे अणहसमग्गेसौहगुहंचोरप्रह्लिहव्वमागच्छइतएणसेविजएचोरसेणावइच्चि  
 लायंतक्करंबज्जओचोरविज्जाओयचोरमंतेयचोरमायाओयचोरणिगडीओयसिक्खावेइतएणसेविज  
 यचोरसेणावईअस्थयाकथाइंकालधम्मणासंजुत्तेयाविहोत्थातएणसेताइंपंत्तचोरसयाइंविज्जदस्सचो  
 रसेणावइस्समहयाइइड्डीसक्कारसमुदएणणीहरणंकरेइवज्जइं लोइयाइंसयकिच्चाइंकरेइकालेणंजा

काजकरीपोते उपद्रवरहितच्छतो सीहगुफाचोरनीपालीप्रते जतावलोआवेतेचिलातदासपुत्र तिवारपच्छीतेविजयचोर चोरनाक  
 टकनोधणीचिलातचोरप्रते घणीओचोरनीविद्याओ घणाचोरनासंतचोरनीमायाकपटरचापोटली आदिसहितपणायकीचोरना  
 निगडंबंधअथवाचोरपासाएहवीओ विद्याप्रते सीखवे तिवारपच्छीतेविजयचोर चोरनाकटकनोधणीएकदाप्रस्तावे कालधर्मेसंयुक्ता  
 सरणपांसतोज्जओ तिवारितेपांचसयचोरतथाघणामनुथमिलीने विजयचोरने चोरनाकटकनाधणीने घणीरच्छिनासत्कारना  
 सम्वहे करी घणेआडंभरे करी नीहरणप्रते करे मसांगलेइजाइं पछे घणालौकिकलोकसंबंधीया इग्यारमोवारमोप्रमुखस्यत्युक्त्तम्

वविगयसोयाजायायाविहोत्थातएणंताइं पंचचोरसयाइं अस्समस्सं सद्दविइत्ताएवंवयासीएवंखलुदे  
 वाणुप्पिया विजएचोरसेणावईकालधम्म, णासंजुत्तेअयंचणं चिलाएतक्करेविजएणं चोरसेणावइणावहु  
 ओचोरविज्जाओयजावसिक्खावियंतंसेयंखलु अरुहं देवाणुप्पियाचिलायंतक्करंसीहगुहाओ चोरपल्ली  
 ओचोरसेणावइत्ताएअभिसिंचित्तएत्तिकट्टु, अस्समस्सं एयमइंपडिसुणेइंचिलायंसौहगुहाएचोरपल्ली

अनाकार्यकरे' तिवारपछीकाले प्रस्तावे' केतलाएकदिनगयापछीविगतथोकरहितयाताह्मआ तेपाचसयचोरतिवारपछीतेविज्य  
 चोरनापांचखेचोर मांहोमांहिएकठामिलीतेडावे'तेडावीने' इमकहताइअइणंप्रकारे' खलुनिश्चेहेदेवानुप्रिय विजयचोरचोरना  
 कटकनोधणीकालधर्म' संयुक्तययोमरणपांस्येकें एओचिलातचोरविजयचोरे' चोरनाकटकने' धणीइ' धणीओचोरनीविद्याओचोर  
 नामंतसर्वसीखव्योके' तेकारणयकीअयभलंखलुनिश्चे' आपणने' हेदेवानुप्रियोचिलातचोरप्रते' सौहगुफाचोरनीपल्लीनोचोरनीसे  
 नाकटकनोखामीपणंकरौ अभिषेकराज्याभिषेकराज्याभिषेकरिवाभणी प्रवत्तीये' तोभलोइमविचारकरिने' मांहोमांहिएविचार

एचोरसेणावद् ताएअभिस्सिंच्चित्तएणंसेंचिलाएचोरसेणावद्जाएअहस्मिणजावविहरं तितएणंसेंचिला  
 एचोरसेणावद् चोरणायगेजावडुं उगेयाविहोत्यासेणंतथसीहगुहाए चोरपल्लीएंपंअहयचोरसया  
 णयएवंजहाविजओंतहेअसब्बं जावरायगिहसणयरसदाहिणपुुरित्थिसिद्धंजणवयंजावत्थित्थाणंणिइ  
 णंकरेसाणेविहरद्दतएणंसेंचिलाएचोरसेणावद् अस्याकथाइविपुलंअसणंप्राणं खाइअंसाइअंउववव

प्रतेअंगीकारकरे करीने चिलातचोरप्रते सींहगुफाचोरनीपल्लीनो चोरनाकटकनोखामीपणेकरी अभासिंचियापे तिवारपक्कीते  
 चिलातचोरचोरनाकटकनोधणीराजाययोतेकेहवोछेधणोअधर्मोपापिष्ठययोतांलगीजाविचरे'छे' तिवारे'तेचिलातचोरचोरनाकटक  
 नोधणीवणावाटपाडाचोराने'राखे' तालगीजावासनीजालिजिम घणालोकरहे' तिसवांसनीजालिनीपरे' घणानेआधारभूतया  
 तोऊयो तेचिलातछोरतिहासिंहगुफाचोरनीपल्लीने विपे' पाचसयचोरानोठाकुरधणी'छे' इसपूर्वलीपरे'जिसविजयचोर'छे' तोतिस  
 जसघतोजाणियो तालगीजाराजट्टनगरना अन्निशूणाना देइप्रते'भाजे' तालगीजांठासपाखे' निर्हुनकरतोछतोविचरे'छे' तिवारे

डावेइताएंपंचचोरसएआमंतेइ तओपच्छाएहाएभोयणसंडवंसितेहिंपंचहिंचोरसएहिंसद्धिविपुलं  
 असरणंपाणंखाइसंसाइमं सुरंचजावपसणं च आसाएभाणेविहरइजिमियभुत्तुत्तरागए तैपंचचोर  
 सएविपुलेणंअसरणंपाणंखाइसंसाइमं धूवपुपफगंधमसुलंकारेणंसक्कारेइ सम्भाणेइएवंवयासीएवंखलु  
 देवाणुप्पियारायणिहेणयरे धखेणामंससत्यवाहे अट्टेतस्सणंधूयामहाए अत्तयापंचएहंपुत्ताणंअणु

तेचिलातचोरनाकटकनोधणीएकदासमे धणोअन्नादिच्यारप्रकारनोआहाररंधावेरंधावीनेतेपांचसयचोराप्रतेआमंतेनिहं  
 तरेतिवारपष्ठीअंधोलिकरी भोजनकारिवानामांडवानेविषेतेपांचसयचोरासंघातेविपुलविस्तीर्णधणोअन्नपाणी खादिमखादि  
 मच्यारप्रकारनाआहारप्रते तथावलीसुरामदिरामांस तांलीजांपसन्नामदिरापयंतप्रते आखादतोळतोविचरेछे जिमीनेजया  
 पष्ठीतेपांचसयचोरांप्रतेविपुलविस्तीर्णधणेअन्नपाणीखादिमखादिमधूपफलगंधमालाअलंकारआभरणं करीसत्कारे वखेकरीसन्ना  
 नेसन्मानीनेबळमानधणाआदरदेइने इमकहतोह्णओएवंइणे प्रकारेखलुनिश्चेदेवांबुप्रियराजगटहनगरनेविषेधन्वोनामसा

तिस्थानमष्टअग्निसिद्धिग्राहितिपुरस्तात् खड्गयष्टिग्राहः अथवाअग्न्यः प्रधानः अक्षं चम्बंदुरहइत्तिआर्द्रचर्मा रोहितमंगल्यार्थमितिमा

मगजाद्रयासुसुमाणामं दारियाहोत्या अहीणाजवसुख्वातंगच्छामोणदेवाणुप्पिया धसुससत्य  
वाहसुनिहं विलुं पामो तुभंविप्पु लेणंधणकणगजावसिलप्पवाले ममंसुसुभादारिया तएणंपंचचो  
रसयाचिलायवयणंपडिखुणंति तएणसेचिलाएचोरसिणावद्द तेहिंपंचहिंचोररुएहिंरुद्धिं अक्षुचम्बं

यवाहवसेक्के घणुं ऋद्धिवंतक्के तेधन्नासार्थवाहनीपुतीक्के भद्रास्त्रीनीअंगजातपुतीक्के पाचपुत्वाने ऊपरके डिङ् पाळलिजणीक्के सुंडु  
सानामे पुतीहंती पांचइं द्विये करीशरीरपूरोक्के तांलगीजांसु रूपवतीक्के तेकारणथकीआपणजईहे देवानुप्रियो धन्नासार्थवाहप्रते  
घरप्रते लुंटांलुंटीआवा तुम्हाने विपुलविस्तीर्णधनकनकसोनो रूपोजवेरहीराचनूनीलालशिल पट्टकूलप्रवालाप्रधानद्रव्यजेलुटिमां  
हिद्रव्यमिलस्ये तेसर्वतुम्हाने देस्यं तुम्हेलेज्यो माहरे काजे सुंडुमापुतीराखस्युं इमकह्यो तिवारपक्कीतेपांचसयचोरचिळातचोरना  
वचनप्रते अंगीकारकरे तिवारे तेचिलातचोरनाकटकनोधणी तेपाचसयचोरासंघाते आर्द्रनीलाचामडाऊपरचटे चढीने विसी



द्वयत्तिककारस्य स्वार्थिकत्वात्माइत्तिरिच्चादिवालुक्तत्वात्पद्मलानितानि चतानि गोसु हीयन्ति गोसु खचटुरः प्रच्छादकत्वे न कृतानि  
 गोसु खितानि चेतिकमंधारयस्तस्त्रैः फलकैः स्फुरकैः अत्रार्थैवाचनान्तराण्यपि संतितानि च विमर्शनीयानि गमनिकैव चेत्यनिःकृष्टाभिः कोशा  
 द्विःकृताभिरसिचष्टिकाभिः असंगतैः स्कांधावस्थितैः सूर्यैः शरभस्त्राभिः सजीवैः कोच्यारोपितप्रत्य' चैर्धनुर्भिः समुत्क्षिप्तैर्निर्गमाकृष्टिः शरधैः

दुरहद्वपुष्वावरणहकालसमयंसि पंचहिंचोरसएहिंसद्धिं सखद्वजावगहियाउहपहरणे माइयागोसु  
 ह्यौएहिंफलएहिंणिकडाहि असिलडुहिंआसगएहिं तोणेहिंसज्जीविहंधणूहिं समुक्त्वत्तेहिंसरे

नं मंगलीकभणी प्रथमपहिलावेप्रहरनासमयने विषे पाचसयचोरांसंघाते सखद्व कवचसन्नाहटोपजीवरखोपहिरौ ग्रह्यालीधाया  
 युधहथीयारप्रहरणहथीयारविशेष एसर्वलेईसावधानथयोक्ततोरौक्कादिकनावालसहितपणायकागोसु हीकहतांगाइनासुखनीपरे' दो  
 रडाकूचापेटादिकने' डांकवापणेंकरीकीधाछे' एहवाफलकखेडातेणेकरी निःकृष्टाभिः कहतांपडीआरमाहियकी वाहिरकीधीछे' ज  
 घाडीकीधीछे' एहवीअसिलडूीतरवारतेणीइ' करी अंशगतैः कहतांखांधाजपरराख्याछे' तीरनाभाथडातेणेकरीजीवासहितप्रत्यंचाप

सकाशाच्छरैर्वाणैः समुसुखालियाहिंदाहाहिं तिदाहितिप्रहरणविशेषाः उसारियाहिंतिप्रलंबीकृताभिः उखबंधाभिः उंधाबंधाभिः छिप्र  
 बरेहिंतिप्रत्येणद्रुतंवाद्यमाने नद्वयेत्यर्थः प्रतिनिःकामंतीह वज्रवचनंचौरव्यत्यपेक्षया अन्यथाचौरसेनापतिप्रक्रमादेकवचन

हिंसमुसुखालियाहिंदाहाहिंओसारियाहिंउखबंधाहिंछिप्रत्तूरेहिंवज्रमाणाहिंसहयाउक्किडूसीहणा  
 यजावसमुद्हरवपूयंकरेमाणासीहगुहाओचोरपल्लीओपडिखिखसइत्ताजेणेवरायगिहेणयरेतेणेवउ

राजपरचढाव्याजीवासहितकीधा एहवाधनुषतेणे करी समुखित्तकहताभाथडामाहियकी आकर्षीताणीबाहिरकाढात्केएहवा  
 शरवाणतीरतेणेकरी वलीउछाल्यादाहाहिकहताभालावरछीहथीआर विशेषतेणे करीओसारियाकहता प्रलंबलांबीकीधीछेउरजां  
 षाजपरषांटषंठवांध्याछे षषरीवांधीछे जतावलांरद्वयवाजिलतेणे करी मोटेरशब्देकरीउल्कृष्टाकरतासिंहनानादसिंहनीपरे'गंजता  
 तालगीजांसमुद्दनारवशब्दसरिखासमुद्दनी पूरनीपरे शब्दकरतागाजताछता सींहगुफाचोरनीपालीमाहियकी बाहिरनीसखानी  
 सरीने जिहाराजगृहनगरछे तिहांआव्याआवीने' राजगृहनगरने' पासे' षषणेविगलोनहीं षषणेठू कडोनहींसमीपवती' एहवोएक

वागच्छंतिरायगिहस्सणथरस्स अटूरसामंतेएंगंमहंगहणं अणुप्पविसंतिरुत्ता दिवसंखवेमाणशुवि  
चिद्धंतिरणंसेचिलाएचोरसेणावई अड्वरत्तकालसमयंसि णिसंतंपडिणिसंतमिंपंचहिं चोरसएहिं  
सद्धिंमाइयगोसुहिंतेहिंफलएहिं जावमडूयाहिंउ रुधंठियाहिं जेणेवरायगिहेपुरिच्छिमिल्लेदुवारि

मोटोगहनगह्वरवनखंडकें तेवनमांछिपेसें पेसीनें दिवसप्रतें खपावताछतारहें रात्रिपडेतिहालगीतिवारिं तेचिजातचोरनाकट  
कनोधणीआधीरातिनाकालसमयनें विषे घरानें विश्रामकीघाकें खूताके मनुष्यलोकएहवोमधरातिनोसमयऊतें छतें पांचसें चो  
रासंघातें शरीरनीरचानिमित्तमाइय कहतांरीछादिकनावालसहितपणायकी गाइनामुखआकारसरिखापेटादिढांकवापणेकरी  
एहवारवेठातेणेसहित तांबगीजांमू गीअणबोलीशब्दरहितकीधीकें अणवाजतीराखीकें एहवीजंघानी घांटषूषराविशेषतेणेसहित  
जिचाराजगृहनगरनेंविषे पूर्वदिशिनें विषेवारणेपोलिकें तिहांआधें आवीनें उदकपांणीइं भरीदीवडीपांणी राखवानोठामविशे  
षष्ठागलीतेप्रतें हाथमांहिलीयेलेइनें पवित्तयाइं हाथपगधोइकरीनें कोगलोकरीनें तालोदघाटनीतालाऊझाडवानीविद्याप्रते

सेवस्यादिति सूद्रयाहिति सूकीकृताभिः निशब्दीकृताभिरित्यर्थः उदगवत्थित्तिजलस्यतद्वृत्तिं जलाधारचक्षुर् मयभाजनमित्यर्थः जेषुं

तेणेवउवागच्छद्रुत्ता उदगवत्थिंपरासुसद्रुत्ता आयंतेइ तालुगघाडिणिविज्जं आवाहेइरायगिह  
स्वणयरसूदूवारकवडिउदएणंअच्छेडिइरुत्ताकवाडिविहाडिइरुत्तारायगिहंणुधरंअणुप्पविसद्रुत्तास  
हयाइसहेणंउग्घेसेमाणे एवंवथासौ एवंखलु अहंदेवाणुप्पियाचिलाएणंसंचोरसेणवद्रुपंचहिंचो  
रसएहिसद्धिं सीहशुहाओ चोरपल्लीओइहंहव्वमागए धस्सस्ससत्यवाहस्स गिहंघाल कामेतंजोखं

प्रजुंजीइ संभारे प्रतच्चकरी पछे राजगृह नगरनीपोखिना कमाडवारणांप्रते पाणीइं करी छाटे छांटीने कमाडांवारणांप्रते उवाडे  
उवाडीने राजगृह नगरमाहिप्रवेशकरे पेछे सोटे सोटे शब्दे करी उदघोषणाकरतो इमकहतो ऊओइणे प्रकारे खलनिचे हे देवानु  
त्रियोहेपोको चिलातनासे चोरनाशटकनोधणीकुं पांचसे चोरांसंघाते सीहगुफाचोरनीपालीयकी इहांउतावलोआव्योछं धन्दासा  
र्यवाइनाघरप्रते घातकारिवालूटवाभणीकामअभिलाषावाछाकणंछुं तेकारणथकोजिपुयषमनुष्यमातनिचे नवियाएमाउवाएलहता



नवियाएइत्यादियोहिनविकाया अग्रे ननभवभाविन्या आतुर्दुग्धं पातुकामः सनिर्गच्छतुयोसुस्रुर्षु रित्यर्थः आगामिचंतिअग्रामिकां

णवियाएमाउयाएदुद्धं पाउकासे सेण्णिगच्छश्रोत्तिकट्ट, जेणेवधणुस्ससथ्यवाहस्सगिहेतेणेवउवाग  
च्छइत्ता धणुस्सगिहंविहाडिइ तएणंसेधस्सेसथ्यवाहेच्चिलाएणंचोरसेणावइणापंच हिंचोरसएहिंस  
द्धिं गिहंघाइव्वमाणं पासइत्ताभीएतत्थे ४ पंचहिंपुत्तेहिंसद्धिं एगंतेअवक्कमइतएणुसेच्चिलाए चोरसे  
णावइधणुस्ससथ्यवाहस्सगिहंघाएइत्ता सुबहुधणकणंगंजावसावएज्जं सुसमंचदारियंगिण्हइत्ता

नइआगिल्यावीजाभवनीमाताने' दूधप्रते' पीवाभणीअभिलाषा वाळ्ळांकरेजेमरवाभणीवांळे' त्रेपुरुषधरांसांद्दिथकीवाहिरनीकल  
ज्योएहवावचनकहीने' जिह्वांधन्नासार्थवाहनोवरळे' तिहांआवे' आवीने' धन्नासार्थवाहनाधरप्रते' उघाडे' तिवारे' तेसार्थवाहचिलात  
चोरनाकटकने' धणीइ' पांचसे' चोरांसंघाते' धरप्रते' धातकरताभाजतालूटताळ्ळातेप्रते' देखे' देखीने' बीहनो लासतोनानासतोउद्वेग  
उचाटकरतोळ्ळातोपांचपुलांसंघाते' ऊठिने' एकांतअलगोजाइनासीने' अलगोळांनोजईरहे' तिवारे' तेचिलातचोरचोरनाकटकनोधणी

रायगिहाओणयराओपडिणिकखसइइत्ता जेणेवसीहगुहातेणेवपहारित्यगमणए तएणसेधखेस  
 त्यवाहेजेणेवसएगिहे तेणेवउवागच्छइइत्ता सुबड्डं धणकणंगंसुसअंचंदारियं अवहरियंचजाणित्ता  
 महत्थंइ पाड्डडंगहाय जेणेवणगरगुत्तिया तेणेवउवागच्छइइत्ता तंमहत्थंइ पाड्डडंडुवणेइएवंव  
 यासीएवंखलुदेवाणुप्पिया चिलाएचोरसेणावई सीहगुहाओ चोरपल्लीओइहहव्वभागसंपंचहिं

सार्थवाहधन्वोसार्थवाहनोघरलूटे लूटीनें घणुंजधनसोनोरूपोमणिमाणिक्वहीराजवेरतांलगीजांखापतेयउत्तमद्रव्यसर्वजेषरमांहि  
 ऊतोतेद्रव्यप्रते अनें वलीसुंसुमावालिकाप्रते ग्रहे लीये लेइनें राजगटहनगरमांहियकी वाहिरनीसरे नीसरीनें जिहांसिंहगुफा  
 चोरनीपालिछे तिहांपधारवाभणीजावाभणीसनकरतोऊओ तिवारपछीतेधन्वोसार्थवाह जिहांपोतानोघरखे तिहांआवे आवीनें  
 घणाजोधनसोनोरूपोहीरारत्तसर्वद्रव्यप्रते तयावलीसुंसुमापुवीप्रते अपहख्योलीधोजाणीनें वड्डसुल्लराजाने योग्यएहवाभेटणा  
 प्रते ग्रहीनें लेइनें जिहानगरनोकोटवालछे तिहांआवे आवीनें तेमोटोवड्डसुल्लराजाने योग्यभेटणो राजाने आगले सुं केसू कीनें



चोरसएहिंसद्धिं ममगिहंघाएत्तासुबहुधणकणंगंसुसुमंचदारिदंगहाय जावपडिगएतंद्रच्छामोणं  
 देवाणुप्पियासुंसुमाएदारियाए कूवंगमित्तएतुभणं देवाणुप्पियासिविपुले धणकणंगंमंसुसुमादा  
 रियातएणंतेणगरगुत्तियाधणस्स एयमडुंपडिसुणेद्रसण्डवद्वाजावगहियाउहप्रहरणामहयाइउक्किड

इमकहतोऊओ इमनिचेंहेदेवानुप्रियहेकोटवाल चिलातचोरनाकटकनोस्वामीधणी सौंहगुफाचोरपल्लीथकीनीसरीने इहाआवी  
 नेपांचसेचोरासुंघाते माहरोधरभांजीने धणोधनसोनोरूपो सर्वउत्तमद्रव्यप्रते अने वलीसुंसुमापुतीप्रते लेइने पाछोवलीसौंहे  
 गुफापालीभणीजाइके तैकारणथकीअहे वांछाछांहे देवानुप्रियसुंसीमापुतीनीवाहरप्रते जावाभणीसुंसुमापुतीने वालवाप्रते जा  
 वाभणीवाकाछा तुम्हारीहे देवानुप्रियतेविपुलघणो धनसोनोरूपोसघलोजेसू कावोते माहरीसुंसुमापुतीके बीजो सर्वधनतुमारोके  
 इमसाभल्यु तिवारे तेनगरनारखवालाकोटवालादिक धन्नासार्थवाहनाएवचनप्रते अंगीकारकरे करीने सन्नद्धवद्धकवचसन्नाहटो  
 पजीवरखीपहिस्त्राकता ग्रह्यालीधाहथीयारप्रहरणलीधाकताभोटे शब्देकरी उल्कृष्टीसौंहेनादनीपरं समुद्रना पूरनाशब्दनीपरं शब्द

जात्रसमुद्भवभूयंपिक्वकरेमाणा रायगिहाओ रायराओरिगगच्छइत्ता जेणेवचिलाएचोरिरेतेणेवउ  
 वागच्छंतिचि लाएणाचोरसेणावइणसद्धिं संपलब्गायाविहोत्या तएणंतेणगरगुत्तियाचि लायंचो  
 रसेणावइं हयमहि यजावपडिसे हेइत्ता तएणंतिपंचचोरसथाणगरगुत्तिएहिं हयमहि यजावपडि  
 सेहियासमाणांतविपुलंधण कणगविच्छू डेमाणायविप्पकिरमाणाय सव्वओसमंताविप्पलाइत्थात  
 णंतेणगरगुत्तियातं विपुलंधणकणंगिरहंतित्ता जेणेवरायगिहेणथरे तेणेवउवागच्छइतएणं

नादकरताच्छता राजटहनगरमांहियकीनीसरे'नीसरीने' जिहांचिलातचोरजाइंकेनाठी तिहांआवे'आवीने' चिलातचोरनाकट  
 कनाधणीसंघाते' शुद्धकरियाभणीलागतावलगताह्वा तिवारे'तेनगरनारखवालाकोट्टवालादिक चिलातचोरनाकटकनाधणीप्रते'  
 हतमथितकरीह्खोसथ्योमानमदीं दिसोदिशियकीनसाडें तिवारे'तेपांचसे'चोरनगरनेरखवालेकोट्टवाले प्रहारनादेवाथकीह्ख्या  
 छतामानअहंकारनामर्दवायकीमथ्याच्छतातीखवाणे'कारीधजाहेठीपाडी दिसोदिसिथकीनसाह्छता तेअणुंधनसोनोरूपोजेलीधो



सेचिलाएतंचोरसेणतेहिंणगरगुत्तिएहिं हयमहियपवरभीएतत्ये सुसुमादारियंगहायएंगमहंआ  
 गामियंदीहमइं अडविंअणुप्पविइेतएणंसेधस्से सत्यवाहेसुसुमंदारियंचिलाएणंअडवीसुसुसमंअवहो  
 रमाणिंपासित्ता पंचहिंपुत्तेहिंसद्धिं अप्पछट्टेसखइवइच्चिलायस्स पयमगविहिंअणुगच्छमाणेअ

हतोतेसषलोविच्छोडताच्छतासूंकताच्छता ठामिठामिविषरतानांखताच्छता सषलीदिशिविदिशिनंविषे' एकएकजजूआनांठातिवारिं  
 तेनगरनाकोट्टवाल तेषणोधनसोनोसर्वलीये'लेइनें तिहांथकीपाछावलीनें जिहाराजगृहनगरके' तिहांआव्याआवीनें तिवारिं  
 तेचिलातचोरतेचोरनाकटकप्रते' तिणेनगररखवालेप्रवर प्रधानपुरुषहय्यामथ्यादिसी दिसियकीनाठाप्रते'देखीनें बीहतोनाठो  
 लासपांस्योउहेगपास्योछतो सुंसुमावालिकाप्रते'लेइनें एकमोटीअग्रामिकाकहताकोई गामसंबंधिनीजथीमनुखमालरहित  
 एहवीदीर्घलांबोअध्वामार्गके' जेहनोएहवीअटवीप्रते'पेठोनासीनें तिवारिंतेधन्वोसार्थवाह सुसुमापुतीप्रते'चिलातचोरिंअटवीना  
 मुखप्रते'अपहरीलेईजातीछतीप्रते'देखीनें पाचपुलांसंधाते'पोते'धन्वोसार्थवाहछट्टो सन्नइवइथईचिलातचोरनाधणीनापगसार्ण

भ्रिगज्जं ते हंक्कारेमाणेपोक्कारेमाणे अभितज्जेभाणेअभितसिमाणे पिडुओ अणुगच्छत्तितएणंतेचिला  
 एतंघसंस्थवाहंपंचहिंपुत्तेहिं अण्छडुं सखुद्धवद्धसअणुगमभाणंप्रासइत्ता अथामेठुजाहेणोसंचाएइ  
 सुसुसंदाेरियंणिव्वाहेत्तए ताहेसंतेपरितंतेणीलुअलमसिंपरासुसइत्ता सुसुमाएदाेरियाएलुत्तसंगं

नाप्रचारप्रते'पगलापगलेई केडाकेडिइ'पगपठेजातोछतो संपूर्णपणे'गाजतोगजांरवकरतोछतो हाकतोहक्कारशब्दकरतोछतोपोका  
 रकरतोछतो घणुंतर्ज्जं नाकरतोछतो घणुं'लासकरतोछतोपाछलीघकी धूठे जाइके'पूठे'घसे'धाइके' पांचपुलसहितपितातिवारपछी  
 तेचिलातचोर तेघन्नासार्थनाहपांचपुलासंघाते' आपपोते'छटोछे'एहवो सन्द्धवद्धथयोछतोपाछलियकी घन्नासार्थवाहपते'आवता  
 केडिकरताप्रते' देखेदेखीने'थाकोसामर्थाईरहितथयो बलहीनथयोमननोबलधैर्यभागोकायानो बलभागोछतोजिवारे'हीडवाभणी  
 आघोचालिवाजाइवाभणीसमर्थनऊइ' सुंसुमावालिकाप्रते'निर्वाहकरिवालेई जावाभणीसमर्थनऊइ तिवारे'अंतथाकोसंतेकहतां  
 थाकोघणोपरिसंते कहताघणुंविशेषथकीधाकोछतो नीलाकमलसरिखीकाली असिकहतांतरवारप्रते' हाथमांहेलीये'लेइने'सुसुमा

दीहमद्धंतिदीर्घमागपयसगविहिति पदमार्गप्रचारंपरुहृदिसाभाएन्ति विस्त्रुतदिग्भागःअंतराचिवकालगएइत्ति इहएतावदेवोप

च्छिंदंइदंत्तांतंगहायआगामियंअडविंअणुप्पविट्टेतएणंसेचि लाएतीसेआगामियाएतएहाएअभिभूएस  
माणेपरुहृदिसाभाए सौहगुहंचोरप्रसिंअसंपत्ते अंतराचिवकालगएवासेवसमणाउसोजावपव्वइए

बालिकानाउत्तमांगमाथाप्रते छेदेकापे छेदीने कापीने तेमाथाप्रते हाथमांहिलेदूने कोईगामसंब धिनीनथी मपुष्यमात्ररहित  
छे एहवीअटवीप्रते प्रवेशकरे पेसे तिवादे तेचिलातचोरतेकोईगामनगरनीनथी मनुष्यमात्ररहितएहवीअटवीनेविषे लषाडंपी  
छोछतोतिरसे करीषणीपीडापांस्योछतो परुहृकवीसस्यीछे दिशिनभागाएतले मूलगोमार्गपयचूकतोछतो सींहगुफाचोरपल्लीप्र  
ते अणपांस्योअणपहूतोछतो अंतराविचाले वाटे जकालकीधी मरणपांस्योइहांतलो जखलमांहि कच्छोछे इहांआवश्यकखलमांहि  
श्रीभद्रनाज्जखामीइ कच्छोछे तेचिलातचोरसंबधी अधिकारसवलोसाधुचारितीया जंघाचारणादिसाधुनोदर्शनदेखिवे करी उपश  
मादिसाधुने उपशले करी उपशसआदरीने सुं सुमानोमाथोहाथमांहियकी अलगोसू कौने समकितने भावे करी तिहांकाउसगक

योगीति आत्रय्य ऋदिप्रसिद्धंतदीयशेषचरितं साधुदर्शनेनोपशमाद्यु पदेशनंसस्यक्तपरिभावनवज्रतुं डकीटिकाभक्षणं देवलोकगमनल

समाणेइमस्सउरालियसरोरस्सवंतासवस्सजावविद्धं सणधम्मस्सवस्सहेउं वाजावआहारं आहारिइसेणं  
इहलोएत्रेत्रज्जणं समणाणं ४ होलणिज्जेजावअणुप्परियट्टिस्सइजहावासिचंचलाएतक्करितएणंसेधस्सेस

रें पछेलोहीइं खरद्याशरीरनागंधयकी वज्रतुं डकाकीडीएशरीर पोलाखोषणोपरीसहकीधोते ऊपरें लिगारमातरोसऊपनोन  
हींपछे कालकरोदेवलोकें पळुं तोएहवोसंबंधकथावात्तानो आत्रय्य ऋसूत्रमाहिकह्योछे श्रीधुधर्माखामीकहेछे जं प्रते हेजंबूइरणे  
दृष्टांतें करीहेअमण हेआउखावंतजेअमारें साधुसाधवी दीचालीधेछते दीचालीधेछतो एआऔदारिकशरीरने वंतवांतवमन  
खवताकरतानें सडणविध्वं सननोधर्मस्सभावछे एहवाशरीरने भलावर्णफूटराथावाना कारणभणीतांलगीजांभलार आहारप्रते  
आहरे छेआहारदीइंछे तेसाधुसाधवीइहलोक आभवने विवेचेवनिश्चे घणासाधुसाधवीआवकआवकानें हीलनीयहेलानिंदाक  
रियायोग्यथाइंअने परभवने विहेच्यारगति संसारमांहिपरिभ्रमणकरस्ये अनंतासंसारमांहिरुलस्ये तेसाधु जिमतेचलातचोर

त्यत्राहंपंचहिंपुत्तेहिंअप्पच्छइच्चिलायंतौसेआगामियाएसव्वओसमंतापरिधाडेमाणेइसंतेतंतेपरितं  
 तेणोसंचाएइच्चिलायंचोरसेणावइसाहत्थिंगिहत्तएसेणंतओप्रडिणियत्तएजेणेवसुसुमादारियाचि  
 लाएणंजीवियाओवबरोवियातेणेवउवागच्छइइत्तासुसुमंदारियंचिलाएणंजीवियाओवबरोवियंप्रा  
 सइइत्ताप्रसुणियत्तेवचंपगपायवेतएणंसेधणेसत्यवाहेपंचहिंपुत्तेहिंसद्धिंअप्पच्छइआसत्थेकूवमाणे

दुःखपांस्योअटवीसांहिशरीरअडोच्छतो तिवारपच्छीतेधन्वोसार्थवाहपाचपुत्रसंघाते आपपोते छट्टोचिलातचोरप्रते केडेधातोदोड  
 तोच्छतो याकोच्छतोघणुंयाकोच्छतो घणुंविशेषयक्कीयाकोच्छतोसमर्थनहइ चिलातचोरनाकटकनाधणीप्रते पोताने हाथेकरीग्रह्वांभ  
 णीआलिवाभणीसमर्थनहइ तिवारे तिहांयक्कीतेधन्वासार्थवाह पाछोवलवाभणीप्रवत्थो पाछोधलीने जिहांसुं सुमावालिकाचिला  
 तचोरजीवितव्यक्कीचूकवीछंमारीछं तिहांआवेआवीने सुं सुमांवालिकापुलीप्रते चिलातचोरनाधणीइ जीवतव्यक्कीचूकवीछं  
 आउखायक्की अलगीक्कीधीमूइंप्रते देखे देखीने फरसीइ कुहाडे काप्योछेद्योचांपोवत्त जिमप्रसकीनेहेठोपडे तेहनीपरं धन्वोसा

नृणां नोक्तिमिति न विरोधः संभावनीयः उपनयग्रंथः पूर्ववत्वाहपक्षोक्त्विति अशुविमोचनं पिया इत्यादौ पितोपचारतो लोकेऽन्योपि रूढो यदा

कंदसाणे विलवमाणे अहयाः सद्देणं कुहकुहस्वरस्ये शुचिरकालं बाहमोक्त्वं करिद्रतएणं सेधस्ये सत्य  
वाहिपंच हिंपुते हिंअप्रच्छडे चिलायंतौ सेआगामिया एसव्वओ समंता परिधां विमाणेऽतएहाएछुहाएप  
रामूएसमाणेती सेआगामिया एअडवी एसव्वओ समंता उदगस्समगण गवेसणं करे इ संते तंते परि तंते णि

धवाहहेठोपडो तिवारे तेधन्नो सार्थवाहपाचपुत्ता संघाते' पोते' छट्ठोतिहारहीसांसलथयोक्त्तो कूकू आबवकरतोक्त्तो कंदआकंदकर  
तो विलापकरतोक्त्तो मोटंरथअं सादे' करी कूहरस्वरे' पोकारे' अरण्यअटवीने' विषे' घणीवेलातां ईवाहमोक्त्वं आसूआनाम्' कवा  
प्रते' करे' घणीवेलालीरोइ' तिवारे धन्नो सार्थवाहपाचपुत्त संघाते' पोते' आपच्छोचिलातचोरप्रते' तेमनुष्यमातरहितअटवीने' विषे  
सघलीदिशि विदिशिने' विषे' भलीपरं जोतोक्त्तो दोडतोक्त्तो लखाइं करी दुधामखे' करी पराभव्योपीओक्त्तो तेमनुष्यमातरहितनि  
मांनुपीअटवीने' विषे' सघलीदिशि विदिशिने' विषे' पांणीजोवानी गवेषणाप्रते' करे' कूआसरोवरजोइते पांणीनी गवेषणाकरतां थका

व्विणेतीसेआगामियाएअडवीएउदगसस मगणगवेसणंकरेमाणेणोचेवणंउदगंआसाएइतएणंउदगंअ  
 णासाएमाणेजेणवसुं सुमादारियाजीवियाओववरोविया तेणेवउवागच्छइतएणंसेधंसे सत्यवाहेजठ  
 पुतंएवंवयासौएवंखलुपुत्तासुमाएदारियाएअट्टाएचिन्नायंतकरं सव्वओसमंतापरिधाडेमाणेतएहा  
 एहहाएअभिभूयासमाणाइमीसेआगमियाएअडवीएउदगसस मगणगवेसणंकरेमाणेणोचेवणंउद

थाकोघणोयाकाघणोविशेषधी सर्वथाकोविषवादउद्वेगपास्योपोतोछतो तेनिर्मांनुषीमाणसमावरहित अटवीनें विषे पाणीनीजोवा  
 नीगवेषणाकरतोछतोअरहोपरहोभसें छे पिणनिचे उदकपांणीप्रते पास्योनहीं लाधोनहीं तिवारे पांणीप्रते अणपासतोछतो जिहां  
 सुं सुभावेटीजीवतव्यथकी चूकवीछें मूईपडीछें तिहांआव्योपाछोवलीनें तिवारे तेधन्वोसार्धवाह वडापुत्रप्रते इमकहतोउओइणेप्र  
 कारे निचे हेपुत्र सुं सुमाभालिकाने बालवामूं काविवाने अर्थे चिन्नातचोरप्रते सबलीदिशिविदिशिनं विषेदीडतायका तिरखाइं क  
 रीभूखे करीषणं व्याप्यापीद्याच्छता एआमनुष्यमावरहितअटवीनें विषे सवले पाणीनीजोवानीगवेषणाकरताछता पिणनिचे आप

गं आसा एसोत एण्डदंगं अणासा एसाणो संचा एसो राथगि हंणयं संपावित्तए तएण्डु भेरं समं  
 देवाणुप्पियाजो वियाओववरोविह समसंसंचसोणिवंचआहारिहतेणं आहारिणंअवधट्टासमाणात  
 ओपच्छाइसंअगाभियं अडविंणित्थरिहि हरायगिहंचसंपाविहिसिण्णाइणिययअभिसमाग  
 ञ्छिह्हअत्थस्सअधम्मस्सयपुण्यसय आभागीभविस्सहतएणंसेजेइयुत्ते धयेणंसत्थवाहिणंएवंवुत्ते समा

शोपेपाणीलाघोनहींआपणपाणीपांस्यानहीं तेकारणयकीपांणीप्रतेअणपांस्याच्छता पाणीअणपांस्याच्छताआपणसमर्थनऊइं राज  
 म्दहनगरप्रतेपाम्मिवाभणीएतले राजमहनगरप्रतेपऊचीसक्यानहीं तेणोकारणेतुहेहेदेवानुप्रियो हेपुलोअभनेजीवतअयकीचकू  
 कोमारोमारीनेआहरोमांसशोणितरुधिरप्रतेआहारज्योखाज्यो पछेतेणेमांसेलोहीनेआहारिखावेकरी धाय्याच्छतातरसम्भू  
 खनिवर्त्तीयाच्छता तिवारपच्छीएआन्नशुयमातरहित निर्मांसुपीअटवीप्रतेनिस्सरस्थोनीकलस्यो पछेवलीराजमहनगरप्रतेपामस्यो  
 पद्धचस्यो भित्तजातिपोतानापरिवारनेभिलस्यो अर्थद्रव्यनेसाधस्योधर्मवर्गनेसाधस्योपुन्यनेसाधस्योएतलेअर्थवर्गपुन्यएसर्वना



द्वयनिताचोपनेताचयस्तु विद्याप्रयच्छति अन्नदाताभयत्वातापंचैतेपितरः स्मृताः । इतिजनवाग्रहणं स्यापकागृहस्थधर्मोदारारदिसंग्राहणात्प्रतिष्ठापकाः राजादिसमच्चंस्वपदनिवेशनेनसंरक्षकाः नानाव्यसनेभ्यः संगोपकाः यहच्छाचारितायांसंवरणात्त्रयशिरितिअरण्येऽरुणे

शेषं सत्यग्राहणं वयासी तु भ्रंशं ताओ अहं पिद्या गुरुजण्या देवयभूया इवका प्रदुदका संरक्षणा संगोवगातं क ह हं अहं हेताओ तु भ्रंशो विद्याओ वयो विमो तु भ्रंशं सं च सो शि यं च आहारे सो तं तु भ्रंशं ताओ समं जी वियाओ वयो विहं सं च सो शि यं च आहारे ह आगा मिय अड विं शि त्थ र ह तं च व स व्भं भ्रंश

आमर्चदाकरीभोगीभोगवणहारयास्यो इमकह्योतिवारिंतेवडोपुत्रधनें सार्थवाहे' इणे प्रकारे' वाह्योच्छतोवलतोधनासार्थवाहप्रते इमकहतीहओतुहे हेतातपिताजीअम्हारापितावापछो गुरुजनसरिखाओ नेताचोपनेता च यस्तुविद्यांप्रयच्छति अन्नदाताभयत्वातापंचैतेपितरः स्मृताः । इतिजनकग्रहणम् देवतासरिखाओयापकछो गृहस्थनाधर्मने' विषेस्त्रीआदिकसंग्रहणथकी गृहस्थधर्मया पणहारओ प्रतिष्ठाप्रकह्योराराजादिकनीसाखिइं गोतानापदने' विषे' थापवे' करीरूडीपरे' राखोछोषणाप्रकारनाकटथीभलीपरे' संगो

इजावअथस्स ३ भागे भविस्स हत एणं धस्सं सत्थवा हं दो ञ्चे पुत्ते एवं वयः सौम्राणंताओ अरुहं जे इभायंरं गुरु  
 / देवयं जी वियाओ वररो विमातु भ्रंणंताओ ममं जी वियाओ वररो विहजावअभागी भविस्स ह एवं जावपंच

पढाकरणहाराओ अरुहनें पोतानी इच्छा इचालवाने विषे वारवायकी एहवातुहं पिताजी अरुहारें ओ तेकारणयकी किमअरुहे हेता  
 तजी पिताजी तुहनें जीवतव्यकी चूकवाभारां तुहारामांसलोही प्रतें अरुहे आहारकरां तेकारणयकी तुहं हेता तजी पिताजी सुभं  
 नें मारो पछे माहरो मासलोही आहारज्योखाव्यो पछे तेणं आहारं करी तुहं धायाच्छता एआमोटी मनुष्यरहित अटवी प्रतें निखर  
 स्यो उक्खं वस्यो तिमसघलो पूर्वली परें कहें राजगहनगरप्रतें पद्धचस्यो पोताना मित्तज्ञाती परिवारनें मिलस्यो अथैव गं धर्मगं पुन्यवर्ग  
 नाभोगवणहाराभागी विभागीयास्यो तिपारपछी ते धन्नासार्थवाहप्रतें बीजोपुत्र इमकहतो ह् अओमानिषेधं हेता तपिताजी अरुहाराव  
 डाभाई प्रतें जीवितव्यकी चूकवोमाभारो तुहं हेता तपिताजी सुभप्रतें जीवतव्यकी चूकवो सुभनें मारो माहरो मांसलोही खाओप  
 सें तालगीजा अर्थधर्म पुन्यनो मर्यादासहितभागीयास्यो इणं प्रकारे लीजोपुत्रचोयोपुत्रपांचमापुत्रतां ई इमजएकेके कछो तिवारपछी

भेषुत्ते तएणंसे अस्सेसत्यवाहे पंचपुत्ताणं हि यइच्छियं जाणित्ताते पंचपुत्ते एवं वयासीमाणं अरुहे पुत्ताएग  
 भविजौ वियाओववरोवेमोएसणंसुमाएदारियाएसरीरेणिप्राणे जीवियाओविपजदे तंसेइं खलुपुत्ता  
 अमहंसुमाएदारियाएमंससोणियं चआहरित्तएतएणं अरुहेतेणं आहारिणं अवधट्टासमाणारायगिहं  
 णअरंसंपाउणियासामोतएणंते पंचपुत्ताधरणं रुत्थवाहिणं एवं वत्तासमाणाएयमडुं पडिसुणेइतएणंसे

तेधन्वोसार्थवाह पंचपुत्तानाहीयानुं इब्धोवाब्धो एतले पंचपुत्तानाहीयामांहिल्याभावप्रते जाणीने तेपाचपुत्तांप्रते इरणं प्रकारे कह  
 तोऊद्यो माइतिनिषेअरुहे इमनहीं कीजसें एकाहे पुत्तोतुक्के पाचपुत्तामाहि एकपिणपुत्तप्रते जीवतव्ययकीचूक्कस्योमां एकभाइ  
 प्रते मारस्यांनहीं मारज्योमां एअसुंसुमावालिका पुत्तीनोशरीरनिःप्राणप्राणरहितक्के एंसुंसुमापुत्तीनोशरीरजीवतव्ययकीरहितथ  
 योक्के तेकारणयकीअयभलोखलुनिच्ये हेपुत्तोअपणे सुंसुमावालिकानो मासशोणितलोहीप्रते आहारकरिवाभण्यः प्रवर्त्तीथे तो  
 वारुत्तिवारिं आपणे तेणेंआहारे करीहपताथयाच्छताहटथयाच्छता राजटहनगरप्रते भलींपरे पामस्यापळ्ळचस्यांतिवारिं तेपांचपुत्त

बल्यादनाथैर्निर्मथ्यतेयद्वाश्रमंकरेदृत्ति शरकोनिर्मथ्यतेतद्येनेतिनोवस्य हेउमित्यादिचनेनचकिमुक्तं भवतिनन्वत्यन्तिएकस्याःसि

धष्णे सन्धत्राह्रिपंचहिंपुत्तेहिंसद्धिंअरिणिंकरेइत्तासरंगंकरेइत्तासरंगंकरेइत्ताअग्निंपाडेइत्ता  
त्ताअग्निंसिंधुके इत्तादास्याइप्रक्खवइत्ता अग्निपज्जालेइत्तासुसुमाएदरियाएअंसंचसोणिथं  
चआहारेइत्तेणंआहारेणंअवधट्टासमाणायायगिहंसंपत्तामित्तणाइअभिसमसागयातस्सयविपुलस्स

धन्ने' सार्थवाहे' इणे' प्रकारे' कच्छाच्छता एवचननाअर्थप्रते' अंगीकारकरे' हांभणे' तिवारपचीतेधन्नीसार्थवाहपांचपुलांसंघाते' अरणी  
नालाकडाप्रते' करे' अग्निने' नीपजाविवाने' अर्थनिर्मथीये' छेधसीये' जेजेकाष्टेप्रते' करे' हाथमांहिलेइकरीने' एकसरीयोकरे' जेणे  
सरीइ' तेअरणीनोलाकडो मथीये' तेसरीयोकरे' तेणेसरीये' अरणीनालाकडाप्रते' मये' धसे' धसीने' अग्निप्रते' पाडे पाडीने' अग्नि  
प्रते' सिंधूके' दीपावे' सिंधुकीने' अग्निसाहि घणालाकडापाले' धालीने' अग्निप्रते' प्रज्जाले' घणु' आकरीकरे' वाले' सुंसुमावालिकाना  
सासअने' वलीयोणितलोहीप्रते' आहारकरे' आहारकरीने' तेणे' आहारे' करीघणु' लपताइठययाच्छता राजमृहनगरप्रते' पडता

धणकणगरयणजावन्नाभागोजायातएणंधणे संत्यवाहेसुसुमाएदारियाएवहृद् लोदयाइं जावविगय  
 सोए जाएयाविहोत्या तेषंकालेणं तेषंसमएणं समणेभगवंमहावीरे जेषेवगुणसिएचेइए तेषेवस  
 सोसढेसेणिओ विरायाणिण्णया तएणंसेधसं सत्यवाहेधसं सोच्चापव्वइयाइकारसंगविक्रमासियाए  
 संलेहणाए जावकालमासेकालंकिच्चा सोहसं कप्पे देवत्ताएउववसं ताओदेवलोगाओसहाविदेहेवा

भित्तज्ञातिप्रसुखपोतानापरिवारने' जईमिल्याअने' चपुनःवलीतेषणा धनसोनारूपारतनहीरालाल चूनीसणिमाग्निव्यद्रव्यप्रधान  
 वस्त्रस्त्रीप्रसुखसुगलाना भागीविभागीययासवलीवस्तुना भोगवणहारायया तिवारे' पोताने' धरेआया पच्छीधन्वीसुार्थवाउंसुमापु  
 लीनोषणालौकिककर्त्त व्यभरणनाकार्वा इय्यारमोवारमोकारीने केतलाएकदिवसजयापच्छीविगतयोकाशोकरहितथयो तेकालने' वि  
 षेतेसमयने' विषे' अमणभगवंतओमहावीर जिहांगुणशिलवैत्वदेहरेछे तिहाआवीने' समोसया ओणिकाराजावांदिवानीसखोप  
 रिषदापिणवांदवानीसरी तिवारे' तेधन्वीसार्थवाउधर्मप्रतंसंभलीने' दीवालीधीपछेहून्यारं अंगदादशाणीस्त्रनेजांणथयोमासएक

सेसिञ्जिहितिजावञ्जंतकरिहितिजहावियणंजंबूधरुं सत्यवा हेणोवस्यहेळं वाणोरुवहेळं वाणोवस्यहे  
 ङं वाणोविसयहेळं वाधुसमाएदारियाएसंससोरिएआहारिएणस्यथएगाएरायगिहसंप्रावणइयाएए  
 वासेवसमणाउसोजो अरुहंणिगंधोवाणिगंधिवाइमससओरालियसतीरस्ववंतासदस्सुधित्तसिबस्सु

नीसंखणाइ' एकमासनेअएसणकारी तालगीजाकालकरिवानामासने' विषे' कालमरणप्रते' करीने सौधर्मनामाकल्प देवलोकने  
 विषे' देवतापणे' जपनेतेसौधर्म देवलोकयकी चवीनेमहाविदेहक्षेत्रनेविषे सी' भिक्षेतांलगीजाआठकर्मनेता अंतकारस्येसिद्धहेस्ये' हि  
 वेद्युवसी' स्वामीजहे' जिमनिचे' हेजंबूधनोसार्थवाहवर्णकातियावानाहेतुकारणभणीनकरे' धरीरनोअधिकोरूपनेकारणभणीनक  
 रेअधिकोअलनाकारणयावाभणी नकरेअधिकाविषयनायावानाकारणभणीनकरे' सुमाधुतीनाजांसयधिरलोहीप्रते' आहारकरे  
 तेअनेरात्रीजाकोईकामकाजने' अर्थनकरेएकानि' केवलराजगृहनगरप्रते' पामिवानेअर्थपड्कचवाभणीसांसलोहीनोआहारकरे' ति  
 मसाधुनोदटातओपझाकहे' इणेंप्रकारे' धन्नासार्थवाहनीपरे' अहोअमणोहेआउखावंतसाधो जेअम्हारानिअं यसाधुसाधवीहीवा

द्विगमनप्रापणार्थतया अन्यतनाहारमाहारयति तौवर्ज्वित्वाकारणां तरेणनाहारयतीत्यर्थः तत्सिद्धिगमनस्यसिद्धिगतैर्यःप्राप

कासवस्स सोणियासवस्स जावअवस्सविप्पजहियस्सणोवस्सहेत्तंवाणोरुवहेत्तंवाणोरुवहेत्तंवाणोवि  
सयहेत्तंवाणोआहारंआहारेइ णस्सत्थएगाएूसिद्धिगमणंसंपावणइ याएसेणंइहभवेत्तेव बहुणंसमणारणं

बीधीच्छतो एआप्रत्यक्षंऔदारिकशरीरने तेकेहवोक्खेवंतवमनअवतुं आरतोक्खे एहवादेहने वलीपित्तपीतोडाप्रते अवतोअरतोक्खे एह  
वाशरीरने घुक्कवीर्यंप्रते अवतोक्खे एहवाशरीरने शोणितरुधिरलोहीषाकोलोहीपरूआरतोक्खे एहवाशरीरने तालगीजांमीठेआ  
हारिपोखेक्खे वणोवत्तुभक्खे एहवाशरीरने अवस्थनिश्चे क्खंउवोत्यजवूक्खे एहवाशरीरने वर्णनाहेत्तुकारणभणीनहीं रूपयावाने हेतुभ  
णीनहीं शरीरनोवलजोरवधवानाहेतुभणीआहारनकरे पांचइं द्वियनाविषयवाधवानाहेतुभणी आहारंप्रते आहरे नहीजिमे  
नहींनान्यतअनें राबीजाने काजेनहीं एगाएएकनिःकेवलनिर्झारसहित सिद्धिगमनमोक्षमाहिजावाने धानकप्रते पामिवाने अर्थे  
आहारकरेक्खे तेसाधुसाधवीइहभवअभवने विषेचेवनिश्चे घणाअमणसाधुचारिलीयाने वणीअमणीसाधवीयाने घणांआविकाने

गलच्चणोऽर्थप्राप्तिरित्यर्थः तस्याभावस्तत्तातस्याइति इहचैवं विशेषोपनयः जहसोचिलाइपुत्तोसुसुमगिद्धो अकञ्जपडिवद्धोधणपारद्धो पत्तोमहाडविंसगणकयकलियं? तहजीवोविसयसुहेलुद्धोकाजणपावकिरियाओ कम्मवसेणंपावइ भवाडवीएमहाडुकुवः? २ धणसेट्ठी

वल्लणंसमणींणंवल्लणंसातयाणंवल्लणंसावियाणं अच्चणिज्जे जाववीइदइस्सइएवंखलुजंवंसमणेणंभगव  
यामहावीरेणंजावसंपत्तेणं अट्टारसमस्स एयउत्तयणस्स अयमइ पणत्तेत्तिवेसिजहसोचिलाइपुत्तोसुसु  
मगिद्धो अकञ्जपडिवद्धोधणपारद्धोपत्तोमहाअडविंसगणसयकलियं? तहजीवोविसयसुहेलुद्धोकाजण

घणीआविकाने' अर्चनीयपूजवायोयउद्धं तालगीजाकेवलज्ञानपामीने' सोच्चजास्येश्रीसुधर्मास्वामीकहेछे' इमनिचे हेजंबअमणभ  
गवंतश्रीमहावीरदेवे' अट्टारमाज्ञातानाअध्ययननो एअर्थसुक्कने कच्चोके' तेहवोअर्थतुक्कप्रते' कच्चोछे हिवे विशेषयकीउपनचइटांत  
कहे' छे जिमतैचिलातपुत्रचोर सुंसमानेगटप्रलोभीमोच्चोछतो अकार्यने विषे प्रतिअइययोलागोछतोधने सार्थवाहेपरभयोपीछोहा  
क्योछतोमनुय्यरहितमोटीअटवीप्रते' पहतोगयो तेअटवीकेहवीछे' वसनकटनादुःखनासय यतसेकडातेणंकरीकलितासहितहे' १ तिम



विगुणोपुत्ताइवसाहवोभवोअडवीसुयमंसमिवाहारा रायगिहंइहसिवंनेयं३ जहअडविनयरनित्थरणपावणत्थं तएहिंसुयमंसंभुत्तुं  
तहेवसाज्जं गुरुणाएआहारं ४ भवलंघणसिवपावणहेउभज्जत्तिण उणगेहीएवसुत्तलरूवहेउं चभावियप्पामहासत्तापु अथादशं ज्ञा

पावकिरियाओकम्मवसेणंपादइभवाडवोएसहाडुकवं २धणसेट्ठीविवगुरुणोपुत्ताइवसाहवोभवोअड  
वीसुयमंसमिवाहारो रायगिहंइहसिवंनेयं३ जहअडविणित्थरणपावणत्थं तएहिंसुयमंसं  
भुत्तंतहेवसाज्जगुरुणाआणाए आहारं४ अट्टारसमंणायज्जयणंसम्मत्तं १८ जइणंभंतेसमणेणंभग

जीवविषयसुखपंचे द्वियविषयनासुखने विषे लुद्धलोभीसूहर्षापांस्योक्कतोकरिने पापक्रियापापकरणीप्रते तेपापकर्मने वसे करीपामे  
जीवभवसंसाररूपअटवीने विषे जीवभमे महाघणोदुःखके जिहांभवसंभाररूपअटवीमांहे २धन्नासेठनीपरे २धन्नासेठसरिखाइहांगु  
रजाणिवा पांचपुलसरिखापांचपुलांनीपरे इहांसाधुशियजाणिवा भवसंसाररूपअटवीके इहांसुतावेटी सुंसुमानामांसरुधिरस  
रिखोमांसलोहीपरे इहांआहारजाणिवोसाधुने तथाधन्वोराजगटहनगरप्रते पळतो तिमइहांसाधुने राजगटहनगरसरिखोशिवमो

तविवरणं समाप्तं । ८ अथैकोनविंशतितमं व्याख्यायते अस्य च पूर्णं सहायस्य भिसंबंधः पूर्वत्वा संघत्ता अवस्थे तरस्य चानेष्टतरावु  
क्ता विद्वत्तु चिरं संश्रुता अत्रोभूत्वापि यः पश्चादव्यथा स्यात्तस्य अल्पकालं संघत्ता अवस्थयता बुध्येते इत्येवं संबंधमिदं सर्वं सुगमं नवरं उप

वथा महावैरिणं अश्वारसमासस्य ण्युत्पत्तये प्रसूते एगुणवोसद्वरुस्सखायुत्पत्तये एव समासस्य रंभ

क्षप्रो जाणिवो अजिम अटवीना निकरससूहनो निखरणजतरिवो अटवीना ससूहजतरी राजगृह नगरपा मिवा भणी तेषां छ एजणे वेटी  
वहिनो माससुधिरभक्तकस्योखाधोतिमद्दहांसाधुचारिलीयागुरुनी आज्ञाद्दं करोषा हारप्रते करे ४ ए अठारमो ज्ञातानो अध्ययनसंपूर्ण  
यथो । दृष्टिर्वे उगणी समो अध्ययनवखाणे उगणी समा अध्ययनसंघाते ए संघजां शिवो प्रथम आश्रवणं ध्यान हीति  
इने अर्थनो फलकस्यो अत्रे वलीपक्के पांच अश्रवणं ध्याच्छे ते हने शुभफलनो लाभकस्यो अने उगणी समा अध्ययनने विषे घणा कालतां ई  
चारतियोथ ईने जेपक्के चारिलसू केते हने संबंध अने वली सर्वथी थोडा कालता ई चारिल पाणी पोतानो अर्थसां ध्योते हने संबंधक हेच्छे श्री  
संबंधे जो हे भगवन् अमण भगवंत श्री महावीर देवे अठारमा ज्ञाताना अध्ययननो अर्थ तुमने कस्यो तेमे तुमारा मुखथी सांभल्यो हि वे ए

गवयामहावीरेणंजावसंपत्तेरंकेन्द्रपस्यत्ते एवंखलुजंबू तीरंकालेणंतेरंरुमएणं इहेवजंबूद्वीवेरुव्व  
 विदेहेवासैसीयाएमहाणइए उत्तरिह्लेकूडेणीलवंतस्स पव्वयस्सदाहिणंणंउत्तरिह्लेस्ससीयासुहदणसं  
 डस्सपच्चत्थिमेणंएगसेलगस्स वक्खारपव्वयस्सपुरित्थिमेणं एत्थणंपुक्खलावइणाम्भविजरपस्सत्तेतत्थणं  
 पुंडरीकिणीणामंरायहाणीपस्यत्ता णवजोयणविच्छिस्सा दुवालसजोयणायामाजावपच्चक्खं देवलो

गुणनीसमाज्ञातानाअध्ययननोअसणभगवंतस्त्रीमहावीरदेवे तालगीजामोक्षपडंते स्योअर्थकह्योच्छेतेसुभ्रप्रते कहीइमपूख्योहिचे  
 सुवर्मस्वामीकहेच्छेइप्रआगलिक्कहिस्सेतिमनिच्च हेजंबूतेकालने विषेतेसमयनेविषेआहिजजंबूपनामाद्वीपनेविषेपूर्वमहाविदेहत्वे  
 लनेविषेसीतामहानदीनाउत्तरदिशिनाकूटतटने विषेनीलवंतपर्वतने दक्षिणदिशिइ उत्तरदिशिनोसीतासुखनाभावनखंडनेपश्चिम  
 दिशिइ एकशैलकनाभावक्खारापर्वतच्छेतेहने पूर्वदिशेपूर्वदिशिइ इहापुक्खलावतीनामे विजयकह्योच्छेतिहांपुक्खलावतीविजयने विजे  
 पुंडरीकणीनासराजधानीकहीच्छेतेकेहवीच्छेनवयोजननीविस्तीर्णपिडुलीच्छेवारेयोजननीआयामलावीच्छे तालगीजांप्रत्यक्षसाजात्



धोसाधेरापंचहिं अणमारसएहिं सद्धिसंपरिउडेपुव्वाणुपुव्विं चरमाणा गामाणुगामंडूइज्जमाणा  
 जावणखिण्णीवणे उज्जाणेतेंणवससोसठे महापउमेरायाणिगए धम्मं सोच्चापुं डरीयंरज्जे ठावि  
 तापव्वइएपुं डरीएरायाजाए कंडरीएजुवरायाहोत्था महापउमेअणगारेजाए चउहसपुव्वाइं अहि  
 ज्जइतएणंधेराबहिया जणअयविहारंविहरंति तएणंसेमहापउमेअणगारे बहुणिवासाणिजावसि

छताग्रामानुग्रामप्रते अतिक्रमताउह्वं घताछता तालगीजानलिनीवननामा उद्यानवनखंडछे तिहांआवीने समोसखामहापदम्  
 राजानीसखोवादिवाभणी धर्मप्रते संभलीने पुं डरीकप्रते पोतानाराज्यने दीज्जानीधीपुं डरीकराजाधयो कंडरीक  
 युवराजाउं तोउच्चो महापदसअनंगारसाधुययो चउदप्रवभणे तिवारे थिवरधर्मवोषस्वरिवाहिर देयमाहिविहारकरीविचरे ति  
 वारे तेमहापदससाधु घणावरसताईचारिलपालीने सिद्धययो तिवारपक्षीयविरधर्मवोषस्वरिएकदासमे पुनरपिवलीबीजीवारपुं ड  
 रीकनीनगरीना बलिनवननामाउद्यानवनखंडछे तिहांसमोसखापुं डरीकराजा वादिवाभणीनीसखा कंडरीकयुवराजामोटाबो

द्वे ४ तएणंधेराअस्सयाकयाइ पुणरविपुंडरीगिणीएणयरीए णलिणवणेउज्जाणेसमोसटापुंडरीए  
 रायाणिगएकंडरीएमहाजणसहुंसोच्चा जहामहव्वलोजावपज्जुवासइ धेराधम्मपरिकहेइपुंडरीए  
 समणोवासएजाएजावपडिगतेतएणंकंडरीएउट्टाएउट्टेइरत्ताजावसेजहेयंतुभवेयह जंणवरंपुंडरीयं  
 रायंआपुच्छामितएणंजावपव्वयामिअहासुहं देवाणुप्पियातएणंसेकंडरीएजावधेरेवंदइणंसइरत्ता

कनाधणालोकनाशब्दप्रते संभलीने जिममहावलघणाआडंबरसहित वादिवागयोक्केतिमषणाआडंबरसहित वांदिवाजाइवांदीनम  
 स्कारकरीसेवाकरेक्रेधर्मषोपयविरधर्मप्रते कहे पुंडरीकराजाअमणोपासकआवकययोपक्के जिमआव्योतिमपाक्खोवलीने गयोतिवारप  
 क्खीकंडरीकजभोथाइ जठीने कहे जेएप्रवचननिग्रंथसिद्धातनोमार्ग सइज्जं कुंतेजिमतुम्हेकहोक्खो तिमजसाचोपरंजेएतलोविशेषक्के  
 पुंडरीकराजाप्रते पूछुं तिवारपक्खीसुंडयईतुमारंपासे दीचालेउं गुरुकहे यथासुखजिमसुखसाताज्जइं तिमकरोहे देवावुप्रियोति  
 वारपक्खीतेकंडरीककुमर धर्मषोषस्वरिप्रते वादेनमस्कारकरेकरीने धर्मषोषथिवरनासमीपथकीनीसरे नीसरीने तेहिजचारधंटा

अंतियाओपडिणिक्वमइत्तातमेवचाउघंट आसरहंढुरुहइजावपञ्चोरहइजेवपुं डरीएरायातेणव  
 उवागच्छइत्ताकरयलजावपुं डरीयंवंवयासीएवंखलुमएधेराणंअंतिएधम्भो णिसंतेजावपव्वइत्तएत  
 एणंसेपुं डरीए कंडरीयंवंवयासीमाणंतुंमभाउयाइयाणिसुं डे जावपव्वाहिअहंतुंमहारायाभिंसिं  
 चामितएणंसेकंडरीएपुं डरीयस्सएयमइंणोआढाइजावतुसिणौएसं चइइतएणंपुं डरीएरायाकंडरीयं

नाघोडानारथजपरवेसे वेसीने तिहापोतानाघरच्छेतिहाआवीने रथयकी हेठोजतरे जतरीने जिहांपुं डरीकराजच्छेतिहाआवे,  
 आवीने वेऊ हाथजोडीकरीपुं डरीकराजाप्रते इमकहतोऊआइणंप्रकारे खलुनिश्चे मे थविरनासमीपनेविषे धर्मसंभल्योतेकार  
 णयकीतुम्हारीआज्ञाइकरीदीखालेवाभणीऊं वाछुं छुं तिवारेवलतोतेपुं डरीकराजाकंडरीकप्रते इमकहतोह्यो साइतिनिषेधेहे  
 भाइदिवणांसुं डथई दीखालेजेमाऊं तुमप्रते मोटेराव्याभिषेककरे सीचुंअभिषेककरुं राजायापो इमकह्योतिवारेतेकंडरीक  
 पुं डरीकनाएवचननाअर्थप्रते आदरेनहींजाणेनहींवलतोजवावदीये नहीं तांलगीजाअणबोख्तोरहे बोले नहीं तिवारे पोंड

दोषं पितृत्वं पि एवं वयासी जावतु सिणी एसं चिदुदृत एणं पुं डरी एराया कंडरी यकुमारं जाहिणो सं चा एइव  
 ऊहिं आश्रवणा हि यप्रखण हि य४ ता हि अकाम ए च ए यम इं अणु मस्थित्या जावणिक्लमणा भिक्षे एणं अंभि  
 सिंचइत्ता जावथे राणं सीस भिक्खं दलयइ प्रवइ ए अण गारे जा एक्कार संगी विडत एणं धम्मो साथे रा

रीकराजा कंडरी कभार्द्रप्रतें वेवार तिणवारइ मजकहतो ऊअोपाखललीपरं तोही पिणते कंडरी कपुं छरी कराना एकहणप्रतें अण  
 भादरतो अणजाणतो छतो अणवोले रं हं तिवार पच्छी पंडरी कराना कंडरी ककुमार प्रते जिवारं राख्खिवाभणी समर्थन ऊइं घणावचन  
 नं कहिं करी घणावचननी प्ररूपणाइं करी कहवें करी तिवारं पुं डरी कपोतानी अणवांछा करतो जनिच्चं एअर्थं प्रते अणमानतो छतो  
 राजा भिसेक करे पळे कंडरी कराना पंडरी कपासें दी चालिवानी सामग्री अणावे पळे सो नारूपाना अठजातिना कलस अणवी दी चाले  
 ना अ भिपेकें करी अ भिसें चिं स्नान अंधो लि करारं वे पळे घणा आडं वर सहित अवी नें पुंडरी कराना धर्मधोषय विरनें शिष्य रूप भिच्चा प्रते अापे  
 पळे दी वी दी चाय विरे तिवारं दी चाली धे छतो कंडरी कनामा अण गार साधु यथो द्वा दया गी खल्ल नो जां गय यो तिवार पच्छी धर्मधोषय विरआ



अथाकथाद्रुं डरीगिणौओणलियोवणाओउज्जाणाओपडिणिव्वमद्रुंतावहियाजणवयविहारं  
 विहरइतएणंतस्सकंडरीयस्सअणगारस्सतेहिंअंतैहियंपंतैहियविरसेहियजहासेलगजावदाह  
 वक्कंतौएथाविहरइतएणंतैथेराअस्सयाकथाद्रुंजेणेवपुं डरीगिणौतेणेवउवागच्छद्रुंत्ताणलियोवणेस  
 मोसटापुं डरीएरायाणिणए धम्मं सुणेइतएणंसेपुं डरीएराया धम्मं सोच्चालेणेवकंडरीएअणगारेतेणे

वार्थएकदासमेपुं डरीकनीनगरीनानलिनवननामाउद्यानथकीनीसरंनीसरीनेंवाहिरजनपदेशमांहिचिहारप्रतंकरेतिवा  
 रपक्षीतेकंडरीकअणगारनेंतेणेआहारेअंतकहतावलहराब्रअरचणादिकेकरीप्रांतकहतातेहिजजिम्यापक्षीजगख्योअन्नतेणेआहारे  
 करीअरसहिंगादिकेनेवधारिरहितआहारतेणेकरीविरसजूनाखाडनाकुह्याअन्ननाअ, हाररसरहितएहवानिरसंआहारनेंकरिवे  
 करीजिमसेलकराजअधिनीपरंतांलगजादाघव्वरजपनोएहवोकंडरीकराजअधिरोगवंतययोऊतोविचरेकेतिवारपक्षीतेथविरोधसू  
 रिएकदासमेंजिहांपुं डरीकणीनगरीकेतिहांअव्याआवीनेंनलिनवनउद्याननेंविषेसमोसस्यापुं डरीकराजांवादिवाअणीनीसख्यो

वज्रवागच्छइहता कंडरीयं वदइरण्यं सइहता कंडरीयस्स अणगारस्स सवैर गंसव्वावाहंसरोयं पासइर  
 ता जेणेवथे रा भगवंतो तेणे वज्रवागच्छइहताथे रे भगवंति वदइरण्यं सइहता एवं वयासौ अहसुं अंते  
 कंडरीयस्स अणगारस्स अहापवित्ते हिंओ सहमेसज्जे हिंजावते इच्छं आउंटा मितं तु भभंणं अंते मरुजा  
 रासालासुसभोसरह तएणंतेथे रा भगवंतो पुंडरीयस्स रसोपडिसुणेइ जावउवसंपज्जिताणं विहरंति

वादीने वेठोधसंप्रते 'संभलेंति वारे' तपुंडरोकराजा धर्मप्रते 'संभलीने जिहा कंडरीकसाधुच्छेति हां आवे आवीने कंडरीकसाधुप्रते वां देनम  
 स्कारकरं करीने कंडरीकसाधुनाथरीरप्रते आवाधासहितरोगसहित एहवाशरीरप्रते 'देखे' देखीने जिहांथ विरघर्मवोषसूरि भगवं तच्छेति  
 हां आवे 'आनीने थ विरभगनं तप्रते वां देनमस्कारकरं करीने इमपूच्छतो ऊओऊं हे भगवन् कंडरीकसाधुनें यथा प्रथंति इं करीओषधभेषजेक  
 रीतां लगीजाचिकित्सावेदगकणं तेकारणथकी तुम्हे हे भगवन् माहरीया नशा लागाडां वहिलपालखी प्रमुख राखवानीया लावरच्छेते हने  
 विपे आवीने जतरोरहेति वारपच्छीते थ विरघर्मवोषसूरी भगवं तपुंडरीकराजानो कहणअंगीकार करीने जिहां पुंडरीकराजानीयान

तएणंपुंडरीएराया जहामंडुएसेलगखजावलयसरीरे जाएतएणथे राभगवंतो पुंडरीचंरायंअपु  
 च्छइत्तावहियाजणवयविहारंविहारंति तएणंसेकंडरीएअणगारे ताओरोयायंकाओविप्यसुक्रेस  
 माणंतंसिमणुखंसिअसणं४ समुच्छिण्णोसंचाएत्तिवहिया जणवयविहारंविहरत्तए तत्येवओस  
 खेजाएतएणंसेपुंडरीएराया इमीसेकाहाएलइइं समाणएहाए अंतैउरपरियारसद्धिसंपरिउडेजेएव

शालानेविषे'कतरीने'पाडिहारं'पाटिपाटलाप्रसुखलेइने'अंगीकारकरे'करीने'विचरेहे'तिवारंपुंडरीकराजाकंडरीकषाधुनाशरी  
 रनौचिकित्वाकरे'जिममंडूकराजासेलकराजच्छिने'चिकित्वाओषधभेषजकीधोच्छेत्तिसकरे'पछे'नीरोगीरोगरहितथयोशरीरवलि  
 षथयोतिवारपछी'शविरधर्मषभगवंतंपुंडरीकराजाप्रते'पूछे'पूछीने'बाहिरदेशमांछिविहारप्रते'करीने'विचरेहे'तिवारं'तेकंडरी  
 कषाधुतेरोगांतं'कथकीविप्रसुक्तम्'काणोच्छतो'तेमनोरमआहारअन्नपांणीखादिमखादिम च्यारप्रकारनाआहारने'विषे'अर्छीणोष्ट  
 'प्रथयोच्छतोसमर्थनऊइं'पुंडरीकराजाप्रते'पूछीने'बाहिरजनपददेशमांछिविहारप्रते'करिवाभणीविचरिवाभणी'समर्थनथाइ'उद्य

कंडरीअणगारेतेणेवडागच्छइइत्ता कंडरीयअणगारंतिवखु, तो आआहिणंपयाहिणंकरेइवंदइरण  
 संसइइत्ताएवंवयासौधणेसिणंतुमं देवाणुप्पिया कयत्थेकयपुणे कयलक्खणेसुलइं शं देवाणुप्पियातव  
 भाणुस्सएजअजौवियकलेजेणंतुमं रज्जं चरइं च जावअंतैउरं चविच्छं डइइत्तां विगोवइइत्ताजावपव्व  
 इत्तएअहसं अथसुं अपुणे अकयपुणे रज्जे यजावअंतैउरेयमाणुस्स एसुथकामभोगेसुयसुच्छिएजावअ

भवंतनथाइं तिहाजउसन्नयईरह्यो तिवारे तंपुंडरीकराजाएहवीकथावातां समाचारनोअर्थलह्योपास्योक्तो न्हायोअंघोसकथां  
 पकीअंतैउरनापरिवारसंघातं परिवस्योक्तोनिहाकडरीकसाधुक्के तिहाअवे अवीने कंडरीकसाधुप्रते त्रिणवारआद्विणप्रदत्ति  
 णाप्रते करे करीने वां देनमस्कारकरे करीने इमकहतोह्मअधन्यतुं हे देवानुप्रिय हे कंडरीकमुने कतार्थययो कतपुन्यथयोतुं कतलक्षण  
 थयोतुं भलोलह्योपांस्यो हे देवानुप्रिय हे कंडरीकमुने ताहरोमनुष्यसंबंधीओ जन्मजीवतव्यनोफलजेणें कारयेतुं राज्यदेशकोठारभंडा  
 रअंतैउरप्रमुखसवलीअह्मिप्रते कंडीने परिहरीने विशेषथकी मनेकरीविगोपवीने कंडीने दीचालेवाभणीप्रवर्त्योह्मं अथन्यकुं ह्मं

उभोववस्ते णीसंघाएमिजावपव्वइत्तएतंधस्से सिणं तु पंदेवाणुप्पियाजावजीवियफ़लेतएणंसेकंडरीएअ  
 णगारेपुंडरीयस्सेयमइंणोआट्टाइ जावतुसणीएसंचिइइतएणंपुंडरीएणंरणाकंडरीयंअणगारेदो  
 चं पितच्चं पिएवंवुत्ते समाणेअकामतेअवसवसेलज्जाएगारवेणयपुंडरीयंरायं आपुच्छइइत्ताथरेहिं

अपुन्यवंतकुं अकतपुन्यवंतकुंजेकारणयकी रांज्यने विषेकोठारभांडारतांलगीजाअंतेउरखीनासमूहप्रमुखसवली ऋद्धिने विषेतथाव  
 लीमनुष्यसंबंधीकामभोगने विषे गहिलोथईरह्योक्कंमूख्योक्कंउट्टप्रलोभीथईरह्योक्कं तेराज्यमयघणुंथईरह्योक्कं एहवोअध्यवसायजपजेके  
 जेऊं दीचालेउं पिणऊं राज्यऋद्धिंखंडीने दीचालेवाभगीशक्तिवंतसमर्थनहोक्कं तेकारणयकीधन्यपुन्यवंतकुं हेदेवानुप्रियताहि  
 रोमनुष्यसंबंधीजन्मजीवतव्यनोफल इमकह्योतिवारे तेकंडरीकसाधु अणगारपुंडरीकराजानाएवचनप्रते आदरे नहीजांणंनही  
 अणवोल्पोक्तोवेसीरहे तिवारेतेपुंडरीकराजाइ कंडरीकसाधुप्रते वेवारत्रिणवारएणेप्रकारे कह्योवीनव्योक्तो अणवांछतोपो  
 तानीइच्छाविनाअवश्यने परवशिऊं तोछतोलजेकरी गारवअहंकारेकरी पुंडरीकराजाप्रते पूके पूछीने शविरसाधुचारतीया

सद्विबहियाजणवयविहरइतएणंकंडरीएअणगारेथेरेहिंसद्धिंकिंचिकालंडगंडुगेणंविहरित्तएत  
 ओपच्छासमणपरितंतैसमणत्तणणिव्विणेषमणत्तणणिभक्खिएरुमणगुणसुक्कजेगीथेराणंअंतिया  
 ओसणियंपच्चोसक्कइत्ताजेणेवपुंडरीगिणीणयरीजेणेवपुंडरीयस्सरखोभवणेतेशेवउवागच्छइइ  
 ताअसोगवणियाएजेणेवअसोगवरप्रायवस्सअहेपुटविसिलापट्टयंसिणिसौयइइत्ताउहयमणसं

संघाते वाहिरदेशमां हि विहारप्रते करीने विचरे तिवारपक्कीतिकंडरीकसाधु थविरांसाधुसंघाते केतला एककालतां ई उग्रउत्कष्टत  
 पनें करिवे करी उत्कष्टविहारं करी विचरीनें चालीनें तिवारपक्कीअमणसाधुपणामाहे वंशुंजयाकोछिअमणसाधुपणाचारितप  
 णामाहियकी निविणविषादखेदपास्योभागोछतो अमणचारितपणाने विषे निर्भत्स्योअमणगुणसाधुनागुणथकी म् कारोअलगो  
 ययोछेजेयोगीकंडरीकसाधुसिथिलययोछतो थिवरसाधुनासमीपथकी धीरेरअलगोथाइयईनें पाछोवलीनें जिहापुंडरीकिणीनगरी  
 के जिहापुंडरीकराजानोभवनघरके तिहाकंडरीकआवेआवीने जिहांअयोकवाडीने विषे जिहांअशोकनामावरपादपट्टने हेठ

कामेजावज्जिक्थाय माणेशं चिद्वृत्तएणंतस्स पुंडरीयस्सरणो अम्मधाई जेणेव असो गवणिया तियेव उ  
 वागच्छउत्ताकंडरीयं अणगारं असो गवरपायवस्स अहेपुढविसिलापट्टयंसि उहयमणसंकप्यं जाव  
 जिक्थायमाणंपासइत्ता जेणेवपुंडरीएराथा तणेवउवागच्छइत्ता पुंडरीयं रायं एवं बयासीएवंब  
 लुदेवाणुप्पियातवभालएकंडरीएअणगारे असो गवणिया एअसो गवरपायवस्स अहेपुढविसिलापट्टए

एथवीथिलापट्टे तेषवीथिलापट्टेने विषे वेसेवेसीने चार्त्तध्यानरौद्रध्यानचिंतातुरथइ गलिहल्यो देई हेठीइठिकरीमनमांहि  
 संकल्पविकल्परूपध्यानध्यातोळतोरहेके तिवारे तंपुंडरीकराजानीदूधधविराविवानीधावि जिहाअशोकवाडीके तिहांआवे का  
 वीने कंडरीकसाधुप्रते अशोकवरप्रधानपादपट्टनेहेठे एथवीथिलापट्टेने विषेवेठेके चार्त्तध्यानरौद्रध्यानचिंतारूपमनमांहि संक  
 ल्पविकल्पध्यानचौतवेके धणुंजचिंतातुरथइवेठेके एहवाकंडरीकसाधुप्रते देखे देखीने जिहापुंडरीकराजाके तिहांआवे आवीने  
 पुंडरीकराजाप्रते इसकहतीऊईइणेप्रकारे निचे हे देवानुप्रियतुम्हारोभाईकंडरीकसाधु अशोकवाडीनेविषे अशोकवरप्रधानपाद

उहयभरणसंक्षुभ्रं जावज्जिम्भयायद् तएणंपुं डरीएरायाअस्रधाईएयमडुंसोच्चाणिसम्मतह्वसंभंतेसमा  
 णेउड्डेइइत्ताअंतेउरपरिचालसद्धिसंपरिउडेजेखेवअसो गवणियाजावंकंडरीयंअणगारंतिक्खुत्तोएवं  
 वयासौधखे सिणंतुंभंदेवाणुप्पिया जावपव्वइएअहखंअधखेइ जावणोपव्वइत्तएतंधसोसिणंतुंभंदेवा  
 णुप्पियाजावजौविद्यफले तएणंकंडरीएअणगारे पुं डरीएणंरसाएवंवुत्तसमाणे तुसिणोएसंच्चिइइदो .

पद्यने' हेठेष्टयवीथिलापट्टजपरवेठोक्केअर्त्तरीद्रुध्वानचिंतातुरच्छतोभनजांहिसंकल्पविकल्पचिंताकरतोध्याइक्केतिवारेपुं डरीकराजा  
 दूधवायनासमीपथकीएसभाचारप्रते' साभतीने' हीपामाहिअवधारीने' तिमजसंभ्रांतपणेअसंमोच्चाउतावलोच्छतोउठेजठीनेअंतेउर  
 नापरिवारसंवाते' परिवस्योछतो जिहाअशोकवाडोक्केष्टयवीथिलापट्टजपरिवेठाकंडरीकसाधुप्रते' तिरणवारप्रह्विज्जया देईवाहीने' नमस्सा  
 रकरीने' इमजकहतोछत्रोधन्यतु' हे देवानुप्रियराज्यदेशभंडारकोठारखीसर्वछाडीने' साधुययोक्के' उ' अधन्यअपुरय प्रकृतपुख्यअभागी  
 वोक्कुं' जेकारणथकीराज्यअद्विछाडीने' दीचालेवाभणीसमर्थथईसकतो नहीकुं' तेकारणयज्ञीधव्यतु' हे देवानुप्रियहेकंडरीकसाधोभलो



चंपितच्चंपिजावचिइइतएणंपुंडरीएरायाकंडरीयं अणगारं एवंवयासौ अष्टोमंतेभोगिंहंताअह्रात  
 एणंसेपुंडरीएरायाकोडुबिचयुविसेसहावेइइत्ता एवंवयासौखिप्पामेवभोदेवाणुप्पिथाकंडरीयस्सअ  
 णगारस्समहत्थंरायाभिसेइंडवइवेह जावरायाभिसेणंअभिसिंचइतएणंसेपुंडरीएराया सदमेवपंच

पाय्योताहरोजनमअवतारनाजीविमानोफलतिवारंतेकंडरीकसाधुषुंडरीकराजाइ' इमकच्चोक्कतोअणभोल्योरहंपाच्छोजवावआपेनही  
 वेवारत्तिणवारपुंडरीकराजाइ' इमजकच्चोतोहीपिणकंडरीकजावनदेतिवारपच्छीपुंडरीकराजाकंडरीकअणगारप्रते' इमपच्छतोड्ड  
 ओभंतेहेभगवन्कंडरीकसाधोताहरे' भोगसंघाते' अर्थप्रयोजनके' तिवारे' बलतोतेअधिकहे' हाभोगसंघाते' अर्थकामच्छेचारित्वथकीभागो  
 कुं' एहवीवातकंडरीकनामुखथकीसांभलीने' तिवारपच्छी' तेषुंडरीकराजाअदेशकारीपुरुषांप्रते' तेडावे' तेडावीने' इमकहतोड्डओजा  
 ओठुमेउतावलाजहे देवानुप्रयहेसेवकोकंडरीकसाधुने' मोटाअर्थसहितबड्डसुल्यराजाने' योग्यएहवारजानाअभिषेकप्रते' आयोआं  
 णीने' राजानाअभिषेकप्रते' करोपेके' तेसेवकतिमजकंडरीकप्रते' राजानाअभिषेके' करीअभिषेके' रान्ज्येथपे' तिवारे' तेषुंडरीकराजा

सुद्वियं लोयं करिंति सयमेव चाउज्जामंघस्यं पडिवज्जइरत्ता कंडरीयस्सअणगारस्सअंतियं आथारमंड  
 गिएहइरत्ताइसंएयाखुवंअभिगहंअभिगएहइरत्ताकप्पइस्सेयेरेवंदिता॥संसित्ताथेराणंअंतिएचाउ  
 ज्जामंघस्यंउवसंप्रज्जित्ताणंतओपच्छाआहारंआहारित्तएत्तिकहुइसंएयाखुवंअभिगहंअभिगएहिह  
 तापुंडरीओगिणीणयरीओपडिणिकवमइपुव्वाणुपु व्विंचरआणेगामाणुगामंडूइज्जमाणेजेणेवथेरा

स्वयमेवपोते जपोतानीमेले पांचसूहीलोचप्रते करे करीने स्वयमेवपोताइजपोतानीमेले चारमहाव्रतरूपधर्मप्रते पडिवजे अंगीकार  
 करे करीने कंडरीकसाधुनासमीपनाआचारनाभाउपावाउपगरणओघोसुहपतीडाओप्रसुखयतीनाउपगरणप्रते लीये पुंडरीकराजा  
 ऋषिएहवाअभिग्रहप्रते अभिग्रहकल्पेसेसुफने यविरधर्मघोषस्वरिप्रते वादीने नमस्कारकरीने धिवरसाधुनासमीपने विषे चारमहा  
 व्रतरूपधर्मप्रते अंगीकारकरीने धिवरने पासे व्रतजचरीने तिवारपक्कीआहारप्रते आहारवाजिमवाभणीकल्पे इमकहीने एहवाअभि  
 ग्रहप्रते अभिग्रहीने लेइनेपुंडरीकिणीनगरीमाहियकीवाहिरनीसरे नीसरीने पूर्वासुपूर्वीइकेडाकेडिइ विचरतोग्रामासुग्रामप्रते

भगवंतोतिथेवप्रहारेत्यगज्जणाएतएणंतस्वकंडरीयस्वरसोप्रणीचं प्राणभोयणंआहारियस्वसमाणस्व  
अतिजागरणयत्रइभोयण प्यसंगेणयसेआहारिणोसम्प्रपरिणए तएणंतस्वकंडरीयस्वरसोतंसिआ  
हारंसिअपरिणसमाणंसिपुव्वरत्तावरत्तकालसमयंसि सरौरगंसिवेयणापाउभूयाउज्जलाविज्जला  
गाटापगाटाजावदुरहियासापित्तज्जरपरिगयसरौरि द्वाहवक्कंतौएयाविविहरइतएणंसेकंडरीएरा

अतिक्रमतोउल्लंघतोसूंकतोच्छतो जिहायविरधर्मघोषसूरिभगवंतज्जानवंतच्छे तिहापधारिवाभणीमनकारतोउज्जओतिवारि तेकंडरीकरा  
जानिं प्रणीतसरसधीप्रसुखसहितए हवोपाणीभोजनप्रतें आहारताजिमताच्छतानिअतिघणोरतिमाहे जागवे करीअतिघणुंभोजनआ  
हारकरिवानिं प्रसंगे करीवारंवारआहारजपरआहारनें करिवे करीतेआहारसमंक्रहतारूडीपरिपरिणमे नहीकंडरीकने तिवारि  
तेकंडरीकराजानिं तेसरसचीकटआहारअणपरिणम्ये अणपच्ये अणजरे हते छते मध्यरालिनाकालनासमयने विपे कंडरीकराजा  
नाशरीरविषे वेदनाप्रकटथईजपनीतेकेहवीछे जजलीआकरीछे विपुलाविखीण्छे गाढीघणुंजअकरीछेतालगीजाघणुंदुःखे अहिया

चारज्जेयरइयंतेउरेय जावअज्जोववणोअट्टुहट्टवसइअकामएअवसवसेकालमासेकालंकिञ्चाअ  
 हेसत्तमाएपुठवीएउक्कोसट्टिइयंसिखेरइयत्ताएउववणोएवसेवसमणउसो जावपव्वइएसमाणेपुणर  
 विमाणुस्स एकामभोएआसाएइ जावअणुपरियट्टिस्सइ जहावसेकंडरीएरायातएणंसे पुंडरीएअण

सवाक्कमवायोग्यक्के पित्तज्वरे सहितपित्तज्वरे व्याधोशरीरदेहजेकंडरीकराजानोएहवीवेदनासहितशरीरमाहिदाषज्वरजपनोच्छतोष  
 णीवेदनाराविमांदिभोगवतोच्छतोरहेच्छे तिवारे तेकंडरीकराजाराज्यनेविषे देशभंडारकोठारधनधान्यअंतेउरस्त्रीनासस्सहप्रमुखस  
 वली इद्विने विषे तालगीजाम्बुखीणोलोभपास्योग्दंलोभीययोएहवोअध्यवसायजपनोच्छतोवेदनाअणवाच्छतोधर्म अणवाच्छतोवेदनाइ  
 करीयवसिपरवसिययोच्छतोकालकरिवानामासने विषे कालप्रते करीने हेठोसातमीनूरकण्ठयवीने विषे उत्कृष्टीआउखानीतेलीससा  
 गरोपमनोयित्तिइंनरकने विषे नारकीपणे जपनोहिवे सुधर्मास्वामीसाधुने चोपमाकहेच्छे इमकंडरीकनीपरं हेअमणहेसाधोआयुष्मन्  
 जेअमारासाधुमाववीदीजालोधोच्छतोवली मनुष्यसंबंधीयाकामभोगप्रते आस्वादस्ये भोगवस्ये तेकारणयकीतेसाधुमाधवीषणासाधुसा

गारेजेणेवथेराभगवंतो तेणेवउवागच्छइत्ता थेरेभववंतेवंदइणसइत्ता थेराणंअंतिएदोच्चं पि  
चाउज्जामं धम्मं पडिवज्जइ छट्ठखमणपारणंसिपट्माएपोरिसीए सज्जायंकरेइ जावअडमाणसो  
यलुक्खं पाणभोयणंपडिगाहेइ अहापज्जत्तमित्तिकट्टु, पडिणियत्तएजेणेवथेराभगवंतो तेणेवउवाग  
च्छइत्ताभत्तपाणंपडिदंसेइ थेरेहिंभगवंतेहिं अभुण्णुसाएसमाणे असुच्छिएविलमिबपसुगभूणं

धवोअ वकआवकाने हीलनीयथाइं तथापरलोकने विषेषणासंसारमाहिभमस्येजिमतेकंडरीकराजानीपरेंतिवारपक्कीतेपुं डरीकसा  
धुजिहायविरभगवंतछें तिहांआवे आवीने थिवरभगवंतप्रते वादे नमस्कारकरे करीनेथविराने समीपने विषेवीजीवारच्यारमहाव्रतं  
रूपधर्मप्रते पडिवजे पडिवजीने छट्ठवेउपवासनापारणाने विषे पडिहापोहरने विषे सिंभायप्रते करे करीनेनीजीपोरसीध्यानकारीने  
तीजीपोरसीने विषेपातासुहपत्तीपडिलेहीकारीनेथविरानी आच्चाइं करीनगरीसांहीनोचरीइ भमतोछतोथीतताढालूखापांणीभो  
जनप्रते पडिगाहे विहरं संपूर्णआहारथयोसखोजाणीने नगरमाहियकीपाछोवलीने जिहायविरसाधुभगवंतछें तिहांआवे आवीने

अप्याणेषु फ्रासुएसणिल्लं असणं प्राणं खाइमंसाइमं सरौरकोडुगं क्षिपक्खवइ तएणंतस्स पुंडरीयस्स  
अणगारस्सतं कालाइक्कंत अरसं विरसं सौयं लुक्खं प्राणभोयणं आहारियस्ससमाणस्सपुव्वरत्तावरत्त  
कालसमयंसिधम्मजागरियं जागरमाणस्ससंआहारणोसम्मं परिणमइ तएणंतस्सपुंडरीयस्सअण  
गारस्ससरौरगंसिवेयणा धाउभूया उल्ललाजावदुरहियासा पित्तज्जरपरिगयसरौरं दाहवक्कंती

इरियावहीपडिकमीनेंगोचरीआलोइनेभातपांणीदेखाडेंदेखाडीनेयविरसाधुभगवंतेअनुज्जाआदेशपांम्योआदेशदीधोछतोआहारज  
परसूक्कांरहितकृतोविलदरमाहे'सर्षजिमपेसे'तेहनीपरं'पुंडरीकसाधुपोते'पोतानीसेले'करीप्राडुकनिज्जीवएषणीयवेतालीसदोपर  
हितअन्नपांणीखादिमखादिमआहारशरीररूपकोठाने'विषेप्रक्षेपेतिवारं'तेपुंडरीकसाधुने'तेकालातिक्रांतकालप्रते'अतिक्रम्योउल्ल  
ष्योअरसरसरद्वितनिरसताढालूखापाणीभोजनआहारकरताछताने'मध्यरात्रिनाकालसमयेनेविषे'धर्मजागरिकाप्रते'जागताछताने  
पुंडरीकसाधुने'तेताढोलूखोअरसरविरसआहारकीधोतेभणीपरिणमेनहींतिवारंतेपुंडरीकसाधुनाशरीरनेविषे'वेदनाप्रकटीजपनी

एविहरइतएणंसेपुंडरीएअणगारिअथामे अबलेअवीरिए अपुरिसक्कारपरक्कसे करयलजावएवंवया  
 सीणमोत्थुणंअरहंताणंभगवंताणं जावठाणंसंपत्ताणंमोत्थुणंथेराणं भगवंताणंरुसधम्मायरियाणं  
 समोधम्मोवएसगाणंपुंविंपिणंसएथे राणंअंतिएसब्बेपाणाइवाएप्रच्चक्खाएजावमिच्छादंसणसत्तेणंपच्च

तेकेहवीछे'जजलीआकरीतालगीजादुःखे'घणंकेटं'करीखळीजाइ'नहो'पित्तज्वरे'व्याध्योशरीरदेहपु'डरीकसाधु'नोशरीरने'विषे'दा  
 घज्वरजप्रनोएहवोरोगवंतरालिसाहे'थयोछतोविचरे'छे' तिवारपच्छीतेपु'डरीकसाधु'जठवावेसवानीखनया'इरहितथयोअवलका  
 यानावलरहितथयोअवीर्यउद्यमरहितथयो पुरुषाकारपराक्रमरहितथयोक्ततो तिवारे'जरात्रिआंहिवेहाथजोडिने'सायाने'विषे'रुं  
 जालिप्रते'करीइमकहतोऊओ'नमस्कारऊवोबूणभणीचोठिइ'द्रनी कीधीपूजाने'योग्यछे'तेभणी भगवंतसंपूणंठकुराईवतभणीतांल  
 गीजांपाठकाहिवोसिद्धगतिथानकप्रते'पास्याछे'तेभणीप्रथमअरिहंतभणीनमोत्थुणंकीधो हिवे'पोतानागुरुभणीनमोत्थुणंकरे'छे'नम  
 स्कारहो'बुणभणी यविरधर्मदाताभगवंतज्ञानवंतभणी साह्यधर्माचार्यभणीसुअने'धर्मोपदेशना दातारधर्मधोषस्वरितेभणीपूवे'

क्वाएजावआलोडूयपडिक्कंते कालमासेकालं किञ्चरुव्वडूसिद्धे उववय्ये तओअणंतरं उव्वडितामहा  
 विदेहेवासेसिद्धिक्कंतिजावसव्वडुकवाणमंतंक्रिंहिति एवासेवससणउसोजापव्वडूएसमाणेमाणु  
 स्वएकामभोगेहिंणोसज्जइणोरज्जइ जावणोविष्वडिघायभावज्जइसेणुइहभवैचेव वडुणंसमणारं व

पिणसे' धर्मघोषआचार्यनासमीपनेविषे' सघलाप्राणतिपातआदिदेईच्यारपचख्याछे' हिवणापिणतेहिजमा  
 हराधर्माचार्यनासमीपने' विषे च्यारसहाव्रतजचरुछ प्राणतिपातआदिदेई' मिथ्यादंसणसल्पपयंतअदारे' पापस्थानकपचलुछं तां  
 लगीजाआलोईपापघकी अतीचाररूपपापयीनिवर्त्त्योक्ततो कालकरिवानामासने' विषे' कालप्रते' करिने' सर्वार्थसिद्धनामापंचमाद्य  
 नुत्तरविमानने' विषे' देवतापणेजपनोपुंडरीकसाधु तेसर्वार्थसिद्धमाहियकीअनंतरआंतरारहितउहृत्तीने' चवीने' महाविदेहच्छेत्तने  
 विपेत्तीभस्ये' मोक्षजास्ये' तालगीजासघलाडुःखानाअंतच्छेहप्रते' करस्ये' इणे' इष्टांते' पुंडरीकसाधु नीपरे' अहोअमणोहेआउखावंत  
 साधोनेअमारासाधु साधवीदीचालीषोक्ततो मनुथसंनंधीयाकामभोगे' करी सज्जसावधाननहीयाइ' विषयजपररागनहींधरे' ताल



हृणंसमणीं बहुरांसावयाणं बहुरांसावियाणं अच्चणिल्ले वंदणिल्ले पूयणिल्ले सक्कारणिल्ले समा  
णणिल्ले कल्ल्हाणं मंगलं देवयं चै इयं पज्ज्वासएणिल्ले त्तिकट्टु, परलोएवियणंणो आगच्छइ बहुरां दंड  
णाणियसुं डणाणियतज्जणाणिय तालणाणिय जावचाउरंतसंसारकंतरं जाववीई वइस्सइ जहावसे

गीजामतुष्यसंबंधीयाकामभोगेकरीविशेषयकी सर्वथाप्रतिघातव्याघातपात्रे नहीं तेसाधुसाधवीआभवआविद्यमानभवनेविषेचेवनि  
चेघणासाधुनेघणीसाधवीयानेघणाआवकानेघणीआविकानेअर्चनीकपूजवायोग्यथाइवादिवायोग्यथाइपूजवायोग्यथाइसत्कार  
करिवायोग्यइवडमानदेवायोग्यइकल्याणकारीमंगलीककारीदेवतानीपरंप्रतिमानीपरंपर्युपासनासेवाकरिवाआराधवाद्यौ  
ग्यथाइपरलोकपरभवनेविषेचेवनिचेएहवोकष्टपामेनहींढूकडांआवेनहींतेकेहवाकेघणाकियाघणादंडनपडेघणासुं डनराज  
नियहनपामेकोईतर्जनहींआंगुलीनदेखाडेकोईचपेटेकरीताडेनहींमारेनहींअनुक्रमेचाउरंतचारगतिसंसाररूपकांतारभयंक  
रअटवीप्रतेव्यतिक्रमस्येउल्लंघणकरस्येमोचजास्येजिमतेपुंडरीकनासासाधुनीपरेश्रीसुधर्मास्वामीकहेइणेप्रकारेनिचेहेजंबूअम

पनयधियेपोत्रं वाससहस्रं पित्र ईकाऊणंसंजमंसुविउलंपि अंतेकिलिठ्ठभावो नविसुञ्जकंडरीयव्व १ तथाअप्ये णविकालेणंकेइज्जहा

पुंडरीएअणगारेएवंखलुजंबू समणेणंभगवयामहावीरेणं आइगिरेणं तित्थगरेणं जादसिद्धिगइणा  
 मधेयंटाणंसंपत्ते णंएगूणवीरुइसस्वणायव्भयणस्स अयमट्टे प्रणत्ते वाससहस्रं पित्र ईकाऊणंसंजमंसु  
 विउलंपिअंतेकिलिठ्ठभावे णविसुञ्जकंडरीयव्व १ तथाततःअप्ये णविकालेणं केइज्जहागहिहयसील  
 साहंतिणिययकज्जंपुंडरीयमहारिसिब्वजहाइ एवंखलुजंबूसमणेणं भगवयामहावीरेणंजावसिद्धि

णभगयंतथीसहावीरदेवे' धर्मनीआदिनाकरणहारि' तीर्थनीथापनाने' करणहारं तांलगीजांसिद्धिगतिनामधेय एहवायानकठाम  
 प्रते' पास्योछे मोचपल्लतोच्छेतेणे' थीसहावीरदे' एगूणवीसमाज्ञातानाअध्ययननो एअर्थऊ' सुभने कल्लोछे तेहवोजअर्थऊ' तुभंप्रते  
 कऊंछुं उपनयधियेपगथावर्पसहस्रहजारवरसलगीजई यतनकरीने' संयमचारितमाहि तेकेहवोसुविपुलविस्तीर्णघणोजउत्तमचा  
 रितपालिने' परेअंतेछेहडे' को यभावचारितमाहि खेदपांस्योच्छतोविशेषेकरीसिभ्ने नही कंडरीकनीपरं १ तथावली अल्पयोडेपिण

गहियसौलसामशाश्रुतिनिययक्रज्जं पुंडरीयमहारिसिम्बजहार इत्येकोनविंशतितमं ज्ञातं विवरणतः समाप्तं समाप्तप्रथमः शु  
स्कांधः अथ द्वितीयो व्याख्यायते अस्य च पूर्वेषु सहायमभिसंबंधः पूर्वतासोपालंभादिभिर्ज्ञातेर्दुर्मात्रे उपनीतइह तु स एव साक्षात्कथाभि

गइणामधेयं संपत्ते रंछइस्व अंगस्व पटमस्व सुयक्वंधस्व अयमइ पस्वत्तेत्तिवेमि एयस्व रं सुयक्वंधस्व एगूण  
वीसं अज्जकथणाणि एक्कारस अंगणि एगूण वीसा एदिवसे सुसमप्यं ति पटमो सुयक्वंधो सस्मत्तो १८ ते रं का

कालेः करीकोई एकजिमग्रह्या शीलचारितसंयमलीषाकृतासाधेच्छे पोतानाकार्यप्रते पुंडरीकमोटाक् षीश्वरनीपरे जिमरइमपूवोत्त  
प्रकारे निचे हेजंब अमणतपस्वीइं भगवंतसंपूर्णं ज्ञानवंत तालगीजासिद्धिगतिनामधेय एहवाथानकठाममोक्षलक्षणप्रते पाश्व्योच्छे  
पज्जतोच्छेतेणे श्रीमहावीरदेवे कृष्ठा अंगनापहिलाश्रुतखंधनो एअर्थसुभाने काच्छोच्छेतेहवोजअर्थेहंतुभप्रते कज्जं छं एपहिलाश्रुतखं  
धनाएगुणवीसअध्ययनच्छे इत्यारे अंगमाहिलाच्छटोअंगतेहना प्रथमश्रुतखंधना १८ अध्ययनच्छे वीसदिवसनातपकीधेज्जते छते सप्त  
थे सुखे भणे इति श्री बृहन्नागपुरीयतपांगच्छे श्रीपार्श्वचंद्रसूरीश्वरान्वये भट्टारकश्रीसमरचंद्रसूरिवरतत्पट्टालंकारश्रीराजचंद्रसूरी

लेणंतेणंसमएणंरायणिहेणामंणयरेहोत्या वस्सओतस्सणंरायणिहस्सणयस्सणयउत्तरपुरच्छि  
मेदिसेीभाएएत्थणंगुणसिलएणाकंचेईएहोत्या वस्सओतेणंकालेणंतेणंसमएणंसमणस्सभगवओमहा  
वीरस्सअंतेवासी अज्जसुहम्माणामंथे रामगवंता जाइरुंपस्साकुलसंपस्साजावचोइसपुवी चउणाणेव

सतच्छिद्योत्तममहोपाध्याय श्रीहीरानंदचंदानाशिष्यलेशेन मुनिप्रेमचंद्रेणकृतज्ञाता अयनस्यैनोनिविंशतितमाध्ययनस्यटवार्थः स  
पूरुः १९ द्विवे'वीजाश्रुतखंधनोअर्थवखाणेक्ये एवीजाश्रुतखंधनोपहिलाश्रुतखंधते' एसंबंधजांणिवोतेकेहोतेकहेक्ये पहिलाश्रु  
तखंधने'विषे' पूज्योत्तमपुरुषनाजेओलंभादेवाक्ये' एहवेउदाहरणेहृष्टतिकरीधर्माधिधर्मने' अर्थे' संबंधआण्योके'अने' इच्चाएवीजाश्रुत  
खंधने'विषेतेधर्मइणं प्रकारे' सावालावाये' करीकहेक्ये' द्विवे'वीजाश्रुतखंधने'विषे' यतीसाधवीनाधर्मनीकथावाचीकहेक्ये तेकालने  
विषे'तेसमयने'विषे' राजगृहनामाजगरऊं'तो एहनोवर्णकउववाइथीजाणिवो तेराजगृहनगरने'वाहिरे' ईशानकृगिने'विषेइहो  
गुणसिलनामादेहरोहंतो षणंकउववाइथीजाणिवो तेकालने'विषे'तेसमयने'विषे' अमणभगवंतओमहावीरनो शिष्यपांचमोगण

गयापंचहिंअणगारसरसएहिंसद्धिं संपरिउडापुव्वासुपुंविंचरमाणा गामाणुगामं दुइज्जमाणासुहंसु  
 हेणंविरहमाणाजेणेरअगिहेणयरे गुणसेलएचेइए तेणवसमोसटा जावसंजमेणंतवसाअण्णभा  
 वेमाणाविहरंति परिसाण्णगयाधम्मो कहिओ परिसाजामेवदिसिंपाउभूया तामेवदिसिंपडिग  
 यातेणंकालेणंतणंसमएणं अज्जसुहम्मसअणगारसअ तवासी अज्जजंबूणसं अणगारे जावपज्जूवा

धरआर्यसुधर्मास्वामीनामेश्वरभगवंतज्ञानवंतमातानीपच्चेकरीसंपन्नकुलपितानोतेणेंकरीसंपन्नतालगीजांचउदपूर्वनाभणणहारा  
 छेंसतिज्ञानश्रुतज्ञानअविज्ञानमनःपर्यवज्ञानएणेंच्यारेज्ञानेकरीसहितछेंपांचसयसाधुचारितीयासंघाते भलीपरिंपरिवन्याकृताप  
 वीनुपूर्वीइंकेडाकेडेवालताकृताग्रामानुग्रामे उल्लंघतान्कताकृतासुखेशमाधिइविविचरताकृताजिह्वाराजगटहनगरके जिहंगुणसेलक  
 देहरोछेंतिहापधारीने समोसस्याजतख्यातालगीजांजतरवानीआज्ञालेघूने संजमे तंपेंकरीपोतानाआत्माप्रते भावताकृताविचरेछेप  
 रिषदानीसरीनगरसां हिथकीधर्मकह्योपछें परिषदाजेणीदिशियकीआवीह्वतीतेणीजदिशिइं पाछीबलीगईतेकालने विषे तेसमयने

समाणे एवं वयासी जडूणं भंते समणेणं भगवयामहावीरेणं जावसंपत्तेणं छट्टस्सअंगस्स पटमसुयखंधस्स  
 णायारणं अथअट्टे पस्सत्ते दोच्चस्सणं भंते सुयखंधस्सधम्मकहाणं समणेणं भगवयामहावीरेणं जावसंपत्तेणं  
 केअट्टे पस्सत्ते एवं खलु जंबूसमणेणं भगवयामहावीरेणं जावसंपत्तेणं धम्मकहाणं दसवग्गापस्सत्तांतं जहा  
 चअरस्सणं अग्गसहिस्सैणं पटमेवग्गे १ वल्लिस्सवडूरोयणं दस्स वडूरोयणरस्सो अग्गसहिस्सैणं वीएदग्गे २

विषे अर्थसुवर्मानामा साधुगणधरनो शिष्यपासे रहणहारोसेवावर्त्ती आर्थजंबूनामे साधुछे ते सुधर्मास्वामीप्रते वादीने नमस्कार  
 करीने पंचपासतासेवाकरतो छतो इणे प्रकारे पछतो ह्वो जो भंते हे भगवन् अमण भगवंत श्री महावीर देव सोचपह्णते छट्टाअंगनाप्रथम  
 पहिला श्रुतस्संधना एगुणवीसअथयननो एअर्थतुमने कच्चो तेमे तुमारा सुखयकीसांभल्यो अर्थ हिवे भंते हे भगवन् दोच्चस्सकहतां बीजा  
 श्रुतअंधना धर्मनीकथानो अमण भगवंत श्री महावीर देवे तां लगीजां सोचपह्णते सोअर्थकह्यो छे ते सुमने कचो हिवे सुधर्मकहे एवं ए  
 णं प्रकारे निचे हे जंबूअमण भगवंत श्री महावीर देव सोचपह्णते धर्मकथाना दसवर्गकह्यो छे ते दशवर्गना नामअनुक्रमे करीकहे छे चमरे

असुरिन्दवज्जियाणंदाह्निह्लाणंदाणं अग्नमहिसेणं तद्रएवगणे३ उत्तरिह्लाणं असुरिन्दवज्जिया  
 णं भवणवासिद्रंदाणं अग्नमहिसेणं च उत्येवगणे४ दाह्निह्लाणं वाणसंतराणं इंदाणं अग्नमहि  
 सेणं पंचमेवगणे ५ उत्तरिह्लाणं वाणसंतराणं इंदाणं अग्नमहिसेणं छट्टेवगणे ६ चंद्रस्रअग्नमहि  
 हिसेणंसत्तमेवगणे७ सूरस्रअग्नमहिसेणंअट्टमेवगणे८ सक्कस्रअग्नमहिसेणंएवमेवगणे ९ ईसाणस्र

द्रनीअग्रमहिषीपट्टराणी देवीयानो पहिलोवर्गजाणिवो? वलीद्रवैरोचनउत्तरदिशिनोइंद्र उत्तरदिशिनोराजाबलेंद्रतेहनी अग्रम  
 हिषीपट्टराणीदेवीतेहनीबीजोवर्गजाणिवोरअसुरेंद्रचमरेंद्रवर्जिनेंदक्षिणदिशिनाइंद्रानी नवअग्रमहिषीपट्टराणी देवीयानोबी  
 जोवर्गजाणिवो३ उत्तरदिशिनाअसुरेंद्रबलेंद्रवर्जिनें भवनवासीनवइंद्रानीअग्रमहिषी पट्टराणीदेवीयानोचोथोवर्गजाणिवो४दक्षि  
 णदिशिनावाणव्यंतरनिकायनाइंद्रानीअग्रमहिषीदेवीपट्टराणीयानोपाचमोवर्गके५उत्तरदिशिनावाणव्यंतरनिकायनाइंद्रानीअ  
 ग्रमहिषीपट्टराणीनोछट्टोवर्गंजाणिवोचंद्रमानीअग्रमहिषीपट्टराणी देवीयानोसातमोवर्गजाणिवो७स्रवदेवतानी अग्रमहिषीपट्टरां

अगमहिंसीणं दससेवर्गो १० जद्रुणं भंते समणेणं भगवयामहावीरेणं जावसंपत्तेणं धम्मकहाणं दसवर्गा  
 प्रखत्तापटमस्सणं भंते वगस्ससमणेणं भगवयामहावीरेणं जावसंपत्तेणं किअइ पखत्ते एवं खलुजंबूसमणेणं  
 भगवयामहावीरेणं जावसंपत्तेणं पटमस्सवगस्सपंच अउक्कयणाप्रखत्तातं जहाकाली १ राईरयणी श्रविज्जू  
 ४सेहापूजद्रुणं भंते समणेणं भगवयामहावीरेणं जावसंपत्तेणं पटमस्सवगस्सपंच अउक्कयणाप्रखत्तापटम

णी देवीयानो आठमोवर्गं ङ्जाणिवो शक्रसुधमं द्रुनी अग्रमहिषीपटराणी देवीयानो नवमोवर्गं जाणिवो ६ ईशाने द्रुनी अग्रमहिषीपट्ट  
 राणी देवीयानो दसमोवर्गं जाणिवो १० जंबूके जोजे भगवन् अमणभगवंत श्रीमहावीरदेवे मोक्षपहंते धर्मकथाना दसवर्गनामथकीक  
 कथाते मे साभल्या हि वे भंते हे भगवन् प्रथमपहिलावर्गनो अमणभगवंत श्रीमहावीरदेवमोक्षपहंते स्थो अर्थकच्छो छे ते क हो हि वे श्रीसुध  
 मांस्वामी कहे छे एणं प्रकारे निचे हे जंबूअमणभगवंत श्रीमहावीरदेवमोक्षपहंते पहिलावर्गनापंच अर्थकच्छो छे तेहनानाम  
 जिमअनुकसें तिमकहे छे एककाली कुमरीनो अर्थकच्छो छे वीजो राईकुमरीनो अर्थकच्छो छे वीजो राईकुमरीनो अर्थकच्छो छे वीजो राईकुमरीनो



स्वर्णं भंते अजभयणस्वसमरणं भगवया महावीरेण जावसंपत्तेण किं अट्टे प्रसृत्ते एवं खलु जंबूतेणं कालेणं तेणं  
समएणं राधिणिह्णामंणयरे होत्था गुणसिलएचेइएसेणिएराया चेल्लणाणामं देवो होत्था तेणं कालेणं  
तेणं समएणं समणे भगवं महावीरे जावगुणसिलएचेइए तेणे वसमोसठे परिसाणिग्गया जावपरिसाप  
उजुवासइतेणं कालेणं तेणं समएणं कालीणांमं देवो चमरचंचाएरायहाणीए कालवडिंसगभवणे कालं

चोथोअध्ययन ४ मेवाकुमरीनोपांचमोअध्ययन ५ जोभंते हे भगवन् जोअमणभगवंत श्रीमहावीरदेवे तालगीजांमोक्षपहंते सुगतिगये  
प्रथमपहिलावर्गनापांच अध्ययन कक्षात्ते तेमे नामयकीसांभल्याहिवे भंते हे भगवन् प्रथमपहिला अध्ययननो अमणभगवंत श्रीमहावी  
रदेवे मोक्षपहंते स्थोअर्थकक्षोछे तेकहो हिवे सुधर्मकहे इणं प्रकारे निच्चे हे जंबूते कालने विषे तेसमयने विषे राजगृहनामानं  
रहंतो गुणसेलक देहरो अणि काराजाचेलणानामे देवीराणीह्णती ते कालने विषे तेसमयने विषे अमणभगवंत श्रीमहावीरजावतजिहांगु  
णसिलचैत्य तिहांआविनेसमोसखोपरिषदानीकली जावखेवाकरो उड्डते कालने विषे तेसमयने विषे कालीनामे देवीचमरचंचाना  
मे राजधानीने विषे कालावतंसकनासाभवनघरने विषे कालनासासिंहासनने विषे चारहजारसामानिका देवीसंधाते च्यारस

सिसौ हासणंसिचउहिसामाणियसाहखीहिं चउहिंमहारियाहिं सपरिवारहिं तिहिंपरिसा  
 हिंसत्तहिंअणियाहिवईहिंसोलसहिं आयरक्खदेवसाहखीहिं अथे हिचबडुहिंकाखवडिससयभवण  
 वासीहिंअसुरकुमारेहिं देवेहिंदेवोहियसद्धिं संपरिउडालहयाहयजानविहरइ इमंचणंकेवलकण्ठं  
 जंबूद्वीवेरु भारहेवासिओहिणाआभोएसाणोपासइत्ता जल्यसमणंभगवथाअहवीरं जंबूद्वीविभा

इद्धिकादेवीसंघाते' तेपोतानापरिवारसहिते' त्रिणपरिषदासंघाते' वाच्छमथ्यअथंतर सातअनीककटकनाअधिपतिघणीषोडा १८  
 खभरपालीयारइरय४गंधर्व५ सहिवदं नाटिक७एसतकटकनाघणीसंघाते' सोलहजारआलरक्षकदेवतासंघाते' अनेरावीजाईघणाजा  
 लावतंसकनासामभवनवरमाहे' वसणहाराराएहवाअसुरकुमारदेवतादेवीयांसंघाते' भलीपरेपरिवरौच्छतीघणं मोटेअंडवरेशरीवलीसव  
 द्दनाटिकाकरावतीच्छतीविचरे' छे' एहवे' प्रस्तावे' इहांयकीकेवलज्ञानसरिखोएहवो जंबूद्वीपनामाद्वीपप्रते' विपुलविस्तीर्णकेवलज्ञान  
 सरिखोएहवे' अवधिज्ञाने' करी जंबूद्वीपप्रते' देखतीच्छतीदेखे' देखीने' जिहांअमणभगवंतअमीमहावीरप्रते' जंबूद्वीपनामाद्वीपने' विषे

रद्वेवासे राथगिहेणयरेगुणसेलएचईए अहाप्रडिख्वंउवग्गहं उगिरिहत्ता संजमेणंतवसाअप्पाणं  
 भावेमाणेपासइरत्ताहइउडाचिचत्तमाणंदियापौइमणाजावहयहिचययासौहासणाओअभुइइरत्तापा  
 थपौढाओपच्चोरुहइरत्तापाउयाइसुयइरत्तातित्यथराभिमुहीसत्तइपयाइ अणुगच्छइरवामंजाणुं अं  
 चेइदाहिणंजाणुं धरिणियतलंसिणिहइ, तिवकुत्तोसुद्धाणंधरणयलंसिणिसीयइरत्ताइसिंपच्च सुमइ

भरतक्षेत्रने विषे राजगृहनगरने विषे गुणसेलकनामाचैत्यदेहरोछे तिहांयथाशोप्यसाधुने लेवायोग्य अवग्रहआज्ञाप्रते मांगीने  
 लेइने संयमे तपे करीआपणाआत्माप्रते भावतोछतो देखे देखीने हर्षसंतोषपांमीछतीचित्तं करीआनंदप्रमोदपांमीछे प्रीतिहर्षव  
 तमनचिचत्तयथोछे जेदेवीनोतांलगीजांहतहृदयाजांणे के हर्षे करी हीयोलाधुंछे जेदेवीनोएहवीहर्षवंतयईछती सिंहासनयकीजठे  
 जठीने पादपीठयकीहेठेजतरं हेठीजतरने पादुकापाउडीप्रते अलगीमू के मू कीने तीर्थंकरदेवने सासुहीसन्मुखसातआठयग  
 लांसासुहीजाइ जाइने डावाजांसुढींचणप्रते अंचेइजं चोराखे दाहिणजीमणाजासुढींचणप्रते धरणीतलप्रथवीतलभूमिने विषे

इत्ताकडयवुडियथंभियाञ्चोभुयाञ्चोसाहरइकरयलजावकट्टु एवंवयासौसमोत्पुणंअरहंताणंभगवंता  
 णंजावसंपत्ताणंमोत्पुणंसमणस्सइजावसंपाविउकामस्सवंदासिणंभगवंतंतत्यगइं इहगञ्चोपासउमे  
 समणेभगवंतंतत्यगएइहगइंतिकट्टुवंदइणंसइत्तासीहासणवरंसिपुरत्याभिसुहाणिसखातएणं

थापीनें करीनें विणवारमाथाप्रतें भूमिनें विषेणलगाडे लगाडीनें ईसिंक्कहतालगारेकमाथाप्रतें उं चोनमावे नमावीनें कटककडां  
 कांकरणवुटितवाज्जवहिरखाचायें पट्टिखाक्के तेणे करीयंभितथाभारूपयथाक्केभुजहायजेदेवीनाएहवाहाथ साहरे ऊं चाकरीनें वेहं  
 हाथजोडीमाथाने विषे आवत्तं करीमाथाने विषे अंजलिप्रते करीनें इमकहतीज्जइ नमस्कारज्जओअरिहंतभणीभगवंतभणीतांल  
 गीजासिद्धिगतिठामप्रते पास्याक्के तेभणी नमस्कारज्जओअमणभगवतश्रीमहावीरभणी तांलगीजांसिद्धिगतिठाममोचपासमाभणी  
 कामअभिलाषावाक्काक्के जेहने तेभणीनमस्कारज्जओवाडूकुं भगवंतप्रते तिहारह्याप्रते इहारहीने देवोसुक्कने अमणभगवंततिहां  
 रह्याथकाइमकरीने वांदिनमस्कारकरे करीने वरप्रधानसिंहासनने विषे पूर्वसन्मुखवेठीयकीतिवारपच्छीतेकालीदेवीने एहवो

तीसेकालीएदेवीएइमेथारूवे जावसमुष्पज्जित्थासेयंखलुमेसमणं भगवंमहावीरं वंदित्ताजावपळू  
 वासित्तएत्तिकट्टु, एवंसंपेहेइइत्ताआभिओगियंदेवंसहावेइइत्ता एवंवयासीएवं खलुदेवाणुप्पियास  
 मणेभगवंमहावीरे जहासूरियाभोतहेवआणत्तियंदेइ जावदिब्बंसुरवररभिगमणजोगं करेहकरे  
 ताजावपिच्चप्पिणहतेवितहेवकरेत्ता जावपच्चप्पिणंतिणवरंजोयणसहस्स विच्छिण्णंजाणंसेसंतहेव

आत्माने विषे रच्छो एहवोमनमाहिंसकल्पविकल्पजपजे अयभलोनिच्च तेसुभने अमणभगवंतश्रीमहावीरप्रते वादीने नमस्कारक  
 रीने पर्युपासनासेवाकरिवाभणी इमकहीने एणं प्रकारे विचारे विचारीने आभियोगीसेवाकारी देवताप्रते तेडावे तेडावीने इम्म  
 कहतीड्डईइम्मआज्ञाआपतीड्डई एणंप्रकारे निच्च हे देवानुप्रियहेसेवकदेव अमणभगवंतश्रीमहावीरतिहाजतखाके जिमसूरीया  
 भदेवतानाटिककरिवाआब्योक्खे जिमदेवताने आज्ञाआपीक्खे तिमजआज्ञाप्रते आपे दीये तांलगीजादिव्यप्रधानसुरदेवताने वरप्र  
 धानजावायोग्यआविवायोग्यप्रते करे करीने तांलगीजांधरतीसमारीकरीने पाछाआवीने सुभने सू पोकहो तेसेवकदेवतापिणज

णामगोयंसाहेद्र तद्देवण्डुविहिंउवदंसेद्र जावप्रडिनयाभंतेत्तिभगवं गोन्यसेसमणंभगवंमहावीरवंद  
 इणंनंसद्रवंदित्ताणसंसिता एवंवयासौकालोएणंभंतेदेवोएसादिवादेवड्ढौकाहिंगयाकूडागारसालदि  
 इंतोअहोणंसंतेकालीदेवो महिड्डियामहजुयाकालीएणंभंते देवोएसादिवादेवड्डिकिखालडाकिसा

ईने'तिमज्जकरीने' तालगीजापाछायावीने'सू'पे'समणं'कहे' नवरंइहाएतलोफेरविशेषजाणिवो सूरीयाभदेवतालाखयोजननोवि  
 मानविकुर्वीने'आव्योछे'अने'कालीदेवीहजारयोजननो विच्छिन्नपहलयानविमानविकुर्वे' एतलोफेरजाणिवो बीजोशेशयथाकतोसघ  
 लोतिमज्जसूरीयाभदेवतानीपरंजाणिवो तिमज्जकालीदेवीनामप्रते'कहे' तिमज्जसूरीयाभदेवतानीपरं एकसोआठ कुसरं एकसोआ  
 ठकुसरोवेऊं हायमाहियकी काढीने'नाटकनाविधिप्रकारे'प्रते' देखाडे'देखाडीने' तालगीजापाछीवलीने'तिमज्जगईकालीदेवीति  
 वारपछीभंतेहेभगवन्भगवंत गोतमस्वामीअमणभगवंतश्रीमहावीरप्रते' वादेनमस्कारकरे'वादीने'नमस्कारकरीने' इमपूछतोऊओ  
 कालीदेवीनीभंतेहेभगवन् तेदियप्रधानदेवतासंभंथिनीदेवतानीऋद्धिकिहागई कूटाकारकूटशिखरने'दृष्टांतयकी जाणिवोजिममहु

पत्ताकिष्ठा अभिसमखागयाए वंजहासूरियाभस्सजावएवंखलुगोयमातेण्कालेण्तेरुं समएण्द्रुहिवजं  
 बूहीवेरुं भारहेवासेआमलकप्पाणामंणयरीहोत्था वस्सओअंबसालवणेचेइए जियसत्तूरायातत्य  
 ण् आमलकप्पाणयरीए कालिणामंगहावइहोत्था अडुजावअपरिभूएतस्सण्कालस्सगाहावइस्सका

धनासम्बद्धसेहकालीआधीआवतीदेखने उतावलादोडीने निर्वातघरमाहिपेसे तेजिमदीसेनहींअनुद्यमालतिमतेकालोदेवीनीऋषि  
 पोतानाशरीरमाहिपैठी द्विवेवलीगौतमपूछेअहोहेभगवन् एकालीदेवीघणी ऋद्विवंतछे घणीद्युतिकांतितेजवतीछे अंतेहेभगवन्  
 कालीदेवीइ तेदिव्यप्रधानदेवतासंबंधिनी देवतानीऋद्विस्थे कारणे लहीछे भवांतरने विषे उपार्जीछेस्ये कारणे पामीछे देवताना  
 भवनने विषे पामीछे केशे कारणे करीपरिभोगयकी उपभोगप्रते पामीछे इणे प्रकारे जिमसूरीयाभूदेवनीपरं ऋद्विपामीछे तालगी  
 जाइणे प्रकारे निचे पामीछे हेगोतम तेकालने विषे तेसमयने विषे एहिजजंबूहीपजामाहीपने विषे भरतचेवने विषे आमलकप्पा  
 नामे नगरीडती तेहनोवर्णकउववाईथीजाणवो तिहांअंबसालवननामाचैत्यदेहरोछे जितथलूराजाछे तिहांआमलकप्पानगरीने

रभिधीयते इत्येवंसंबोधयं सर्वः सुगमो नवरं वड्डत्तिट्टहतीवयसा सेवट्टहत्वादपरिणीतत्वाच्च वट्टकुमारीजीर्णाय  
 रीरजरणाद्वेत्यर्थः सेवजीर्णत्वाऽपरिणीतत्वायां जीर्णकुमारीजीर्णशरीरत्वा देवपतितपुत्रस्वानी अवनतिगतनितं

लसिरीणामंभारियाहोत्या सुकुमालपाणिप्रायाजावसुख्वातस्त्रयंकालस्त्रगाहावद्सधूयाकालसिरी  
 एभारियाएअत्तयाकालीणामंदारियाहोत्यावड्डुकुमारीजुस्मानुस्सुकुमारीपडियदुयत्थणीणिवि

विषे कालनामे गाथापतिऋद्धिवंतट्टहस्यहं तो घणुऋद्धिवंतच्छेतांलगीजाअणितऋद्धिनोधणीच्छे कोऽपराभवीसके नहीं तेकाल  
 नामाट्टहस्थने कालसिरीएह्वे नाने खीउती सुकुमालमुंहालाहाथपगच्छे जेकालअनीनायावत्सुरूपवतीच्छे तेकालनामाट्टहस्थनी  
 पुतीकालसिरीभार्यास्त्रीनी अंगजालवेटीकालीनामे बालिकाउती तेकेहवीच्छे वड्डाकहतां वये करीट्टहतीमोटीवडीच्छे तेहजवडाप  
 णायकीअपरिणीतअणपरस्थापणायकी वट्टकुमारीमोटीकुमारीच्छे जुनाकहतांशरीरने जीरणजुनायकी वट्टागरठीच्छे तेहजशरी  
 रने जुनापणायकी जीर्णकुमारीच्छे जुनागरठशरीरपणायकी हेटापद्यांनय्याच्छे पुतशहतां केडिनाभागमने खानजेहना निर्विश्वाकह



षदेशवक्षीजा निर्विण्णवराः परिणेतारो यस्याः सा निविण्णवरा अतएव वरकवर्जिं तेतिशेषं सूत्रसिद्धं

स्वरावरपरिवर्जित्यायाविहोत्या तेषां कालेण तेषां स एणं पसिञ्चरिहायुरिसादाणी एञ्चाद्गरेज्जहाव  
इमाणसामीएवरंणवहत्युस्सेहेसोलसहिंसमणसाहस्यीहिंअट्टितिसाएअज्जित्यासाहस्यीहिंसद्धिं संपरि  
उडेजवअंबसालवणेचेइए तेषेवससोसठे परिसाणिगयाजावपज्जवासर तएणंसाकालीदारियाइ

तां सर्वथानथीवरपरिणहारजेकालीना एकारणथकीजपरिवर्जितवररहितनथी परणीएहवीज्जतीतेकालेने विषे तेसमयने विषे पा  
श्वं नाथअरिहंतपुरुषां मांहे आ देवकर्मनाधणीधर्मनीआदिनाकरणहारा जिमवहुमानखामीतिमपार्श्वं नाथजांणिवो नवरंएतलो  
विशेषके अपीपार्श्वं नाथनोनवहाथप्रमाण उं चोशरीरके एविशेष सोलइजारअमणसाधुसंघाते अठतीसइजारसाधवीनापरिवारसं  
घाते परिवरयोके तां लगीजांअंबसालवनदेहरोयचनोके तिहांआवीने समोसस्यो जतस्ये परिषदानीसरीनगरमाहिथकी तां लगी  
जावादीने नमस्कारकरीने धर्मोपदेशसांभलीने सेवाकरे के तिवारपक्कीतेकालीवालिकापुत्ती एहवीकथावाचानाअर्थसमाचारल

मीसेकहाएलइडासमाणी हइतुडाजावहियथा जेणेवअस्मापियरोतिखेवउवागच्छइत्ता करयलजा  
 वएवंवयासीएवंखलुअस्मयाओपासे अरहापुरिसादाणीए आइगरेजाविवहरइतंइच्छामिणंअस्मया  
 ओतुभभेहिंअभ्भणुणायसमाणी पासस्सअरहओपुरिसादाणीयस्स पायवंदियागमित्तएअहासुहंइ  
 वाणुप्पियामापडिबंधंकरेहिं तएणंसाकालीदारियाअस्मापिईहिं अभ्भणुणायसमाणी हइतुडाजा

हीपांमीच्छतीहर्षसंतोषपांमीच्छतीतालगीजांघणुंजहीयामांहिहर्षपांमीच्छतीजिहांमातापिताछे' तिहांआवे'आवीने'वेळ' हाथजोडीमा  
 याने'विषे' आवर्त्तकरीमायाने'विषे' अंजलीकरीने'इमकहे' इणे' प्रकारे'निश्चे'हेमातापिताओ पाश्व' नाथअरिहंतपुरुषमांहिआदे  
 यकर्मनाधणीधर्मनीआदिनाकरणहारा तालगीजांइहांआवीने'विचरे'के' तेकारणयकीळ'वांछुंके' हेमातापिताओतुहारीआजा  
 पांमीच्छती पाश्व' नाथअरिहंतपुरुषमांहिआदेयकर्मना धणीनापगवादिवाजावाभणीइळुंके' मातापिताकहे'जिमसुखळवे'तिमकर  
 हेदेवानुप्रिये इहांतुं प्रतिबंधमकरिविलंबमकरि तिवारे'तेकालीवालिकापुत्री मातापिताआजादीधीच्छती हर्षसंतोषपांमीच्छतीतां

बहिययाणहायाकयवलिकस्माकयकोऊयमंगलपायच्छित्तसुद्धप्पाविसाइमंगल्लाइंवत्याइप्रवरपरहि  
 याअप्पमहग्घाभरणलंकियसरीराचेडियाचक्कवालपरिकिष्सा साओगिहाओप्रडिणिक्वमइरत्ताजे  
 णेववाहिरियाउवट्टाणसाला जेणेवधम्मिएजाणप्पवरे तेणेवउवागच्छइरत्ता धम्मियंजाणप्पवरंडुळ  
 टातएणंसाकालीदारियाधम्मियं जाणप्पवरं एवंजहादोवइदेवी जावपज्जुवासइतएणंपासे अरहाणु

लगीहृतहृदयाघणूंघर्षंपांसीच्छती न्हाहीअंधोलीपळे घरनादेवतानी बलिकर्मपजाकीधीपळे कोतुकमसितिलकद्रोवसरसवमंगली  
 कनिमित्तकरे प्रायच्छित्तअशुभअंकल्याणटालिवाने काजे शुद्धनिर्मलाजजलामे लरहितपहिरवेस मंगलीकर्कारीएहवावस्त्रप्रवरप्र  
 धानपहिरौअल्यभारयोडोमहर्ष्यं वल्लभूल्य एहवाअभरणपहिरौअलंकृतसोभायमानळे शरीरजेकालीबालिकानोएहवीथईच्छतीदा  
 सीयाने समूहेकरीवीटीच्छती पोतानाघरथकीनीसरेनीसरीने जिंहावाहिरलीउपस्थानवेसवानीशालाळे जिंहांधार्मिकयानरथप्र  
 वरप्रधानळे तिहांआवीआवीने धार्मिकरथप्रधानऊपरचढी निवारंतेकालीपुत्रीकुमरी धार्मिकरथऊपरचढीने वेशीने एवंइणे प्र

रिसादाणीएकालीएदारियाए तीसेयसहदूमहलियाए प्ररिसाएकम्सकहाकहेद्र तएणंसाकाली  
 दारियापासस्रअरहअपु्ररिसादारियास्र अंतिएधमंसोच्चारिसस्रहदुडा जावहिययापासंअरहं  
 पु्ररिसादारियांतकखुत्तो वंद्रणंसद्रत्ताएवंवयसौ सदहासिणंभंतेरिणगंथं पावयणं जावसेजहे  
 वयंतुभेवयहत्तिकट्टु, नंणवरं देवाणुप्पियाअस्मापियरोआपुच्छामितएणंअहं देवाणुप्पियाणंअंतिए

कारे जिमद्रोपदीराणीवांदिवागईके तयादेवकीराणीकृष्णीमाताअनीमिनायने वांदीने सेवाकरे तिसकालीकुमरीअपीपार्ख नाय  
 नीपचुपासनासेवाकरे के वेठीछती तिवारे पार्ख नायअरिहंतपुरुषादानीय पुरुषांमांहे आदेयकर्मनाधणी कालीवालिकाने तेम  
 हतीकहतामोटी परिषदाने धर्मकथाकहे तिवारे तेकालीवालिकाकुमरी पार्ख नायअरिहंतपुरुषांमांहे आदेयकर्मनाधणीनास  
 मीपने विषे धर्मप्रते सांभलीने हीयामांहिअवधारीने हर्षसंतोषपामीछतीतांलगीजां हतहृदयथईहीयामांहे उल्हासपामीछती  
 पार्ख नायअरिहंतपुरुषामाहे आदेयनामनाधणीप्रते तीनवारप्रदक्षिणादेईवांदेनमस्कारकरे वांदीने नमस्कारकरीने इमकह

जावपञ्चयामिअहामुहं देवाणुष्यथा तएणंसाकालीदारियापासेणंअरिहापुरिसादाणीएएवंवुत्तासमा  
णीहइतुड्डाजावहिययापासंअरहंवंदइणमंसइइत्तातमेवधम्मियंजाणपरंदुरुहइइत्तापाससखअरहओ  
पुरिसादाणीयसअंतियाओ अबसालवणाओचेइयाओपडिणिक्वमइइत्ता जेणेवअमलकप्राणय

तीउड्डैहंसइहंखुंसाचोहेभगवन्निग्रंथप्रवचनसिद्धांतप्रते'तांलगीजांतेजेतुहंकेहोको तेरुच्योइमकहीने'पिणनवरं इतलोविशेष  
षके'हेदेवानुप्रियहेपार्श्वनाथ सातापिताप्रते'हंपूखुंआन्नामांगूदीचालेबानी तिवारपक्कीह'हेदेवानुप्रिय तुग्हारसमीपने'विवंतांल  
गीजांतुअने'पासेदीचालेउपके'भगवंतकेहंयथासुखजिमसुखऊइ'तिसतुंकारिहेदेवानुप्रियेतिवारपक्कीतेकालीकुमरीपार्श्वनाथअरि  
हंतपुरपादाने'इमकहीछतीहर्षसंतोषपांसीछतीतांलगीजांषणोहर्षपामतीछतीपार्श्वनाथअरिहंतप्रते'वादे'नमस्कारकरे'वादीने'  
नमस्कारकरीने'तेहिजधार्मिकयानप्रवररथप्रधानरथजपरवेसेवेसीने'पार्श्वनाथअरिहंतपुरुषांमहिं'आदेयकर्ममाधणीतेहनासमी  
पथकीअंबसालवननामायचनादेहराथकी नीसरीनीसरीने'जिहांअमलकफानामानगरीके'तिहांआवीआवीने'आमलकफानग

रीतिशैवउवागच्छइइत्ता आमलकपिंणयसिंमउभंसउभेणं जेणेववाहिरियाउवद्वाराणसाला तेणेवउ  
 वागच्छइइत्ता धम्मियंजाणप्यवरंठवेइइत्ता धम्मियाओजाणप्यवराओपच्चोरइइइत्ता जेणेवअस्सापि  
 यरोतेणेवउवागच्छइइत्ता कारयलजावएवंवयासी एवंखलुअस्सयाओपासस्स अरहोअत्रिएधस्सेणिसं  
 तेसेवियधस्सेइच्छिएप्रडिच्छिए अमिरइएतएणंअहंअस्सयाओ संसारभउव्विग्गाभीयाजसससरण

रीसांहियईनें जिहांवाहिरलीउपस्थानशालाछें तिहांआवीआवीनें धार्मिकारथप्रधानप्रतें धापें रांखे जभोराखीनें धार्मिकप्रधानर  
 थयकीहेठीउतरहेठीउतरनें जिहामातापिताछें तिहाआवीआवीनें वेळ हाथजोडीअंजलिकरिनें इसवीनतीकरतीहइएवंइणे प्र  
 कारेनिचेंहेमातापिताओपाइव नायअरिहंतनाससीपनें विषेधर्मसेंसाभल्योतेनिचें धर्मइछ्योवांछ्योप्रतीछ्योघणोवांछ्योघणोरोचव्योते  
 कारणकीइहेमातापिताओ संसारनाभयथकीउइगपांमीछुं वीहनीछुंजनसमरणघकी तेकारणथकीवांछुंछुं तुम्हारीआज्ञापांमी  
 छती पार्श्वनायअरिहंतनाससीपनें विषे सुं उयई गृहस्थांवासयकीनीसरीनें अनगरपणा साधुपणाप्रतें दीबालिवाभणीमातापिता

शंङ्च्छामिणं तु रभेहिं अभणुणायासमाणीपासस्वरहस्रो अंति एसु डिभविता आगाराओ अथागारि  
 यंपव्वइत्त एअहासुहं देवाणुप्पियासापडिवंधं करेहि तएणंसेकालिगाहावई विउलंअसणं प्राणंखाइमं  
 साइमंउवक्खडावेइत्तामित्तणाइणियगसयणसंबंधिपरियणंआकंतेइत्तातओपच्छाग्हाए जावति  
 उलेखं पुण्णवत्थगं वमल्लालंकारेणं सक्कारेत्तासमाणेत्तातस्सेवमित्तणाइणियगसयणसंबंधिपरियणस्य

कहे जिमसुखऊइं तिमकरिहे देवानुप्रिये हेकालीइहां प्रतिबंधविलंबमकरि तिवारपछीतेकालगृहस्थविपुलवणो अन्नपांणीखादिम  
 खादिमचारप्रकारआहारनीपजावे रंधावे रंधावीने मित्तज्ञातिनिजकखजनसंबंधीपरिजनपरिवारप्रते निहुंतरे निहुंतरीने ति  
 वारपछीन्हायोअंधोलकरी पोतानामित्तज्ञातिप्रमुखसघलापरिवारसंघाते जौमीने चलेइं पवितथईतं बोललेइं सिंहासनजपरवे  
 सीसघलापरिवारने घणें फूलवस्त्रमालाआभरणअलंकारदेईकरी संत्कारीने सन्मावीने तेहिज मित्तज्ञातिकाकापीतरीआखजन  
 संबंधीपरिवारदासीसघलांने आगलि कालीकुमरीप्रते खेत रूपानाकलसपीतसोनानाकलस. एहवाआठप्रकारनाकलसतेथे करीवह

पुरञ्चोकालिं दारियंसेयापौएहिंकलसेहिंएहावेइरत्ता सव्वालंकारविभूसिद्यंकरेइरत्तायुरिससहस्र  
 वाहिणिंसौयंदुरहइरत्तामित्तणाइणियगसयणसंबंधिपरियणसद्विसंप्रिउडे सव्विड्डिएजावरवेणं  
 आसलत्तप्पिंणयरिसउभंमउभंकेणंणव्छइरत्ताजेणैवअंनसालवणेचेइएतेणैवउवागच्छइरत्ताछत्ता  
 इएतित्ययरातिसएपासइरत्तासौयंठवेइरत्ताकालिं दारियंसौयाओपच्चोरुहइरत्तातएणंतकालियंदा

वरावे' न्हवरावीने' सधलाआभरणअलंकारखिणगार पहिरावीविभूषितसोभावमानप्रते' करे' करीने' पुरुषसहस्रवाहिनीहजारेपु  
 रुषेवहीये' उपाडिये' एहवीहजारपुरुषवाहिनीपालखीप्रते' चढावेचढावीने' वेसरि' वेसारीने' मित्तज्ञातिकाकाखजनसंबंधीपरिवारप्र  
 सुखसगलापरिवारसंघाते' परिवख्योछतो सधली' च्छद्विकरीषणाआडंबरसहित तालगीजादमामाभेरीभंसानादना रवशब्दतेणे' करी  
 आसलत्तप्पानगरीमा' हिथइने' नीसर' नीसरीने' जिहाअंनसालवनचेत्यदेहरोछे' तिहालेइआवे' लेइआवीने' छत्तातिछत्वप्रसुखतीधं  
 कारदेवनाअतिशयप्रते' देखे' देखीने' धिविकापालखीप्रते' राखे' यापे' यापीने' कालीकुमरीपुवीप्रते' पालखीयकीहेठीऊतारे' हेठीऊ





धंकरेहतएणंसाकालीकुमारीपासंअरहंवदइणमंसइत्ताउत्तरपुरित्थिमंदितीभागंअवक्कमइसयसे  
 वआभरणमल्लालंकारंसुयइसयमेनलोक्यंकरेइत्ताजेणेवप्रासेअरहापुरिसादाणीएतेणेवउवागच्छइत्  
 ताप्रासंअरहंतिक्खुत्तोवंदइणमंसइत्ताएवंवयासीआलित्तेणंभंतेलोएएवंजहादेवाणंदाजावसदमेव  
 पञ्जावियातएणंप्रासेअरिहापुरिसादाणीएकालौसयमेवपुण्णचूलाएअज्जाएरिस्सणियत्ताएदलयइतए

ऊइंहेदेवानुप्रियोउग्गेइहाप्रतिबंधविलंबमकरोइमकच्चोक्खेतिवारपच्छीतेकालीकुमारीपार्श्वंनाथअरिहंतप्रतेंवादेनमस्कारकरे  
 करीनेउत्तरदिश्यानेपूर्वदिश्यानामध्यभागएतलेइशानकूणप्रतेंजाइनेस्वयमेवपोतानीमेलेजआभरणमालाआभरणअलंकार  
 प्रतेंजतारेसूकेसूकीनेकालीकुमारीपोतानीमेलेपोतेमाथानेलोचप्रतेंकरेकरीनेजिहापार्श्वंनाथअरिहंतपुरषादानीयउ  
 त्तमपुरषामांहेआदेवकर्मनोधणीक्खेतिहांआवेआवीनेपार्श्वंनाथअरिहंतप्रतेंतिणवारप्रदक्षिणादेइवादेनमस्कारकरेवांदी  
 नेनमस्कारकरीनेइमकहतीऊइंभंतेहेभगवन्आलिप्तपलेवणाभूतसर्वलोकयइरह्योक्खेइणेप्रकारेजिमदेवानंदाब्राह्मणीनीपरं

शंसापुष्कचूलाञ्जना कालिकुमारिसयमेवपम्वावेद् जावउवसंप्रज्जिताणंविहरद् तएणंसाकालीञ्च  
 ज्जाजायाइंरियासमियाजावगुत्तवंभयारिणीतएणंसाकालीञ्जनापुष्कचूलाएञ्जनाए अंतिएसांसा  
 इयसाइयाइंएगारसअंगाइं अहिज्जइवहुइं चउत्थजावविहरद् तएणंसाकालीञ्जनाअसुयाक

जांणिवो तांलगीजांपोतें श्रीभगवंतदीचाप्रतें देवें तिवारपच्छीपाअर्खं नायअरिहंतपुरुषांसांदिआदेयनामनोधणीकालीप्रतेपोतें आप  
 णपेभगवंतपुष्कचूलासाधवीनें शिष्यणीपणे चेलीपणे करीआपेदीये तिवारपच्छीतेपुष्कचूलासाधवी कालीकुमरीप्रतें स्वयमेवदीचा  
 देवें तांलगीजांकालीसाध्वी पुष्कचूलासाध्वीगुरुनीप्रतें अंगीकारकरीने विचरेक्के तिवारपच्छीतेकालीआर्यासाधवीयइं देर्यासमिति  
 प्रमुखपांचसमितित्तिणगुप्तिनीधरणहारिणीयइं गुप्तब्रह्मव्रतनाधरणहारीयइं तिवारपच्छीतेकालीआर्यासाध्वी पुष्कचूलासाधवीनें  
 समीपनं विषे सामायकअध्ययनआदिदेइं इगपरिं अंगभणे भणीनें घणाचोअच्छट्टअट्टसअरपांच पनरउपवासकरतीमासखमणकर  
 तीच्छतीविचरेक्के तिवारपच्छीतेकालीसाधवीएकदाप्रस्तावे सरीरपाउसियावकुशचारितनीधरणहारी करउवकुशकावराचारितनी

याइं सरीरपाउसियाजायाविहोत्या अभिक्खणं हत्थेधोवेइ पाएधोवेइ अभिक्खणं सोसं धोवेइ  
 इत्ता सुहं धोवेइ कअळं धोवेइ शुजअंतराणि धोवेइ जत्थे रविक्खणं ठाणं वाणि सोहि यं वा चिइ एतं सु  
 व्वासेव अअभु किइत्ता तअओपच्छाअसइ यवासइ यदातएणं सापुफ्फचूलाअज्जा क्खालिं अज्जिं एवं वयासी  
 णो खलुकप्पइ देवाणुप्पिये समणीणीं णिगंथे णिं सरीरपाउसियाणं होत्तए तुमं च यं देवाणुप्पिये सरीर .

धरणहारीयाती ऊई ते काली साध्वी वारं वारं वारं धोवे पगप्रते धोवे वारं वारं सुखप्रते धोइ वारं वार  
 काखधोवे गुह्ययानकनाअंतराधोवे जिहां रकाउसग्गकरि वानो यानकक्के अथवा वेसवानो ठामक्के तेप्रते जिहां शय्यासइ वानो ठाम  
 तेप्रते नैषे धिकी सआय करिवानी भूमिधरती तेप्रते करे तेप्रयमपहि लां जपां गीइ छांटी करीने तिवार पच्छी वेसेसइ इमकरे तिवार प  
 छी तेपुष्पचूला साधवी काली साधवी प्रते इमसी खदेती हई खलु निचे कल्पे न हीं हे देवानुप्रिये हे अर्थे अगणीने साधवीने निग्रं थिणी  
 ने शरीरपाउसियापणो यावा होवा भणी कल्पे न हीं ते हे देवानुप्रिये हे काली अर्थे च पुनः वलीतुं अर्थे शरीरपाउसियातुं थईं हे वारं वार

पाउसियाजायाअभिवरणं हृत्थेधोवेसिजावआसयाहिवातंतुसंदेवाणुप्पिएयस्सठाणस्सआलोएहि  
जावपायच्छित्तंपडिवज्जाहि तएणंसाकालीअज्जापुफ्फचूलाएअज्जाएएयमडुंणोआटाइजावतुसिणी  
यासंचिदुइतएणंताओपूफ्फचूलाओअज्जाओकालिं अज्जिंअभिवरणंहीलेइखिसंतिगरिहंतिअवम  
खंतिअभिवरणंएयमडुंणिवारेइतएणंतीसेकालीए अज्जाएसमणोहिंणिणंघोहिं अभिवरणंही

हाथप्रते तुं धोइच्छे पगधोइच्छे तांलगीजांप्रथमधरतीपाणीइं छांटीने पछे तुवेसेछे खूइच्छे काउसगकरेछे तेकारणथीहे दे वाडुप्रिये  
तुं एथानकठामने आलोइं मिच्छामि दुक्कड्ये तांलगीजांप्रायच्छित्तटालिवानिमित्ततपप्रते पडिवजआलोयणल्ये इमगुरुणीकह्यो  
तिवारपक्कीतेकालीसाध्वी पुष्पचुलासाध्वीनाएकहणवचनप्रते आदरे नहींजाणंनहींमानेनहीं गुरुणीनोकहणअणमानतीकतीअ  
णवोलीवेसीरहे तिवारंतेपुष्पचूलासाध्वीगुरुणीआदिदेइं सवलीसाध्वीओकालीसाध्वीप्रते वारंवारहीले खिंसे गर्हाकरे अप  
मानये सवलीसाध्वीओ वारंवारएकरवानाअर्थप्रते वारे वजे जेइमनकरीये तिवारंतेकालीसाध्वीने अमणीएसाधवीएनिग्रंथि

लिज्जभाषीए जाववारिज्जभाषीएइमेयाखुवेअज्जत्थिएजातसमुप्पिज्जित्थाजयाणंअहंआगारवासंसम  
उभेवसामि तयाणंअहंसयंवसाअप्पवसा जप्पभिइं चणंअहं सुं डाभवित्ताआगाराओअणगारियंप  
व्वइयातप्पभिइं चणं अहंपरवसातंसयंखलुसम कल्लं पाउप्पभायाएरयणीं एजावजलं तेपडिएक्कयंउव  
स्सयंउवसंपज्जित्ताणं विहरित्तएत्तिक्कट्टे, एवंसंपेइइत्ता कल्लं जावजलं तेपाडिक्कंउवस्सयंगिरहइत्त

नीएवारंवारहीलातीछतीनें तालगीजांवारतीछतीनें एहवोआत्मानेविषेरह्योअधिष्ठो मनमाहिअध्यवसायसंकल्पविकल्पजपजेजि  
वारं ऊं गृहस्थावासमाहिवसतीरहती तिवारं ऊं पोताने वसऊं ती परवसऊं तीजेदिनयकी आरंभीने मांडीने ऊं सुं डयईने  
गृहस्थावासयकीनीसरने अणगारतासाधुपणाप्रते दीचालीधीक्केतेदिवसयकीआरंभीने मांडीने ऊं परवसयईक्केतेकारणयकीअय  
भलोखलुनिचे ममसुक्कनें कालिप्रभातययांपछीरातिव्यतिकस्या पछीस्वरजऊम्यापछीतालगीजाजलंतेतेजवंतजाजल्यमानस्वर्ययये  
क्कते जूदाअलगउपासराप्रते अंगीकारकरीने मांगीलेइने विचरवाभणीह प्रवत्तुं इमकहीने इणेप्रकारे विचारे विचारीने काल

त्यंअणिवारिया अणाहडियासच्छं दमई अभिक्खणं हत्थेधोवेइजावआसयइवासइवातएणंसाका  
लीअज्जापासत्यापासत्यविहारिणीओओसखाओसणविहारिणीओकुसीलाकुसीलविहारिणीअ

प्रभातयइतालगीजाजाल्यमानसूयथएच्छते जुदाअलगगउपासराप्रते मागील्यंमागीलेइने रहे तिहाअनिवारिकानहींछे निवार  
कवर्जणहारइमतुं सकरिएहवोनिषेध बुंजेकालीनेंतथानथीविद्यमानउपघटिवोकहिबो जेहनें एतले पोतानीइच्छाइ प्रवर्त्ततीनें हा  
येआलीकरीनें निवर्त्ताविवो वर्जवें नहींजिकालीसाधवीनें एकारणथकीसच्छंदमतिकहतां पोताने छां दें अभिप्राये करी मतिबुद्धि  
छे जेहनीपोतानीबुद्धिं चालतीछती वारंवारहाथप्रमुखसर्वधोवे पछे प्रथमधरतीपांणीये छाटीकाउसगकरे वेसें सूइं सभायकरे  
तिवारं विशेषथकी तेकालीसाधवीतिवारपछीतेकालीसाधवी तिहानिचें पणें पासत्याकहतां एकप्रासें अलगंज्ञानदर्शनचारिलवा  
हिरांअलगारच्छाछे जेसाधवीथकीतेपासत्याकहीधे तेपासत्यानोजिविहारघणादिवसताइ एकथानकनें विषे रहिवोतेपासत्यावि  
हारकहिधे तेपासत्यानोविहारछे एसाधवीनेंतेपासत्यविहारणीकहिधे रुडीक्रियाकांडींक्रियाअनुष्ठाननें विषे आलसूयइपडि

होच्छं दं अहोच्छं दं विहारौ संसत्तासंसत्तविहारौ ब्रह्मणिवासाणि साम्नासुपरियगंपाउणइत्ताअड्ड  
 मासियाएसंलेहणाएअत्ताणंजम्भूसेइत्ता तीसंभत्ताइ अणसणाएछेइएत्.सुठ्ठाणस्सअणालोइयअप्रिडि  
 क्कं ताकालमासेकालं किञ्चाचमरचंचारायहाणीए कालीवडिसएमवणेउवंवायसभाएदेवसयणिज्जं

कमणोसभायपडिलेहणपूजवाप्रमार्जवाने विषे आलसूखे कुसीलभूडोसीलआचारखे जेसाधवीनोकालविनयादिभेदभिन्नज्ञानदश  
 नचारित्वनाआचारनीविराधकथईच्छतीविचरेखे अहाखंदायईच्छतीविचरेखे संसत्ताकहतांकिवारि कसंवेगीनागुणना संबंधयकीकि  
 वारि कपासत्यादिकनादोषनासंबंधयकी षड्विगारवरसगारवसातागारवएत्तिणगारवाना उपजवायकीएहवीसंसत्तीयईच्छतीविच  
 रेच्छेपच्छे तेकालीसाश्चीत्रहुषणावरसलगी आमण्यचारित्पणानापरीयप्रते पाले पालेने अर्द्धमासनीसंलेखनाइ करी पोताना  
 आत्माप्रते शोषवे शोषवीने तीसगतअणसणं करीछेदे छेदीने तेहाथप्रगमुखधोवानाथानकने तथापाणीनाछटोर देइकाउसगक  
 रिवानाठामवेसवानाठाम सूइवासभायनाठाम तेसगला ठामने अणआलोइ पापयकीअतिचारयकी अणनिवत्तीछतीकालकरिवा



सिदेवदूसंतरियाएअंगुलस्त्रसंखेज्जइभागमेत्ताए ओगाहणाएकालीदेवित्ताएउववस्सातएणंसाका  
 लीदेवीआहुणोववस्सासमाणीपंचविहाएप्रज्जत्तीए जहासूरियाभाजावभासामणपज्जत्तीएतएणंसा  
 कालीदेवीचउणहंसामाणियसाहस्सीणंजावअस्सेसिंच बडुणंकालवडिंसगभवणवासीणंअसुरकुमा

नामासने'विषेकालप्रते'करीने' चमरचंचाराजधानीने विषे कालीअवतंसकनामाभवनघरने'विषे उपातसभाउपजवानीअवतर  
 वानीसभा देवतानीरज्जाने'विषे' देवदूखवस्से'करीढांकीछे' तेहने'विषेअंगुलने'असंख्यातसे'भागशरीर प्रथमपहिलाऊपजताअंगु  
 लनाअसंख्यातमाभागप्रमाण शरीरनीअवगाहनाइ' देहमाने'करीकालीसाध्वी कालीनामादेवीपणे'ऊपनीअवतरी तिवारे'तेका  
 लीदेवीतकालनीऊपनीछती पाचप्रकारनीपर्यासिइ'करीपर्यासिहुइ' जिमस्वरियाभदेवताआहारपर्यासि? शरीरपर्यासिइ'द्विय  
 पर्यासिइ'सासोखासपर्यासि४ भाषांसनपर्यासि५एपांचपर्यासिइ'करी पर्यासोथयोतिमकालीदेवीपणपाचपर्यासिइ'पर्यासोतीहुइ'तिवारे'  
 तेकालीदेवी चारहजारसामानिकदेवतानी तांलगीजांवलीअनेराईनीजाघणा कालअवंतंसकभवनघरमाहि वसणहारराएहवाअ

राणं देवाण्यथ देवीण्यथ आह्वयच्चं जावविहरइ एवं खलु गोयमा काली ए देवी एसा दिव्या देवद्विइ लद्वापत्ता अ  
 भिससखागया काली एणं भंते देवी एकेवइयं कालं टिइ प्रणत्ता गोयमा अद्वाइ ज्जाइ प्रलिअो वसाइ ठिइ प्रसत्ता  
 कालीणं भं देवोता अो देवलोगा अो जावअणं तरं उव्वट्टि ताकाहिं गच्छिं हिं तिकाहिं उववज्जिहिं त गोयसा  
 महाविदे हेवासि सिञ्चिर्नाहिं तिभू एवं खलु जंबूसमणेशं भगवया सहावीरिणं जावसंपत्तेशं पटमस्सवगस्सपट

सुरकुमार देवता देवी तेहनो अधिपतिपणो स्वाभीपणो करती छती विचरेछे इणं प्रकारे निच्च हे गोतम काली देवी इ ते देवता संवधिनी  
 दिव्यप्रधान देवतानी ऋद्धिलहै छे इ सपांसी छे परिभोगयकी उपभोगप्रते पानी छे वली गोतमपूछे भंते हे भगवन् ए काली देवी नीकेत  
 ला एककालनी आउखानी थितिकही छे भगवंत वा हे हे गोतम अढी प्रस्योपमनी आउखानी थितिकही छे काली देवी ना आउखानी वली  
 गोतमपूछे भगवंतप्रते हे भगवन् ए काली देवी ते देवलोकचसरचंचाराजधानीयकी आउखाने चये करीअंतरारहित उहत्तीने चवीने  
 किहां जास्ये किहां उपजस्ये श्रीवीरकहे छे हे गोतम महाविदेह चोवनं विषे जास्ये उपजस्ये महाविदेहे सीअस्ये बूअस्ये सोचजास्ये

मउक्तयणस्त्रयमद्वे पयत्ते त्तिवेमिधम्यकहाणंपटमउक्तयणंसम्पत्तं । जद्वृणंभंतेसमणेशंसमणेशंभगवयामहावी  
 रेणंजावसंपत्ते णंघम्यकहाणंपटमउक्तयणस्त्रयमद्वे पयत्तेविद्वयस्त्रणंभंते अउक्तयणस्त्रयसमणेशंभगवयामहावी  
 महावीरेणंजावसंपत्तेणंकिअद्वे पयत्तेएवंखलुजंबूतेणंकालेणंतेणंसमणेशंरायणिहेणयरेगुणसिलएच्चे

श्रीसुधर्मास्वामीकहे' इमपूर्वोक्तप्रकारे'निश्चे' हेजंबूअमणभगवंतश्रीमहावीरदेवतां लगीजावत्सोच्चपङ्क'ते' प्रथमपद्दिलावर्गनाप्र  
 यमपद्दिलाअध्ययननो एअर्थसुम्हने'कह्योछे'ह' पणितुम्हने'तेहवोजअर्थकड'छु' धर्मकथानोप्रथमअध्ययनसंपूर्णययो । वलीजंबू  
 पूछे'श्रीसुधर्मास्वामीप्रते' जोभंतेहेभगवन्अमणभगवंत श्रीमहावीरदेवे'तांलगीजां सोच्चपङ्क'तेधर्मकथानाप्रथम अध्ययननोएअर्थ  
 तुमने'कह्योतेमे' तुम्हारासुखयकीसांभल्यो हिवे'भंतेहेभगवन् बीजाधर्मकथाना अध्ययननोअमणभगवंतश्रीमहावीरदेवे' तांलगी  
 जांसोच्चपङ्क'ते'स्योअर्थतुम्हने'कह्योछे' तेकह्योहिवे'सुधर्मास्वामीकहेछे' इमआगलिकहिस्ये' तिमनिश्चे'हेजंबूतेकालने'विषे'तेसम  
 यने'विषे'राजगटहनगरने'विषे' गुणसिलचैत्यदेहरोछे' तिहांश्रीस्वामीश्रीमहावीरदेवसमोसख्या नगरमांहिथी परिषदानीसरीतां

इरसालीसमोसुदहेपरिसाणिव्वयाजावपञ्जुवासइ तेणंक्कालेणंतेणंसमएणंराईदेवीचमरचंचाएराय  
 हाणौएएवंजहाकान्नीतहेवअगयाणइविहंउवइसेत्ताप्रडिगयाभंतिभगवंगोयमापुव्वभवपुच्छाए  
 वंखलुगोयझातेणंक्कालेणंतेणंसमएणंअभलकप्पणामंणयरी अत्रसाणवणेचेइएजियसत्तूरायाराई  
 गाहावईरायसिरोभारियाप्रसखसमोसएणंराईदारियाजहेवकालीतहेवणिकखंतातहेवसरीरपा

लगीजाओमहावीरनीसेवाभक्तिकरेछे तेकालने विषे तेसमयने विषे राईदेवीचमरचंचानामाराजधानीने विषे इमपूर्वे जिमका  
 लीदेवीआवीछे तिमजरराईदेवीवादिवाआवीनाटकना विधिप्रकारप्रते देखाडीने पाछीचलीगईतिवारपछीगोतमस्यामिपुव्व  
 लोभवअर्थात्पाछिल्योभवपूछे भगवंतप्रते हिवे भगवंतकहे इणे प्रकारे निश्चे हेगोतमतेकालने विवि तेसमयनेविषे आमलकप्पा  
 नामे नगरीअत्रशालवनचैत्यदेहरो जितयतूरानाराईनामागटहस्य राजसिरिनामाभार्यास्त्रीराईपुलीछे जेणे प्रकारे कालीदीवा  
 लीधीतमजरराईकुमरीदीवालीये तिमजकालीसाधवीनीपररे राईसाधवीशरीरपाउसियाथइ तिमजसर्व्वकालीनीपररे राइसाध

उसियातंचे त्रसव्वं जावअंतं काहितिएअं खलुजंबू बियस्सअउक्कयणस्सणिक्खेवओइजइणंभंतेतइयअउभा  
यणस्सउक्खेवओएवं खलुजंबूतेणं कालेणंतेणं समएणंरायणिहेणामंणयरेगुणसेलएचेईएएवंजहेवराइत  
हेवरयणीविणवरंआमलकप्पाणयरीरयणीगाहावइरयणिसिरीभारियारयणीदारियासेसंतहेवजा  
वअंतं काहितिइएवंविज्जु, विअमलकप्पाणयरीविज्जुगाहावइरियारियाविज्जुदारियासेस

वीअंतकरिस्सें मोक्षजास्ये इणे प्रकारे निश्चे हेजंबपहि लावर्गनाबीजाअध्ययननो अर्थनिचे पययोसंपर्णययो वलीजंबपूछे जोहेभग  
वन्हिवे पहि लावर्गनाबीजाअध्ययनकहोसुधर्माकहे इणे प्रकारे निश्चे हेजंबू ते कालने विषे ते समयने विषे राजगटहनासे नगरगुण  
सिलचैत्यदेहरोछे तिहांश्रीमहावीरआविनेसमोसखाछे इणे प्रकारे जिमराईकुमरीतिमजरयणीकुमरीजांणवीपिणइहांविशेषछे  
आमलकप्पानामे नगरी रयणीनामे गटहस्यरयणिसिरीभार्यास्त्रीछे रयणीकुमरीएविशेषजाणिवो बीजोशेषथाकतोशेषथाकतोस  
षलोतिमजकालीनीपरे जांणवो अंतकरिस्सें मोक्षजास्ये इमजहेजंबूविद्युत्कुमारीपिणजंणवी आमलकप्पानगरीविज्जु नामागटह

तद्देवधृएवंसेहावित्रामलकप्राएणथरीएमेहोगाहाईमेहसिरिभारियासैहादारियासेसंतद्देवधृएवंख  
 लुजंबूससखेणंभगवयामहावीरेणंजावसंपत्तेणंधन्मकहाणंपटमस्वगस्सअथमद्देपस्सत्तेजद्देणंभंतेसम  
 खेणंभगवयामहावीरेणंजावसंपत्तेणंदोच्चस्सवगस्सउक्खेवत्तरोएवंखलुजंबूससखेणंभगवयामहावीरेणं  
 जावसंपत्तेणंदोच्चस्सवगस्सपंचअज्जकयणाप०तं०सुंभां१शिसुंभारंभाइणिरंभाइसंदणाधुजद्देणंभंतेस

स्यविज्जुसिरीभार्धास्त्रीच्छे' विज्जु कुमरीएविशेषजाणिवो बीजोसघलोशेषथाकतो तिमजजाणिवो एपहिलावर्गनोचोथोअध्ययनध  
 द्दणे प्रकारे'सेवादेवीपिणजाणवी आमलकप्यानामनगरीने'विषे' सेहोगृहस्थसेषसिरीभार्धास्त्रीच्छे' सेहाकुमरीच्छे' एविशेषजाणि  
 वोबीजोसर्वशेषथाकतोतिमजजाणिवो एपहिलावर्गनोपाचमोअध्ययनधृ द्दणे प्रकारे'निच्च' हेजंबूअमणभगवंतस्त्रीमहावीरदेवे'ता  
 लगीजांसोक्षपद्धंते' धर्मकथानापहिलावर्गनो एअर्थसुभने'कह्योच्छे' तेहवोअर्थच्छं'कच्छं'छु' हेजंबूतुअप्रते' जंबूच्छं'जोहिभगवन्  
 अमणभगवंतस्त्रीमहावीरदेवे'मोक्षपद्धते' धर्मकथानाबीजावर्गनापांचअध्ययनकह्योच्छे' तेकहेच्छे' सुंभानामा १ बीजोनिंसुंभारती

सण्णं भगवथा महावीरिणं जावसंपत्ते णं धम्मकहाणं दोच्चस्सवग्गस्स पंचत्रज्जकयणा पस्सत्ता दोच्चस्सणं भंतैव  
 ग्गस्स प्रथम उअयणस्स केअट्टे पस्सत्ते एवं खलु जंबूतेणं कालिणं तेणं समएणं रायगिहेणयरे गुणसिलएचेइएसा  
 सौसमोसठापरिसाणिगयाजावपच्चुवासइतेणं कालिणं तेणं समएणं सुआणामं देवीबलिच्चंचाएरायहा

जोरंभा ३ चोयोनि एभा ४ पाचमोसंदनाअध्ययनधु जंबूपूछे जोहे भगवन् अन्नण भगवंत श्रीमहावीरदेवे मोक्षपडुंते धर्मकयानाभीजा  
 वर्गना पाचअध्ययनकच्छाछे तोभंते हे भगवन् बीजावर्गनापहिलाअध्ययननोस्थोअर्थकच्छोछे तेकहोहिचे सुधर्मकहे इणे प्रकारेनिचे  
 हेजंबूतितु कालने विषे तिनसमयने विषे राजगृहिनगरी गुणखिलचेत्येअविनेखामीससोसस्था परिषदानीकलीयावत्पर्युपासु  
 नासैवाकरतीऊईतेकालने विषे तेसमयने विषे सुभानामे देवीबलिच्चंचाराजधानीवले इनीराजधानीनेविषे शुभाश्रवतंसकनामा  
 भवनवरने विषे शुभनामासिहासनने विषे वैठीछे कालीनाअध्ययननीपरि अविधज्ञानिकरीजोइतालीदेवीनीपरि आवीश्रीभग  
 वंतप्रते वांद्वातांलगीजां नाटिकनाविधप्रकारप्रते देखाडीने जिगआवीतिमगई पछे गौतमशुभादेवीनोपाळलोभवपूछे श्रीम

श्रीएतुं भावडिंस एभवणे सुभंसि सीहासणं सिकाली गसएणं जावणद्विहिं डवदं सेत्ता जावपडिगया पुब्बभव  
 पुच्छासावत्थीणयरो कोट्टएचेइएजियसत्तू रायासुं भेगा हावईसुं भसिरीभारियासुं भादारियासेसंजहा  
 कालीएणवरं अडुठ्ठाइं पलिओवमाइं ठिइएवंखलु णिवखे ववग्गो अज्जकयणस्सएवंसेसा विचत्तारि अज्जकय  
 खासावत्थीएणवरं सायापियाधूयासरिसणासयाएवंखलु जंबूणिवखे वत्तो वियवग्गस्सइवखे वत्तो तइय  
 वग्गस्सएवंखलु जंबू समणेणं भगवयासहवीरेणं जावसंपत्ते णंतइयस्सवग्गस्सचउप्पसुं अज्जकयणाप्रसत्तातं

हावीरत्तहंसावलीनगरीकोष्टकनामाचैत्यदेहरो जितशत्रू राजासुं भनाभाग्यहस्य सुं भसिरीभार्थास्त्री सुं भनालिकाकुमारीछें एवि  
 शेषछें कीजोसर्वशेषयागतो कालीकुमरीनें कक्षोछें पणइहानवरं इहां एतलो विशेषछें सुं भादेवीनी साढीतीनपत्योपमनीनाडखा  
 नीधितिकहीछें एविशेषजाणिवो इणं प्रकारं निच्चं धर्मकथानाबीजावर्गनापहिलाअध्ययननोअर्थसंपूर्णययो इमइणं प्रकारं एषथा  
 कताचारअध्ययनजाणवा सावलीनगरीजाणवी नवरं एविशेषजाणिवो सातापितापुत्रीएसर्वसरिखें नामे जाणवाएविशेषजाणिवो



जहापठमे अज्जकयणे जावचउप्पसुइमे अज्जकयणे जइ गंभंते समणेणं भगवया महावीरिणं जावसंपत्तेणं धम्म  
 कहारणं तइयस्सवग्गस्य चउप्पसु अज्जकयथापसुत्तांतं जहापठमस्सणं भंते अज्जकयणस्स समणेणं भगवया महा  
 वीरिणं जावसंपत्तेणं किअट्टे पसुत्ते एवं खलु जंबू तेणं कालिणं तं गं समणं रायगिहेणयरेणुणस्सिएचेइएसा  
 मीसमोसठेपरिसाणिगया जावपज्जुवासइ तेणं कालिणं तं गं समणं अत्तादेवीधरणीएरायहाणीएअत्ताव

इणे प्रकारे निचें संपूणं थयो धर्मकथानावी जावर्गनो अर्थः हि वेत्ती जावर्गनो प्रारंभक हेके इणे प्रकारे निचें हे जंबू अमण भगवंत  
 श्रीमहावीर देवे तालगीजां मोक्षपड्डं तं धर्मकथानावी जावर्गना चोपन्न अध्ययन कर्त्ताहे ते कहेके प्रथम अध्ययन आदि देई तालगीजां  
 चउपन्न अध्ययन ताई जाणवो जो हे भगवन् अमण भगवंत श्रीमहावीर मोक्षपड्डते धर्मकथानावी जावर्गना अध्ययन कर्त्ता तेनामयकीमे  
 सांभल्याभंते हे भगवन् प्रथम पहिला अध्ययननो अमण भगवंत श्रीमहावीर देवे मोक्षपड्डं ते स्यो अर्थ कर्त्तोहे ते ऋहो भगवंत कहेइणे प्र  
 कारे निचें हे जंबू ते कालने विषे ते समयने विषे राजगृहनगरने विषेणुणसिलनामचेत्यविषे स्वामी आवीने समोसथो परिषदानगर

डिंसएभवणेअलंसिसौहासणंसिएवंकालीगमएणंजावणइविहिं उवदंसेत्ताप्रडिगथापुव्वभवपुच्छा  
वाणारसौएणयरीएकाममहावणेचेइएअलेगाहावइअलसिरीभारियाअलादारियासेसंजहाकाली  
एणवरंधरणस्सअग्गमहिंसित्ताएउववाओसाइरेगंअइपलिओ वमंठिइसेसंतहेवएवंखलुणिकखेवोप

माहियकीनीसरीवादिवाआवी यावत्वेठीछतीसेवाकरेछे तेकालनें विषे अलादेवीधरणेद्रनीपटराणी धरणीनामा  
राजधानीने विषे अलावतंसकनामभवनघरनें विषे अलनामासिंहासननें विषे देवतानासुखभोगवतीछतीविचरेछे पछेअवधिजा  
नें करीभगवंतऊतद्यादीठा एवंइसपूव कालीदेवीनोआविवोथयोछे तिमजअलादेवीआवीभगवंतनें नाटिकनाप्रकारदेखाडीनें  
जिमआईतिसगई पछेगौतमस्वामीओभगवंतप्रतें अलादेवीनोपाछलोभवपूछे हिवेभगवंतकहेवाणारसीनगरीनें विषे काममहाव  
नचेत्यदेहरोछे अलनामागृहस्थअलसिरीनामाभार्यास्त्रीछे तेहनीअलावालिकाजुमरीछे शेषयाकतोसधलोजिमकालीनीपरंजांणि  
वोनवरंएतलोविशेषेछे आलासाधवीधरणेद्रनीअग्रमहिधी पटराणीपणेऊपनीदोढपल्योपमभाकेरा आउखानीथितिकहीछे अलादे

टमस्य अउभयस्य एवं कामास एरासोयमाणी इं दाघणा विज्जुया विसव्वाओ एयाओ धरणस्य अरगमहि  
 सीओ एएछ अउभयस्य विणुदेवस्य विअविसेसौयाभाणियव्वा एवं जावघोसस्य वि एचेवछ अउभयस्य इ  
 ज्जे एदाहिणिह्माणं इं दाणं चउप्रस्यं अउभयस्य भवंतिसव्वाओ विवाणारसी एकाममहावणेचे इ एतइय  
 वरगस्य णिक्खेवओ चउत्थस्य वरगस्य उक्खेवओ एवं खलुजंभू समणेणं भगवयामहावीरेणं जावसं प्रत्तेणं ध

वीनो एविशेषेच्छे' बीजो शेषथाकतो सघलो तिभजकालीदेवीनीपरे' इणंप्रकारे' खलुनिच्चे' निच्चेपोसंपूर्णथयोप्रथमपहिंलाअध्ययननो  
 इणंप्रकारे' कामादेवीनोअध्ययन सतेरादेवीनोअध्ययन सोयमाणीदेवीइं द्रादेवीघणादेवी विज्जु यासावलीओ एदेवीओ धरणे' द्रनी  
 अग्रमहिषीओजांणवी एतेछअध्ययनजाणिया वेणुदेवतानीपिणअविशेषसघलीदेवीजांणवी एवंइणं प्रकारे' तांलगीजांघोषदेवतानां  
 पिणएतेनिच्यच्छअध्ययनजांणिया इमइत्यादिसघलादच्छिणदिशिनाइं द्रना चउपन्नअध्ययनऊवे' सघलीएदेवीओवाणारसीनगरी  
 ने' विषे' काममहावनदेहराने' विषे' जतस्यच्छे' तिहानाटिककीधामहाविदेहच्छेत्तने' विषे' भौच्चजास्ये' तीजावर्गनोनिच्चेपोइ हिंवे' चो

अकहार्णवउत्थस्वर्गस्वचउप्यस्यं अजकथणेजावचउपस्यद्रमेअजकथणे  
 टमस्व अजकथणस्वउक्त्वेवअएवंखलु जंबूतेणं कालेणंतेणं समएणं रायगिहेणअरेसामौसमोसरणंजा  
 वपरिसापज्जु, पासइ तेणं कालेणंतेणं समएणं रूयादेवीभूयाणं दारायहाणी रूयगवडिंसएयभवणे रूय  
 गंसिसीहासणंसिजहाकाली तहाणवरंपुव्वभवोचंपाएपुस्यभइ चेइए रूयगाहावईरूयगसिरीभारि

थावर्गनोप्रारंभकहेछे इणे प्रकारे निच्चं हेजंबू अमणभगवंतश्रीमहावीरदेवे मोचपज्जते धर्मकथानाचोथावर्गना चउपन्नअध्ययनक  
 च्याहेतेकहेछे प्रथमअध्ययनआदिदेई तांलग्गीजांचउपन्नअध्ययनहे प्रथमअध्ययननोप्रारंभकहेछे एवंइणे प्रकारे खलनिच्चं हेजंबूते  
 कालने विषे तेसमयने विषे राजगृहनगरने विषेस्वामीश्रीमहावीरनोसमोसरवोथयोतालगीजापरिषदावादावावी वादीनेनमस्का  
 रकारीने श्रीमहावीरनीपर्युपासनासेवाकरेहे तेकालने विषे तेसमयने विषे रूचादेवीभूतानंदाराजधानी रूचकअवतंसकनासांभव  
 जवरने विषे रूचकनामासिंहासनने विषेरहीछती देवतानासुखभोगवेछे पछेअवधिज्ञाने जोइजिमकालीदेवीइ नाटिकवीधोच्छंति

या रूच्यादाोरियासिसंतहेव णवरंभूयाणंदाअरगमहिस्ताए उववाओदेसूणंपलिओवमठिइणिकखे व  
 ओएवंसूरूयाविख्याविख्यंसाविख्यगावईविख्यकंताविख्यप्पभाविइच्चैयाओचेवउत्तरिह्माणंद्रंदा  
 णंभाणियव्वाओजावमहाघोसस्स णिकखेवओचउत्थवग्गस्स ४पंचमवग्गस्सउक्खे वओएवंखलुजंबूजाव  
 वत्तीसंअचअथयापस्सत्तांतजहाकमलाकमलप्पभाचेवउप्पलाय सुदंसणा रूववईबहु रूवांसुरूवासुभ

मनाटिकनाप्रकार श्रीवीरआगलिदेखाडीनेगई तिवारपक्कीओगीतमपूर्वभवपूछें वलतुंश्रीवीरकहे चंपानगरीनेंविषे पूर्णभद्रचेत्य  
 देहरोछेंरुचकनामागटहस्यधनवंत रुचकसिरीभार्यास्त्रीरुचाकुमरी बीजोशेषयाकतोसधलो तिमजकालीनीपरंजाणवुं पिणएतलो  
 विशेषहे भूतानेद्रनीअग्रमहिषीपणेंजपनी देसेंअणेकेतले एकवरसेंजंणो एकपल्योपमआउखानीथितिके एविशेषजांणिवोएचो  
 थावर्गनोपहिलोनिक्खेपोसंपूर्ण इणेंप्रकारे सुरूचादेवीरूचादेवीरूचकावती देवी ४ रूचकंतादेवीरूचप्रभाइत्यादिकदेवी  
 ओचेवनिसे उत्तरदिशिनाइंद्रनीजांणवीतांलग्गीजामहाघोषइंद्रनीदेवीतांलग्गीजांणिवोन्विकखेवोकहतांसंपूर्णथयो चोथावर्गनोअध्य

गाविय१पुष्पावल्गुस्थियाचेवउत्तमाभारियावियपउत्तमावसुमईचेवकसुगाकणगप्यभा३प्रडिसगाकीउ  
 मईचेवइरसेणारइप्पियारोहिणीणवमियाचेवहिरौपुफ्रवइवौयइभुयगाभुयगवइचेवमहाकच्छा  
 फुडाइयसुधोसाविमलाचेव सुस्वरायसरस्वइ ४ उक्त्वेवत्रोपटमअभक्तयणस्वएवंखलु, उंबूतेणंकाशिणं  
 तेणंसमणेणंरायगिहे णयरेसमोसरणं जानपपरिसापज्ज, वासइ तेणंकाशिणंतेणंससएणं कसलादि

यनप्रहिवे'पांचमावर्गनो प्रारंभइणेप्रकारे'निशेषांचमावर्गना वलीसअध्ययनज्ञच्छाछितेकहेछे एककसला१कसलप्रभारचेवनिश्चे'उत्प  
 ला३चपुनःवलीसुदर्शना४ रूपवतीध्रुवल्गरूपा६सुरूपा७ सुभगाटअपिच१निश्चे'वली प्रूसी६वल्गुपरिणंका१-चेवपादपूरणे उत्तमार१भा  
 रिका१२अपिचपद्मा१३ वसुमती१४चेवपादपूरणे कनका१५कनकप्रभा१६ वतंकला२७केतुमती१८चेवपादपूरणे वज्रसेना१९र  
 तिप्रियार० रोहिणी२१नवमिका२२चेवपादपूरणे ज्जी२३पुष्यवती२४इति३ भुजगा२५भुजगवती२६चेवपादपूरणे महाकच्छा२७सु  
 टारटइति'सुधोषा२८ विमला३०चेवपादपूरणे सुस्वरा३१चपुनःवलीसरस्वती३२ए३२अध्ययननांमच्छे हिवे'पाचमावर्गनाप्रथमअध्यय

बौकमलाएरायहाणौए कमलवडिसएभवणेकमलंसिसीहासणंसि सेसंजहाकालीएणवरंपुव्वभवेणा  
 गयुरेणगरेसहस्रंवणेउज्जाणे कमलस्सगाहावइस्सकमलसिरौभारिया कमलादारियापासस्सअंति  
 एणिवस्संताकालस्सपिसायकुमारिंइस्सअगमहिंसौओअइपलिओवमडिइएवंसेसाविअज्जकयणादाहि

ननोअारंभप्रारंभविस्वारकहेछं इणेप्रकारे निचेहेजंनु तेकालने विषेतेसमयने विसे राजगृह्नरने विषे श्रीमहावीरनोसमोसर  
 यथयोतालगीजांपरिषदावादीने धर्मसांभलीने श्रीवीरनीपर्युपानासेवाकरे छे तेकालने विषेतेसमयने विषे कमलादेवीकमलारा  
 जधानीने विषे कमलावतंसकनामे भयनघरने विषे कमलनासासिंहासनने विषेवेठीछती अवधिज्ञाने करीप्रभूहीठा बीजोशेषथाव  
 तोजिसकालीदेवीकीधुं तिमजांणवोपिणएतलोविशेषछं पाछिलाभवनोविशेषनागपुरनगर सहस्वांवनउद्यान कमलनामे गाथाप  
 तितगृहस्थकमलश्रीनामे भार्यास्त्री कमलानामे पुत्रीएविशेषजाणिवो श्रीपार्श्वनाथनासमीपने विषे दीचालीधीतेसर्वकालीनीपरि  
 जांणवो कालनामापिशाचकुसरनाइ इनी अग्रमहिषीप्रह्वरांणीपणेजपनी अर्द्धपल्योपमनीअालखानीथितिजांणवो इणेप्रकारे बी

णिस्त्राणंवाणंमंतरिंदाणंभाणियव्वाओ णागपुरेसहसंवणेउज्जाणेमाथोपिया धूयासरिसणामया  
 द्विइअइपलिओवमंपंचमोवगोसस्सत्तोपूछट्टोविवगोपंचमवगस्ससरिसोणक्खंमहाकालिंदाणंउत्त  
 रिस्त्राणंइंदाणंअगमहिस्सोओ पुव्वभवेसागेयणयरेउत्तरकुर उज्जाणेमायापियरो धूयसरिसणा  
 मयासेसंतचेवच्छट्टोवगोसस्सत्तो इ सत्तमस्सवगस्सउक्खवेवओ एवंखल्लुजंबूजावचत्तारिअरक्खयणा

जाशेषथाकताएकलीअध्ययनइमजाणिया दक्षिणदिशिनावाणव्यंतरना इंद्रानीएसवलीओपटाराणीदेवीओजाणवी सधलीनागपुर  
 नगरनेंविषे सहखाववनउद्यानविषे दीक्षाजाणवीमातापिता पुत्रीसरिखेनामेजाणवी सधलीदेवीयानीअइपल्योपलनी आद्युःस्थि  
 तिछेंएपाचसोवर्गसंपूर्णययो छट्टोवर्गपाचमार्वगंसरिखोजाणिवो पिणइहाएतलोविशेषछें महाकालनामाइंद्रनी उत्तरदिशिनाइंद्रा  
 नीअग्रमहिषीदेवीपहराणीओजाणवी पाँदिलोभवएसवलीयानाकहेंछे साकितनगरउत्तरकुरउद्यान सातापितापुत्रीयानानामस  
 रिखाजाणियाएतलोविशेष वीजोशेषपूर्वलीपरेंजाणवो एच्छट्टोवर्गसंपूर्णययो हिवेसातमार्वगनोप्रारंभकहेंछे इणेंप्रकारेनिश्चेहे



पखत्तातंजहासूरप्रभा१आथवा२अश्विमाली३प्रभंकरा४पृष्ठप्रस्स एवंउक्त्वेवओएवंखलु,जंबूतेणंकाले  
 णंतेणंसमएणंरायणिहेणयरेगुणसिलएचेइए तेणंकालेणंतेणंसमएणंसमणंमहावीरेजावसमोस  
 रिएजावपरिसापज्जुवासइ तेणंकालेणंतेणंसमएणंसूरप्रभादेवीसूरंसिविमाणंसि सूणप्रभंसिसी  
 हासणंसिसेसंजहाकालीए तहाणवरंपुव्वभवोअरक्खु,रीएणयरीए सूणप्रहस्सगाहावइस्ससूरंसिरी

जंबूतांलग्गीजासातमावर्गनाचारअध्ययनकह्याछे तेकहेछेसूरप्रभादेवी१आतपादेवी२अर्चिमालीप्रभंकरादेवी४हिवंसातमावर्गना  
 पद्धिलाअध्ययनोप्रारंभकहेछे इणंप्रकारेनिश्चेहेजंबूतेकालनेविषेतेसमयनेविषे राजगटहनगरगुणसिलनासे चेत्यदेहरोक्खिते  
 कालनेविषेतेसमयनेविषे अमणभगवंतश्रीमहावीरदेवतिहासमोसह्या तांलग्गीजांपरिषदावादीने श्रीभगवंतनीसेवाकरे छेतेकाल  
 नेविषेतेसमयनेविषे सूरप्रभादेवीसूरनामाविमाननेविषे सूरप्रभनामासिंहासननेविषे वेठीछ्छतीअवधिज्ञाने करीप्रभूदीठापछे  
 सर्वशेषथाकतोकालीदेवीवत् तिमजाणवोपिणएतलोविशेष पाच्छिलोभवश्रीगोतमपछेहिवे भगवंतकहेछेअरक्खुरीनामानगरीनेविषे

एमारियाएसूरप्रहादारियासूरस्यअग्रगमहिंसोऽटिह अद्वपलिश्रोवक्ष्यं चिंहं वास एहिंश्रुभिहितं से  
 संजहाकालीएवंसेसाश्रोविश्रुतुरीएणयरीएसत्तमोवगोसत्ततो० अट्टमस्सउक्खेवओएवंखलुजं  
 बूजावत्तारिअञ्जयणपस्सत्तातंजहाचंदप्पभा१दोसिणाभा२ अच्चिमाली३पहंकरा४पट मस्सअउभय  
 णस्सउक्खेवओएवंखलुजंबूतेणं कालेणंतेणंसमएणं रायणिहेणयरेसमोसरंजावपरिसापज्जवासइते

सूरप्रभनामागृहस्थनीसूरश्रीनामाभार्यास्त्री सूरप्रभकुसरीकेंदीचालेईकालकरी सूरजनीअग्रमहिषीपट्टराणीशुद्धे आधापल्योपस  
 नीआडुखानीधितिके पाचसयवरसेअधिकएतले आउखे जपनी वीजोसर्वजिमकालीनें कक्ष्योके तिमजाणवोइणे प्रकारे शेषथाक  
 तीओतिणदेवीओपिणजाणवी अरक्खुरीनगरीनें विषेजाणवी जन्मदीचाप्रमुखएसातमोवर्गसंपूण्ययो० हिवे आठमावर्गनोप्रारंभ  
 कहेके इणेप्रकारे निच्च हेजं व तालगीजाचारअध्ययनआठमावर्गनाकह्याके तेकहेकेचंद्रप्रभा१ दोसिणाभादेवीर अर्चिमाली३प्रभं  
 करादेवी४ हिवे आठमावर्गनाप्रथमअध्ययननो प्रारंभकहेके श्रीसुधर्मास्वामीइणेप्रकारे निच्च हेजंतेकालनें विषेतेसमयनें विषेरा

शुंकालिणंतेणंसमएणं चंदप्पहादेवोचंदप्पहंसिविमाणंसि चंदप्पभंसिसीहासणंसिसेसंजहाकालीए  
णवरंपुव्वभवोमहराणयरीए चंडवडिसएलज्जाणे चंदप्पभेगाहावडूचंदसिरिभारिया चंदप्पहा  
दारियाचंदस्सअग्गमहिस्सोड्डिइ अइपल्लिओवमंपणासाएवाससहसेहिं अभ्भहियंसंजहाकालीए

जगृहनगरने विषे श्रीमहावीरसमोसस्था तालगीजापरिषदाश्रीवादिने श्रीमहावीरनीसेवाकरतीछती विचरेछे तेकालने विषेते  
समयने विषे राजगृहनगरने विषे श्रीमहावीरसमोसस्था तालगीजांपरिषदाश्रीवादिने श्रीमहावीरनीसेवाकरतीछती विचरेछे  
तेकालने विषेते समयने विषे चंद्रप्रभादेवीचंद्रप्रभनामाविमानने विषे चंद्रप्रभनामासिंहासनने विषे बेठीछतीज्ञानं करीप्रभदूठा  
शेषथाकतोसर्वजिसकालीनीपरे कच्छोछे तिमचंद्रप्रभादेवीनोजांणिवो पिणएतलोविशेषछे पाछलोभवपूछे श्रीगौतम श्रीधगवंतकहे  
मथुरानगरीने विषे चंडावतंसकनामाउद्यानतिहां श्रीपार्श्वनाथने पासे दीचालीधी चंद्रप्रभनामाधनवंतगृहस्थतेहनी चंद्रसिरी  
भार्यास्त्रीतेहनी चंद्रप्रभागामापुत्रीदीचालेई चंद्रमानीअग्रमहिषीदेवीथई आउखानीथित्तिआधोपल्योपम ऊपरपंपासहजारवर

वंसेसाओविमडराएणयरीए मायापियरोधूयासरिसणामा अहुसोवगोसम्भत्तो ट णवमस्सउकव्व  
 वओएवंखलु, जंबूजावअहुअज्जयणापसत्तातंजहा प्रभुमासिवासइअंजूरोहिणीणवमियाइय अयला  
 अच्छराप्रठमअज्जयणस्सउकव्वेवओएवंखलु, जंबूतेणंकातेणंसमएणंरायगिहेणयरेसामीसमोसर  
 णंजावपरिसापज्जूवासइतेणंकातेणंसमणंप्रभुमावइदेवोसोहन्मं कप्पे प्रभुमवडिंसएविमाणेसमा

सें करीअधिकआधोपल्योपमअनें पंचासहजारवरसनोआउखो चंद्रप्रभादेवीनोछें एविशेषजांणवोवीजोशेषथाकतो जिमकालीनी  
 परे तिसचंद्रप्रभादेवीनोजांणवो इणंप्रकारे शेषथाकतीवियजुमरी पियमथुरानगरनें विषे सातापितानानामपुवीनानामससरिखा  
 नानजगिणिवा आठसोवर्गसमाप्तथयो हिवे नवमावर्गनोप्रारंभकहेछे इणंप्रकारे निचे हेजंबू तालनीजानवमावर्गनाआठअध्ययनक  
 ह्याहे तेकहेछेपद्दा १ शिवारशची ३ अंजू ४ रोहिणी ५ नमिका ६ इतिअचला ७ अमराटएआठअध्ययननामाभ हिवे नवमावर्गनाप्रथम  
 पहिलाअध्ययननाप्रारंभकहेछे इणंप्रकारे निचे हेजंबू तेकालनें विषे राजगृहनगरनें विषे स्वामीमहावीरआवी

एषु हस्मा एपउमंसिसीहासणंसि जहा काली एत हेव एवं अडुवि अरुभयणा काली ग सेणं गे दव्वाणवरं सा  
 वथी एदो जणिओ हत्थिणा उरे दो जणिओ कं पिस्सुपुरे दो जणिओ सागेयणयरे दो जणिओ पउमे पिउरो  
 विजया माथरो सव्वाओ विपासस्सअं तिथं पव्वडूयाओ सक्कस्सअग्गलहि सीओ ठिइ सत्तपलिओ वमा इ म

उतथो तालगीजापरिषदाअवीवादीने परिषदाअभीभगवंतनीसेवाकरेछे तेकालने विषे तेसमयने विषे पद्मावती देवीसौधर्मकल्प  
 देवलोकने विषे पद्मावतंसकनामाविमानने विषे सभासुधर्मांने विषेपद्मनामासिंहासनविषे उपनीछे एविशेषजांणिवो पछे जिमका  
 लीने कस्योछे तिमजाणिनोसधलो इणे प्रकारे नवमावर्गनाअठेपिणअध्ययन कालीनाअलावानीपरे जांणिवा पिणएतलोविशेषेछे  
 सावथीनगरीने विषेवेजणी ऊईहत्थिणाउरनगरने विषेवेजणी ऊईसाकितअयोध्यानगरीने विषे  
 वेजणी ऊईसवलीकुमरीनापद्मनामापिताजांणिवा सवलीकुमरीनीविजयानामामाताजांणवी सवलीनवकुमरीओपिणअपीपार्श्वनाथ  
 नासमीपेदीजालीथी सवलीकुमरीकालकरीने शक्रसुधर्मे द्रुनीअग्रमहिषीपट्टरांणीउपनी सातपत्योपमनीआउखानीथितिजांणवी

हाविदेहेवासेजाव अंतमकाहीणवमोवगोसम्भत्तो६दसमस्खलुक्खे वओएवंखलजंबूजावअडुअडभयणा  
 पसुत्तांतजहाकणहाय१ कणहराईय२रामा३ तहरामरक्खिया४वसूयधुवसुत्ताय६वसुमित्ता७वसु  
 धराटचेवईसाणे१पटमअडभयणस्खलुक्खे वओएवंखलुजं६तेणंका लेणंतेणंसमएणंरायगिहेणयरेसा  
 सौससोसरणंजावपरिसा पज्जु वारुइ तेणंका लेणंतेणंसमएणं कणहादेवीईसाणेकप्पे कणहवडिसए

तिहायकीचवीनेःसहाविदेहत्वेने विषे तालगीजांअंतकरिसेसोच्चजास्ये इतिनवमोवर्गःसंपूर्णः ६ द्विवे'दशमावर्गनोप्रारंभकहेछे  
 पूरेप्रकारेनिचेहेजंबू तालगीजादसमावर्गनाआठअध्ययनह्याछे तेकहेछेकषणा? कषणराजी२ रामा३तथारामरच्चिका४ वसुधुवसुगु  
 साईवसुमित्ता७वसुंधरा८ चेवनिचे ईशानदेवजोक्कने विषे? एआठअध्ययननानामजाणवादसमावर्गनोपहिला अध्ययननोप्रारंभकहे  
 छेइणेप्रकारेनिचे हेजंबू तेकालनेविषेतेसमयनेविषे राजगृहनगरने विषे स्वामीओमहावीरसमोसस्या तालगीजांपरिखदावादि  
 वाओवीवादिने'सेवाकरेछे तेकालने विषे'तेसमयने विषे' कषणादेवीईशानकल्पदेवलोक्कने विषे' कषणावतंसकनामाविमानने विषे

विमारेकएहंसिसीहासणंसि सभाएसुहस्माएसेसंजहाकालीए एवंअद्भुविअब्जभयणाकालीगमेणंणे  
यव्वाणवरंपुव्वभवोवाणारसौएणयरीए दोजणीओरायगिहेणयरेदोजणीओसावत्थीएणयरीएदोज  
णीओकोसंवीएणयरीएदोजणीओरामपियाधम्मायासव्वाओविपासस्सअरहओअंतिएपव्वइयाओ  
पुण्णचूलाएअज्जाएसिस्सणियत्तेइसाणस्सअग्गमहिसेओट्टिइणवपलिओवमाइंमहाविदेहेवासिसि

दृष्टानामासिंहासनने'विषे' सुधर्मानामासभाने'विषे' वेठीछतीअवधिज्ञाने'करीजोईवीजोशेषथाकतोसघलोजिमकालीने'कह्योछे  
तिसजांणिवाग्णे'प्रकारे' दसमावर्गनादअध्ययन कालीनीआलावानीपरे'जाणवा पिणएतलोविशेषछे' पाछिलोभवपछे वाणाइ  
सीनाआनगरीने'विषे' वेजणीइई राजगृहनगरने'विषे' वेजणीइई साबलीनगरीने'विषे' वेजणीइईकोसंवीनगरीने'विषे' वेज  
णीइईनवेजणीओनारामनामापिताछे' धर्मानामामाताजाणवी सघलीओनवेजणीओ पिणपार्श्वनाथनासमीपने'विषे' दीक्षाली  
धीछे' पुण्णचूलासाधवीने'शिष्यणीपणे' आपीओछे' ईशानकल्पदेवलोकने'विषे' ईशाने'द्रुनीपट्टरांणीथई नवपत्त्योपमनीआउखानी

समाप्तोद्वितीयश्रुतस्कांघः२ समाप्ताचेयंत्राताघर्मकथाप्रदेशटी केति नमःश्रीवर्द्धमानायश्रीपार्श्वेप्रभवेनमः नमःश्रीमत्परस्वत्यैसहाये  
 भ्योनसोनमः१ इहहिगमनिकाथेयन्मयाभ्युक्तं किमपिसमयहीनतद्विशोध्यंशुधीभिःनहिभवतिविधेयासर्वथाअस्मिन्नुपेक्षा दयितजि  
 नसतानांतायिनाचांगिवर्गेर परेषादुर्लभाभावतिहिविचक्षास्फुटमिदंविशेषाद्दृष्टानामतुलवचनज्ञानमहसां निराम्नायाधीभिःपुन  
 रतितरामाहृजनेनः ततःशास्त्रार्थमेवचनमनघंदुर्लभमिह३ततः सिद्धांततत्त्वज्ञैःस्वयन्स्वह्यसयत्नतः नपुनरस्वदाख्यातएवग्राह्योनिधौ  
 गतः४ तथान्यतस्मात्सुमेपापंसंधमल्युपजीवनात् दृष्टन्यायानुसारित्वाद्वितीद्वैचप्रवृत्तितः५ तथाहिकिमपिस्फुटीकृतमिहस्फुटेष्यर्थतः  
 सत्राष्टमतिदेशतोविविधवाचनातोपियत् समार्यपदसंशयाद्विगुणपुस्तकेत्योपियत् पराल्पहितहेतवेनभिनिवेशिनाचेतसाई योजैना

‘विभ्रहंतिवुडिभ्रंहंतिमुच्चिहंतिस्वदुक्खाणंअंतकाहंतिएवंखलुजंबूणिक्खेवओ दसमवगखदस

थितिकहीछे तिहायकीचवीनेमहाविदेहक्षेत्रनेविषे सीभ्रस्येकर्मथकीम्कास्ये सवलांडुःखानोअंतकारस्ये श्रीसुधर्मकहे इणं प्र  
 कारेनिचेहेजंबूसंपूर्णथयो दसमावर्गनोअधिकार इतिदशवर्गाःसमाप्ताः १० श्रीसुधर्मकहे इणं प्रकारेनिचे हेजंबूअमणभगवंत



भिन्नतंप्रमाणमनर्थव्युत्पादयामासिवान् प्रस्थानैर्विविधैर्निरस्यनिखिलंबौद्धादिसंबंधितत्नानानाट्टिकथाः कथापथमतिक्रातंचचक्रे  
 तपोनिःसंबंधविहारमप्रतिहतंशास्त्रावुसारात्तथा० तस्याचार्यजिनेश्वरस्यमदवद्वादिप्रतिस्यद्धिनः तद्वंधोरपिबुद्धिसागरद्वुतिख्यात  
 स्यसूरेर्भुविच्छंदोबंधनिबद्धबंधुरवचःशब्दादि सस्रज्जणःश्रीसंविग्नविहारिणःश्रुतनिधे शारिलचूडामणिःदशिक्षेणाभयदेवाख्यसूरिणा  
 विवृतिःकृता ज्ञाताधर्मकथांगस्यश्रुतभक्त्यासमासतः१ निवृत्तककुलनभस्त्रलचंद्रेद्रोणाख्यसूरिसुख्येनपंडितगणेन गुणवत्प्रियेणसंशो  
 धिताचेयं० एकादशसुगतेष्वथविंशत्यधिकेषुविक्रमसमानां अणद्विपाटकनगरे विजयदशस्य्यांचसिद्धेयं१ समाप्तंयज्ञाताधर्मं क  
 थाप्रदेशटीकिति ॥ ० ॥ श्रीरसुसर्वदासर्वदा ॥ ० ॥

सोवगोसम्भत्तो१० एवंखलुजंबूसमणेणं भगवयामहावीरेणंआइरणंजावसंप्रत्तेणंधम्मकहासुयक्खं  
 धोसम्भत्तोदसहिंवग्गे हिंणयाधम्मकहाओ सम्भत्ताओइति ज्ञातागंपष्ठं धर्मकथासमाप्तं ।

श्रीमहावीरदेवे' धर्मनीआदिनाकरणहारे' तांलगीजामोच्चपड्डंते' श्रीमहावीरे' धर्मकथानोश्रुतस्संधसंपूर्णे रथयोक्खे' दसेवर्गेकरी ज्ञा  
 ताधर्मकथासमाप्तयङ्के इतिश्रीज्ञाताधर्मकथानामात्रंगसंपूर्णथयो

ए पुस्तक छपवणेका कारण ये हे के सर्वजेन धर्मावलंबि साधसाध्वी आवकआविका के पढ़णेसे ज्ञानकी दृष्टी होगी इस  
 खातर ४५ आगमसूत्र और टीका और वालावनीधसहित ५०० पुस्तक छपाके ५०० टीकाने भंडार कीया इससे महान् ज्ञानका  
 दृष्टी होगी और पंडितजनोसे एही प्रार्थना हेके अच्छीतरसे पढेपढावे गुणेशुणावे जयणाकरके और दिनयकरके रखे और  
 यह श्रीसिद्धान्त पंचांगी प्रमाण संग्रहकीया और इससे चरमचतु करके भूलचक्र रहगया होय तो सिद्धासिद्धकडं देताळ और  
 श्रीसंघसे यह विनति हे की जीस वखत वाचे उस वखत जो भूलचक्र नीकसे तो पंडितजनोसे संसोधन कराव लेवे सेरेपर छपा  
 करके इस प्रार्थना अंगीकार करना और भंडारकरी भई पुस्तक कोइ खरीद करेनही करेतो २४का गुनेगार  
 संघका गुनागार होगा और सेरा परिचे के वास्ते अपना पूरव वंसावली लीखता ऊं पच्छिमदेशमे किसनगढके वासी प्रपिता  
 सह श्रीलश्रीयुक्त दुगडगोत्री दृड्याखा श्रीलश्रीवीरदासजी संवत् १८०२की सालसे पूरवदेशमे आए तत्पुत्र श्रीलश्रीयुक्त बुधसिंघ  
 जी तत्पुत्र श्रीलश्रीयुक्त प्रतापसिंघ जी चतुर्थ सहधर्मचारणिसीलालंकार विभुशित श्रीमहताव कुवरवीवीद्वादश व्रतधारिका  
 तत्पुत्र ललु श्रीरायधनपतसिंघ बहादुरने बडा परिश्रमसे संसोधन कराया हे और श्रीभगवान वीजैजीने संशोधन करा ।

सवत १६४३मिति आदो घुदी ।

आजीमगंज

राय धनपतसिंहवाहादुर ।

हाडियंपासदृत्ता एवंवयासीगएणंसे सागरएदारएत्तिकट्टु उहयमणसंकप्पाजावज्जिआयायंतितएणं  
 साभहासत्यवाहीकक्षंपाउ० दासचेडीसहावेइत्ताएवंवयासीगच्छहणंतुभंदेवाणुप्पियाबहुवरस्ससुह  
 धोवणियंउवणेहितएणंसादासचेडिभहाएसत्यवाहीएएवंवुत्तासमाणीएयमहुंतहत्तिप्रडिसुणेइत्ता  
 सुहधोवणियंणिएहइत्तानेणववासधरेतेणवउवागच्छइत्तासूकुमालियंदारियंजावज्जिआयमाणिंघा

माचाथकीउठेउठीने सागरपुत्रभरतारनी सगलेदिधिविदिशनेविषे मार्गनीजोवांनीगवेषणाप्रते करतीछतीवासवरनावार  
 रणांउवाडाप्रते देखेदेखीनेइसकहतीह्नु गयोतेसागरपुत्रभाहरोभरतारइसकहीने उत्तममनोरथहणाणोनिवृत्त्योक्केमनमाहि  
 संकल्पविकल्पआत्तध्यानहेठुं भूस्मिशाहसुजोतिगलहत्योदे इध्यावेछेसासाटेगयो साहरोवांककस्यो इमचिंतवीरोवेछेतिकारतेह  
 वेतेभद्रासार्थवाही कालिहरिजउग्यापछी दासीप्रतेतेडावितेडावीने इमकहतीह्नुजातुं हेदेवानुप्रिये बहुवरने सुखधोवानिम  
 त्तपाणीप्रतेआपिद्येतिवारीतेदासी भद्रासार्थवाहीइं धूणेप्रकारेकहतीछतीएअर्थप्रतेतहत्तिकारी अंगीकारकरअंगीकारकीने

सेइश्ता एवंवयासौकिस् तुमं देवाणुप्पि एउहयमणजावज्जियाहितए णंसासुभ्रुमालियादारियातंदा  
 सचेडियं एवंवयासौ एवंखुलु देवाणुप्पियासागरएद्वार एमसं सुहप्रसुत्तं जाणित्ताममपासाओउड्डे इश्ता  
 वासधरदुवारं अत्रगुणेइश्ताजावपडिगएतएणं अहं सुहत्तंतरस्स जावदारं विहाडियं पासासिमिगएणंसे

सुब्रवोवानाठामप्रते' लीयेलेइने' जिहवासधरच्छे तिहाअवेअवीने' सुभ्रुमालिकाकन्याप्रते' चिंताकरतीच्छतीप्रते' देखेदेखीने'  
 इमकहतीउइकिमतुं हे देवानुप्रिये मनसाहिंसकल्पविकल्पउपनोक्के अत्तध्यानरूपएहवोचिंतातुरच्छतीध्यावेक्के चिंतवेक्केतिवारितेसु  
 कुमालिकाकन्या तेदासीप्रते' इमकहतीहई इणेप्रकारे' निचेहे देवानुप्रिये सागरपुत्रसुभ्रने' सुखे' सुखीप्रते' जाणीने' माहरापासा  
 यकीउठीने' वासधरनावारणाप्रते' उवाडीने' खाटकीनाधरयकी सू' काणेच्छतोप्राणीजीवनसेतयालोधाना हायथकीकुटोच्छतोका  
 कपंखीनासीजाइ पाच्छिजुवेनहीतेही जनीपरिच्छाडीगवोमाहरोभत्तार तिवारपच्छीउ'वे घडीनेअतरेजागीच्छती अरहीपर  
 हीजीतीच्छतीवासधरनांवारणाउवाडाप्रते' देखुंजेगयोतिसागरमाहरोधणी इमकहीनेतेकारणयकी भलाउत्तममनोरथहणाणा

वरश्चवधूरंतस्यकुलाणु रूवंतिकुलोचितं वणिजांवाणिज्यमिवकुलसरिसंतिश्रीमद्वणिजांरत्नवाणिज्यमिवअदिदृदोसषडियंतिनदृष्टे उप

सागरएत्तिकदृ, उहयमणजावज्जियामितएणंसादासचेडीसुकुमालियाएदारियाएएयमडुंसोच्चजिणे  
वसागरदत्तेसत्यवाहेतेणेवउवागच्छइत्तासागरदत्तससयमडुंणिवेदेइतएणंसेसागरदत्तेदासचेडि  
एअंतिएएयमडुंसेच्चणिस्सअसुरत्तेपू जेणेवजिणदत्तससत्यवाहसस गिहेतेणेवउवागच्छइत्ता  
जिणदत्तंसत्यवाहं एवंवयासीकिणं देवाणुप्पिया एवंजुत्तंवापत्तंवाकुलाणुरूवंवा कुलसरिसंवाजस्यं

एहवाषणामनमांहिंसंकल्पविकल्प आर्तध्यानचिंतारूपयइहेठ, जोइचिंताकरेइमऊच्छूतिवारिसाते दासीसुकुमालिकावालिकाना  
सुखयकी एवात्प्रतेसांभलीने जिहांसागरदत्तसार्थवाहके तिहांआवेआवीने सागरदत्तसार्थवाहप्रते एसागरगयानोसमाचारक  
हेदासीतिवारितेसागरदत्तसार्थवाह दासीनापासायकीएअर्थप्रते सांभलीने हीयामांहिअवधारीने क्रोधाकुलययोछतो जिहांजि  
नदत्तसार्थवाहनोघरके तिहांआव्योआवीने जिनदत्तसार्थवाहप्रते इणंप्रकारे ओलंभादेतोडवो स्युंहे देवावुप्रियहे जिनदत्तइणंप्रका

लथस्वरूपेदोषिटूषणेपतितासमापन्नाअट्टदोषप्रतितानाखिज्जणियाहिंतिखेदक्रियाभिःरुं टनिकाभिःरुदितक्रियाभिःसरुप्रवायंवत्तिनि

सागरएदरए सूकुमालिग्रंदाखियंअदिडुदोषप्रहृवियं विषयजहायइहभागए वरूहिंखिज्जणियाहि  
यं टणियाहिहियउवालभंति तएणंजिणदत्ते सत्थवाहे सागरदत्तस्ससत्थवाहस्सएयमइं सोच्चाजेणेवसा  
गरएदरए तेणेवउवागच्छइत्ता सागरंदारयंएवंवयासी दुट्टुणंपुत्तातुमेकयं सागरदत्तस्स सत्थवा

रेंयुगतोमिल्लोययोपाम्योतुं कखोएतुमारकुलनें योग्येक्केवांणीयांनाव्यापारनीपरिएकामनहीलक्ष्मीवं तवाणीयाव्यापार नीपरीकु  
लसरिगुं एकामकीधुजेकारणयकीसागरपुत्रसुकुमालिकापुत्रीप्रतें अदिडुदोसक० नधीदीठोओलखीतोस्वरूपएहवादोषनेविषेदूषणपा  
सीएतलेयगदीठादूसगदेइस कुमालिकाप्रतें दोषनीदीठाविनाक्कोडीनें इहांतुमारिपासेआव्योक्खेवणी खेदथावानीक्रियाइं करीवणी  
रोवानीक्रियाइं करीकर्मनें उलंभादेतीक्खतीप्रवत्तेक्केवेठीक्खेतिवारिजिनदत्तसार्थवाहसागरदत्तसार्थवाहनामुखयकीएवातसंभलीनेंजि  
हासागरपुत्रक्खेतिहाअथिआवीनें सागरपुत्रप्रतेंइमकहतोइहोहेपुलतुमेतें दुट्टुं पांडुं कौधुं सागरदत्तसार्थवाहनावरयकीइहांज

ज्वलदेशे प्रपातं सत्यावाङ्मणं ति शस्त्रेणावपाटनं विदारणमात्मनेत्यर्थः गिद्धपट्टं ति गट्टम्रस्पृष्टं गट्टम्रैः स्पर्शनं कडे वराणां मध्ये निपत्य गट्टम्रै राल

हस्सगिहाओ इहहह्व्वसागएतेणंतगच्छहणं तुमंपुत्ताएवमविगए सागरदत्तस्ससत्थवाहस्सगिहितए  
णंसेसागरएजिणदत्तंसत्थवाहं एवंवथासीअविथाइं अहंताओगिरिपडणंवा तरुपडणंवासरुप्पवायं  
वाजलप्पवेसंवा जलणप्पवेसंवा विसभक्खणंवा वेहाणसंवासत्थवाडणंवा गिद्धपट्टंवापव्वज्जंवाविदे

तावलोआयोतेवारुकीधुंनहीतेणेकारणेतिहांजातुं हेपुत्रविलंवरहितच्छतो जिहंसागरदत्तसार्थवाहनोषरच्छेतिवारितेसागरपुत्रजिण  
दत्तसार्थवाहत्रतेइणेप्रकारिइं उत्तरदेतोऊवोअपिनिच्छेऊं हेतातगिरिपर्वतथकीपडूं पडिमरुं तरुं वृक्षथकीपडूं पडिमरुं मारवाडदेश  
नं विषेपडुं पांणीपाखेमरुं जलपांणोसांहिअत्रेशकरुं पांणीसांहिनूडीमरुं जलणआगिमांहिप्रवेशकरुं वलीमरुं विषखाउं विषखाइनेम  
रुं वेहाणसकलेवरसांहिपेसीमरुं शस्त्रे करीअवपाटनक० विदारुं चीरुं आत्माने गट्टम्रंखीएफ्रसनुं करिवुं कलेवराने मांहिपेसीने गट  
म्रंखीएआत्मानुं खविराविवुं तेकरुं प्रवज्ज्यादिद्वालेउं विदेशपरदेशजाउं चालुं पूर्विलापाच्छिलाबोलकह्यातिसगला अंगीकारकरुं

सगमणंवाअभुवगच्छे ज्जामिणोखलुअहंसागरदत्तस्सत्थवाहस्सगिहंगच्छे ज्जामितएणंसेसागर  
 दत्ते सत्थवाहेकुट्टुं तरिएसागरस्सएयमहुं णिसासेइलज्जिएविलेपविट्ठे विवजिणदत्तस्सगिहाओपडि  
 णिकवमइत्ताजेणेवसएगिहेतेणेवउवागच्छइत्तासुक्कामालियंदारियंसद्दवेइत्ताअंकेणिवेसेइत्ता  
 एवंवयासौकिणं तवपुत्तासागरएणंदारएणंसुक्काअहस्सं तुमंतस्सदाहामिजस्सखणंतुमं इट्ठाजावमणोरमा  
 भविस्सइत्तिसूक्कामालियंदारियंताहिंइट्ठाहिंजाववज्जहिंवगूहिंसमासासेइत्तापडिविस्सज्जेइत्तात

हेतातजीपणिखलुनिच्येहुं सागरदत्तसार्थवाहनावरमेजाउंनहीं सर्वथातिवारितेसागरदत्तसार्थवाह भौतिनाआतरानेविषेर  
 छोअतोसागरनाकह्यानो एसमाचारनोअर्थसाभलेसाभलीने लाजपास्योछतोविलदरमाहि मइठोह्हेत्तिसपाच्छेवली वटवालागो  
 पाच्छेवलीने जिनदत्तसार्थवाहनावरयकी नीसरनीसरीने जिहापोतानोघरछे तिहांआव्योआबीने सुक्कामालिकावालिंकापुत्तप्रते  
 तेडावेतेडावीनेखोलानेविपे वेसारेवेसारीनेइमपूच्छितोउओ किमतुक्कने हेपुलीसागरपुत्तेश्वंकीछाडी चिवेहंतुअप्रतेजेहनेदेउ



एणंसेसागरदत्ते सत्यवाहे अस्थयाउष्मिं आगासतलगंसि सुहृणिससुं रायमगं अवलोएमाणेरचिदु  
 इतएणंसागरदत्ते सत्यवाहे एगंमहंमगपुरिसंपासद्दं डखंडणिवसणंखंडगमसुगखंडघडगहृत्यगयं  
 मच्छियासहसेहिं जावअणिज्जमाणमगं तएणंसेसागरदत्ते सत्यवाहेकोडु वियपुरिसेसद्दावेइत्ता

जेहने तुं बालहीतांलगीजां मनोरंमवसुभ होइस्येथाएसिसुकुमालिकापुवीप्रते तेहीइं इष्टवालहीप्रमकारिणी तांलगीजांएहवीघणी  
 रवांणीएकरीभलीपरिआसनावासनादीयेदेइने प्रतिविसज्जेमोकलेमोकलीने तिवारपच्छीतेसागरदत्तसार्थवाह एकदाससे ऊपरि  
 आगासीने विषे सुखे सुखे समाधिवेठोक्ततोरजमार्गप्रते देखतोजोतोछतोरहेछे तिवारिसागरदत्तसार्थवाह एकमोटोद्रमकरांकपुरुषप्र  
 ते देखे तेकेहबोछे दांडीचकरीजनूलगडुसांध्याछे तेदांछियानाखंडकटकानोनिसनपहिरवुंछे जेरांकतुंखांडुभागुंमसुकमालो  
 कोडीयुंभागुंभीखलेवानुं पातठामडुं तथाखांडोषडोगाडूयो पाणीनोठांमएवेऊं ठामडा हाथनेविषेछेजेराकने माखीयानावण  
 वणाटनासहअहजारतेणेकरी तांलगीजांगम्यमानमार्गपाछलिचालतोछतोमार्गएतलेराकजाइतिहांयाछलिमाखीना समूहमार्गजा

एवं वयासौ तु भ्रंशं देवाणुष्पि यथा एयं दमगं पुरिसं विपुलेणं असणं प्राणं खाद्रमं साद्रमं पडिलोभे हस्ता  
 गिहं अणुष्पवेसे हस्ताखंडमस्रगं खंडघडगं च से एगं ति पाडे हस्ता अलंकारि यकम्भं करे हस्ता एहायं कयव  
 लि कम्भं जाव विभूस्त्रियं करे हस्ता मणुखं असणं प्राणं खाद्रमं साद्रमं भोयावे हस्ता ममं अंति यं उवणे हत ए

लिजाइत्रे प्राइं मलजो हीखरडी वस्तुमाग्नी एवीं टीये एहवो ते राकच्छे तिवारिते सागरदत्तसार्थवाह आदेशकारी पुरुषां प्रते ते डावेते  
 डानीने इमकहतो त्रओतुम्हे हे देवानुप्रियो एद्रमकराकपुरुषप्रते घणे अन्नपाणी खादिमस्वादिम च्यारप्रकारना आहारे करी प्रति  
 लाओआपो प्रति लाभीने आहारनो लोभदेखाडीने घरप्रते प्रवेशकरावो धरमाहिषालीने खाडकोडीयाप्रते खाडाघडाप्रते सेकह  
 तांति रांकनो एजातनाग्नीनाग्नीने अलंकारयकम्भं नावीने तेडावीने दाढीमुखं प्रमुखरो मराजी समरावोसुं डनोकरावो अंघोलिप्र  
 ते करारवो छतवलिकम्भं धरना देवनी पूजानाकर्मप्रते करो तालगीजां घणावळ्ळुम्वल्यवस्त्र आभरण अलंकार परिहारी विभूषितसोभा  
 यमानकरो पत्रे मनीजमनोरम अन्नादि च्यारप्रकारना आहारप्रते भोजनकरावो जिमाडोजिमाडीने माहरासमीपप्रते आणो इमस्ती

शंतेकोडुं विद्यपुरिसाजावपडिसुणेइरत्ता जेणेवसेदमगपुरिरुतेरेवउवागच्छइरत्तातंदमगंअसणं पाणं  
 खाइमंसाइमंडुअलोभतिसयंगिहं अणुअविसंतिरत्ता तंखंडमसुगंखंडघडयंतसुदमगपुरिससुएगंतै  
 पाडेइतएणंसेदमगपुरिसेतंसिखंडमसुगंसिखंडघडगंसिथपडिज्जमाणंसिमहयाइसहं एंअरसतितए  
 णंसेसागरदत्ते सत्थवाहे तसुदमगपुरिससुतंमहयाइअरसियसहं सुअणिस्सुतएणंसागरदत्तेको

खदीधीतिवारिते आदेशकारीपुरुषसागरदत्तनासुखथकी सांभलीनें हर्षसंतोषपास्याच्छता तेवातअंगीकारकरिअंगीकारकरीनें जि  
 हांतेद्रुमकराकपुरुषहे तिहांआव्याआवीनें तेद्रुमकराकपुरुषप्रते अन्नादिचारप्रकारनो आहारदेईलोभपमाडे लोभदेखाडीनें  
 पोतानाघरप्रते प्रवेशकरावेप्रवेशकरावीनें तेखांडाकोडियाप्रते खांडाघडाभागाघडाप्रते तेद्रुमकरांकपुरुषनांसगलाउपगरणअल  
 गाणकांतथानकनें विषपाडे नांखे तिवारितेद्रुमकरांकपुरुषतेखांडीशरावलुं अनें वलीखांडोषडोएवेहंपाल अलगासुं कावतेछतेमो  
 टे रसादें करी आरडे आरडाटप्रतेकरेहे तिवारितेसागरदत्तसार्थवाहद्रुमकरांकपुरुषनोतेमोटे रसादें करी आरडाटशब्दतेप्रतेसां

डुं वियपुरिसेसहावेइत्ता एवं वयासौ कियुं देवाणुं प्रिया एसदमगपुरिसे महया रसहे णं आरसाततएणं  
 तेकोडुं वियपुरिसातं सागरदत्तं सत्यवाहं एवं वयासौ एसणं सासौ तं सखंडमल्लगं सखंडघडयं सिपडिज्ज  
 माणं सिमहं थारं सहे णं आरसइतएणं से सागरदत्ते सत्यवाहिते कोडुं वियपुरिसं एवं वयासौ साणं तुभ्भे  
 देवाणुं प्रिया एयस्स इमगपुरिसस्व तं खंडगजावपाडिहपासेइवेह जहाणं पत्तियं भवइते वितहे वडुवेइरं

भलीनें चियामाहिअवधारीनें तिवारिसागरदत्तसार्थवाह आदेशकारीपुरुषांप्रते तेषावेतेडावीनें इणंप्रकारिंपूच्छितोह्योकिमहे  
 देवानुप्रिय एद्रमकपुरपराकपुरपमोटे र सादेकरीआरडेक्केरोइक्केइमपूच्छो तिवारिवलतुं तेआदेशकारीपुरुष तेसागरदत्तसार्थवाह  
 प्रतेइमकुरुताहमाएस्वामी तेखाडोयरावलुं अनें वलीभागो खाडोषडोअलगोअं कावेडुतेच्छते मोटे रसादेकरी आरडेक्केरोइक्केति  
 वारपच्छीतेसागरदत्तसार्थवाह तेआदेशकारीपुरुषांप्रते इमसीखामणदेतोह्यो माइतिनिषेधेतुहं हे देवानुप्रियो एद्रमकपुरपरां क  
 पुरपनो तेभागोयरावलुं भागोगागरोअलगोएकातपाडोमाठामडोअलगोमेलोमासेतेरांकनापासाने विषेथापोराखोजिमतेराकने

त्ता तस्यदमगस्यपुरिसस्य अलंकारियकर्म करेइत्ता सथपागसहस्रपागेहितेह्येहिं अभिभंगेइअ  
 भिभंगिएसमाणे सुरभिणागंधुव्वट्टणएणंगायंउबट्टंति उसिणोदगगंधोदगेणंरहातिसीओदगेणंरहा  
 णेइत्तापरहलसुकुमालएगंधकासाईए गाथाइंलूहेइत्ताहंसलक्खणपडसाडगंपरिहिंतिइत्तासव्वा  
 लंकारविभूसिंयंकरेइत्ताविपुलंअसणं पाणंखाइंसंसाइंसं भोयावेइत्तासागरदत्तस्यसत्थवाहस्यउव

प्रीतऊईशरावलूंगागरं देखिवेकरी पछेतेपुरुषअदेशकारीतिमजकरी थापेसरावलुं भागोषडोतेरांकने पासेसू'केसू'कीनें तेद्रमक  
 पुरुषरांकपुरुषनासरीरनें अलंकारियकर्म दाढिसू'कसमराविवानुं कर्मनाइवेदनाकामप्रतेकरावेकरावीनें सतपाकसहस्रपाक  
 तेलेकरीचोपडणकरे'तेलेकरीमईनकरतोछतो सुरभिगंधसुगंधगंधेकरी उवट्टणोउवट्टणुं पीठीमईनें करी गालशरीरप्रते'उगटणुं क  
 रेकरीनें उन्होपाणीगंधोदकसुगंधपांणी तेणेकरीअंधोलिकराविकरावीनें शीतोदकेनताडे पाणीइं अंधोलिकरेअंधोलिकरीनें परहल  
 पच्छवंतपुं भावंतसुकुमालसुकोमल एहवीगंधकाषाईरातीसाडीइते'णंकरी गालशरीरप्रते'लूहेलूहीने हंसलक्षणहंसरूपधोला

णेद्रतएणंसेसागरदत्ते सत्यवाहेसुकुमालियंदारियंणहायं जावसब्बालंकारविभूसियंकरेत्तातंदमगपु  
रिसंएवंवयासीएसणंदेवाणुप्पिया समधूयाइडाएयणंअहंतव भारियत्ताएदत्तामि भद्वियाएभहभवे  
ज्जामितएणंसेदमगपुरिसिसागरदत्तस्स सत्यवाहस्सएयमइं पडिसुणेइत्ता सुकुमालियाएदारियाएस

पटयस्त्रप्रतें पहिरावेपहिरावीनें सगलाअभरणअलंकारपहिरावी विभूषितसोभायमानप्रतें करवेकरावीनें विपुलघणोमनो  
रसअन्नादिच्यारप्रकारनो आहारजिमाडेजीमाडीनें सागरदत्तसार्थवाहनें आणीअपे तिवारितेसागरदत्तसार्थवाह सुकुमालि  
कापुवीप्रतें अंधोलिकीधीप्रतें तालगीजामपी तिलककरीअशुभनिवारीभलावस्त्राभरण अलंकारपहिरावीसिणगारीघणुं सोभा  
मानप्रतें करीनें तेराकभिल्लारीपुरुषप्रतें इमकहतोऊवोएआहे देवानुप्रिय माहरीवेटीछेसुमनें घणुं वावहीछे एपुतीऊं तुअनें स्त्री  
पणे देउं पुं परगाउं कुं भद्रिकानें भद्रकल्याणहोस्ये एतलेकल्याणयास्ये तिवारिद्रमकपुरुषराकपुण्य सागरदत्तसार्थवाहनोएवच  
नकहणप्रतें अंगीकारकरेअंगीकारकरीनें सुकुमालिकावालिकासंघातेवासघरमाधिपइसेपेसीनें सुकुमालिकावालिकासंघातें मा

द्विवासवरं अणुपविसद् सुकुमालियाएदारियाएसेद्धिं तलिमंसिणिवज्जइतएणंसेदमगपुरिसिसुकुमा  
 लियादारियाएसेद्धिं इमेयारुवं अंगकासंपडिसवेइ सेसंजहासागरस जावसयणिज्जाओअभुइइइ  
 तावासवराओणिण्णच्छइइत्ताखंडमल्लगंखंडघडगंचगहायमारसुक्केविवकागएजासेवदिसिंपाउरभूए

चाच्छपरखाटनेविषे छइ तिवारितेद्रमकपुरषरांकपुरष तेसुकुमालिकावालिकासंघातें सुतोच्छतो एहवोअंगशरीरनाफरिसप्रतें जाणे  
 लागवीयेशेषथाकतुं जिमसागरपुतनें यशुं तिमराकपणिययोतिवारिसागरपुतनीपरि अणवोल्पोउठीनेरांकभिखारी सुकुमालिका  
 सुखे सुतोजाणीनें सुयाथकीउठेउठीनें वासवरमांहियकीवाहिरनीसरेनीसरीने खंडोशरावकुं भिख्यामागीपालिवानुं पातएवेहं  
 ठामप्रतेलेइनें मारीयेछे जीवांनें जेखाटकीनाघरनें विषे तेमाराजीवनावंधवानाथानकथकी सुं काणोच्छूटोजेतेजीवनासेपाछोवली  
 जोवेनहीअथवामारकह० मरणमरवाथकीछूटोअथवा मरणहारालोधीवाघरीनाहाथथकीसुं काणोछेतोकाकनासीजाई पाछोफि  
 रिजीवेनहौं तिमरांकपुरषसुकुमालिकानापासाथकी छूटोछतोजेणीदियिथकीआव्योहंतो तेणिजदियिपाछोगयो पाछोवलोसाह

ताभेवदिसिंपडिगए तएणंसासुकुमालियादारिया जावगएणंसेदमगपुरिसेत्तिकइ, उहयमणजाव  
 तिकवायइतएणंसाभडा कळुंपाउभभूयादास चेडिसइविइइत्ता जावसागरदत्तस्ससत्यत्राहस्सएयम  
 इंणिवेदेइ तएणंसेसागरदत्ते सत्यवाहि तहेवसंभंतेसमाणे जेणैववासघरेतेणैवउवागच्छइत्तासुकु

मुंजोयोनीही तिवारपच्छीसुकुमालिकावेवडीनें आतरैजागीच्छतीजाणेंजे जठीगयोतेद्रमकराकपुरघ इमकहीनें उत्तमभलामनो  
 रयहणागोनिटत्योत्रे आर्त्तध्यानरूपमनमाहिं संकल्पविकल्प चिंतवती हेठोधरतीसाहसुं सुखकरी आर्त्तध्यानचिंतवतीर हेच्छेतिवार  
 पश्रीतेभद्रासार्थवाहीकालिसूरिजळया पच्छीदासीप्रते तेडावैतेडावीनें वहवरनें सुखधोवानिमत्तपांणीलेई सोकलेतेदासीतिहांग  
 ईदेणुतोतिमजरीतीच्छतीचिंतवेच्छे तिवारितेरांकगयानोसमाचारजाणी तिमजसागरदत्तसार्थवाहनें एरांकपुरघनोसमाचारक  
 हेतिमारितेसागरदत्तसार्थवाह तिमजआकुलव्याकुलययो संभ्रातपणुं पास्योच्छतोउठीनें जिहांवासघरच्छेतिहांआवेआवीने सुकुमा  
 लिकापुवीप्रते अंरुवोलानेविषेविसारेविसारीनें इमकहतोह्वोचहोतुं हेपुवी पुरापुआण्णपुराणपुरागयाजा



नोभक्षणमित्यर्थः अन्वु वगच्छेज्जाभितिअभ्युपैति पुरापुराणाणामित्यत्र यावत्कारणादेवंद्रष्टव्यं दुश्चिखाणं दुष्प्रडिक्त्वां ताणं कडाणं पावाणं कस्माणं पावगं फलवित्तिविसेसंतिअयमर्थः पुरापुर्वभवेपुराणानामतीतकालभाविनां तथादुश्चीर्षं दुश्चरितं ऋषावादनपारदार्यादितद्वै तुकानिकर्माख्यपिदुश्चीर्षां निव्यपदिश्यंते अतस्त्रोषामेवंदुःपराक्रांतं प्राणिघातादत्तापहारादिद्वितानां प्रकृत्यादिभेदेनपुराशब्दस्यैहसं बंधः प्रापानामपुण्यरूपाणां कर्मणां ज्ञानावरणादीनां पापकर्म अशुभं फलवृत्तिविशेषं लदभवत्तं नभेदं प्रत्यनुभवंती विहरसिवत्तं सेकप्र

सालिग्रं दारिद्र्यं अकिणिवेसेद्दत्ता एवंत्रयासीअहोणंतुमंपुत्ता पुरापुराणां जावपच्चणुभभवमाणीविह  
रसितं माणंतुमंपुत्ता उहयमणजावजिक्याहि तुमंणंपुत्तामममाहणसंसि विपुलं असणं प्राणं खाद्रमं

कालनाकीघाहिंसातथाऋषावाद अदत्तादानपरस्त्रीआदितेहनासेविवायकी दुश्चीर्षपाडुयांकीघाजेकर्मपापकारी अपुण्यरूपकर्मज्ञा नावरणादिकर्मानुं पापकर्म अशुभफलवृत्तिविशेष उदयवर्तवानाभेदप्रतेअनुभोगवतीकृतीविचरेच्छेहं स्युं कर्षं तेकारणयकीहेपुलीतुं म नसाहिअर्त्तध्यानसंकल्पविकल्प चिंतवेमांदुःखमकारितुं हेपुली माहरीदानशालानेविषे माहरादानदेवानाघरनेविषे विपुलघ

साइसं जहापोद्विलाजावपरिभाएमाणी विहराहितएणंसा सुकुमालियादारियाएथमड्डं पडिसुणे  
 इरत्ता महाणसंसिविपुलं असणं पाणंखाइसंसाइसंजावदलमाणीइविहरइ तैणंकालिणं तैणंसमएणं  
 गोवालियाओअज्जाओ वड्डसुयाओएवंजहेवते यलियाए सुव्वयाओतहेवसमोसड्डाओतहेदसंधाड  
 ओजावणिहं अणुपविडोतहेवजाव सुकुमालियापडिलाभेइरत्ताएवंवयासीएवंखलुअज्जाओअइसाग

गोअन्नपाणीग्वादिस्खादिस आहारनीपजावीने जिमपोद्विलादीधो तिमच्यारप्रकारनोआहारविहची आपतीच्छतीविचरेइमक  
 च्छुंतिवारितेसुकुमालिकापुती एपितानावचनप्रते अंगीकारकरेअंगीकारकरीने दानथालादानदेवानाघरनेविषे विपुलविसीरणंष  
 गोअन्नपाणीग्वादिसखादिस च्यारप्रकारनोआहारनीपजावीने अतिथियोगीपरिज्वाजिकादिसगलां भणीदेतीच्छतीविचरेच्छेसुखे  
 समाधिंरहेत्ते तेकालतेसमचनेविषे गोपालिकानामाअर्यासाध्वी घणापरिवारसहितइणंप्रकारिं जिमतेतलिमंतीनान्यायनें विषे  
 सुव्रतासाध्वीअवीउतरीच्छे तिमजअवीनें समोसरीच्छे तथातिमजसंधाडोसाध्वीनो विहरवागयोऊं चनीचमध्यमचरे परिअमणक

रसद्वारगस्यअणिद्धा जावअमणामाणेच्छइ णंसागरदारए ममणामंवाजावपरिभोगं वाजस्यवियणं  
दिज्जामितस्सइ वियणंअणिद्धा जावअमणामाभवामि तुभमेयणं अज्जाओवहुणायाम्मो एवंजहापो  
ट्टिलाजावउवलइ जेणंअहंसागरदारगस्य इड्डाकंताजावभवेज्जामि अज्जाओतहेवभणंतिहवेवसा

रतांरसुकुमालिकानाघरप्रते' प्रवेशकीधंपेठोतिमजपोट्टिलानीपरितालगीजा सुकुमालिकाप्रतिलाभीने' इणेंप्रकारे' पच्छतीहइइणेंप्र  
कारेनिच्चैअहोआर्याओउंसागरपुत्र भत्तीरने' अनिट्ठुंअलखामणीथइइं तालगीजाअमनोरमथइइं इच्छेनहींवांछेनहींसागरपु  
त्रभत्तीरमाहबं'नांसमाहबं दरसणसुकुसंधाते' परिभोगभोगवांछेनचौं जेहने'माहबं'शरीरदेजं'आपुं तेहने'पणिउं'इचि  
नहींअनिट्ठअलखामणी पाड् ईलागुं'हुं'तांलगीजांआमणीसाधणुं अलखामणीएमानभागोउं' तुम्हे हेआर्याओषणाशास्त्रनीजां  
णच्छोइमपाच्छलिजिमपोट्टिलाइं' पृच्छोंछे' तिमजपृच्छो'तुमेकोईसंतयंत्वादि आन्नायपास्योछे जेणेकारणेकरीउं' सागरपुत्रदारक  
नेइट्टकातसमेरमथाउं' तांलगीजांधणुं' सोभावतीसहने'मानवायोग्यथाउं' पछेआर्यासाधवीओतिमजपोट्टिला आगलिकत्थुं'तेवा

विद्याजायात हेवचिंतात हेवसागरदत्तं सत्यवाहं आपुच्छइत्ताजावगोवालियाणं अज्जाणं अंतियंपव्वइ  
 यातएणं सासुकुमालिया अज्जाजायाइरियासमियाजावगुत्तवंभयारिणीवज्जहिं चउत्थच्छइमजावविह  
 रंतितएणं सासुकुमालिया अज्जाअखयाकयाइं जेणेवगोपालियाओ अज्जाओतेणेवउवागच्छइत्तावं  
 दइणं सइत्ताएवंवयासौइच्छामिणं अज्जातुम्हेहिं अभणुस्यायासमाणीचंपाएणयरीएवाहिं सुभूमि

हेजेअम्हे संत्वादिक्काईसांभलुंनहींतोकरीयेकिहांथीअम्हे सहितदयाखलधर्मं प्ररूपीयेछे पछेतिमजपोटिलानीपरिधर्मंसाभलीनें सुकु  
 मालिकायाविकायई वारव्रतधारिणीथई तिमजदिख्यालेवानीचिंतामनमाहेधरी पोटिलानीपरितघातिमज पोटिलानीपरिइहां  
 सागरदत्तसार्थवाहप्रतें पूछेपछीनें आज्ञालेईनें आडंबरघणासहितगोपालिका साधवीनासमीपप्रतें दिक्षावीवीतिवारपछीतेसुकु  
 मालिकाआर्यासाध्वीथइ इयींसमितिइं समित्तिवतीथई पाचसुमतिविण्णुपतिनीधरणहारीथई तालगीजांगुप्तब्रह्मचारिणीब्रह्म  
 व्रतनीधरणहारीथई घणाचउत्थच्छइमादितपअंगीकारकरीनें विचरेछे तिवारितेसुकुमालिकाआर्या एकदाप्रस्तावेजिहांगोपालिका

इयं अहं इत्यादि अहंति अस्माकं मते प्रवृजिताया इति गम्यते अंतर्मध्ये उपाश्रयस्य वसतेर्त्तिपरिचिप्रस्य परेपामना लोकनत इत्यर्थः

भागस्य उज्जाणस्य अदूरसामंतेणं छट्टेणं अग्निखित्तेणं तवोकर्मणं सुराभिमुही आया विमाणौ विहरित्त एत एणंताओ गोवालियाओ अज्जाओ सुकुमालियं अज्जं एवंवयासी अग्हेणं अज्जो समणो ओणिणं गंधौओ इरियासमियाओ जावगुत्तवंभयारिणीओ णोखलु अग्हेणं कप्पइ बहियागामस्यवा जावससिणि

आर्यासाध्वीछेतिहाआवीआवीनेवांहे नमस्कारकरेनमस्कारकरीने इमपूछतीहइवांछुंछुं हेआर्ये तुम्हारीआन्नापापनीछतीचंपा नगरीनेवाहिरसुभमिभागउद्यानवनखंडनेविषेअतिघणुंवेगलुंनहींघणुंढूकडुंनहींछट्टेवैउपवासआंतरारहितएहवातपनेकरेकरीसूरिजनेसाहमीसन्मुख आतापनाकरिवाभणीप्रवर्तुंतिवारितेगोपालिकाआर्यासाध्वीसूकुमालिकाआर्यासाध्वीप्रतेइमसीखामणदेतीहइ आपणआर्यासाध्वीओनिग्रंथिनीछांइर्यासमितिआदिदेईपाचसमितिनीधरणहारीछांतांलगीजांवल्लवतनीधरणहारीछानिचेअम्हारासतनेविषेदीक्षातीवांपछेकल्पेनहींवाहिरगामनेरहिवुंनहींनगरनेवाहिररहिवुंनहींतांलगीजांयन्निवेशने

संघाटीनिग्रंथिकाप्रच्छदविशेषः सावहानिवेशिताकायेद्विगम्यते यथासासंघाटीवद्विकातस्याणमित्यलंकारे समतलेद्वयोरपिभुवि विन्यस्तात्पादेपादौघस्याःसा समतलपदिकातस्याःआतापचितुं आतापनाकर्तुं कल्पतइतियोगः ललित्यत्तिक्रीडाप्रधानागोष्ठिति

वेसस्वच्छदं छद्द्रेणं जावविहरित्तएकप्पद्रुणंअरुहंअंतो उवस्वयस्ववत्तिपरिक्खत्तस्स संघाडिवद्विया एणंसमतलपद्दयाएआयावेत्तए तएणंसासुकुमालिया अजजागोवालियाए अजजाएयमड्डंणोसद्दहइ

नाच्चिरिज्जेनें रहिवुंनहींअट्टअट्टवेवेउपवासआतरारहिततपनेंकरिवें करी विचरवाभणीप्रवर्त्तवुं नहींकल्पे अरुहारामतनेंविषेदिच्चा लीधीसाधवीथानें उपाययनेंअंतोअंतमध्ये उपासरानें साहिरहिवो तेकेहवोक्खेवतिकहतावाडेकरी परिक्खत्तवीथीक्खेढाक्खोक्खेउपा अयअनेरावीजालोकानेअणदेखवायकी संघाडीक० साधवीनोपरिवारतेवाधीक्खे थापीक्खेजेणीइतेसंघाडिवद्विकाकहीथे एतलेसंघाडा नइसाध्वीथामाहि रहिवुं तेहनें समतलवेळं पगभूमिनेंविषे थापवापणायकीपगक्खेजेसाध्वीना तेहनें आतापनाकरिवाभणीकल्पे अन्यथाकल्पेनहीतिवारितेसुकुमालिकाअर्थीसाध्वीगोपालिकाअर्थीसाधवीना एवचनप्रतें सद्दहेनहींमानेनहींप्रतीतनकरेरोचवेन

शोपत्तिद्वयोरोवेद्वैद्यमङ्गं असद्वहमाणेअप्रत्तियमाणे सुभूमिभागस्सुज्जाणस्स अदूरसामंतेच्छ  
 वृंछद्वेणंजावविहरद्द तत्थयणंचंपाएणयरीए ललियणामंगोद्वीपरिवसंतिणरवद्दिस्सुवियाराअन्मा  
 पिद्विणिययणिप्पिवासा वेसविहारकयणिकेया णाणाविह अविणययप्पहाणा अड्डाजावअपरिभूयात

हींएगुण्णीनावचनप्रते अणसद्वहतीच्छतीअप्रतीतकरतीच्छती अरोचतीच्छतीसुभूमिभाग उद्यानवनखंडनेंघणुंवेगलुंनहींघणुंढ  
 कडुंनहींतिहाजइनेंछट्टरवेवेउपवासकरी आतापनाप्रतेंकरतीच्छतीविचरेच्छे तिहांचंपानगरीनेविषे ललितनामागोठिलवसेच्छे  
 लितकीडारामतिप्रधानरामति विनोदनाकरणहारगोठीक० जनलोकनोसमूहविशेषएहवा घणालोकएकठामिलेच्छे क्रीडानिमि  
 त्तलेलितगोठीकहिंयेतेकेहवीछे नरपतिराजाइंदिन्ददीधीछेआन्नाकामकीडाकरवानीजेहनें बलीतेकेहवीछेमातापितानिजकस्स  
 जनसंबंधीसास्सुसरानीनिरपेक्षा वांछारहितछेएतलेमातापितानी लाजगणतीनथीवलीतेगोठीकेहवीछे वेस्यागणिकानाविहार  
 क०घरांनेंविषेकतकीधोछे निकेतक०निवासरहिवुंजेणीगोठिइं वलीतेकेहवीगोठिछेनानाविधघणाप्रकारनो जेअविनयअधर्मतेणेक

त्थरुं चंपाएणयरीए देवदत्ताएणामंगणियाहोत्या सुकुमालाजहाअंडणाए तएणतीसिललियएगोड्डी  
 एअस्सयाकयाइ'पंचगोड्डिलगपुरिसा देवदत्ताएगणियाएसद्धिं सुभूमिभागस्स उज्जाणिसिरिंपच्चणु  
 भभवमाणाविहरइ तत्थरणंएगेगोड्डिल्लपुरिसे देवदत्तंगणियाअंडच्छं'गेधरेइ एगेपुरिसेपिड्डुओ आयच्छ

रीप्रधानच्छेजगोठी षणुं ऋद्धिवंतीच्छेतांलग्गीजाषणुं ऋद्धिवतीच्छे कोइपराभवीसकेनहींएहवीच्छे तिहाचंपाननरीनेविषे देवदत्तानामा  
 गणिकावेथ्याऊं तीतेकेहवीच्छे सुकुमालच्छेजिमजेणप्रकारे'तजा अध्ययनमाहिअंडन्यायनें विषे वेथ्यावर्णवीच्छेतेकेहवीच्छे तिवारितेल  
 लितप्रधानगोठीनेलोकनासम्हने' एकदासमे' पाचगोडिलपुरुष देवदत्तानामागणिकावेथ्यासंवाते' सुभूमिभागनामाउद्याननीसि  
 रिअीलक्षीप्रते' अनुभवताभोगवताच्छताविचरेच्छे तिहांतेपाचपुरुषमाहिलो एकगोडिलपुरुषदेवदत्तागणिकाप्रते' उत्तंगखोलानेविषे  
 धरेवेसारेतेपांचमाहिलोएकपुरुषपुठियकी गणिकाने' पाच्छलिअतपत्तच्छत्वधरेच्छे एकपुरुषगणिकानामाधाने' विषे पुण्णपूरणफूलानो  
 शेखरंशेहरोरचेच्छेकरेच्छे एकपुरुषगणिकानावेहंपगप्रते' अलतादिकेकरीरंगेच्छेरंगलगवेच्छे एकपुरुषगणिकाजपरिचामरनोउखेववो



जनस्यसमुदायविशेषः नरवद्दृष्टिपयारित्तिदृष्टानुज्ञातकामचारा अस्मापिद्विनिययनिष्क्रियासत्ति मात्रादिनिरपेक्षावैसविहारकय  
निकेयत्तिवैश्याविहारेषु वैश्यामंदिरेषुद्वतोनिकेतोनिवासोयथासातथा नाणाविहृअविण्ययप्पहाणा कंठ्यं पुष्पपरुणं रएइतिपुष्पये  
खरं करोतिपाएरएइत्तिपादावलक्तकादिनारंजयति पाठांतरेरोवेइत्तिदृष्टतजलाभ्यामादयति सरीरवाउसियंतिवह्यःशबलचारितः

त्तंधरेइएगेपुरिसेपुष्पपूरियंरयद् एगेपुरिसेपथिरयए एगेपुरिसेचामरुखेवंकरेइतएणंसासुकुमालि  
याअज्जा देवदत्तंगणियंतेहिंपंचहिं गोडुल्लपुरिसेहिंसद्धिं उरालिहिंमाणुस्वगादं भोगभोगादं भुं  
जमाणीपासइत्ता इमेयारूवेअज्जत्थिएचिंतिएप्रत्थिएमणोगएसंकप्पे समुष्पज्जित्याअहोणंइमा

वींभवोकरेच्छे पाठांतरेधीपाणीएकठाकरी चउलोक्खेमसलेच्छेपगेलाजरहिताच्छता क्रीड़ाविनोदकरेच्छे तिवारितेसुकुमालिकाअर्थीसा  
धवीदेवदत्तागणिकाप्रले तेषांचगोट्टिलपुरुषासंघाते उदारप्रधानकारीएमनुष्यने भोगविवायोग्यएहवामनुष्यसंबंधीयाभोगप्रतेभोगव  
तीदेखेदेखीने एहवोआत्माने विषेरह्यो बाहिरअणप्रकाशोचिंतिारूपमनमांहि रह्योएहवोसंकल्पविकल्पजपजे अहोएस्त्रीपुरापाच्छि

इत्थियापुरापोराणांजावविहरइ तंजइणंसेइमस्ससुचरियस्सतवणियमवंभचेरवासस्सकस्साणेफ़ल  
 वित्तिविसेसेअत्थितोणंअहमविआगमिस्सेणं भवग्गहणेणंइमेयाख्खाइउरालाइंसाएुस्सगाइंजाव  
 विहरेज्जाभित्तिक्कइ, णियाणंकरेइइत्ताआयावणभूमौएपच्चोरुहइतएणंसासुडुमालिया अज्जासरीर  
 पाउसियाजायायाविहोत्था अभिक्खणंइ हत्थेधोवइअभिक्खणंइ पाएधोवेइअभिक्खणंइ सीसंधोवइ

ल्याभवानांकीधाउपारज्यांपोराणाणं गयाकालनापुण्यरूपकर्मतेपोतानाकीषा पुण्यतेभोगवतीछतीविचरेछे मेकाइपुन्यकीधानहीं  
 तेकारणयकीजोकाई एआप्रत्यज्जचारित्तनोतपनियमव्रह्मचर्यनो कल्याणकारीफलनीष्टित्तिविशेषछे तोळ्ळंअपिनिचे आगाभिकञ्जा  
 वताभवनें ग्रहणेकरी एतले आवतेभवे जिहां अतवरुंजपजुं तिहां एहवागणिकानासरिखाउदार प्रधानकारौवासबुध्यसंबंधीयापु  
 ण्यवंतमबुध्यने भोगविवायोग्य एहवाभोगप्रते भोगवतीछतीविचरुं इमकहीने नीयाणाप्रते करेकरीने आतपनाकरिवानीभूमिय  
 कीपाछीवलेपाछीवलीआवे तिवारपच्छीतिसुकुमालिकानाना आर्यासाधवीसरीरपाउसियाथई वक्रुयक०कावरोचारित्तययोतेशवल

सचशरीरतल्पकरणतः चेत्युक्तं शरीरवकुशानद्विभूषासुवर्त्तिनीति ठाणं तिकायोत्सर्गस्थानं निषदनस्थानं वाशयांत्वगवर्त्तनं नैषेधिकीखा

अभिक्खणं सुहंधोवद्द थणंतराद्दधोवेद्द अभिक्खणं कक्खं तराद्द धोवेद्द अभिक्खणं सुउभंतराद्द धो  
वेद्दं जत्थणं ठाणं वासिज्जं वा णिसिंहियं वा चेद्द तत्थ वियणं पुव्वामेव उदणं अभ्भुक्खत्ता तत्रोपच्छा  
ठाणं वाद्द चेद्द तएणं ताओगोवालियाओ अज्जाओ सुकुमालियं अज्जं एवं वयासी एवं खलु अज्जं अ

चारित्वथकीवलीउपकरणथकी थयोशरीरनेविषेविभूषासोभानीकरणहारीथद्द तेकेह्वीथद्द तेकहेक्के वारं वारं रहाथधोविवारं वारं र  
पगधोविवारं वारं वारं सुखधोवे वारं वारं रसनांतरथणानाओंतराप्रते धोविवारं वारं वारं काखानाओंतराप्रते धोविवारं वारं रयोनीथानकना  
ओंतराप्रते धोवे जिहांकाउसगकरिवानोथानक अथवाविसिवानोठामथयासुद्दवानो ठामतेप्रते नैषेधिकीसक्काद्दकरिवानी भमिध  
रतीतेप्रते करे तिहांतेठामने विषेनिच्च प्रथमपहिंलुं उदकेनपाणीद्द करी अब्भू खेद्द देद्दं छांठीने तिवारपच्छीकाउसगकरेवेसेसुद्दस  
ज्जाद्दकरेतिवारितेगोपालिकासाधवी सुकुमालिकाआर्यासाधवीप्रते इणेप्रकारं सीखामणदेतीद्द इणं प्रकारं खलुनिच्चहेआर्येआ

ध्यायभूमिंचितयतिक्ररोति आलोएहिजावेत्यतयावत्करणात् निंदाहिरिहाहियडिकमाहि विउट्टाहिविसोहेहिअकरण्याएअम्

इहेसमणीओणिगंग्दीओ इरियासमियाओ जावंबभचेरधारिणीओ णोखलुकप्पइ अमहंसरीरपाउ  
सियाएहोत्तएतुसंचणं अज्जेसरीरपाउसियाअभिकखणंअत्येधोवेसिजावचेएसितंतुसंणंदेवाणुप्पि  
याएयस्सठाणस्सआलोएहि जावपडिवज्जाहि तएणंसुत्तुमालियाअज्जागोवालियाणं अज्जाणंअंतिए

पणअमणीओनिग्रंथिनीओक्कीये निग्रंथनीओक्कीयेइर्यासमिति आदिदेइपाचसुसतिनीधरणहारीओक्खा ब्रह्मव्रतनीधरणहारी  
क्कीयेखलुनिचेअमारामतनेविषे दिख्यालीधाने शरीरनीसोभाकरिवाभणी कल्पे नहींशरीरनीसोभाकरवीनहीं अने वलीतुं हेआ  
र्यशरीरनीसुअषासोभाकरेहे वारंवाररहाथपगप्रसुखसनातरकक्षा तरयोनिनाआतराएसर्वधोवे जिहाकाउसगकरिवानोठांसवेस  
वानोठांसक्केसुइवानोठामसज्जाइकरवानो ठामतेसर्वठामप्रथमपाणीइधरतीक्खाटीने तुं काउसगकरेहेवेसेक्केसुइक्केसज्जाइकरेहे ते  
कारणथकीतुं हेदेवानुप्रियेहेअर्थे तेषानकने आलोइसुएइ आगलिकहे गर्हाकरिपच्चातापगरहिगुरुनिसाखिं निंदिमिच्छामिदु

हे हि अहारिहंतवोकम्पं पावच्छित्तं पडिवज्जाहित्तिहस्यमितितवालोचनं गुरोर्निवेदनं निंदनं पञ्चात्तापो गहंणं गुरुसमत्वं निंदनमेव  
प्रतिक्रमणं मिथ्यादुःकृतदानलक्षणं अकृत्यान्निवर्तनं वा वितो टनं अनुबंधच्छेदनं विशेषनं ब्रतानां पुनर्नवीकरणं शेषकंथमिति पाडि

एथमद्वंसुच्चारणो अटाइरणो परिजाणइ अणाटाइसाणा अपरिजाणसाणा विहरइतएणंताओ अज्जाओ  
सुकुमालियं अज्जं अभिक्खणं हेहीलेइजावपरिभवंति अभिक्खणं इएथमद्वंसुक्खिवा रेइतएणंतीसे सुकुमालि  
याएअज्जाएसमणो हिंणगंधीहिं हिलिज्जसाणो एजाववारिज्जसाणो एइसेयारूवेअउक्कत्थिएचंति

कडुंथे अकार्यथकी निवर्त्ति अनुबंधच्छेदियितो डिशो धिव्रताने वलीनवां करिअणकरे करी उठियथा योग्यतपने करवे करी प्रायच्छित्ततप  
पडिवजे आदरिइसकत्थुंति वारिते सुकुमालिकासाध्वी गोपालिकानामासाधवीनासमीपने विषे एवचनसाधुना आचारनोसां भव्योते  
प्रते आदरे नहीमाने नहीजाणे नही मनसुंओ लखे नहीते गुरुणीना वचनप्रते अणमानती छती अणआदरती अणजाणती विचरेच्छेति  
वारपच्छीते साधवीओ सुकुमालिकासाधवीप्रते वारंवारहीलेतां लगीजांपराभवकरे वारंवारइमअनाचीरणे करिबुं निवारिते वारिते

एप्रथिएमणोगएसंकप्पे समुप्पज्जित्थाजयाणं अहंआगारमउक्केवसामितयाणं अहं अप्रवसाजयाणं अहं  
सुं डापव्वइयातयाणं अहंपरवसा पुब्बिंचणंमसमणीओ आढं तिइयाणिं पिणे आढं तितं सेयं खलु मम  
कल्लंपाउभूयागोवालियाणं अज्जाणं अंतियाओ प्रडिणिक्वमइत्ता प्राडिएक्कं उवसयं उवरुं पज्जित्ताणं वि

सुकुमालिकासाधवीने अमणीए निग्रथिनी एसाधवी एही लती छतीने खिसी तिच्छतीने वारी तिच्छतीने एहवो आत्माने विषे अथवसा  
यसनमाहिसंकल्पविकल्पउपजे जिवारिऊं घरेने माहिवसती रहती तिवारिऊं पोताने वशवर्त्ती ऊं ती जिवारिऊं सुं उयई दिचाली  
धीतिवारपक्कीऊं परवशियईच्छुं तथावली गृहस्थावासमां हिऊं ती तिवारियुब्बिप्रथमपहिलुं सुक्कने साधवीओ आदर देती बोलाव  
तीओ अने हिवडातो सुक्कने साधवीओ आदर करती नथी जाणती नथी ओलखती नथी तेकारण थकी निच्च मम सुक्कने कालिखुरिज  
उग्यापक्की गोपालिकाना पासाथकी अलगी नी कलिनी सरीने जूदो अलगो उपाअप्रते अंगीकार करीने विचरवाभणी प्रवर्त्ततुं तो वारुं इ  
मकहीने इमविचारि चिंतवे चिंतवीने पक्के कालिखुरिज उग्यापक्के गोपालिकाना साधवीना समीप थकी अलगी नी सरीने ते सु

एकंतिष्ठथक् अणां हृदियन्ति अविद्यमानोपपद्यकोयहृच्छया प्रवर्तमानायाहसपादादिना निवर्तकोयस्याः सातथा तथानास्त्रिनिवा

हरित्तएत्तिकट्टु, एवंसंपेहेइत्ताकल्लं पाउभूयागोवालियाणं अज्जाणं अंतियाओपडिणिव्वमइत्ता  
 पाडिएकंउवसयंउवसंपज्जित्ताणंविहरइतएणंसासुकुमालिया अज्जाअणाहृदियाअणिवारियासच्चं  
 दमईअभिकल्लणं हत्थेधोविइजावचेएइ तत्थवियणंपासत्या पासत्यविहारिणी ओसस्साओसस्सवि

कुमालिकासाधवी जूदीअलग्गीउपासराप्रते' मांगीलेईअंगीकारकरिने'विचरेछे तेसुकुमालिकासाधवीअणोहृदियाक० नथीविद्यमा  
 नउपघट्टवुं हाकवुं'जेहने'एतले पोतानीइच्छाप्रवर्ततीने' हाथेआलीकरीने' निवर्त्तीविवुं वर्जवुं'नथीजेसुकुमालिकाने'तथानहीछेनि  
 वारकवर्जणहारइमतुं'मकरि एहवुं'निषेधवुं'जेसुकुमालिकाने' एकारणथकीपोताने'छंदअभिप्राये' करी मतिवुद्धिजेहने'एतले'पो  
 तानीवुद्धिं'करीचालतीछतीवारंवारइ हाथधीवेप्रमुखसगलुं'करे धरतीछांटिकाउसगकरे वेसेसूईसच्चाइकरेछे तिवारिविसेषथकी  
 तेसुकुमालिकासाधवी तिहांनिचे'पणेपासथाक० एकपासे अलगं'ज्ञानदर्शनचारित्तवाहिर अलगारह्यां'जेसाधवीथकी तेपासत्या

हारिणीकुसीलाकुसीलविहारिणी संसत्तासंसत्तविहारिणीवज्जुणीवासिणिसामस्यपरिथागंप्राडणि  
 ताअद्भुतसियाएसंलेहणाए तस्सङ्काणस्सअणालोइयपडिक्कंतोकालमासेकालंकिच्चा ईसाणेकप्येअ  
 स्यरंसिस्विसाणेसिदेवगणियत्ताएउववस्यतत्थेगतिथाणं देवीरणवपलिओवसाइं ठिईपसत्तातत्थ

कहियेतेपासत्थानोजे विहारअणादिवसतांई एकथानकने विषेरहिबुंतेपासत्थाविहारकहियेते पासत्थानोविहारए साध्वीनेते  
 पासत्थविहारणीकहियेरूंडीक्रियाछाडीक्रिया अनुष्ठानने विषेआलसू थईपडिकमणोसज्जायपडिलेहणपूंजवाप्रमार्जवाने विषे  
 आलसूथइविचरेछेकुसीलभूंडुं शीलआचारछेजेसाधवीनोकालविनयादिभेदभिन्नज्ञानदर्शनचारितना आचारनीविराधकथइथ  
 कीविचरेछेसंसत्ताकिवारिक संवेगीनागुणनासंबधयकी किवारिकपासत्थादिकनादोषना संबधयकीचहद्विगार वरसगारवसाता  
 गारवत्तिणिगारवनाउपजवाथकी एहवीसंसत्तीथईछती विचरेछे घणीवरसतांई चारिलनापर्यायप्रतेपा लेपालीने अर्द्धमा  
 सुनीपनरदिवसनीसं लेखणाकरीतेनीयाणा प्रसुखसगलाथानकठामने अणआलोईअणपडिक्कमीअनाचारयकी अणनिवत्ती  
 छतीकालकरिवानामासनेविषे कालप्रतेकरीने ईशाननामाकल्पदेवलोकनेविषेअनेरागमे तिहांविमानने विषदेवतानीग



गं सुकुमालिया ए देवी एणवपलिओवमाई ठिई प्रस्तते रं कालिणं तं स म एणं इ ह्वेव जंबू द्वी वे र्भार ह्वे वा से  
 पंचालिसुजणवएसु कां पिल्लपुरेणामं ण थरे होत्था वसुओ तत्थणं दुवएणा मं राया होत्था वसुओ तत्थणं च  
 लणीणामं देवी होत्था सुकमालाजवसुह्वा तत्थणं दुवयस्सरखो पुत्ते चुलणी ए देवी ए अत्त ए धट्टुं ण  
 मं कुमारे जुवराया होत्था तएणं सा सुकुमालिया देवी ताओ देवलो गाओ आउक्खएणं भवक्खए णं ठिइ

णिका पणे एतले अ परिग्रही देवी पणे जपनी तिहा केतली एक देवीयांनी नवपल्योपमनी आउखानी थितिक ही छेतिहा सुकुमालिका दे  
 वी नोपणि नवपल्योपमनी आउखानी थितिक ही छेते कालते समयने विषे एहि जजंबू द्वीपनामा द्वीपने विषे भरतक्षेत्रने विषे पंचालनामा  
 जनपददेशने विषे कांपिल्यपुरनामानगरं हंतो वर्ष कउवा ईथी जाणवो तिहां कांपिल्यपुरनगरने विषे द्रुपदनामाराजा हंतो तेहनो वणे  
 कउवा ईथी जाणवो तेद्रुपदनामाराजाने दुलणीनामा देवी राणी ह्ंती तेके हवी सुकुमालसुं हाली हाथ पगछे जे राणीनाता लगीजां सु  
 रूपरूपवती वणु रूडी छे तेद्रुपदराजानो पुलछे चुलणी राणीनो आमजअंगजा ति छे छथाजुं ननामा कुमार शुवराजा हंतो तिवार पच्छी तिसु

क्वरणं अणंतरं चयं च इत्ता इ हेवजं वृद्धो विरे भार हेवासेपंचाल एतु जणवएसुकं पिह्लपुरेणथरे दुवदस्स  
 रसो चुलणी ए देवी ए कुच्छं सिदारियत्ता ए प्रवाया तएणं सा चुलणी देवी एणवशहं साराणं व ऊ पडि पुसा  
 णं अहु इरुणराइ दियाणं व इक्कं ताणं सुकुमालप रि प्राटं अहीण पडि पुसा पंचि दिदसरी रं दारियं पदा  
 यातएणं ती सिदारिया ए सिव्वत्ते वार सा हि ए दिवसे इरुं ए या रू वं णारं जम्हाणं ए सा दारिया दु पदस्सर

कुमालिका देवीति ईशान देवलो कयकी आउखाने चये करी देवता संबधी भवने चये करी देवता माहिर हिवानी थितने चये करी  
 आतरारहित चय चवन करीने अथवा चय शरीर प्रते छाडीने आहि जजं इहीपना माहीपने विषे भरत जेवने विषे पंचालना माजनपद  
 देयने विषे कापिल्यपुरनगरने विषे इपदराजानी स्त्री चुलखीना माराणीनी कूखिने विषे पुत्रीपणं जपनी तिवार पच्छीते चुलणी राणी  
 नवमासवज्ज प्रतिपूणं पूरा जपरि साढासात दिवस एतले नवमास पूरा जपरि साढासातरा त्रिदिवस थतिकसे गये क्कते सुकुमालखं  
 हाला हाथपगक्के जेहना अहीणा हींणा जं णानवी प्रतिपूणं पूरा क्के पाचइं द्वियसहित शरीर जेहना एहवी पुत्री प्रते प्रसवी जणी तिवारि

गोधूयाचुलणीएदेवीएअत्तया तंहोजुणं अमहं इमीसेदारियाएणामधेज्जं दोवई तएणं तीसेअम्मा  
 पियरोइमं एयारूवं गोणं गुणणिप्पसुं णामधिज्जं करिंतिदोवइ तएणं सादोवईदारिया पंचधाईप  
 रिगहियांतजहा खौरधाइए१ अंकधाइए२ मंडणधाइए३ कीलावणधाइए४ मज्जणधाइए५ धुगिरिकं  
 दरमल्लीणाइवचंपगलयाणिवायाणिव्वाथायंसि सुहंसुहेणं परिवड्डइ तएणं सादोवइ रायवरकणाउ

तेवालिकापुत्रीनें जन्मपांसीनें निवर्त्यो वारमोदिवसएतले वारमोदिवसनिवर्त्येच्छते इमएह्वुं नामथापे जेकारणथकीएवालिकापुत्री  
 द्रुपदराजानीवेटीचूलणीराणीनी आलजअंगजातपुत्रीछे तेकारणथकीहोअह्वारिएपुत्रीनो नामधेयद्रौपदीनामतेपुत्रीनुनाममाता  
 पिताएएह्वुं गौणआदरगौरवथकीआब्धुं गुणथकीनीपनु एह्वोनामधेयकरे द्रौपदीनामथायोतिवारितेद्रौपदीवालिका पंचधायिंप  
 रिग्रहीच्छतीतेतामजिमअनुक्रमेकहेछे दूधनीधवरावणहारीधाई१ खोलाजपरिवेसावणहारीधाई२ मंडनअलंकारनीकरावणहारी  
 धाविइक्रीडाविनोदखेलनीकरावणहारीधायि४ मज्जनस्नानकरावणहारीधाविएह्वीपांचे धाविएकरी गिरिपर्वतनीकंदरागुफाने



अंकेणिवेसेद्देवद्देरायवरकक्षाए रूवेणयजोव्वणेणय लावसे रूदजायविग्हाए देवद्देरायवरकक्षं  
 एवंवयासीजस्वणं अहंतुमं पुत्तारायस्ववानुवरायस्ववा भारियत्ताएसयमेवदलद्दस्वामि तत्थयं तुमंसु  
 हियावाडुहियावाभवेज्जासि तएणंमंजावज्जौवाए हिययदाहेभविस्सद्दतस्सं अहंपुत्ताअज्जयाद्दसयं  
 वरंरयामिअज्जोपाएणं तुमंदिस्ससयंवरा जस्सं तुमंसुयमेवरायंवा जुवरायंवावरेहिहिसिसेणंतवभत्तारे

लावण्यनेगुणेकरी उपनोअचरिजअचरिजपास्योच्छतो द्रौपदीनामाराजवरकन्याप्रते इंसकहतोह्मओजेहने ऊं तुभप्रते हेपुवीराजा  
 नेंवाअथवायुवराजाने भायांपणेस्त्रीपणेपोतेजदेसुं तिहांतुं सु खिणीसोहिलीवाअथवा दुःखिणीदोहिलीयाएसि तिवारिसुभने  
 जावजीवतांद्दहीयामाहि दाहहोस्येथास्येतेकारणथकीऊं हेपुवी अद्ययाद्दक०आजनादिवसथकी प्रारंभीस्वयंवरप्रतरचुक्कं मांडुक्कं  
 आजथकीप्रारंभीतुं दिधीस्वयंवरपोतानीमेलेद्द जेहने तुं वरेपरणे 'जेकारणथकीतुं' हेपुवीस्वयमेवपोते घोतानीमेलिराजाप्रते  
 युवराजाप्रते वरसिपरणेसि तेताहारोभर्त्तारहोस्ये इंसकहीने तेहवीद्द' इष्टवाएहीकर्मनीयसनोरम तांलगीजांएहवीवांणीद्द' करी

अविस्वद्वृत्तिकदृ, ताहिंद्रडाहिंकंताहिं जावआसासेद्रपडिविसज्जेइतएणंसेदुवएरायाट, यंरुहाविइइरत्ता  
 एवंवयासौगच्छं तुभं देवाणुष्मिद्या वारवइंणयरिंतत्यणंतुमंकरहं वासुदेवंससुहृविजचपामे, कखं दे  
 सदरारिवलेदेवपामोकखं पंचमहावीरे उब्गसेणपामोकखे सोलसरायरुहस्से पळ्णपामे, कखाओओ  
 इडाओकुमारकोडीओ संवपारोकखाओसिडिं दुहंतसाहस्सीओ वीरसेणपामोकख; ओ एङ्गवौसवी  
 रपुरिससाहस्सीओ सहसेणपामोकखाओछप्रणं वलवगसाहस्सीओ अस्से यवहवेराइसरतलवरमा

आसाखनादीयेदेइने प्रतिविसर्जेओकले तिवारपच्छीतेद्रुपदराजाद्रुतप्रते' तेडावितेडावीने' इमकहतोऊओजांतु' हे देवानुप्रियहेद्रुत  
 द्वारिकानगरीप्रते' तिहाजईतुं क्षणवासुदेवप्रते' समुद्रविजयप्रमुखआदिदेई' दसदसारदशथार्ईवलंतत्रलिष्टके बलदेवप्रमुखआदि  
 देईपांचमहावीरसुभटतेप्रते' उग्रसेनराजाआदिदेई' सोलसहस्वराजानासहस्वसोलहजारराजानप्रते' प्रद्य न्नकुमारआदिदेईअद्दुठ  
 साढीतीनकुमरनीकोडिएतलेसाढीतीनकोडिकुमराप्रते' संवकुमरप्रमुखआदिदेइसाठि दुर्दांतकुमरांप्रते' वीरसेनप्रमुखआदिदेई